

सिरि भगवंतं भूदबलि भडारय पणीवो

महाबंधो

[महाधवल सिद्धान्त-शास्त्र]

पढनो पयडिबंथाहियारो

[प्रथम प्रकृतिबन्धाधिकार]

पुस्तक १



भारतीय ज्ञानपीठ

सिरि भगवंत भूदबलि भडारय पणीदो

महाबंधो

[महाधवल सिद्धान्त-शास्त्र]

पढमो पयडिबन्धाहियारो


[प्रथम प्रकृतिबन्धाधिकार]

महत्त्वपूर्ण प्रस्तावना एवं हिन्दी अनुवाद सहित

पुस्तक १

सम्पादन-अनुवाद

पं. सुमेरुचन्द्र दिवाकर



भारतीय ज्ञानपीठ

तृतीय संस्करण : १९९८ □ मूल्य : १४०.०० रुपये

भारतीय ज्ञानपीठ

(स्थापना : फाल्गुन कृष्ण ६, वीर नि. सं. २४७०, विक्रम सं. २०००, १८ फरवरी, १९४४)

स्व० पुण्यश्लोका माता मूर्तिदेवी की पवित्र स्मृति में

स्व० साहू शान्तिप्रसाद जैन द्वारा संस्थापित

एवं

उनकी धर्मपत्नी स्व० श्रीमती रमा जैन द्वारा संपोषित

मूर्तिदेवी जैन ग्रन्थमाला

इस ग्रन्थमाला के अन्तर्गत प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, हिन्दी, कन्नड़, तमिल आदि प्राचीन भाषाओं में उपलब्ध आगमिक, दार्शनिक, पौराणिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक आदि विविध-विषयक जैन-साहित्य का अनुसन्धानपूर्ण सम्पादन तथा उनका मूल और यथासम्भव अनुवाद आदि के साथ प्रकाशन हो रहा है। जैन-भण्डारों की सूचियाँ, शिलालेख-संग्रह, कला एवं स्थापत्य पर विशिष्ट विद्वानों के अध्ययन-ग्रन्थ और लोकहितकारी जैन-साहित्य ग्रन्थ भी इसी ग्रन्थमाला में प्रकाशित हो रहे हैं।

•

ग्रन्थमाला सम्पादक (प्रथम संस्करण)

डॉ. हीरालाल जैन एवं डॉ. आ. ने. उपाध्ये

प्रकाशक

भारतीय ज्ञानपीठ

१८, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नयी दिल्ली-११० ००३

मुद्रक : विकास ऑफसेट, दिल्ली-११० ०३२

भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा सर्वाधिकार सुरक्षित

MAHĀBANDHO


[First Part : Prakṛti Bandhādhikāra]

of

Bhagvān Bhutabali

Vol. I

Edited and Translated by
Pt. Sumeruchandra Diwakar



BHARATIYA JNANPITH

Third Edition : 1998 □ Price : Rs. 140.00

BHARATIYA JNANPITH

Founded on Phalguna Krishna 9, Vira N. Sam. 2470 • Vikrama Sam. 2000 • 18th Feb. 1944

MOORTIDEVI JAIN GRANTHAMALA

Founded by

Late Sahu Shanti Prasad Jain

In memory of his late Mother Smt. Moortidevi
and

promoted by his benevolent wife
late Smt. Rama Jain

In this Granthamala Critically edited Jain agamic, philosophical,
puranic, literary, historical and other original texts
available in Prakrit, Sanskrit, Apabhramsha, Hindi,
Kannada, Tamil etc., are being published
in the respective languages with their
translations in modern languages.

Also

being published are
catalogues of Jain bhandaras, inscriptions, studies,
art and architecture by competent scholars,
and also popular Jain literature.

•

General Editors (First Edition)

Dr. Hiralal Jain & Dr. A.N. Upadhye

Published by

Bharatiya Jnanpith

18, Institutional Area, Lodi Road, New Delhi-110003

Printed at : Vikas Offset, Delhi-110032

All Rights Reserved by Bharatiya Jnanpith

समर्पण

जिन्होंने समीचीन श्रद्धा, आत्म-विज्ञान और दुर्धर सकल संयम से समलंकृत हो, विषयासक्त विश्व को अपने विमल जीवन द्वारा आदर्श दिगम्बर श्रमण-चर्या का दर्शन कराया;

जिन्होंने अपने आत्मतेज और प्रशस्त अध्यवसाय द्वारा भव्यात्माओं के अन्तःकरण में रत्नत्रय की दिव्य ज्योति प्रदीप्त करते हुए उन्हें श्रेयोमार्ग में संलग्न कराया;

जिन्होंने परमपूज्य महाबन्धादि आगम ग्रन्थों के संरक्षण हेतु उन्हें ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण कराया, जिनवाणी की चिरस्मरणीय सेवा की तथा जनसाधारण में सम्यग्ज्ञान के प्रसार हेतु उपयोगी ग्रन्थों को मुद्रित करवाकर अमूल्य वितरण कराया;

जिन्होंने अपने नेत्रों की ज्योति मन्द होने पर अहिंसा पहाव्रत के रक्षणार्थ वैयावृत्य रहित इंगिनीमरण रूप उच्च सल्लेखना को धारण कर इस दुष्काल में ३६ दिवस पर्यन्त आहार त्यागकर परम शान्तिपूर्वक आदर्श समाधिमरण किया;

जिनकी उच्च तपःसाधना तथा अपूर्व आत्मतेज से शरीर पर लिपटनेवाले भीषण सर्पराज भी बाधाकारी न हुए तथा व्याघ्र आदि क्रूर वन्य पशु जिनके पार्श्व में आकर प्रशान्त बने;

उन भयविमुक्त, आध्यात्मिक चूडामणि, चारित्र-चक्रवर्ती, साधुरत्न, १०८ आचार्य श्री शान्तिसागर महाराज की पावन स्मृति में—

—सुमेरुचन्द्र दिवाकर

GENERAL EDITOTIAL (Third Edition)

Mahābandha is the sixth khaṇḍa (section) of the great Siddhānta work *Ṣaṭkhaṇḍāgama* of Ācārya Bhūtabali. It is also known as *Mahādhavalā*. The subject-matter of this work is of a highly technical nature which could be interesting only to those who are adepts in Jain Philosophy and who desire to probe into the karma theory. The entire work is published in seven volumes. Mahābandha is an integral part of *Ṣaṭkhaṇḍāgama*. *Ṣaṭkhaṇḍāgama*, was reduced to writing, just at the time when the whole Jain canon was on the point of being forgotten. In this connection it may be noted that according to the Digambara tradition all the twelve Aṅgas have been lost except these portions of the last of them i.e. *Diṭṭhivāya* and a bit of the fifth Aṅga. According to the Śvetāmbaras, on the other hand, the first eleven are preserved though in a mutilated form, while the *Diṭṭhivāya* is totally lost. The last and 12th Aṅga of Jain canon is available in the form of *Ṣaṭkhaṇḍāgama* only. The age of *Ṣaṭkhaṇḍāgama* is about 614 years after the Nirvāṇa of Tirthankara Mahāvira, i.e., A.D. 73-106 A.D. and it is accepted by all. The exact time of Bhutabali said to be about 87 A.D. and it is also confirmed that he was a Digambara Ācārya.

Mahābandha is the composite work of the special features of *Karman* philosophy, and it was composed in forty thousand sutras in Prakrit prose. The prakrit of the sutras, is Saurseni with special features.

The literal meaning of 'Karma' is 'action'. In its widest sense, the word is used for (i) floating wave of *Jiva* or soul, (ii) the bhava of affective consciousness with influx of matter into the soul and (iii) that affective consciousness generated by *Karman* molecules due to Sanskāras. In fact, the activities of mind and matter constituted a superradio, with the quintillions of living cells sending out their individual waves to be tuned in quadrillions of receiving sets in the brain closely. It is regarded as a subtle form of matter which is drawn in towards the soul as a result of our desires, passions and other thought activities. It is a well-known fact that the whole cosmic evolution is due to the interaction between soul and matter. The bondage of *Jiva* and *Karman* has been classified into *Prakṛiti* (Nature of Species of *Karman*), *Sthiti* (duration of *Karman*), *Anubhāga* (fruition of *Karman*) and *Pradeśabandha* (quantity of space-points of *Karman*). The first volume of the work, the *prakṛitibandha* deals with the nature of the Karmic bondage. As it is in the nature of opium to bring intoxication so *karman* has its own nature. While explaining the nature of *Karmas*, the author has cited the instance of meals, transforming into blood flesh, bone, muscle, marrow etc., in accordance with the digestive power, similarly the *Karmas* assume innumerable forms in conformity with the psychic experience of the *Jiva*. The first chapter of the *prakṛitibandha* narrates the *sarvabandha*, no *sarvabandha*, *utkṛitibandha*, *anukṛitibandha* etc. *Adhikāras*.

It is a matter of great pleasure that after a long time first part of *Mahābandha*

is coming forth neatly and well presented. According to the wishes of the former respected editors a few pages have been added to introduce the summary of this volume properly. I hope and trust it will be useful for readers to understand the subject-matter of this great work.

I take this opportunity to offer my humble thanks to Sahu Ashok Kumar Jain and Sahu Ramesh Chandra Jain who are carrying on the noble work originated by Late Sahu Shanti Prasad Jain and Smt. Ramarani Jain.

Devendra Kumar Shastri

Editor

Moortidevi Jain Granthamala

प्रकाशकीय (प्रथम संस्करण)

प्राचीन जैन ग्रन्थों की शोध-खोज, सम्पादन-प्रकाशन तथा आधुनिक लोकोपयोगी, धार्मिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक, सुरुचिपूर्ण भव्य साहित्य के निर्माण और प्रकाशन की भावनाओं से प्रेरित होकर सेठ शान्तिप्रसादजी और उनकी सहधर्मचारिणी श्रीमती रमारानीजी ने फाल्गुन कृष्ण ६, वि. सं. २०००, शुक्रवार, १८ फरवरी, १९४४ को बनारस में भारतीय ज्ञानपीठ की स्थापना की।

उनकी धर्मनिष्ठ स्नेहमयी स्वर्गीया माता मूर्तिदेवी की अभिलाषा जैन सिद्धान्त ग्रन्थों—विशेषकर जयधवल, 'महाधवल' के उद्धार की थी। अतः उनकी अभिलाषा की पूर्तिस्वरूप उनकी पवित्र स्मृति में ज्ञानपीठ से एक मूर्तिदेवी जैन ग्रन्थमाला प्रकाशित की जा रही है।

ज्ञानपीठ की स्थापना को ३-४ मास ही हुये थे कि श्री पं. सुमेरुचन्द्रजी दिवाकर ने स्वसम्पादित प्रस्तुत ग्रन्थराज प्रथम खण्ड को ज्ञानपीठ से प्रकाशित करने की अभिलाषा प्रकट की। मालाजी की अभिलाषा पूर्तिस्वरूप जयधवल का प्रकाशन जैन संघ के तत्त्वावधान में प्रारम्भ हो चुका था। अतः 'महाधवल' को ज्ञानपीठ से प्रकाशित करना तुरन्त निश्चय कर लिया गया और वीरशासन जयन्ती की शुभ वेला में प्रेस में दे दिया। परम सन्तोष की बात है कि ३ वर्ष पश्चात् श्रुतपंचमी के पुण्य दिवस पर उत्सुक और भक्तिविभोर जनता को उसके पूजन का अवसर मिल रहा है। हमारी अभिलाषा इसे शीघ्र से शीघ्र प्रकाशित करने की थी, पर प्रेस आदि की कठिनाइयों के कारण ऐसा नहीं हो सका।

दिवाकर जी ने अनेक विघ्न-बाधाओं को पार करके जिस साहस और अदम्य उत्साह से यह अलभ्य ग्रन्थ प्राप्त किया, उतनी ही लगन और परिश्रम से इसका सम्पादन किया है। ग्रन्थराज की उपलब्धि, अनुवाद और सम्पादनादि सब कुछ आत्मकल्याण की पवित्र भावना से किया है और इसी भाव से ज्ञानपीठ को प्रकाशन के लिए भेंट कर दिया है। जिनवाणी के उद्धार की दिवाकरजी की यह निस्पृह भावना और लगन अनुकरणीय और अभिनन्दनीय है।

हम उन धर्म-प्रेमी महाशयों का विशेषतः मूडबिंदी के पू. भट्टारकजी का स्मरण करके आत्म-विभोर हो उठते हैं, जिन्होंने घोर संकट काल में, जब कि शास्त्रों को जला-जलाकर स्नान के लिए पानी गरम किया जाता था, मन्दिर विध्वंस किये जाते थे; प्राणों से लगाकर इस ग्रन्थरत्न की रक्षा की और उपयुक्त समय आने पर उनके उत्तराधिकारियों ने भगवन्त भूतबलि की यह धरोहर समाज के कल्याणार्थ सौंप दी।

समाज उन सभी बन्धुओं का आभारी है जिन्होंने इस ग्रन्थराज की गोपनीय भण्डार से उपलब्धि और प्रतिलिपि कराने में एक क्षण के लिए भी सहयोग दिया है अथवा प्रयत्न किया है।

वे महानुभाव भी कम आदर के पात्र नहीं हैं जिन्होंने ग्रन्थ की प्राप्ति में विघ्न नहीं डाला, क्योंकि बने-बनाये शुभ कार्य तनिक-से विघ्न से छिन्न-भिन्न होते देखे गये हैं।

पं. परमानन्दजी साहित्याचार्य और पं. कुन्दनलालजी शास्त्री के हम विशेषतः आभारी हैं जिन्होंने उक्त ग्रन्थ के सम्पूर्ण आद्य अनुवाद में दिवाकर जी को नींव की ईंट की तरह सहयोग देकर इस ग्रन्थप्रासाद की जड़ जमायी।

ज्ञानपीठ के प्राकृत विभाग के सम्पादक ख्यातिप्राप्त डॉ. हीरालालजी ने इस ग्रन्थ का प्रास्ताविक लिखा है और संस्कृत विभाग के सम्पादक न्यायाचार्य पं. महेन्द्रकुमारजी की देख-रेख में मुद्रण और प्रकाशन हुआ है। समस्त पूरुष उन्होंने देखे हैं। दोनों ही विद्वान् ज्ञानपीठ के विशिष्ट अंग हैं, उन्हें धन्यवाद देने का हमें अधिकार नहीं है।

हम उन सभी बन्धुओं के आभारी हैं जिनकी कृपा या भावनाओं से यह ग्रन्थराज प्रकाश में आया और हमें भी घर बैठे दर्शनों और स्वाध्याय का पुण्य प्राप्त हुआ।

भार्गव प्रेस के मालिक पं. पृथ्वीनाथजी भार्गव भी धन्यवाद के पात्र हैं।

अयोध्याप्रसाद गोयलीय
मन्त्री

डालमियानगर,
५ मई, १९४७

प्रास्ताविकं किञ्चित्

(प्रथम संस्करण)

जब मैंने 'षट्खण्डागम' का सम्पादन प्रारम्भ किया था, तब मेरे मार्ग में अनेक विघ्न-बाधाएँ उपस्थित थीं। तो भी जब उक्त ग्रन्थ का प्रथम भाग सन् १९३६ में प्रकाशित हुआ और लोगों ने उसका आनन्द से स्वागत किया, तब मुझे यह आशा हो गयी कि कठिनाइयों के होते हुए भी यथासमय तीनों सिद्धान्त ग्रन्थ प्रकाश में लाये जा सकेंगे। फिर भी मुझे यह भरोसा नहीं था कि मेरी आशा इतने शीघ्र सफल हो सकेगी और साहित्यिक प्रवृत्तियों में संसार-युद्ध के कारण अधिकाधिक बाधाओं के उपस्थित होते हुए भी, जयधवल का प्रथम भाग सन् १९४४ में तथा 'महाबन्ध' का प्रथम भाग सन् १९४७ में ही प्रकाशित हो सकेगा। जैन समाज और उसके विद्वानों के इन सफल प्रयत्नों से भविष्य आशापूर्ण प्रतीत होता है।

मैं 'षट्खण्डागम' के प्रथम भाग की प्रस्तावना में बतला चुका हूँ कि धवल और जयधवल सिद्धान्तों की प्रतिलिपियाँ सन् १९२४ में ही मूडबिद्री के शास्त्रभण्डार से बाहर आ गयी थीं और उसके पश्चात् कुछ वर्षों में उनकी प्रतियाँ उत्तर भारत में उपलब्ध हो गयीं। किन्तु 'महाधवल' नाम से प्रसिद्ध सिद्धान्त ग्रन्थ फिर भी मूडबिद्री सिद्धान्त मन्दिर में ही सुरक्षित था। जब मैंने सन् १९३८-३९ में इन सिद्धान्त ग्रन्थों के अन्तर्गत विषयों को जानने का प्रयत्न प्रारम्भ किया, तब मुझे यह जानकर बड़ा विस्मय हुआ कि जो कुछ थोड़ा-बहुत वृत्तान्त 'महाधवल' की प्रति के विषय में प्राप्त हो सका था, उसके आधार पर उस प्रति में केवल वीरसेनाचार्यकृत 'सत्कर्म चूलिका' की एक पंजिका मात्र है और 'महाबन्ध' का वहाँ कुछ पता नहीं चलता। तब मैंने इस विषय पर अपनी आशंका और चिन्ता को प्रकट करते हुए कुछ लेख प्रकाशित किये और अधिकारियों से इस विषय की प्रेरणा भी की कि वे मूडबिद्री की ताड़पत्रीय प्रति का सावधानी से समीक्षण कराकर 'महाबन्ध' का पता लगाएँ। मुझे यह कहते हर्ष होता है कि मेरी वह प्रार्थना शीघ्र सफल हुई। मूडबिद्री के भट्टारकजी महाराज ने, पं. लोकनाथ शास्त्री व पं. नागराज शास्त्री से ताड़पत्रीय प्रति की जाँच करायी और मुझे सूचित किया कि उक्त पंजिका ताड़पत्र २७ पर समाप्त हो गयी है, एवं आगे के पत्रों पर 'महाबन्ध' की रचना है। देखिए, जैन सिद्धान्त भास्कर (भाग ७, जून १९४०, पृ. ८६-९८) में प्रकाशित मेरा लेख 'श्री 'महाधवल' में क्या है?' एवं 'षट्खण्डागम' भाग ३, १९४१ की भूमिका पृ. ६-१४ में समाविष्ट 'महाबन्ध' की खोज'।

इस अन्वेषण से उत्पन्न हुई रुचि बढ़ती गयी और शीघ्र ही, विशेषतः पं. सुमेरचन्द्रजी दिवाकर के सत्प्रयत्न से, दिसम्बर १९४२ तक 'महाबन्ध' की प्रतिलिपि भी तैयार हो गयी व उन्होंने प्रस्तुत प्रथम भाग का सम्पादन व अनुवाद कर डाला। उनके इस स्तुत्य कार्य के लिए मैं उन्हें बहुत धन्यवाद देता हूँ। पण्डितजी ने अपनी प्रस्तावना में जो सामग्री उपस्थित की है, उसके साथ 'षट्खण्डागम' के प्रकाशित ७ भागों में मेरे-द्वारा लिखी गयी भूमिकाओं को पढ़ लेने की मैं पाठकों से प्रेरणा करता हूँ। इससे इन सिद्धान्तों के इतिहास व विषय आदि का बहुत कुछ परिचय प्राप्त हो सकेगा। पण्डितजी की भूमिका के पृ. ३० पर णमोकार मन्त्र के जीवद्वान के आदि में अनिबद्ध मंगल होने के सम्बन्ध का वक्तव्य मुझे बिलकुल निराधार प्रतीत होता है, क्योंकि वह प्राचीन प्रतियों के उपलब्ध पाठ एवं आचार्य वीरसेन की टीका की युक्तियों के सर्वथा विरुद्ध है। इस सम्बन्ध में 'षट्खण्डागम', भाग २ की भूमिका के पृ. ३३ आदि पर मेरा 'णमोकार मन्त्र के आदि कर्ता' शीर्षक लेख देखें।

१. "इदं पुण जीवद्वानं णिबद्धमंगलं। यतो 'इमेसिं चोदसहं जीवसमासाणं' इदि एदस्स सुतस्सादीए णिबद्ध 'णमो अरिहंताणं' इच्चादि देवदाणमोक्कारदंसणादो।" —ध. टी., पृ. ४१

णिबद्ध का अर्थ स्वरचित है, जिसे दिवाकरजी ने स्वयं अपनी भूमिका में स्वीकार किया है।

यथा—“अर्थात् सूत्र के आदि में सूत्र रचयिता के द्वारा रचित देवता नमस्कार निबद्ध मंगल है।”

‘महाधवल’ सिद्धान्त नाम से प्रसिद्ध शास्त्र यथार्थतः ‘षट्खण्डागम’ का ही ‘महाबन्ध’ नामक छठा खण्ड है, जैसा कि मैं उसके प्रथम भाग की भूमिका में बतला चुका हूँ। वहीं मैं इस ग्रन्थ के कर्ताओं व समय आदि के सम्बन्ध का भी विचार कर चुका हूँ। तब से अभी तक कोई ऐसी नवीन सामग्री प्रकाश में नहीं आयी, जिसके कारण मुझे अपने उस मत में परिवर्तन करने की आवश्यकता प्रतीत हो।

यद्यपि ‘महाबन्ध’ ‘षट्खण्डागम’ का ही एक अंश है और उन्हीं भूतबलि आचार्य की रचना है जिन्होंने पूर्व पाँच खण्डों के बहुभाग की रचना की है, यहाँ तक कि उसका मंगलाचरण भी पृथक् न होकर चतुर्थ खण्ड वेदना के आदि में उपलब्ध मंगलाचरण से ही सम्बद्ध है, तथापि यह रचना एक स्वतन्त्र ग्रन्थ के रूप में उपलब्ध होती है। इसके मुख्यतः दो कारण हैं—एक तो यह ग्रन्थ पूर्व पाँचों भागों को मिलाकर भी उनसे बहुत अधिक विशाल है, और दूसरे उस पर धवलाकार वीरसेनाचार्य की टीका नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतनी सुविस्तृत रचना पर टीका लिखने की आवश्यकता ही नहीं समझी। इस ग्रन्थ का विषय बहुत ही शास्त्रीय है जिसमें केवल जैनदर्शन के उन्हीं मर्मज्ञों की रुचि हो सकती है जिन्हें कर्मसिद्धान्त सम्बन्धी सूक्ष्मतम व्यवस्थाओं की जिज्ञासा हो।

ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी जैन ग्रन्थमाला के प्राकृत विभाग के सम्पादक और नियामक के नाते मैं इस अवसर पर श्रीमान् साहु शान्तिप्रसादजी जैन का अभिनन्दन करता हूँ और उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भारतीय ज्ञानपीठ-जैसी संस्था स्थापित की व भारतीय संस्कृति की छिपी हुई निधियों का संसार को परिचय कराने के हेतु अपनी गातृश्री की स्मृति में यह मूर्तिदेवी जैन ग्रन्थमाला प्रारम्भ करायी। मुझे आशा और विश्वास है कि उनकी धर्मपत्नी तथा ज्ञानपीठ की संचालक समिति की अध्यक्ष श्रीमती रमारानीजी की रुचि तथा संस्था के संचालक न्यायाचार्य पं. महेन्द्रकुमारजी शास्त्री के परिश्रम, अभियोग और उत्साह से संस्था का कार्य उत्तरोत्तर गतिशील होगा। मेरी सब विद्वानों से प्रार्थना है कि वे संस्था के उद्देश्य की पूर्ति में सहयोग प्रदान करें।

मारिस कॉलेज,
नागपुर, १५-४-४७

हीरालाल जैन
ग्रन्थमाला सम्पादक

द्वितीय आवृत्ति का प्रधान-सम्पादकीय

हर्ष का विषय है कि उन्नीस वर्षों के पश्चात् 'महाबन्ध' के प्रथम भाग की द्वितीय आवृत्ति पाठकों के हाथ पहुँच रही है। संयोग की बात है कि इससे पूर्व सन् १९५८ में उधर 'षट्खण्डागम' के प्रथम पाँच खण्ड सोलह भागों में पूर्ण प्रकाशित हो गये और इधर छठा खण्ड भी सात भागों में पूर्ण प्रकाशित हो गया। 'महाबन्ध' की मूल प्रति के प्रारम्भ में २७ पत्रों में जो 'संतकम्म पंजिका' पायी गयी थी, उसका भी सम्पादन करके 'षट्खण्डागम' के १५वें भाग के परिशिष्ट रूप ११ पृष्ठों में प्रकाशन कर दिया गया है।

पाठक देखेंगे कि उक्त समस्त भागों में हमने प्रत्येक भाग के विषय का शास्त्रीय परिचय देने का व उसका वैशिष्ट्य बतलाने का प्रयत्न किया है। 'महाबन्ध' के अन्य भागों में भी यही किया गया है। तदनुसार प्रस्तुत भाग के सम्पादक से भी यही अपेक्षा की जाती थी कि वे इस भाग के विषय का शास्त्रीय परिचय प्रस्तुत करें और उन गूढ़ रहस्यों को सामने लाएँ जो इस महान् आगम की विशेषता हो। किन्तु उन्होंने वैसा न कर अपनी प्रस्तावना में ऐसी चर्चाएँ की हैं जिनका इस भाग से लेश मात्र भी सम्बन्ध नहीं है; जैसे गुरु-परम्परा व प्रशस्ति-परिचय व मंगल-चर्चा। यथार्थतः प्रस्तुत ग्रन्थ में कोई मंगलाचरण नहीं है। 'षट्खण्डागम' के प्रथम व तृतीय खण्डों के प्रारम्भ में मंगल आया है, वहाँ प्रस्तावनाओं में उन पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। इनके सम्बन्ध में अपनी धारणाओं व कल्पनाओं का नहीं, किन्तु धवलाकार वीरसेन स्वामी के अभिमत का विशेष महत्त्व है। उन्होंने णमोकार मन्त्र को निबद्ध मंगल और 'णमो जिणाणं' आदि को अनिबद्ध मंगल कहा है। इसी से फलित होनेवाली व्यवस्था पर विवेकपूर्वक ध्यान देना योग्य है। कर्मबन्ध मीमांसा पर विद्वान् सम्पादक ने ३५ से ८५ तक पचास पृष्ठ लिखे हैं। किन्तु वह सब सामान्य चर्चा है और प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रतिपादन का वहाँ लेशमात्र भी परिचय नहीं है। इसके लिए सम्पादक से बहुत आग्रह किया गया, किन्तु उन्होंने प्रस्तावना में कोई हेरफेर करना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने इस संस्करण के सम्बन्ध में यह तो कहा कि १७ वर्ष के शास्त्राभ्यास के फलस्वरूप अनेक बातें परिवर्तन तथा संशोधन योग्य लगीं तथा सहारनपुर निवासी नेमीचन्दजी व रत्नचन्दजी ने अनेक महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये। किन्तु यह बतलाने की कृपा नहीं की कि वे संशोधन कहाँ किस प्रकारण में कैसे किये गये हैं। दो-चार संशोधन भी बतला दिये जाते, तो उनसे पाठ-संशोधन सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ प्राप्त होतीं। अस्तु, हम विद्वान् सम्पादक के अनुगृहीत हैं कि उन्होंने ग्रन्थ का यह द्वितीय संस्करण प्रस्तुत किया। ग्रन्थमाला अधिकारियों को भी धन्यवाद है कि उन्होंने ग्रन्थ को द्वितीय बार भी सुन्दरता से प्रकाशित कराया।

जुबलपुर
२६-६-६६

हीरालाल जैन
आ. ने. उपाध्ये
प्रधान सम्पादक

FOREWORD

When I started editing the *Ṣaṭkhaṇḍāgama*, there were several difficulties in my way. Still, when the first volume was published in 1939 and was received with general applause, I became hopeful that, inspite of all the hindrances then existing, all the three *Siddhānta* works would be brought to light in due course. But I did not then expect that my hope will materialize so soon as to lead to the publication of *Jayadhavalā* Vol. I in 1944 and of *Mahābandha* Vol. I in 1947, inspite of the additional difficulties in the way of such literary efforts, created by the World War. These successful efforts of the Jaina community and its scholars augur well for the future.

I had already described in my introduction to Vol. I of *Ṣaṭkhaṇḍāgama*, how copies of *dhavalā* and *Jayadhavalā Siddhānta* had emerged from the Moodbidri temple as early as 1915 and how the same had become available in North India during the subsequent years. But the so-called *Mahādhavalā Siddhānta* was still confined to the private archives of the Moodbidri temple. When I examined critically the contents of these *Siddhānta* works in 1938-39, I was startled to find that the scanty information available about the manuscript of *Mahādhavalā* only showed the existence of a gloss (Pañjikā) on the supplementary portion (Cūlikā) of Virasena's commentary *Dhavalā*, and there was no trace of the *Mahābandha*. I, therefore, published a few articles on the subject expressing my anxiety in the matter and also urged upon the proper authorities the necessity of a thorough examination of the palm-leaf manuscript in search of *Mahābandha*. I am glad to say that my appeal met with a ready response. The Bhaṭṭārakaji got the palm-leaf manuscript examined by Pandit Lokanath Shastri and his colleagues, and reported to me that the gloss ended on leaf 27 and the rest of the MS. did contain the *Mahābandha* (see my article on "Śrī *Mahādhavalā* men kyā hai?" in *Jaina Siddhānta Bhāskara* Vol. VII, June 1940, pp. 86-98; and "*Mahābandha kī khoja*" in *Ṣaṭkhaṇḍāgama* Vol. III, 1941, Introduction, pp. 6-14.)

The interest aroused by this discovery was kept up, and a transcript of the *Mahābandha* was completed by the end of 1942, mainly through the efforts of Pandit Sumeruchandra Diwakar, the editor of this volume, to whom my best thanks are due for the laudable task he has done in obtaining, editing and translating the text, as well as in writing the introduction which the readers would be well advised to supplement by the information presented in my introductions to the seven volumes of *Ṣaṭkhaṇḍāgama* so far published, in order to get a clear idea of the history and subject-matter of these works. The remarks of Pandit Sumerchandraji on page 30 of his introduction regarding the *Pañca Namokāra Mantra* as '*anibaddha maṅgala*' in *Jīvatthāna* appear to me to be entirely baseless as they are against the reading available in the old MSS. and the arguments set forth by Virasenacharya which I have discussed in my introduction to Vol. II, p. 33 ff. under the heading '*Namokāra Mantra ke Ādikartā*.'

The *Mahābandha*, popularly known as *Mahādhavalā Siddhānta* forms the sixth section (*Khaṇḍā*) of the *Ṣaṭkhaṇḍāgama*, as I had already shown in my introduction to Vol. I of that work where I had also discussed all the evidence available on the point of authorship and the age of these works. No new material has since been brought to light and therefore my views on the subject remain unaltered.

Though *Mahābandha* is an integral part of the *Ṣaṭkhaṇḍāgama*, and is composed by the same author *Bhūtabali* who did not even provide it with a separate benediction (*Mangala*), but made it share the one given at the beginning of the fourth Khaṇḍa Vedana, yet it has come down to us in a separate manuscript for two reasons. Firstly, the composition is much larger in volume than even all the first five sections put together; and secondly, it contains no commentary by Virasena, the author of *Dhavalā*, who thought it unnecessary to comment upon a work which was so exhaustively self-sufficient. The subject-matter of the work is of a highly technical nature which could be interesting only to those adepts in Jaina philosophy who desire to probe the minutest details of the *Karma Siddhānta*.

As the General Editor of the Series, I take this opportunity to congratulate and offer my best thanks to Mr. Shantiprasad Jain for establishing the Bharatiya Jnanapitha at Banarés and starting this series of publications in memory of his mother Moortidevi, with the noble object of making known to the world the hidden treasures of ancient Indian culture. I hope and trust that with the keen interest of Mrs. Shantiprasad, Shrimati Rāma Rani, the President of the Managing Committee, and the industry, zeal and enthusiasm of Nyayacharya Pandit Mahendrakumar Shastri, the acting Director of the institution, the work started would continue to advance steadily towards the goal. I appeal to all scholars to cooperate with the institution in achieving its laudable object.

Morris College,
Nagpur.
15th March, 1947

Hiralal Jain
General Editor

द्वितीय संस्करण

यह परम आनन्द की बात है कि 'महाबन्ध' सदृश दुरूह और गम्भीर ग्रन्थ के प्रथम खण्ड का प्रथम संस्करण समाप्त हो जाने से उसके पुनः मुद्रण का मंगल प्रसंग प्राप्त हुआ। हमने 'महाबन्ध' का सूक्ष्मता से पुनः पर्यालोचन करके भूमिका, अनुवाद आदि में अत्यधिक आवश्यक तथा उपयोगी परिवर्तन और परिवर्धन किये हैं।

इस ग्रन्थ की कोई पूर्व में टीका नहीं थी, अतः १७ वर्ष के शास्त्राभ्यास के फलस्वरूप अनेक बातें परिवर्तन तथा संशोधन योग्य लगीं। सहारनपुर के श्रुतप्रेमी बन्धु श्री नेमीचन्दजी एडवोकेट तथा ब्र. रतनचन्दजी मुख्तार ने अनेक महत्त्वपूर्ण संशोधनों का सुझाव दिया। मूडबिंद्री जाकर पुनः प्रतिलिपि मिलाने के कार्य में हमारे अनुज अभिनन्दनकुमार दिवाकर, एम.ए., एल.एल.बी., एडवोकेट ने महत्त्वपूर्ण योग दिया था। हमारे भाई श्रेयांसकुमार दिवाकर, बी.एस.सी. से भी उपयोगी सहायता मिली। भाई शान्तिलाल दिवाकर के ज्येष्ठ चिरंजीव ऋषभकुमार ने लेखन कार्य में पर्याप्त श्रम उठाया है।

भारतीय ज्ञानपीठ ने इस ग्रन्थ के पुनः मुद्रण का भार उठाया। इन सबके प्रति हम अत्यन्त आभारी हैं। चारित्र्यचक्रवर्ती, क्षपकशिरोमणि, १०८ आचार्य शान्तिसागर महाराज की इच्छानुसार सम्पूर्ण 'महाबन्ध' की तात्प्रपत्रीय प्रति के लिए पूर्ण ग्रन्थ संशोधन, सम्पादन तथा मुद्रण का महान् कार्य करने का पवित्र सौभाग्य मिला था। उस कार्य के अनुभव से इस टीका के कार्य में विशेष लाभ पहुँचा। सन् १९५५ में उन ऋषिराज ने सिद्धक्षेत्र कुन्धलगिरि में ३६ दिन पर्यन्त सल्लेलखनापूर्वक आदर्श देहोत्सर्ग किया। अतः उनके पुण्यचरणों को कृतज्ञता पूर्वक स्मरण करते हुए प्रणामांजलि अर्पित करते हैं। ऋषीश्वर धरसेन आचार्य तथा पुष्पदन्त-भूतबलि मुनीन्द्रों के चरणों को शतशः वन्दन है, जिनके कारण इस द्वादशांग वाणी के अंगरूप आगम का संरक्षण हुआ। 'जयउ सुयदेवदा।'

दिवाकर सदन, सिवनी
३० दिसम्बर, १९६४

—सुमेरुचन्द्र दिवाकर

PREFACE

(First Edition)

Mahābandha and its importance

We have great pleasure in placing before the literary world the first volume of *Mahābandha* alias *Mahādhavalā* which was hitherto hidden in the *Śāstra Bhaṇḍār* of Moodbidri (South Kanara.) It is one of the three most reputed and revered Jain canonical works, whereof *Jayadhavalā* and *Dhavalā* have seen the light of the day and have reached the hands of scholars. Ordinarily this *Mahābandha* is supposed to be as remarkable as the said two *Śāstras* but as a matter of fact, this is worthy of greater attention, since it is the biggest *Prākṛta sūtra* work consisting of forty thousand *ślokas*, composed in the beginning of the Christian era.

This *Mahābandha* is the sixth part of the great *Sātkhaṇḍāgama sūtra*. The commentary on the five parts is called *Dhavalā*, composed by *Ācārya Virasen* in the 9th century A.D. during the reign of Jain monarch Amoghavarsha having 72000 *ślokas*. The original *sūtras* consist of 6000 *ślokas*, out of which only 177 *sūtras* had been written by *Puṣpadanta Ācārya* and the remaining portion was composed by *Śrī Bhūtabalī Ācāryā*. Thus the entire composition of *Bhūtabalī* comes to about 46000 *ślokas*.

The other sacred work *Jayadhavalā* is a commentary written in the 9th century A.D. by Virasen and *Bhāgwata Jinasen Ācārya* in 60000 *ślokas* on one of the most sacred scriptures, named *Kaśāya Pāhuḍa* of Guṇadhara *Ācārya*. This *Kaśāya Pāhuḍa* consists of only hundred and eighty *gāthās*, which also belong to the early part of the Christian era. Naturally therefore *Dhavalā* and *Jayadhavalā* commentaries cannot rank with *Mahābandha* from antiquarian stand-point.

This work deals with the *Bandha* category, which is one of the sevenfold *Tattoṅas* in Jainism, in the Jain *Saurasenī Prākṛta*. The language is simple and lucid. The entire work is in prose, with the exception of about one and a half dozen verses. About three thousand *ślokas* of the work are missing, since they have been eaten by worms and so they cannot be replaced by any amount of human effort.

Historical reference

The entire work has no historical reference; even the name of the author *Ācārya Bhūtabalī* does not appear in such a voluminous composition, probably reflecting the author's detachment for name, which according to poet Milton 'is the last infirmity of a noble mind.'

In the panegyric the name of the work appears as *Mahābandha*, 'which is a mine of metitorious *karmas*' (सत् पुण्याकर महाबन्धपुस्तक). This book has been referred to in the *Dhavalā* and *Jayadhavalā* on several occasions and its authorship is ascribed to *Bhūtabalī*. The *praśasti* of palm-leaf manuscript mentions that it was written through the munificence of *Rājā Śāntisena's* pious and benevolent queen *Mallikādevī* for the purpose of presentation to an erudite *Munirāj Māghanandī* who was the disciple of Meghachandra Suri in commemoration of the successful

completion of her Pañcamī-Vṛta. This throws light upon the fact that in ancient India the ladies of high families had refined taste and were attached to literature. It is through the generosity of *Mallikādevī* that we have at least one copy amid us written in the Kannad script. It is really a matter of profound regret that such important work has not been preserved in any other *Bhaṇḍāra*.

The *Dhavalā* sheds light upon the descent of this work and the historicity of Monks *Bhūtabali*, *Puṣpadanta* and their spiritual preceptor *Dharaṣeṇa Ācārya*. He was a great soul and an enlightened scholar well-versed in some portions of the Twelve-*Aṅgas*, which had been composed by the head of Jain hierarchy, *Gautama Gaṇadhar*, who had received direct Teaching from the Omniscient *Tīrthaṅkara Bhagavān Mahāvīra*. *Dharaṣeṇa* flourished after *Lohācārya*, who died 683 years after Mahavira's *Nirvāna* i. e., in 137 A.D. What is the exact date of *Dharaṣeṇa* is not definitely known, but it is surmised that he must have lived a couple of years after *Lohācārya*. It is just possible that he might have seen the demise of *Lohācārya*, who possessed the knowledge of entire *Ācharanga*. It appears, therefore, that *Dharaṣeṇa* should belong to the later half of the second century after Christ.

It transpires that *Dharaṣeṇa Ācārya* was proficient in the occult science of *Ashtanga Nimitta Śāstra*; as also in 'Mahā-Karma-Prakṛiti-Prābhṛita.' On one occasion his mind was diverted towards the sudden disappearance of canonical Teachings of Mahavira Bhagavāna and this fact grieved him a great deal. He made up his mind to preserve the Teaching, which was fresh in his memory. He imparted instructions to *Bhūtabali* and *Puṣpadanta*, who were sent to him by the religious head of the monks of the south on his requisition for sending disciples specially remarkable for their memory and retentive faculty. After the termination of studies, the disciples left the place in accordance with the wishes of their master. *Puṣpadanta* went to *Vanavās Desa* (modern Wandewash), composed 177 *sūtras* and sent them to *Bhūtabali* with his high-souled disciple *Jinapālita* to *Dramila Desa*. After going through the *sūtras* *Bhūtabali* could see into the mind of *Puṣpadanta*. *Jinapālita* communicated to him that his master was not expected to survive long, thereby suggesting to him that he should speed up the matter of compiling the teaching imparted to them by the preceptor, *Dharaṣeṇa Ācārya*.

Bhūtabali devoted himself to writing with single minded devotion and was successful in completing the whole of *Śatkhandaḡama sūtra*. Fortunately *Puṣpadanta* was alive then, therefore he sent the entire composition to his colleague *Puṣpadanta* with the self-same saint *Jinapālita*. *Puṣpadanta* was extremely delighted to see his heartfelt wishes fulfilled and he performed the worship of the scripture with due eclat and grandeur accompanied by the huge assemblage of Jains on *jyeṣṭha sudī* 5th day.

Date of the author

The date of the author is not mentioned, but it appears that it must be assigned to the early part of the first century A.D.

The Subject matter

The subject matter of this book, as already mentioned, is *Bandha*, (Bondage) which forms an essential part of the doctrine of *Karma*. Almost all the believers in transmigration attach importance to the philosophy of *Karmas*. The adage, 'as you

sow, so you reap,' is significant enough to show the universality and popularity of this doctrine, but the treatment of this subject is unique in Jain philosophy, in as much as it is scientific, rational and elaborate. No other system has explained this matter, as has been done by Jain thinkers and sages.

With a view to appreciate this doctrine it is necessary to comprehend the nature of the world. Our analysis brings out that there are sentient and non-sentient beings in this universe. The soul is possessed of consciousness, while other objects, devoid of this faculty, are matter, space, time, etc. The special characteristics of matter are taste, smell, touch and colour. All that is perceived by us is material. Like the soul, matter is also indestructible. They are eternal, therefore they are not created by any agency, whether super-natural or super-human. The whold panorama of nature is the outcome of the combination or the chemical action of atoms due to the property of smoothness and aridity. The variegated forms and appearances are evolved out of material atoms. But this has driven many a thinker to the conclusion that some Intelligent and Supreme Being is at the helm of affairs. He creates, destroys and recreates. The entire world dances attendance to His sweet wishes. He is Omnipotent, Omniscient and Enjoyer of transcendental bliss.

The Jain philosophers do not agree with the idea of a Supreme Being guiding the destinies of all things, since it does not stand to critical examination and logical interpretation. Impartial study and mature thought lead us to the conclusion that this world full of barbarities and inequalities cannot be the handiwork of a good, happy, Omnipotent and Omniscient God. The observations of the scientist Huxley deserve special attention in this respect:—

"In my opinion it is not the quantity, but the quality, of persons among whom the attributes of divinity are distributed, which is the serious matter. If the divine might is associated with no higher ethical attributes than those which obtained among ordinary men; if the divine intelligence is supposed to be so imperfect that it cannot foresee the consequences of its own contrivances; if the supernal powers can become furiously angry with the creatures of their omnipotence and in their senseless wrath destroy the innocent along with the guilty; or if they can show themselves to be as easily placated by presents and gross flattery as any oriental or occidental despot; if in short, they are only stronger than mortal men and no better, then surely, it is time for us to look somewhat closely into their credentials and to accept none but conclusive evidence of their existence." (Science & Hebrew Tradition, p. 258)

This world cannot be the creation of a benevolent and good God, for it presents a poor picture of the abundance of misery and calamity as the lot of the majority of its creatures, Edwin Arnold in his Light of Asia argues:—

"How can it be, that Brahma,
Would make a world, and keep it miserable,
Since, if all-powerful, he leaves it so,
He is no good, and if not powerful,
He is not God."

Due to these failings, the Jains believe in a God, who is Omniscient, who is passionless and who enjoys the bliss of perfection, and who does not bother about

the creation or destruction of the world. The manifold conditions of sentient beings are due to fruition of *Karmas* acquired by the *Jiva* in the past.

Bondage of karma

Some think that the soul is pure and perfect; therefore it is wrong to suppose it as the reaper of the harvest of its merits or demerits. This view goes against our experience and reason. The mundane soul is impure, since it is contaminated with matter assuming the form of good or bad *karmas*. We see that the *Jiva* has been imprisoned in this body, which is a store-house of the filthiest of objects. The pure, perfect and powerful soul would never have liked to reside in such an impure tabernacle even for a moment. We, therefore, infer that the *jīva* is under forced servility of something, which is instrumental for such an awkward position of the soul. The main source of this downfall is the matter having assumed the form of a *Karma*.

This *Karma* is material since its effects, auspicious or otherwise, are visible either on the physical body or they are exhibited by means of association or separation of material objects.

This soul, although immaterial, is recipient of good or evil effects of the *Karmas* which are material. This phenomenon should not bewilder any one, for we see that the intelligent being is subject to intoxication caused by drinking wine which is non-sentient. It is to be noted that the very liquor does not cause any intoxication to the bottle which contains it. Such is the nature of things.

The mundane soul has got vibrations through mind, body or speech. The molecules which assume the form of mind, body or speech, engender vibrations in the *Jiva*, whereby an infinite number of subtle atoms is attracted and assimilated by the *Jiva*. This assimilated group of atoms is termed as *Karma*. Its effect is visible in the multifarious conditions of the mundane soul. As a red-hot iron-ball, when dipped into water, assimilates its particles; or as a magnet draws iron filings towards itself due to magnetic force; in the like manner the soul, propelled by its psychic experiences of infatuation, anger, pride, deceit and avarice, attracts karmic molecules and becomes polluted by the *Karmas*. The psychic experience is the instrumental cause of this transformation of matter into a *Karma*; as the clouds are instrumental in the change of sun's rays into a rainbow.

When *Karmas* come in contact with the soul, fusion occurs, whereby a new condition springs up which is endowed with marvellous potentialities and is more powerful than infinite atom bombs. One can easily imagine the power of *Karmas*, which have covered infinite knowledge, infinite power, infinite bliss of the soul and have made a beggar of this very *Jiva*, who is no less than a Paramatman by its intrinsic nature. Psychic experiences of anger etc., cause the fusion of *Karmas* and these *Karmas* again produce feelings of attachment, aversion or anger etc., thus the chain of karmic bondage continues *ad infinitum*.

This karmas-soul-association is without a beginning. There has been no period when the fusion of *Karmas* took place in a pure soul. It is beyond comprehension that a perfect, pure, blissful, omniscient and powerful soul will ever enter into the folly of embracing the *Karmas* and thus dig its own grave by inviting innumerable and indescribable sufferings.

When the husk of paddy is removed from it, the rice loses its power of

sprouting; likewise when the husk of Karmic molecules is removed from the mundane soul, the resulting perfect *Jiva* cannot be imprisoned by the regermination of *Karmas*. The nature of a soul, entangled in the cob-web of transmigration, can be understood easily, when we divert our attention to the impure gold found in a mine. The association of filth with golden ore is without beginning, but when the foreign matter is burnt by fire and various chemicals, the resulting pure gold glitters; in the like manner the fire of right belief, right knowledge and right conduct destroys the karmic bondage in no time. If the fire of self-absorption is intense, the work of destruction can be achieved within a span of 48 minutes. This destruction does not mean complete annihilation of the atoms, but it denotes the dissociation of Karmic molecules from the soul.

While explaining the nature of *Karmas*, the Jain saints have cited the instance of meals, transforming into blood, flesh, bone, muscle, marrow etc., in accordance with the digestive power; similarly the *Karmas* assume innumerable forms in conformity with the psychic experiences of the *Jiva*. These Karmic molecules are superfine. They are not visible even with the aid of physical instruments. Even after the destruction of this physical gross body, the *Karmas* are not destroyed. The Karmic body and the electric body (*Taijas Sharira*) always control and regulate the activities of the *Jiva*. Had they left the *Jiva* for a moment, no power in the world could have recaptured the soul in the clutches of *Karmas* and debarred the Divine Being from enjoying transcendental bliss of liberation.*

*The doctrine of *karma* Philosophy has been dealt with at length in my book "Religion and Peace." The great Hindu recondite scholar Dr. Sir C.P. Ramaswami Aiyar had observed in his letter : "The Chapter on *Karma* Philosophy is entitled to special attention, as the term *Karma* has not the same meaning in Jain philosophy as in ordinary Parlance. Jain philosophers, as the author says, do not agree with the idea of a Supreme Being personally guiding the destinies of all things. *Karma* is in the nature of vibrations operating through mind, body or speech, by means of which atoms and molecules assume several aspects and forms. A group of atoms is termed *Karma*, whose effect is visible in exterior condition. This theory, in fact, embodies a marvellous pre-science of modern scientific developments. The whole chapter is intensely interesting and is an attempt at rational exposition of Karmic bonds, as they affect the soul's evolution.

"The final teaching that the *Jiva* with attachment gets bound by *Karma*, but the one with detachment remains free from *Karma*, is not different from the Vedantic approach, but the process of reasoning and the background of the doctrine are inherently *sui generis* and it is to the glory of the great Jain teachers that they were able to evolve a philosophy of conduct uninfluenced by any reliance upon supernatural intervention or guidance." (Religion And Peace, p. 318.)

"For it is impossible that he who has once been made perfect by love and feasts eternally and insatiably on the boundless joy of contemplation, should delight in small and grovelling things. For what rational cause remains any more to the man who has gained the 'light inaccessible' for reverting to the good things of the world?" (Clement) A.N.C.L. Vol. XII, pp. 346-347).

Varieties of Bandha

The bondage of *Jiva* and *karma* has been classified into 'Prakṛti', 'Sthiti', 'Anubhāga' and 'Pradeśa' bandha. The first i. e., the *prakṛti bandha* deals with the nature of the Karmic bondage; e.g. the nature of opium is intoxication. Similarly the '*Jñānāvaraṇīya*' Karma obstructs the knowledge; the '*Darśanāvaraṇīya*' obstructs *darsana* (form of consciousness, which precedes knowledge); '*Vedanīya*' enables the soul to have sensations of pleasure or pain through senses; '*Mohanīya*', the ring-leader of the *Karmas*, causes delusion and perverse vision of the self and non-self; '*Āyuh*' determines the length of life in a particular body; '*Nāma*' is responsible for physical form, complexion, constitution etc. '*Gotra*' decides the birth in high or low family and the last one, '*Antarāya*', acts as an impediment in the acquisition and enjoyment of things, possession of strength etc. These eightfold *Karmas* are further sub-divided into 148 varieties. The present volume deals with this *prakṛti bandha* from several stand-points. The second one i.e., '*sthiti bandha*' determines duration of the bondage; the third, '*anubhāga bandha*' deals with the potentiality of various *karmas*; the fourth, '*pradeśa bandha*' causes the division of karmic molecules into several varieties in accordance with the vibrations of the soul.

The modern worldly-wise man perhaps may think that this work has no bearing upon life and it is a mere display of intellectual exercises.

An aspirant for liberation will immediately differ from this viewpoint. In *Mahābandha* he will find wonderful remedy for warding off the feelings of attachment or aversion and thereby uplift the soul to the sphere of equanimous contemplation, which ultimately leads to the final beatitude. One who devotes himself to the study of this work is so deeply engrossed therein, that he forgets for a while the world of attachment and aversion. His Holiness the Digamber Jain Ācārya Cāritra Cakravartī Śrī Śāntisāgar Mahārāj had once remarked, "This Shastra must be thoroughly studied by those who are tired of transmigration and who long for liberation. Proper knowledge of Bandha-Tattva is essential before proceeding towards the ultimate goal of purity and perfection."

In the end, we deem it our duty to express our sincere gratefulness to Sri D. Manjajaiya Heggade, B. A., M.L.C., Dharmasthala, His Holiness Bhattarak Sriman Charukirti Panditacharya Swami, Moodbidri and the trustees of the Jain Siddhanta Temple, Moodbidri, (South Kanara) for the kind permission to take a copy from the original text preserved in the Siddhanta Mandir.

We are also thankful to Danvir Sri Shanti Prasad Jain, B. Sc., the founder of the Bhāratīya Jñāna-Pīṭha Kāshī, through whose munificence this volume is coming to the hands of the public.

Diwakar Sadan
Seoni. (M.P.)
6th January, 1947

—Sumeruchandra Diwakar

Preface to the Second Edition

It is a matter of profound gratification that this sacrosanct scripture, *Mahābandha*, is undergoing the second edition. When it was first printed in 1947, it was revealed that more than three thousand *ślokas* of the palm-leaf manuscript were irrevocably destroyed by moths. This information deeply pinched the soul of the greatest Digambar Jain Saint. His Holiness *Cāntra Cākravartī*—108 *Ācārya Śhanti Sāgar Mahārāj*, who was then spending his *Chāturmās*—period of rainy season—in the Jain Tirtha, Kunthalgiri (Maharashtra State). When the saint's mental worry and disturbed internal condition became known, the devoted disciples humbly prayed for conveying to them the internal difficulty. His Holiness observed. "Look here, precious part of the most ancient and sacred Jain literature is lost for ever. If immediate care is not taken for proper preservation of the remaining literary priceless treasure, we shall one day become paupers. I, therefore, feel it imperative that the entire *Siddhānta* literature comprising of one lakh and seventy thousand *ślokas* should be inscribed in copper plates so that it may last for hundreds of years."

The master's bidding was immediately obeyed and about two lakhs of rupees were contributed by the generous, opulent and cultured disciples to fulfil the sublime desire of the saint.

Fortunately, the sacred responsibility of critically editing and printing the entire *Mahābandha* comprising of forty thousand *ślokas* was entrusted to me.

In view of my onerous responsibility and arduous duty, I had been to the Jain monastery at Moodbidri (South Kanara) with a view to critically examine and collate the press copy with the palm-leaf manuscript of the *Shāstra Bhandar* with my younger brother Abhinandan Kumar Diwakar, M.A., LL., B., Advocate, Seoni. This effort was very fruitful since several inaccuracies could be detected then. Thus the work was accomplished in such a way that His Holiness was much pleased and he bestowed his valuable blessings on me. I had made a deep study of several Jain canonical compositions of master thinkers and literary luminaries, This study equipped me with such new and novel material as necessitated to thoroughly revise the first edition and make necessary additions and alterations in order that the wisdom-lovers may be profited thereby. I, therefore, have improved this second edition with several new explanatory notes appended to the translation and have equipped the Hindi introduction with many a new points of information.

All this is due to the great benevolent saint His Holiness *Ācārya Śāntisāgar Mahārāj* who was graciously pleased to provide me the sublime opportunity to serve the cause of learning and thus purify and elevate my humble self. Since the said great *Ācārya* left his mortal coil after a fast lasting for 36 days in 1955 by way of superb *Sallekhanā*—Ideal and pious death—because his eyesight grew dimmer and thus he could not faithfully follow the *Ahimsā Mahāvratā*—complete vow of non-injury. I have, therefore, dedicated this volume to the sacred memory of the immortal saint.

Diwakar Sadan
Seoni
26th January, 1965

S.C. Diwakar

प्राक्कथन

जैन वाङ्मय में धवल, जयधवल, महाधवल (महाबन्ध) इन सिद्धान्त ग्रन्थों का अत्यधिक सम्मान और श्रद्धापूर्वक नाम स्मरण किया जाता है। ये परम पूज्य शास्त्र मूडबिद्री, दक्षिण कर्णाटक के सिद्धान्त मन्दिर के शास्त्रभण्डार को समलंकृत करते हैं। इन ग्रन्थरत्नों के प्रभाववश सम्पूर्ण भारत के जैन बन्धु मूडबिद्री को विशेष पूज्य तीर्थस्थल सदृश समझ वहाँ की वन्दना को अपना विशिष्ट सौभाग्य मानते हैं, और वहाँ जाकर इन शास्त्रों के दर्शनमात्र से अपने को कृतार्थ मानते हैं। भगवद्भक्त जिस ममत्व, श्रद्धा तथा प्रेमभाव से पावापुरी, चम्पापुरी सम्मेशिखर, राजगिरि आदि तीर्थस्थलों की वन्दना करते हैं, प्रायः उसी प्रकार की समुज्ज्वल भावनाओं सहित उत्तर भारत के श्रुतभक्त श्रावक तथा श्राविकाएँ दक्षिण भारत के पश्चिम कोण में मंगलूर बन्दर के पार्श्ववर्ती मूडबिद्री की वन्दना करते हैं। उसे वे श्रुतदेवता की भूमि सोचते हैं। जिन व्यक्तियों को सिद्धान्त ग्रन्थों के कारण पूज्य मानी गयी मूडबिद्री को जाने का सौभाग्य नहीं मिला, वे उक्त स्थल की परोक्षवन्दना करते हुए उस सुअवसर की बाट जोहा करते हैं कि, वे कब वहाँ पहुँचकर अपने चक्षुओं को सफल कर सकें।

कहते हैं, ये सिद्धान्तशास्त्र पहले जैनबद्री—श्रमणवेलगोला के महनीय ग्रन्थागार को अलंकृत करते थे। पश्चात् ये ग्रन्थ मूडबिद्री पहुँचे। इन ग्रन्थों की प्रतिलिपि भारतवर्ष-भर में अन्यत्र कहीं भी नहीं थी। इन शास्त्रों का प्रमेय क्या है, यह किसी को भी पता नहीं था। बहुत लोग तो यह सोचते थे कि इन शास्त्रों में आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कार सदृश चमत्कारप्रद एवं भौतिक आनन्दवर्धक सामग्री-निर्माण का वर्णन किया गया होगा। इवाई जहाज, रेडियो, टेलीफोन, ग्रामोफोन, सोना बनाना आदि सब कुछ इन शास्त्रों में होंगे। इस काल्पनिक महत्ता के कारण साधारण व्यक्ति भी श्रुतदेवता की वन्दना को सोत्कण्ठ सन्नद्ध रहते थे।

दुर्लभ दर्शन

ये ग्रन्थ अपनी महत्ता, अपूर्वता तथा विशेष पूज्यता के कारण बड़े आदर के साथ निधि अथवा रत्नराशि के समान सावधानीपूर्वक सुरक्षित रखे जाते थे। जिस प्रकार विशेष भेंट लेकर भक्त गुरु के समीप जाता है, उसी प्रकार वन्दक व्यक्ति भी यथाशक्ति उचित द्रव्य-अर्पण करके ग्रन्थराज की वन्दना करता था। शास्त्रभण्डार खुलवाने के लिए द्रव्यार्पण आवश्यक था। सिद्धान्त मन्दिर मूडबिद्री के व्यवस्थापक लोग ही शास्त्रों पर अपना स्वत्व समझते थे, उनकी ही कृपा के फलस्वरूप दर्शन हुआ करते थे। शास्त्रों की एकमात्र प्रति पुरानी (हठकेन्ड) कनड़ी लिपि में थी, अतः उस लिपि से सुपरिचित तथा प्राकृत भाषा का परिज्ञाता हुए बिना ग्रन्थ का यथार्थ रस लेने तथा देनेवाला कोई भी समर्थ व्यक्ति ज्ञात न था। ग्रन्थ को उठाकर दर्शन करा देना और चोरों से या बाधकों से शास्त्रों को बचाना, इतना ही कार्य व्यवस्थापक करते थे। इसका फल यह हुआ कि अत्यन्त जीर्ण तथा शिथिल ताड़पत्र पर लिखे ग्रन्थों की पुनः प्रतिलिपि कराकर सुरक्षा की ओर ध्यान न गया, इससे दुर्भाग्यवश 'महाधवल'- 'महाबन्ध' के लगभग तीन, चार हजार श्लोक नष्ट हो गये; किन्तु इसका पता किसी को भी नहीं हुआ।

जैन कुलभूषण श्रावकरत्न स्व. सेठ माणिकचन्द्रजी जे.पी. बम्बई से सन् १८८३ में वन्दनार्थ मूडबिद्री पहुँचे। वे एक विचारक दानी श्रीमान् थे। शास्त्रों का दर्शन करते समय उनकी भावना हुई कि ग्रन्थ को किसी विद्वान् से पढ़वाकर सुनना चाहिए, किन्तु योग्य अभ्यासी के अभाववश उस समय उनकी कामना पूर्ण न हो पायी। उनके चित्त में यह बात उत्कीर्ण-सी हो गयी कि किसी भी तरह इन शास्त्रों का उद्धार

करके जगत् के समक्ष यह निधि अवश्य आनी चाहिए। तीर्थयात्रा से लौटते हुए उक्त सेठजी ने अपने हृदय की सारी बातें अपने अत्यन्त स्नेही सेठ हीराचन्द नेमचन्दजी सोलापुरवालों को सुनायीं। सेठ हीराचन्दजी के अन्तःकरण में दक्षिणयात्रा की बलवती इच्छा हुई। अतः आगामी वर्ष वे मूडबिद्री के लिए रवाना हो गये। ब्रह्मसूरि शास्त्री नामक प्रकाण्ड जैन विद्वान् जैनबद्री (श्रमणवेलगोला) में रहते थे। वे इन शास्त्रों को बाँचकर समझा सकते थे। अतः सेठ हीराचन्द जी ने उक्त शास्त्रीजी को जैनबद्री से अपने साथ ले लिया था। जब ग्रन्थों का मंगलाचरण पढ़कर उनका अर्थ सुनाया गया, तब श्रोतृमण्डली को इतना आनन्द मिला कि उसका वाणी के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता, कारण उन्हें साक्षात् जिनेन्द्र के वचनमृत के रसपान का सौभाग्य मिला।

प्रतिलिपि का संरम्भ

प्रवास से लौटने पर सेठ हीराचन्दजी के चित्त में ग्रन्थों की प्रतिलिपि कराने की इच्छा हुई, किन्तु लौकिक कार्यों में संलग्नता के कारण बहुत समय व्यतीत हो गया और मन की बात कृतिका रूप धारण न कर सकी। इस बीच में धनकुबेर सेठ नेमीचन्दजी सोनी (अजमेर) पं. गोपालदासजी वैर्या को साथ लेकर तीर्थयात्रार्थ निकले और मूडबिद्री पहुँचे। उनके प्रभाव तथा सत्प्रयत्न से स्थानीय व्यवस्थापक पंचमण्डली ने पं. ब्रह्मसूरि शास्त्री के द्वारा देवनागरी लिपि में प्रतिलिपि कराने की स्वीकृति प्रदान की। अत्यन्त मन्दगति से कार्य प्रारम्भ किया गया और थोड़ी नकल मात्र हो पायी कि अन्तराय कर्म ने विघ्न उत्पन्न कर दिया।

सेठ हीराचन्दजी के प्रयत्न से प्रतिलिपि निमित्त लगभग चौदह हजार रुपयों की समाज-द्वारा सहायता की व्यवस्था हुई। अतः ब्रह्मसूरि शास्त्री के साथ गजपति उपाध्याय महाशय मिरजनिवासी के द्वारा पूर्वोक्त स्थगित कार्य पुनः चालू हुआ। कुछ काल व्यतीत होने पर दुर्भाग्य से ब्रह्मसूरि शास्त्री का स्वर्गवास हो गया। अतः पं. गजपतिजी ही कार्य करते रहे। धवला और जयधवला टीकाओं की नकल लगभग १६ वर्षों में पूर्ण हो पायी। इस बीच में श्रीदेवराज सेट्टि, शान्तप्पा उपाध्याय और ब्रह्मराज इन्द्र ने कन्नड़ी भाषा में एक प्रतिलिपि कर ली।

देवनागरी में प्रतिलिपि

इधर गजपति उपाध्याय मूडबिद्री के सिद्धान्त मन्दिर में विराजमान करने के लिए देवनागरी लिपि में प्रतिलिपि करते थे, उधर गुप्त रूप से अपनी विदुषी धर्मपत्नी लक्ष्मीबाई के सहयोग से कन्नड़ी में भी एक प्रतिलिपि तैयार कर ली, जिसका किसी को रहस्य अवगत न था। वह प्रति उपाध्यायजी ने विशेष पुरस्कार लेकर परमधार्मिक स्वर्गीय लाला जम्बूप्रसादजी रईस (सहारनपुर) को प्रदान की। उन्होंने पं. विजय चन्द्रय्या और पं. सीताराम शास्त्री के द्वारा उस कन्नड़ी प्रतिलिपि से देवनागरी में जो प्रतिलिपि लिखवायी, उसमें सात वर्ष का समय व्यतीत हुआ। पं. विजयचन्द्रय्या से कन्नड़ी प्रति बँचवाकर सीताराम शास्त्री नकल करते थे। शीघ्र कार्य निमित्त सीतारामजी साधारण कागज पर पहले लिख लेते थे, पीछे लाला जम्बूप्रसादजी के भण्डार के लिए नकल करते थे। सीताराम शास्त्री ने अपने पास के साधारण कागज पर लिखी गयी नकल पर से अन्य प्रतिलिपि की। उसके आधार पर अन्य प्रतियाँ लिखाकर आरा, सागर, सियनी, दिल्ली, बम्बई, कारंजा, इन्दौर, ब्यावर, अजमेर, झालरापाटन आदि स्थानों में पहुँचायी गयीं। इससे जयधवल और धवल शास्त्रों के दर्शन तथा स्वाध्याय का सौभाग्य अनेक व्यक्तियों को प्राप्त होने लगा।

‘महाबन्ध’ पर विशेष प्रतिबन्ध

मूडबिद्रीवालों को अन्धकार में रखकर जिस ढंग से पूर्वोक्त दो सिद्धान्त शास्त्र मूडबिद्री से बाहर गये और उनका प्रचार किया गया, उससे मूडबिद्री के पंचों के हृदय को बड़ा आघात पहुँचा। मूडबिद्री की विभूति के अन्यत्र चले जाने से मूडबिद्री के प्रति आकर्षण कम हो जाएगा, यह बात भी उनके चित्त में अवश्य रही

होगी, इस कारण अब उन्होंने 'महाधवल'—'महाबन्ध' की प्रतिलिपि के विषय में पूर्ण सतर्कता से कार्य लिया। 'दूधका जला छाँछ को भी फूँककर पीता है,' इस कहावत के अनुसार उन्होंने 'महाबन्ध' को शास्त्र भण्डार में इतना अधिक सुरक्षित कर दिया कि भेंट देनेवाले व्यक्ति भी 'महाबन्ध' के स्थान में अनेक बार अन्य शास्त्र का दर्शन कर अपने मन को काल्पनिक सन्तोष प्रदान करते थे कि हमने भी 'महाधवल'जी आदि की वन्दना कर ली। अब जब 'महाबन्ध' का यथार्थ दर्शन कठिन हो गया, तब प्रतिलिपि की उपलब्धि की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी।

प्रतिलिपि में समय

सेठ हीराचन्दजी के सत्ययल से 'महाबन्ध' की देवनागरी प्रतिलिपि का कार्य पं. लोकनाथजी शास्त्री मूडबिद्री के ग्रन्थागार के लिए करते जाते थे। यह कार्य सन् १९१८ से १९२२ पर्यन्त चला। इसी बीच में पं. नेमिराजजी ने इसकी कनड़ी प्रतिलिपि भी बना ली। तीनों सिद्धान्त ग्रन्थों की प्रतिलिपि कराने में लगभग बीस हजार रुपये खर्च हुए और छब्बीस वर्ष का लम्बा समय लगा।

तीनों ग्रन्थों की देवनागरी तथा कनड़ी प्रतिलिपि के हो जाने से अब सुरक्षण सम्बन्धी चिन्ता दूर हो गयी, केवल एक ही जटिल समस्या श्रुतभक्त समाज के समक्ष सुलझाने को थी कि 'महाबन्ध' को बन्धनमुक्त करके किस प्रकार उस ज्ञाननिधि के द्वारा जगत् का कल्याण किया जाए? इस कार्य में महान् प्रयत्नशील सेठ माणिकचन्दजी (बम्बई) तथा सेठ हीराचन्दजी (सोलापुर) सफल मनोरथ होने के पूर्व ही स्वर्गीय निधि बन गये।

जैन महासभा का उद्योग

दिगम्बर जैन महासभा ने इस विषय में एक प्रस्ताव पास करके प्रयत्न किया, किन्तु वह अरुण्यरोदन रहा। महासभा का एक वार्षिक उत्सव सन् १९३६ में इन्दौर में रावराजा दानवीर श्रीमन्त सर सेठ हुकमचन्दजी की जुबली के अवसर पर हुआ। वहाँ 'महाबन्ध' के विषय में हमने प्रस्ताव पेश करने का प्रयत्न किया, तो महासभा के अनेक अनुभवी व्यक्तियों ने यह कहकर विरोध किया कि यह अनावश्यक है, क्योंकि वह ग्रन्थ मूडबिद्री की समाज देने को बिलकुल तैयार नहीं है। विशेष श्रम करने पर सौभाग्य से पुनः प्रस्ताव पास हुआ और उसमें प्राण-प्रतिष्ठा निमित्त एक उपसमिति का निर्माण हुआ। उसके संयोजक जिनवाणी भूषण धर्मवीर सेठ रावजी सखारामजी दोशी बनाये गये। लेखक भी उसका अन्यतम सदस्य था। सेठ रावजी भाई ने दो बार मूडबिद्री का लम्बा प्रवास करके एवं हजारों रुपया भेंट करने का अभिवचन देकर भी सफलता निमित्त प्रयास किया, किन्तु दुर्भाग्यवश मनोरथ पूर्ण न हो पाया। कुछ ऐसी बातें उत्पन्न हो गयीं, जिन्होंने परस्पर के मधुर सम्बन्धों में भी शैथिल्य उत्पन्न कर दिया। 'महाबन्ध' उपसमिति के समक्ष यहाँ तक विचार आने लगा कि जिनवाणी माता की रक्षा निमित्त व्यक्तिगत अनुनय-विनय का मार्ग छोड़कर अब न्यायालय का आश्रय लेना चाहिए। किन्हीं व्यक्तियों के विचित्र ग्रन्थ-मोह की पूर्ति निमित्त विश्व की अनुपम निधि को अब अधिक समय तक बन्धन में नहीं रखा जा सकता।

न्यायालय के द्वार खटखटाने के विचार पर हमारी आत्मा ने सहमति नहीं दी। सहसा हृदय में यह भाव उदित हुए कि अदालत के द्वार पर मूडबिद्रीवालों को घसीटकर कष्ट देना योग्य नहीं है, कारण इनके ही विवेकी, धर्मात्मा तथा चतुर पूर्वजों के प्रयत्न और पुरुषार्थ के प्रसाद से ग्रन्थराज अब तक विद्यमान हैं, और अब भी वे यथामति उनकी सेवा कर ही रहे हैं। उनकी श्रुत-भक्ति तथा सेवा के प्रति कृतज्ञतावश हमारा मस्तक नम्र हो जाता है। यदि हम पुनः उनसे सस्नेह अनुरोध करेंगे और अपनी सद्भावनापूर्ण बात समझाएँगे, तो वे लोग अवश्य हमारी हृदय की ध्वनि को ध्यान से सुनेंगे। न मालूम क्यों, हृदय बार-बार यह कहता था कि प्रेम-पूर्ण प्रयत्न के पथ में ही सफलता है। यह सूक्ति महत्त्वपूर्ण है: "मृदुना दारुणं हन्ति, मृदुना हन्त्यदारुणम्। नासाध्यः मृदुना किञ्चित्, तस्मात् तीक्ष्णतरं मृदुः ॥

जटिल समस्या

कुछ समय के बाद पुरुषार्थ धर्मवीर सेठ रावजी भाई का स्वर्गवास हो गया। इससे आत्मा बहुत व्यथित हुई। हमने सोचा—भगवन्! अब यह 'महाबन्ध' की प्राप्ति की अत्यन्त कठिन तथा जटिल समस्या कब तक और कैसे सुलझती है?

सुदैव से ग्रन्थराज की प्रतिलिपि प्राप्ति के मार्ग की बाधाओं का अभाव होना तथा अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण आरम्भ हुआ।

नवीन परिस्थिति

सन् १९३६ की बात है। श्रमणवेलगोला में १००८ भगवान् बाहुबलिस्वामी की भुवनमोहिनी, वेश्वातिशायिनी दिव्य मूर्ति के महाभिषेक की पुण्यवेला आयी। किन्तु मैसूर प्रान्त में स्व. सेठ एम. एल. वर्धमानैय्या सदृश कार्यकुशल, प्रभावशाली, उदार तथा समर्थ नेता के अभाव होने से आदरणीय भट्टारक श्री चारुकीर्ति पण्डिताचार्य (पूर्व में जो ब्र. नेमिसागरजी वर्णा के रूप में विख्यात थे) महाराज श्रमणवेलगोला तथा उनके सहयोगी महानुभाव, अन्तरायों की अपरिमित राशि देख सचिन्त थे, और गोम्पटेश्वर स्वामी से पुनः-पुनः प्रार्थना करते थे—'देवाधिदेव, आपके चरणों के प्रसाद से यह मंगलकार्य सम्यक् प्रकार सम्पन्न हो, कोई भी विघ्न नहीं आने पाए।'

उस समय दिगम्बर जैन महासभा के मुखपत्र जैन गजट के सम्पादक तथा अखिल भारतवर्षीय दिगम्बर जैन राजनीतिक स्वत्वरक्षक समिति के मन्त्री के रूप में हमने यथाशक्ति महाभिषेक की सफलता निमित्त पत्र-द्वारा आन्दोलन किया, विघ्नकारियों का तीव्र प्रतिवाद किया तथा मैसूर राज्य के दीवान सा. सर मिर्जा स्माइल आदि उच्च अधिकारियों से पत्र व्यवहार द्वारा अनुरोध किया। उस समय हमारे लेखों आदि का कनड़ी अनुवाद मैसूर राज्य के आस्थान महाविद्वान् पं. शान्तिराजजी शास्त्री के कनड़ी पत्र 'विवेकाभ्युदय' में छपता था। इस कारण कर्णाटक प्रान्तीय जैन बन्धुओं से हमारा आन्तरिक स्नेह-सम्बन्ध सहज ही स्थापित हो गया। यही स्नेह आगे सफलता में प्रमुख हेतु बना।

महाभिषेक-महोत्सव का पुण्य अवसर आया। लाखों वन्दक विश्ववन्दनीय विभूति की वन्दना द्वारा जीवन सफल करने के लिए भारतवर्ष के कोने-कोने से आये। उस महाभिषेक के अपूर्व तथा दिव्य समारोह को कौन भूल सकता है? बड़े सौभाग्य से हम भी अपने पूज्य पिता श्री सिंघई कुँवरसेनजी आदि के साथ वहाँ पहुँचे। जब भट्टारकजी से मिलने गये, तब उनके समीप उस प्रान्त के प्रमुख जैन बन्धु बैठे हुए थे। वहाँ स्वामीजी ने (भट्टारक महाराज का बड़ा प्रभाव तथा सम्मान है। मैसूर महाराज भी उनकी बड़ी प्रतिष्ठा करते हैं, उनको वहाँ स्वामीजी कहते हैं।) हमारे प्रति प्रगाढ़ प्रेम प्रकट किया। उन्होंने बड़े गौरवपूर्ण शब्दों द्वारा लोगों को हमारा परिचय देते हुए इस महाभिषेक को सम्पन्न कराने का विशेष श्रेय हमें प्रदान किया।

हम चकित हो गये। महाराज से कहा—“हमने क्या कार्य किया, जिसका आप इतना उल्लेख कर रहे हैं। हमारा इतना पुण्य नहीं है। गोम्पटेश्वर स्वामी के चरणों के प्रति भक्तिवश कुछ सेवा बन गयी, उसे अधिक मूल्यवान् बताना आपकी ही महत्ता है।” स्वामीजी ने अपनी कर्णाटकी ध्वनि (tone) में कहा है, “क्या आपकी स्तुति करके हमें कुछ प्राप्त करना है, जो हम यहाँ अतिशयोक्तिपूर्ण बात कहते ?” हमें चुप हो जाना पड़ा।

वहाँ से चलते समय स्वामीजी ने हृदय से मंगल आशीर्वाद दिया और 'फलेन फलमालभेत्'—इन फलों के द्वारा तुम्हें महाफल मिले—कहते हुए कुछ पक्व फल हमें दिये। वह पर्व का दिन था। हमारे हाथों में फलों को देखकर एक शास्त्रीजी ने व्यंग्य में कहा—“क्या अँगरेजी की शिक्षा ने आपकी प्रवृत्ति बदल तो नहीं दी?” हमने भट्टारकजी से फल-प्राप्ति की बात सुनायी, तो वे बोल उठे—“आप खूब मिले, और लोग तो भट्टारकजी को फल चढ़ाते हैं, भेंट देते हैं और भट्टारकजी आपको देते हैं।” हैंसते हुए हम अपने स्थान पर आ गये।

व्यवस्थापकों से मधुर सम्बन्ध-निर्माण

महाभिषेक बड़े वैभव और अपूर्व आनन्दपूर्वक सम्पन्न हुआ। अभिषेक के कलशों की बोली से प्राप्त रकम मैसूर स्टेट के अधिकारियों के पास जमा हो गयी। किन्तु बहुत-से धर्मबन्धु अपने धन को अपने ही अधिकार में रखने की बात सोचते थे। अर्थ-व्यवस्था निमित्त रावराजा श्रीमन्त सर सेठ हुकमचन्दजी के स्थान पर एक बैठक हुई। उसमें कर्णाटक प्रान्त के महान् प्रभावशाली व्यक्ति श्री डी. मंजैय्या हेगड़े, बी.ए., धर्मस्थल तथा उस प्रान्त के विशेष श्रीमन्त राजवंशीय श्रीरघुचन्द्रबल्लाल, मंगलोर भी शामिल हुए थे। वह मीटिंग उक्त दोनों महानुभावों के साथ हमारे स्निग्ध सम्बन्धों के स्थापन तथा संवर्धन में कारण बनी। यहाँ यह लिख देना उचित होगा कि 'महाबन्ध' के व्यवस्थापकों में उन लोगों का प्रमुख स्थान था, इसलिए उनके साथ का परिचय तथा मैत्री सम्बन्ध भावी सफलता के मार्ग के लिए अनुकूलता को सूचित करते थे।

महाभिषेक-महोत्सव पूर्ण होने के पश्चात् मूडबिद्री, कार्कल आदि की चन्दना निमित्त हम पिताजी के साथ मंगलोर पहुँचे। वहाँ माननीय श्रीबल्लाल महाशय से अकस्मात् भेंट हो गयी। प्रसंगवश हमने उनसे कहा—“पहले तो आपके बल्लाल वंश ने दक्षिण भारत में राज्य किया था। आपको भी उस वंश की प्रतिष्ठा के अनुरूप अपूर्व कार्य करना चाहिए। देखिए, आपके यहाँ मूडबिद्री के शास्त्रभण्डार में संसार की अपूर्व विभूति 'महाबन्ध' शास्त्र है। इसका उद्धार कार्य करने से विश्व आपका आधार मानेगा।” इसके अनन्तर कुछ और भी धार्मिक बातें हुईं। शायद वे उन्हें पसन्द आयीं। उन्होंने हमसे कहा—“हम मूडबिद्री में आपका भाषण कराना चाहते हैं, क्या आप बोलेंगे?” हमने विनोदपूर्वक कहा—“जब भी आप भाषण के लिए कहेंगे, तब ही हम बोलने को तैयार हैं, किन्तु इसके बदले में आपको 'महाबन्ध' शास्त्र देना होगा।” वे हँसने लगे।

सक्रिय उद्योग

हम मूडबिद्री पहुँचे। वहाँ जैन नरेशों के औदार्य तथा भक्तिवश निर्माण कराये गये त्रिलोकचूड़ामणि चैत्यालय (चन्द्रनाथवसदि) की भव्यता तथा विशालता को देख बड़ा आनन्द आया। उस मन्दिर में अप्रीका के कारीगरों ने आकर प्राचीन समय में शिल्प का कार्य किया था। हमें बताया गया कि पहले जैनियों की वहाँ बहुत समृद्धिपूर्ण स्थिति थी। बड़े-बड़े जहाजों के वे अधिपति थे। उनसे वे विदेश जाकर रत्नों का व्यापार करते थे और श्रेष्ठ वस्तु जिनशासन के उपयोग में लाते थे। इस प्रकार वहाँ की अमूल्य अपूर्व मूर्तियाँ बनायी गयी थीं। पुरातन जैन वैभव की चर्चा सुन-सुनकर हृदय हर्षित हो रहा था। उस समय वयोवृद्ध परमधार्मिक श्री नागराज श्रेष्ठी से भेंट हुई। उन्होंने बड़ा स्नेह व्यक्त किया। हमने विनीत भाव से कहा—“बड़ी दया हो, यदि इस बार के महाभिषेक की स्मृति में आप लोग 'महाबन्ध' की प्रतिलिपि करने की अनुज्ञा दें। आपके पूर्वजों का ही पुण्य था जो रत्नराशि से भी अधिक मूल्यवान् इस ग्रन्थरत्न की अब तक रक्षा हुई।” हमारी बात सुनकर उन्होंने कहा—“प्रयत्न करो, आपको ग्रन्थ मिल जाएगा।” हमने कहा, “आपके आशीर्वाद और कृपा द्वारा ही यह कठिन कार्य सम्भव हो सकता है।” उन्होंने हमें उत्साहित करते हुए कहा—“अगर आप मंजैय्या हेगड़े तथा रघुचन्द्र बल्लाल को यहाँ ला सकें, तो सरलता से काम बन जाएगा। उन लोगों का यहाँ की समाज पर विशेष प्रभाव है। हेगड़ेजी का प्रभाव तो असाधारण है।” अतः दूसरे दिन सबरे हम अपने छोटे भाई चिरंजीव (प्रोफेसर) सुशीलकुमार दिवाकर (बी. काम., एम. ए., एल-एल. बी.) को तथा ब्र. फतेहचन्दजी परिवारभूषण नागपुरवालों को साथ लेकर धर्मस्थल गये तथा श्री मंजैय्या हेगड़े से मूडबिद्री चलने का अनुरोध किया। बड़े आग्रह करने पर उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया। धर्मस्थल में धर्ममूर्ति हेगड़ेजी के वैभव, प्रभाव तथा पुण्य को देखकर आनन्द हुआ।

धर्मस्थल से वापस होते समय हम वेणूर की बाहुबलि स्वामी की विशाल तथा उच्च कलापूर्ण मूर्ति के दर्शनार्थ ठहरे। वहाँ सौभाग्य से दानवीर रावराजा श्रीमन्त सर सेठ हुकमचन्दजी से भेंट हो गयी। हमने उन्हें सिद्धान्तशास्त्र सम्बन्धी चर्चा सुनाकर सन्ध्या के समय मूडबिद्री पहुँचने का अनुरोध किया और अपने स्थान पर वापस आये। पश्चात् हम श्रीमन्त बल्लाल महोदय से मिलने मंगलोर पहुँचे। उन्होंने पूछा—“कैसे आये?”

हमने विनोदपूर्वक कहा—“उस दिन आपने कहा था कि मूडबिंद्री में हम आपका व्याख्यान कराना चाहते हैं। आप अबतक नहीं आये। हमें अपने देश वापस जल्दी जाना है, इससे आपको लेने आये हैं कि आज सन्ध्या को हमारा व्याख्यान सुन लें।” वे मुस्करा पड़े। अनन्तर हमने सब कथा उनको सुनाकर शीघ्र चलने की प्रेरणा की। वे सहर्ष तैयार हो गये। उनकी मोटर में उनके साथ हम मूडबिंद्री के लिए रवाना हुए। मार्ग में हमने सब विषय उनके समक्ष स्पष्ट किया, तो उन्हें अपनी स्वीकृति प्रदान करने में विलम्ब न लगा। उन्होंने अपार प्रेम दिखाया।

मूडबिंद्री वापस आने पर हमें श्री हेगड़ेजी और सर सेठ हुकमचन्दजी मिल गये। रात्रि को पूर्वोक्त त्रिलोकचूडामणि चैत्यालय-चन्द्रनाथवसुदे के प्रांगण में सर सेठ हुकमचन्दजी की अध्यक्षता में एक सभा बुलायी गयी। अनेक प्रतिष्ठित महानुभाव पधारे थे। मूडबिंद्री मठ के अधिपति आदरणीय भट्टारकजी चारुकीर्ति पण्डिताचार्य स्वामी भी उस सभा में आये थे। हमने ‘महाबन्ध’-सम्बन्धी चर्चा प्रारम्भ की, उस समय ज्ञात हुआ कि मूडबिंद्री सिद्धान्त शास्त्रमन्दिर के ड्रस्टी वर्ग तथा पंच महानुभावों के चित्त में इस बात की गहरी ठेस लगी कि एक जैन पत्र में यह वृत्तान्त प्रकाशित किया गया था कि ‘महाबन्ध’ शास्त्र न देने में मूडबिंद्रीवालों का व्यक्तिगत स्वार्थ कारण है। वे शास्त्र-विक्रय (Traffic in literature) करके लाभ उठाना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में भ्रमनिवारण किया गया कि जिन लोगों के पूर्वजों ने त्रिलोकचूडामणि चैत्यालय-जैसा विशाल जिन मन्दिर बनवाया, धर्मसेवा के उज्ज्वल कार्य निःस्वार्थ भाव से सम्पन्न किये, उनके विषय में दूषित कल्पना करना तथा मिथ्या प्रचार करना ठीक नहीं है।

मूडबिंद्री में भाषण

इसके पश्चात् हमने अपने भाषण में मूडबिंद्री के प्राचीन पुरुषों एवं वर्तमान धर्मपरायण समाज के प्रति आन्तरिक अनुराग तथा आदर का भाव व्यक्त करते हुए कहा—“जब लोग धार्मिक अत्याचार करते थे, उस संकट के युग में जिन्होंने शास्त्रों को छिपाकर श्रुत की रक्षा की, उनके प्रति हम हार्दिक श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। किन्तु जगत् में बड़ा परिवर्तन हो गया। लोग ज्ञानामृत के पिपासु हैं। भूतबलिस्वामी ने जगत् के कल्याण निमित्त महान् कष्ट उठाकर इतना बड़ा और अत्यन्त गम्भीर शास्त्र बनाया। उसके प्रकाश में आने पर जगत् में ग्रन्थकर्ता की कीर्ति व्याप्त होगी तथा मुमुक्षुगण अपना हित सम्पन्न करेंगे। पूज्य पुरुषों की निर्मल कीर्ति का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। सोमदेवसूरि ने बताया है—‘यशोवधः प्राणिवधात् गरीयान्’ प्राणिवधात् की अपेक्षा यश का घात करना गुरुतर दोष है, कारण यशोवध-द्वारा कल्पान्तस्थायी यशःशरीर का नाश होता है। भूतबलिस्वामी के साहित्य को छिपाने से उनके प्राणघात से भी बढ़कर दोष प्राप्त होता है। भूतबलिस्वामी ने विश्वकल्याण के लिए यह रचना की थी। इस अमूल्य कृति का क्या उन्होंने कुछ मूल्य रखा था? हमारी भक्ति का अर्थ है—श्रुत का संरक्षण तथा सुप्रचार। उसे बन्धन में रखकर दीमक आदि द्वारा नष्ट होते देखना कभी भी श्रुतभक्ति नहीं कही जा सकती।” इतने में किसी ने कहा—“हमारे यहाँ लोग गरीब हैं, उनकी सहायतार्थ द्रव्य आवश्यक है”। इसे सुनते ही हमने कहा—“इन वाक्यों को सुनकर मुझे बहुत दुःख हुआ कि हमारे दक्षिण के कोई-कोई बन्धु अपने को गरीब समझ रहे हैं। जिनके पास भगवान् गोम्मटेश्वर-जैसी अनुपम प्रभावशाली मूर्ति है, क्या वे गरीब हैं? जिनके पास बहुमूल्य तथा अपूर्व जिनबिम्ब विद्यमान हैं, वे क्या गरीब हैं? जिनके पास धवल, ‘महाधवल’ सदृश श्रेष्ठ ग्रन्थराज हैं, वे भी क्या गरीब हैं? यदि इसे ही गरीबी कहा जाता है, तो हम ऐसी गरीबी का अभिनन्दन करते हैं, अभिवन्दन करते हैं। लीजिए भौतिक संसार की समृद्धि को और हमें यह गरीबी दे दीजिए।” हमने यह भी कहा—“बताइए, इन ग्रन्थों का आपने क्या मूल्य रखा है? रुपयों का मूल्य तो जाने दीजिए, हम तो जीवन-निधि तक अर्पण कर इस आगम-निधि को लेने आये हैं। बताइए, इससे भी अधिक और मूल्य आपको क्या चाहिए? हम जानते हैं, ‘महाबन्ध’ सदृश श्रुत की रक्षा निमित्त हमारे सदृश सैकड़ों व्यक्तियों का जीवन नगण्य है। लोग राष्ट्रप्रेम के कारण जीवन-उत्सर्ग करते हैं, तो सकल सन्तापहारी श्रुतरक्षार्थ जीवन अर्पण करने में क्या भीति है? कहिए, ग्रन्थ के लिए आप और क्या मूल्य चाहते हैं?”

स्वीकृति

इस पर विवेकमूर्ति परम सज्जन श्री मंजैय्या हेगड़े ने द्रवित होकर कहा “You have given us more than we wanted—जो कुछ हम चाहते थे, उससे अधिक मूल्य आपने दे दिया। श्री हेगड़ेजी की अनुकूलता होने पर आदरणीय भट्टारक महाराज, श्री बल्लाल आदि सबने स्वीकृति प्रदान कर दी। हमारे पूज्य बड़े भाई सिंघई अमृतलालजी ने हमसे कहा—“यह महान् कार्य है। परिणामों में परिवर्तन का पदार्पण होते विलम्ब नहीं लगता, अतः लिखित स्वीकृति आवश्यक है। वह सर्व आशंकाओं को दूर कर देगी। हमने सब समाज से विनय की—“आज आप लोगों ने ‘महाथवल’जी की बिना मूल्य प्रतिलिपि प्रदान करने की पवित्र स्वीकृति दी है। समाचार पत्रों में प्रामाणिकता पूर्वक समाचार प्रकाशित करने के लिए आप लोगों की लिखित स्वीकृति महत्त्वपूर्ण होगी, और लोगों को तनिक भी सन्देह नहीं रहेगा।” सबका हृदय पूर्णतया पवित्र था। स्वीकृति अन्तःकरण से दी गयी थी, अतः प्रमुख पुरुषों ने सहर्ष शीघ्र हस्ताक्षर करके स्वीकृतिपत्रक हमें दिया। उसे पा हमने अपने को धन्य तथा कृतार्थ समझा। इस कार्य को सम्पन्न करने में हमें अपने पूज्य पिताजी (सिंघई कुँवरसेनजी) से विशिष्ट पथ-प्रदर्शन प्राप्त हुआ था, कारण वे महान् शास्त्रज्ञ, लोक-व्यवहार-प्रवीण एवं अपूर्व कार्यकुशलता सम्पन्न थे। उनका प्रभाव भी कार्य सम्पन्न करने में बड़ा साधन बना।

मूडबिद्री के पत्रों की महान् उदारता को घोषित करनेवाला समाचार जब जैन समाज ने सुना, तब चारों ओर सबने महान् हर्ष मनाया और मूडबिद्री की समाज के कार्य की प्रशंसा की। किन्तु दुर्भाग्य से एक समाचार पत्र में कुछ ऐसे समाचार निकल गये, जिससे पुरातन विरोधाग्नि पुनः प्रदीप्त हो उठी। इससे दक्षिण के एक प्रमुख पुरुष ने हमें लिखा—“अब आप प्रतिलिपि ले लेना, देखें, कौन देता है?” इससे हमारी आत्मा काँप उठी। यह ज्ञात कर बड़ा दुःख हुआ, कि व्यक्तिगत विशेष मान की रक्षार्थ हमारे विज्ञबन्धु ऐसे महत्त्वपूर्ण विषय को पुनः विरोध और विवाद की भँवर में फँसा रहे हैं। इसके अनन्तर ज्ञात हुआ कि न्यायदेवता के आह्वान निमित्त कानूनी कार्रवाई भी प्रारम्भ होने लगी। उस समय श्रुतभक्त ब्र. श्री जीवराज गौतमचन्द्रजी दोशी और मुनि समन्तभद्रजी के (जो उस समय क्षुल्लक थे) प्रभाव तथा सत्प्रयत्न से विरोध शान्त किया गया। यह चर्चा हमने इससे की कि लोग यह देख लें, कि बना-बनाया धर्म का कार्य किस प्रकार अकारण अवाञ्छनीय संकटों में घिर जाता है। सोमदेव सूरि की उक्ति बड़ी अनुभवपूर्ण है। वे ‘नीतिवाक्यामृत’ में लिखते हैं—“धर्मानुष्ठाने भवति, अप्रार्थितमपि प्रातिलोम्यं लोकस्य” (१,३५) ‘धर्मकार्य में लोग बिना प्रार्थना किये गये स्वयमेव प्रतिकूलता धारण करते हैं’। ऐसी प्रवृत्ति पापानुष्ठान के विषय में नहीं होती।

और भी विपत्तियों का वर्णन करके हम लेख को बढ़ाना उचित नहीं समझते। संक्षेप में इतना ही कहना है कि बड़े-बड़े विचित्र विघ्न आये, किन्तु श्रुतदेवता के प्रसाद से वे शरद्वक्रतु के मेघों के सदृश अल्पस्थायी रहे।

आबाधाकाल

वर्ष बीत गया, फिर भी प्रतिलिपि का कार्य प्रारम्भ नहीं हो रहा था। एक बार श्री मंजैय्या हेगड़े ने अपने धर्मस्थल के सर्वधर्म-सम्मेलन में मुझे बुलाया। वहाँ पहुँचने से प्रतिलिपि का कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने में विघ्न नहीं आता, किन्तु कारण विशेष से पहुँचना न हो सका। कुछ समय के अनन्तर दिसम्बर सन् १९४१ में गोम्मटेश्वर महामस्तकाभिषेक फण्ड सम्बन्धी कमेटी की बैठक में सम्मिलित होने को हमें बैंगलोर जाना पड़ा। उत्तर भारत से केवल श्रीमन्त सर सेठ हुकमचन्द्रजी, सर सेठ भागचन्द्रजी सोनी पहुँचे थे। मीटिंग के पश्चात् हम ग्रन्थप्राप्ति की आशा से श्री मंजैय्या हेगड़े, श्री रघुचन्द बल्लाल, श्री जिनराज हेगड़े एडवोकेट, एम. एल.ए., श्री शान्तिराज जी शास्त्री आस्थान महाविद्वान् (मैसूर) के साथ मूडबिद्री के लिए रवाना हुए।

सब लोग आवश्यक कार्यवश अपने-अपने घर चले गये। अतः हम अकेले मूडबिद्री पहुँचे। दो-तीन दिन प्रयत्न करने पर भी प्रतिलिपि का कार्य प्रारम्भ न हो सका। आगे कब तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, यह भी पता नहीं चलता था। इससे चित्त में विविध संकल्प-विकल्प उत्पन्न होते थे। चित्त अपार चिन्ता-निमग्न था। जिनेन्द्र भक्ति का एकमात्र अवलम्बन था।

चिरस्मरणीय दिवस

परम सौभाग्य से तीन दिन की प्रबल प्रतीक्षा के पश्चात् व्यवस्थापक बन्धु श्री धर्मपालजी श्रेष्ठि की विशेष कृपा हुई। उन्होंने भण्डार खोलकर 'महाबन्ध' शास्त्र की ताड़पत्रीय प्रति हमारे समक्ष विराजमान कर दी। जिनेन्द्रदेव तथा जिनवाणी की पूजा के अनन्तर हमने स्वयं देवनागरी लिपि में प्रतिलिपि प्रारम्भ करने का परम सौभाग्य प्राप्त किया। वह ३० दिसम्बर, १९४१ का दिन जैन साहित्य के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगा।

कृतज्ञता

अनन्तर प्रतिलिपि का कार्य पं. लोकनाथजी शास्त्री के तत्त्वाधान में सम्पन्न होता रहा। ३० दिसम्बर सन् १९४२ तक कार्य पूर्ण हो गया। पहले मूडबिद्री के भण्डार के लिए यही कापी ४ वर्ष में तैयार की गयी थी। यह कार्य शीघ्र सम्पन्न करने का श्रेय उक्त शास्त्रीजी के सहयोगी विद्वान् पं. नागराजजी तथा देवकुमारजी को भी है। भट्टारक महाराज तथा व्यवस्थापकों की भी विशेष कृपा रही जो उन्होंने इस कार्य में कोई भी बाधा नहीं उत्पन्न होने दी। इस सम्बन्ध में श्री मंजैय्या हेगड़े के हम अत्यन्त कृतज्ञ हैं कि उन्होंने सर्वदा इस पुण्य कार्य में सर्व प्रकार का सहयोग प्रदान किया। कुछ विद्वानों ने उत्तर भारत से श्री हेगड़ेजी को प्रतिलिपि न देने का अप्रार्थित बहुमूल्य परामर्श दिया, किन्तु विद्वान् हेगड़े महाशय के उत्तर से उन लोगों को चुप होना पड़ा। जब हम आपत्तियों से-आकुलित होकर हेगड़ेजी को लिखते थे, तो उनके उत्तर से निराशा दूर हो जाती थी। उन्होंने हमें लिखा था—“आप भय न करें, ग्रन्थ-प्रकाशन के विषय में कोई भी बाधा न आएगी। प्रतिलिपि का कार्य आपकी इच्छानुसार होता रहे, इस पर मैं विशेष ध्यान रखूँगा।” उन्होंने अपने वचन का पूर्णतया रक्षण किया। यथार्थ में वे महापुरुष थे। कुछ भी भेंट लिये बिना प्रतिलिपि की अनुज्ञा प्रदान करने की उदारता तथा कृपा के उपलक्ष में हम सिद्धान्त मन्दिर के ट्रस्टियों तथा मूडबिद्री के पंचों को हार्दिक धन्यवाद देते हैं। भट्टारक महाराज के भी हम अत्यधिक कृतज्ञ हैं। मूडबिद्री के महानुभवों के हार्दिक प्रेम, कृपा तथा उदार भाव की स्मृति चिरकाल पर्यन्त अन्तःकरण में अंकित रहेगी।

मूडबिद्री में प्रतिलिपि कराने में जो द्रव्य-व्यय हुआ, वह सेठ गुलाबचन्दजी हीराचन्दजी (सोलापुर) के पास से प्राप्त हुआ था। इसके लिए उन्हें धन्यवाद है। ब्र. श्री जीवराजजी ने इस श्रुत-रक्षा या सेवा के कार्य में जो सत्परामर्श तथा सर्व प्रकार का सहयोग दिया, उसके लिए हम अत्यन्त अनुगृहीत हैं।

दानवीर साहू श्री शान्तिप्रसादजी जैन की वदान्यता से स्थापित भारतीय ज्ञानपीठ काशी ने इस टीका के प्रकाशन की उदारता की, इसके लिए हम साहू शान्तिप्रसादजी के अत्यन्त अनुगृहीत हैं। पं. महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्य ने प्रकाशन निमित्त जो श्रम किया, उसके लिए उन्हें विशेष धन्यवाद है।

इस शास्त्र का तेजी के साथ शब्दानुवाद प्रथम बार वैद्यराज पं. कुन्दनलालजी परिवार, न्यायतीर्थ तथा पं. परमानन्दजी साहित्याचार्य (सौरई निवासी) के सहयोग से लगभग सवा माह में पूर्ण हुआ था। इसके पश्चात् पं. कुन्दनलालजी के अस्वस्थ हो जाने के कारण उनका बहुमूल्य सहयोग न मिल सका। पं. परमानन्दजी का लगभग दो-एक सप्ताह और सहयोग बड़ी कठिनता से मिला, और आगे वे सहयोग न दे पाये। उन विद्वानों के अमूल्य सहयोग के लिए हम अत्यन्त आभारी हैं।

आद्य अनुवाद की प्रति देखकर अनेक अनुभवी विद्वानों ने सलाह दी कि सम्पूर्ण टीका पुनः लिखी जानी चाहिए। यह ग्रन्थ महान् है। हमने भी जब विशेष शास्त्रों का अभ्यास किया और रचना का सूक्ष्मतया

निरीक्षण किया, तब नवीन रूप से टीका निर्माण करना ही उचित जँचा। 'महाबन्ध' की टीका को मुख्य कार्य समझ हम उसमें संलग्न हो गये। लगभग तीन वर्ष में यह कार्य बन पाया। बना या नहीं, यह हम नहीं कह सकते। हमारा भाव यह है कि इसमें पूर्वोक्त समय लगा। इस अनुवाद में विशेषार्थ, टिप्पणी, शुद्ध पाठ—योजना आदि भी कार्य हुए। इस अपेक्षा से यह टीका पूर्णतया नवीन समझना चाहिए।

सन् १९४५ के ग्रीष्मावकाश में न्यायालंकार, सिद्धान्त महोदधि, गुरुवर पं. वंशीधरजी शास्त्री (महरौनीवालों) ने सिवनी पधारकर अनुवाद को ध्यानपूर्वक देखा। उनके संशोधन के उपलक्ष में हम हृदय से कृतज्ञ हैं। यह उनकी ही कृपा है जो यह महान् कार्य हम-जैसे व्यक्ति से सम्पन्न हो गया।

पं. हीरालालजी शास्त्री, सादूमलने अनेक बहुमूल्य परामर्श तथा सुझाव प्रदान किये थे। पं. फूलचन्द्रजी शास्त्री ने सिवनी पधारकर अनेक महत्त्वास्पद बातें सुझायी थीं। इसके लिए हम दोनों विद्वानों के अनुगृहीत हैं। अन्य सहायकों के भी हम आभारी हैं।

हमें स्वप्न में इस बात का भान न था कि 'महाबन्ध' की प्रति मूडबिंदी से प्राप्त करने का परम सौभाग्य हमें मिलेगा और उसकी टीका करने का भी अमूल्य अवसर आयेगा। जैन धर्म के प्रसाद से और चारित्र चक्रवर्ती प्रातःस्मरणीय पूज्य आचार्य १०८ श्री शान्तिसागर महाराज के पवित्र आशीर्वाद से यह मंगलमय कार्य सम्पन्न हुआ। प्रमाद अथवा अज्ञानवश टीका में जो भूलें हुई हों, उन्हें विशेषज्ञ विद्वान् क्षमा करेंगे और संशोधनार्थ हमें सूचित करने की कृपा करेंगे, ऐसी आशा है। ऐसे महान् कार्य में भूलें होना असम्भव नहीं हैं। 'को न विमुह्यति शास्त्रसमुद्रे।'

पौष कृ. ११, वीर संवत् २४७३
१८ दिसम्बर, १९४६; सिवनी (म.प्र.)

—सुमेरुचन्द्र दिवाकर

प्रस्तावना

(प्रथम संस्करण से)

‘महाबन्ध’ पर प्रकाश

जिनेन्द्रदेव की निर्दोष वाणी रूप होने के कारण सम्पूर्ण आगम ग्रन्थ समान आदर तथा श्रद्धा के पात्र हैं, फिर भी जैन संसार में धवल, जयधवल, ‘महाधवल’ नामक शास्त्रों के प्रति उत्कट अनुराग एवं तीव्र भक्ति का भाव विद्यमान है। इस विशेष आदर का कारण यह है कि तीर्थंकर भगवान् महावीर प्रभु की दिव्यध्वनि को ग्रहण कर गणधरदेव ने ग्रन्थ-रचना की। वह मौखिक परम्परा के रूप में, विशेष ज्ञानी मुनीन्द्रों की चमत्कारिणी स्मृति के रूप में, हीयमान होती हुई, विद्यमान थी। महावीर निर्वाण के छह सौ तिरासी वर्ष व्यतीत होने पर अंगों और पूर्वों के एक देश का भी ज्ञान लुप्त होने की विकट स्थिति आ गयी। उस समय अग्रायणीयपूर्व के चयनलब्धि अधिकार के चतुर्थ प्राभृत ‘कम्मपयडि’ के चौबीस अनुयोग द्वारों से ‘षट्खण्डागम’ के चार खण्ड बनाये गये, जिन्हें वेदना, वर्गणा, खुदाबन्ध तथा ‘महाबन्ध’ कहते हैं। बन्धक अनुयोग द्वार के अन्यतम भेद बन्धविधान से जीवद्वान का बहुभाग और तीसरा बन्धसामित्तविचय निकले। इस प्रकार ‘षट्खण्डागम’ का द्वादशांग वाणी से सम्बन्ध है। इसी प्रकार ज्ञानप्रवाद नामक पंचमपूर्व के दशम वस्तु अधिकार के अन्तर्गत तीसरे ‘पेज्जदेसपाहुड’ से कषायप्राभृत की रचना की गयी। इन ग्रन्थों का द्वादशांगवाणी से अविच्छिन्न सम्बन्ध होने के कारण द्वादशांगवाणी के समान श्रद्धा तथा भक्तिपूर्वक आदर किया जाता है। ‘षट्खण्डागम’ के ‘महाबन्ध’ को छोड़कर पाँच खण्डों पर जो वीरसेनाचार्य रचित टीका है, उसे धवल टीका कहते हैं। ‘महाबन्ध’ पर कोई टीका उपलब्ध नहीं है।^१ ‘कषाय प्राभृत’ में गुणधर आचार्य रचित एक सौ अस्सी गाथाएँ हैं।^२ इनमें तिरेपन गाथाएँ और जोड़ने पर गुणधर आचार्य रचित कुल गाथाओं की संख्या दो सौ तैतीस हो जाती है। जयधवला टीका में कहा है—“कसायपाहुडे सोलसपदसहस्साणि (१६०००)। एदस्स अवसंहारगाहाओ गुणहर-मुह-कमल- विणिगियायो तेतीसाहिय-विसदमेत्तीओ (२३३)” (भाग १, पृ. ६६)। यतिवृषभ आचार्य ने छह हजार श्लोकप्रमाण चूर्ण सूत्र बनाये। इसकी बहत्तर हजार श्लोकप्रमाण टीका वीरसेनाचार्य तथा उनके शिष्य भगवज्जिनसेन स्वामी ने बनायी, उसका नाम जयधवला टीका है।

सूत्र-रचना—‘षट्खण्डागम’ में जीवद्वान के प्रारम्भिक सत्प्ररूपणा अधिकार के केवल एक सौ सतहत्तर सूत्रों की रचना पुष्पदन्त आचार्य ने की है, शेष समस्त रचना भूतबलि स्वामीकृत है। जीवद्वान, खुदाबन्ध, बन्धसामित्त, वेदना और वर्गणा—इन सूत्ररूप पाँच खण्डों की श्लोक संख्या छह हजार प्रमाण है। छठे खण्ड ‘महाबन्ध’ में चालीस हजार श्लोक प्रमाण सूत्र हैं। साधारणतया सम्पूर्ण धवला, जयधवला टीका को द्वादशांग से साक्षात् सम्बन्धित समझा जाता है।

महाबन्ध का प्रमाण—द्वादशांग वाणी से सम्बन्ध रखनेवाले प्राचीन साहित्य की दृष्टि से गुणधर

१. वप्पदेव ने आठ हजार पाँच श्लोक प्रमाण महाबन्ध की टीका रची थी।

व्यलिखत् प्राकृतभाषारूपां सम्यक्पुरातनव्याख्याम्।

अष्टसहस्रग्रन्थां व्याख्यां पञ्चाधिकां महाबन्धे ॥१७६॥—इन्द्र. श्रुता.।

२. गाहासदे असीदे अत्ये पण्णरसथा विहतम्मि।

वोच्छामि सुत्तगाहा जयि गाहा जम्मि अत्यम्मि ॥—जयध. १,१५१।

आचार्य रचित दो सौ तैतीस गाथाओं को जो विशेषता प्राप्त होगी, वह उनपर रची गयी बहतर हजार श्लोक प्रमाण टीका को नहीं होगी। इसी दृष्टि से यदि धवला टीका पर भी प्रकाश डाला जाय, तो कहना होगा कि साठ हजार श्लोक प्रमाण टीका भी नौवीं सदी की है, प्राचीन अंश पाँच खण्डों के रूप में केवल छह हजार श्लोक प्रमाण हैं। 'महाबन्ध' ग्रन्थ की सम्पूर्ण चालीस हजार श्लोक प्रमाण रचना भूतबलि स्वामीकृत होने के कारण अत्यन्त प्राचीन तथा महत्त्वपूर्ण है। इस प्रकार सबसे प्राचीन जैनवाङ्मय की दृष्टि से 'महाबन्ध' सूत्र की रचना धवला, जयधवला टीकाओं के मूल की अपेक्षा लगभग सातगुनी है। ब्रह्म हेमचन्द्र रचित श्रुतस्कन्ध में लिखा है—

“सत्तरिसहस्रधवलो जयधवलो सडिसहस्र बोधव्वो ।
महबन्धं चालीसं सिद्धंततयं अहं वंदे ॥”

‘धवलशास्त्र सत्तर सहस्र प्रमाण है, जयधवल साठ हजार प्रमाण है तथा ‘महाबन्ध’ चालीस हजार प्रमाण है। इन सिद्धान्तशास्त्रत्रय की मैं वन्दना करता हूँ।’

इन्द्रनन्दि ने ‘महाबन्ध’ को तीस हजार^१ कहा और ब्रह्म हेमचन्द्र चालीस हजार श्लोक^२प्रमाण बताते हैं। इस मतभेद का कारण यह विदित होता है कि सम्भवतः इन्द्रनन्दि ने ‘महाबन्ध’ में उपलब्ध अक्षरों की गणनानुसार अपनी संख्या निर्धारित की, ब्रह्म हेमचन्द्र ने ‘महाबन्ध’ के संक्षिप्त किये सांकेतिक अक्षरों को, सम्भवतः पूर्ण मानकर गणना की। ‘ओरात्तियसरीर’ को ‘महाबन्ध’ में ‘ओरा०’ लिखा है। इसे इन्द्रनन्दि ने दो अक्षर माने और ब्रह्म हेमचन्द्र ने सात अक्षर रूप गिना। समस्त ग्रन्थ में पुनः-पुनः प्रकृति आदि के नामों की गणना हुई है, इस कारण भूतबलि स्वामी ने सांकेतिक संक्षिप्त शैली का आश्रय लिया। अतः इन्द्रनन्दि और हेमचन्द्र की गणना में भिन्नता तात्त्विक भिन्नता नहीं है।

महाधवल—जैन समाज में ‘महाबन्ध’ शास्त्र ‘महाधवल’ जी के नाम से विख्यात है। ‘महाबन्ध’ नाम को पढ़कर कुछ लोग तो भ्रम में पड़ेंगे। यथार्थ में ग्रन्थ का नाम ‘महाबन्ध’ के अनुभागबन्ध खण्ड के अन्त की प्रशस्ति से प्रमाणित होता है। वहाँ लिखा है—

“सकलधरित्री-विनुत-प्रकटितमधीशे मल्लिकव्वे वेरिसि सत्पुण्याकर-‘महाबन्ध’-पुस्तकं श्रीमाघनंदिमुनि-पतिगित्तलु ।”

यह ‘महाबन्ध’ भूतबलि स्वामी-द्वारा रचित है, इस बात का निश्चय धवला टीका (सिवनी प्रति, पृ. १४३७) के इस अवतरण से होता है—

“जं तं बंधविहाणं तं चउव्विहं । पयडिबंधो, ड्ढिदिबंधो, अणुभागबंधो, पदेसबंधो चेदि । एदेसिं चदुण्हं बंधाणं भूदबलिभडारएण महाबंधे सप्पवंचेण लिहिदं ति अम्हेहि ति अम्हेहि एत्थ ण लिहिदं ।”

‘धवला’ टीका ‘महाबन्ध’शास्त्र के रचयिता के रूप में भूतबलि का नाम बताती है। ‘महाबन्ध’ नामका परिज्ञान पूर्वोक्त अनुभागबन्ध की प्रशस्ति से होता है; अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि इस ‘महाबन्ध’ के निर्माता भूतबलि स्वामी हैं। इसी ‘महाबन्ध’ की ‘महाधवल’ के नाम से ख्याति है। संवत् १६१७ तक ‘महाधवल’ की प्रसिद्धि विदित होने का प्रमाण उपलब्ध है। कारंजा के प्राचीन शास्त्र भण्डार से प्रतिक्रमण नाम की एक पोथी है। उसमें यह उल्लेख पाया जाता है—

“धवलो हि महाधवलो जयधवलो विजयधवलश्च ।

ग्रन्थाःश्रीमद्भिरमी प्रोक्ताः कविधातरस्तस्मात् (?) ॥१३॥

१. प्रविरच्य महाबन्धाहयं ततः षष्ठकं खण्डम् । त्रिंशत्सहस्रसूत्रं व्यरचयदसौ महात्मा ॥ —इन्द्र. श्रुता. १३६ ।
२. समस्त महाबन्ध गद्यमय रचना है। अनुष्टुप् छन्द के ३२ अक्षरों को एक श्लोक का माप मानकर समस्त ग्रन्थ की गणना की गयी। इसे ही श्लोकों के नाम से कहा जाता है। ‘महाबन्ध’ सूत्र छन्दोबद्ध रचना नहीं है।

धवल, जयधवल तथा 'महाधवल' के साथ 'विजयधवल' का नवीन उल्लेख है जो अनुसन्धान का विषय है। आगे लिखा है—

“तत्पट्टे धरसेनकस्समभव सिद्धान्तगः संशुभः (?)
तत्पट्टे खलु वीरसेनमुनिपो यैश्चित्रकूटे परे।
येलाचार्यसमीगं कृततरं सिद्धान्तमल्पस्य ये
वाटे चैत्यवरे द्विसप्ततिमति सिद्धाचलं चक्रिरे ॥१४॥”

संवत् १६३७ आश्विनमासे कृष्ण पक्षे अमावस्यातिथी शनिवासे शिवदासेन लिखितम्।

कवि वृन्दावनजी ने 'महाधवल' नाम प्रयुक्त किया है।^१

पण्डितप्रवर टोडरमलजी की गोम्मतसार कर्मकाण्ड की टीका में भी 'महाधवल' नाम आया है। “तहाँ गुणस्थान विषै पक्षान्तर जो महाधवला का दूसरा नाम कषायप्राभृत (?) ताका कर्ता यतिवृषभाचार्य ताके अनुसार ताकरि अनुक्रम तें कहिए हैं।” 'कषाय प्राभृत' पर वीरसेनाचार्य ने जो 'जयधवला' टीका लिखी है, उससे विदित होता है कि कषायपाहुड के गाथा सूत्रों पर यतिवृषभ आचार्य ने चूर्णिसूत्र बनाये थे। इसे पण्डित टोडरमलजी ने 'महाधवल' ग्रन्थ रूप में कह दिया। प्रतीत होता है, सिद्धान्तग्रन्थों का साक्षात्कार न होने के कारण 'कषाय-प्राभृत' का नामान्तर 'महाधवल' लिखा गया।

'महाधवल' नाम प्रचार का कारण

यहाँ यह विचार उत्पन्न होता है कि 'महाबन्ध' शास्त्र का नाम 'महाधवल' प्रचलित होने का क्या कारण है? इस सम्बन्ध में यह विचार उचित जँचता है कि 'महाबन्ध' में भूतबलि स्वामी ने अपने प्रतिपाद्य विषय का स्वयं अत्यन्त विशद तथा स्पष्टतापूर्वक प्रतिपादन किया है। इसी कारण वीरसेन आचार्य अपनी 'धवला' टीका में लिखते हैं—इन चार बन्धों का विस्तृत विवेचन भूतबलि भट्टारक ने 'महाबन्ध' में किया है, अतएव हम यहाँ इस सम्बन्ध में कुछ नहीं लिखते। 'महाबन्ध' के विशेषण रूप में 'महाधवल' शब्द का प्रयोग अनुचित नहीं दिखता। यह भी सम्भव दिखता है कि विशेष्य के स्थान में विशेषण ने ही लोकदृष्टि में प्राधान्य प्राप्त कर लिया हो। यह भी प्रतीत होता है कि परम्परा शिष्य सदृश वीरसेन, जिनसेन स्वामी ने अपनी सिद्धान्त शास्त्र की टीकाओं के नाम धवला, जयधवला रखे, तब स्वयं स्पष्ट प्रतिपादन करनेवाले गुरुदेव भूतबलि की महिमापूर्ण कृति को भक्ति तथा विशिष्ट अनुरागवश 'महाधवल' कहना प्रारम्भ कर दिया गया होगा।

'महाबन्ध' के 'महाधवल' नाम के बारे में सन् १९४५ में, चारित्रचक्रवर्ती आचार्य श्री १०८ शान्तिसागर महाराज के समक्ष चर्चा करने का अवसर आया था। इस ग्रन्थ की प्रस्तुत हिन्दी टीका का आचार्य महाराज

- अग्रणीपूर्व के, पाँचवें वस्तु का, महाकरमप्रकृति नाम चौथा।
इस पराभृत का, ज्ञान तिनके रहा, यहाँ लग अंग का, अंश तौ था।
सो पराभृत को भूतबलि पुष्परद, दोय मुनि को सुगुरु ने पढ़ाया।
तास अनुसार, षट्खण्ड के सूत्र को, बाँधि के पुस्तकों में मढ़ाया ॥४६॥
फिर तिसी सूत्र को, और मुनिवृन्द पढ़ि, रची विस्तार सों तासु टीका।
धवल महाधवल जयधवल आदिक सु, सिद्धान्तवृत्तान्त परमान टीका॥
तिरुन हि सिद्धान्त को, नेमिचन्द्रादि आचार्य, अभ्यास करिके पुनीता।
रचे गोमटसारादि बहुशास्त्र यह, प्रथम सिद्धान्त-उत्पत्ति-गीता ॥४७॥

—श्रीप्रवचनसार-परमागम, कवि वृन्दावन, पृ. ६, ७।

- एदेसिं चदुण्हं बंधाणं विहाणं भूदबलिभडारएण महाबन्धे सप्पवंचेण तिहिदंति, अन्हेहि एत्थ ण तिहिदं”—ध.टी., सि. १४३७।

ध्यानपूर्वक स्वाध्याय कर चुके थे, अतः ग्रन्थराज से प्राप्त परिचय के आधार पर आचार्य महाराज ने कहा था—सचमुच में यह ग्रन्थ 'महाधवल' है। बन्ध पर स्पष्टतापूर्वक प्रतिपादन करनेवाला शास्त्र यथार्थ में महान् है। बन्ध का ज्ञान होने पर ही मोक्ष का बराबर ज्ञान होता है। 'समयसार' पहले नहीं चाहिए। पहले 'महाबन्ध' चाहिए। पहले तोचो हम क्यों दुःख में पड़े हैं, क्यों नीचे हैं? तीन सौ त्रेसठ पाखण्ड मतवाले भी पूर्ण सुख चाहते हैं, किन्तु मिलता नहीं। हमें कर्मक्षय का मार्ग ढूँढ़ना है। भगवान् ने मोक्ष जाने की सड़क बतायी है। चलोगे तो मोक्ष मिलेगा, इसमें शंका क्या?" यह 'महाबन्ध' शास्त्र वस्तुतः 'महाधवल' है। इस विषय को स्पष्ट करने के लिए आचार्य महाराज ने एक विद्वान् ब्राह्मण पुत्र की कथा सुनायी थी, जिसको उसके पिता ने, जो राजपण्डित था, अपने जीवन काल में अर्थकरी विद्या नहीं सिखायी थी; केवल इतनी बात सिखायी थी कि अमुक कार्य करने से अमुक प्रकार का बन्ध होता है। बन्धशास्त्र में पुत्र को प्रवीण करने के अनन्तर पिता की मृत्यु हो गयी। अब पितृविहीन विप्रपुत्र को अपनी आजीविका का कोई मार्ग नहीं सूझा। अतः वह धनप्राप्ति निमित्त राजा के यहाँ चोरी करने पहुँचा। उसने रत्न, सुवर्णादि बहुमूल्य सामग्री हाथ में ली तो पिता के द्वारा सिखाया गया पाठ उसे स्मरण आ गया कि इस कार्य के द्वारा अमुक प्रकार का दुःखदायी बन्ध होता है। अतः बन्ध के भय से उसने राजाकोष का कोई भी पदार्थ नहीं चुराया। उसे वापिस निराश लौटते समय मार्ग में भूसा मिला। भूसा के लेने में क्या दोष है, यह पिता ने नहीं सिखाया था, इसलिए वह भूसा का ही गड्ढा बाँधकर साथ ले चला। पहरेदारों ने उसे पकड़कर राजा के समक्ष उपस्थित किया। राजा ने पूछा—तुमने स्वर्ण, रत्नादि को छोड़कर भूसा की चोरी क्यों पसन्द की? तब ब्राह्मणपुत्र ने बताया कि मेरे पिताजी ने अपने जीवन में मुझे केवल बन्ध का शास्त्र पढ़ाया था। उसमें भूसा को लेने में दोष का कोई उल्लेख न पाकर मैंने उसे ही चुराना निर्दोष समझा। अपने राजपुरोहित के पुत्र को इतना अधिक पापभीरु देख राजा प्रभावित हुआ और उसने उसको अत्यन्त विश्वासपूर्ण उच्च पद देकर निराकुल कर दिया।" इस कथा को सुनाते हुए आचार्य श्री ने कहा—बन्धका ज्ञान होने से जीव पाप से बचता है, इससे कर्मों की निर्जरा भी होती है। बन्धका वर्णन पढ़ने से मोक्ष का ज्ञान होता है। बन्धका वर्णन करनेवाला यह शास्त्र वास्तव में 'महाधवल' है। इससे बहुत विशुद्धता होती है।"

'महाबन्ध' का अध्ययन बुद्धि का विलास या बौद्धिक व्यायाम की सामग्री मात्र उपस्थित करता है, यह धारणा अयथार्थ है। इस आगम रूप महान् शास्त्र से आत्मा का वास्तविक कल्याणप्रद अमृत का निर्मल निर्रंज प्रवाहित होता है। उसमें निमग्न होनेवाला मुमुक्षु महान् शान्ति तथा आह्लाद को प्राप्त करता है। उसके असंख्यात गुणश्रेणी रूप कर्मों की निर्जरा भी होती है।

आचार्य यतिवृषभने 'तिलोयपण्यति' में कहा है कि परमागम के अध्ययन-द्वारा अनेक लाभ होते हैं। उससे 'अण्णाणस्स विणासं' अज्ञान का विनाश होता है; 'णाणदिवायरस्स उप्पत्ती'—ज्ञान सूर्य की प्राप्ति होती है तथा 'पडिसमयमसंखेज्ज-गुणसेट्ठि-कम्मणिज्जरणं'—प्रतिक्षण असंख्यात गुणश्रेणी रूप कर्मों की निर्जरा होती है। (१, गाथा ३६, ३७)

इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि 'महाबन्ध' का परिशीलन विचारों को, बुद्धि को एवं आत्मा को धवल ही नहीं, महाधवल बनाता है। इस दृष्टि ने 'महाधवल' इस नाम के प्रचार में भी सहायता या प्रेरणा प्रदान की होगी।

'महाबन्ध' का परिशीलन तथा मनन करते समय यह बात समझ में आयी कि जब तक मनोवृत्ति पवित्र तथा निराकुल न हो, तब तक ग्रन्थ का पूर्वापर गम्भीर विचार नहीं हो पाता। महाधवल मनोवृत्तिपूर्वक 'महाबन्ध' का रसास्वादन किया जा सकता है, अतः इस मनोवृत्ति को लक्ष्य में रखकर भी यह 'महाधवल' नाम प्रचलित हो गया प्रतीत होता है। चारित्र्यचक्रवर्ती, मुनीन्द्र शान्तिसागर महाराज ने जो यह कहा था कि सचमुच में 'यह ग्रन्थ महाधवल है', यह अक्षरशः यथार्थ है।

‘महाबन्ध’ के अवतरण का इतिहास

कवि की कल्पना या विचारों के द्वारा जैसे काव्य की रचना होती है, उसी प्रकार यह ‘महाबन्ध’-शास्त्र भूतबलि स्वामी के व्यक्तिगत अनुभव, विचार या कल्पनाओं की साकार मूर्ति नहीं है। इस ग्रन्थ का प्रमेय सर्वज्ञ भगवान् महावीर स्वामी ने अपनी दिव्यध्वनि-द्वारा प्रकाशित किया था।^१ श्रावण कृष्णा प्रतिपदा के प्रभात में विपुलाचल पर्वत पर सर्वज्ञ महावीर तीर्थंकर की कल्याणकारिणी धर्म-देशना हुई थी। उसे गौतमगोत्री चतुर्विध निर्मल ज्ञानसम्पन्न, सम्पूर्ण दुःश्रुति में पारंगत इन्द्रभूति ब्राह्मण ने वर्धमान भगवान् के पादमूल में उपस्थित हो सुना और अवधारण किया था। अनन्तर गौतम स्वामी ने^२ उस वाणी की द्वादशांग तथा चतुर्दश पूर्वरूप ग्रन्थात्मक रचना एक मुहूर्त में की ‘एककेण चैव मुहुत्तेण कमेण रयणा कदा’। उत्तरपुराण में गुणभद्र स्वामी ने कहा है कि अंगों की रचना पूर्वरात्रि में की गयी थी और पूर्वी की रचना रात्रि के अन्तिम भाग में की गयी थी:—‘अंगानां ग्रन्थसन्दर्भं पूर्वरात्रे व्यधाम्यहम्। पूर्वाणां पश्चिमे भागे...’ (७४-३७९, ३७२) इस सम्बन्ध में भगवान् महावीर को अर्थकर्ता कहा गया है और गौतम स्वामी को ग्रन्थकर्ता। गौतम ने द्रव्यश्रुत की रचना की थी। तिलोपपण्णात्तिकार का कथन है—

“इय मूलतंतकत्ता सिरिवीरो इंदमूदिविप्पवरो।

उवतंते कत्तारो अणुतंते सेसआइरया ॥” १, ८०

‘इस प्रकार श्री वीर भगवान् मूलतन्त्रकर्ता, विप्रशिरोमणि इन्द्रभूति उपतन्त्रकर्ता तथा शेष आचार्य अनुतन्त्रकर्ता हैं।’

गणधर का व्यक्तित्व—इस द्वादशांग रूप परमागम का प्रमेय सर्वज्ञ भगवान् वर्धमान जिनेन्द्र की दिव्यध्वनि से प्राप्त होने से वह प्रमाण रूप है। गणधर का भी व्यक्तित्व लोकोत्तर था। गौतम गणधर के विषय में ‘जयधवला’ में लिखे गये ये शब्द ध्यान देने योग्य हैं :—

जो आर्य क्षेत्र में उत्पन्न हुए हैं, मति, श्रुत, अवधि और मनःपर्यय—इन चार निर्मल ज्ञानों से सम्पन्न हैं, जिन्होंने दीप्त, उग्र और तप्त तप को तपा है, जो अणिमा आदि आठ प्रकार की वैक्रियिक लब्धियों से सम्पन्न हैं, जिनका सर्वार्थसिद्धि में निवास करनेवाले देवों से अनन्तगुणा बल है, जो एक मुहूर्त में बारह अंगों के अर्थ और द्वादशांग रूप ग्रन्थों के स्मरण और पाठ करने में समर्थ हैं, जो अपने हाथरूपी पात्र में दी गयी खीर को अमृत रूप में परिवर्तित करने में या उसे अक्षय बनाने में समर्थ हैं, जिन्हें आहार और स्थान के विषय में अक्षीण ऋद्धि प्राप्त है, जिन्होंने सर्वावधिज्ञान से समस्त पुद्गल द्रव्य का साक्षात्कार कर लिया है, जिन्होंने अपने तप के बल से विपुलमति मनःपर्यय ज्ञान उत्पन्न कर लिया है, जो सप्त प्रकार के भय से रहित हैं, जिन्होंने क्रोध, मान, माया तथा लोभ रूप कषायों का क्षय किया है, जिन्होंने पाँच इन्द्रियों को जीत लिया है, जिन्होंने मन, वचन तथा काय रूपी तीन दण्डों को भग्न कर दिया है, जो छहकायिक जीवों की दया पालने में तत्पर हैं, जिन्होंने कुलमद आदि अष्ट मदों को नष्ट कर दिया है, जो क्षमा आदि दस धर्मों में निरन्तर उद्यत हैं, जो पाँच समिति और तीन गुप्ति रूप अष्टप्रवचन मातृकाओं का पालन करते हैं, जिन्होंने क्षुधादि बाईस परीषहों को जीत लिया है और जिनका सत्य ही अलंकार है—“सच्चालंकारस्स”;^३ ऐसे आर्य इन्द्रभूति के लिए उन महावीर भट्टारक ने अर्थ का उपदेश दिया। (जयधवला टीका भाग १, पृ. ८३, ७४)। ऐसी महनीय विभूति गुरु गौतम गणधर रचित होने से समस्त द्वादशांगवाणी पूज्य तथा विश्वसनीय है।

१. वासस्स पढममासे सावणणामग्गि बहुलपडिवाए।

अभिजीणकखत्तम्मि य उप्पत्ती धम्मतिथ्यस्स॥—ति.प. १।६६

२. पुणो तेण्णिंदभूतिणा भावसुदपज्जयपरिणदेण बारहंगाणं चोइसपुव्वाणं च गंथाणमेवकेण चैव मुहुत्तेण कमेण रयणा कदा। तदो भावसुदस्य अत्यपदाणं च तित्थयरो कत्ता। तित्थयरादो सुदपज्जाएण गोदमो परिणदो ति दव्वसुदस्स गोदमो कत्ता। तत्तो गंधरवणा जादेत्ति।—ध. टी. १, ६५

यह द्वादशांग समुद्र के समान विशाल तथा गम्भीर है। सम्पूर्ण द्वादशांग की 'मध्यमपद' के रूप में गणना करने पर जो संख्या प्राप्त होती है, उसे कविवर धानतरायजी इस प्रकार बताते हैं—

“एक सौ बारह कोडि बखानो। लाख चौरासी ऊपर जानो ॥
ठावनसहस पंच अधिकानो। द्वादश अंग सर्व पद मानो ॥”

सम्पूर्ण श्रुतज्ञान में पदों की संख्या ११२,८४,५८००,५ होती है। बारह अंगों में निबद्ध अक्षरों के अतिरिक्त अक्षरों का प्रमाण ८०१०८१७५ है। इनकी अनुष्टुप् छन्दरूप गणना करें, तो २५०३३८० $\frac{१५}{३३}$ श्लोकों का प्रमाण होता है।

प्रथम अंग का नाम आचारांग है। इसमें अठारह हजार पद कहे गये हैं। ये मध्यम पद रूप हैं। एक मध्यम पद में कितने श्लोक होंगे, इसके विषय में कहा है—

“कोडि इक्कावन आठ हि लाखं। सहस चुरासी छह सौ भाखं॥
साढ़े इक्कीस श्लोक बताये। एक एक पद के ये गाये ॥”

इन श्लोकों की संख्या से आचारांग के १८००० पदों का गुणा करने के अनन्तर आचारांग के अपुनरुक्त अक्षर विशिष्ट श्लोकों की प्राप्ति होगी। जिस 'व्याख्याप्रज्ञप्ति' नामक पंचम अंग का उपदेश धरसेन आचार्य ने भूतबलि पुष्पदन्त को दिया था और जो इस ग्रन्थराज के बीज स्वरूप है, उसमें पदों की संख्या इस प्रकार कही है—

“पंचम व्याख्याप्रगपति दरसं। दोय लाख अद्दाइस सरसं।”

धरसेन गुरु द्वारा दृष्टिवाद नामक बारहवें अंग के चौथे पूर्व अग्रायणी सम्बन्धी उपदेश दिया गया था। उस दृष्टिवाद का भी बड़ा विशाल रूप है।

“द्वादस दृष्टिवाद पनभेदं, एक सौ आठ कोडिपन बेदं।
अडसठ लाख सहस छप्पन हैं, सहित पंच पद भिथ्या हन हैं।”

'व्याख्याप्रज्ञप्ति' अंग में जिनेन्द्र भगवान् के समीप में गणधरदेव से जो साठ हजार प्रश्न किये गये थे, उनका वर्णन है। 'दृष्टिवाद' में तीन सौ तिरैसठ कुवादों का वर्णन तथा निराकरण किया गया है।^१ इस अंग के पूर्वगत भेद का उपभेद अग्रायणीपूर्व है। उसमें सुनय, दुर्नय, पंचास्तिकाय, षड्द्रव्य, सप्ततत्त्व, नवपदार्थों आदि का वर्णन किया गया है।^३ इस पूर्व के विषय में श्रुतस्कन्ध विधान में इस प्रकार कथन आया है—षण्णवति—लक्षसुपदं मुनि-मानसरत्न-कांचनाभरणम्, अंगप्रार्थनिरूपकमर्च्यं चाग्रायणीयमिदम् ॥ द्वादशांग वाणी में दिव्यध्वनि का अधिक से अधिक सार संगृहीत रहता है। सर्वज्ञ भगवान् ने विश्व के समस्त तत्त्वों का प्रतिपादन किया था, इस कारण द्वादशांग वाणी में भी सभी विषयों का विशद प्रतिपादन किया गया है। जब रत्नत्रय धर्म की विशुद्ध साधना होती थी, तब पवित्र आत्माओं में चमत्कारी ज्ञान की ज्योति जगती थी। अब राग-द्वेष-मोह के कारण आत्मा की मलिनता बढ़ जाने से महान् ज्ञानों की उपलब्धि की बात तो दूर है, वह चर्चा भी चकित कर देती है।

द्वादशांग वाणी की मर्यादा—द्वादशांग वाणी के अत्यन्त विस्तृत विवेचन के होते हुए भी समस्त पदार्थ का प्रतिपादन उसके द्वारा नहीं हो सका। कारण—

१. षष्टिसहस्राणि भगवदहंतीर्थकरसन्निधौ गणधरदेवप्रश्नवाक्यानि प्रज्ञाप्यन्ते कथ्यन्ते यस्यां सा व्याख्याप्रज्ञप्ति नाम।
२. द्वादशमङ्गं दृष्टिवाद इति। दृष्टिशतानां त्रयाणां त्रिषष्ट्युत्तराणां प्ररूपणं निग्रहश्च दृष्टिवादे क्रियते।—त. रा., पृ. ५१।
३. अग्रस्य द्वादशाङ्गेषु प्रधानभूतस्य वस्तुनः अयनं ज्ञानं अग्रायणं तत्प्रयोजनं अग्रायणीयम्। तच्च सप्तशतसुनयदुर्नय-पञ्चास्तिकायषड्द्रव्यसप्ततत्त्व-नवपदार्थादीन् वर्णयति।—गो. जीव. जी., गा. ३६५, पृ. ७७८

“पण्णवणिज्जा भावा अणंतभागो दु अणभिलप्पाणं ।

पण्णवणिज्जाणं पुण अणंतभागो सुदणिवद्धो ॥”—गो. जी., गा. ३३४

पदार्थों का बहुभाग वाणी के परे है। वह केवलज्ञान गोचर है। अनिर्वचनीय पदार्थों का अनन्तवाँ भाग सर्वज्ञवाणी के गोचर है। इसका भी अनन्तवाँ भाग श्रुतरूप में निबद्ध किया गया है। श्रुतकेवली के ज्ञान के अगोचर पदार्थ का निरूपण दिव्यध्वनि में होता है। उस दिव्यध्वनि के भी अगोचर पदार्थ केवलज्ञान के विषय होते हैं।^१

यह द्वादशांग वेद है, कारण यह किसी प्रकार के दोष से दूषित नहीं है। हिंसा का वर्णन करनेवाला वेद नहीं है। उसे तो कृतान्त (यम) की वाणी कहना चाहिए। महर्षि जिनसेन का कथन है—

“श्रुतं सुविहितं वेदो द्वादशाङ्गमकल्मषम् ।

हिंसोपदेशि यद्वाक्यं न वेदोऽसौ कृतान्तवाक् ॥”—महापु. ३६,२२

गुरु-परम्परा—गौतमस्वामी ने द्वादशांग ग्रन्थ का सुधर्माचार्य को व्याख्यान किया। धवलाटीका में सुधर्माचार्य के स्थान में लोहाचार्य का नाम ग्रहण किया गया है। कुछ काल के अनन्तर गौतमस्वामी केवली हुए।^२ उन्होंने बारह वर्ष पर्यन्त विहार करके निर्वाण प्राप्त किया। उसी दिन सुधर्माचार्य ने जम्बूस्वामी आदि अनेक आचार्यों को द्वादशांग का व्याख्यान किया और केवलज्ञान प्राप्त किया। इस प्रकार महावीर भगवान् के निर्वाण के बाद गौतमस्वामी, सुधर्माचार्य तथा जम्बूस्वामी—ये तीन सकलश्रुत के धारक हुए; पश्चात् केवलज्ञान-लक्ष्मी के अधिपति बने। परिपाटी क्रम से ये तीन सकलश्रुत के धारक कहे गये हैं^३ और अपरिपाटी क्रम से सकलश्रुत के ज्ञाता संख्यात हजार हुए।^४ जयधवला में बताया है कि सुधर्माचार्य ने अनेक आचार्यों को द्वादशांग का व्याख्यान किया। इसे ही धवलाटीका में स्पष्ट करते हुए कहा है कि अपरिपाटी की अपेक्षा संख्यात हजार श्रुतकेवली हुए। जम्बूस्वामी ने विष्णु आदि अनेक आचार्यों को द्वादशांग का व्याख्यान किया।

सुधर्माचार्य ने बारह वर्ष विहार किया और जम्बूस्वामी ने अड़तीस वर्ष विहार किया, पश्चात् जम्बूस्वामी ने मोक्ष प्राप्त किया। जम्बूस्वामी के बारे में जयधवलाकार लिखते हैं—‘एसो एत्थोसप्पिणीए अतिमकेवली।’—ये इस अवसर्पिणी काल के अन्तिम केवली हुए। इस कथन से यही अर्थ निकाला जाता है कि जम्बूस्वामी के निर्वाण के पश्चात् अन्य महापुरुष निर्वाण को नहीं गये। ‘तिलोयपण्णत्ति’ में लिखा है कि जम्बूस्वामी के निर्वाण जाने के पश्चात् अनुबद्ध केवली नहीं हुए।

“तम्मि कदकम्मणासे जंबूसामित्ति केवली जादो ।

तम्मि सिद्धिं पत्ते केवलिणो णत्थि अणुबद्धा ॥”—४, १४७७

गौतमस्वामी, सुधर्माचार्य तथा जम्बूस्वामी—ये तीन अनुबद्ध-क्रमबद्ध परिपाटीक्रम युक्त (In

१. श्रुतकेवलिनामपि अगोचरार्थप्रतिपादनशक्तिर्दिव्यध्वनेरस्ति। तदिव्यध्वनेरपि अगोचरजीवाद्यर्थ ग्रहणशक्तिः केवलज्ञानेऽस्तीत्यर्थः—गो. जीव., संस्कृतटीका, पृ. ७३१

२. ‘तेण गोदमेण दुविहमवि सुदणाणं लोहज्जस्स संचारिदं।’—ध. टी., १,६५
तदो तेण गोअभुगोतेण इंदभूदिणा सुहमा (म्मा) इरियस्स गंथो वक्खाणिदो।—ज. ध., १,८४

३. ‘परिवाडिमस्सिदूण एदे तिपिण वि सयलसुदधारया भणिया।
अपरिवाडीए पुण सयलसुदधारया संखेज्जसहस्सा ॥’—ध. टी., १,६५

४. तदिवसे चव सुहम्माइरियो जंबूसामियादीणमणेयाणमाइरियाणं वक्खाणिददुवालसंगो घाइचउक्कक्खएण केवली जादो।
—ज. ध., १,८४

“तदिवसे चव जंबूसामिभडारओ विट्टु (विण्णु) आइरियादीणमणेयाणं वक्खाणिददुवालसंगो केवली जादो ॥”

—ध. टी., १,६५

succession) केवली हुए। अननुबद्ध-अक्रमपूर्वक^१ कैवल्य उपार्जन करनेवाले अन्य भी हुए हैं, जिनमें अन्तिम केवल श्रीधरमुनि ने कुण्डलगिरि से मुक्ति प्राप्त की।^२

“कुण्डलगिरिम्मि चरिमो केवलणाणीसु सिरिधरो सिद्धो ।

चारणारिसीसु चरिमो सुपासचंदाभिधाणी य॥”—ति. प. ४, १४७६

तीन केवलियों में बासठ वर्ष व्यतीत हुए और विष्णु, नन्दिमित्र, अपराजित, गोवर्धन तथा भद्रबाहु इन पाँच श्रुतकेवलियों में सौ वर्ष का समय पूर्ण हुआ। इन पाँच श्रुतकेवलियों की गणना भी परिपाटी क्रम-अनुबद्धरूप से की गयी, जो इस बात को सूचित करती है कि यहाँ अपरिपाटी क्रम की अपेक्षा नहीं ली गयी है। इन पाँच श्रुतकेवलियों में प्रथम श्रुतकेवली के नाम के विषय में ‘तिलोयपण्णत्ति’ तथा ‘उत्तरपुराण’ में भिन्न कथन आया है। उक्त दोनों ग्रन्थों में ‘विष्णु’ के स्थान पर ‘नन्दि’ का कथन किया गया है। धवला, जयधवला, हरिवंशपुराण, श्रुतावतार में विष्णु नाम दिया गया है। ये पाँच महापुरुष पूर्ण श्रुतज्ञान के पारगामी हुए। इनके अनन्तर अनुक्रम से एकादश महामुनि ग्यारह अंग और दश पूर्व के पाठी हुए। निम्नलिखित इन एकादश मुनीश्वरों का काल एक सौ तिरासी वर्ष कहा गया है—१. विशाखाचार्य, २. प्रोष्ठिल, ३. क्षत्रिय, ४. जय, ५. नागसेन, ६. सिद्धार्थ, ७. धृतिषेण, ८. विजय, ९. बुद्धिल, १०. गंगदेव, ११. धर्मसेन। ये ग्यारह नाम गिनाये गये हैं। इन नामों के विषय में उत्तरपुराण, धवला, हरिवंशपुराण एकमत हैं, किन्तु ‘तिलोयपण्णत्ति’ तथा ‘श्रुतावतार’ में विशाखाचार्य की जगह क्रमशः विशाख तथा विशाखदत्त नाम आया है। बुद्धिल के स्थान पर श्रुतावतार में बुद्धिमान शब्द प्रयुक्त हुआ है। ‘तिलोयपण्णत्ति’ में धर्मसेन की जगह सुधर्म नाम आया है। इन मुनियों के विषय में आचार्य गुणभद्र ने लिखा है कि ये—“द्वादशांगार्थ-कुशला दशपूर्वधराश्च ते।” (उ. पु. पर्व ७६, श्लोक ५२३)—द्वादशांग में कुशल तथा दश पूर्वधर थे।

इनके अनन्तर एकादशांग के ज्ञाता नक्षत्र, जयपाल, पांडु, ध्रुवसेन और कंस ये पाँच महापुरुष दो सौ बीस वर्ष में हुए। इन नामों के विषय में तिलोयपण्णत्ति, उत्तरपुराण तथा धवला एकमत हैं। जयधवला में ‘जयपाल’ के स्थान में ‘जसपाल’ तथा हरिवंशपुराण में ‘यशःपाल’ नाम आये हैं। श्रुतावतार में ‘ध्रुवसेन’ की जगह ‘द्रुमसेन’ नाम आया है।

इनके पश्चात् आचारांग के ज्ञाता सुमद्र, यशोभद्र, यशोबाहु और लोहाचार्य एक सौ अठारह वर्ष में हुए। इन नामों में श्रुतावतार में इतनी भिन्नता है कि ‘यशोभद्र’ की जगह ‘अभयभद्र’ तथा ‘यशोबाहु’ की जगह ‘जयबाहु’ नाम प्रयुक्त हुए हैं। शेष ग्रन्थकार भिन्नमत नहीं हैं।

महावीर भगवान् के निर्वाण के पश्चात् अनुबद्ध क्रम से उपर्युक्त अट्ठाईस महाज्ञानी मुनीन्द्र छह सौ तिरासी वर्ष में हुए थे। क्रमबद्ध परम्परा को ध्यान में रखकर ही वीर निर्वाण के पश्चात् होनेवाले महापुरुषों का कथन किया गया है।

‘श्रुतावतार’ कथा में लोहाचार्य के पश्चात् विनयधर, श्रीदत्त, शिवदत्त, अर्हदत्त, अर्हदुबलि तथा

१. जयधवलाकारने परिपाटीक्रमका पर्यायवाची ‘अतुट्टसंताणेण’ (१, ८५) जिसकी संतान या परम्परा अत्रुदित है, ऐसा कहा है।

२. अपने ‘जैन साहित्य और इतिहास’ के पृ. १४, १५ पर श्री नाथूरामजी प्रेमी लिखते हैं—“भगवान् महावीर के बाद तीन ही केवलज्ञानी हुए हैं, जिनमें जम्बूस्वामी अन्तिम थे। ऐसी दशामें यह समझ में नहीं आता, कि यहाँ श्रीधर को क्यों अन्तिम केवली बतलाया और ये कौन थे तथा कब हुए हैं। शायद ये अन्तःकृत केवली हों।” इस शंका का निवारण पूर्वोक्त वर्णन से हो जाता है, कारण श्रीधर मुनि अननुबद्ध अन्तिम केवली हुए हैं, जिनका निर्वाणस्थल कुण्डलगिरि है। इनको अन्तःकृत केवली मानने में कोई आगम का आधार नहीं है। सामान्यतया नन्दी, नन्दिमित्र, अपराजित, गोवर्धन तथा भद्रबाहु—ये पाँच श्रुतकेवली कहे गये हैं, किन्तु धवलाटीका से ज्ञात होता है कि अपरिपाटी क्रम की अपेक्षा ये द्वादशांग के पाठी संख्यात हजार थे। ‘जयधवला’ से भी इस अधिक संख्या की पुष्टि होती है। यही युक्ति केवलियों के विषय में लगेगी। शास्त्रों में अनुबद्धकेवली तथा श्रुतकेवली की मुख्यता से प्रतिपादन किया गया है।

माघनन्दि, इन छह महापुरुषों को अंगपूर्व के एकदेश के ज्ञाता कहा है। अन्य ग्रन्थों में ये नाम नहीं दिये गये हैं। सम्भवतः ये नाम अनुबद्ध परम्परा के क्रम से और भी अक्रमबद्ध परम्परावाले मुनीश्वर रहे होंगे।

अंग-पूर्वों के एकदेश ज्ञाता- जयधवला टीका में लिखा है कि लोहाचार्य के पश्चात् अंग और पूर्वों का एकदेश ज्ञान आचार्य परम्परा से आकर गुणधर आचार्य को प्राप्त हुआ था। जयधवलाकार के ये शब्द ध्यान देने योग्य हैं—“तदो अंग-पुष्पाणमेगदेसो चव आइरिय-परंपराए आगंतूण गुणहराइरियं संपत्तो” (जय. ध. भाग १, पृ. ८७)। धवलाटीका में इस सम्बन्ध में लिखा है—, “तदो सव्वेसिं-भंग-पुष्पाणमेगदेसो आइरियपरंपराए आगच्छमाणो धरसेणाइरियं संपत्तो”—(१, ६७)—लोहार्य के पश्चात् आचार्य परम्परा से सम्पूर्ण अंग और पूर्वों का एकदेशज्ञान धरसेन आचार्य को प्राप्त हुआ। आचार्य धरसेन अथवा गुणधर स्वामी भी विनयधर, श्रीदत्त, शिवदत्त, अर्हदत्त, अर्हद्वलि तथा माघनन्दि मुनीश्वरों के समान अंग-पूर्व के एकदेश के ज्ञानी थे। ये नाम सम्भवतः क्रमबद्ध परम्परागत न होने से हरिवंशपुराण, उत्तरपुराण, तिलोयपण्णत्ति आदि ग्रन्थों में नहीं पाये जाते हैं। प्रतीत होता है कि इन मुनीश्वरों के समय में कोई विशेष उल्लेखनीय अन्तर न रहने से इनके काल का पृथक् रूप से वर्णन नहीं पाया जाता है। आचारांग के पाठी आचार्य वीरनिर्वाण के पश्चात् छह सौ तिरासी वर्ष तक हुए। स्थूल रीति से वही समय धरसेनस्वामी तथा गुणधर आचार्य का रहा होगा।

विचारणीय विषय—इस विषय में यह कथन विचारणीय है; वीर निर्वाण के छह सौ पाँच वर्ष तथा पाँच माह व्यतीत होने पर शकराजाकी उत्पत्ति कही गयी है। ‘त्रिलोकसार’ में लिखा है—

“पण-छस्सयवस्सं षणमास जुदं गमिय वीरणिब्बुइदो।

सगराजो तोकक्की चदु-णव-तिय-महियसगमासं ॥८५०॥”

वीरभगवान् के निर्वाण जाने के छह सौ पाँच वर्ष, पाँच माह पश्चात् शक राजा हुआ। उसके अनन्तर तीन सौ चौरानवे वर्ष, सात माह के पश्चात् कल्की हुआ। इस गाथा की टीका में माधवचन्द्र त्रैविद्यदेव कहते हैं—“श्रीवीरनाथनिर्वृत्तेः सकाशात् पंचोत्तरषट्शतवर्षाणि (६०५) पंच (५) भासयुतानि गत्वा पश्चात् विक्रमांकशकराजो जायते”—यहाँ शकराजा का अर्थ विक्रमराजा किया गया है। इस कथा के प्रकाश में आचारांग के पाठी मुनियों का सद्भाव विक्रम संवत् ६८३-६०५=७८ आता है। विक्रम संवत् के सत्तावन वर्ष पश्चात् ईसवी सन् प्रारम्भ होता है; अतः ७८-५७=२१ वर्ष ईसा के पश्चात् आचारांगी लोहाचार्य हुए। उसके समीप ही धरसेन स्वामी का समय अनुमानित होने से उनका काल ईसवी की प्रथम शताब्दी पूर्वार्ध होना चाहिए।

दो परम्परा—श्वेताम्बर परम्परा के अनुसार विक्रम के चार सौ सत्तर वर्ष पूर्व भगवान् महावीर का निर्वाण कहा जाता है। इस प्रकार दिगम्बर परम्परा श्वेताम्बर मान्यता से एक सौ पैंतीस वर्ष पूर्व वीरनिर्वाण को मानती है। इतिहासकारों के मध्य प्रचलित वीरनिर्वाण काल ईसवी पूर्व पाँच सौ सत्ताईस वर्ष श्वेताम्बर परम्परा के आधार पर अवस्थित है। ४७० + ५७=५२७ वर्ष ईसा के पूर्व महावीर भगवान् हुए।

मुख्य विचारणीय विषय है कि ‘शकराज’ का क्या अर्थ किया जाय? यदि शालिवाहन शक अर्थ किया जाता है, तो महावीर भगवान् का निर्वाण काल ईसवी के पाँच सौ सत्ताईस वर्ष पूर्व होता है। उसके आधार पर यदि धरसेन स्वामी का समय निकाला जाएगा, तो ईसवी सन् इक्कीस में एक सौ पैंतीस और जोड़ने पड़ेंगे। इस प्रकार वह समय एक सौ छप्पन ईसवी होगा अर्थात् ईसा की दूसरी शताब्दी हो जाएगा। दिगम्बर आगम के कथन में श्रद्धा करनेवालों की दृष्टि में वीरनिर्वाण काल विक्रम संवत् से छह सौ पाँच वर्ष पाँच माह पूर्व माना जाएगा। अतः विक्रम संवत् २०२० में वीरनिर्वाण संवत् २०२० + ६०५ = २६२५ होगा।

१. इस सम्बन्ध में विशेष विवेचन आस्थान महाविद्वान् पण्डित शान्तिराज शास्त्री ने मैसूर राज्य-द्वारा मुद्रित तत्त्वार्थसूत्र की भास्करनन्दी रचित टीका की संस्कृत भूमिका में किया है।

दिगम्बर-श्वेताम्बर परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए डॉ. जेकोवी ने लिखा था—“The traditional date of Mahavira's nirvana is 470 years before Vikrama according to the Śvetāmbaras and 605 according to the Digambaras”—श्वेताम्बर सम्प्रदाय के अनुसार महावीर का निर्वाण विक्रम से चार सौ सत्तर वर्ष पूर्व हुआ था तथा दिगम्बरों की परम्परा के अनुसार वह छह सौ पाँच वर्ष पूर्व हुआ था।

पुरावृत्तज्ञ श्री राइस ने अपने शिलालेख संग्रह की प्रस्तावना में महावीर भगवान् के निर्वाण के छह सौ पाँच वर्ष बाद उज्जैन के विक्रमादित्य का उल्लेख करते हुए लिखा है :—“There was born Vikramaditya in Ujjayini and he by his knowledge of astronomy, having made an almanac established his own era from the year Rudhiredgāri, the 605 year after the death of Vardhamana.

उज्जैनी में एक विक्रमादित्य राजा उत्पन्न हुआ था, जिसने अपने ज्योतिष ज्ञान के बलपर एक पंचांग बनाकर रुधिरोग्दगारी वर्ष से अपना संवत् चलाया था, जिसका समय वर्धमान के निर्वाण के छह सौ पाँच वर्ष बाद था।

सूत्रकार का समय—

अतः दिगम्बर परम्परा को ध्यान में रखते हुए आचार्य धरसेन का समय ईसा की प्रथम शताब्दी का पूर्वार्ध मानना होगा तथा वही समय उनके पास में ‘महाकम्मपयडिपाहुड’ के रहस्य का अभ्यास करनेवाले महाज्ञानी पुष्पदन्त, भूतबलि मुनीश्वरों का मानना सम्यक् प्रतीत होता है। इस प्रकाश में ‘महाबन्ध’ के रचयिता आचार्य भूतबलि का समय ईसा की प्रथम शताब्दी स्वीकार करना होगा।

‘महाबन्ध’ शास्त्र की रचना भूतबलि आचार्य ने की थी। इस सम्बन्ध में ‘धवला’ टीका में कहा है कि सौराष्ट्र देश के गिरिनगर पत्तन की चन्द्रा गुफा में अंग तथा पूर्व के एकदेश के ज्ञाता धरसेन आचार्य विराजमान थे।^१ वे अष्टांग महानिमित्त विद्या के पारगामी थे। उनके चित्त में यह भय उत्पन्न हुआ कि आगे श्रुतज्ञान का विच्छेद हो जाएगा। अतः प्रवचनवत्सल उन महर्षि ने दक्षिणापथ के निवासी तथा महिमा नगरी में एकत्रित आचार्यों के पास अपना एक लेख भेजा, जिसमें उनका मनोगत भाव सूचित किया गया था।

‘श्रुतावतार’ कथा में लिखा है—धरसेन आचार्य को अग्रायणी पूर्व के अन्तर्गत पंचम वस्तु के चतुर्थ भाग महाकर्म प्राभूत का ज्ञान था। अपने निर्मलज्ञान में जब उन्हें यह भासमान हुआ कि मेरी आयु थोड़ी शेष रही है। यदि कोई प्रयत्न नहीं किया जाएगा, तो श्रुत का विच्छेद हो जाएगा। ऐसा विचारकर उन्होंने देशेन्द्र देश के वेणातटाकपुर में निवास करनेवाले महामहिमाशाली मुनियों के निकट एक ब्रह्मचारी के द्वारा पत्र भेजा। उस पत्र में लिखा था—“स्वस्ति श्री वेणाकतटवासी यतिवरों को उज्जयन्त तट निकटस्थ चन्द्रगुहानिवासी धरसेनगणि अभिवन्दना करके यह सूचित करता है कि मेरी आयु अत्यन्त अल्प रह गयी है। इससे मेरे हृदयस्य शास्त्र की व्युच्छिन्ति हो जाने की सम्भावना है, अतएव उसकी रक्षा के लिए आप शास्त्र के ग्रहण-धारण में समर्थ तीक्ष्ण बुद्धि दो यतीश्वरों को भेज दीजिए।” पश्चात् योग्य विद्वान् मुनीश्वरों के आने पर धरसेन स्वामी ने अपनी ज्ञाननिधि उन दोनों को सौंप दी थी।

बृहत्कथाकोश में विशेष कथन—‘आराधना कथाकोश’ में दक्षिणापथ से आगत महिमा नगरी में विराजमान संघ के प्रमुख आचार्य का नाम महासेन दिया गया है। हरिवेण कृत बृहत्कथाकोश (पृ. ४२) में लिखा है कि उस समय सौराष्ट्र देश में धर्मसेन राजा का शासन था तथा उनकी रूपवती रानी का नाम धर्मसेना था। उसके गिरिनगर के समीप चन्द्रगुहा में धरसेन महामुनि रहते थे।

१. “तेण वि सोरडुविसय-गिरिणयरपट्टणचंदगुहाठिएण अङ्गमहाणिमित्तपारएण गंधवोच्छेदो होहदि ति जादभयेण पवयणवच्छेण दक्खिणावहाइरियाणं महिमाए मिलियाणं लेहो पेसिदो।”
—ध. टी., १, ६७

“ततः सौराष्ट्रदेशेऽस्ति नगरं गिरिपूर्वकम् । धर्मसेननृपस्तत्र धर्मसेनास्य सुन्दरी ॥१॥
तत्पत्नसमीपे च चन्द्रोपपदिका गुहा । सन्तिष्ठते गुरुस्तस्यां धरसेनो महामुनिः ॥२॥

विबुध श्रीधर रचित ‘श्रुतावतार’ (पृ. ३१६) से ज्ञात होता है कि धरसेन महामुनि के समीप भजे गये दो शिष्यों का नाम ‘सुबुद्धि’ और ‘नरवाहन’ था। सुबुद्धि दीक्षा के पहले श्रेष्ठिवर थे और नरवाहन नरेश थे।

जिस दिन मुनियुगल धरसेन मुनीन्द्र के समीप पहुँचे थे, उसके प्रभाव काल में धरसेन स्वामी ने एक स्वप्न देखा था कि दो सुन्दर धवलवर्ण बैलों ने उनके समीप आकर उनकी तीन प्रदक्षिणा दी और नम्रतापूर्वक उनके चरणों में पड़ गये। इस स्वप्न को देखकर स्वप्नशास्त्र के अनुसार उन्होंने उसे अत्यन्त शुभसूचक स्वप्न समझा। उन्होंने “जयउ सुददेवदा”—श्रुतदेवता की जय हो, ये शब्द उच्चारण किये। कुछ क्षण के अनन्तर महिमानगरी से आगत धारणा तथा ग्रहण शक्ति में प्रवीण मुनियुगल ने गुरुदेव को प्रणाम करके अपने आने का कारण निवेदन किया, “अणेण कज्जेणम्हा दोवि जणा तुम्हं पादमूलमुवगया”। आचार्य महाराज ने कहा, “सुट्टु, भद्”—ठीक है, कल्याण हो। (ध.टी., १,६८) हरिषेण कयाकोश (पृष्ठ ४२) में लिखा है—

“उपविश्य क्षणं स्थित्वा प्रोचतुस्तौ मुनीश्वरम् ।
नाथ! ग्रहीतुमायातौ त्वत्तो विद्यां मनोद्भवाम् ॥६॥”

वे क्षण-भर गुरु के चरणों में बैठे; पश्चात् खड़े होकर उन्होंने मुनीश्वर धरसेन स्वामी से कहा, “नाथ! आपके अन्तःकरण से प्रसूत विद्या को ग्रहण करने को हम लोग आये हैं।”

यह सुनकर धरसेन स्वामी ने समागत साधुयुगल की सत्पात्रता की परीक्षा करना उचित समझा, क्योंकि श्रुतज्ञान सामान्य वस्तु नहीं है। वह अमृत से भी विशेष महत्त्वपूर्ण है। आज जो पात्रता-अपात्रता का विशेष विचार किये बिना श्रुतदान का कार्य चलता है, उसका फल प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है कि किन्हीं के द्वारा पान किया गया श्रुतज्ञान रूप दुग्ध विषरूप परिणमन को प्राप्त होता है, अतः ऐसे लोग परमागम के द्वारा स्व-परकल्याण साधन के स्थान में अपनी शक्ति का उपयोग आगम निषिद्ध कार्यों में करते हैं। परम विवेकी धरसेन स्वामी ने सोचा—‘जहाछंदाईणं विज्जादाणं संसारभयवद्धणं’—स्वच्छन्द वृत्तिवालों को विद्यादान संसार भय का संवर्धक है, अतः उन्होंने उन साधुयुगल की सत्पात्रता, वीतरागता, विवेकशीलता तथा निर्भीकता आदि की परीक्षा के हेतु कोई शास्त्रीय प्रश्न न पूछकर दो विद्याएँ सिद्ध करने को दीं। एक का मन्त्र हीनाक्षर था, दूसरे का मन्त्र अधिक अक्षर वाला था। आचार्य ने कहा था—दो उपवासपूर्वक इनको सिद्ध करो। जब उन्होंने विद्या सिद्ध की, तब एक के समक्ष कानी देवी आयी और अधिक अक्षरवाले साधक के समक्ष दन्तुरा—लम्बे दाँतोंवाली देवी आयी। उस समय वे साधकयुगल विचार करने लगे—

“विलोक्य देवतां व्यग्रामेताभ्यां चिन्तितं तदा । काणिकोहन्तुरा देवी दृश्यते न कदाचन ॥१०॥
शोधयित्वा पुनर्विद्यां मन्त्रव्याकरणेन तु । ऊनाधिकाक्षरं दत्त्वा हित्वा ताभ्यां विचिन्ततम् ॥११॥
भूयोऽपि चिन्तिता विद्या ताभ्यां देवी समागता । सर्वलक्षणसम्पूर्णा किंकर्तव्यसमाकुला ॥१२॥
विसृज्य देवतां साधू सिद्धविद्यौ तपस्विनौ । गुरोः समीपतां प्राप्य प्रोचतुस्तौ यथाक्रमम् ॥१३॥”

इन्होंने देवता के व्यग्र स्वरूप को देखकर विचार किया कि कोई भी देवी एकाक्षी नहीं होती तथा विकृत दन्तवाली नहीं होती, इसलिए उन्होंने मन्त्र के व्याकरण के अनुसार विद्यासाधन हेतु दिये गये मन्त्र को शुद्ध किया। न्यूनाक्षर मन्त्र में अक्षर जोड़े और अधिक अक्षरवाले में कम किये। इसके पश्चात् उन्होंने पुनः मन्त्र का चिन्तन किया। उस समय सर्वलक्षणों से समलंकृत देवता का आगमन हुआ और उन्होंने उनसे अपने योग्य कर्तव्य बताने का अनुरोध किया। उन तपस्वियों ने विद्या सिद्ध कर उनका सम्यक् प्रकार विसर्जन किया और गुरु के समीप आकर निवेदन किया—

“भवद्भिर्दत्तविद्यायां दत्तमेकं मयाक्षरम्। तथा निरस्तमेकं च महातीचारकारिणा ॥१४॥
कृतातीचारपापस्य प्रायश्चित्तं त्वमावयोः। प्रदेहि साम्प्रतं तेन स्वचेतः शुद्धिमिच्छतोः ॥१५॥”

भगवन्! आपके द्वारा दी गयी विद्या में मैंने एक अक्षर जोड़ दिया। दूसरे साधक ने कहा—मैंने एक अक्षर कम कर दिया। ऐसा करने से हमारे-द्वारा महान् दोष हुआ है। इस प्रकार अतिचाररूपी पाप करने के कारण आप हमें अभी प्रायश्चित्त दीजिए, जिससे हमारी मानसिक मलिनता दूर हो।

उसे सुनकर धरसेन आचार्य ने कहा—

“ऊनाधिकाक्षरे विद्ये परीक्षार्थं यथाक्रमम्।

वितीर्णे ते भवद्भ्यां मे न वा दोषोऽल्पकोऽपि सः ॥१७॥”

मैंने तुम्हारी परीक्षा करने के लिए क्रमशः ऊन अक्षर और अधिक अक्षर युक्त विद्या तुम्हें दी थी। इसमें तुम्हारा तनिक भी दोष नहीं है।

धरसेन स्वामी की परीक्षा में वे दोनों साधु विशुद्ध सुवर्ण सदृश प्रमाणित हुए। उन्होंने यह देख लिया कि साधु-युगल का चरित्र अत्यन्त निर्मल है। वे अत्यन्त बुद्धिमान, विवेकी ज्ञानवान् हैं तथा उनका मन विषयों के प्रति पूर्णतया विरक्त है। उन्हें विश्वास हो गया कि इनको दी गयी विद्या का मधुर परिणाम ही होगा, इसलिए उन्होंने—‘सोमतिहि-णक्खत्त-वारे गंधो पारद्धो’—शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र तथा शुभ दिन में ग्रन्थ का पढ़ाना प्रारम्भ किया। आचार्य धरसेन स्वामी ने यह नहीं सोचा कि हमें धर्मरूप पवित्र ज्ञाननिधि इन्हें सौंपनी है, इसमें मुहूर्त आदि देखना अर्थहीन है। ऐसा न सोचकर उन परम विवेकी महाज्ञानी गुरुदेव ने शुद्ध काल रूप बाह्य सामग्री को अपने ध्यान में रखा। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी सत्कार्य करने में बाह्य योग्य सामग्री की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। वादीभरसिंह सूरिने ‘क्षत्रचूडामणि’ काव्य में लिखा है, “पाके हि पुण्य-पापानां, भवेद् बाह्यं च कारणम्” ॥११-१४॥ पुण्य तथा पाप के उदय में बाह्य सामग्री भी कारण रूप होती है। उन महामेधावी, प्रतिभाशाली तथा लोकोत्तर व्यक्तित्व समलंकृत साधुयुगल को महाज्ञानी मुनीन्द्र धरसेन स्वामी ने उपदेश देना प्रारम्भ कर दिया, जिसे उन महर्षियों ने अपने स्मृति पटल में पहले पूर्णतया अंकित कर लिया। इस प्रसंग में द्रव्य, क्षेत्र, काल तथा भावरूप सामग्रीचतुष्टय श्रेष्ठ रूप से विद्यमान थी, अतः धरसेनाचार्य का मनोरथ पूर्ण हो गया।

आषाढसुदी एकादशी का महत्त्व—आषाढ सुदी एकादशी के पूर्वाह्न में ‘महाकम्म-पयडि पाहुड’ गत कर्म-साहित्य का उपदेश पूर्ण हो चुका। प्रवचन प्रेमवश धरसेन स्वामी के मन में जो पहले भय उत्पन्न हुआ था, वह भय अब दूर हो गया। उनकी श्रुतप्रेमी आत्मा को अवर्णनीय आनन्द हुआ। उन्होंने परम शान्ति तथा सन्तोष का अनुभव किया।

देवों द्वारा पूजा—‘धवला’ टीका में लिखा है—“विणएण गंधो समाणिदोत्ति” (१,७०) दिनयपूर्वक ग्रन्थ समाप्त हुआ। “तुड्ढेहि भूदेहि तस्येयस्तु महती पूजा पुष्प-बलि-संख-नूर-रव-संकुला कदा”—इससे सन्तोष को प्राप्त हुए भूतजाति के व्यन्तर देवों ने पुष्प, बलि, शंखों की उच्च ध्वनियुक्त वैभवपूर्ण पूजा की। पवित्र कार्य पूर्ति होने पर इस पंचमकाल में देवताओं का आगमन होकर पूजा का कार्य सम्पन्न होना असामान्य घटना थी।

नामकरण—उस मंगल वेली में धरसेनाचार्य के मन में अपने श्रुतज्ञान निधि के उत्तराधिकारी उन शिष्य-युगल के नवीन नामकरण की भावना उत्पन्न हुई।

‘धवला’ टीका में लिखा है—“तं दद्रूण तस्स ‘भूदवलि’ ति भडारणण णामं कयं। अवरस्स वि भूदेहि पूजिदस्स अत्थ-वियत्थ-ट्टिय-दंत-पत्ति-भोसारिय भूदेहि समीकय दंतस्स ‘पुप्फयंतो’ ति णामं कयं। (१,७१)

उस महान् पूजाकी देवताओं के द्वारा सम्पन्न हुई देखकर भट्टारक धरसेन स्वामी ने भूतजाति के देवों द्वारा पुष्पादि से पूजा की जाने के कारण उन मुनीश्वरों को ‘भूतबलि’, यह संज्ञा प्रदान की तथा अस्त-व्यस्त

दन्तपवित्र दूर कर भूत देवों ने जिनके दन्तों को समानरूपता प्रदान की, ऐसे देवपूजित द्वितीय साधुराज का नाम पुष्पदन्त रखा।

विबुध^१ श्रीधर विरचित 'श्रुतावतार' में कहा है कि नरवाहन राजा ने मुनि पद को स्वीकार किया था। वे 'भूतबलि' इस संज्ञा-युक्त किये गये तथा सद्बुद्धि नामक द्वितीय मुनि का नाम पुष्पदन्त रखा था। पहले गृहस्थ जीवन में वे श्रेष्ठिवर थे।

धरसेन स्वामी का मनोगत—अष्टांग-निमित्त-विद्या के पारगामी धरसेन स्वामी को यह ज्ञात हो गया कि अब रत्नत्रय साधक उनका शरीर अधिक काल तक नहीं टिकेगा। अब उनका मरण समीप है। ऐसे अवसर पर ये दोनों मुनि यदि मेरे समीप रहेंगे, तो इनके चित्त में मेरे वियोग की व्यथा उत्पन्न होना सम्भव है, अतः उन वीतराग गुरुदेव ने मोहभाव का त्याग कर उन शिष्यों को उसी दिन प्रस्थान कर अन्यत्र चातुर्मास करने का आदेश दिया। धवला टीका में लिखा है—“पुणो तद्विसे चैव पेसिदा संतो-गुरुवयणमलंघणिज्जं इदि चित्तिऊणागदेहि अंकुलेसेर वरिसाकालो कओ” (१,७१) गुरु की आज्ञानुसार वे भूतबलि-पुष्पदन्त मुनिराज उसी दिन यह सोचकर कि 'गुरु के वचन अलंघनीय होते हैं' वहाँ से रवाना हो गये और उन्होंने अंकलेश्वर में चातुर्मास किया।

इन्द्रनन्दि आचार्य ने लिखा है—“दूसरे दिन गुरु ने यह सोचकर कि मेरी मृत्यु निकट है, यदि ये समीप रहेंगे तो दुःखी होंगे। उन दोनों को कुरीश्वर भेज दिया। तब वे ६ दिन चलकर इस नगर में पहुँच गये और वहाँ पंचमी को योग ग्रहण करके उन्होंने वर्षाकाल समाप्त किया।”

विबुध श्रीधर ने धवलाकार के अनुसार उन मुनिद्वय का अंकुलेसर में चातुर्मास लिखा है। इसका कारण उन्होंने यह लिखा है कि धरसेन स्वामी ने अपनी मृत्यु को निकट ज्ञात किया तथा उससे इन मुनिद्वय को क्लेश न हो, इसलिए उनका वहाँ से प्रस्थान कराया।^२

वीतराग चित्तवृत्ति—इस प्रकरण से जिनेन्द्र के शासन में गुरु की वाणी का महत्त्व घोषित होता है। धरसेन आचार्य की वीतरागता का सजीव स्वरूप समझ आता है। अपने शिष्यों को मनोव्यथा न हो, यह विचार उनकी परम कारुणिक मनोवृत्ति को व्यक्त करता है। उनके वीतराग हृदय में यह मोहभाव नहीं रहा कि मेरे स्वर्ग प्रयाण करते समय मेरे शिष्य मेरे समीप में रहें। समाधिमरण के लिए तत्पर धरसेन स्वामी अपने को शरीर से भिन्न चैतन्य ज्योति स्वरूप एकाकी आत्मा सोचते थे, इसलिए उन्होंने विशुद्ध भावों के साथ उन अत्यन्त गुणी तथा महाज्ञानी साधुओं को सदा के लिए अपने पास से अलग भेज दिया। अब उनका विशुद्ध मन जिनेन्द्र-चरणों का स्मरण करते हुए कर्मजाल से विमुक्त चैतन्य की ओर विशेष रूप से केन्द्रित हो रहा था।

चातुर्मास का काल व्यतीत होने पर भूतबलि भट्टारक द्रमिल देश—तामिल देश को गये—'भूतबलि-भडारो दमिलदेस गदो' तथा पुष्पदन्ताचार्य वनवास देशको गये। प्रतीत होता है कि इस चातुर्मास के भीतर ही महामुनि धरसेन स्वामी का स्वर्गवास हो गया होगा; अन्यथा उनके जीवित रहते हुए कृतज्ञ शिष्य-युगल गुरुदेव के पुण्य दर्शन हेतु गये बिना न रहते।

१. विबुध श्रीधर के शब्दों में इन्द्रभूति गणधर ने श्रेणिक महाराज से षट्खण्डागम सूत्र की उत्पत्ति के विषय में प्रकाश डालते हुए कहा था :—“धरसेनभट्टारकः कतिपयदिनैर्नरवाहन-सद्बुद्धिनाम्नोः पठनाकर्णन-चिन्तनक्रियां कुर्वतोःषाढ-श्वेतैकादशीदिने शास्त्रं परिसमाप्तिं यास्यति। एकस्य भूता रात्री बलिविधिं करिष्यन्ति, अन्यस्य दन्तचतुष्कं सुन्दरम्। भूतबलिप्रभावाद् भूतबलिनामा नरवाहनो मुनिर्भविष्यति। समदन्तचतुष्टयप्रभावात् सद्बुद्धिः पुष्पदन्तनामा मुनिर्भविष्यति।

—श्रुतावतार, पृ. ३१७।

२. आत्मनो निकटभरणं ज्ञात्वा धरसेन एतयोर्मा क्लेशो भवतु इति मत्वा तन्मुनिविसर्जनं करिष्यति।

—श्रुतावतार, पृ. ३१७।

पुष्पदन्तस्वामी की रचना—‘धवलाटीका’ में लिखा है कि वनवास देश में पहुँचकर पुष्पदन्त स्वामी ने जिनपालित को दीक्षा दी।^१ वीस प्ररूपणा गर्भित सत्प्ररूपणाके १७७ सूत्र बनाये और उन्हें जिनपालित के द्वारा भूतबलि स्वामी के समीप भेजे।

जिनपालित—इन्द्रनन्दि श्रुतावतार के कथनानुसार जिनपालित पुष्पदन्त स्वामी के भानजे थे। विबुधश्रीधर के श्रुतावतार में जिनपालित का नाम निजपालित आया है।^२ धर्मकीर्ति शिलालेख नं. १ में (पट्टावली बागड़ा संघ या लालवागड़) जिनपालित को ‘योगिराट्’—योगियों के अधीश्वर लिखा है।

“तेषां नामानि वच्चीतः शृणु भद्र महान्वय।

भद्रो भद्रस्वभावश्च धरसेनो यतीश्वरः ॥६॥

भूतबलिः पुष्पदन्तो जिनपालितयोगिराट्।

समन्तभद्रो धीधर्मा सिद्धिसेनो गणाग्रणीः ॥७॥”

भूतबलि की रचना—भूतबलि स्वामी ने जिनपालित के पास वीसदि सूत्रों को देखा, उसमें अन्तिम १७७वाँ सूत्र यह है—‘अणाहारा चदुसु द्वाणेषु विग्गहगइसमावण्णाणं, केवलीणं वा समुघादगदाणं अजोगिकेवली, सिद्धा चेदि।’ उन्हें जिनपालित के द्वारा ज्ञात हुआ कि पुष्पदन्त का जीवन-प्रदीप शीघ्र बुझनेवाला है। इससे उनके हृदय में विचार उत्पन्न हुए कि अब ‘महाकम्मपयडिपाहुड’ का लोप हो जाएगा, अतः उन्होंने ‘दव्वपमाणाणुगममादि काऊण गंधरचना कदा’—द्रव्यप्रमाणानुगम को आदि लेकर ग्रन्थरचना की। ‘षट्खण्डागम’ में भूतबलि स्वामी रचित आदि सूत्र यह है—‘दव्वपमाणाणुगमेण दुविहो णिद्वेसो ओघेण आदेसेण य।’—ध. टी. २,१

इस सूत्र के प्रारम्भ में वीरसेनाचार्य धवलाटीका में लिखते हैं—

“संपहि चोदसण्हं जीवसमासाणमत्थित्तमवगदाणं सिस्साणं तेसिं चव पिरमाणपडिवोहणहं भूदबलियाइरियो सुत्तमाह” (२,१)

‘अब चौदह जीवसमासों के अस्तित्व को जाननेवाले शिष्यों को परिमाण का अवबोध कराने के लिए भूतबलि आचार्य सूत्र कहते हैं।’

पूर्वोक्त सूत्र को आदि लेकर शेष समस्त ‘षट्खण्डागम’ सूत्र भूतबलि स्वामी की उज्ज्वल कृति हैं।

श्रुत पंचमी पर्व—इन्द्रनन्दि-कृत ‘श्रुतावतार’ से विदित होता है कि जब यह रचना पूर्ण हो गयी, तब चतुर्विध संघ सहित भूतबलि स्वामी ने ज्येष्ठ सुदी पंचमी को ग्रन्थराज की बड़ी भक्तिपूर्वक पूजा की।^३ उस समय से श्रुतपंचमी पर्व प्रचलित हो गया; जब कि श्रुत-देवता की सर्वत्र अभिवन्दना की जाती है। इसके पश्चात् भूतबलि स्वामी ने यह रचना जिनपालित के साथ पुष्पदन्त स्वामी के पास भेजी। सौभाग्य की बात हुई, जो दुर्दैव ने पुष्पदन्ताचार्य को उस समय तक नहीं उठाया था। आचार्य पुष्पदन्त ने रचना देखी। अपना

१. तदो पुष्पदन्ताइरिण्ण जिणवालिदस्स दिक्खं दाऊण वीसदिसुत्ताणि कारिय पढाविय पुणो तो भूदबलिभयवंतस्स पास पेसिदो।—ध. टी. १,७१

२. Documents produced by Digambaris before the court of Dhvajadand Commissioner Udaipur, pp. 29-30

३. भूदबलिभयवदा जिणवालिदासे दिड्ढवीसदिसुत्तेण अप्पाउओ त्ति अवगयजिणवाल्लिदेण महाकम्मपयडिपाहुडस्स वोच्चेदो होहदि ति समुप्पण्ण-बुद्धिणा पुणो दव्वपमाणाणुगममादिं काऊण गंध रचना कदा।—ध. टी., १,७१

४. ज्येष्ठसितपक्षपञ्चम्यां चातुर्वर्ण्यसंघसमवेतः। तत्तुस्तकोपकरणैर्व्यधात् क्रियापूर्वकं पूजाम् ॥१४३॥

श्रुतपंचमीति तेन प्रख्यातिं तिथिरियं परामाप। अद्यापि येन तस्यां श्रुतपूर्जां कुर्वते जैनाः ॥१४४॥

मनोरथ सफल हुआ ज्ञात कर वे अत्यन्त आनन्दित हुए। उन्होंने भी चातुर्वर्णसंघ सहित सिद्धान्तशास्त्र की पूजा की।^१

इस महाशास्त्र के रक्षण कार्य में जिनपालित की भी महत्त्वपूर्ण सेवा विदित होती है। हम देखते हैं कि चातुर्मास पूर्ण होने के पश्चात् पुष्पदन्त अपने साथी भूतबलि को छोड़कर जिनपालित के पास वनवास देश में पहुँचते हैं। वे विंशतिसूत्रों की रचना करके अपना मन्तव्य भूतबलि के पास प्रेषित करते हैं। भूतबलि जब ग्रन्थराज का निर्माण पूर्ण कर लेते हैं, तब वे इन्हीं जिनपालित के साथ अपनी अमूल्य जीवन निधि-ज्ञाननिधि को पुष्पदन्ताचार्य के समीप भेजते हैं, ताकि उनका भी इस आगम-रचना के विषय में अभिप्राय ज्ञात हो जाय। जिनपालित योगिराज थे तथा पुष्पदन्त-जैसे महामुनि के अत्यन्त विश्वासपात्र थे। भूतबलि स्वामी ने भी उन्हें योग्य समझ अपने समीप स्थान दिया था और अपनी रचना उनके ही साथ पुष्पदन्त स्वामी के पास भिजवायी थी। इससे हमें प्रतीत होता है कि महान् ग्रन्थ-रचनाकार्य में वे भूतबलि स्वामी के समीप अवश्य रहे होंगे। बहुत सम्भव है कि भूतबलि स्वामी के तत्त्व प्रतिपादन को लिखने का कार्य जिनपालित-द्वारा सम्पन्न हुआ हो। कम से कम इतना तो दृढ़तापूर्वक कहा जा सकता है कि इस सिद्धान्तशास्त्र के उद्धार कार्य में जिनपालित मुनिराज का विशेष स्थान रहा। इसका वर्णन इसलिए नहीं मिलता कि पहले लोग कार्य को प्रधान मानते थे, नाम की ओर प्रायः कम ध्यान रहता था। इतना बड़ा 'षट्खण्डागम' महाशास्त्र निर्माण करते हुए भी ग्रन्थ में जब भूतबलि स्वामी का नाम कहीं नहीं आया, तब जिनपालित का नाम न आना विशेष आश्चर्यप्रद बात नहीं है।

ग्रन्थ की प्रामाणिकता

'महाबन्ध' शास्त्र में सम्पूर्ण चर्चा आगमिक तथा अहेतुवाद-आश्रित है। आगम की निम्नलिखित परिभाषा प्रस्तुत शास्त्र के विषय में पूर्णतया चरितार्थ होती है—

“पूर्वापरविरोधादेर्विपेतो दोषसन्ततेः।

द्योतकः सर्वभावनामाप्तव्याहृतिरागमः ॥”—ध. टी., पृ. ८७५

—जो पूर्वापरविरोधादि दोषपरम्परा से रहित हो, सर्व पदार्थों का प्रकाशक हो तथा आप्त की वाणी हो, उसे आगम कहते हैं।

कुन्दकुन्दस्वामी ने 'नियमसार' में कहा है—

“तस्स मुहगयवयणं पुञ्जावरदोसविरहियं सुद्धं।

आगममिदि परिकहियं तेण दु कहिया हवति तच्चत्था ॥८॥”

अरहन्त परमात्मा के मुख से विनिर्गत, पूर्वापर दोष रहित शुद्धवाणी को आगम कहा है। उस आगम के द्वारा तत्त्वार्थ का कथन किया गया है। यह आगम सम्यक्त्व की उत्पत्ति में निमित्त कारण कहा गया है। (नियमसार गाथा ५३)

षट्खण्डासगम सूत्रों की, विशेषकर 'महाबन्ध' की चर्चा बहुत सूक्ष्म है। उसमें कहीं भी पूर्वापर विरोध का दर्शन नहीं होता। जितना सूक्ष्म चिन्तक एवं विचारक 'महाबन्ध' का पारायण करेगा, वह ग्रन्थ के विवेचन से उतना ही अधिक प्रभावित होगा। ग्रन्थ की महत्ता यथार्थ में पूर्वापर अविरोधिता में है। अपने विषय पर प्रकाश डालने में आचार्य ने किञ्चित् भी न्यूनता नहीं प्रदर्शित की है। ग्रन्थराज आप्त की कृति है, अतः यह स्वतः प्रमाण है। किसी हेतुवावरूप साधन-सामग्री की आवश्यकता नहीं है। आप्तमीमांसाकार समन्तभद्र स्वामी का कथन है—

१. विबुध श्रीधरकृत 'श्रुतावतार' से ज्ञात होता है कि पुष्पदन्त आचार्य के साथ चतुःसंघ ने तीन दिन पर्यन्त बड़े उत्साहपूर्वक पूजा प्रभावना की थी। धार्मिक समाज ने व्रतादि का परिपालन भी किया था। पृ. ३१६

“वक्तयनाप्ते यद्धेतोः साध्यं तद्धेतुसाधितम् ।

आप्ते वक्तरी तद्वाक्यात्साध्यमागमसाधितम् ॥७८॥”

—वक्ता यदि अनाप्त है, तो युक्ति-द्वारा जो बात सिद्ध की जाएगी, वह हेतुसाधित की जाएगी। और यदि वक्ता आप्त है, तो उनके वचनमत्र से ही बात सिद्ध होगी। इसे आगमसाधित कहते हैं।

भूतबलि को आप्त किस कारण माना जाय, इस सम्बन्ध में धवला टीका में सुन्दर तर्कणा की गयी है। शंकाकार कहता है; सूत्र की परिभाषा है—

“सुत्तं गणहरकहियं तद्देव पत्तेयबुद्धकहियं च ।

सुदकेवलिणा कहियं अभिण्णदसपुच्चिकहियं च ॥”

—गणधर का कथन, प्रत्येकबुद्ध मुनिराज की वाणी, श्रुतकेवली का कथन, अभिन्नदशपूर्वी का कथन सूत्र है।

“ण च भूदबलिभडारओ गणहरो, पत्तेयबुद्धो, सुदकेवली, अभिण्णदसपुच्चि वा येणेदं सुत्तं होज्ज? जदि एदं सुत्तं ण हीदि तो...पमाणत्तं कुदो णव्वदे?” भूतबलि भट्टारक गणधर नहीं हैं। न वे प्रत्येक बुद्ध, श्रुतकेवली अथवा अभिन्न दशपूर्वी हैं, जिससे यह शास्त्र ‘सूत्र’ हो जाय। यदि यह शास्त्र सूत्र नहीं होता है, तो इसमें प्रामाणिकता का किस प्रकार ज्ञान होगा?

इस शंका के समाधान में कहते हैं—“रागदोसमोहाभावेण पमाणीभूदपुरिसपरंपराये आगत्तादो” (ध. टी., पृ. १२८२) ‘यह ग्रन्थ प्रमाण है, कारण राग-द्वेष-मोहरहित प्रामाणिकता-प्राप्त पुरुषपरम्परा से यह प्राप्त हुआ है।

इस ग्रन्थ में अप्रामाणिकता का लेश भी नहीं है। इस सम्बन्ध में वीरसेनाचार्य का कथन महत्त्वपूर्ण है। वे लिखते हैं—इस प्रकार प्रमाणीभूत महर्षिरूप प्रणालिका के द्वारा प्रवाहित होता हुआ महाकर्म-प्रकृतिप्राभूतरूप अमृत-जल-प्रवाह धरसेन भट्टारक को प्राप्त हुआ। उन्होंने भी गिरिनगरी की चन्द्रगुफा में भूतबलि, पुष्पदन्त को सम्पूर्ण महाकर्म-प्रकृति-प्राभूत सौंपा। तदनन्तर श्रुतनदी का प्रवाह व्युच्छिन्न न हो जाय, इस भय से भव्य जीवों के अनुग्रह के लिए उन्होंने ‘महाकम्मपयडि पाहुड’ का उपसंहार करके षट्खण्ड बनाये। अतः यह त्रिकालगोचर समस्त पदार्थों को ग्रहण करनेवाले प्रत्यक्ष तथा अनन्त केवलज्ञान से उत्पन्न हुआ है, प्रमाणस्वरूप आचार्य प्रणालिका के द्वारा आगत है और प्रत्यक्ष तथा अनुमान प्रमाण से अबाधित है। अतः यह शास्त्र प्रमाण है। इसलिए मोक्षाभिलाषी भव्यात्माओं को इसका अभ्यास करना चाहिए।

पुनः शंकाकार कहता है—“सूत्र विसंवादी क्यों नहीं है?” उत्तर में कहते हैं—“सूत्र में विसंवादीपना नहीं है, कारण यह विसंवाद के कारण सम्पूर्ण दोषों से मुक्त भूतबलि के वचनों से विनिर्गत है।” पुनः शंकाकार तर्क करता है—“कदाचित् भूतबलि ने असम्बद्ध देशना की हो?” इसके निराकरण में वीरसेन स्वामी कहते हैं—“ण चासंबद्धं भूदबलिभडारओ परुवेदि, महाकम्मपयडिपाहुड-अभियघाणेण ओसारिदासेतराग-दोस

१. एवं पमाणीभूदमहरिसिपणालेण आगंतूण महाकम्मपयडिपाहुडामियजलपहावो धरसेणभडारयं संपत्तो । तेण वि गिरिणयरवंदगुहाए भूदबलिपुप्फदंताणं महाकम्मपयडिपाहुडं सयत्तं समप्पिदं । तदो भूदबलिभडारएण सुद-णइ-पवाहवोच्छेदभीएण भवियलौगाणुग्गहडं महाकम्मपयडिपाहुडमुवसंहरियऊण छखंडाणि कयाणि, तदो तिकालगोयरासेस-पयत्यविसय-पच्चक्खाणंत-केवलणाणप्पभवादो पमाणीभूदआइरियपणालेणादत्तादो, दिट्ठिविरोहाभावादो पमाणमेसो गंधो, तम्हा मोक्खत्थिणा अब्भसेयव्वो ।

—ध. टी., सि., पृ. ७६२।

२. विसंवादी सुत्तं किण्ण जायदे? ण, विसंवादकारण-सयलदोसमुक्क भूदबलि-वयणविणिग्गयस्स सुत्तस्स विसंवादत्तविरोहादो ।

—ध. टी. सि., पृ. १०३३

मोहत्तादो"—भूतबलि भट्टारक असम्बद्ध प्ररूपण नहीं करेंगे, कारण उन्होंने महाकर्मप्रकृतिप्राभृत के अवधारण करने से रागद्वेष तथा मोह का निराकरण कर दिया है।

महाधवल मनोवृत्ति—वक्ता का जब विशिष्ट व्यक्तित्व स्थापित हो जाता है, तब उनकी वाणी में भी स्वयं विशेषता का अवतरण हो जाता है। इस चर्चा से यह बात भी ज्ञात हो जाती है कि महाकर्मप्रकृति प्राभृत के परिशीलन से राग, द्वेष तथा मोह का विनाश होता है, तब उस महाशास्त्र के उपसंहाररूप इस ग्रन्थराज के द्वारा भी रागद्वेष-मोह की विशेष मन्दता होती है। कषायादि की विशेष तीव्र अवस्था में तो मनोवृत्ति 'महाबन्ध' का अवगाहन भी नहीं कर सकेगी। इसके लिए अन्तःकरण वृत्ति की निर्मलता तथा निश्चिन्तता की परम आवश्यकता है। गृहस्थ सदृश आकुलतापूर्ण श्रमण भी इस शास्त्र का रसास्वाद नहीं कर सकता। श्रमणसदृश मनोवृत्ति तथा पवित्र परिणतियुक्त व्यक्ति इस महाशास्त्र का सम्यक् परिशीलन करने में समर्थ होगा। गार्हस्थ्यक आकुलतावाला व्यक्ति इस अमृतनिधि का आनन्द न ले सकेगा। प्रतीत होता है, इस बात को लक्ष्य में रखकर सर्वसाधारण को इस ज्ञानसिन्धु में अवगाहन करने का पात्र नहीं कहा। 'महाबन्ध' का रसास्वादन करनेवाले की मनोवृत्ति 'महाधवल' होनी चाहिए। इस ग्रन्थराज के द्वारा जीवन महाबन्ध से मुक्त हो महाधवल रूप होता है।

मंगल-चर्चा

जैन शास्त्रकार अपने शास्त्र के प्रारम्भ में जिनेन्द्र भगवान् के गुणस्मरणरूप मंगल-रचना करते हैं। इसका कारण आचार्य विद्यानन्दि यह बताते हैं कि—

**"अभिमतफलसिद्धेरभ्युपायः सुबोधः प्रभवति स च शास्त्रात्तस्य चोत्पत्तिराप्तात् ।
इति भवति स पूज्यः तत्प्रसादप्रबुद्धैर्न हि कृतमुपकारं साधवो विस्मरन्ति ॥"**

—श्लो. वा., पृ.२

'अभिमतफल-सिद्धि का उपाय सुबोध है, वह शास्त्र से प्राप्त होता है और शास्त्र की उत्पत्ति आप्त से होती है, अतः शास्त्र के प्रसाद से प्रबोध प्राप्त पुरुषों का कर्तव्य है कि आप्त को अपनी प्रणामांजलि अर्पित करें, कारण सत्पुरुष अपने पर किये गये उपकार को नहीं भूलते।'

मंगल के विषय में तिलोपपण्णत्ति में कहा है—

**"पढमे मंगलवयणे सिस्सा सत्यस्स पारगा होंति ।
मज्झिम्मे णिव्विग्घं विज्जा, विज्जाफलं चरिमे ॥१,२६"**

ग्रन्थ के आरम्भ में मंगल पाठ से शिष्य लोग शास्त्र के पारगामी होते हैं। मध्य में मंगल के करने से निर्विघ्न विद्या की उपलब्धि होती है तथा अन्त में मंगल करने से विद्या का फल प्राप्त होता है। 'महाबन्ध' का प्रथम पत्र नष्ट हो गया है, अतः ग्रन्थ के आदि में क्या मंगल श्लोक या सूत्र रहे, इसका परिज्ञान नहीं हो सकता। यह भी कल्पना हो सकती है कि 'कषायप्राभृत' के समान यहाँ भी मंगल न किया गया हो।

कषायप्राभृत में मंगल का अभाव—कषायप्राभृत की टीका में वीरसेन स्वामी लिखते हैं—**"ववहारणयंमस्सिदूण गुणहरभडारयस्स पुण एतो अहिप्पाओ, जहा-कीरउ अण्णत्थ सव्वत्थ णियमेण अरहंतणमोक्कारो, मंगलफलस्स पारद्धकिरियाए अणुवलंभादो । एत्थ पुण णियमो णत्थि, परमागमुवजोगम्भि णियमेण मंगलफलोवलंभादो । एदस्स अत्थविसेसस्स जाणावणडं गुणहरभडारएण गंधस्सादीए ण मंगलं कयं ।"** (१।६)।

"व्यवहार नय की अपेक्षा गुणधर भट्टारक का यह अभिप्राय है कि परमागम के अतिरिक्त अन्यत्र सर्वत्र नियम से अरहन्त-नमस्कार करना चाहिए, कारण प्रारब्धक्रियाओं में मंगलफलविघ्नध्वंसकता की अनुपलब्धि है। यहाँ इस बात का नियम नहीं है। परमागम में उपभोग लगने पर नियम से मंगल के फल

की प्राप्ति होती है। इस अर्थविशेष का परिज्ञान कराने के लिए गुणधर भट्टारक ने ग्रन्थ के आदि में मंगल नहीं किया।

यह विवेचन आपाततः विरोधात्मक दृष्टिगोचर होता है; किन्तु अनेकान्त शैली के प्रकाश में इनका समाधान स्वयं हो जाता है।

महाबन्ध का मंगल—‘महाबन्ध’ के मंगल के विषय में ‘धवला’ टीका के चतुर्थ वेदना नामक खण्ड में महत्त्वपूर्ण सामग्री प्राप्त होती है। उसमें आचार्य वीरसेन स्वामी लिखते हैं—“निबद्ध और अनिबद्ध के भेद से मंगल दो प्रकार का है।”^१

अनिबद्ध मंगल—तब फिर वेदना खण्ड के आदि में ‘णमो जिणाणं’ आदि मंगल सूत्र हैं, वे निबद्ध मंगल हैं या अनिबद्ध मंगल? वे निबद्धमंगलरूप नहीं हैं। कृति आदि चौबीस अनुयोग हैं अवयव जिसके, ऐसे महाकर्मप्रकृतिप्राभृत के आदि में गौतमस्वामी-द्वारा प्ररूपित मंगल को भूतबलि भट्टारक ने वहाँ से उठाकर वेदना खण्ड के प्रारम्भ में स्थापित कर दिया, इस कारण इसे निबद्ध मंगल मानने में विरोध आता है। वेदनाखण्ड तो महाकर्मप्रकृति प्राभृत नहीं है। अवयव को अवयवी मानने में विरोध है। अर्थात् वेदनाखण्ड अवयव है, उसे महाकर्म प्रकृति प्राभृत रूप अवयवी मानने में विरोध आता है। भूतबलि तो गौतम हैं नहीं, विकल श्रुत के धारी धरसेनाचार्य शिष्य भूतबलि को सकल श्रुतधारी वर्धमान भगवान् शिष्य गौतम मानने में विरोध है। निबद्ध मंगल मानने में कारण रूप अन्य प्रकार है नहीं, अतः यह अनिबद्ध मंगल है।”

आचार्य अपनी तर्कशैली से इसे निबद्धमंगल भी सिद्ध करते हैं। महापरिमाणवाले गुणधरदेव रचित वेदना खण्ड के उपहसंहाररूप वेदनाखण्ड में वेदना का अभाव सर्वथा नहीं है। उनमें प्रमेय की दृष्टि से कथंचित् ऐक्य है। आचार्य भूतबलि और गौतम में भी कथंचित् अभिन्नता द्योतित करते हुए कहते हैं—“अथवा भूदवली गोदमो घेव, एगाहिप्पायत्तादो; तदो सिद्धं णिवद्धमंगलत्तमपि।” अथवा भूतबलि गौतम है, कारण उनके अभिप्राय में एकत्व है।

विशेष विचार—वेदना खण्ड में मंगल के दो भेद टीकाकार ने कहे हैं—“णिबद्धा-णिबद्धभेएण दुविहं मंगलं” (पृ. ३१, ताप्रपत्र प्रति)। मंगल के इन दो भेदों का कथन जीवद्वाण प्रथम खण्ड में (पृष्ठ ७ ताप्रपत्रीय प्रति में) इस प्रकार आया है—“तच्च मंगलं दुविहं णिवद्धमणिबद्धमिदि”—वह मंगल निबद्ध, अनिबद्ध के भेद से दो प्रकार हैं। वेदना खण्ड में निबद्ध, अनिबद्ध शब्दों का उल्लेख करके उनकी परिभाषा नहीं दी गयी है। वहाँ इतना ही कहा है कि ‘णमो जिणाणं’ आदि सूत्र ‘महाकम्मपयडि पाहुड’ में गौतम स्वामीने रचे थे। उनकी वेदना, वर्गणा तथा ‘महाबन्ध’ इन तीन खण्डों का मंगल भूतबलि स्वामी ने माना है। भूतबलि स्वामी ने अन्य मंगल नहीं लिखे। जब ये मंगल सूत्र अन्य रचित हैं (borrowed) तथा अन्य ग्रन्थ से उद्धृत किये गये हैं, तब ये अनिबद्ध मंगल हैं, ऐसा स्पष्ट धवला टीका में उल्लेख किया गया है।

जीवद्वाण की टीका में मंगल के दो भेदों का उल्लेख करके इस प्रकार स्पष्ट किया है—“तत्थ णिवद्धं णाम, जो सुत्तस्सादीए सुत्तकत्तारेण कय-देवदा-णमोक्कारो तं णिवद्धमंगलं। जो सुत्तस्सादीए सुत्तकत्तारेण णिवद्धो देवदा-णमोक्कारो तमणिबद्धमंगलं।” (पृ. ७, ताप्रपत्र प्रति) —जो सूत्र के आरम्भ में सूत्रकर्ता के द्वारा किया गया अर्थात् रचा गया देवता का नमस्कार है, वह निबद्ध मंगल है तथा जो सूत्र के आदि में सूत्रकर्ता के द्वारा निबद्ध अर्थात् उद्धृत (borrowed) देवता का नमस्कार है, वह अनिबद्ध मंगल है। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न होता है कि जीवद्वाण के प्रारम्भ में पुष्पदन्त आचार्य ने जो ‘णमो अरहंताणं, णमो सिद्धाणं,

१. णिवद्धाणिबद्धभेएण दुविहं मंगलं। तत्थेदं किं णिवद्धमाहो अभिबद्धमिदि। ण ताव णिवद्धमंगलमिदं? महाकम्मपयडिपाहुडस्स कदिआदिघउवीस-अणियोगावयवस्स आदीए गोदमसाणिणा परुविदस्स भूदबलिभट्टारएण वेदणाखंडस्स आदीए मंगलडं ततो आणेदूण ठविदस्स णिवद्धत्तविरोहादो। ण च वेदणाखण्डं महाकम्मपयडिपाहुडं, अवयवस्स अवयवित्तविरोहादो। ण च भूदवली गोदमो, विगलसुदधारयस्स धरसेणाइरियसीतस्स भूदबलिस्स सयलसुदाधारवड्डमाणत्तेवासिगोदमत्तविरोहादो। ण च अण्णो पयारो णिवद्धमंगलत्तस्स हेदुभूदो अत्थि। तम्हा अणिबद्धमंगलमिदं। (ताप्रपत्र प्रति, भाग ४, पृ. ३१)

णमो आइरियाणं, णमो उवज्जायाणं, णमो लोए सव्वसाहूणं' सूत्र लिखा है उसे कौन-सा मंगल माना जाए? वेदना खण्ड में गणधर-रचित 'णमोजिणाणं' आदि सूत्र उद्धृत होने से जैसे अनिबद्ध मंगल है, उसी प्रकार 'णमो अरिहंताणं' आदि को भी पारिभाषिक अनिबद्ध मंगलरूपता प्राप्त होती है।

शंका—इस सम्बन्ध में शंकाकार कहता है कि यह मान्यता भ्रमपूर्ण है। णमोकार मन्त्र निबद्ध मंगल है, ऐसा वीरसेन स्वामी ने जीवट्टाण की टीका में लिखा है—'इदं पुण जीवट्टाणं णिबद्धमंगलं'। (पृ. ७, ताप्र पत्र प्रति)—यह जीवट्टाण निबद्ध-मंगल है, अतः यह पुष्पदन्त आचार्यकृत है। यह उनसे पूर्व में रचित मंगल नहीं है।

समाधान—यह धारणा भ्रान्त है। खण्डागम के प्रथम खण्ड का नाम जीवट्टाण है। यह ग्रन्थ निबद्ध मंगल अर्थात् पारिभाषिक निबद्ध मंगल रूप नहीं है। वहाँ निबद्ध मंगल शब्द बहुव्रीहि समास रूप है; 'निबद्धं मंगलं' जस्य एवंप्रभूतं जीवट्टाणं—जीवट्टाण ग्रन्थ मंगल युक्त है। यदि निबद्धमंगल रूप पारिभाषिक मंगल अपेक्षित होता तो पाठ होता—'इदं जीवट्टाणं सण्णिवद्धमंगलं'। किन्तु ग्रन्थगत पाठ है—'जीवट्टाणं णिबद्धमंगलं'। अतः बहुव्रीहि समास की अपेक्षा जीवट्टाण मंगल युक्त है, इतना ही अर्थ होता है। इससे इस कथन के आधार पर णमोकार मन्त्र को पुष्पदन्ताचार्य की कृति मानना अनुचित है। जिस तरह 'णमोजिणाणं' आदि वेदना खण्ड के प्रारम्भ में निबद्ध सूत्र गौतम गणधर रचित हैं, वही बात णमोकारमन्त्र के विषय में भी है।

प्रश्न—'जीवट्टाणं णिबद्धमंगलं'—इन शब्दों-द्वारा जीवट्टाण रूप प्रथम ग्रन्थ में 'निबद्ध मंगलं' शब्द देने का क्या प्रयोजन है?

समाधान—टीकाकार का अभिप्राय यह है कि ग्रन्थ के आरम्भ में मंगल होना चाहिए—इस सामान्य शिष्टाचार की मान्यता का परिपालन जीवट्टाण में हुआ है। उसका उल्लंघन नहीं हुआ है। यह उन्होंने सूचित किया है।

प्रश्न—जब मंगल के निबद्ध, अनिबद्ध ये दो भेद जीवट्टाण में किये गये, तब आचार्य ने टीका में वेदना खण्ड के समान णमोकार मन्त्र को अनिबद्ध मंगल क्यों नहीं कहा? यदि 'णमो जिणाणं' आदि मंगल सूत्रों के समान णमोकार मन्त्र को भी अनिबद्ध मंगल कह देते तो भ्रम ही उत्पन्न न होता।

समाधान—णमोकार मन्त्र निबद्ध मंगल है या अनिबद्ध है, यह चर्चा टीकाकार ने नहीं की; क्योंकि णमोकार मन्त्र अनादि मूल मन्त्र रूप में सर्वत्र प्रसिद्ध है, अतः उसके विषय में चर्चा करना ध्वलाकार को अनावश्यक प्रतीत हुआ। 'णमो जिणाणं' आदि मंगल सूत्रों के कर्तृत्व के विषय में अवबोध न रहने से वीरसेन स्वामी ने अपनी वेदना खण्ड की टीका में यह स्पष्ट किया कि ये मंगल सूत्र उद्धृत किये गये हैं, अतः ये अनिबद्ध मंगल हैं, अर्थात् भूतबलि स्वामी की रचना नहीं है। जहाँ सन्देह या भ्रम की सम्भावना हो, वहाँ स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है।

प्रश्न—यदि णमोकार मन्त्र अनादि मूल मन्त्र है तथा वह द्वादशांग वाणी का अंग है, तो णमोकार मन्त्र को पुष्पदन्त आचार्यरचित सूचित करने के लिए जो मुद्रित ध्वलाटीका के प्रथम खण्ड में आदर्श प्रतियों के पाठ में परिवर्तन किया गया, वह कैसा है?

समाधान—आदर्श प्रतियों में जो पाठ हैं, उसके अर्थ में पूर्ण संगति बैठने से उसमें फेरफार करने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। उसमें परिवर्तन करने का ही यह फल हुआ, कि जब से ध्वला टीका हिन्दी में मुद्रित हुई, तब से कोई-कोई लोग इस भ्रम में आ गये कि णमोकार मन्त्र पुष्पदन्त आचार्य की रचना है तथा उसे अनादि मूल मन्त्र मानना ठीक नहीं है। मूडबिंद्री की ताड़पत्र की प्रतियों में इस प्रकार पाठ है—'जो सुत्तस्सादीए सुत्तकत्तारेण कयदेवदा-णमोक्कारो तं णिबद्धमंगलं' इसका पाठ इस प्रकार बदला गया—'जो सुत्तस्सादीए सुत्तकत्तारेण णिबद्धदेवदा-णमोक्कारो तं णिबद्धमंगलं'।

मूल पाठ यह था—'जो सुत्तस्सादीए सुत्तकत्तारेण णिबद्धो देवदा-णमोक्कारो तमण्णिवद्धमंगलं'।

परिवर्तित पाठ यह किया गया—‘सुतस्सादीए सुत्तकत्तारेण कय-देवदा-णमोक्कारो तमणिवद्धमंगलं’ (पृ. ४१, ध. टी. १)।

प्रश्न—इस छोटे-से परिवर्तन से क्या बाधा हो गई?

समाधान—सूत्रकर्ता के द्वारा स्वयं रचित देवता का नमस्कार निबद्ध मंगल है तथा जीवद्वाण निबद्ध मंगल है, इससे सामान्य बुद्धि के पाठकों को यह भ्रम हो गया कि णमोक्कार रूप मंगल निबद्ध मंगल है। यथार्थ बात यह है कि टीकाकार वीरसेन स्वामी ने णमोक्कार मन्त्र कौन-सा मंगल है, यह चर्चा ही नहीं की। उन्होंने मंगल के दो भेद कहने के पश्चात् मात्र सूचित किया कि जीवद्वाण में मंगल है। वह ग्रन्थ मंगलरहित नहीं है। ‘कसायपाहुड’ में मंगलाचरण नहीं रचा गया; ऐसी अवस्था इस जीवद्वाण की नहीं है, इसे स्पष्ट करने को आचार्य ने कहा—‘जीवद्वाणं णिवद्धमंगलं’ (१।४१)—यह जीवद्वाण ग्रन्थ मंगलाचरण युक्त है। यह ग्रन्थ निबद्ध मंगल नहीं है।

भूतबलि स्वामी की विशिष्ट दृष्टि—भूतबलि स्वामी—जैसे महाज्ञानी, प्रतिभासम्पन्न तथा परम विवेकी आचार्य ने वेदनाखण्ड, वर्गणाखण्ड और ‘महाबन्ध’—इन तीन खण्डों के लिए स्वतन्त्र मंगल रचना न करके गौतम गणधर रचित ‘महाकम्मपयडि पाहुड’ के अन्तर्गत वेदना खण्ड के आरम्भ में दिये णमो जिणाणं, णमो ओहिजिणाणं आदि सूत्रों को वहाँ से उठाकर अपनी रचना में मंगलरूप में स्थापित किया, इससे यह सूचित होता है कि वे महर्षि परम दीतरागभावसम्पन्न थे। वे अपनी रचना-द्वारा अपना पाण्डित्य प्रदर्शन करने की कल्पना नहीं सोचते थे। प्रतीत होता है कि वे गौतम गणधर के उन सूत्रों से विशेष प्रभावित थे। अतः उन्हें अन्य मंगल रचना करने की आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई। अपनी रचना को वे स्वयं की कृति न सोचकर जिनेन्द्र की वाणी मानते थे। जैसे समस्त ग्रन्थ गणधर रचित ‘महाकम्म-पयडि पाहुड’ का अवयव है, उसी प्रकार उन्हीं गणधर की रचना रूप मंगलसूत्र को लेना किसी प्रकार भी अनुचित नहीं प्रतीत हुआ।

‘णमो जिणाणं’ आदि सूत्रों को वीरसेन आचार्य गौतम गणधर की कृति स्वीकार करते हैं। उन्होंने वेदनाखण्ड की ‘धवला टीका’ में लिखा है “महाकम्म-पयडि-पाहुडस्स कदिआदि-चउवीस-अणियोगावयवस्स आदीए गोदमभसामिणा परूविदस्स भूदबलि भडारएण वेयणाखंडस्स आदीए मंगलद्वं ततो आणेदूण ठविदस्स णिवद्धत्त विरोहादो—तम्हा अणिवद्धमंगलमिदं” (पृ. ३१, ताम्रपत्रीय प्रति)। वेदनाखण्ड, वर्गणा खण्ड तथा ‘महाबन्ध’ के मंगलरूप गौतम गणधर रचित ‘णमो जिणाणं’ आदि सूत्र हैं। अतः उनके मूलकर्ता भूतबलि स्वामी नहीं हैं। अन्य कृत रचना को अपने ग्रन्थ में निबद्ध करने के कारण उन सूत्रों को अनिबद्ध मंगल माना गया है। अलंकार चिन्तामणि में लिखा है—

“स्वकाव्यमुखे स्वकृतं पद्यं निबद्धं परकृतमनिबद्धम्”

नय-दृष्टि—‘महाबन्ध’ का प्रथम मंगलसूत्र ‘णमो जिणाणं’ द्रव्यार्थिक नयाश्रित लोगों के अनुग्रह हेतु गौतम स्वामी ने रचा था। इसके पश्चात् रचित ४३ सूत्रों को पर्यायार्थिक नयाश्रित जीवों के अनुग्रह हेतु रचा था। उनमें ‘णमो ओहिजिणाणं’ प्रथम सूत्र है। वेदना खण्ड में टीकाकार वीरसेन स्वामी ने कहा है—“एवं दव्वट्टिय-जणाणुग्गहद्वं णमोक्कारं गोदमभडारओ महाकम्म-पयडि-पाहुडस्स आदिमिह काऊण पञ्जवट्टिय-णयाणुग्गहणद्वमुत्तर-सुताणि भणदि” (ताम्रपत्रीय प्रति, पृ. ४)—इस प्रकार द्रव्यार्थिक दृष्टि युक्त जीवों के अनुग्रह हेतु गौतम भट्टारक ने ‘महाकर्म प्रकृति’ प्राभृत के आरम्भ में नमस्कार करके पर्यायार्थिक नयाश्रितों के अनुग्रह के हेतु उत्तरसूत्र कहते हैं। इस प्रकार स्याद्वाद दृष्टि को श्रद्धा की दृष्टि से देखनेवाले महर्षि ने दोनों नयों के प्रति समान आदरभाव व्यक्त किया।

गौतम गणधर की दृष्टि

गणधरदेव गौतम स्वामी ने जो मंगलसूत्रों की रचना की थी, वह व्यवहार नय की अपेक्षा से की थी, क्योंकि उन्होंने व्यवहार नय को अनेक जीवों का कल्याणकारी मानकर उसका आश्रय लिया है। जयधवल टीका के ये शब्द विशेष महत्त्वपूर्ण हैं^१—“व्यवहारणयं पडुच्च पुण गोदमसामिणा चदुबीसण्हमणियोगहराणमादीए मंगल कदं” व्यवहार नय का आश्रय लेकर गौतम स्वामी ने चौबीस अनुयोगद्वारों के प्रारम्भ में (णमो जिणाणं आदि) मंगल किया है।

यहाँ यह शंका होती है कि गणधर देव ने अभूतार्थ व्यवहार नय का आश्रय क्यों लिया, वह तो छोड़ने योग्य नय है; क्योंकि वह असत्य है।

समाधान—“ण च व्यवहारणो चप्पलओ। ततो सिस्साण-पउत्तिदंसणादो। जो बहुजीवाणुग्गहकारी व्यवहारणो, सो चेव समस्सिदव्वो त्ति मणेणावहारिय गोदमधेरेण मंगलं तत्थकयं”^१—“व्यवहार नय चपल अर्थात् असत्य नहीं है। क्योंकि उससे शिष्यों की प्रवृत्ति देखी जाती है। गौतम स्थविर ने इस बात को मन में अवधारण करके वहाँ मंगल रचना की कि व्यवहार नय बहुत जीवों का अनुग्रहकारी है और उस व्यवहार नय का आश्रय लेना चाहिए। इसके द्वारा व्यवहार नय का महत्त्व स्पष्ट हो जाता है।

णमोकार मन्त्र की प्राचीनता पर प्रकाश—णमोकार मन्त्र अनादि मूलमन्त्र है। इसके लिए जैन परम्परा में यह प्रसिद्धि है—

“अनादिमूलमन्त्रोऽयं सर्वविघ्नविनाशनः।

मंगलेषु च सर्वेषु प्रथमं मंगलो मतः ॥”

इसके सिवाय मूलाराधना टीका में अपराजित सूरि ने (पृ. २) कहा है कि गणधर ने ‘णमो अरहंताणं’ इत्यादि शब्दों-द्वारा सामायिक आदि ‘लोकबिन्दुसार’ पर्यन्त समस्त परमागम में पंच परमेष्ठियों को नमस्कार किया है।” ग्रन्थ में ये शब्द आये हैं—“यद्येवं सकलस्य श्रुतस्य सामायिकादेर्लोकबिन्दुसारान्तस्यादौ मंगलं कुर्वद्भिर्गणधरैः णमो अरहंताणमित्यादिना कथं पंचानां नमस्कारः कृतः ?”

प्रायश्चित्त में णमोकार का उपयोग—मुनि-जीवन में प्रतिक्रमण रूप अन्तरंग नय का महत्त्वपूर्ण स्थान है। भगवान् ऋषभदेव और अन्तिम तीर्थंकर महावीर के तीर्थ में अपराध न करनेवाले भी श्रमणों को प्रतिक्रमण रूप प्रायश्चित्त करने का विधान है। शेष बाईस तीर्थंकरों के तीर्थ में होनेवाले मुनियों के लिए ऐसा कथन नहीं आया है। उनके तीर्थ में दोष लगने पर ही प्रतिक्रमणरूप प्रायश्चित्त किया जाता था, किन्तु आदि जिन और अन्तिम जिन के तीर्थ में दोष लगाने की सदा सम्भावना रहने से प्रायश्चित्त कहा है। प्रायश्चित्त के भेद प्रतिक्रमण में णमोकार मन्त्र के जाप का आवश्यक और महत्त्वपूर्ण स्थान है। मूलाचार में कहा है—

‘सपडिक्कमणो धम्मो पुरिमस्स य पच्छिमस्स य जिणस्स।

अत्राहे पडिक्कमणं मज्झिमयाणं जिणवराणं ॥७,१५४॥”

आदि जिन तथा पश्चिम जिन अर्थात् वीरभगवान् ने प्रतिक्रमण युक्त धर्म का उपदेश दिया है। अपराध न होने पर भी प्रतिक्रमण करना ही चाहिए, ऐसी आद्यन्त तीर्थंकरों ने शिष्यों को आज्ञा दी है। मध्यम तीर्थंकरों ने अपराध होने पर प्रतिक्रमण कहा है।

इसका हेतु मूलाचार में यह दिया है—

“मज्झिमया दिद्वबुद्धी एयग्गमणा अमोहलक्खा य।

तम्हा हु जमाचरंति तं गरहंता विसुज्झंति ॥७,१५७॥”

१. कोश में ‘चपल’ शब्द का अर्थ ‘असत्त्व’—असत्य किया है—दे. नाममाला ३-२० :

मध्यम तीर्थकरों के शिष्य दृढ़बुद्धि अर्थात् मजबूत स्मरण शक्ति युक्त थे, एकाग्रमन थे, मोहरहित होते थे। इससे उनसे जो अतिचार होता था, उस दोष की वे गर्हा करते थे और शुद्ध चारित्रवाले बनते थे।

**“पुरिम-चरिमा दु जम्मा चलचित्ता चेव मोहलक्खा च।
तो सव्वपडिक्कमणं अंधलम-घोडय-दिट्ठता ॥१५८॥”**

आद्यन्त तीर्थकरों के शिष्य चंचलचित्त हैं। उनका मन दृढ़ नहीं है। मोह से उनका मन आक्रान्त है। वे ऋजुजड़ और वक्रजड़ हैं। अतः सर्व प्रतिक्रमण दण्डकों का वे उच्चारण करते हैं। उनके लिए अन्धे घोड़े का दृष्टान्त है। जैसे वैद्य पुत्र ने अन्धे घोड़े की औषधि का ज्ञान होने से नेत्र की भिन्न-भिन्न दवाओं को क्रम-क्रम से लगा, उसे रोगमुक्त कर दिया, उसी प्रकार सर्व प्रतिक्रमणों का उच्चारण करते हैं, क्योंकि सर्व प्रतिक्रमण दण्डक कर्मक्षय के कारण हैं।

उच्छ्वास का उपयोग—दैवसिक, रात्रिक, पाक्षिक आदि प्रतिक्रमणों में णमोकार के जप की आवश्यकता कही गयी है। ‘मूलाचार’ में लिखा है—“दैवसिक प्रतिक्रमण के कायोत्सर्ग में एक सौ आठ उच्छ्वास करना चाहिए। अर्थात् छत्तीस बार पंच नमस्कार का जाप करना चाहिए। एक बार णमोकार का पाठ करने में तीन उच्छ्वास का काल लगता है। ‘णमो अरहंताणं, णमो सिद्धाणं’ में एक उच्छ्वास, ‘णमो आइरियाणं, णमो उवज्झायाणं’ में दूसरा उच्छ्वास तथा ‘णमो लोए सव्वसाहूणं’ पदोच्चारण में तीसरा उच्छ्वास होता है। प्राण वायु को भीतर लेना और बाहर छोड़ना, यह उच्छ्वास का लक्षण है। रात्रिक प्रतिक्रमण में चौवन उच्छ्वास करना चाहिए अर्थात् १८ बार पंच नमस्कार मन्त्र को चौवन उच्छ्वासों में पढ़ना चाहिए। पाक्षिक प्रतिक्रमण तीन सौ उच्छ्वासों में अर्थात् सौ बार णमोकार पढ़ना चाहिए। चातुर्मासिक प्रतिक्रमण में चार सौ उच्छ्वास, सांवत्सरिक में पाँच सौ उच्छ्वास कहे हैं। (मूलाचार पृ. ३३८, अ. ७, गा. १८५, १८६)

अनगारधर्माभूत टीका (अ. ८, पृ. ६७५) में यह पद्य उद्धृत किया गया है,

**“सप्तविंशतिरुच्छ्वासाः संसारोन्मूलनक्षमे।
सन्ति पंचनमस्कारे नवधा चिन्तिते सति ॥”**

पंचनमस्कार मन्त्र का नौ बार चिन्तवन करने में २७ उच्छ्वास होते हैं। इस प्रकार इसका चिन्तवन संसार का उच्छेद करने में समर्थ होता है।

णमोकार मन्त्र के पाठ में तीन उच्छ्वास प्रमाण काल लगता है। यह उच्छ्वास व्यवहार काल का भेद कहा है। ‘आवलि असंखसमया संखेज्जावलि समूहमुच्छ्वासी’—असंख्यात समय प्रमाण आवलि होती है तथा संख्यात आवली प्रमाण उच्छ्वास होता है। चरणानुयोग रूप आगम में णमोकार के जाप की गणना को उच्छ्वास के माध्यम से भी कहा गया है। जैसे नौ बार णमोकार का जाप करे, इसको इस रूप से कहेंगे कि २७ उच्छ्वास करते हैं। अनगारधर्माभूत में लिखा है—

**“उच्छ्वासाः स्युस्तनुत्सर्गे नियमान्ते दिनादिषु।
पंचस्वष्ट—शतार्ध—त्रि—चतुःपंचशतप्रमाः ॥८-७२॥”**

दिन, रात्रि, पक्ष, चतुर्मास, संवत्सर इन पाँच अवसरों पर वीर भक्ति करते समय जो कायोत्सर्ग किया जाता है, उसमें क्रम से एक सौ आठ, चौवन, तीन सौ, चार सौ, और पाँच सौ उच्छ्वास हुआ करते हैं।

अनादि मन्त्र मानने में हेतु—जैनधर्म का प्राण श्रमण धर्म है। उस मुनिधर्म को निर्दोष बनाने के लिए साधुगण संदा प्रतिक्रमणादि-द्वारा अपनी आत्मा को परिशुद्ध करते हैं। उस प्रतिक्रमण कार्य में पंच णमोकार का स्मरण अत्यन्त आवश्यक अंग है। भगवान् ऋषभनाथ तीर्थकर के समय में भी जो साधुराज होते थे, वे प्रतिक्रमण करते समय णमोकार मन्त्र को पढ़ा करते थे। अतः यह णमोकार मन्त्र गौतम गणधर से ही सम्बन्धित नहीं है, किन्तु इसका सम्बन्ध प्रथम गणधर वृषभसेन स्वामी से भी रहा है। यद्यार्थ में यह अनादि मूल मन्त्र है। चौदह पूर्व के अन्तर्गत जो विद्यानुवाद नाम का दशम पूर्व है, उसमें णमोकार मन्त्र को पैंतीस अक्षरों से युक्त मन्त्र के रूप में निरूपण किया गया है। अतः चरणानुयोग रूप परमागम

के प्रकाश में भी णमोकार मन्त्र अनादि मूल मन्त्र निश्चित होता है। ऐसी स्थिति में मुद्रित हिन्दी धवला टीका के नाम पर जिन्होंने यह धारणा बना ली है कि यह णमोकार पुष्पदन्त आचार्य की रचना है, वह योग्य नहीं है। यह णमोकार मन्त्र उसी प्रकार अनिबद्ध मंगल रूप है, जिस प्रकार णमो जिणाणं, णमो ओहिजिणाणं आदि वेदना खण्ड, वर्गणा खण्ड तथा 'महाबन्ध' के मंगल सूत्र अनिबद्ध मंगल हैं।

प्रश्न—'षट्खण्डागम' के प्रारम्भ में पुष्पदन्त आचार्य णमोकार मन्त्र रूप मंगल सूत्र को उद्धृत करके जीवद्वाण को अलंकृत किया गया, चौथे, पाँचवें तथा छठे खण्ड में भूतबलि स्वामी ने भी ग्रन्थान्तर का मंगल उद्धृत किया, तो क्या दूसरे और तीसरे खण्ड में भी इसी प्रकार अनिबद्ध मंगल को अपनाने की पद्धति अंगीकार की गयी है?

समाधान—दूसरे तथा तीसरे खण्ड में भूतबलि स्वामी ने स्वयं मंगल पद्यों को रचकर उन खण्डों को निबद्ध मंगल युक्त किया है। इस प्रकार 'षट्खण्डागम' सूत्र में निबद्ध और अनिबद्ध दोनों प्रकार के मंगल पाये जाते हैं। अन्य ग्रन्थों में निबद्ध मंगल ही पाया जाता है।

निबद्ध मंगल—दूसरे खण्ड में क्षुद्रबन्ध में यह महत्त्वपूर्ण मंगल श्लोक है—

“जयउ धरसेणणाहो जेण महाकम्मपयडि-पाहुड-सेतो ।
बुद्धिसिरेणुद्धरिओ समप्पिओ पुप्फयंतस्सा॥”

वे धरसेन स्वामी जयवन्त हों, जिन्होंने महा-कर्मप्रकृति-प्राभृत रूप पर्वत को अपनी बुद्धिरूपी मस्तक के द्वारा धारण करके उसे पुष्पदन्त को सौंपा।

इस गाथा में भूतबलि आचार्य ने 'महाकम्म-पयडि-पाहुड' ग्रन्थ की पर्वत से तुलना की है। पर्वत विशाल होता है, यह दुर्गम होता है, असमर्थ तथा दुर्बल हृदयवाले उस पर्वत के पास नहीं जाते हैं, इसी प्रकार यह कर्मविषयक ग्रन्थ महान् है, गम्भीर है तथा सर्व साधारण की पहुँच के परे है। यह महाज्ञानियों की बुद्धि के द्वारा गम्य है।

भूतबलि आचार्य की महत्ता—इस ग्रन्थ का उपदेश धरसेन स्वामी ने पुष्पदन्त के साथ भूतबलि को भी दिया था, किन्तु अत्यन्त विनम्र भाव से भूषित हृदय होने से भूतबलि स्वामी अपना कोई भी उल्लेख न करके अपने साथी का ही वर्णन करते हैं।

बन्ध-स्वामित्व-विचय नाम के तीसरे खण्ड की मंगल गाथा इस प्रकार है—

“साहू—वज्झाइरिए अरहंते वंदिऊण सिद्धे वि ।
जे पंच लोगवाले वोच्छं बंधस्स साभित्तां॥”

साधु, उपाध्याय, आचार्य, अरहंत तथा सिद्ध—इन पंच लोकपालों की वन्दना करके मैं बन्ध-स्वामित्व विचय ग्रन्थ का कथन करता हूँ।

पाँचों परमेष्ठी का जीवन त्रस तथा स्थावर जीवों का रक्षक होने से उनको लोकपाल कहा है। वे प्राणीमात्र का रक्षण करते हैं।

'षट्खण्डागम' सूत्र के विषय में यह बात ज्ञातव्य है कि जीवद्वाण के १७७ सूत्रों के सिवाय द्रव्यप्रमाणानुगम आदि समस्त ग्रन्थ भूतबलि मुनीन्द्र की रचना होते हुए भी उन्होंने प्रकारान्तर से भी अपने नाम की झलक तक नहीं दी। (वेदना खण्ड, ताप्रपत्र, पृ. ४०, ४१) में टीकाकार वीरसेन-स्वामी ने कहा है—'एवं पमाणीभूदमहरिसि—पणालेण आगंतूण महाकम्मपयडि-पाहुडामिय-जलप्पवाहो धरसेणभडारयं संपत्तो । तेण वि गिरिणयर-चंदगुहाए भूदबलि-पुप्फदंताणं महाकम्मपयडिपाहुडं सयलं समप्पिदं । तदो भूदबलिभडारयेण सुदणईपवाह-वोच्छेदभीएण भवियलोगाणुगहइं महाकम्म-पयडिपाहुडं उवसंहरिय छखंडाणि कयाणि"—इस प्रकार प्रमाणरूप महर्षिरूप प्रणालिका से आता हुआ महाकर्म-प्रकृतिप्राभृतरूप अमृत जल का प्रवाह धरसेनाचार्य को प्राप्त हुआ। उन्होंने गिरिनगर की चन्द्रगुहा में भूतबलि तथा पुष्पदन्त को सम्पूर्ण महाकर्मप्रकृतिप्राभृत प्रदान किया। इसके अनन्तर भूतबलि भट्टारक ने श्रुतज्ञान रूप नदी के प्रवाह के व्युच्छेद

के भय से भव्यलोक के अनुग्रह के हेतु महाकर्मप्रकृतिप्राभृत का उपसंहार करके छह खण्ड रूप रचना की।" इस प्रकार धवलाटीकाकार भूतबलि भट्टारक के विषय में प्रकाश डालते हैं, जिससे यह प्रतीत हो जाता है कि इस ग्रन्थरचना में उनका बहुत बड़ा हाथ था। फिर भी, वे महापुरुष अपने विषय में मौन धारण करते हैं; ऐसी विश्वपूज्य आत्माओं का जीवन धन्य माना गया है। यथार्थ में धरसेन स्वामी, पुष्पदन्त स्वामी, भूतबलि स्वामी ये रत्नत्रय तुल्य थे—

आचार्य धरसेन की विशेषता—वीरसेन स्वामी धरसेन भट्टारक के विषय में लिखते हैं—

“पसियउ यहु धरसेणो पर-वाइ-गओह-दाण-वर-सीहो ।

सिद्धंतामिय—सायर-तरंग-संघाय-धोय-मणो ॥४॥”

वे धरसेन आचार्य मुझ पर प्रसन्न हों जो परवादी रूप गजसभूह के मद को नष्ट करने के लिए श्रेष्ठ सिंह के समान हैं तथा जिनका अन्तःकरण सिद्धान्त रूपी अमृत के सागर की तरंगों के समूह से परिशुद्ध हो चुका है।

पुष्पदन्त को प्रणामांजलि—

“पणमामि पुष्पदंतं दुकयंतं दुण्णयंघयार-रविं ।

भग्ग-सिव-भग्ग कंटयनिसि-समिइ-वई सया दंतं ॥५॥”

मैं उन पुष्पदंत आचार्य को प्रणाम करता हूँ जो दुष्कृतों का अन्त करनेवाले हैं, कुनयरूपी अन्धकार के लिए सूर्य के समान हैं, जिन्होंने मोक्षमार्ग के कंटकों को नष्ट कर दिया है, जो ऋषि समाज के स्वामी हैं तथा निरन्तर इन्द्रियों का दमन करते हैं।

भूतबलि भट्टारक—

भूतबलि स्वामी के विषय में आचार्य वीरसेन कहते हैं—

“पणमह कय-भूय-बलिं भूयबलिं केस-वास परिभूय-बलिं ।

विणिहय-वम्मह पसरं वइदाविय विमल-णाण-वम्मह-पसरं ॥६॥”

जो प्राणिमात्र अथवा भूत जाति के व्यन्तर देवों से पूजे गये हैं, जिन्होंने अपने केशपाश के द्वारा जरा आदि से उत्पन्न हुई शिथिलता को तिरस्कृत किया है, जिन्होंने कामभाव के प्रसार को नष्ट करके वर्द्धमान, निर्मल ज्ञान के द्वारा ब्रह्मचर्य के प्रसार को बढ़ाया है, ऐसे भूतबलि स्वामी को प्रणाम करो।

जैनी दीक्षा में उपयोग—इस महामन्त्र णमोकार का जैन संस्कृति में दीक्षा प्रदान करते समय उपयोग किया जाता है। ‘महापुराण’ में नवीन जैन दीक्षा लेनेवाले व्यक्ति के लिए इस प्रकार संस्कार का वर्णन आया है—“जिनेन्द्र भगवान् के समवसरण में मंगल की पूजा हो जाने के उपरान्त आचार्य उस भव्य पुरुष को जिनेन्द्रदेव की प्रतिमा के सम्मुख बैठाएँ और बार-बार उसके मस्तक को स्पर्श करता हुआ कहें कि यह तेरी श्रावक की दीक्षा है—“तवोपासकदीक्षेयं” (पर्व ३६, श्लोक ४१)। पंच गुरु मुद्रा के विधानपूर्वक उसके मस्तक का स्पर्श करें तथा तू दीक्षा से पवित्र हुआ है—“पूतोऽसि दीक्षया”, इस प्रकार कहकर उससे पूजा के शेषाक्षत ग्रहण कराएँ।

“ततः पंचनमस्कारपदान्यस्मा उपादिशेत् ।

मन्त्रोऽयमखिलात्पापात्वां पुनीतादितीरयन् ॥४३॥”

इसके पश्चात् आचार्य उस भव्य को पंचनमस्कार पदों का उपदेश दें तथा उसके पूर्व यह आशीर्वाद दें कि यह मन्त्र समस्त पापों से तुझे पवित्र करे।

यह अड़तालीस प्रकार की दीक्षान्वय क्रिया के अन्तर्गत तीसरी स्थानलाभ नाम की क्रिया कही गयी है।

गणधर कथित पर्युपासना में णमोकार—गौतम गणधर रचित ‘प्रतिक्रमण ग्रन्थत्रयी’ में प्रतिक्रमण करते समय यह पाठ पढ़ा जाता है—“जाव अरहंताणं भयवंताणं णमोक्कारं करेमि, पज्जुवासं करेमि ताव कायं

पावकर्मं दुच्चरियं वोस्सरामि”—जब तक मैं अरहन्त भगवान् को नमस्कार करता हूँ, पर्युपासना करता हूँ, तब तक मैं पापकर्म तथा दुश्चरित्र के कारण शरीर के प्रति ‘उदासीनी भवामि’—मैं उदासीनता धारण करता हूँ। पर्युपासना के विषय में टीकाकार आचार्य प्रभाचन्द इस प्रकार प्रकाश डालते हैं—“एकाग्रेण हि विशुद्धेन मनसा चतुर्विंशत्युत्तर- शतत्रयाद्युच्छ्वासैरष्टोत्तरशतादिवारान् पञ्चनमस्कारोच्चारणमर्हतांपर्युपासनकरणं”—(बृहत्प्रतिक्रमण, पृष्ठ १५१)। एकाग्रचित्त हो विशुद्ध मनोवृत्तिपूर्वक तीन सौ चौबीस उच्छ्वास में एक सौ आठ बार पंचनमस्कार का उच्चारण करना अर्हन्त की पर्युपासना है।” इससे स्पष्ट होता है कि प्रतिक्रमण करते समय १०८ बार णमोकार का जापरूप पर्युपासना का कार्य आवश्यक है। अतः णमोकार मन्त्र की रचना ‘षट्खण्डागम’ सूत्रों के मंगल रूप में आचार्य पुष्पदन्त-द्वारा की गयी है, यह धारणा पूर्णतया भ्रान्त प्रमाणित होती है। यह द्वादशांगवाणी का अंग है।

यह णमोकार मन्त्र जैन संस्कृति का हृदय है। श्रमणों तथा उपासकों के लिए प्राणसदृश है। धर्मध्यान के दूसरे भेद पदस्य ध्यान में मन्त्रों के जाप और ध्यान का कथन किया गया है। पंचपरमेष्ठी के वाचक पैतीस अक्षर रूप मन्त्र का ध्यान तथा जप का उल्लेख आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती ने द्रव्यसंग्रह गाथा ४६ में किया है। उसकी टीका में द्वादश सहस्र श्लोकप्रमाण पंचनमस्कार ग्रन्थ का उल्लेख किया गया है।^१

निष्कर्ष—इस प्रकार णमोकार मन्त्र की प्राचीनता के विषय में शास्त्राधार तथा गुरुपरम्परा सद्भाव होने से उसे द्वादशांग वाणी का अंग मानना चाहिए। इस चर्चा से यह ज्ञात होता है कि सत्पररूपणा के १७७ सूत्रों के प्रारम्भ में महाज्ञानी मुनीन्द्र पुष्पदन्त स्वामी ने णमोकारमन्त्र रूप अनिबद्ध मंगल को निबद्ध किया था तथा वेदना, वर्गणा तथा ‘महाबन्ध’ रूप तीन खण्डों के लिए ‘णमो जिणाणं’ आदि ४४ मन्त्रों को भूतबलि स्वामी ने मंगल सूत्र बनाये, जो कि णमोकार मन्त्र के समान ही द्वादशांग वाणी के ही साक्षात् अंग रूप हैं। वास्तव में यह हमारा अनादिमूलमन्त्र है तथा यथार्थ में यह अपराजित मन्त्रराज है। ‘अनादिमूलमन्त्रोऽयम्’ यह पाठ पूजा के समय पढ़ा जाता है; वह वास्तविकता से सम्बन्ध रखता है।

यह भी स्मरणीय बात है कि श्वेताम्बर जैन साहित्य में भी इस महामन्त्र को दिग्म्बरों के समान ही पूज्य और प्राचीन माना गया है।

जिस प्रकार गौतम गणधर के मंगलसूत्रों को भूतबलि स्वामी ने अपनी रचना का मंगल बनाया, तदनुसार इस हिन्दी टीका में भी वीरसेन स्वामी के मंगलपद्यों को हमने विघ्न-विनाश निमित्त अपने मंगलरूप में ग्रहण किया।

प्रतिलिपि के विषय में

‘महाबन्ध’ की मूल प्रति ताड़पत्र पर कन्नड़ लिपि में है। भाषा प्राकृत है। प्राचीन प्रति होने के कारण उसकी लिपि भी पुरातन कन्नड़ है। ‘महाबन्ध’ग्रन्थ २१६ ताड़पत्रों में है। इसके आरम्भ के २६ ताड़पत्रों का ‘महाबन्ध’ से कोई सम्बन्ध नहीं है। उसमें सत्कर्मपंजिका है जो ‘षट्खण्डागम’ के अन्य विषय स्थलों पर प्रकाश डालती है। ‘महाबन्ध’ का प्रारम्भिक ताड़पत्र अनुपलब्ध है। सम्पूर्णग्रन्थ के १४ पत्र नष्ट हो चुके हैं। इससे लगभग तीन-चार सहस्र श्लोक प्रमाण, शास्त्र तो सदा के लिए हमारे दुर्भाग्य से चला गया। कहीं-कहीं पत्र इतस्ततः त्रुटित भी हैं। इसके कारण अनेक महत्वपूर्ण स्थलों का अवबोध नहीं हो सकता तथा किसी विषय का सहसा रस भंग हो जाता है, कारण प्रसंग-परम्परा का अभाव हो गया है। ऐसे अवसर पर हृदय में अवर्णनीय वेदना होती है कि हमारी असावधानी के कारण उस द्वादशांग वाणी की महानिधि का वह अंश लुप्त हो गया जो जगत् के कल्याण निमित्त धरसेन स्वामी ने भूतबलि मुनीन्द्र के द्वारा बड़ी कठिनता से नष्ट होने से बचाया था। आज उस लुप्त अंश की पूर्ति की कथा ही दूर, उसकी पंक्तियों की पूर्ति करना भी असम्भव है। कारण भूतबलि स्वामीसदृश क्षयोपशम किसे प्राप्त है?

१. “द्वादश-सहस्र-प्रमित-पंचनमस्कारग्रन्थ-कथितक्रमेण लघुसिद्धचक्रं, बृहत्सिद्धचक्रमित्यादिदेवार्चन-विधानं भेदाभेद-रत्नत्रयाराधक-गुरुप्रसादेन ज्ञात्वा ध्यातव्यम् ॥” बृहत् द्रव्यसंग्रह, २०४

आचार्य शान्तिसागर महाराज की श्रेष्ठ श्रुतसेवा—इस सम्बन्ध में यह कथन उल्लेखनीय है कि चारित्रचक्रवर्ती आचार्य शान्तिसागर महाराज ने सन् १९४३ के दशलक्षण पर्व के समय स्वर्गीय ब्रह्मचारी फतेचन्द्रजी परवारभूषण के द्वारा एक पत्र भिजवाया था। उसमें यह लिखा था कि '१०८ पूज्य आचार्य महाराज 'महाबन्ध' के सूत्रों की प्रतिलिपि चाहते हैं, अतः उसको लिखकर शीघ्र भिजवाएँ।' उस समय हमने आचार्य महाराज को समाचार भेजा था कि 'महाबन्ध' भूतबलि स्वामी रचित सूत्ररूप ही है। उस पर कोई टीका नहीं है। चालीस हजार प्रमाण ग्रंथ की प्रतिलिपि के लिए लेखक भिजवाना आवश्यक होगा। दुर्भाग्य से ग्रन्थ के १४ ताड़पत्र नष्ट हो जाने से तीन-चार हजार श्लोक सदा के लिए विलुप्त हो गये।"

हमारे पत्र को प्राप्त कर प्रवचनभक्ति-भावना-भूषित आचार्य महाराज के हृदय में अपार चिन्ता उत्पन्न हो गयी। उन्होंने कहा था—“तुम्हारे पत्र को पाकर हमें ऐसी ही चिन्ता हो गयी थी, जैसी चिन्ता धरसेन स्वामी के मन में शास्त्र के उद्धार हेतु हुई थी। रात्रि को नींद नहीं आयी। हमने सोचा तीन, चार हजार श्लोक तो नष्ट हो चुके। यदि शीघ्रता से ग्रन्थों की रक्षा का कार्य नहीं किया गया, तो और भी अपार क्षति हो जाएगी। इससे हमने कुन्थलगिरि में संघपति गेंदनमल, भट्टारक जिनसेन (नाँदणी मठ), चन्दूलाल सराफ, बारामती आदि के समक्ष कहा था कि हमारी इच्छा है कि धवल, 'महाधवल' और जयधवल, इन आगम-ग्रन्थों को ताद्रूप में खुदवाकर उनकी रक्षा की जाए, जिससे वे चिरकाल तक सुरक्षित रह सकें। उस समय संघपति सेठ गेंदनमल ने कहा कि वे इस काम के लिए सारा खर्चा देने को तैयार हैं; किन्तु हमने कहा कि यह काम एक का नहीं है। समाज के द्वारा यह कार्य होना चाहिए। लोगों ने रात्रि के समय बैठक करके इस कार्य के लिए अर्थ की व्यवस्था की। इस कार्य के लिए जिनवाणी जीर्णोद्धारक संस्था की स्थापना की गयी। 'महाराज ने हमसे कई बार कहा था कि इन सिद्धान्त-ग्रन्थों को ताद्रूप में उत्कीर्ण किये जाने में मुख्य कारण तुम हो। तुम्हारे पत्र के कारण ही हमारा ध्यान ताद्रूप में ग्रन्थ को उत्कीर्ण कराने को गया था।" उक्त संस्था के मन्त्री श्री बालचन्द्र देवचन्द शहा, बी. ए. सोलापुर ने महत्त्वपूर्ण सेवा की।

उन जगद्गुरु, बालब्रह्मचारी, श्रमणशिरोमणि आचार्य महाराज की प्रेरणा से एक लाख सत्तर हजार श्लोक के लगभग सिद्धान्त शास्त्र ताद्रूप में उत्कीर्ण हो गये तथा उनकी पाँच सौ प्रतियाँ भी कागज में मूल रूप में मुद्रित हो गयीं। उन प्रभावक मनस्वी गुरुदेव के प्रभाव से जैनधर्म तथा रत्नत्रय की ज्योति बहुत दीप्तिमान् हुई थी, किन्तु उनके कार्यों में सिद्धान्त-शास्त्र-संरक्षण तथा उसका प्रचार कार्य सर्वोपरि गिना जाएगा। उन्हीं साधुराज की इच्छानुसार सम्पूर्ण मूल रूप, 'महाबन्ध' के संशोधन, सम्पादन का कार्य करके ताद्रूप में उत्कीर्ण कराने में हमें भी अपनी नग्न ऑनरेरी सेवा अर्पण करने का परम सौभाग्य मिला। हमने सम्पूर्ण 'महाबन्ध' मुद्रित कराकर सन् १९५४ के दशलक्षण पर्व में फलटण के जिनालय में, आचार्य शान्तिसागर महाराज के कर-कमलों में सविनय समर्पण कर उनका हार्दिक आशीर्वाद प्राप्त किया था। हमारे द्वारा एक वर्ष में ही सम्पूर्ण कार्य को सम्पन्न देखकर उन गुरुदेव को अपार आनन्द तथा सन्तोष हुआ था।^१

१. श्री १०८ चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शान्तिसागर दिगम्बर जैन जिनवाणी जीर्णोद्धारक संस्था की रिपोर्ट में लिखा है—“आचार्य शान्तिसागर महाराज ने अनेक बार यह कहा था कि इस जिनवाणी जीर्णोद्धारक संस्था के कार्यपूर्ति के कारण दिवाकरजी हैं, क्योंकि इनके द्वारा जब पूज्यश्री को महाधवल ग्रन्थ के चार, पाँच हजार श्लोकों के नष्ट होने की सूचना प्रेषित की गयी, तब आचार्यश्री के मन में श्रुतरक्षण की ऐसी ही तीव्र भावना उत्पन्न हुई, जिस प्रकार आचार्य धरसेन स्वामी को श्रुतरक्षण की चिन्ता उत्पन्न हुई थी। श्री पं. सुमेरचन्द्रजी दिवाकर शास्त्रीजी ने महाधवल के सम्पादन, प्रकाशन आदि का कार्य बहुत धर्मप्रेमवश परिश्रमपूर्वक किया और उसके बदले में किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता या भेंट स्वीकार नहीं की। फलटण में उक्त पण्डित जी को आचार्यश्री के समक्ष संवत् २०१० भाद्रपद वदी ५ को सम्मानित किया। आचार्यश्री ने पं. दिवाकरजी की निःस्वार्थ सेवा और किसी प्रकार की भेंट स्वीकार न करने पर अत्यन्त हर्ष प्रदर्शित करते हुए पण्डितजी को मंगलमय पवित्र आशीर्वाद प्रदान किया।” (पृष्ठ ६ तथा ७, संवत् २०१० से २०१६ का अहवाल, प्रकाशक, बालचन्द्र देवचन्द शहा, बी.ए. मन्त्री तथा माणिकचन्द्र मलूकचन्द दोशी, बी.ए. एल-एल बी, उपमन्त्री, फलटण (महाराष्ट्र)।

महाबन्ध की प्रतिलिपि—‘महाबन्ध’ आदि सिद्धान्त ग्रन्थों की जो कन्नड़ लिपि में ताड़पत्र में उत्कीर्ण प्रति मूडबिंद्री के सिद्धान्त मन्दिर में विद्यमान है, वह यथार्थ में मूल प्रति नहीं है। वह प्रति सात या आठ सौ वर्ष पुरानी कही जाती है। उस प्रति के आधार पर अन्य प्रतियाँ तैयार कराकर कुछ स्थानों पर भेजी गयी हैं। हमने मूडबिंद्री जाकर इन ग्रन्थों को देखा, कारण ताम्रपत्र की प्रति तैयार करने में कोई त्रुटि न रह जाए, अतः मूडबिंद्री की कॉपी का सूक्ष्म निरीक्षण आवश्यक था। ‘महाबन्ध’ की हमारी प्रति में पाठ कहीं-कहीं दूसरा था, ज्ञानपीठ काशी से मुद्रित प्रति में भिन्न था। इससे मूडबिंद्री के ताड़पत्र के शास्त्र का क्या पाठ है, यह जानना आवश्यक तथा पुण्य कर्तव्य था। हम अपने साथ में सन् १९५३ में छोटे भाई अभिनन्दनकुमार दिवाकर एम.ए., एल-एल. बी, एडवोकेट को भी मूडबिंद्री ले गये थे, क्योंकि ग्रन्थ का सम्यक्-परिशीलन बड़े उत्तरदायित्व का कार्य था। पं. चन्द्रराजैय्या कन्नड़ी भाषा के विशेषज्ञ से ग्रन्थ को हम बँचवाते थे। उस समय हमें ज्ञात हुआ था कि ताड़पत्र की प्रतियाँ कहीं-कहीं अशुद्ध पाठयुक्त भी हैं। पं. लोकनाथजी शास्त्री, पं. नागराजजी शास्त्री तथा पं. चन्द्रराजेन्द्रजी ने पहले हमारे लिए देवनागरी लिपि में प्रतिलिपि तैयार की थी। उसमें कुछ त्रुटियों को देखकर ताड़पत्र की प्रतिलिपि के साथ अपनी प्रतिलिपि का दोबारा सन्तुलन का कार्य पं. चन्द्रराजेन्द्र शास्त्री ने बड़े परिश्रम से सम्पन्न किया था। फलतः महत्त्वपूर्ण भूलों को सुधारा गया है।

महारानी मल्लिका देवी का शास्त्र-दान—मूडबिंद्री में विद्यमान ताड़पत्रीय प्रति के विषय में यह बात ज्ञातव्य है कि वनितारत्न महारानी मल्लिकादेवी ने अपने पंचमी व्रत के उद्यापन में उक्त प्रतिलिपि तैयार कराकर यतिपति मुनिराज श्रीमाधनन्दि महाराज को अर्पण की थी। अतः भूतबलि स्वामी के द्वारा लिखित ‘महाबन्ध’ की मूल प्रति मूडबिंद्री में है, ऐसी कल्पना अयथार्थ है। प्रथम प्रति के जीर्ण होकर नष्ट होने के पूर्व दूसरी प्रति श्रुतभक्त व्यक्तियों-द्वारा तैयार की गयी थी। ऐसा ही क्रम अन्य ग्रन्थों के विषय में रहा है। अतः ग्रन्थों के पाठों में संशोधन आदि कार्य करते समय जो यह सोचा जाता है कि यह परिवर्तन भूतबलि, पुष्यदन्त रचित मूल सूत्रों के विषय में किया गया है, यथार्थ में यह बात नहीं है। वास्तव में बात यह है कि मूडबिंद्री की प्रतियाँ भी प्रतिलिपियाँ ही हैं। इतने बड़े ग्रन्थों को ताड़पत्र में उत्कीर्ण करने के अनेक वर्ष के परिश्रमसाध्य कार्य में प्रमाद, क्षयोपशम की मन्दा तथा शारीरिक परिस्थिति आदि अनेक कारणों से कहीं कुछ अयथार्थ लिखा जाना असम्भव नहीं है। पापभीरु, आगमभक्त, श्रुतसेवी विद्वान् पूर्वापर सम्बन्ध, परम्परा आदि के प्रकाश में कार्य किया करते हैं।

मूडबिंद्री की प्रति—पूर्ण ‘महाबन्ध’ २१६ ताड़पत्रों में अंकित है। उसमें २७ पत्र पंजिका के हैं, जिसका ‘महाबन्ध’ से कोई सम्बन्ध नहीं है। ग्रन्थ के १४ ताड़पत्र नष्ट हो गये; इस प्रकार ‘महाबन्ध’ की ताड़पत्रीय प्रति १७८ पत्रों में विद्यमान है।

‘महाबन्ध’ में प्रकृतिबन्ध का कथन ताड़पत्र ५० पर्यन्त है। ‘महाबन्ध’ के इस प्रथम खण्ड में २२ ताड़पत्रों का मूल तथा अनुवाद छपा जा रहा है। स्थितिबन्ध का वर्णन ताड़पत्र ११३ पर्यन्त है, अनुभाग बन्ध का वर्णन एक सौ तेरह ताड़पत्र तक है तथा प्रदेशबन्ध दो सौ उन्नीस ताड़पत्र पर्यन्त है। मूडबिंद्री के पण्डित लोकनाथ जी शास्त्री के नेतृत्व में हमने देवनागरी लिपि में प्रतिलिपि तैयार करायी थी। उन्होंने हमें लिखा था कि ताड़पत्र की प्रति लगभग सात सौ या आठ सौ वर्ष प्राचीन होगी। ‘महाबन्ध’ की ताड़पत्र की राशि में चार-पाँच त्रुटित ताड़पत्र भी अलग हैं, जो किसी-किसी प्रकारण के त्रुटित अंश के पूरक प्रतीत होते हैं।

‘महाबन्ध’ शास्त्र द्वादशांगवाणी से साक्षात् सम्बन्ध रखता है। इस ग्रन्थराज पर कोई भी टीका उलब्ध नहीं होती है। कहते हैं, तुम्बुलुर नामक आचार्य ने ‘महाबन्ध’ पर सात हजार श्लोक प्रमाण टीका रची थी, किन्तु उसकी अब तक उपलब्धि नहीं हुई है। ‘महाबन्ध’ के सूत्र गद्यरूप हैं। इसके प्रारम्भ में सोलह गाथाएँ आयी हैं। स्थितिबन्धाधिकार में तीन गाथाएँ और पायी जाती हैं।

महाबन्ध में भिन्न परम्परा का संकेत—यह चालीस हजार श्लोकप्रमाण ‘महाबन्ध’ शास्त्र भूतबलि

स्वामी की अनुपम रचना है। इस ग्रन्थ में आचार्य भूतबलि स्वामी ने कहीं-कहीं भिन्न गुरुपरम्परा का घोटक उल्लेख भी किया है। वे काल प्ररूपणा में (ताम्रपत्र, पृ. १२, १३) तेजोलेश्या की अपेक्षा प्ररूपणा करते हैं—“धीणगिद्धितिंगं अणुताणुबं. ४ एय.। उक्क. वेसागरोव. सादिरे.। णवरि केसिं च जह. एगस.।” पद्मलेश्या का कथन करते हुए आचार्य लिखते हैं—“धीणगिद्धि. अणुताणु. ४ एगसं (स.)। उक्क. अट्टारस. सादि.। णवरि के सिं च एगस.।” यहाँ ‘केसिं च’ शब्द-द्वारा अन्य पक्ष का प्रतिपादन किया गया है। यह अन्य पक्ष किनका है, इसका उल्लेख नहीं हुआ है। यह प्रकृतिबन्ध खण्ड का कथन है।

‘महाबन्ध’ के स्थिति बन्ध खण्ड में (ताम्रपत्र प्रति ७७) ‘अद्धच्छेद परूवणा’ का निरूपण करते हुए कहते हैं—“सुहुमसं. पंचणाणा. चदुदंस. पंचतरा उक्क. द्विदि. मुहुत्तपुधत्तं, अंतोमु. आबधा. णिसे.। सादावे. जसगि. उच्चागो. उक्क. द्विदि. मासपुधत्तं अंतो. आबा. णिसे.। अथवा पंचणा. चदुदंस. पंचतरा. उक्क. द्विदि. दिवसपुधत्तं अंतो. आबा. णिसे.। सादा. जसगि. उच्चा. उक्क. द्विदि. वासपुधत्तं, अंतो आबा. णिसे.” यहाँ ‘अथवा’ के द्वारा भिन्न परम्परा का कथन किया प्रतीत होता है।

यतिवृषभ आचार्य का भिन्न मत

‘गोम्पटसार’ में भूतबलि आचार्य के कथन से भिन्न ‘कषाय प्राभृत’ के चूर्णिसूत्रकार यतिवृषभ का कथन मिलता है। यतिवृषभ आचार्य कहते हैं कि नरक, तिर्यच, मनुष्य और देव में उत्पन्न हुए जीव के प्रथम समय में क्रमशः क्रोध, माया, मान तथा लोभ का उदय होता है अर्थात् नारकी के क्रोध का, तिर्यच के माया का, मनुष्य के मान का और देव के लोभ का उदय प्रथम समय में पाया जाता है, किन्तु भूतबलि आचार्य का कथन है कि इस विषय में कोई नियम नहीं है। नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती ने दोनों मान्यताओं का प्रतिपादन इस गाथा में किया है—

“णारय-तिरिक्ख-णर-सुरगईसु उप्पण्ण-पढमकालम्हि।

कोहो माया माणो लोहुदओ अणियमो वापि ॥गा. २८८॥”—जीवकाण्ड

इस काल में, इस क्षेत्र में केवली, श्रुतकेवली का असद्भाव रहने से ‘गोम्पटसार’ में दोनों मान्यताओं का कथन किया है। संस्कृत टीकाकार के शब्द महत्त्वपूर्ण हैं—“अस्मिन् भरते तीर्थकर-श्रुतकेवल्याभावात्; आरातीयाचार्याणां सिद्धान्तशास्त्रकर्तृभ्यो ज्ञानातिशयवतामभावाच्च”—इस भरत क्षेत्र में तीर्थकर तथा केवली का अभाव है और उक्त सिद्धान्तशास्त्रों के कर्ताओं से अधिक ज्ञानियों के पश्चात्तर्वर्ती आचार्यों का अभाव है। ऐसी स्थिति में दोनों मतों का कथन करने के सिवाय अन्य मार्ग नहीं है।

‘गोम्पटसार कर्मकाण्ड’ में भी भूतबलि स्वामी का मत प्रतिपादन के साथ दूसरा मत भी प्रदर्शित किया है। उदय-व्युच्छिति का वर्णन करते हुए भूतबलि आचार्य का मत इस गाथा-द्वारा व्यक्त किया है—

“पण-णव-इगि-सत्तरसं-अड-पंच च चउर छक्क छच्चैव।

इगि-दुग-सौत्तस-तीसं बारस उदये अजोगंता ॥२६४॥”

मिथ्यात्व गुणस्थान में ५, सासादन में ६, मिश्र में १, अविरत में १७, देशविरत में ८, प्रयत्तसंयत में ५, अप्रमत्तसंयत में ४, अपूर्वकरण में ६, अनिवृत्तिकरण में ६, सूक्ष्मसाम्पराय में १, उपशान्तकषाय में २, क्षीणकषाय में १६, सयोगीजिन में ३० तथा अयोगकेवली में १२ प्रकृति की व्युच्छिति कही है।

अन्य आचार्य-परम्परा का कथन इस गाथा में किया है—

“दस-चउ-रिगि-सत्तरसं अड्ड य तह पंच चैव चउरो य।

छच्छक्क-एक्क-दुग-दुग-चोदस उगुतीस तेरसुदयविधिः ॥२६३॥”

मिथ्यात्वादि गुणस्थानों में दस, चार, एक, सत्रह, आठ, पाँच, चार, छह, छह, एक, दो, दो, चौदह, उन्तीस तथा तेरह प्रकृतियों की उदय व्युच्छिति कही है।

‘महाबन्ध’ का प्रभाव

समस्त जैनवाङ्मय में बन्ध के विषय में ‘महाबन्ध’ श्रेष्ठ रचना है। इतना ही नहीं, किन्तु विश्व के कर्म-सम्बन्धी साहित्य में यह श्रेष्ठ कृति ही अत्यन्त प्राचीन, पूज्य तथा प्रामाणिक ग्रन्थ होने के कारण यह महाशास्त्र भूतबलि स्वामी के पश्चाद्दर्ती प्रायः सभी महान् शास्त्रकारों का बन्ध के विषय में मागदर्शक रहा है। ‘तत्त्वार्थवार्तिकालंकार’ के देखने से ज्ञात होता है कि अकलंक स्वामी पर ‘महाबन्ध’ का प्रभाव पड़ा है। वे ‘महाबन्ध’ को ‘आगम’ शब्द से संकीर्तित करके अपना आदर तथा श्रद्धा का भाव व्यक्त करते हुए प्रतीत होते हैं—

“आगमे ह्युक्तं मनसा मनः परिच्छिद्य परेषां संज्ञादीन् जानाति, इति मनसात्मनेत्यर्थः। तमात्मनावबुध्यात्मन परेषां च चिन्ता-जीवित-मरण-सुख-दुःख-लाभालाभादीन् विजानाति। व्यक्तमनसां जीयानामर्थं जानाति, नाव्यक्तमनसाम्।”

—त. रा., पृ. ५८।

“मणेण माणसं पडिविदइत्ता परेसिं सण्णासदिमदिचिंतादि विजाणदि। जीविदमरणं लाभालाभं सुहदुक्खं णमरविणासं देहविणासं जणपदविणासं अदियुडि-अणावुडि-सुवुडि-दुवुडि-सुभिक्खं दुभिक्खं खेमा-खेमं भयरोगं उब्भमं इब्भमं संभमं। वत्तमाणाणं जीवाणं, णोअवत्तमाणाणं जीवाणं जाणदि।”

—‘महाबन्ध’, ताम्रपत्र प्रति, पृ. २

‘गोम्मतसार’ पर भी ‘महाबन्ध’ का प्रभाव स्पष्टतया दृग्गोचर होता है। उदाहरणार्थ, इस प्रकृतिबन्धाधिकार के बन्धसामित्तविचय अध्याय से तुलना करें, तो पता चलेगा, कि यहाँ वर्णित कर्मप्रकृतियों के बन्धकों, अबन्धकों आदि का कथन ‘गोम्मतसार’ कर्मकाण्ड की ‘मिच्छत्तहुंडसंदा’ आदि गाथा ६५ से १२० तक पद्यरूप में निबद्ध हैं। ‘महाबन्ध’ में बन्ध के सादि-अनादि, ध्रुव-अध्रुवरूप भेदों का वर्णन ३३-४३ पृष्ठ पर किया गया है। वह गोम्मतसार कर्मकाण्ड गाथा १२२ से १२४ में निरूपित हुआ है।

‘महाबन्ध’ के पृ. २१-२४ में ‘ओगाहणा जहण्णा’ आदि सोलह गाथाएँ हैं, वे तनिक परिवर्तन के साथ गोम्मतसार जीवकाण्ड की ज्ञानमार्गणामें वर्णित हैं।

अन्य आगम पर ‘महाबन्ध’ का प्रभाव प्रकट ज्ञात होगा। वहाँ भी उनमें ‘महाबन्ध’ के प्रमेयसम्बन्धी चर्चा की गयी है, कारण बन्धविषय के विशदरूप से प्रतिपादक ‘महाबन्ध’ से प्राचीन ग्रन्थराज की अनुपलब्धि है।

ग्रन्थ की उपयोगिता

भौतिक उपयोगितावादी ‘महाबन्ध’ को देखकर आनन्दामृत पान नहीं कर सकेगा, कारण उसकी दृष्टि में बाह्य पदार्थों की उपलब्धि ही आत्मोपलब्धि है। अनेक व्यक्तियों की यह धारणा रही है कि इन सिद्धान्तग्रन्थों में अपूर्व तथा अश्रुतपूर्व विद्या का भण्डार है, जिसके बल से लोहा सोना रूप में परिणत किया जा सकता है, आकाश में विमान उड़ाये जा सकते हैं, आदि विविध वैज्ञानिक चमत्कारों का आकर होने की मधुर कल्पना के कारण लोगों की इन शास्त्रों के प्रति अत्यधिक ममता रही; किन्तु प्रत्यक्ष परिचय के द्वारा जब यह ज्ञात होता है कि ‘महाबन्ध’ में केवल प्रकृति, स्थिति, अनुभाग तथा प्रदेशरूप बन्धचतुष्टय का सूक्ष्म एवं विस्तृत वर्णन है, तब वह सोचता है कि इससे हमें क्या करना है? अपना काम करो, ऐसी रचनाओं में अपने बहुमूल्य समय का व्यय क्यों किया जाए? आपाततः यह दृष्टि प्रिय तथा आकर्षक मालूम पड़ती है, किन्तु ज्ञानवान् व्यक्ति को यह विचार अविद्यान्धकार पूर्ण प्रतीत होता है। लौकिक अर्थभक्त, अनर्थ की जननी तथा आत्मनिधि का लोप करनेवाली सामग्री को सर्वस्व मानता है। वह इन ग्रन्थों में भौतिक विज्ञान की सामग्री न पाकर निराश होता है, किन्तु ज्ञानवान् तथा आत्मनिधि के वैभव को समझनेवाला सत्पुरुष यह अनुभव करता है कि वास्तविक वैज्ञानिक चमत्कारपूर्ण सामग्री से यह महाशास्त्र आपूर्ण है।

आत्मा अपने प्रयत्न से कर्मों के जाल में फँसता है। जो ज्ञान नामक सामग्री बन्धन को और पुष्ट करती है, वह तो महान् अविद्या है। श्रेष्ठ कला, विद्या, विज्ञान या चमत्कार तो इसमें है कि यह आत्मा कर्मों की राशि को पृथक् करके अपने अनन्त तथा अमर्यादित विभूतियों से अलंकृत 'आत्मत्व' को अभिव्यक्त करे। भगवान् वृषभदेव ने आसमुद्रान्त विशाल साम्राज्य को छोड़कर 'आत्मवान्' की प्रतिष्ठा प्राप्त की थी।^१ अर्थशास्त्री रूपयों के हानि-लाभ पर ही दृष्टि रखता है, किन्तु ज्ञानी जीव आत्मा के स्वरूप को ढकनेवाले आस्रव को हानि तथा संवर और निर्जरा को अपना लाभ समझता है। वही सच्चा सम्पत्तिशाली है, जिसे आत्मत्व की उपलब्धि है और वही चमत्कारपूर्ण शक्ति विशिष्ट है, जिसने कर्म-राशि को चूर्ण किया है तथा इसमें उद्योग करता रहता है।

नाटक समयसार में कितनी सुन्दर बात कही गयी है—

“जे जे जगवासी जीव धावर जंगम रूप, ते ते निज बस करि राखे बल तोरिके।
महा अभिमानी ऐसो आस्रव अगाध जोधा, रोपि रणथम्भ ठाड़ो भयो मूछ मोरिके॥
आयो तिहि धानक अचानक परमधाम, ज्ञान नाम सुभट सवायो बल फेरिके।
आस्रव पछारथो रणथम्भ तोड़ि डारथो ताहि निरखि बनारसि नमत कर जोरिके।”

अभिमानी आस्रव सुभट को पछाड़कर विजय प्राप्त करनेवाले आत्मज्ञानी को 'महाबन्ध' सदृश शास्त्र अपूर्व बल प्रदान करते हैं। कर्मों का आत्मा के साथ जो बन्ध है, वह इतना सुदृढ़ और सूक्ष्म है कि भयंकर से भयंकर अस्त्र-शस्त्रादि के प्रहार होने पर भी उस पर कुछ भी असर नहीं होता। आध्यात्मिक शक्ति के जागृत होते ही कर्मों का सुदृढ़ बन्धन ढीला होने लगता है। ऐसे ग्रन्थ उस आत्मीक तेज को प्रवृद्ध करते हैं, जिसके द्वारा यह आत्मा कर्मबन्धन के प्रपंच से मुक्त होने के मार्ग में लग जाता है। कर्मों के प्रपंच से छूटने का उपाय ही यथार्थ में सबसे बड़ा चमत्कार है। संसार के समस्त भौतिक चमत्कार और अन्वेषण एक ओर रखकर दूसरी ओर कर्मनाश करने की आत्मचातुरी अथवा चमत्कार को रख सन्तुलन किया जाए, तो यह आत्मबोध की कला ही श्रेष्ठ निकलेगी, जो अनन्तभव से बँधे हुए अनन्त दुःखों के मूलकारण कर्मों का पूर्णतया उन्मूलन कर आत्मा में अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तवीर्य तथा अनन्तसुख को अभिव्यक्त कर देती है। भौतिकता की आराधना से आत्मत्व का हास ही हुआ करता है। इसका ही कारण है जो जीव अपने 'स्व' को भूलकर 'पर' का उपासक बनता है। अनादि काल से मोह-महाविद्यालय में अभ्यास करनेवाला यह जीव जहाँ भी जाता है और जिस किसी पदार्थ के सम्पर्क में आता है, वहाँ वह या तो आसक्ति धारण करता है या द्वेषभाव रखता है। वीतरागता का प्रकाश कभी भी इसकी जीवनवृत्ति को आलोकित नहीं कर पाया।

'महाबन्ध' सदृश शास्त्र के परिशीलन से आत्मा को पता चलता है कि किस-किस कर्म का मेरे साथ सम्बन्ध होता है, उसके स्वरूपादि का विशद बोध होने से राग, द्वेष तथा मोह का अध्यास एवं अभ्यास मन्द होने लगता है। आर्त और रौद्र नामक दुर्घर्षणों का अभाव होकर धर्मध्यान की विमल चन्द्रिका का प्रकाश तथा विकास होता है जो आनन्दामृत को प्रवाहित करती है और मोह के सन्ताप का निवारण करती है। समुद्र के तल में डुबकी लगाने वालों को बाह्यजगत् की शुभ, अशुभ बातों का पता नहीं चलता; इसी प्रकार कर्मराशि का विशद तथा विस्तृत विवेचन करने वाले इस ग्रन्थार्णव में निमग्न होने वाले मुमुक्षु के चित्त में राग-द्वेषादि सन्तापकारी भाव नहीं उत्पन्न होते। वह बड़ी निराकुलता तथा विशिष्ट शान्ति का अनुभव करता है।

व्यायामादि का सम्यक् अभ्यासशील व्यक्ति व्याधियों के आक्रमण से प्रायः बचा रहता है; इसी प्रकार

१. “विहाय यः सागरवारिवाससं वधूमिवेमां वसुधावधूं सतीम्।

मुमुक्षुरिक्ष्वाकुकुलादिरात्मवान् प्रभुः प्रवज्राज सहिष्णुरच्युतः ॥”—बृहत्सव. ३

ऐसे पुण्यानुबन्धी वाङ्मय के परिशीलन-द्वारा भव्य जीव उस आध्यात्मिक परिशुद्ध व्यायाम को करता है, जिससे आत्मा बलिष्ठ होती है और भौतिक चमक-दमक चित्त में चमत्कृति या विकृति उत्पन्न नहीं कर पाती तथा काम-क्रोध-मोहादि दोष आत्मशक्ति को न्यून नहीं कर पाते।

विपाकविचय धर्मध्यान का साधक—शास्त्रकारों ने धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को निर्वाण का कारण बताया है।^१ धर्म ध्यान के चार भेदों में विपाकविचय नाम का ध्यान कहा गया है। आचार्य अकलक लिखते हैं—“कर्मफलानुभवनविवेकं प्रति प्रणिधानं विपाकविचयः। कर्मणां ज्ञानावरणादीनां द्रव्यक्षेत्रकाल-भव-भावप्रत्ययफलानुभवनं प्रति प्रणिधानं विपाकविचयः।” —त. रा., ३५३। “कर्मों के फलानुभव विवेक के प्रति उपयोग का होना विपाकविचय है। ज्ञानावरणादिक कर्मों का द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव के निमित्त से जो फलानुभवन होता है, उस ओर चित्तवृत्ति को लगाना विपाकविचय है।” कर्मों के विपाक आदि के विषय में अनुचिन्तन करने से रागादि की मन्दता होती है और कषायविजय का कार्य सरल हो जाता है। समय प्राभृतकार के शब्दों में जीव विचारता है—

“जीवस्स णत्थि वग्गो ण वग्गणा णेव फड्डया केई।

णो अज्झप्पट्ठाणा णेव य अणुभायठाणाणि ॥५२॥

जीवस्स णत्थि केई जोयट्ठाणा ण बंधठाणा वा।

णेव य उदयट्ठाणा मग्गट्ठाणया केई ॥५३॥

णो ठिदिबंधट्ठाणा जीवस्स ण संकिलेसठाणा वा।

णेव विसोहिट्ठाणा णो संजमलद्धिठाणा वा ॥५४॥

णेव य जीवट्ठाणा ण गुणट्ठाणा य अत्थि जीवस्स।

जेण दु एदे सव्वे पुग्गलदव्वस्स परिणामा ॥५५॥”

इस जीव के न तो वर्ग है, न वर्गणा है, न स्पर्धक है, न अध्ववसायस्थान है, न अनुभागस्थान है। जीव के न योगस्थान है, न बन्धस्थान है, न उदयस्थान है, न मार्गणास्थान है, न स्थितिबन्धस्थान है, न संक्लेशस्थान है, न विशुद्धिस्थान है, न संयमलब्धिस्थान है। जीव के न जीवस्थान है, न गुणस्थान है, कारण ये सब पुद्गलद्रव्य के परिणाम हैं।

यह है—परिशुद्ध परमार्थ दृष्टि। मुमुक्षु व्यवहार दृष्टि को भी दृष्टिगोचर रखता है। यदि एकान्त शुद्ध दृष्टि पर आश्रित हो जाए, तो फिर वह मोक्षमार्ग के विषय में अकर्मण्य बनकर विषयादि में प्रवृत्ति कर पाप-पंक में अधिक निमग्न होता है। जिसने अपूर्ण अवस्था में भी अपने को साक्षात् पूर्ण मान लिया है, उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है; इसी प्रकार निश्चयैकान्त का आश्रय हास का हेतु बन जाता है। व्यवहारैकान्तवाला तात्त्विक दृष्टि को सर्वथा भुला अपने को ‘दासोऽहं’ का पाठ पढ़ने वाला समझता है। ‘सोऽहं’ की विमल दृष्टि उसे नहीं प्राप्त होती है। ‘सोऽहं’ का भक्त यदि कल्याण चाहता है, तो उसे ‘दासोऽहं’ के पूर्व में ‘उदासोऽहं’ का पथ भी पकड़ना आवश्यक है; अन्यथा एकान्तवाद की महामारी उसका पिण्ड नहीं छोड़ती है। इस कारण समन्तभद्र स्वामी कहते हैं—

“निरपेक्षा नया मिथ्याः सापेक्षा वस्तु तेऽर्जकृत्॥” —आ. मी., १०८

विवेकी साधक व्यवहार दृष्टि से विचारता है—

“ववहारेण दु एदे जीवस्स ह्वंति वण्णमादीया।

गुणठाणंता भावा ण दु केई णिच्छयणयस्स ॥समयपाहुड. गा. ५६॥

ये वर्ण आदि गुणस्थान पर्यन्त भाव व्यवहार नय से पाये जाते हैं। निश्चय नय की अपेक्षा वे कोई नहीं हैं।

१. “परे मोक्षहेतू”—त. सू. ६, २६।

अल्पज्ञानी पुरुषों के लिए बन्ध के विषय में परिज्ञान कराने के लिए सूत्रकार उमास्वामी ने लिखा है—

“प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशास्तद्विधयः॥”—त. सू. ८,३

उस बन्ध के प्रकृति, स्थिति, अनुभाग तथा प्रदेश बन्ध ये चार भेद हैं। विस्तृतरुचि एवं सूक्ष्मबुद्धिधारी महाज्ञानियों के लिए सही तत्त्व महर्षि भूतबलि ने चालीस हजार श्लोक प्रमाण ‘महाबन्ध’ शास्त्र-द्वारा निबद्ध किया है। ‘महाबन्ध’ के विमल और विपुल प्रकाश से साधक अपनी आत्मा के अन्तःस्थल में छिपे हुए अज्ञान एवं मोहान्धकार को दूर कर जीवन को ‘महाधवल’ बनाता है। जिस प्रकार जिनेन्द्रदेव की आराधना के द्वारा पूजक जिनेन्द्र का पद प्राप्त करता है, उसी प्रकार ‘महाधवल’ के सम्यक् परिशीलन तथा स्वाध्याय से जीवन भी ‘महाधवल’ हो जाता है। अनुभागबन्ध की प्रशस्ति में ग्रन्थ को ‘सत् पुण्याकर’ बताया है। यथार्थ में यह सातिशय पुण्य की उत्पत्ति का कारण है। प्रशस्त पुण्य का भण्डार है। श्रेयोमार्ग की सिद्धि का निमित्त है। ‘प्रवचनसार’ में कुन्दकुन्द स्वामी ने अर्हन्त की पदवी को पुण्य का फल कहा है। ‘पुण्यफला अरहन्ता’ (गाथा १, ४५)। अमृतचन्द्र सूरि ने टीका में पुण्य को ‘कल्पवृक्ष’ कहते हुए उसके पूर्ण परिपक्व फल को ‘अर्हन्त’ कहा है। ‘अर्हन्तः खलु सकल-सम्यक् परिपक्व-पुण्य-कल्पपादपफला एव’ (प्रवचनसार टीका, पृष्ठ ५८)

प्रशस्ति-परिचय

‘महाबन्ध’ ग्रन्थ में ऐतिहासिक उल्लेख का दर्शन नहीं होता। प्रकृतिबन्ध-अधिकार के प्रारम्भिक अंश के नष्ट हो जाने से उसके ऐतिहासिक उल्लेख का परिज्ञान होना असम्भव है। इस अधिकार के अन्त में प्रशस्तिरूप में भी कोई उल्लेख नहीं है। स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध तथा प्रदेशबन्ध—इन तीन अधिकारों के अन्त में ही प्रशस्ति पायी जाती है।

प्रशस्ति में ग्रन्थ कर्ता का नाम तक नहीं आया है। स्थितिबन्ध के पद्य नं. ७ और प्रदेश-बन्ध के पद्य नं. ५ से, जो समान हैं, विदित होता है, कि सेनवधू वनितारल मल्लिका देवी ने अपने पंचमी व्रत के उद्यापन में शान्त तथा यतिपति माघनन्दि महाराज को इस ग्रन्थ की प्रतिलिपि अर्पण की थी।

मल्लिका देवी को शीलनिधान, ललनारल, जिनपदकमलभ्रमर, सिद्धान्त शास्त्र में उपयुक्त अन्तःकरणवाली तथा अनेकगुणगण अलंकृत बताया है। उन्होंने पुण्याकर ‘महाबन्ध’ पुस्तक जिन माघनन्दि मुनीश्वर को भेंट की थी। वे गुप्तित्रयभूषित, शल्यरहित, कामविजेता, सिद्धान्तसिन्धु की वृद्धि करने को चन्द्रमा तुल्य तथा सिद्धान्त शास्त्र के पारंगत विद्वान् थे।

वे मेघचन्द्र व्रतपति के चरणकमल के भ्रमर-सदृश थे।

मल्लिका देवी सारे जगत् में अपने गुणों के कारण विख्यात थी। ‘सत्कर्ष-पञ्जिका’ से ज्ञात होता है कि प्रशस्ति में आगत ‘सेन’ का पूरा नाम शान्तिषेण है। वे राजा थे। राजपत्नी मल्लिका देवी-द्वारा व्रतोद्यापन के अवसर पर शास्त्र का दान इस बात को सूचित करता है कि उस समय महिला जगत् के हृदय में जिनवाणी माता के प्रति विशेष भक्ति थी।^१

राजा शान्तिषेण सदगुण-भूषित थे। प्रशस्ति में गुणभद्रसूरि का भी उल्लेख आया है। उनको कामविजेता, निःशल्य बताया है। उग्रादित्य नाम के लेखक ने ‘महाबन्ध’ की कापी लिखी थी, यह बात सत्कर्मपञ्जिका से ज्ञात होती है। प्रशस्ति इस प्रकार है—

१. कर्नाटक के गंगवंश की महिलाओं ने प्राचीन काल में महत्वपूर्ण कार्य किये हैं। इस वंश की महिला अतिमन्वेने अपने द्रव्य के द्वारा महाकवि पोन्न रचित शान्तिनाथ पुराण की एक हजार प्रतियाँ लिखवाकर दान की थीं। ऐसी प्रसिद्धि है कि उस वीरांगना ने सोना, चाँदी, जवाहरात आदि की बहुमूल्य सैकड़ों मूर्तियों मन्दिरों में विराजमान की थीं।

स्थितिबन्धाधिकार के अन्त की प्रशस्ति

नमस्सिद्धेभ्यः । नमो वीतरागाय शान्तये
 यो दुर्जयस्मरमदोत्कटकुम्भिकुम्भसंचोदनोत्सुकतरोग्र-मृगाधिराजः ।
 शल्यत्रयादपगतस्त्रयगौरवारिः संजातवान्स भुवने गुणचन्द्रसूरिः ॥१॥
 दुर्वारमारमदसिन्धुरसिन्धुरारिः शल्यत्रयाधिकरिपुस्त्रयगुप्तियुक्तः ।
 सिद्धान्तवार्धिपरिवर्धन-शीतरश्मिः श्रीमाघनन्दिमुनिपोऽजनि भूतलेऽस्मिन् ॥२॥

स्रग्धरावृत्तम् (कन्नड़)

वरसम्यक्त्वद-देशसंयमद-सम्यग्बोधदत्यन्तभासुरहारत्रिकसौख्यहेतु-वेनिसिर्दा-दानदौदार्यदेल्तरदिं गी
 (दी) तने जन्मभूमि येनुतं सानंददिक्कर्तुंभूमरमेत्लं पोगकुत्तमिर्पुदभिमानाधीननं सेननम् ॥३॥
 सुजनते सत्यमोलपुदयेशील-गुणोन्नति पेंपु जैन-मार्गज गुणमेंब सद्गुणभिवत्यधिकं
 तनगोप्पनूतनधर्मजनिवनेदुं कित्ते सुमतीधरे मेदिनि गोप्ये तोर्ब्वेचित्तजसमरूपनं नेगल्द 'सेनन'
 नुद्धगुणप्रधानम् ॥५॥

कन्नड़ कन्दपद्य

अनुपमगुणगणदतिवर्मन शीलनिदानमेसेव जिनपदसत्को-
 कनद-शिलीमुखियेने मांतनदिदं 'मल्लिकब्बे ललनारत्नम्' ॥६॥
 आवनिता रत्नदो, पेंपावंगं पोगललरिदु जिनपूजये नाना-
 विधद-दानदमलिन-भावदोला 'मल्लिकब्बेयं' पोत्त्ववारा
 श्री पंचमियं नोंतुघापनमं माडि बरेसि संद्धांतगना [राद्धांतमना] ।
 रूपवती 'सेनवधू' जितकोपं श्रीमाघनन्दियतिपति-गित्तल् ॥७॥

अनुभागबन्धाधिकार के अन्त की प्रशस्ति

स्रग्धरावृत्तम्

जितचेतोजातनुर्वीश्वर-मुकुटतटोद्घृष्टपादारविन्द-
 द्वितयं वाक्कामिनी-पीवरकुचकलशालंकृतोदारहार-
 प्रतिमं दुद्धैरसंसृत्यतुल-विपिनदावानलं माघनन्दि-
 व्रतिनाथं शारदाध्रोञ्ज्वलविशदयशोराजिता शान्तकान्तम् ॥१॥

कन्दपद्य

भावभवविजयि-वरवाग्देवीमुखनूत्नरत्नदर्पनान-
 म्नावनि-पालकनेनिसिद-नत्ता विश्रुतकित्ते माघनंदिमुनीन्द्रम् ॥२॥

महास्रग्धरावृत्तम्

वरराद्धान्तामृताम्भोनिधि-तरल-तरंगोत्कर-क्षालितान्त-
 करणं श्रीमेघचन्द्रव्रतिपतिपदपंकेरुहासक्तसत्स (त्प)
 द्चरणं तीव्र प्रतापोद्धृत-वित्ततबलोपेत-पुष्पेषुभृतसं-
 हरणं सैद्धान्तिकाग्रेसरनेने नेगल्दं माघनन्दिद्रतीन्द्रम् ॥३॥

कन्दपद्य

महनीय गुणनिधानं, सहजोन्नतबुद्धिविनयनिधिद्येन नेगब्दं
महि बिनुतकित्ते कित्ति (मही) महिमानं मानिताभिमार्णं सेनम् ॥४॥
विनयद-शीलदोल गुणदोलादिय पैपिन पुड्डिजंमनो-
जनरतिरूपि नोल्पनिलिसिर्द-मनोहरमप्पुदोंदु-
रूपिनमने दानदा (सा) गरमेमिप्प वधूत्तमे यप्प संदसे-
नन सति मल्लिकब्बेगे धरित्रियोलादरिं सदगुणंगलिं ॥५॥
सकलधरित्रीविनुत-प्रकटितयशे मल्लिकब्बे बरेयिसि सत्तु-
प्याकर महाबन्धद पुस्तकमं श्रीमाघनंदि मुनिपति गित्तल् ॥६॥

प्रदेशबन्धाधिकार के अन्त की प्रशस्ति

कन्दपद्य

श्रीमलधारिमुनीन्द्रपदामलसरसीरुहभृंगनमलिकित्ते ।
प्रेमं मुनिजनकैरवासीमनेनल्पाघनंदियतिपतियेसेदं ॥१॥
जितपपंचेषु-प्रतापानलमलतरोत्कृष्टचरित्ररारा-
जिततेतं भारती-भासुर-भासुरकुचकलशालीढ-भाभारनूला ।
यत् तारोदारहारं समदमनियमालंकृतं माघनंदि-
व्रतिनार्यं शारदाध्रोज्ज्वलविशदयशो-वल्लरी-चक्रवालम् ॥२॥
जिनवक्त्रांभोज-नीनिर्गत-हितनुतराद्धान्तकिंजल्कसुस्वादन-
... .. जपदनत भूपेन्द्रकोटीरसेना ।
तिनिकायभ्राजितांघ्रिद्वयनखिल-जगद्भव्यनीलोत्पलाल्हादन-
ताराधीशनें केवलमें भुवनदोल् माघनंदिव्रतीन्द्रम् ॥३॥
वरराद्धान्तामृतांभोनिधितरलतरंगोत्करक्षालितांतः-
करणं श्रीमेघचंद्रव्रतपतिपपंकेरुहासक्तषट्चरणं ॥
... .. त्स ।
च्चारणं सैद्धान्तिकाग्रेसरनेने नेगदंमाघनंदिव्रतीन्द्रम् ॥४॥
श्री पंचमियं नोंतुद्यापनमं माडि बरेसि राद्धान्तमना
रूपवती सेनवधू जितकोपं श्रीमाघनंदियतिपतिगित्तल् ॥५॥

कर्मबन्धमीमांसा

“जह भारवहो पुरिसो वहइ भरं गेहिऊण कावडियं ।
एमेव वहइ जीवो कम्मभरं कायकावडियं” ॥—गो. जी., गा. २०१

१. जैसे कोई बोझा ढोनेवाला पुरुष काँवड़ को ग्रहण कर बोझा ढोता है, इसी प्रकार यह जीव शरीर रूप काँवड़ में कर्म-भार को रखकर ढोता है ।

‘महाबन्ध’ शास्त्र का प्रमेय बन्ध तत्त्व है। ‘षट्खण्डागम’ के द्वितीय खण्ड ‘खुदाबन्ध’ (शुद्धबन्ध) की अपेक्षा षष्ठखण्ड में बन्ध के विषय में विस्तारपूर्वक प्रतिपादन होने के कारण प्रतीत होता है कि उसे ‘महाबन्ध’ कहा गया है। ‘तत्त्वार्थसूत्र’ बन्ध के विषय में यह व्याख्या करता है—

“सकषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गलानादत्ते स बन्धः।” ८,२

‘जीव कषायसहित होने से कर्मरूप परिणत होने योग्य पुद्गलों को—कर्मण वर्णणाओं को ग्रहण करता है, उसे बन्ध कहते हैं।’

यहाँ बन्ध को समझने के पूर्व कर्मसिद्धान्त पर प्रकाश डालना उचित जँचता है। कारण, बन्ध के विवेचन की आधारभूमि कर्मतत्त्व को हृदयंगम करना परमावश्यक है। कर्म की अवस्था-विशेष का ही नाम बन्ध है।

कर्मविषयक मान्यताएँ

जैन आगम में कर्मसाहित्य का अतीव महत्त्वपूर्ण स्थान है। यहाँ कर्म के विषय में सर्वांगीण, सुव्यवस्थित एवं वैज्ञानिक (Scientific) पद्धति से विवेचन किया गया है। अन्य धर्मों तथा दर्शनों ने भी कर्म को महत्त्व प्रदान किया है। अज्ञ जगत् में भी कर्मसिद्धान्त की मान्यता पायी जाती है। ‘जैसा करो, तैसा भरो’ यह सूक्ति इसी सिद्धान्त की ओर निर्देश करती है। अँगरेजी भाषा में ‘As you sow, so you reap’—‘जैसा बोओ, तैसा काटो’—कहावत प्रचलित है। तुलसीदास का कथन है—

“तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान।

पाप पुण्य दोउ बीज हैं, बुवै सो लुनै निदान ॥”

कहते हैं एक बार गौतम बुद्ध भिक्षार्थ किसी सम्पन्न किसान के यहाँ गये। इस कृषक ने कहा—“आप मेरे समान किसान बन जाइए। मेरे समान आपको धन-धान्य की प्राप्ति होगी। ऐसा करने से भीख माँगने का प्रसंग नहीं प्राप्त होगा। बुद्ध ने कहा—“भाई! मैं भी तो किसान हूँ। मेरा खेत मेरा हृदय है। इसमें सत्कर्मरूपी बीज बोकर मैं विवेकरूपी हल चलाता हूँ। मैं विकार-वासनारूपी घास आदि की निराई करता हूँ और प्रेम तथा आनन्द की अपार फसल काटता हूँ।”

दार्शनिक ग्रन्थों के परिशीलन से ज्ञात होता है कि ‘कर्म’ शब्द का अनेक अर्थों में प्रयोग हुआ है। मीमांसा दर्शन पशुबलि आदि यज्ञ तथा अन्य क्रियाकाण्ड को कर्म मानते हैं। वैयाकरण पाणिनि अपने ‘कर्तुरीप्सिततमं कर्म’ (१,४,७६) सूत्र-द्वारा कर्ता के लिए अत्यन्त इष्ट को कर्म कहते हैं। वैशेषिक दर्शन ने अपने सप्तपदार्थों की सूची में कर्म को भी स्थान प्रदान किया है। वैशेषिक दर्शनकार कणाद कहते हैं^१—“जो एक द्रव्य हो—द्रव्यमात्र में आश्रित हो, जिसमें कोई गुण न रहे तथा जो संयोग और विभाग में कारणान्तर की अपेक्षा न करे, वह कर्म है।^२ उसके उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण तथा गमन ये पाँच भेद कहे गये हैं। नित्य, नैमित्तिक तथा काम्य क्रियाओं को भी कर्म-कहते हैं। सांख्यदर्शन ने संस्कार अर्थ में ‘कर्म’ को ग्रहण किया है। ईश्वर कृष्ण की सांख्यकारिका में लिखा है^३—‘सम्यक्ज्ञान की प्राप्ति होने पर भी पुरुष संस्कारवश—कर्म के वश से शरीर धारण करके रहता है, जैसे गति प्राप्त चक्र संस्कार के वश से भ्रमण करता रहता है।’

वाचस्पति मिश्र का कथन है—“^४ क्लेशरूपी जल से सिंचित बुद्धिरूपी भूमि में कर्मरूपी बीज अंकुरों

१. एकद्रव्यमगुणं संयोगविभागेष्वनपेक्षकारणमिति कर्मलक्षणम्।” १,७।

—सभाष्य वैशेषिक दर्शन ४,३५

२. “उत्क्षेपणं ततोऽवक्षेपणमाकुञ्चनं तथा। प्रसारणं च गमनं कर्माण्येतानि पञ्च च ॥”

—सि. मुक्तावली ६

३. “सम्यक्ज्ञानाधिगमाद्धर्मादीनामकारणप्राप्ती। तिष्ठति संस्कार वशाच्चक्रभ्रमिवद्धृतशरीरः ॥”

—सां. त. कौ. ६७

४. “क्लेशसलिलावसिक्ततायां हि बुद्धिभूमौ कर्मबीजान्यङ्करं प्रसुवते। तत्त्वज्ञाननिदाघनिपीतसकलक्लेशसलिलायामूषरायां कुतः कर्मबीजानामङ्कुरप्रसवः?”

—सां. त. कौ., पृ. ३१५।

को उत्पन्न करते हैं। तत्त्वज्ञानरूपी ग्रीष्मकाल के द्वारा जिसका सम्पूर्ण क्लेशरूप जल सूख चुका है, उस शुष्क भूमि में कर्मबीजों का अंकुर कैसे उत्पन्न होगा?"

गीता में कार्यशीलता (activity) को कर्म बताया है।^१ कहा है—“अकर्मण्य रहने की अपेक्षा कर्म करना श्रेयस्कर है।^२ संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही कल्याणकारी हैं; किन्तु कर्मसंन्यास की अपेक्षा कर्मयोग विशेष महत्त्वास्पद है।”^३

महाभारत शान्तिपर्व में लिखा है—

“कर्मणा बध्यते जन्तुः, विद्यया तु प्रमुच्यते।” (२४०,७)

—यह प्राणी कर्म से बँधता है, विद्या के द्वारा मुक्ति लाभ करता है।

पतंजलि योगसूत्र में कहते हैं—“क्लेश का मूल कर्माशय—कर्म की वासना है। वह इस जन्म में वा जन्मान्तर में अनुभव में आती है। अविद्यादिरूप मूल के सद्भाव में जाति, आयु तथा भोगरूप कर्मों का विपाक होता है। वे आनन्द तथा सन्ताप प्रदान करते हैं, क्योंकि उनका कारण पुण्य तथा अपुण्य है।” योगी के अशुक्ल तथा अकृष्ण कर्म होते हैं। संसारी जीवों के शुक्ल, कृष्ण तथा शुक्ल-कृष्ण कर्म होते हैं।

न्यायमंजरी में लिखा है—“जो देव, मनुष्य तथा तिर्यचों में शरीरोत्पत्ति देखी जाती है, जो प्रत्येक पदार्थ के प्रति बुद्धि उत्पन्न होती है, जो आत्मा के साथ मन का संसर्ग होता है, वह सब प्रवृत्ति के परिणाम का वैभव है। सर्व प्रवृत्ति क्रियात्मक है, अतः क्षणिक है; फिर भी उससे उत्पन्न होनेवाला धर्म, अधर्म पदवाच्य आत्म-संस्कार कर्म के फलोपभोग पर्यन्त स्थिर रहता ही है।”

अशोक के शिलालेख नं. ८ में लिखा है—“इस प्रकार देवताओं का प्यारा प्रियदर्शी अपने भले कर्मों से उत्पन्न हुए सुख का उपभोग करता है।^४

भिक्षु नागसेनने मिलिन्द सम्राट् से जो प्रश्नोत्तर किये थे, उनसे कर्मों के विषय में बौद्ध दृष्टि का अवबोध होता है—

१. “योगः कर्मसु कौशलम्।”

२. “कर्मज्यायो ह्यकर्मणः।” —गी. ३,८

३. “संन्यास कर्मयोगश्च यः श्रेयसकरावुभौ। तयोस्तु कर्मसंन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते॥” —गी. ५,२

४. “क्लेशमूलः कर्माशयः दृष्टादृष्टजन्यवेदनीयः। सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः। ते ह्यदपरितापफलाः पुण्यापुण्य-हेतुत्वात्।” —यो.सू. २,१२-१४। “कर्माशुक्लकृष्णं योगिनस्त्रिविधमितरेषाम्” —यो.द. कैवल्यपाद.७

५. “यो ह्ययं देव-मनुष्य-तिर्यग्भूमिषु शरीरसर्गः, यश्च प्रतिविषयं बुद्धिसर्गः, यश्चात्मना सह मनसा संसर्गः स सर्वः प्रवृत्तेरव-परिणामविभवः। प्रवृत्तेश्च सर्वस्याः क्रियात्वात् क्षणिकत्वेऽपि तदुपहितो धर्माधर्मशब्दवाच्य आत्मसंस्कारः कर्मफलोपभोगपर्यन्तस्थितिरस्त्येव।” —न्या. म., पृ. ७०

६. बुद्ध और बुद्धधर्म, पृ. २५६

७. “राजा आह—भन्ते नागसेन, केन कारणेन मनुस्सा न सब्बे समका, अञ्जे अप्पायुका, अञ्जे दीघायुका, अञ्जे बद्दाबाधा अञ्जे अप्पाबाधा, अञ्जे दुष्ण्णा, अञ्जे वण्णवन्तो, अञ्जे अप्पेसक्खा, अञ्जे महेसक्खा, अञ्जे अप्पभोगा, अञ्जे महाभोगा, अञ्जे नीचकुलीना, अञ्जे महाकुलीना, अञ्जे दुप्पञ्जा, अञ्जे पञ्जावन्तीति।”

थेरो आह, किस्स पन्न, महाराज! रुक्खा न सब्बे समका, अञ्जे अविता, अञ्जे लवणा, अञ्जे तित्तका, अञ्जे कटुका, अञ्जे कसावा, अञ्जे मधुराति।

मज्जामि भन्ते! बीजानां नानाकरणेनाति।

एवमेव खो महाराज कम्मनं नानाकरणेन मनुस्सा न सब्बे समका। भासितं पेतं महाराज! भगवता कम्मस्स कामाणवसत्ता, कम्मदायादा, कम्मयोनी, कम्मबंधु, कम्मपरिसरणा, कम्मं सत्ते विभजति यदिदं हीनप्पणीततायीति। कल्लोसि भन्ते नागसेनाति।”

—Pali Reader p. 39 मिलिन्दपञ्च in अंगुत्तनिकाय, मिलिन्दप्रश्न ८१

Thus spoke king Milinda: 'How comes it, reverend Sir, that men are not alike? some

राजा बोला—भन्ते! क्या कारण है, कि सभी आदमी एक ही तरह के नहीं होते? कोई कम आयुवाले, कोई दीर्घ आयुवाले, कोई बहुत रोगी, कोई नीरोग, कोई भेद, कोई बड़े सुन्दर, कोई प्रभावहीन, कोई बड़े प्रभाववाले, कोई गरीब, कोई धनी, कोई नीच कुलवाले, कोई ऊँच कुलवाले, कोई मूर्ख, कोई बुद्धिमान क्यों होते हैं?

स्थविर बोले—महाराज! क्या कारण है कि सभी वनस्पतियाँ एक-सी नहीं होतीं? कोई खड़ी, कोई नमकीन, कोई तिक्त, कोई कड़वी, कोई कषायली और कोई मधुर क्यों होती हैं?”

भन्ते! मैं समझता हूँ कि बीजों की भिन्नता के कारण ही वनस्पतियों में भिन्नता है।

महाराज! इसी प्रकार सभी मनुष्यों के अपने-अपने कर्म भिन्न-भिन्न होने से वे सभी एक ही प्रकार के नहीं हैं। महाराज! बुद्धदेव ने भी कहा है—हे मानव! अपने कर्मों का सभी जीव उपभोग करते हैं। सभी जीव अपने कर्मों के स्वामी हैं। अपने कर्मों के अनुसार नाना योनियों में जन्म धारण करते हैं। अपना कर्म ही अपना बन्धु है, अपना आश्रय है। कर्म से ही लोग ऊँचे-नीचे हुए हैं।

भन्ते—“आपने ठीक कहा।”

इस प्रकार दार्शनिक साहित्य के अवगाहन से और सामग्री प्राप्त होगी जो यह ज्ञापित करेगी कि कर्मसिद्धान्त की किसी-न-किसी रूप में दार्शनिक जगत् में अवस्थिति अवश्य है। जैनवाङ्मय में कर्मसिद्धान्त पर बड़े-बड़े ग्रन्थ बने हैं। उनसे विदित होता है कि जैनसिद्धान्त में कर्म का सुव्यवस्थित, शृंखलाबद्ध तथा विज्ञानदृष्टिपूर्ण वर्णन किया गया है।

जैनदर्शन में कर्म

जैन दृष्टि से कर्म पर विचार करने के पूर्व यदि हम इस विश्व का विश्लेषण करें, तो हमें सचेतन (जीव), तथा अचेतन (अजीव) ये दो तत्त्व उपलब्ध होते हैं। पुद्गल (matter), आकाश, काल तथा गमन और स्थिति के माध्यमरूप धर्म और अधर्म ये पाँच द्रव्य अचेतन हैं। ज्ञान-दर्शन गुणसमन्वित जीव द्रव्य है। इस प्रकार छह द्रव्यों में जीव और पुद्गल ये दो द्रव्य परिस्पन्दात्मक क्रियाशील हैं। धर्म, अधर्म, आकाश तथा काल ये चार द्रव्य निष्क्रिय हैं। इनमें प्रदेश-संचलन रूप क्रिया नहीं पायी जाती। इनमें अगुरुलघु गुण के कारण षड्गुणीहनिवृद्धिरूप परिणमन अवश्य पाया जाता है। इस परिणमन को अस्वीकार करने पर द्रव्य का स्वरूप परिणमनहीन कूटस्थ बन जाता है।

इसी बात को पंचाध्यायीकार दूसरे शब्दों में प्रकट करते हैं—

“भाववन्तौ क्रियावन्तौ द्वावेतौ जीवपुद्गलौ।

तौ च शेषचतुष्कं च षडेते भावसंस्कृताः ॥

live long and some are short lived; some are hale and some weak, some comely and some ugly; some powerful and some with no power; some rich, some poor; some born of noble stock, some meanly some wise born; and some foolish.’

To whom Nagasena the Elder made answer :

‘How comes it that all plants are not alike? Some have a sour taste and some are salt, some are acid, some bitter and some sweet’. ‘It must be, I take it, reverend sir, that they spring from various kinds of seed.’

‘Even so, O Maharaja, it is because of differences of action that men are not alike: for some live long, and some are short-lived; some are hale and some weak; some comely and some ugly; some powerful, and some without power; some rich, some poor; some born of noble some meanly born; stock, some wise and some foolish.’

—The Heart of Buddhism, p. 85

तत्र क्रिया प्रदेशानां परिस्पन्दश्चलात्मकः।

भावस्तत्परिणामोऽस्ति धारावाह्येकवस्तुनि॥ --२,२५-२६

—“जीव तथा पुद्गल में भाववती तथा क्रियावती शक्ति पायी जाती है। शेष चार द्रव्यों में तथा पूर्व के दो द्रव्यों में भी भाववती शक्ति उपलब्ध होती है। प्रदेशों के संचालन रूप परिस्पन्दन को क्रिया कहते हैं। धारावाही एक वस्तु में जो परिणमन है, वह भाव है।”

इससे यह स्पष्ट होता है, कि जीव पुद्गल में ही प्रदेशों का हलन-चलन पाया जाता है। जीव और पुद्गल-विशेष का परस्पर में बन्धन होता है, कारण जीव में बन्ध का कारण वैभाविक शक्ति का सद्भाव है। यदि वैभाविक शक्ति न होती, तो जीव और पुद्गल का संश्लेष नहीं होता।^१

जिस प्रकार चुम्बक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसी प्रकार वैभाविक शक्ति विशिष्ट जीव रागादि भावों के कारण कर्मणवर्गणा तथा आहार, तैजस, भाषा तथा मनरूप नोकर्मवर्गणाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है।^२ पुद्गलद्रव्य के तेईस प्रकारों में कर्मण वर्गणा नाम का एक भेद है।^३ अनन्तानन्त परमाणुओं के प्रचयरूप वर्गणा होती है। रागादिभावों के कारण जीव का कर्मों के साथ सम्बन्ध होता है। जीव का अहित धर्म, अधर्म, आकाश तथा काल द्रव्यों-द्वारा नहीं होता है। पद्यनदि पंचविंशतिका में कहा है—

“धर्माधर्मनभांसि काल इति मे नैवाहितं कुर्वते

चत्वारोऽपि सहायतामुपगतास्तिष्ठन्ति गत्यादिषु।

एकः पुद्गल एव सन्निधिगतो नोकर्म-कर्मकृतिः

वैरी बन्धकृदेष सम्प्रति मया भेदासिना खण्डितः ॥”—आलोचनाधिकार २५

—धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये द्रव्य मेरा अहित नहीं करते। ये चारों गमनादि कार्यों में मेरी सहायता करते हैं। एक पुद्गल द्रव्य ही कर्म तथा नोकर्म रूप होकर मेरे समीप रहता है। अब मैं उस बन्ध के कारण रूप कर्म शत्रु का भेदविज्ञानरूपी तलवार के द्वारा विनाश करता हूँ।

परिभाषा

‘परमात्मप्रकाश’ में कर्म की इस प्रकार परिभाषा की गयी है—

“विसयकसायहिं रंगियहं, जे अणुया लग्गति।

जीवपएसहं मोहियहं, ते जिण कम्म भणंति ॥६२॥”

प्रवचनसार टीका में अमृतचन्द्रसूरि लिखते हैं—“क्रिया खल्व्वात्मना प्राप्यत्वात्कर्म, तन्निमित्तप्राप्तपरिणामः पुद्गलोऽपि कर्म।” (पृ. १६५)

—“आत्मा के द्वारा प्राप्य होने से क्रिया को कर्म कहते हैं। उसके निमित्त से परिणमन को प्राप्त पुद्गल भी कर्म कहा जाता है।” इसका अभिप्राय यह है कि आत्मा में कम्पनरूप क्रिया होती है। इस क्रिया निमित्त से पुद्गल के विशिष्ट परमाणुओं में जो परिणमन होता है, उसे कर्म कहते हैं। यह व्याख्या आध्य^४ दृष्टि से की गयी है।

१. “अयत्कान्तोपलाकृष्टसूचीवत्तद्द्रव्योः पृथक्। अस्ति शक्तिः विभावाख्या मिथो बन्धाधिकारिणी ॥

—पंचा. २,४२

२. “देहोदयेण सहिओ जीवो आहरदि कम्मणोकम्मं।

पडिसमयं सव्वंगं तत्तायसपिंडओव्व जलं॥”—गो. क., गा. ३

३. “परमाणुहिं अणंताहिं वग्गणसण्णा दु होदि एक्का हु।” —गो. जी., गा. २४४

जीव के परिणामों का निमित्त पाकर पुद्गल की अवस्था, जिससे जीव परतन्त्र—सुख-दुःख का भोक्ता किया जाता है, कर्म कहलाती है।

आचार्य अकलंकदेव अपने राजवार्तिक (पृ. २६४) में लिखते हैं—“यथा भाजनविशेषे प्रक्षिप्तानां विविधरसबीजपुष्पफलानां मदिराभावेन परिणामः, तथा पुद्गलानामपि आत्मनि स्थितानां योगकषायवशात् कर्मभावेन परिणामो वेदितव्यः।” जैसे पात्रविशेष में डाले गये अनेक रसवाले बीज, पुष्प तथा फलों का मदिरारूप में परिणामन होता है, उसी प्रकार योग तथा कषाय के कारण आत्मा में स्थित पुद्गलों का कर्मरूप परिणाम होता है।

महर्षि कुन्दकुन्द ‘समयसार’ में लिखते हैं—

“जीवपरिणामहेतुं कम्मत्तं पुग्गला परिणमंति।

पुग्गलकम्मणिमित्तं तहेव जीवो वि परिणमदि ॥८०॥”

—“जीव के परिणामों का निमित्त पाकर पुद्गल का कर्मरूप परिणामन होता है। इसी प्रकार पौद्गलिक कर्म के निमित्त से जीव का भी परिणामन होता है।”

केशवसिंह ने ‘क्रियाकोष’ में कहा है—

“सूरज सन्मुख दरपण धरै, रुई ताके आगे करै।

रवि-दर्पण को तेज मिलाया, अगन उपज रुई बलि जाय ॥५४॥

नहि अग्नी इकली रुइ माहिं, दरपन मध्य कहुँ है नाहिं।

दुहुयनि को संयोग मिलाय, उपजै अगनि न संशै थाय ॥५५॥”

‘समयसार’ में कहा है—

“ण वि कुव्वदि कम्मगुणे जीवो कम्मं तहेव जीवगुणे।

अण्णोण्णणिमित्तेण दु परिणामं जाण दोहंषिण ॥८१॥”

—“तात्त्विक दृष्टि से विचार किया जाए, तो जीव न तो कर्म में गुण करता है और न कर्म ही जीव में कोई गुण उत्पन्न करता है। जीव तथा पुद्गल का एक-दूसरे के निमित्त से विशिष्ट परिणामन हुआ करता है।”

प्रत्येक द्रव्य अपने स्वभाव में स्थित है। उसके परिणामन में अन्य द्रव्य उपादान कारण नहीं बन सकता। जीव न पुद्गल का कारण है और न पुद्गल जीव का उपादान हो सकता है। इनमें उपादान-उपादेयभाव के स्थान में निमित्त-नैमित्तिकपना पाया जाता है। इससे जो सिद्धान्त स्थिर होता है, उसके विषय में कुन्दकुन्द स्वामी का कथन है—

“एदेण कारणेण दु कत्ता आदा सएण भावेण।

पुग्गलकम्मकदारणं दु कत्ता सब्बभावारणं ॥८२॥”

—“इस कारण आत्मा अपने भाव का कर्ता है। वह पुद्गलकर्मकृत समस्त भावों का कर्ता नहीं है।”

इस विषय पर अमृतचन्द्रसूरि इन शब्दों में प्रकाश डालते हैं—

“जीवकृतं परिणामं निमित्तमात्रं प्रपद्य पुनरन्ये।

स्वयमेव परिणामन्तेऽत्र पुद्गलाः कर्मभावेन ॥” —पु. सि., १२

—“जीवके रागादि परिणामों का निमित्त पाकर पुद्गलों का कर्म रूप में परिणामन स्वयमेव हो जाता है।”

जैसे मेघ के अवलम्बन से सूर्य की किरणों का इन्द्रधनुषादिरूप परिणामन हो जाता है; उसी प्रकार स्वयं अपने चैतन्यमय भावों से परिणामनशील जीव के रागादिरूप परिणामन में पौद्गलिक कर्म निमित्त पड़ा

करता है।^१ यदि जीव और पुद्गल में निमित्त भाव के स्थान में उपादान उपादेयत्व हो जाए, तो जीव द्रव्य का अभाव होगा अथवा पुद्गल द्रव्य नहीं रहेगा। दोनों में भिन्नत्व का अभाव होकर स्थापित होगा। भिन्न द्रव्यों में उपादान-उपादेयता नहीं पायी जाती है।

‘प्रवचनसार’ में लिखा है—

“कम्मत्तण-पाओग्गा खंधा जीवस्स परिणइं पप्पा।

गच्छंति कम्मभावं ण हि ते जीवेण परिणमिदा ॥” —प्रवचनसार, गा. २,७७ (१६६)

—“जीव की रागादिरूप परिणतिविशेष को प्राप्त कर कर्मरूप परिणमन के योग्य पुद्गलस्कन्ध कर्म भाव को प्राप्त करते हैं। उनका कर्मत्वपरिणमन जीव के द्वारा नहीं किया गया है।”^२

“ते ते कम्मत्तगदा पोग्गलकाया पुणो वि जीवस्स।

संजायंते देहा देहंतरसंकमं पप्पा।” —प्रवचनसार, गा. २,७८ (१७०)

—“कर्मत्व को प्राप्त पुद्गलकाय जीव के देहान्तररूप संक्रम-परिवर्तन को पाकर पुनः देहरूप को प्राप्त करते हैं।”

“आदा कम्ममल्लिमसो परिणामं लहदि कम्मसंजुत्तं।

ततो सिलसदि कम्मं तम्हा कम्मं तु परिणामो।” —प्रवचनसार, गा. १२१

—“कर्म के कारण मलिनता को प्राप्त आत्मा कर्म-संयुक्त परिमाण को प्राप्त करता है। इससे कर्मों का सम्बन्ध होता है। अतः परिणाम को भी कर्म कहते हैं।”

इस विषय को स्पष्ट करते हुए अमृतचन्द्रसूरि लिखते हैं—

‘परमार्थ दृष्टि से देखा जाए, तो जीव आत्मपरिणामरूप भाव कर्म का कर्ता है। पुद्गल परिणामरूप द्रव्यकर्म का कर्ता नहीं है। द्रव्यकर्म का कर्ता कौन है? पुद्गल का परिणाम स्वयं पुद्गल रूप है। इससे परमार्थ दृष्टि से पुद्गलात्मक द्रव्य कर्म का पुद्गल का परिणाम स्वयं है। वह आत्मपरिणाम स्वरूप भाव कर्म का कर्ता नहीं है। इससे जीव आत्मस्वरूप से परिणमन करता है, पुद्गल रूप से परिणमन नहीं करता है।’

कर्म के द्रव्यकर्म और भावकर्म ये दो भेद कहे गये हैं। आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती कहते हैं—‘पुद्गल का पिण्ड द्रव्यकर्म है। उस पिण्ड स्थित शक्ति से उत्पन्न अज्ञानादि भावकर्म हैं।’ अध्यात्म शास्त्र की दृष्टि से आत्मा के प्रदेशों का सकम्प होना भावकर्म है। इस कम्पन के कारण पुद्गल की विशिष्ट अवस्था की उत्पत्ति को द्रव्यकर्म कहा है।

बन्ध का स्वरूप

कर्मों की अवस्थाविशेष को बन्ध कहते हैं। जीव और कर्मों के सम्बन्ध होने पर दोनों के गुणों में विकृति की उत्पत्ति होना बन्ध है। उदाहरणार्थ, हल्दी और चूना के सम्बन्ध से जो विशेष लालिभा की उत्पत्ति हुई है, वह वर्ण एक जात्यन्तर है। यह न हल्दी में है और न चूने में ही पाया जाता है। इसी प्रकार राग-द्वेषादि

१. “परिणममानस्य चित्तश्चिदात्मकैः स्वयमपि स्वकैर्भविः।

भवति हि निमित्तमात्रं पौद्गलिकं कर्म तस्यापि ॥”—पु. सि., १३

२. यतो हि तुल्यक्षेत्रावगाढ-जीवपरिणाममात्रं बहिरंगसाधनमाश्रित्य जीवं परिणमयितारमन्तरेणापि कर्मत्वपरिणमनशक्तियोगिनः पुद्गलस्कन्धाः स्वयमेव कर्म भावेन परिणमन्ति। ततोऽवधार्यते न पुद्गलपिण्डानां कर्मत्वकर्ता पुरुषोऽस्ति—अमृतचन्द्रसूरिकृत—प्रवचनसार टीका तत्त्व-प्रदीपिकावृत्तिः, पृ. २३१

३. कर्मभावं ज्ञानावरणादिद्रव्यकर्मपर्यायम्—जयसेनाचार्य।

४. “पोग्गलपिंडो दब्बं तस्सती भावकम्मं तु ॥” —गो.क., गा.६

विकारी भाव न शुद्ध आत्मा में उपलब्ध होते हैं और न जीव से असम्बद्ध पुद्गल में उनकी प्राप्ति होती है। बन्ध की अवस्था में जित दो वस्तुओं का परस्पर में बन्ध्य-बन्धक भाव उत्पन्न होता है, उन दोनों के स्वगुणों में विकृति उत्पन्न होती है। कहा भी है—

“हरदी ने जरदी तजी, चूना तण्यो सफेद।
दोऊ मिल एकहि भए, रबो न काहू मेद ॥”

‘पंचाध्यायी’ में कहा है—

“बन्धः परगुणाकारा क्रिया स्यात् परिणामिकी।
तस्यां सत्यामशुद्धत्वं तद्द्वयोः स्वगुणच्युतिः ॥२,१३०॥”

—‘अन्य के गुणों के आकार रूप परिणामन होना बन्ध है। इस परिणामन के उत्पन्न होने पर अशुद्धता आती है। उस समय उन दोनों बन्ध होने वालों के स्वगुणों का विपरिणामन होता है।’

जीव के रागादि भाव न शुद्ध जीव के हैं और न शुद्ध पुद्गल के हैं। ‘बन्धोऽयं द्वन्द्वजः स्मृतः’—यह बन्ध दो से उत्पन्न होता है। एक द्रव्य का बन्ध नहीं होता।

इस प्रसंग में ‘बृहद्द्रव्यसंग्रह’ टीका का यह कथन विशेष उद्बोधक है—आगम में बन्ध के कारण मोह, राग और द्वेष कहे गये हैं। ‘मोह’ शब्द दर्शनमोहनीय अर्थात् मिथ्यात्व का सूचक है। राग और द्वेष चारित्र मोह रूप हैं—‘मोहो दर्शनमोहो मिथ्यात्वमिति यावत्...चारित्र-मोहो रागद्वेषौ भण्येते।’

प्रश्न—चारित्रमोह शब्द से राग-द्वेष किस प्रकार कहे जाते हैं—

“चारित्रमोह शब्देन रागद्वेषौ कथं भण्येते? इति चेत् ॥”

उत्तर—“कषायमध्ये क्रोध-मानद्वयं द्वेषाङ्गम्, मायालोभद्वयं च रागाङ्गम्, नोकषायमध्ये तु स्त्री पुं-नपुंसकवेदत्रयं हास्य-रतिद्वयं च रागाङ्गम्, अरति-शोकद्वयं भयजुगुप्साद्वयं च द्वेषाङ्गमिति ज्ञातव्यम् ॥”— कषाय में द्वेष के अंग रूप क्रोध तथा मान अन्तर्भूत हैं। राग के अंग माया तथा लोभ अन्तर्भूत हैं। नोकषाय में स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद ये तीन तथा हास्य और रतिद्वय राग के अंगरूप हैं। अरति, शोक तथा भय और जुगुप्सा युगल द्वेष के अंग हैं।

प्रश्न—राग-द्वेष आदिक परिणाम क्या कर्मजनित हैं अथवा जीव से उत्पन्न हुए हैं?

उत्तर—स्त्री और पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुए पुत्र के समान, चूना तथा हल्दी के संयोग से उत्पन्न हुए वर्ण-विशेष के समान राग और द्वेष जीव और कर्म के संयोग से उत्पन्न हुए हैं। नय की विवक्षा के अनुसार विवक्षित एकदेश शुद्ध निश्चय से राग-द्वेष कर्मजनित कहलाते हैं तथा अशुद्ध-निश्चयनय से जीवजनित कहलाते हैं। यह अशुद्ध निश्चयनय शुद्ध निश्चयनय की अपेक्षा से व्यवहारनय ही है।^१

प्रश्न—साक्षात् शुद्ध निश्चयनय से ये राग-द्वेष किसके हैं?

उत्तर—स्त्री और पुरुष के संयोग बिना पुत्र की अनुत्पत्ति के समान तथा चूना और हल्दी के संयोग बिना रंगविशेष की अनुत्पत्ति के समान साक्षात् शुद्ध निश्चयनय की अपेक्षा से राग-द्वेषादि की उत्पत्ति ही नहीं होती, क्योंकि शुद्ध निश्चयनय की दृष्टि में जीव और पुद्गल दोनों ही शुद्ध हैं और इनके संयोग का अभाव है।

नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती कहते हैं—

१. अत्राह शिष्यः—रागद्वेषादयः किं कर्मजनिताः, किं जीवजनिता इति? तत्रोत्तरम्—स्त्री-पुरुषसंयोगोत्पन्नपुत्र इव सुधा-हरिद्रासंयोगोत्पन्नवर्णविशेष इवोभयसंयोगजनिता इति। पश्चात्रयविवक्षावशेन विवक्षितैक-देशशुद्धनिश्चयेन कर्मजनिता भण्यन्ते। तथैवाशुद्धनिश्चयेन जीवजनिता इति। स चाशुद्धनिश्चयः शुद्धनिश्चयापेक्षया व्यवहार एव। अथ मतम्—साक्षाच्छुद्धनिश्चयनयेन कस्येति पृच्छामो वयम्? तत्रोत्तरम्—साक्षाच्छुद्धनिश्चयेन स्त्री पुरुष-संयोगरहितपुत्रस्येव सुधाहरिद्रासंयोगरहितरङ्ग विशेषस्येव तेषामुत्पत्तिरेव नास्ति कथमुत्तरं प्रयच्छाम इति। बृहद्द्रव्यसंग्रह, गाथा ४८ की टीका, पृष्ठ २०१-२०२

“बज्जदि कम्मं जेण दु चेदणभावेण भावबंधो सो ।
कम्मादपदेसाणं अण्णोण्णपवेसणं इदरो ॥”—द्रव्यसंग्रह, गा. ३२

जिस चैतन्य परिणति से कर्मों का बन्ध होता है, उसे भावबन्ध कहते हैं। आत्मा और कर्म के प्रदेशों का परस्पर में प्रवेश हो जाना द्रव्यबन्ध है।

सूक्ष्मदृष्टि से विचार करने पर विदित होता है कि जिस प्रकार कर्मों को यह जीव बाँधता है—पराधीन करता है, उसी प्रकार कर्म भी इस जीव को पराधीन बनाते हैं। बन्ध में दोनों की स्वतन्त्रता का परित्याग होता है। दोनों विवश किये जाते हैं।

पण्डितप्रवर आशाधरजी लिखते हैं—

“स बन्धो बध्यन्ते परिणतिविशेषेण विवशी—
क्रियन्ते कर्माणि प्रकृतिविदुषो येन यदि वा ।
स तत्कर्मान्नातो नयति पुरुषं यत् स्ववशतां
प्रदेशानां यो वा स भवति मिथः श्लेष उभयोः ॥” —अन. धर्मा. २,३८

—“जिस परिणति विशेष से कर्म अर्थात् कर्मत्व परिणत पुद्गल-द्रव्यकर्म विपाक-अनुभव करने वाले जीव के द्वारा परतन्त्र बनाये जाते हैं—योगद्वारा से प्रविष्ट होकर पुण्य-पापरूप परिणमन करके भोग्यरूप से सम्बद्ध किये जाते हैं, वह बन्ध है। अर्थात् आत्मा के जिन भावों से कर्मत्वपरिणत पुद्गल जीव के द्वारा परतन्त्र किया जाता है, वह बन्ध है। अथवा जो कर्म जीव को अपने अधीन करता है, वह बन्ध है अथवा जीव और पुद्गल के प्रदेशों का परस्पर मिल जाना बन्ध है।”

बन्ध के विषय में यह बात तो सर्वसाधारण के दृष्टिपथ में रहती है कि जीव कर्मों को बाँधता है, किन्तु कर्म भी जीव को बाँधते हैं, प्रायः यह बात ध्यान में नहीं लायी जाती। पं. आशाधरजी ने यही विषय बताया कि बन्ध में दोनों की स्वतन्त्रता का परित्याग होता है। जीव तथा कर्म दोनों स्वतन्त्र नहीं रहते हैं। अर्थात् वे परतन्त्र हो जाते हैं।

यह बन्ध आत्मा और कर्म की परस्पर अनुकूलता होने पर ही होता है। प्रतिकूलों का बन्ध नहीं होता है। यही बात पंचाध्यायी कही गयी है—

“सानुकूलतया बन्धो न बन्धः प्रतिकूलयोः ॥” —२,१०२

मुनीन्द्र कुन्दकुन्द कहते हैं—

“फासेहिं पुगलानं बंधो जीवस्स रागमादीहिं ।
अण्णोण्णमवगाहो पुगलजीवप्पगो भणिदो ॥” —प्रवचनसार, गा. २,८५ (१७७)

--“यथायोग्य स्निग्धरूक्षत्वस्पर्श से पुद्गल-कर्म-वर्णणाओं का परस्पर में पिण्डरूप बन्ध होता है। रागद्वेष मोहरूप परिणामों से जीव का बन्ध होता है। जीव के परिणामों का निमित्त पाकर जीव पुद्गल का बन्ध होना जीव पुद्गल का बन्ध है।”^१

“सपदेसो सो अप्पा तेसु पदेसेसु पुगला काया ।
पविसंति जहाजोग्गं चिद्धंति य जंति बज्जंति ॥” —२,८६(१७८)

यह आत्मा असंख्यातप्रदेशी है। उसके प्रदेशों में आत्मप्रदेश-परिस्पन्दनरूप योग के अनुसार

१. यस्तावदत्र कर्मणां स्निग्धरूक्षत्वस्पर्शविशेषैरेकत्वपरिणामः स केवल पुद्गलबन्धः। यस्तु जीवस्योपाधिक-मोह-राग द्वेषपदायैरेकत्वपरिणामः स केवल जीवबन्धः। यः पुनः जीवकर्म-पुद्गलयोः परस्परनिमित्तमात्रत्वेन विशिष्टतरः परस्परमवगाहः स तदुभयबन्धः—अमृतचन्द्र सुरि कृत प्रवचनसार टीका, २,६५

मन-वचन-कायवर्गणाओं की सहायता से पुद्गल कर्म-वर्गणारूप पिण्ड आकर प्रविष्ट होता है। वे कर्म-वर्गणाएँ राग-द्वेष तथा मोह के अनुसार अपनी स्थिति प्रमाण ठहरकर क्षीण हो जाती हैं।

यथार्थ बात यह है कि राग-द्वेष, मोह के कारण आत्मा में एक उत्तेजना विशेष उत्पन्न होती है। उससे वह कर्मों को आकर्षित कर बाँधता है; जैसे गरम लोहपिण्ड जलराशि को आत्मसात् किया करता है।

रागादि से बन्ध होता है

‘समयसार’ में संक्षेप में बन्धतत्त्व को इस प्रकार समझाया है—

“रत्तो बंधदि कम्मं, मुंचदि कम्मोहिं रागरहिदप्पा ।

एसो बंधसमासो जीवाणं जाण णिच्छयदो ॥१५०॥” —प्रवचनसार, गा. १७६

रागपरिणाम विशिष्ट जीव कर्मों का बन्ध करता है। रागरहित आत्मा कर्मों से मुक्त होता है। जीवों के बन्ध का संक्षेप में यहीं तात्त्विक वर्णन है।

राग-द्वेष से बन्ध होता है, रागादि के अभाव होने पर क्रियाओं के होते हुए भी बन्ध नहीं होता, इसे सोदाहरण कुन्दकुन्द स्वामी इन शब्दों में स्पष्ट करते हैं—

“जह णाम कोवि पुरिसो णेहभत्तो दु रेणुबहुलम्मि ।

ठाणम्मि ठाइदूण य करेदि सत्थेहि वायामं ॥

छिंददि भिंददि य तहा तालीतलकदलिवंसपिंडीओ ।

सच्चित्ताचित्ताणं करेदि दव्वाणमुवघादं ॥

उवघादं कुव्वंतस्स तस्स णाणाविहेहिं करणेहिं ।

णिच्छयदो चित्तिज्जहु किं पच्चयगो दु तस्स रयबंधो ॥

जो सो दु णेहभावो तम्मि णरे तेण तस्स रयबंधो ।

णिच्छयदो विण्णेयं ण कायचेट्ठाहिं सेसाहिं ॥

एवं भिच्छादिट्ठी वट्ठतो बहुविहासु चेट्ठासु ।

रायादी उवओगे कुव्वंतो लिप्पदि रयेण ॥” —समयसार, गा. २३७-२४१

—आचार्य महाराज के कथन का भाव यह है कि कोई व्यक्ति अपने शरीर में तेल लगाता है तथा धूलिपूर्ण स्थल में जाकर शस्त्र-संचालनरूप व्यायाम करता है तथा ताड़, केला, बाँस आदि के वृक्षों का छेदन-भेदन करता है। इन क्रियाओं के करते हुए जो धूलि उड़कर उसके शरीर पर चिपकती है, उसका कारण व्यायाम क्रिया नहीं है। उसका वास्तविक कारण है—शरीर में तेल का लगाना। इसी प्रकार मिथ्यात्वी जीव अनेक चेष्टाओं को करता है। अपने उपभोग-परिणामों में रागादि धारण करता है, इससे वह कर्म रूपी धूलि के द्वारा लिप्त होता है।

यहाँ यह शंका उत्पन्न होती है कि शरीर में रज-लेपका कारण तेल के स्थान में व्यायाम क्रिया को क्यों न माना जाए? इसका समाधान स्वामी कुन्दकुन्द अधिक स्पष्टतापूर्वक करते हुए लिखते हैं—

“जह पुण सो चेव णरो णेहे सव्वद्धि अवणिये संते ।

रेणुबहुलम्मि ठाणे करेदि सत्थेहि वायामं ॥

छिंददि भिंददि य तहा तालीतलकदलिवंसपिंडीओ ।

सच्चित्ताचित्ताणं करेदि दव्वाणमुवघादं ॥—समयसार, गा. २४२-२४३

उवघादं कुव्वंतस्स तस्स णाणाविहेहिं करणेहिं ।

णिच्छयदो चित्तिज्जहु किं पच्चयगो ण तस्स रयबंधो ॥

जो सो दु णेहभावो तम्हि णरे तेण तस्स रयबंधो ।
णिच्छयदो विण्णेयं ण कायचेद्वाहिं सेसाहिं ॥
एवं सम्मादिद्धी वट्ठतो बहुविहेसु जोगेसु ।
अकरंतो उवओगे रागादी णेव बज्झदि रयेण ॥—समयसार, गा. २४५-२४६

इसका भाव यह है कि वही पूर्वोक्त पुरुष अपने शरीर के तेल को पोंछकर उसी प्रकार धूलिपूर्ण प्रदेश में शस्त्र द्वारा व्यायाम तथा वृक्ष-छेदनादि कार्य करता है। अब तेल का अभाव होने से उसके शरीर पर धूलि नहीं जमती है। इसी प्रकार सम्यग्दृष्टि जीव अनेक प्रकार के योगों में विद्यमान रहता है, किन्तु उसके उपयोग में रागादि का अभाव रहता है, इस कारण वह कर्म-रज से लिप्त नहीं होता।^१

शरीर पर धूलि जमने का कारण व्यायाम नहीं है, कारण शस्त्रसंचालन का अन्वय-व्यतिरेक धूलि जमने के साथ नहीं देखा जाता। शस्त्र-संचालन दोनों अवस्थाओं में होते हुए भी धूलि लेप तब होता है, जब शरीर पर तेललिप्त रहता है। शरीर पर तेल के अभाव में धूलि का लेप भी नहीं पाया जाता, इससे यह स्पष्ट विदित हो जाता है कि धूलि के जमने में कारण तेल का लेप है। इसी प्रकार रागादि के होने पर कर्मों का लेप होता है। आसक्तिजनक रागादि के अभाववश कर्मों का भी लेप नहीं होता। पं. आशाधरजी ने कहा है—

“मूरेखादिसदृक्कषायवशगो यो विश्वदृश्वाज्ञया
हेयं वैषयिकं सुखं निजमुपादेयं त्विति श्रद्धधत्
चौरौ मारयितुं धृतस्तलवरेणेवात्मनिन्दादिमान्
शर्माक्षं भजते रुजत्यपि परं नीत्तप्यते सोऽप्यधैः ॥” —सागरधर्मा. १,१३

अप्रत्याख्यानावरणानादि कषाय के अधीन रहनेवाला अविरत सम्यक्स्वी सर्वज्ञदेव के वचनानुसार विषय-सुख को त्याग्य और आत्मीक आनन्द को ग्राह्य श्रद्धान करता हुआ भी, जैसे कोट्टपाल के द्वारा मारने के लिए पकड़ा गया चोर आत्मनिन्दा-गर्हा आदि में प्रवृत्ति करता है, उसी प्रकार वह कषायोद्रेकवश इन्द्रियजन्य सुख का अनुभव करने में प्रभृत होता है और प्राणियों को पीड़ा भी देता है, किन्तु वह पापों से पीड़ित नहीं होता।^२ अनासक्त भाव से विषय सेवन करने के कारण वह बन्ध की तीव्र व्यथा नहीं उठाता। इसका भाव यह नहीं है कि चतुर्थगुणस्थानवाला सर्वथा बन्ध-विमुक्त हो जाता है। अनन्तानुबन्धी का उदय न होने से उस सम्बन्ध से होनेवाला बन्ध नहीं होता है। एकान्त नहीं है।

कर्मबन्ध पर परमार्थदृष्टि

जीव परमार्थदृष्टि अपने भावों का कर्ता है, फिर उसे कर्म का कर्ता क्यों कहते हैं? इसके समाधानार्थ समयसारकार कहते हैं—

“जीवद्धि हेदुभूदे बंधस्स दु पस्सिदूण परिणामं ।
जीवेण कदं कम्मं भण्णदि उवधारमत्तेण ॥
जोधेहि कदे जुद्धे राएण कदं ति जंपदे लोगो ।
तह ववहारेण कदं णाणावरणादि जीवेण॥” —समयसार, गा. १०५-१०६॥

१. “तैल-भ्रक्षणा भावे यथा रजोबन्धो न भवति, तथा वीतरागसम्यग्दृष्टेर्जीवस्य रागाद्यभावाद्बन्धो न भवति”—जयसेनाचार्यकी टीका पृ. ३३६, स.सा. गाया २४६। जैसे तेल की चिकनाई के अभाव में धूलिका बन्ध नहीं होता, उसी प्रकार वीतराग सम्यक्स्वी जीव के रागादिके अभाव से बन्ध नहीं होता है, अर्थात् सरागी सम्यक्स्वीके रागके कारण बन्ध होता है।
२. “नीत्तप्यते नोत्कृष्टं क्लिश्यते। कोऽसौ, सोऽपि अविरतसम्यग्दृष्टिः, किं पुनः त्यक्तविषयसुखः सर्वात्मनैकदेशेन वा हिंसादिभ्यो विरतश्चेत्यपि शब्दार्थः।” —स्वोपज्ञ टीका सा.ध. १,१३

‘जीव के निमित्त को पाकर कर्मबन्ध रूप परिणमन देखकर उपचारवश कहते हैं कि जीव ने कर्मबन्ध किया। उदाहरणार्थ, यद्यपि योद्धा लोग ही युद्ध करते हैं, किन्तु लोग कहते हैं राजा युद्ध करता है, इसी प्रकार व्यवहारनय से कहते हैं कि जीव ने ज्ञानावरणादि का बन्ध किया है।’^१

अमृतचन्द्र स्वामी की इसी प्रसंग पर बड़ी सुन्दर उक्ति है—

“जीवः करोति यदि पुद्गलकर्म नैव कस्तर्हि तत्कुरुत इत्यभिशाङ्कयैव ।
एतर्हि तीव्रजमोहनिवर्हणाय संकीर्त्यते शृणुत पुद्गलकर्म कर्तुं ॥३।१८।”

‘यदि जीव पुद्गलकर्म का कर्ता नहीं है, तो उसका कर्ता कौन है? ऐसी आशंका होने पर शीघ्र मोह निवारणार्थ कहते हैं, उसे सुन लो कि पौद्गलिक कर्मों का कर्ता पुद्गल ही है।’

आत्मा परभावों का कर्ता नहीं होगा, वह अपने निज भाव का कर्ता है, यह बात समझाते हुए कहते हैं—

“आत्मभावान् करोत्यात्मा परभावान् परः सदा ।

आत्मैव ह्यात्मनो भावाः परस्य पर एव ते ॥”—समयसार, पृ. १४४

‘आत्मा सदा अपने भावों का कर्ता है, पर अर्थात् पुद्गल सदा पौद्गलिक भावों का कर्ता है। आत्मा के भाव आत्मरूप ही हैं, इसी प्रकार पुद्गल के भाव भी पुद्गलरूप हैं।’

उपरोक्त सत्य को हृदयंगम करनेवाले जीव के विषय में कुन्दकुन्द स्वामी कहते हैं—

“परमप्पाणमकुब्बं अप्पाणं पि य परं अकुब्बंतो ।

सो णाणमजो जीवो कम्माणमकारगो होदि ।”—समयसार, गा. ६३

‘ज्ञानी जीव पर को आत्मरूप नहीं मानता है और न आत्मा को पर ही करता है, वह कर्मों का अकर्ता होता है।’ जयसेनाचार्य अपनी टीका में यह स्पष्ट करते हैं—“स निर्मलात्मानुभूतिलक्षणभेदज्ञानी जीवः कर्मणामकर्ता भवतीति”—निर्मल आत्मानुभूति स्वरूप भेदज्ञानी जीव कर्मों का अकर्ता होता है।

यहाँ यह गम्भीर बात समझाते हैं कि जब आत्मा अपने भाव के सिवाय परमार्थ से परभावों का कर्ता नहीं है, तब जीव में कर्मों का कर्तृत्व एवं भोक्तृत्व नहीं रहेगा।

नाटक समयसार में कहा है—

“जोलों ज्ञान को उदोत तोलों नहिं बन्ध होत बरतै मिथ्यात्व तब नानाबन्ध होहि है ।

ऐसी भेद सुन के लग्यो तू विषय भोगन सूं जोगनि सूं उद्यम की रीति तै बिछोहि है॥

सुनो भैया सन्त तू कहे मैं समकितवन्त यहू तो एकन्त परमेश्वर का द्रोही है ।

विषै सुं विमुख होहि अनुभव दशा आरोहि मोक्ष सुख ढोहि तोहि ऐसी मति सोही है ॥३६॥”

जिस आत्मा के हृदय में सम्यग्ज्ञान की निर्मल ज्योति प्रदीप्त होती है, उस आत्मा का जीवन सहज पवित्रता के रस से शोभित होता है। वह विषय-सुखों में आसक्त होता है, ऐसा जिन्हें भ्रम है, उनके समाधान निमित्त कविवर बनारसीदासजी कहते हैं—

“ज्ञानकला जिसके घट जागी । ते जग माहिं सहज बैरागी ॥

ज्ञानी मगन विषै सुख माहीं । यह विपरीत सम्भवै नाहीं ॥४०॥

ज्ञानशक्ति वैराग्यबल शिवसाधे समकाल ।

ज्यों लोचन न्यारे रहें, निरखे दोऊ ताल ॥४१॥”

१. अनादिबन्धपर्यायवशेन वीतरागस्वसंवेदनलक्षण-भेदज्ञानाभावाद् रागादिपरिणामस्निग्धः सन्नात्मा कर्मवर्गणायोग्य-पुद्गलद्रव्यं कुम्भकारी घटमिव द्रव्यकर्मरूपेणोत्पादयति करोति स्थितिबन्धं बध्नात्पनुभागबन्धं परिणमयति प्रदेशबन्धं तप्तायःपिण्डो जलवत् सर्वात्मप्रदेशैर्गृह्णाति चेत्यभिप्रायः॥ —जयसेनाचार्य-तात्पर्यवृत्ति टीका ।

अमृतचन्द्रस्वामी ने कहा है—

“सम्यग्दृष्टैर्भवति नियतं ज्ञानवैराग्य-शक्तिः
स्वं वस्तुत्वं कलयितुमयं स्वान्यरूपाप्तिमुक्त्या ।
यस्माद् ज्ञात्वा व्यतिकरमिदं तत्त्वतः स्वं परं च
स्वस्मिन्नास्ते विरमति परात्सर्वतो रागयोगात् ॥”—समयसार कलश, १३६

सम्यक्त्वी के नियम से ज्ञान और वैराग्य की शक्ति होती है, क्योंकि यह सम्यग्दृष्टि अपने वस्तुपना—यथार्थ स्वरूप का अभ्यास करने को अपने स्वरूप का ग्रहण और पर के त्याग की विधि कर ‘यह तो अपना स्वरूप है और यह पर द्रव्य का है,’ ऐसे दोनों का भेद परमार्थ से जानकर अपने स्वरूप में ठहरता है और पर द्रव्य से सब तरह राग का योग छोड़ता है।

आत्मा सर्वथा अकर्ता नहीं है

कोई लोग कर्म के मर्म को यथार्थ रूप से समझकर आत्मा को सर्वथा अकर्ता मानते हैं—और कहते हैं कि जो कुछ भी परिणमन होता है, सब का कर्तृत्व कर्म पर है। जड़ की क्रिया होती है। सांख्यदर्शन भी पुरुष को कमलपत्र सम मानकर कर्म-जल से उसे पूर्णतया अलिप्त बताता है। वह प्रकृति को ही सब कुछ कर्ता-धर्ता मानता है। इस प्रकार की दृष्टि को महर्षि कुन्दकुन्द एकान्तवादी कहते हैं—

“कम्मेहिं दु अण्णाणी किज्जदि णाणी तहेव कम्मेहिं ।
कम्मेहिं सुवाविज्जदि जग्गाविज्जदि तहेव कम्मेहिं ॥”—समयसार, गा. ३३२

—‘यह जीव कर्म के ही द्वारा अज्ञानी किया जाता है। उसके द्वारा ही वह ज्ञानी किया जाता है। कर्म ही जीव को सुलाता है, कर्म ही उसे जगाता है।’

“कम्मेहिं ममाडिज्जदि उड्ढमहं चावि तिरियल्लोयं च ।
कम्मेहिं चेव किज्जदि सुहासुहंजे त्तियं किंचि ॥”—समयसार, गा. ३३२

—‘कर्म के कारण ही जीव ऊर्ध्व, मध्य तथा अधोलोक में भ्रमण करता है। जो कुछ भी शुभाशुभ कर्म हैं, वे भी कर्म के ही द्वारा किये जाते हैं। इस प्रकार कर्मैकान्त मानने वाले के अनुसार कर्म को ही कर्ता, हर्ता, दाता आदि माना जाए, तो क्या आपत्ति है? इस पर कुन्दकुन्द स्वामी कहते हैं—

“जम्हा कम्मं कुव्वदि कम्मं देदि हरत्ति जं किंचि ।
तम्हा सव्वे जीवा अकारगा होंति आवण्णा ॥”—समयसार, गा. ३३५

‘यतः कर्म ही सब कुछ करता है, देता है, हरण करता है, अतः सर्व जीवों में अकारकत्व आ गया।’
पुनः उस एकान्त मान्यता में दोषोद्घावन कहते हैं—

“पुरिसित्थियाहिलासी इत्थीकम्मं च पुरिसमहिलसदि ।
एसा आयरियपरंपरागदा एरिसी दु सुदी ॥३३६॥”
तम्हा ण कोवि जीवो अबंभचारी दु तुम्हमुवदेसे ।
जम्हा कम्मं चेव हि कम्मं अहिलसदि जं भणिदं ॥३३७॥
जम्हा घादेदि परं परेण घादिज्जदे य सा पयडी ।
एदेणत्थेण दु किर भण्णदि परघादणामेत्ति ॥३३८॥
तम्हा ण कोवि जीवो उवघादगो अत्थि तुम्ह उवदेसे ।
जम्हा कम्मं चेव हि कम्मं घादेदि इदि भणियं ॥३३९॥
एवं संखुवदेसं जेदु परूवित्ति एरिसं समणा ।
तेसिं पयडी कुव्वदि अप्पा य अकारगा सव्वे ॥३४०॥”

इस विषय में आचार्य कहते हैं—‘पुरुष नामक कर्म के उदय से स्त्री की अभिलाषा उत्पन्न होती है। स्त्री कर्म के कारण पुरुष की वांछा होती है। ऐसी बात स्वीकार करने पर कोई भी अब्रह्मचारी नहीं होगा, कारण कर्म ही कर्म की अभिलाषा करता है, यह कहा जाएगा।

कोई जीव दूसरे को मारता है या मारा जाता है, इसका कारण परघात, उपघात नाम की प्रकृतियाँ हैं। यह मानने पर कोई वध करने वाला न होगा। कारण यह कथन किया जाएगा कि कर्म ही कर्म का घात करने वाला है। इस प्रकार जो सांख्य सिद्धान्त के अनुसार मानते हैं, उनके यहाँ प्रकृति ही करती है और सर्व आत्मा अकारक हुए।

समन्वय पथ—इस जटिल समस्या को सुलझाते हुए अनेकान्त विद्या के मार्मिक आचार्य अमृतचन्द्र कहते हैं—

“भाऽकर्तारममी स्पृशन्तु पुरुषं सांख्या इवाप्यार्हताः

कर्तारं कलयन्तु तं किल सदा भेदावबोधदधः।

ऊर्ध्वं तूद्धतबोधधामनियतं प्रत्यक्षमेव स्वयं

पश्यन्तु च्युतकर्मभावमचलं ज्ञातारमेकं परम् ॥” —समयसारकलश, २०५

—‘अर्हन्त भगवान् के भक्तों को यह उचित है कि वे सांख्यों के समान जीव को सर्वथा अकर्ता न मानें, किन्तु उनको भेदविज्ञान होने के पूर्व आत्मा को सदा कर्ता स्वीकार करना चाहिए। जब भेदविज्ञान की उत्पत्ति हो जाए, तब आत्मा को कर्म भावरहित, अविनाशी, प्रवृद्ध ज्ञान का पुंज, प्रत्यक्षरूप एक ज्ञातारूप में दर्शन करो।’

आचार्य महाराज की देशना का भाव यह है कि जब तक भेदविज्ञान ज्योति के प्रकाश से आत्मा आलोकित नहीं हुई है, तब तक आत्मा को रागादिरूप भाव कर्मों का कर्ता मानो। भेद-विज्ञान की उपलब्धि के पश्चात् आत्मा को ज्ञाता—द्रष्टा मानो। बहिरात्मा में कर्म-कर्तृत्व का भाव मानना चाहिए। परिग्रह-रहित योगीरूप अन्तरात्मा को अपने ज्ञान स्वभाव का कर्ता जानना उचित है। आत्मा निर्विकल्प समाधि की अवस्था में अकर्ता कहा गया है। भेद-ज्ञान निर्विकल्प समाधिरूप अवस्था का ज्ञापक है। जयसेनाचार्य समयसार टीका में कहते हैं—“ततः स्थितमेतत्, एकान्तेन सांख्यमतवदकर्ता न भवति किं तर्हि रागादिविकल्परहित-समाधि लक्षण-भेदज्ञानकाले कर्मणः कर्ता न भवति, शेष काले कर्तृति” (गाथा ३४४)—अतः यह बात जाननी चाहिए कि आत्मा सांख्यमत के समान अकर्ता नहीं है। वह रागादि विकल्परहित समाधिरूप भेद-विज्ञान के काल में कर्मों का कर्ता नहीं है; शेषकाल में कर्ता होता है। यह विकल्परहित समाधि गृहस्थावस्था में असम्भव है। मुनिपद में ही वह होती है। इस प्रकार दृष्टिभेद से आत्मा में कर्तृत्व और अकर्तृत्व का समन्वय किया जाता है। अकर्तापने का एकान्तपक्ष सांख्यदर्शन की मान्यता है। स्याद्वादशासन की मान्यता एकान्तवाद रूप नहीं हो सकती है।

सांख्यतत्त्वकौमुदी में कहा है—

“तस्मान्न बध्यतेऽसौ न मुच्यते नापि संसरति कश्चित्।

संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृतिः ॥६२॥”

इससे कोई भी पुरुष न बँधता है, न मुक्त होता है, न परिभ्रमण करता है। अनेक आश्रयों को ग्रहण करने वाली प्रकृति का ही संसार होता है, बन्ध होता है तथा मोक्ष होता है।

भेदज्ञान का रहस्य—इस पद्य से स्पष्ट हो जाता है कि जो आत्मा की निश्चयनय की अपेक्षा प्रतिपादित शुद्धता को ही एकान्त रूप से ग्रहण कर उसे सर्वथा कर्मबन्ध रहित मानते हैं, वे यथार्थ में सांख्यदर्शनवाले बन जाते हैं। सर्वज्ञ अरहन्त भगवान् की वाणी अनेकान्त तत्त्व को सत्य का स्वरूप बताती है। इस कारण जयसेनाचार्य ने कहा है—“ततः स्थितमेतत्, एकान्तेन सांख्यमतवदकर्ता न भवति। किं तर्हि? रागादिविकल्परहित-समाधिलक्षणभेदज्ञानकाले कर्मणः कर्ता न भवति, शेषकाले भवति” (समयसार, गाथा

३४४-टीका) —अतः यह बात निर्णीत है कि आत्मा एकान्तरूप से सांख्यमत के समान अकर्ता नहीं है। फिर आत्मा कैसी है? रागादि विकल्परहित समाधिरूप भेदज्ञान के समय यह कर्मों का कर्ता नहीं है; शेष काल में आत्मा कर्मों का कर्ता होता है। अर्थात् जब वह अभेद समाधिरूप नहीं होता है, तब उसके रागादि के कारण बन्ध हुआ करता है। भेदज्ञान का अर्थ अविरत सम्यक्त्वी का ज्ञान समझने से यह भ्रम होता है कि अविरत सम्यक्त्वी के बन्ध नहीं होता है। भेदविज्ञान निर्विकल्प समाधि का द्योतक है जो मुनिपद धारण करने के उपरान्त ही प्राप्त होती है। विकल्पजालपूर्ण गृहस्थावस्था में उसकी सम्यक् कल्पना भी अशक्य है।

आत्मा कर्मस्वरूप नहीं होता

मुनीन्द्र कुन्दकुन्द का कथन है—

“जह सिप्पिओ दु कम्म कुब्बदि ण य सो दु तम्मओ होदि ।

तह जीवो दि य कम्म कुब्बदि ण य तम्मओ होदि ॥” —समयसार, गा. ३४६

—जैसे शिल्पकार आभूषण आदि के निर्माण कार्य को करता है, किन्तु वह स्वयं आभूषण स्वरूप नहीं होता; उसी प्रकार यह जीव कर्मों को बाँधता हुआ भी कर्मस्वरूप नहीं होता है।

शिल्पकार सुनार आभूषण निर्माण में निमित्त कारण है, अतः वह अपने स्वरूप से भी च्युत नहीं होता और निमित्त कारण भी बनता है। इसी प्रकार जीव भी अपने स्वरूप का नाश नहीं करता है और कर्मों के बन्धन में निमित्त रूप भी रहा आता है। उपादान-उपादेय भाव का यहाँ निषेध किया गया है, निमित्त-नैमित्तिक-भाव की अपेक्षा कर्ता, कर्म, भोक्ता, भोग्यपने का व्यवहार उपयुक्त माना है। अमृतचन्द्रसूरि कहते हैं—

“ततो निमित्तनैमित्तिकभावमात्रेणैव तत्र कर्तृकर्मभोक्तृभोग्यत्वव्यवहारः” ।

—समयसार, पृ. ४५५

शंका—सच्चा नय तो निश्चय नय है। व्यवहार तो अभूतार्थ है; मिथ्या है, अतः सांख्यदर्शन की तरह आत्मा को सदा पुरुष के समान निर्लेप शुद्ध मानना चाहिए। प्रत्यक्ष स्वीकार करने में भय नहीं करना चाहिए।

समाधान—सम्यग्ज्ञान के अंग होने से जितना सत्यपना निश्चय नय में है, उतना ही समीचीनपना व्यवहार नय में भी है। जो नय परस्पर में निरपेक्ष हो, अन्य नयको मिथ्या मानता है, वह स्वयं मिथ्या रूपता को प्राप्त होता है। निश्चय का यह कथन यथार्थ है कि जीव शुद्ध है, किन्तु व्यवहार का कथन भी सम्यक् है कि जीव में कयचित् कर्तृत्व आदि भाव भी पाये जाते हैं। इस सम्बन्ध में आचार्य पद्मनन्दि का ‘पंचविंशतिका’ के निश्चय पंचाशत् अधिकार में किया गया प्रतिपादन महत्त्वपूर्ण है। वे कहते हैं—

“व्यवहारोऽभूतार्थो भूतार्थो देशितस्तु शुद्धनयः ।

शुद्धनयमाश्रिता ये प्राप्नुवन्ति यतयः परं परमम् ॥” —समयसार, गा. ६ से उद्धृत

व्यवहार नय अभूतार्थ है तथा शुद्धनय भूतार्थ कहा है। जो मुनीश्वर शुद्धनय का आश्रय लेते हैं, वह परम पद को प्राप्त करते हैं। यहाँ श्लोक में आगत ‘यतयः’ शब्द महत्त्वपूर्ण है। उससे गृहस्थ की व्यावृत्ति हो जाती है। आकुलता के जाल में फँसा हुआ परिग्रह पिशाच के द्वारा छला गया गृहस्थ शुद्ध दृष्टि का पात्र नहीं है। उसका कल्याण व्यवहार नय द्वारा प्रतिपादित पथ का आश्रय ग्रहण करने में है। सविकल्प अवस्थावाले श्रमण का भी अवलम्बन व्यवहार नय रहा करता है। शुद्धोपयोगी निर्विकल्प समाधिवाला दिगम्बर मुनि अभेद दृष्टि रूप निश्चय नय का आश्रय लेता है। पद्मनन्दि आचार्य कहते हैं—

“तत्त्वं वागतिवर्ति व्यवहृतिमासाद्य जायते वाच्यम् ।

गुण-पर्यायादि-विवृत्तेः प्रसरति तच्चापि शतशाखम् ॥” —पद्मनन्दिपंच. श्लो. 10

वास्तविक दृष्टि से अथवा निश्चय नय की अपेक्षा तत्त्व का स्वरूप वचन के अगोचर है, किन्तु व्यवहार नय का आश्रय ले वह कथंचित् वाणी का विषय हो जाता है। गुण, पर्याय आदि के भेद से वह सैकड़ों भेद युक्त हो जाता है। वस्तु का विवेचन भेदग्राही व्यवहार नय के द्वारा ही सम्भव है। एकान्तवादी व्यवहार नय को तिरस्कार और निन्दा का पात्र मानता है, किन्तु अनेकान्त तत्त्वज्ञान का सौन्दर्य समझनेवाला स्याद्वादी व्यवहार नय को भी आदरणीय स्वीकार करता है।

महत्त्व की बात—‘पद्मनन्दि पंचविंशतिका’ का यह कथन विशेष ध्यान देने योग्य है—

“मुख्योपचार-विवृतिं व्यवहारोपायतो यतः सन्तः।

ज्ञात्वा श्रयन्ति शुद्धं तत्त्वमिति व्यवहृतिः पूज्या ॥११॥”

मुनीश्वर व्यवहारनय की सहायता से मुख्य तथा उपचार के भेद को समझकर शुद्ध तत्त्व का आश्रय लेते हैं, इस कारण व्यवहार-नय पूज्य है। ‘व्यवहृतिः पूज्या’ शब्द महान् आध्यात्मिक मुनीश्वर के द्वारा कहे गये हैं।

अभेद रत्नत्रयरूप अद्वैत तत्त्व में स्थित निश्चय नयवाला योगी परम पदवी को प्राप्त करता है। एकत्व वितर्क नामक शुक्ल ध्यान के द्वितीय भेद का आश्रय कर शुक्लध्यानी शुद्धोपयोगी मोहनीय कर्म को नष्ट करता है। वास्तव में शुद्ध तत्त्व नयादि के विकल्पों से अतीत है। उस अनुभव की दशा में व्यवहारनय और निश्चयनय दोनों समान रूप से अग्राह्य बन जाते हैं। पद्मनन्दि आचार्य कहते हैं—

“नय-निक्षेप-प्रमिति-प्रभृति-विकल्पोऽज्ञितं परं शान्तम्।

शुद्धानुभूति-गोचरमहमेकं धाम चिद्रूपम् ॥४५॥” निश्चयपंचाशत्

में नय, निक्षेप, प्रमाण आदि विकल्पों से रहित, परमशान्त, शुद्धानुभूतिगोचर चिद्रूप-तेजस्वरूप हैं। जिनागम का रसपान करनेवाले को एकान्तवाद के दलदल से बचना चाहिए। ‘तत्त्वज्ञान-तरंगिणी’ का यह कथन हृदयग्राही है—

“व्यवहारेण बिना केचिन्नष्टाः केवल निश्चयात्।

निश्चयेन बिना केचित् केवल-व्यवहारतः ॥” —तत्त्वज्ञानतरंगिणी

कोई लोग व्यवहार का लोप करके निश्चय के एकान्त से विनाश को प्राप्त हुए और कोई निश्चय दृष्टि को भूलकर केवल व्यवहार का आश्रय ले विनष्ट हुए। अतएव समन्वय की पद्धति अभिवन्दनीय है। अतः उक्त ग्रन्थकार कहते हैं—

“द्वाभ्यां दृग्भ्यां बिना न स्यात् सम्यग्द्रव्यावलोकनम्।

यथा तथा नयाम्भ्यां चेत्युक्तं च स्याद्वादिभिः ॥”

जैसे दोनों नेत्रों के बिना सम्यक् प्रकार से वस्तु का अवलोकन नहीं होता है, उसी प्रकार दोनों नयों के बिना भी यथार्थ रूप में वस्तु का ग्रहण नहीं होता है, ऐसा भगवान् ने कहा है।

महान् भ्रम—लोग प्रायः लोकाचार तथा लौकिक व्यवहार को (formalities) व्यवहार नय सोचते हैं और निश्चय को सुदृढ़ विचार (determination) समझकर भ्रान्त धारणा बनाते हैं। इसी के आधार पर वे कहते हैं कि किसी कार्य के सम्पादन के पूर्व निश्चय नय होता है, पश्चात् उसकी पूर्ति हेतु प्रवृत्ति व्यवहारनय है। यह कथन इतना ही विपरीत है, जितना बकराज को हंसराज बताना मिथ्या है। शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं, जिनका आगमानुसार अर्थ करना तत्त्वज्ञ का कर्तव्य है। सम्यग्ज्ञान के भेदनय का उपभेद व्यवहारनय निश्चयन का साधक है। दोनों में साधनसाध्यभाव है। ‘तत्त्वानुशासन’ में कहा है—

“मोक्षहेतुः पुनर्द्वेषा निश्चयाद् व्यवहारतः।

तत्रायः साध्यरूपः स्याद् द्वितीयस्तस्य साधनम् ॥” —तत्त्वानुशासन, श्लो. २८

मोक्षका मार्ग निश्चय तथा व्यवहार के भेद से दो प्रकार का है। उसमें निश्चयमोक्षमार्ग साध्यरूप है तथा व्यवहार मोक्षमार्ग साधनरूप है। 'तत्त्वार्थसार' में अमृतचन्द्र सूरि ने भी लिखा है—

“निश्चय-व्यवहारभ्यां मोक्षमार्गो द्विधा स्थितः।

तत्राद्यः साध्यरूपः स्याद् द्वितीयस्तस्य साधनम् ॥” —तत्त्वार्थसार

साधन से साध्य की सिद्धि की जाती है, इससे साधनरूप व्यवहारनय पूर्ववर्ती होगा और साध्यरूप निश्चयनय पश्चाद्वर्ती होगा। इसका विपरीत कथन करना ऐसी ही विचित्र बात होगी, जैसे यह कहना कि पहले मोक्ष होता है, फिर बन्ध होता है। बुद्धिमान् तथा विवेकी व्यक्ति जैसे बन्धपूर्वक मोक्ष को स्वीकार करता है, उसी प्रकार अनेकान्त दृष्टि तत्त्वज्ञ साधनरूप व्यवहार दृष्टि को प्राथमिकता देकर साध्यरूप दृष्टि को पश्चाद्वर्ती मानेगा।

निश्चयनय और व्यवहारनय का आगम में क्या अर्थ है, यह 'तत्त्वानुशासन' में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है—

“अभिन्न-कर्तृ-कर्मादि-विषयो निश्चयो नयः।

व्यवहारनयो भिन्न-कर्तृ-कर्मादि-गोचरः ॥२६॥”

निश्चयनय में कर्ता, कर्म, कारण आदि भिन्न नहीं होते हैं, अतः वह अभिन्न कर्तृ-कर्मादि विषयक है। वह अभेदग्राही (synthetic approach) है। व्यवहारनय कर्ता—कर्मादि भेद का ग्राहक है। वह (analytic approach) भेद दृष्टि युक्त है। समन्तभद्र स्वामी ने—'आप्तमीमांसा' में वस्तु का स्वरूप भेद तथा अभेद रूप माना है—“भेदाभेदौ न संवृती”—भेद तथा अभेद वस्तु रूप हैं; कल्पना नहीं है।

निर्विकल्प समाधि की स्थिति सामान्य बात नहीं है। उस अवस्था में अद्भुत रूप से आत्मनिमग्नता पायी जाती है। भीम, अर्जुन तथा युधिष्ठिर ने मुनिपद को स्वीकार कर जब निर्विकल्प समाधि में तल्लीनता प्राप्त की थी, तब उनके शरीर पर जलते हुए लोहे के आभूषण पहनाये जाने पर भी वे पूर्णतया स्थिर थे। जब सुकुमाल मुनि निर्विकल्प समाधि का रसपान कर रहे थे, तब स्यालनी उनका शरीर भक्षण कर रही थी; फिर भी वे स्वरूप में निमग्न थे। सुकौशल मुनि की भी ऐसी ही अभेद रत्नत्रय रूप परिणति थी, जब व्याघ्री ने उनके शरीर का भक्षण किया था। उस निर्विकल्प समाधि की स्थिति के अनुसार सांख्य का आत्मा का अकर्तृत्व पक्ष निर्दोष तथा यथार्थ है, किन्तु वह सविकल्पदशा में भी अकर्तृत्व कहता है, इससे उसकी मान्यता पूर्णतया अवास्तविक बन जाती है।

अभेद स्वरूप में निमग्न योगी अद्वैत भाव को प्राप्त होता है। वेदान्तदर्शन भी उस अद्वैत का कथन करता है। इस प्रकार शुद्ध निश्चयनय की दृष्टि वेदान्त की अद्वैत विचारधारा के सदृश प्रतीत होती है, किन्तु उसमें और जैन विचारधारा में इतना अन्तर है कि जैनदर्शन सविकल्प अवस्था में भेदरूप द्वैत दृष्टि को भी यथार्थ मानता है। वेदान्ती द्वैत दृष्टि को अयथार्थ तथा काल्पनिक बताता है। स्याद्वाद सिद्धान्त में अद्वैत दृष्टि प्राप्त व्यक्ति इस प्रकार अनुभव करता है—

“एकमेव हि चैतन्यं शुद्धनिश्चयतोऽथवा।

कोऽवकाशः विकल्पानां तत्राखण्डैकवस्तुनि ॥१५॥” —पद्मनन्दिपंचविंशति, एकत्वाशीति

शुद्ध निश्चयनय की अपेक्षा चैतन्य एक है, अद्वैत रूप है। उस अखण्ड आत्मस्वरूप में विकल्पों के लिए कोई स्थान नहीं है।

“बद्धो मुक्तोऽहमथ द्वैते सति जायते ननु द्वैतम्।

मोक्षायेत्युभय-मनोविकल्परहितो भवति मुक्तः ॥४६॥” —वही

में बद्ध हैं, मुक्त हैं, ऐसी द्वैतबुद्धि द्वैतभाव के होने पर होती है। बद्ध और मुक्त के दोनों मानसिक विकल्पों का भय होना मोक्ष का कारण है।

“बद्धो वा मुक्तो वा चिद्रूपो नय-विचारविधिरेषः ।
सर्वनय पक्षरहितो भवति हि साक्षात्समयसारः ॥५३॥” —वही

चिद्रूप बद्ध है अथवा मुक्त है, यह नय-दृष्टि का कयन है। सर्व प्रकार के नयपक्षरहित साक्षात् समयसार है।

‘पंचास्तिकाय’ में कहा है—

“जो संसारत्यो जीवो ततो दु होदि परिणामो ।
परिणामादो कम्मं कम्मादो होदि गदिसुगदी ॥
गदिमधिगदस्स देहो देहादो इंदियाणि जायंते ।
तेहिं दु विसयग्गहणं ततो रागो य दोसो वा ॥
जायदि जीवस्सेवं भावो संसारचक्कवालम्भि ।
इदि जिणवरेहिं मणिदो अणादिणिघणो सणिघणो वा ॥”—गा. १२६-१३०

—‘जो जीव संसार में स्थित है, उसके राग-द्वेष रूप परिणाम होते हैं। उन भावों से कर्मों का बन्धन होता है। कर्मों के कारण नरक आदि गतियों में गमन होता है। गतियों में जाने पर शरीर की प्राप्ति होती है। शरीर से इन्द्रियों की प्राप्ति होती है। इन्द्रियों के द्वारा विषयों का ग्रहण होता है। इससे राग-द्वेष उत्पन्न होते हैं। संसार चक्र में परिभ्रमण करते हुए जीव के इस प्रकार के भाव होते हैं। जिनेन्द्र ने कर्म को सन्तति की अपेक्षा अनादि-निधन और पर्याय की अपेक्षा सादि कहा है। इस विवेचन का निष्कर्ष यह है कि यह जीव राग-द्वेष के कारण इस अनादिनिधन संसार चक्र में परिभ्रमण किया करता है।

कर्म को पौद्गलिक एवं मूर्तिक मानने में युक्ति

आत्मा से सम्बद्ध कर्मों को पौद्गलिक प्रमाणित करते हुए—‘पंचास्तिकाय’ में लिखा है—

“जम्हा कम्मस्स फलं विसयं फासेहिं मुंजदे णियदं ।
जीवेण सुहं दुक्खं तम्हा कम्माणि मुत्ताणि ॥” —पंचास्तिकाय., गा. १३३

‘जीव कर्मों के फलस्वरूप सुख-दुःख के हेतु स्वरूप विषयों को मूर्तिमान् इन्द्रियों के द्वारा भोगता है, इससे कर्म मूर्तिक हैं।’

एक पुद्गल द्रव्य ही स्पर्श, रस, गन्ध तथा वर्ण विशिष्ट होने के कारण मूर्तिक है। अतः कर्मों में मूर्तिक पना सिद्ध होने पर उनकी पौद्गलिकता स्वयं प्रमाणित होती है।

टीकाकार अमृतचन्द्रसूरि लिखते हैं—‘मूर्तं कर्म मूर्तसम्बन्धेनानुभूयमानमूर्तफलत्वादाखुविषवत्, इति’—कर्म मूर्तिक हैं, कारण उसका फल मूर्तिक द्रव्य के सम्बन्ध से अनुभवगोचर होता है, जैसे चूहे के काटने से उत्पन्न हुआ विष। चूहे के काटने से शरीर में जो शोथ आदि विकार उत्पन्न होता है, वह इन्द्रियगोचर होने से मूर्तिमान् है, इससे उसका मूल कारण विष भी मूर्तिमान् होना चाहिए। इसी प्रकार यह जीव मणि, पुष्प, वनितादि के निमित्त से सुख तथा सर्प सिंहादि के निमित्त से दुःखरूप कर्म के विपाक का अनुभव करता है, अतः इस सुख-दुःख का कारण जो कर्म है, वह भी मूर्तिमान् मानना उचित है।^१

जयधवला टीका (११५७) में लिखा है—“तपि मुत्तं चैव। तं कथं णव्वदे? मुत्तोसहसंबंधेण परिणामांतरगमणणहाणुववत्तीदो। ण च परिणामांतरगमणमसिद्धं; तस्स तेण विणा जरकुट्टक्खयादीणं विणासाणुववत्तीए परिणामांतरगमणसिद्धीदो।”—

१. “यदाखुविषवन्मूर्तसम्बन्धेनानुभूयते।

यथास्वं कर्मणः पुंसा फलं तत्कर्म मूर्तिमत् ॥” —अन. धर्मा., २,३०

‘कर्म मूर्त हैं यह कैसे जाना? इसका कारण यह कि यदि कर्म को मूर्त न माना जाय तो मूर्त औषधि के सम्बन्ध से परिणामान्तर की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अर्थात् रुग्णावस्था में औषधि ग्रहण करने से रोग के कारण कर्मों की उपशान्ति देखी जाती है, वह नहीं बन सकती है। औषधि के द्वारा परिणामान्तर की, प्राप्ति असिद्ध नहीं है, क्योंकि परिणामान्तर के अभाव में ज्वर, कुष्ठ तथा क्षय आदि रोगों का विनाश नहीं बन सकता, अतः कर्म में परिणामान्तर की प्राप्ति होती है, यह सिद्ध हो जाता है।’

कर्म मूर्तिमान् तथा पौद्गलिक है। जीव अमूर्तिक तथा अपौद्गलिक है, अतः जीव से कर्मों को सर्वथा भिन्न मान लिया जाय, तो क्या दोष है? इस विषय में वीरसेनाचार्य ‘जयधवला’ में इस प्रकार प्रकाश डालते हैं—‘जीव से यदि कर्मों को भिन्न माना जाए, तो कर्मों से भिन्न होने के कारण अमूर्त जीव का मूर्त शरीर तथा औषधि के साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता। इससे जीव तथा कर्मों का सम्बन्ध स्वीकार करना चाहिए। शरीर आदि के साथ जीव का सम्बन्ध नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते, कारण शरीर के छेदे जाने पर दुःख की उपलब्धि देखी जाती है। शरीर के छेदे जाने पर आत्मा में दुःख की उत्पत्ति से जीवकर्म का सम्बन्ध सूचित होता है। एक के छेदे जाने पर दूसरे में दुःख की उत्पत्ति नहीं पायी जाती। ऐसा मानने पर अव्यवस्था होगी।’

भिन्नता का पक्ष मानने पर जीव के गमन करने पर शरीर का गमन नहीं होना चाहिए, कारण दोनों में एकत्व का अभाव है। औषधिसेवन भी जीव की नीरोगता का सम्पादक नहीं होगा, कारण औषधि शरीर के द्वारा पीई गयी है। अन्य के द्वारा पीई गयी औषधि अन्य की नीरोगता को उत्पन्न नहीं करेगी। इस प्रकार की उपलब्धि नहीं होती। जीव के रुष्ट होने पर शरीर में कम्प, दाह, गले का सूखना, नेत्रों की लालिमा, भौंहों का चढ़ना, रोमांच का होना, पसीना आना आदि बातें शरीर में नहीं होनी चाहिए, कारण उनमें भिन्नता है। जीवन की इच्छा से शरीर का गमनागमन, हाथ, पाँव, सिर तथा अंगुलियों का हलन-चलन भी नहीं होना चाहिए। कारण वे पृथक् हैं। सम्पूर्ण जीवों के केवलज्ञान, केवलदर्शन, अनन्तवीर्य, विरति, सम्यक्त्वादि हो जाना चाहिए, कारण सिद्धों के समान जीव से कर्मों का पृथक्पना है। अथवा सिद्धों में अनन्तगुणों का अभाव मानना होगा; किन्तु ऐसी बात नहीं पायी जाती; इससे कर्मों को जीव से अभिन्न श्रद्धान करना चाहिए।

अमूर्त स्वभाव आत्मा को मूर्तिक कर्मों ने क्यों बाँधा?

प्रस्तुत समस्या पर प्रकाश डालते हुए अकलंकदेव आत्मा को कथंचित् मूर्तिक और कथंचित् अमूर्तिक बताते हैं। उन्होंने लिखा है :

“अनादिकर्मबन्धसन्तानपरतन्त्रस्यात्मनः अमूर्ति प्रत्यनेकान्तो बन्धपर्यायं प्रत्येकत्वात् स्यान्मूर्तम्, तथापि ज्ञानादिस्वलक्षणापरित्यागात् स्यादमूर्तिः। ...मदमोहविभ्रमकरीं सुरां पीत्वा नष्टस्मृतिर्जनः काष्ठवदपरिस्पन्द उपलभ्यते, तथा कर्मेन्द्रियाभिभवादात्मा नाविर्भूतस्वलक्षणो मूर्त इति निश्चीयते।” —तत्त्वार्थवार्तिक, रा., पृ.८१

“अनादिकालीन कर्मबन्ध की परम्परा के अधीन आत्मा के अमूर्तत्व के विषय में अनेकान्त है। बन्धपर्याय के प्रति एकत्व होने से आत्मा कथंचित् अमूर्तिक है, किन्तु अपने ज्ञानादि लक्षण का परित्याग न करने के कारण कथंचित् अमूर्तिक भी है। मद, मोह तथा भ्रम को उत्पन्न करने वाली मदिरा को पीकर मनुष्य स्मृतिशून्य हो काष्ठ की भाँति निश्चल हो जाता है तथा कर्मेन्द्रियों के अभिभव होने से अपने ज्ञानादि स्वलक्षण का अप्रकाशन होने से आत्मा मूर्तिक निश्चय किया जाता है।”^१

इस विषय में ‘प्रवचनसार’ में एक मार्मिक बात कही गयी है—

“रूवादिएहिं रहिदो पेच्छदि जाणादि रूवमादीणि।

दव्वाणि गुणे य जधा तह बंधो तेण जाणीहि ॥२,८२।”

१. “वण्ण-रस-पंचगंधा दो फासा अट्ट पिच्छया जीवे।

णो संति अमुत्ति तदो ववहारा मुत्ति बंधा दो ॥—द्रव्यसंग्रह ॥७।”

—“जिस प्रकार रूपादिरहित आत्मा रूपी द्रव्यों तथा उनके गुणों को जानता-देखता है, उसी प्रकार रूपादिरहित जीव पुद्गल कर्मों से बाँधा जाता है। कदाचित् ऐसा न माना जाय, तो यह शंका उत्पन्न होती है कि अमूर्तिक आत्मा मूर्तिक पदार्थों को क्यों देखता जानता है। निष्कर्ष यह है, अमूर्तिक आत्मा अपने विशिष्ट स्वभाव के कारण जैसे मूर्तिक पदार्थों का ज्ञाता-द्रष्टा है, उसी प्रकार वह अपनी वैभाविक शक्ति के परिणामन विशेष से मूर्तिक कर्मों के-से बन्ध को प्राप्त करता है।^१ वस्तुस्वभाव तर्क के अगोचर है।”

‘तत्त्वार्थसार’ में कहा है—“आत्मा अमूर्तिक है, फिर भी उसका कर्मों के साथ अनादिनित्य सम्बन्ध है। उसके ऐक्यवश आत्मा को मूर्तिक निश्चय करते हैं।”^२

आत्मा को कर्मबद्ध मानने का कारण

कोई-कोई सोचते हैं यह हमारा भ्रम है जो हम अपनी आत्मा में कर्मों का बन्धन स्वीकार करते हैं। यथार्थ ज्ञान होने पर विदित होता है कि आत्मा कर्मादि विकारों से रहित पूर्णतया परिशुद्ध है। ऐसे विचार वालों के समाधाननिमित्त विद्यानन्दिस्वामी ‘आप्तपरीक्षा’ (पृ. १) में लिखते हैं—

“विचार प्राप्त संसारी जीव बाँधा हुआ है, कारण यह परतन्त्र है; जैसे हस्तिशाला के स्तम्भ में बाँधा हुआ हाथी परतन्त्र रहता है। इसी प्रकार संसारी जीव भी पराधीन होने के कारण बाँधा हुआ है।”

जीव की पराधीनता को सिद्ध करने के लिए आचार्य कहते हैं—“यह संसारी जीव पराधीन है, कारण इसने हीनस्थान को ग्रहण किया है। कामवासनावश श्रोत्रिय ब्राह्मण वेश्या के घर को अंगीकार करता है। वेश्या का घर निन्द्य स्थान है। वहाँ उच्च ब्राह्मण की उपस्थिति प्रमाणित करती है कि वह अपनी वासना वेग से अत्यन्त पराधीन बन चुका है। इसी प्रकार हीन स्थान को अंगीकार करने वाला संसारी जीव परतन्त्र सिद्ध होता है।”

हीनस्थान क्या है, इस पर प्रकाश डालते हैं कि “संसारी जीव का शरीर ही हीनस्थान है, कारण वह शरीर दुःख का कारण है। जैसे कारागार दुःखप्रद होने के कारण हीनस्थान माना जाता है, उसी प्रकार यह शरीर भी हीनस्थान है।”

आत्मा यदि स्वतन्त्र होता, तो वह मूत्रपुरीषभण्डाररूप इस महान् अपावन घृणित देह को अपना आवासस्थल कभी न बनाता। विवश हो जीव को इस शरीर में रहना पड़ता है। मोहवश वह फिर इसमें आसक्त हो जाता है। प्रबुद्ध पुरुष शरीर में ममत्व भाव का त्याग करते हैं। जीव को विवश करनेवाला कर्म है।

यह विश्ववैचित्र्य कर्मों के कारण दृष्टिगोचर होता है। कोई धनवान् है, कोई गरीब है, कोई बीमार है, तो कोई नीरोग है, आदि विविधताओं का कारण कर्म है।

“अहं प्रत्ययवेद्यत्वाज्जीवस्यास्तित्वमन्वयात् ।

एको दरिद्रः एको हि श्रीमानिति च कर्मणः ॥” पंचाध्यायी—२,५०

‘मैं हूँ’ इस प्रकार अहं प्रत्यय से जीव का अस्तित्व ज्ञात होता है। यह ज्ञान अन्वय रूप से पाया जाता है। एक दरिद्र है, एक श्रीमान्, यह भेद कर्म के कारण है।

यह आत्मा तात्त्विक दृष्टि से विचार करे, तो उससे प्रतीत होगा कि यह जगत् एक रंग-मंच के समान

१. येन प्रकारेण रूपादिरहितो रूपीणि द्रव्याणि तद्गुणांश्च पश्यति जानाति च, तेनैव प्रकारेण रूपादिरहितो रूपिभिः कर्मपुद्गलैः किल बध्यते, अन्यथा कथममूर्तो मूर्तं पश्यति जानाति चेत्यत्रापि पर्यनुयोगत्यानिवार्यत्वात् (अमृतचन्द्राचार्य की टीका)

२. “अनादिनित्यसम्बन्धात् सह कर्मभिरात्मनः ।

अमूर्तस्यापि सत्यैक्ये मूर्तत्वभवसीयते ॥” —तत्त्वार्थसार, ५, १७

है। यहाँ जीव विविध वेष धारण कर अपना अभिनय दिखाते हैं। अपना खेल दिखाने के अनन्तर वे वेष बदलते हैं। कर्मविपाक के अनुसार उनका वेष और अभिनय हुआ करता है।^१

विश्ववैचित्य कर्मकृत है

कोई लोग कर्मकृत विश्ववैचित्र्य को स्वीकार करते हुए भी कहते हैं—ईश्वर ही कर्मों के अनुसार इस अज्ञ जीव को विविध योनियों में पहुँचाकर दुःख और सुख देता है। महाभारत में लिखा है—

“अज्ञो जन्तुरनीशोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः।

ईश्वरप्रेरितो गच्छेत् स्वर्गं वा श्वप्नमेव वा ॥” वनपर्व ३०,२८

कोई ईश्वर को सुख-दुःख का केवल निमित्त कारण मानते हैं। इस विषय में स्वामी समन्तभद्र अपनी ‘आप्तमीमांसा’ में कहते हैं—

“कामादिप्रभवश्चित्रः कर्मबन्धानुरूपतः।

तच्च कर्म स्वहेतुभ्यो जीवास्ते शुद्धचशुद्धितः ॥६६॥”

‘काम, क्रोध, मोहादिका उत्पत्तिरूप जो भावसंसार है, वह अपने-अपने कर्म के अनुसार होता है। वह कर्म अपने कारण रागादिकों से उत्पन्न होता है। वे जीव शुद्धता, अशुद्धता से समन्वित होते हैं।’

इस पर तार्किक पद्धति से विचार करते हुए आचार्य विद्यानन्दि ‘अष्टसहस्री’ में लिखते हैं कि अज्ञान, मोह, अहंकाररूप यह भाव-संसार है।^२ यह एक स्वभाववाले ईश्वर की कृति नहीं है, कारण उसके कार्य में सुख-दुःखदि में विचित्रता दृष्टिगोचर होती है। जिस वस्तु के कार्य में विचित्रता पायी जाती है, उसका कारण एक स्वभाव विशिष्ट नहीं होता है। जैसे अनेक धान्य अंकुरादिरूप विचित्र कार्य अनेक शालिबीजादिक से उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार सुख-दुःखविशिष्ट विचित्र कार्यरूप जगत् एक स्वभाव वाले ईश्वरकृत नहीं हो सकता।^३

जब कारण एक प्रकार का है, तब उससे निष्पन्न कार्य में विविधता नहीं पायी जाती। एक धान्य-बीज से एक ही अंकुर की उद्भूति होती है। इस प्राकृतिक नियम के अनुसार एक स्वभाव वाला ईश्वर क्षेत्र, काल तथा स्वभाव की अपेक्षा भिन्न शरीर, इन्द्रिय तथा जगत् आदि का कर्ता नहीं सिद्ध होता है।^४

अनादि कर्मबन्ध का अन्त क्यों है?

प्रश्न—जब कर्मबन्ध और रागादिभाव का चक्र अनादि काल से चलता है, तब उसका भी अन्त नहीं होना चाहिए?

समाधान—यह शंका ठीक नहीं है। कारण अनादि की अनन्तता के साथ कोई व्याप्ति नहीं है। अनादि होते हुए भी सान्ताता की उपलब्धि होती है। बीज वृक्ष की सन्तति को परम्परा की अपेक्षा अनादि कहते

१. All the world's a stage,
And all the men and women merely players;
They have their exits and their entrances;
And one man in his time plays many parts,
Shakespeare :—AS YOU LIKE IT. Act. II, Sc. VII.

२. अष्टस., पृ. २६८-२७३।

३. “संसारोऽयं नैकस्वभावेश्वरकृतः, तत्कार्यसुख-दुःखादिवैचित्र्यात्। न हि कारणस्यैकरूपत्वके कार्यनानात्वं युक्तं शालिबीजवत्”,—अष्टशती

४. इस सम्बन्ध में विशद चर्चा तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक, प्रमेयकमलमार्तण्ड, आप्तपरीक्षा आदि जैन ग्रन्थों में की गयी है।

हैं। बीज को यदि दग्ध कर दिया जाए, तो फिर वृक्ष-परम्परा का अभाव हो जाएगा। कर्म बीज के नष्ट हो जाने पर भवाङ्कुर की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तत्त्वार्थसार में कहा है—

“दग्धे बीजे यथाऽत्यन्तं प्रादुर्भवति नाङ्कुरः ।

कर्मबीजे तथा दग्धे न प्ररोहति भवाङ्कुरः ॥—तत्त्वार्थसार, ८,७

अकलंक स्वामी का कथन है कि आत्मा में आने वाला कर्ममल प्रतिपक्षरूप है, अतः वह आत्मगुणों के विकास होने पर क्षयशील है।^१

जैसे प्रकाश के आते ही सदा अन्धकारक्रान्त प्रदेश से अन्धकार दूर होता है अथवा सदा शीत भूमि में गरमी के प्रकर्ष होने पर शीत का अपकर्ष होता है, उसी प्रकार सम्यग्दर्शनादि के प्रकर्ष से मिथ्यात्वादिक विकारों का अपकर्ष होता है। रागादि विकारों के अपकर्ष में हीनाधिकता देखकर तार्किक समन्तभद्र कहते हैं कि ऐसी भी आत्मा हो सकती है जिसमें से रागादि का पूर्णतया क्षय हो चुका हो।^२ उसे ही परमात्मा कहते हैं।^३

अनादि-सादि बन्धके विषय में अनेकान्त

प्रश्न—शंकाकार कहता है—आपका यह कथन कि ‘कामादिप्रभवश्चित्रः कर्मबन्धानुरूपतः’ विचित्र कामादिक की उत्पत्ति कर्मबन्ध के अनुसार होती है, निर्दोष नहीं है। हम पूछते हैं, जीव और कर्मों का सम्बन्ध कब से है?

समाधान—द्रव्यदृष्टि अथवा सन्तति की अपेक्षा यह बन्ध अनादि है। पर्याय की अपेक्षा यह सादि कहा जाता है। पञ्चाध्यायीकार का कथन है—

“यथाऽनादिः स जीवात्मा यथाऽनादिश्च पुद्गलः ।

द्वयोर्बन्धोऽप्यनादिः स्यात् सम्बन्धो जीवकर्मणोः ॥” —पञ्चाध्यायी, २,३५

जिस प्रकार जीवात्मा अनादि है, उसी प्रकार पुद्गल भी अनादि है। जीव और कर्मों का सम्बन्ध रूप बन्ध भी अनादि है।

“द्वयोरनादिसम्बन्धः कनकोपलसन्निभः ।

अन्यथा दोष एव स्यादितरेतरसंश्रयः ॥” —पञ्चाध्यायी, २,३६

जीव और कर्मों का अनादि सम्बन्ध है; जैसे सुवर्ण-पाषाण में सुवर्ण द्रव्य किट्ट, कालिमादि विशिष्ट पाया जाता है, उसी प्रकार संसारी जीव भी अशुद्ध रूप में उपलब्ध होता है। ऐसा न मानने पर अन्योन्याश्रय दोष आता है।

“तद्यथा यदि निष्कर्मा जीवः प्रागेव तादृशः ।

बन्धाभावेऽथ शुद्धेऽपि बन्धश्चेत्त्रिवृत्तिः कथम् ॥” —पञ्चाध्यायी, २,३७

१. “प्रतिपक्ष एवात्मनामागन्तुको मलः परिक्षयी, स्वनिर्हासनिमित्तविवर्धनवशात् ॥”—अष्टशती ।

२. “दोषावरणयोर्हानिर्निःशेषाऽस्त्यतिशायनात् ।

क्वचिद्यथा स्वहेतुभ्यो बहिरन्तर्मलक्षयः ॥”—आप्तमीमांसा, कारिका ४

३. अमितगति आचार्य कहते हैं—

“यो दर्शन-ज्ञान-सुखस्वभावः समस्त-संसारविकारबाह्यः ।

समाधिगम्यः परमात्मसंज्ञः स देवदेवो हृदये ममास्ताम् ॥१३॥”

यदि जीव पूर्व में कर्म रहित माना जाए, तो उसके बन्ध का अभाव होगा। शुद्धात्मा के भी बन्ध मानने पर मुक्ति कैसे होगी?

यहाँ आचार्य का भाव यह है कि पूर्व अशुद्धता के बिना बन्ध नहीं होगा। पूर्व में शुद्ध जीव के भी कर्मबन्ध मान लेने पर निर्वाण का लाभ असम्भव हो जाएगा। जब शुद्ध जीव कर्म बाँधने लगेगा, तब संसार का चक्र पुनः-पुनः चलने से मुक्ति का अभाव हो जाएगा।

यदि पुद्गल को अनादि से शुद्ध माना जाए, तो क्या बाधा है? पंचाध्यायीकार कहते हैं—

“अथ चेतुद्गलः शुद्धः सर्वतः प्रागनादितः।

हेतोर्विना यथा ज्ञानं तथा क्रोधादिरात्मनः ॥

एवं बन्धस्य नित्यत्वं हेतोः सद्भावतोऽथवा।

द्रव्याभावो गुणाभावे क्रोधादीनामदर्शनात्! ॥”—पञ्चाध्यायी, २, ३८-३९

—यदि पुद्गल को अनादि से शुद्ध मान लिया जाए तो जैसे बिना कारण के स्वभावतः जीव में ज्ञान पाया जाता है, उसी प्रकार क्रोधादि भी जीव के स्वभाव या गुण हो जाएँगे। क्रोधादि के सदा सद्भाववश बन्ध में नित्यता आ जाएगी। अथवा यदि क्रोधादि गुणों का अभाव माना जाएगा, तो स्वभाववान् या गुणी जीव का भी लोप हो जाएगा। क्रोधादि का अदर्शन पाया जाता है।

यहाँ अभिप्राय यह है कि यदि कामादिक कर्मबन्ध से उत्पन्न नहीं हुए, कारण पुद्गल सदा शुद्ध रहता है, तब ऐसी स्थिति में क्रोधादिक जीव के स्वभाव हो जाएँगे। संयमी पुरुषों में क्रोधादि विकारों का अदर्शन पाया जाता है। क्रोधरूप स्वभाव का अभाव होने पर स्वभाववान् आत्मा का भी लोप हो जाएगा। अतः पुद्गल को अनादि शुद्ध मानकर क्रोधादि को जीव का स्वभाव मानना अनुचित है। क्रोधादि भावों को कर्मकृत मानना ही श्रेयस्कर है। ग्रन्थकार कहते हैं—

“पूर्वकर्मोदयाद्भावो भावात्प्रत्यग्रसंचयः।

तस्य पाकात्पुनर्भावो भावाद् बन्धः पुनस्ततः ॥

एवं सन्तानतोऽनादिः सम्बन्धो जीवकर्मणोः।

संसारः स च दुर्मोच्यो विना सम्यग्दृगादिना ॥”—पञ्चाध्यायी, २, ४२-४३

—पूर्वकर्मोदय से रागादि भाव होते हैं। उन भावों से आगामी कर्म का संचय होता है। उस कर्म-विपाक से पुनः रागादिभाव होते हैं। उन भावों से पुनः बन्ध होता है। इस प्रकार जीव तथा कर्म का सम्बन्ध सन्तान की अपेक्षा अनादि है। सम्यग्दर्शनादि के बिना यह संसार दुर्मोच्य है।

निष्कर्ष—आत्मा और कर्म का सादि सम्बन्ध स्वीकार करने पर दोषों का उद्भावन ऊपर किया जा चुका है। यह भी कहा जा चुका है कि वर्तमान आत्मा परतन्त्र है। वह कर्मों के अधीन है। यह कर्मबन्धन सादि स्वीकार करने में भयंकर आपत्तियाँ आती हैं। यदि आत्मा को शुद्ध, बुद्ध, सर्वज्ञ, आनन्दमय तथा अनन्त शक्तिमान माना जाए, तो यह प्रश्न होता है कि वह संसार के बन्धन में कैसे फँस गया? पूर्व में शुद्ध का बन्धन में आना ऐसा ही असंगत और असम्भव है, जैसे बीज के दाह किये जाने पर उससे वृक्ष का प्रादुर्भाव मानना असंगत और असम्भाव्य है। जीव की बन्धन अवस्था स्वयंसिद्ध अनुभव गोचर है। उसके लिए तर्क की जरूरत नहीं है।

ऐसी स्थिति में एक ही मार्ग निरापद बचता है कि कर्म और आत्मा का अनादि सम्बन्ध माना जाए। इसके सिवाय कोई और मध्यम मार्ग नहीं है। आत्मशक्ति के विकसित होने पर कर्मों का बन्धन शिथिल होने लगता है और शक्ति के पूर्ण प्रबुद्ध होने पर कर्मों का नाश हो जाता है। फिर वह शुद्ध जीव कर्मबन्धन में नहीं फँसता है। सर्वज्ञ तथा अनन्तशक्ति युक्त शुद्ध जीव कर्मों के जाल में फँसने का कदापि उद्योग नहीं करेगा।

कर्मों के आस्रव का कारण योग है

इस जीव के कर्मबन्धन का कारण रागादिभावों को कहा है : कर्मों के आगमन में कारण—आत्म-प्रदेशों का परिस्पन्दन होना। मनोवर्गणा, वचनवर्गणा अथवा कायवर्गणा के अवलम्बन से आत्मप्रदेशों में सकम्पपना पाया जाता है। मन, वचन, काय का क्रियारूप योग के द्वारा नवीन कर्मों का आस्रव—आगमन तथा जीव के साथ संयोग होता है। योगों के त्रयात्मक भेदों पर प्रकाश डालते हुए आचार्य वीरसेन धवलाटीका (१,२७६) में लिखते हैं—“कः पुनः मनोयोग इति चेद्भावमनसः समुत्पत्त्यर्थः प्रयत्नो मनोयोगः। तथा वचसः समुत्पत्त्यर्थः प्रयत्नो वाग्योगः। कायक्रियासमुत्पत्त्यर्थः प्रयत्नः काययोगः।” —‘मनोयोग का क्या स्वरूप है? भावमन की उत्पत्ति के लिए जो प्रयत्न होता है, उसे मनोयोग कहते हैं। इसी प्रकार वचन की उत्पत्ति के लिए जो प्रयत्न होता है, उसे वचनयोग कहते हैं और काय की क्रिया की उत्पत्ति के लिए जो प्रयत्न होता है, उसे काययोग कहते हैं।’ यह योग ध्यानरूप योग से भिन्न है।

पुण्य-पाप का विश्लेषण

प्रश्न—‘सर्वार्थसिद्धि’ में यह शंका की गयी है कि जिस योग के द्वारा पुण्य कर्म का आस्रव होता है, उसी योग के द्वारा क्या पाप का आस्रव होता है?

समाधान—‘शुभः पुण्यस्याशुभः पापस्य’ (त. सू. ६,३)—शुभयोग के द्वारा पुण्य का आस्रव होता है तथा अशुभयोग के द्वारा पाप का आस्रव होता है। शुभयोग-अशुभयोग की परिभाषा ‘सर्वार्थसिद्धि’ में इस प्रकार की गयी है—“शुभपरिणामनिर्वृत्तो योगः शुभः अशुभपरिणामनिर्वृत्तश्चाशुभः”—शुभ परिणामों से रचित योग शुभ है तथा अशुभ परिणामों के द्वारा रचित योग अशुभ है।

जिस शुभ परिणाम के द्वारा पुण्य का आस्रव होता है, उसके विषय में कुन्दकुन्द स्वामी ने ‘प्रवचनसार’ में इस प्रकार स्पष्टीकरण किया है—

“देवद-जदि-गुरु-पूजासु चैव दाणमि वा सुसीलेसु।-

उपवासादिसु रत्तो सुहोवओगप्पगो अप्पा ॥”—प्रवचनसार १,६६

जिनेन्द्र भगवान् रूप देवता, इन्द्रियजय के द्वारा शुद्धात्म स्वरूप के विषय में तत्पर यति (इन्द्रियजयेन शुद्धात्मस्वरूप प्रयत्नपरो यतिः), स्वयं भेदाभेदरूप रत्नत्रय के आराधक तथा उस रत्नत्रय के आकांक्षी भव्यों को जिनदीक्षा देनेवाले गुरु (स्वयं भेदाभेद-रत्नत्रयाराधकस्तदर्थिनां भव्यानां जिनदीक्षादायको गुरुः) तथा उनकी प्रतिमा की द्रव्य तथा भावरूप पूजा (द्रव्य-भावरूपा पूजा), चार प्रकार का दान देना, शीलव्रतादि का परिपालन तथा उपवासादि शुभ अनुष्ठानों में जो व्यक्ति अनुरक्त होता है तथा अशुभ अनुष्ठानों से विरत रहता है, वह जीव शुभ उपयोगवाला होता है।

जीवघात, चोरी आदि अशुभ कार्य, सत्य, पीड़ाकारी हिंसारूप अशुभ वचन तथा ईर्ष्या, जीवबन्धादि रूप अशुभ मन से अशुभ उपयोग होता है। ‘प्रवचनसार’ में लिखा है—

“धम्मेषु परिणदप्पा अप्पा जदि सुद्ध संपयोगजुदो।

पावदि णिष्वाणसुहं सुहोवजुत्तो व सग्गसुहं ॥”—प्रवचनसार १,११

धर्म से परिणत आत्मा जब शुद्धोपयोग रूप परिणति को धारण करता है, तब वह निर्वाण सुख को प्राप्त करता है। धर्म से परिणत आत्मा जब शुभोपयोग को प्राप्त होता है, तब वह स्वर्ग सुख को प्राप्त करता है।

इस विषय को स्पष्ट करते हुए जयसेनाचार्य तात्पर्यवृत्ति टीका में कहते हैं—“तत्र यच्छुद्धं सम्प्रयोगशब्द वच्यं शुद्धोपयोगस्वरूपं वीतरागचारित्रं तेन निर्वाणं लभते”—गाथा में आगत ‘शुद्ध सम्प्रयोग’ शब्द के द्वारा वाच्य जो शुद्धोपयोग स्वरूप वीतराग चारित्र है, उससे निर्वाण प्राप्त होता है। वीतराग चारित्र ध्यानस्थ मुनि

के ही होता है। आत्मसमाधि में स्थित परमध्यानी मुनिराज के ही शुद्धोपयोग होता है। सरागसंयमी अवस्था में मुनिराज के शुद्धोपयोग नहीं होता है। अतः गृहस्थावस्था में शुद्धोपयोग की कल्पना भी नहीं की जा सकती।

जब सरागी सकलसंयमी महाव्रती भावलिङ्गी मुनीश्वर के शुद्धोपयोग का अभाव है, तब असंयमी अथवा देशसंयमी श्रावक के शुद्धोपयोग का अभाव स्वयमेव सिद्ध होता है। “निर्विकल्प समाधिरूप-शुद्धोपयोगशक्त्यभावे सति यदा शुभोपयोगरूप-सरागचारित्रेण परिणमति, तदाऽपूर्वमनाकुलत्वलक्षण-पारमार्थिकसुखविपरीतमाकुलत्वोत्पादकं स्वर्गसुखं लभते, पश्चात् परमसमाधि-सामग्रीसद्भावे मोक्षं च लभते”—निर्विकल्प समाधि (अभेदरत्नत्रयरूपपरिणति) रूप शुद्धोपयोग की सामर्थ्य के अभाव होने पर जब वह जीव शुभोपयोग रूप (भेदरत्नत्रय रूप परिणति) सराग चारित्र को धारण करता है, उस समय वह अपूर्व, अनाकुलतास्वरूप परमार्थ सुख के विपरीत आकुलता का उत्पादक स्वर्ग सुख को प्राप्त करता है। इसके अनन्तर वह परम समाधि (शुद्धोपयोग) को सामग्री का लाभ होने पर मोक्ष को भी प्राप्त करता है। इससे अमृतचन्द्र स्वामी कहते हैं कि शुद्धोपयोग परिणतिके द्वारा निर्वाण का सुख प्राप्त होता है, अतः “शुद्धोपयोग उपादेयः”—शुद्धोपयोग उपादेय है। सविकल्प अवस्थारूप भेद रत्नत्रयस्वरूप शुभोपयोग से आकुलता उत्पादक स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है, निर्वाण का सुख नहीं मिलता है; इससे ‘शुभोपयोगो हेयः’ मुनिराज के लिए कथंचित् शुभोपयोग हेय है। (प्रवचनसार, १.११, पृ. १३)

हेय तथा उपादेय उपयोग—मुनि अवस्था में शुद्धोपयोग और शुभोपयोग दोनों होते हैं, अतः उस अपेक्षा से उपादेय तथा हेय का कथन किया गया है। गृहस्थावस्था में शुद्धोपयोग की पात्रता ही नहीं है; अतः उसकी अपेक्षा एकमात्र शुभोपयोग आश्रय योग्य होगा। शुभोपयोग कथंचित् हेय है, तो कथंचित् उपादेय भी है। निर्विकल्प समाधि निमग्न महामुनि की अपेक्षा शुभोपयोग हेय है, किन्तु उस उच्च ध्यान की प्राप्ति में असमर्थ मुनिराज के लिए शुभोपयोग उपादेय है। ऐसी स्थिति में गृहस्थ के लिए शुभोपयोग को हेय नहीं कहा जा सकता है। परम हेयरूप गृहस्थ की दशा है। उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए उस आर्त, रौद्रध्यान के जाल में जकड़े हुए जीव का उद्धार शुभोपयोग के द्वारा ही होगा। यदि शुद्धोपयोग को उपादेय मानते हुए परिग्रह तथा पापाचार के त्याग से विमुख गृहस्थ ने शुभोपयोग को हेय सोचकर उसे छोड़ दिया, तो अशुभोपयोग के द्वारा उस गृहस्थ की दुर्गति होगी। अमृतचन्द्रसूरि कहते हैं, “अत्यन्त हेय एवायमशुभोपयोगः”—अशुभोपयोग अत्यन्त हेय है। शुद्धोपयोग उपादेय है। उसकी अपेक्षा शुभोपयोग हेय है, किन्तु अशुभोपयोग अत्यन्त हेय है। ऐसी स्थिति में अशुभोपयोग की अपेक्षा शुभोपयोग उपादेय है। बुद्धिमान् व्यक्ति अत्यन्त हेय अशुभ का त्याग कर शुभ का आश्रय लेता है, क्योंकि वह Lesser art अपेक्षाकृत अल्प दोषरूप है।

उदाहरणार्थ—सत्पुरुष को ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना चाहिए। वह श्रेष्ठ व्रत है, किन्तु जिसकी आत्मा पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन में असमर्थ है, उसे स्वस्त्रीसन्तोषव्रती बनने का कथन किया जाता है। यदि वह पर-स्त्री सेवन में प्रवृत्ति करता है, तो सत्पुरुष उसे महापापी कहते हैं। यद्यपि दोनों ही ब्रह्मचर्य व्रत पालन नहीं करते हैं और ब्रह्मचर्य की अपेक्षा स्त्रीमात्र का सेवन हेय है, किन्तु असमर्थ व्यक्ति की अपेक्षा स्वदारसन्तोषव्रती को शीलवान् कहकर उसकी स्तुति की जाती है तथा उसको परस्त्री सेवन का त्यागी होने से आदर का पात्र मानते हैं। इस उदाहरण के प्रकाश में शुद्धोपयोग ब्रह्मचर्य के समान परम उपादेय है। शुभोपयोग स्वदारसन्तोषव्रत के समान कथंचित् उपादेय है तथा अशुभोपयोग परस्त्री सेवन रूप महापाप के समान सर्वथा हेय है—अत्यन्त हेय है। स्वदारसन्तोषी तथा परस्त्रीसेवी इन दोनों में स्त्रीसेवनरूपताका सद्भाव होते हुए भी स्वस्त्रीसन्तोषी गृहस्थ की अवस्था उपादेय है। किन्तु परस्त्रीसेवन का कार्य अत्यन्त निषिद्ध है। इसी प्रकार अशुद्धोपयोगपना शुभ तथा अशुभ उपयोग में है, किन्तु गृहस्थ के लिए शुभ उपयोग उपादेय है तथा अशुभ उपयोग सर्वथा हेय है। दोनों को समान मानकर अशुभ की प्रवृत्ति से विमुख न होनेवाला अपार कष्ट पाता है। शीलव्रती सीता स्वर्ग गयी। कुशील परिणामवाला रावण नरक गया। दोनों को एक समान मानने वाला

चतुर व्यक्ति नहीं कहा जाएगा। अशुभोपयोग के विषय में 'प्रवचनसार' में इस प्रकार कथन किया गया है—

“असुहोदयेण आदा कुणरो तिरियो भवीय णेरइयो ।

दुक्खसहस्सेहिं सदा अभिंधुदो भमदि अच्चंतं ॥”—प्रवचनसार, १,१२

अशुभोपयोग परिणति के द्वारा आत्मा दीन-दुःखी मनुष्य, तिर्यच तथा नारकी होकर हजारों दुःखों से दुःखी होता हुआ संसार में निरन्तर भ्रमण करता है।

अशुभोपयोग के कारण संचित पापोदयवश जीव इष्ट-वियोग, अनिष्ट-संयोग, फीड़ाचिन्तवन आदि मलिन सामग्री को प्राप्त कर संक्लेशभाव-द्वारा पुनः पाप का बन्ध करता है।

पुण्य-पाप में समानता तथा भिन्नता—संसार के कारणपने की अपेक्षा यद्यपि शुभोपयोग तथा अशुभोपयोग और उनके द्वारा प्राप्त पुण्य तथा पाप समान हैं, किन्तु उनमें दूसरी अपेक्षा से महान् भिन्नता है। पूर्ण ब्रह्मचर्य की अपेक्षा विचार करने पर स्वस्त्रीसन्तोष तथा परस्त्रीसेवन दोनों में स्त्री के सम्पर्क का त्याग नहीं है, किन्तु जैसे उन दोनों के फल को देखकर उनको भिन्न माना जाता है, उसी प्रकार अशुद्धोपयोग की अपेक्षा शुभ और अशुभ उपयोग यद्यपि समान हैं, किन्तु उनमें महान् भिन्नता भी है। अध्यात्म शास्त्र में निश्चय नय की मुख्याता से शुद्धोपयोग को आदर्श मानकर अन्य उपयोगों को हेय कहा है; किन्तु निर्विकल्प समाधि में असमर्थ व्यक्ति की दृष्टि से शुभोपयोग और अशुभ उपयोग में भिन्नता माननी होगी। अमृतचन्द्रसूरि ने 'तत्त्वार्थसार' में कहा है—

“हेतु-कार्यविशेषाभ्यां विशेषः पुण्य-पापयोः ।

हेतु शुभाशुभौ भावौ कार्ये चैव सुखासुखे ॥”—तत्त्वार्थसार आस्रवतत्व, श्लोक १०३

साधन और फल की भिन्नता से पुण्य तथा पाप में भिन्नता है। पुण्य और पाप के कारण भिन्न-भिन्न हैं। पुण्य का कारण शुभ परिणाम है, पाप का कारण अशुभ परिणाम है। पुण्य का फल इन्द्रियजनित सुख की उपलब्धि है तथा पाप का फल दुःख की प्राप्ति है।

तात्त्विक बात—कुन्दकुन्द स्वामी ने 'वारसाणुवेक्खा' में यह महत्त्वपूर्ण कथन किया है—

“सुहजोगेसु पविती संवरणं कुणदि असुहजोगस्स ।

सुहजोगस्स णिरोहो सुद्धजोगेण संभवदि ॥”—वारसाणुवेक्खा, गा. ६३

शुभ योगों में प्रवृत्ति होने पर अशुभ योग का संवर होता है। शुभ योग का संवर शुद्धोपयोगरूप परमसमाधि-द्वारा सम्भव है। सामान्यतया अध्यात्मशास्त्र का ऊपरी पल्लवग्राही परिचय प्राप्त व्यक्ति पूजा, दान, स्वाध्याय आदि सत्कार्यों को शुभोपयोगरूप कहकर उसके विरुद्ध अमर्यादित आक्षेपपूर्ण शब्द कहता है, किन्तु वह स्वयं को विकथा, पंचपाप, सप्तव्यसन आदि अशुभोपयोग के महान् दूतों के हाथों में सौंपता है। उसे यह ज्ञात होना चाहिए कि शुभोपयोग शुद्धोपयोग के द्वारा रुकेगा। शुद्धोपयोगरूप अभेद रत्नत्रय की आराधना महान् मुनीन्द्रों को भी कठिन है, परिग्रही गृहस्थ को वह उसी प्रकार असम्भव है, जिस प्रकार देव पर्यायवाले जीव को मोक्ष की प्राप्ति असम्भव है। इसी कारण भव्य जीवों के कल्याणार्थ आचार्यों ने शुभोपयोग-द्वारा पुण्यसंचय को प्रशस्त मार्ग कहा है। हिन्दी के कुछ लेखकों और कवियों ने पुण्यबन्ध और शुभोपयोग के विरुद्ध इतना अतिरेकपूर्ण प्रतिपादन किया है कि वह एकान्तवाद की सीमा का स्पर्श कर जाता है।

पुण्य-संचय की प्रेरणा—अध्यात्मशास्त्र के मार्मिक आचार्य पद्यनन्दि भव्य जीव को पुण्यसंचय के लिए प्रेरणा करते हैं। अपनी 'पंचविंशतिका' के दानपंचाशत् अध्याय में वे कहते हैं—

“दूरादभीष्टमभिगच्छति पुण्ययोगात्

पुण्यादिनाकरतलस्थमपि प्रयाति ।

अन्यत्परं प्रभवतीह निमित्तमात्रं

पात्रं बुधा भवत निर्मलपुण्यराशेः ॥” —पद्मनन्दपंचविंशविक्रका, श्लोक १७

पुण्य के होने पर दूर से भी अभीष्ट वस्तु का लाभ होता है। पुण्य के बिना अर्थात् पापोदय होने पर हाथ में रखी हुई वस्तु भी उपयोग में नहीं आ पाती। पुण्य को छोड़कर अन्य सामग्री निमित्तमात्र है। अतः विवेकियो! निर्मल पुण्य की राशि के पात्र बनो; अर्थात् पवित्र पुण्य का संग्रह करो।

वे पुनः कहते हैं—

“ग्रामान्तरं व्रजति यः स्वगृहाद् गृहीत्वा

पाथेयमुन्नततरं स सुखी मनुष्यः।

जन्मान्तरं प्रविशतोऽस्य तथा व्रतेन

दानेन चार्जितशुभं सुखहेतुरेकम् ॥” —वही, श्लोक २६

जो व्यक्ति अपने घर से देशान्तर को जाते समय बढ़िया पाथेय-(कलेवा) साथ में रखता है, वह सुखी रहता है। इसी प्रकार इस भव को छोड़कर अन्य भव में यदि सुख चाहिए तो व्रत-पालन और पात्रदान करो। इससे प्राप्त किया गया शुभ अर्थात् पुण्य ही सुख का हेतु होगा।

उनका यह कथन विशेष ध्यान देने योग्य है—

“नार्यः पदात्पदमपि व्रजति त्वदीयो

व्यावर्तते पितृवनादपि बन्धुवर्गः।

दीर्ये पथि प्रवसतो भवतः सखैकं

पुण्यं भविष्यति ततः क्रियतां तदेव ॥” —वही, श्लोक ४३

अरे जीव! तेरा धन एक डग भी तेरे साथ नहीं जाता है। बन्धुवर्ग श्मशान तक जाकर लौट जाते हैं। एक तेरा मित्र पुण्य ही तेरे साथ दूर तक जाएगा। इससे उस पुण्य को प्राप्त करो। आचार्य के ये शब्द ध्यान देने योग्य हैं। “पुण्यं भवतः सखा भविष्यति”—पुण्य ही तेरा मित्र रहेगा, क्योंकि वह तेरा साथ देगा।

वे महान् आचार्य जिनेन्द्र की स्तुति करते समय अपने को “पुण्य-निलयोऽस्मि” —मैं पुण्य का घर हूँ, ऐसा कहते हैं।

“धन्योऽस्मि पुण्यनिलयोऽस्मि निराकुलोऽस्मि

शान्तोऽस्मि नष्टविपदस्मि विदस्मि देव।

श्रीमज्जिनेन्द्र भवतोऽङ्घ्रियुगं शरण्यं

प्राप्तोऽस्मि चेदहमतीन्द्रिय-सौख्यकारि ॥६॥”—क्रियाकाण्डचूतिका।

हे जिनेन्द्र! मैं अतीन्द्रिय आनन्द के प्रदाता आपके चरणों की शरण को प्राप्त हुआ हूँ, इससे मैं धन्य हूँ। मैं पुण्य का भवन हूँ। मैं निराकुल हूँ। मैं शान्त हूँ। मैं संकटमुक्त हो गया हूँ तथा मैं ज्ञानवान् बन गया हूँ।

‘कल्याणमन्दिर स्तोत्र’ में जिनेन्द्र भगवान् को करुणा तथा पुण्य की निवास भूमि कहा है—

“त्वं नाथ! दुःखि-जन-वत्सल हे शरण्य!

कारुण्य-पुण्यवसते वशिनां वरेण्य!।

भक्त्यानते मयि महेश दयां विधाय

दुःखाङ्कुरोद्दलन-तत्परतां विधेहि ॥३६॥”

हे स्वामिन्! आप दुःखी जीवों के प्रति प्रेमभाव धारण करते हैं, अतः आप दुःखीजनवत्सल हैं। हे शरण्यरूप भगवन्! हे करुणा और पुण्य की निवासभूमि, जितेन्द्रियों के शिरोमणि महेश, भक्तिपूर्वक मुझ

विनत पर आप दयाभाव धारण करके तत्काल मेरे दुःखों के अंकुरों को उच्छेद करने की कृपा कीजिए !
भगवज्जिनसेन स्वामी ने 'सहस्रनाम पाठ' में जिनेन्द्र भगवान् को पुण्यग्री अर्थात् पुण्यवाणी युक्त, पुण्यवाक् पुण्यनायक, पुण्यधी, पुण्यकृत्, पुण्यशासन आदि नामयुक्त बताया है—

“गुणादरी गुणोच्छेदो निर्गुणः पुण्यगीर्गुणः ।

शरण्यः पुण्यवाक् पूतो वरेण्यः पुण्यनायकः ॥

अगण्यः पुण्यधीर्गण्यः पुण्यकृत्पुण्यशासनः ।

धर्मरामो गुणग्रामः पुण्यापुण्य-निरोधकः” ॥ —महाशोकध्वजादिशतकम्, ४-५

भगवान् को पुण्यराशि भी कहा है—

“शुभ्युः सुखसाद्गतः पुण्यराशिरनामयः ।

धर्मपालो जगत्पालो धर्मसाम्राज्यनायकः” ॥ —दिव्यासादिशतम्, १०

अनेकान्त शैली का मर्म न समझकर कोई-कोई निश्चयाभासी व्रतशून्य गृहस्थ पुण्य को पाप के समान घृणा योग्य मानते हुए पुण्य को छोड़कर पाप की ओर प्रवृत्त होते हुए ऐसे लगते हैं, मानो वे गंगा को छोड़कर वैतरिणी की ओर प्रवृत्ति करते हैं अथवा अमृतघट को फोड़कर विषकुम्भ के रस को प्रेम तथा श्रद्धा से सेवन करते हैं ।

पुण्य के फल की कथा विकथा नहीं है। वह तो धर्मकथा का अंग है, उसे संवेदनी कथा कहा है।

“काणि पुण्यफलाणि? तित्ययर-गणहर-रिसिचक्कवट्टि-बलदेव-वासुदेव-सुर-विज्जाहर-रिद्धाओ” (ध.टी. १,१०५)

पुण्य के फल क्या हैं? तीर्थकर, गणधर, ऋषि, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, सुर, विद्याधर की ऋद्धियाँ पुण्य के फल हैं। इन पुण्यफलों की प्राप्ति शुभोपयोग से होती है।

जिनेन्द्रदेव की आराधना-द्वारा पुण्य की प्राप्ति होती है। भरत चक्रवर्ती ने समवसरण में जाकर आदिनाथ भगवान् का स्तवन करते हुए कहा था—

“भगवंस्त्वद् गुणस्तोत्राद् यन्मया पुण्यमर्जितम् ।

तेनास्तु त्वत्पदान्भोजे परा भक्तिः सदापि मे ॥” —आ. जिनसेन, आदिपुराण, प. ३३, १६६

हे भगवान्! आपके गुणस्तवन-द्वारा जो मैंने पुण्य प्राप्त किया है, उसके फलस्वरूप आपके चरण कमलों में मेरी सदा श्रेष्ठ भक्ति होवे। भगवज्जिनसेन की यह वाणी इस विषय के अज्ञानान्धकार को दूर कर देती है कि विवेकी गृहस्थ को पुण्यरूपी वृक्ष का रक्षण करना चाहिए या उसका उच्छेद करके पाप रूप विष का वृक्ष बोना चाहिए। आचार्य जिनसेन कहते हैं—

“पुण्याच्चक्रधर-श्रियं विजयिनीमैन्द्रीं च दिव्यश्रियं

पुण्यात्तीर्थकरश्रियं च परमां नैःश्रेयसीं चाश्नुते ।

पुण्यादित्यसुभृच्छ्रियां चतसृणामाविर्भवेद् भाजनं

तस्मात्पुण्यमुपार्जयन्तु सुधियः पुण्याज्जिनेन्द्रागमात् ॥”—आदिपुराण, प. ३०, श्लोक १२६

पुण्य से सर्वविजयिनी चक्रवर्ती की लक्ष्मी प्राप्त होती है। पुण्य से इन्द्र की दिव्यश्री प्राप्त होती है। पुण्य से ही तीर्थकर की लक्ष्मी प्राप्त होती है तथा परम कल्याणरूप मोक्षलक्ष्मी भी पुण्य से प्राप्त होती है। इस प्रकार पुण्य से ही जीव चार प्रकार की लक्ष्मी को प्राप्त करता है। इसलिए हे सुधीजनों! तुम लोग भी जिनेन्द्र भगवान् के पवित्र आगमन के अनुसार पुण्य का उपाजन करो।

प्रश्न—आगम में पुण्य प्राप्ति का क्या उपाय कहा है? यह प्रश्न उत्पन्न होता है।

समाधान—महाकवि जिनसेन इस विषय का समाधान इस महत्त्वपूर्ण पद्य-द्वारा करते हैं—

“पुण्यं जिनेन्द्र-परिपूजनसाध्यमाद्यं

पुण्यं सुपात्र-गत-दानसमुत्थमन्यत् ।

पुण्यं व्रतानुचरणादुपवासयोगात्

पुण्यार्थिनामिति चतुष्टयमर्जनीयम् ॥” —आदिपुराण, प. २८, श्लोक २१६

जिनेन्द्र भगवान् की पूजा से उत्पन्न होने वाला पुण्य प्रथम है। सुपात्र को दान देने से उत्पन्न पुण्य दूसरा है। व्रतों के पालन से उत्पन्न पुण्य तीसरा है। उपवास करने से चौथा पुण्य होता है। इस प्रकार पुण्यार्थी पुरुष को पूजा, दान, व्रत तथा उपवास-द्वारा पुण्य का उपार्जन करना चाहिए।

प्रश्न—पूजा, दान, व्रत तथा उपवास से आत्मा को क्या लाभ होगा?

समाधान—इन चार कारणों से कषायभाव मन्द होते हैं। आत्मा की विभाव परणति न्यून होने लगती है। उससे अशुभ का संवर होता है। पूर्वबद्ध पापराशि प्रलय को प्राप्त होती है। इसी प्रकार पुण्य बन्ध के साथ मोक्ष के अंगरूप संवर और निर्जरा तत्त्वों की भी प्राप्ति होती है।

मुमुक्षु को मोक्षाभाव—जैन धर्म का कथन निरपेक्ष नहीं है। शुद्धोपयोगरूप परम समाधि की स्थिति में पुण्य उपादेय नहीं रहता है। उस अवस्था में यह जीव मुमुक्षु भी नहीं कहा जा सकता है। सूक्ष्म दृष्टि से विचारने पर यह कहना होगा कि मोक्ष जानेवाले व्यक्ति को मुमुक्षु की भी उपाधि से विमुक्त होना पड़ेगा। जब तक यह जीव मुमुक्षु रहेगा, तब तक उसे मोक्ष नहीं प्राप्त होगा और वह संसार में परिभ्रमण करेगा। “मोवतुमिच्छुः मुमुक्षुः” —जिसके मोक्ष की इच्छा है, वह मुमुक्षु है। जब तक मोक्ष की इच्छा है, तब तक राग भाव है, क्योंकि इच्छा रागरूप परिणाम है। रागी को मोक्ष नहीं प्राप्त होता है; विरागी ही मोक्ष प्राप्त करता है।

पद्मनन्दिने ‘पंचविंशतिका’ में कहा है—

“मोक्षेऽपि मोहादभिलाषदोषो विशेषतो मोक्षनिषेधकारी ।

यतस्ततोऽध्यात्मरतो मुमुक्षुर्भवेत्किमन्यत्र कृताभिलाषः ॥” —पद्मनन्दिपंचविंशतिका, श्लोक ५५

मोहवश मोक्ष की इच्छा भी दोष रूप है, जो विशेष रूप से मोक्ष की प्राप्ति में बाधक है; इससे आत्मतत्त्व में लीन मुमुक्षु अन्य पदार्थ की इच्छा कैसे करेगा?

उन्होंने यह भी कहा है कि परिग्रहधारी के सच्चा कल्याण असम्भव है। “परिग्रहवतां शिवं यदि तदानलः शीतलः” —यदि परिग्रही व्यक्ति को कल्याण का लाभ हो जाए, तो कहना होगा कि अग्नि शीतल हो गयी।

परम प्रवीण वीतराग ऋषियों ने संसारी विषयलोलुपी जीव की मनोदशा को सम्यक् प्रकार ज्ञात कर उसे पुण्य के माध्यम से श्रेष्ठ इन्द्रियजनित सुखों की ओर आकर्षित करते हुए धर्म की ओर आकर्षित किया है तथा पश्चात् विषयसुख की निःस्सारता का उपदेश देकर उसे निर्वाण दीक्षा की ओर आकर्षित करते हैं और शुद्धोपयोगी बना मुक्तिश्री का स्वामी बना देते हैं। उनकी तत्त्वदेशना की पद्धति यह है कि जीव को सर्वप्रथम पापों से विमुक्त बनाकर पुण्य की ओर उन्मुख कर उसके फल वैभव को भी त्याग कर अकिंचन भावना द्वारा उसे त्रिलोकीनाथ बनाया जाए। जो व्यक्ति हीनप्रवृत्ति को अपनाकर पाप में निमग्न हो रहा है, उसे कोई पाप से विमुक्त न बनाकर पुण्यक्रियाओं से विमुक्त बनाता है, तो वह उस जीव के कल्याण के प्रति महान् शत्रुता दिखाता है।

पूज्यपाद स्वामी का यह कथन स्मरणीय है—

“अपुण्यमव्रतैः पुण्यं व्रतैर्मोक्षस्तयोर्व्ययः ।

अव्रतानीव मोक्षार्थी व्रतान्यपि ततस्त्यजेत् ॥” —समाधिशतक, श्लोक ८३

असंयमी जीवन-द्वारा पाप का संचय होता है। अहिंसादि व्रतों के द्वारा पुण्य की प्राप्ति होती है। पुण्य-पाप दोनों के क्षय होने पर मोक्ष होता है। इससे मोक्षार्थी मुनि अभेद रत्नत्रयरूप निर्विकल्प समाधि का आश्रय लेकर अव्रत के समान विकल्पात्मक व्रतों को भी त्यागे।

विकास-क्रम—कोई-कोई सद्गुरु का शरण न मिलने से पाप को तो जोर से पकड़ते हैं और पुण्य को छोड़कर यह सोचते हैं कि उन्होंने मोक्षमार्ग को प्राप्त कर लिया है। उन्हें पूज्यपाद स्वामी-द्वारा 'समाधिशतक' में प्रतिपादित त्याग का यह क्रम हृदयंगम करना चाहिए—

“अन्नतानि परित्यज्य व्रतेशु परिनिष्ठितः ।

त्यजेत्तानपि सम्प्राप्य परमं पदमात्मनः ॥”—समाधिशतक, श्लोक ८४

सर्वप्रथम प्राणातिपात, अदत्तादान, असत्यभाषण, कुशील सेवन, परिग्रहासक्तिरूप पाप के कारणों को—अन्नतों को छोड़कर अहिंसा, अचौर्य, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रहरूप व्रतों में पूर्णता प्राप्त करनी चाहिए। इसके पश्चात् आत्मा के निर्विकल्प स्वरूप में लीन हो परम समाधि को प्राप्त करता हुआ उन विकल्परूप व्रतों को छोड़कर आत्मा के परम पद को प्राप्त करे।

जब सविकल्प दशावाले परिग्रह-त्यागी मुनीश्वरों के लिए पुण्य का कारण शुभयोग अथवा शुभोपयोगयुक्त सरागसंयम आश्रयणीय है; तब प्रमादमूर्ति परिग्रही गृहस्थ के लिए आर्त, रौद्र ध्यान से सम्बन्धित अशुभयोग का त्याग करते हुए पुण्य हेतु शुभयोग सदा उपादेय रहता है। शुद्धोपयोग सर्वश्रेष्ठ निधि है, किन्तु विषय कषायों के कारण जिसकी आत्मा अत्यन्त अशक्त है, वह निर्विकल्प परम समाधिरूप अप्रमत्त दशाको नहीं प्राप्त कर सकता है, अतः उसके लिए शुभोपयोग कर्तव्य उपादेय है तथा अशुभयोग दुर्गति का बीज होने से सर्वथा तथा सर्वदा हेय है। अमृतचन्द्रसूरि की यह वाणी सर्वदा स्मरण योग्य है—“अत्यन्तहेय एवायमशुभोपयोगः”।

‘आत्मानुशासन’ में गुणभद्राचार्य कहते हैं—

“परिणाममेव कारणमाहुः खलु पुण्य-पापयोः प्राज्ञाः ।

तस्मात्पापापचयः पुण्योपचयश्च सुविधेयः ॥”

ज्ञानी पुरुष पुण्य तथा पाप का कारण जीव का परिणाम ही कहते हैं, अतः निर्मल परिणामों के द्वारा पूर्वसंचित पाप का विनाश तथा आगामी पुण्य का संचय करना चाहिए।

उन्होंने कहा है—

“शुभाशुभे पुण्य पापे सुख-दुःखे च षट् त्रयम् ।

हितमाद्यमनुष्ठेयं शेषत्रयमद्याहितम् ॥” —वही, श्लोक २३६

शुभ-अशुभ, पुण्य-पाप, सुख-दुःख से छह अर्थात् तीन युगल हैं। इनमें आद्यशुभ, पुण्य तथा सुख—ये तीन उपादेय हैं तथा शेष अशुभ, पाप और दुःख त्याज्य हैं।

“तत्राप्याद्यं परित्याज्यं शेषौ न स्तः स्वतः स्वयम् ।

शुभं च शुद्धे त्यक्त्वाऽन्ते प्राप्नोति परमं पदम् ॥” —वही, श्लोक २४०

पूर्वोक्त शुभ, पुण्य और सुख इनमें से प्रथम शुभ का त्याग होने पर पुण्य तथा इन्द्रियजनित सुख स्वयमेव दूर हो जाएँगे। राग-द्वेषरहित उदासीनतारूप शुद्ध परिणति को प्राप्त होने पर शुभ का त्याग कर मोक्षरूप उत्कृष्ट पद को प्राप्त होता है।

यह बात स्मरण योग्य है कि योग्य के द्वारा कर्मों का आस्रव होता है। इसके पश्चात् आत्मा और कर्मों का एक क्षेत्रावगाह सम्बन्ध रूप बन्ध है।^१ उस समय की अवस्था को पंचाध्यायीकार इस प्रकार समझाते हैं—

१. “आत्माकर्मणोरन्योन्यानुप्रवेशात्मको बन्धः” —स.सि. ।

“जीवः कर्मनिबद्धो हि जीवबद्धं हि कर्म तत् ॥”—२।१०४

—जीव कर्म से निबद्ध हो जाता है और कर्म जीव से बद्ध हो जाता है। दोनों का परस्पर में संश्लेष होता है। इस संश्लेष तथा परस्पर बन्धनबद्धता का भाव यह है कि कर्म अपना फलोपभोग दिये बिना आत्मा से पृथक् नहीं होते।

शंका—तत्त्वार्थसूत्र में मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग को बन्ध का कारण कहा है (अ.८, सू. १०)। इसी प्रकार समयसार में भी मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग बन्ध का कारण गिनाया है। कहा भी है—

“सामण्यपञ्चया खलु चरुो भण्णंति बंधकत्तारो।
मिच्छत्तं अविरमणं कसाय-जोगा य बोधव्वा ॥१०६॥”

‘गोम्मटसार’ कर्मकाण्ड में मिथ्यात्व आदि को आस्रवरूप कहा है—

“मिच्छत्तं अविरमणं कसाय-जोगा य आसवा होत्ति।
पण बारस पण बीसं पण्णारसा होत्ति तब्भेया ॥७८६॥”

इस प्रकार भिन्न कथनों में कैसे समन्वय किया जा सकता है?

समाधान—इस विषय में ‘अध्यात्मकमलमार्तण्ड’ से इस प्रकार समाधान प्राप्त होता है। उसमें कहा है कि मिथ्यात्व आदि चारों कारण बन्ध और आस्रव में हेतु हैं, क्योंकि उनमें दोनों प्रकार की शक्तियाँ पायी जाती हैं; जिस प्रकार अग्नि में दाहकत्व और पाचकत्वरूप शक्तियों का सद्भाव पाया जाता है। जो मिथ्यात्वादि प्रथम समय में आस्रव के कारण होते हैं, उन्हीं से द्वितीय क्षण में बन्ध होता है, इसलिए पूर्वोक्त कथनों में अपेक्षा भेद है; वस्तुतः देशना में भिन्नता नहीं है। ‘अध्यात्मकमलमार्तण्ड’ के निम्नलिखित पद्य ध्यान देने योग्य हैं—

“चत्वारः प्रत्ययास्ते ननु कथमिति भावास्रवो भावबन्ध-
श्चैकत्वाद्बस्तुतस्तौ बत भतिरिति चेतत्र शक्तिद्वयात्स्यात्।
एकस्यापीह बद्धेर्दहन-पचन-भावात्म-शक्तिद्वयाद्
बद्धिः स्याद्दाहकश्च स्वगुणगणबलात्पाचकश्चेति सिद्धेः।
मिथ्यात्वाद्यात्मभावाः प्रथमसमय एवास्रवे हेतवः स्युः
पश्चात्तत्कर्मबन्धं प्रतिसमसमये तौ भवेतां कथञ्चित्।
नव्यानां कर्मणागमनमिति तदात्वे हि नाम्नास्रवः स्याद्
आयत्यां स्यात्स बन्धः स्थितिमिति लयपर्यन्तमेवोऽनयोर्मित् ॥” —परिच्छेद ४

शंका—श्लोकवार्तिक में एक शंका उत्पन्न करके समाधान किया गया है। शंकाकार कहता है, “योग एव आस्रवः सूत्रितो न तु मिथ्यादर्शनादयोऽपीत्याह”—योग ही आस्रव कहा गया है, मिथ्यादर्शनादि को आस्रव नहीं कहा गया है, इसका क्या कारण है?

समाधान—ज्ञानावरणादि कर्मों के आगमन का कारण मिथ्यादर्शन, मिथ्यादृष्टि ही होता है; सासादन सम्यग्दृष्टि आदि के नहीं होता है। अविरति पूर्णतया असंयत के ही पूर्णतया तथा एकदेश रूप से पायी जाती है, संयत के नहीं पायी जाती है। प्रमाद भी प्रमत्तपर्यन्त पाया जाता है; अप्रमत्तादि के नहीं। कषाय सकषाय के ही पायी जाती है, उपशान्त कषायादि के नहीं पायी जाती है। भोगरूप आस्रव सयोगकेवली पर्यन्त सबके पाया जाता है। अतः उसे आस्रव कहा है। मिथ्यादर्शनादि का संक्षेप से भोग में ही अन्तर्भाव हो जाता है। (६, २, पृ. ४४३)

आस्रव के भेद—‘द्रव्यसंग्रह’ में कहा है—जीव के जिन भावों से कर्मों का आगमन होता है उनको भावास्रव कहते हैं। कर्मों का आगमन द्रव्यास्रव है। भावास्रव में मिथ्यात्वादि का समावेश किया गया है।

“मिच्छताविरदि-प्रमाद-जोग-क्रोधादो अथ विष्णोया ।

पण-पण-पण-दस-तिय-चदु कमसो भेदा दु पुव्वस्त ॥”—द्रव्यसंग्रह, गा.३०

मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, योग तथा क्रोधादि कषाय ये भावास्रव के भेद हैं। उनके क्रमशः पाँच, पाँच पन्द्रह, तीन तथा चार भेद कहे गये हैं।

“णाणावरणादीणं जोगं जं पुग्गलं समासवदि ।

दव्वासवो स णेओ अणेयमेओ जिणक्खादो ॥”—द्रव्यसंग्रह, गा. ३१

ज्ञानावरणादि आठ कर्मों रूप परिणमन करने योग्य जो पुद्गल आता है, वह द्रव्यास्रव है। उसके अनेक भेद होते हैं, ऐसा जिनेन्द्र ने कहा है।

आस्रव के उत्तर क्षण में बन्ध

आस्रव और बन्ध के पौर्वापर्य के विषय में विचार करते हुए पण्डितप्रवर आशाधरजी अपने ‘अनगारधर्माभूत’ में लिखते हैं—

“प्रथमक्षणे कर्मस्कन्धानामागमनास्रवः, आगमनानन्तरं द्वितीयक्षणादौ जीवप्रदेशेष्ववस्थानं बन्ध इति भेदः।”—पृ. ११२

प्रथम क्षण में कर्मस्कन्धों का आगमन—आस्रव होता है। आगमन के पश्चात् द्वितीय क्षणादिक में कर्मवर्गणाओं की आत्मप्रदेशों में अवस्थिति होती है, उसे बन्ध कहते हैं। यह उनमें अन्तर है। और भी ज्ञातव्य बात यह है—

“आस्रवे योगो मुख्यो बन्धे च कषायादिः। यथा राजसभायामनुग्राह्यनिग्रहयोः प्रवेशने राजादिष्टपुरुषो मुख्यः, तयोरनुग्रहनिग्रहकरणे राजादेशः” (११२)।

“आस्रव में योग की मुख्यता है तथा बन्ध में कषायादिक की प्रधानता है। जैसे राजसभा में अनुग्रह करने योग्य तथा निग्रह करने योग्य पुरुषों के प्रवेश कराने में राज्य-कर्मचारी मुख्य है; किन्तु प्रवेश होने के पश्चात् उन व्यक्तियों को सत्कृत करना या दण्डित करना इसमें राजाज्ञा मुख्य है।”

इस प्रकार योग की मुख्यता से कर्मों के आगमन का द्वार खोल दिया जाता है। आगत कर्मों का आत्मा के साथ एकक्षेत्रावगाह सम्बन्ध होना कषायादि की मुख्यता से होता है।

योग की प्रधानता से आकर्षित किये गये तथा कषायादि की प्रधानता से आत्मा से सम्बन्धित कर्म किस भाँति जगत् की अनन्त विचित्रताओं को उत्पन्न करने में समर्थ होता है? कोई एकेन्द्रिय है, कोई दो इन्द्रिय है, आदि ८४ लाख योनियों में जीव कर्मवश अनन्त वेष धारण करता फिरता है। यह परिवर्तन किस प्रकार सम्पन्न होता है; इस विषय को कुन्दकुन्दस्वामी इन शब्दों-द्वारा स्पष्ट करते हैं—

“जह पुरिसेणाहारो गहिओ परिणमदि सो अणेयविहं ।

मंसवसारुहिरादीभावे उदरगिसंजुत्तो ॥

तह णाणिस्स दु पुव्वं जे बद्धा पच्चया बहुवियप्पं ।

बज्जंते कम्मं ते णयपरिहीणा दु ते जीवा ॥”—समयसार, गा. १७६-१८०

जैसे पुरुष के द्वारा खाया गया भोजन जठराग्नि के निमित्तवश मांस, चर्बी, रुधिर आदि पर्यायों को प्राप्त होता है, उसी प्रकार ज्ञानवान् जीव के पूर्वबद्ध द्रव्यास्रव बहुत भेदयुक्त कर्मों को बाँधते हैं। वे जीव परमार्थ दृष्टि से रहित हैं।

आचार्य पूज्यपाद तथा अकलंक स्वामी ने सर्वार्थसिद्धि (८,२) और राजवार्तिक (६,७) में भी यही लिखा है।^१

जिस प्रकार भोज्यवस्तु प्रत्येक के आमाशय में पहुँचकर भिन्न-भिन्न रूप में परिणत होती है, उसी प्रकार योग के द्वारा आकर्षित किये गये कर्मों का आत्मा के साथ संश्लेष होने पर अनन्त प्रकार परिणमन होता है। इस परिणमन की विविधता में कारण रागादि परणति की हीनाधिकता है।

क्या बन्ध का कारण अज्ञान है?

आत्मा के बन्धन-बद्ध होने का कारण कोई लोग अज्ञान या अविद्या को बताते हैं। अज्ञान से ही बन्ध होता है और ज्ञान से मुक्ति लाभ होता है^२—इस विचार की मीमांसा करते हुए स्वामी समन्तभद्र कहते हैं—

“अज्ञानाच्चेद् ध्रुवो बन्धो ज्ञेयानन्त्यान्न केवली।

ज्ञानस्तोकाद्विमोक्षश्चेदज्ञानाद् बहुतोऽन्यथा ॥”—आप्तमीमांसा, कारिका, ६६

—“अज्ञान के द्वारा नियम से बन्ध होता है, ऐसा सिद्धान्त अंगीकार करने पर कोई भी व्यक्ति सर्वज्ञकेवली न हो सकेगा, कारण ज्ञेय अनन्त हैं। अनन्त ज्ञेयों का बोध न होगा, अतः जिनका ज्ञान नहीं हो सकेगा, वे बन्ध के हेतु होंगे। इससे सर्वज्ञ का सद्भाव न होगा। कदाचित् यह कहा जाए कि समीचीन अल्पज्ञान से मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, तो अवशिष्ट महान् अज्ञान के कारण बन्ध भी होगा। इस प्रकार किसी को भी मुक्ति का लाभ नहीं होगा।”

शंकाकार कहता है—आपके सिद्धान्त में भी तो अज्ञान को बन्ध तथा दुःख का कारण बताया गया है, फिर ‘अज्ञान से बन्ध होता है’ इस पक्ष के विरोध करने में क्या कारण है? देखिए, अमृतचन्द्र सूरि क्या कहते हैं?

“अज्ञानान्मृगतृष्णिकां जलधिया धावन्ति पातुं मृगाः

अज्ञानात्तमसि द्रवन्ति भुजगाध्यासेन रज्जौ जनाः।

अज्ञानाच्च विकल्पचक्रकरणाद्वातोत्तरङ्गाब्धिवत्

शुद्धज्ञानमया अपि स्वयममी कर्त्रीभवन्त्याकुलाः ॥—समयसारकलश, श्लो. ५८

—अज्ञान के कारण मृगगण मृगतृष्णा में जल की भ्रान्तिवश पानी पीने के लिए दौड़ते हैं। अज्ञान के कारण लोग रस्ती में सर्प की भ्रान्ति धारण कर भागते हैं। जैसे पवन के वेग से समुद्र में लहरें उत्पन्न होती हैं, उसी प्रकार अज्ञानवश विविध विकल्पों को करते हुए स्वयं शुद्धज्ञानमय होते हुए भी अपने को कर्ता मानकर ये प्राणी दुःखी होते हैं।

समाधान—यहाँ मिथ्यात्व भाव विशिष्ट ज्ञान को अज्ञान मानकर उस अज्ञान की प्रधानता की विवक्षावश उपर्युक्त कथन किया गया है। यद्यार्थ में देखा जाए, तो बन्ध का कारण दूसरा है। राग-द्वेषादि विकारों सहित अज्ञान बन्ध का कारण है। थोड़ा भी ज्ञान यदि वीतरागता सम्पन्न हो तो कर्मराशि को विनष्ट करने में समर्थ हो जाता है। ‘परमात्मप्रकाश’ टीका में लिखा है—

“वीरा वेरगपरा धोवं पि हु सिक्खिऊण सिज्झति।

ण हु सिज्झति विराणेण विणा पद्धिदेसु वि सव्वसत्थेसु ॥”—अ. २, दो. ८४ टीका

—वैराग्यसम्पन्न वीर पुरुष अल्प ज्ञान के द्वारा भी सिद्ध हो जाते हैं। सम्पूर्ण शास्त्रों के पढ़ने पर भी वैराग्य के बिना सिद्ध पद की प्राप्ति नहीं होती।

१. “जठराग्न्यनुरूपाहारग्रहणवतीब्रमन्दमध्यमकषयाशयानुरूपस्थित्यनुभवविशेषप्रतिपत्त्यर्थम्”—स.सि. ८,२,२५२.

२. “ज्ञानेन चापवर्गो विपर्ययदिष्यते बन्धः।”—सांख्यकारिका, ४४

कुन्दकुन्द स्वामी ने 'भावपाहुड' में कहा है—

“अंगाई दस य दुण्णिय चउदस-पुब्बाई सयलसुयणाणं।

पडिओ अ भवसेणो ण भाव-सवणत्तणं पत्तो ॥” —भावपाहुड, गा. ५२

भव्यसेन मुनि ने बारह अंग तथा चौदह पूर्व रूप सकल श्रुतज्ञान को पढ़ा था, फिर भी वे अन्तरंग से श्रमणपने को—भावलिङ्गी मुनिपने को नहीं प्राप्त हुए।

“तुसमासं घोसंतो भावविसुद्धो महाणुभावो य।

णामेण य सिवमूर्ई केवलणाणी फुडं जाओ ॥” —भावपाहुड, गा. ५३

निर्मल परिणाम मुक्त तथा महान् प्रभाव वाले शिवभूति मुनिराज ने 'तुष माष' भिन्न—दाल और छिलका जैसे पृथक् हैं, इस प्रकार मेरा आत्मा भी कर्मरूपी छिलके से जुदा है—इस पद को स्मरण करते हुए केवलज्ञान पाया था।

इसका यह अर्थ नहीं है कि शास्त्र का अभ्यास व्यर्थ है। उसका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है; किन्तु ऐसा नहीं है कि ज्ञानावरण के उदयवश मन्दज्ञानी, किन्तु विशुद्धचारित्र व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिले। सम्यक् चारित्र से समलंकृत मन्दज्ञानी भी कैवल्यश्री का स्वामी होता है। मोह का क्षय अत्यन्त आवश्यक है। उसके साथ में आवश्यक अल्पज्ञान भी अद्भुत शक्तियुक्त हो जाता है।

तार्किक समन्तभद्र अपने युक्तिवाद-द्वारा इस समस्या को सुलझाते हुए कहते हैं—

“अज्ञानान्मोहिनो बन्धो न ज्ञानाद्गीतमोहतः।

ज्ञानस्तोकाच्च मोक्षः स्यादमोहान्मोहिनोऽन्यथा ॥” —आप्तमीमांसा, कारिका., ६८

—‘मोहविशिष्ट अर्थात् मिथ्यात्वयुक्त व्यक्ति के अज्ञान से बन्ध होता है। मोहरहित व्यक्ति के ज्ञान से बन्ध नहीं होता है। मोहरहित अल्प ज्ञान से मोक्ष होता है। मोही के ज्ञान से बन्ध होता है।’

यहाँ बन्ध का अन्वयव्यतिरेक ज्ञान की न्यूनाधिकता के साथ नहीं है। इससे ज्ञान को बन्ध या मुक्ति का कारण नहीं माना जा सकता। मोहसहित ज्ञान बन्ध का कारण है और मोहरहित ज्ञान मुक्ति का कारण है। अतः यह बात प्रमाणित होती है कि बन्ध का कारण मोहयुक्त अज्ञान है और मुक्ति का कारण मोहका अभाव युक्त ज्ञान है; क्योंकि इसके साथ ही अन्वयव्यतिरेक सुघटित होता है।

शंका—यहाँ यह आशंका सहज उत्पन्न होती है कि इस कथन का सूत्रसार उमास्वामी के इस सूत्र के साथ विरुद्धता है—“मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकषाययोगा बन्धहेतवः”—(८,१)—तत्त्वका अनवबोध, असंयम, असावधानता, क्रोध, मान, लोभ, तथा मन, वचन, कायकी चंचलता के द्वारा बन्ध होता है।

समाधान—इस विषय का समाधान करते हुए विद्यानन्दिस्वामी कहते हैं (अष्टसह.पृ. २६७) —मोहविशिष्ट अज्ञान में संक्षेप में मिथ्यादर्शन आदि का संग्रह किया गया है। इष्ट अनिष्ट फल प्रदान करने में समर्थ-कर्म बन्ध का हेतु कषायैकार्थसमवायी अज्ञान के अविनाभावी मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय तथा योग को कहा गया है। मोह और अज्ञान में मिथ्यात्व आदि का समावेश हो जाता है। दोनों आचार्यों के कथन में तात्त्विक भेद नहीं है; केवल प्रतिपादनशैली की भिन्नता है।

एकान्तदर्शनों में कर्म सिद्धान्त का असम्भवपन

स्वामी समन्तभद्र का कथन है कि यह कर्म बन्ध की व्यवस्था स्याद्वाद शासन में ही निर्दोष रीति से बनती है। एकान्त दर्शनों में कर्मबन्ध, फलानुभवन आदि बातें असम्भव हैं। वे कहते हैं^१—हे जिनेन्द्र!

१. “कुशलाऽकुशलं कर्म परलोकश्च न क्वचित्।

एकान्तग्रहरक्तेषु नाथ स्वपरवैरिषु ॥”—आप्तमीमांसा, का. ८

अनित्यैकान्त आदि सिद्धान्तवादियों के यहाँ पुण्य कर्म, पाप कर्म, परलोक सिद्ध नहीं होते। एकान्तग्रहाविष्ट लोग अनेकान्त पक्ष के विरोधी तो हैं ही, साथ ही वे स्वपक्ष के भी घातक हैं।

नित्यैकान्त अथवा अनित्यैकान्त पक्ष में क्रम तथा अक्रमपूर्वक अर्थक्रिया नहीं बनती। अर्थक्रियाकारित्वपने के अभाव में पुण्य-पाप बन्धादि की व्यवस्था भी नहीं हो सकती। उदाहरणार्थ, बौद्धदर्शन में कर्म की मान्यता है—यह स्थविर नागसेन और सम्राट् मिलिन्द के पूर्व प्रतिपादित प्रश्नोत्तर से ज्ञात होता है; किन्तु बौद्धदर्शन के सर्व क्षणिकवाद तत्त्व के साथ उस कथानक का सामंजस्य नहीं होता। बात यह है कि क्षणिक पक्ष में प्रत्येक पदार्थ क्षणस्थितिशील है, अतः उसमें कर्मों का बन्धन और फलोपभोग आदि की बातें क्षणिकत्व सिद्धान्त के विरुद्ध पड़ती हैं। हिंसादि पापों का कर्ता अकुशल कर्म का सम्पादन तथा फलानुभवन नहीं करेगा, कारण उसका हिंसादि कार्य क्षण में क्षय हो गया, अतः फलोपभोक्ता अन्य व्यक्ति होगा। क्षणिक पक्ष में वस्तु तथा लोकव्यवस्था नहीं बनती।

इसे आप्तमीमांसाकार इस प्रकार समझाते हैं^१—“हिंसाका संकल्प करनेवाला द्वितीय क्षण में नष्ट हो चुका, अतः संकल्पविहीन व्यक्ति ने हिंसा की, ऐसा कहना होगा। हिंसक व्यक्ति का भी उत्तर क्षण में विनाश हो गया, इससे हिंसनकार्य के फलस्वरूप पीड़ा प्राप्त करने वाला और बन्धन में फँसने वाला ऐसा व्यक्ति होगा, जिसने न तो हिंसा का संकल्प किया और न हिंसा ही की है। इसी न्याय के अनुसार बन्धनबद्ध व्यक्ति तो नष्ट हो गया, मुक्ति प्राप्तकर्ता दूसरा ही होगा।” सूक्ष्म दृष्टि से विचारने पर इस प्रकार की विचित्र स्थिति और अव्यवस्था क्षणिकैकान्त पक्ष में उत्पन्न होती है।

क्षण-क्षण में पदार्थों का सर्वथा नाश स्वीकार करने पर किसी प्रकार की नैतिक जिम्मेदारी भी नहीं होगी। किये गये कर्मों का नाश और अकृत कर्मों का फलोपभोग होगा, ऐसे सिद्धान्त में कर्मबन्ध व्यवस्था नहीं बन सकती।^२

नित्यैकान्त में दोष

एकान्त नित्य पक्ष अंगीकार करने पर क्रियाशीलता का अभाव होगा। अतः देश-क्रम का कारण देशान्तर गमन नहीं होगा। शाश्वतिक होने से कालक्रम नहीं बनेगा। सकल कालकलाव्यापी वस्तुको विशेष काल में स्थित मानने पर नित्यत्व का विरोध होगा। कदाचित् सहकारी कारण की अपेक्षा वस्तु में क्रम मानते हो, तो यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि सहकारी कारण उस पदार्थ में कुछ विशेषता उत्पन्न करते हैं या नहीं? यदि उसमें विशेषता की उत्पत्ति मानते हो तो नित्यत्व का एकान्त नहीं रहता है। यदि नित्य वस्तु में विशेषता उत्पन्न किये बिना भी सहकारी कारणों के द्वारा क्रम मानते हो, तो यह क्रमतत्त्व सहकारियों में ही रहेगा। दूसरी बात यह है कि नित्य वस्तु में देशक्रम, कालक्रम नहीं पाया जाता।

नित्य पदार्थ में युगपद् अर्थक्रियाकारित्व मानने पर एक ही समय में समस्त कार्यों की उत्पत्ति हो जाएगी और द्वितीय क्षण में क्रिया के अभाव में अवस्तुत्व हो जाएगा। अतः नित्यैकान्त पक्ष में अर्थक्रिया का अभाव होने से कर्मबन्ध की व्यवस्था भी नहीं बनती। ऐसी स्थिति में सांख्यादिकों की कर्ममान्यता उनकी मनोनीत सत्कार्यवाद रूप तत्त्व-व्यवस्था आदि के प्रतिकूल सिद्ध होती है।

१. “हिनस्त्यनभिसन्धात् न हिनस्त्यभिसन्धिमत् ।

बध्यते तद्द्वयोपेतं चित्तं बद्धं न मुच्यते ॥” —आप्तमीमांसा, का., ५१

२. प्रतिक्षणं भङ्गेषु तत्पृथक्त्ववात्र मातृघाती स्वपतिः स्वजाया ।

दत्तग्रहो नाधिगतस्मृतिर्न न यत्वार्य-सत्यं न कुलं न जातिः ॥ युक्त्यनुशासन, १६

अद्वैत मान्यता में बाधा

अद्वैत पक्ष मानने पर कर्मव्यवस्था नहीं बनती।^१ लौकिक-वैदिक कर्म, कुशल-अकुशल कर्म, पुण्य-पाप कर्म आदि को स्वीकार करने पर अद्वैत मान्यता पर वज्रपात होता है। अविद्या के कारण कर्मद्वैत मानना भी युक्तिसंगत नहीं है; कारण ऐसी स्थिति में विद्या, अविद्या का द्वैत उपस्थित होगा। स्वामी समन्तभद्र का (आप्तमी. २६, २७) कथन है कि द्वैत के बिना अद्वैत नहीं बनता; जैसे हेतु के अभाव में अहेतु नहीं पाया जाता है। प्रतिषेध्यके बिना संज्ञावान् पदार्थ का प्रतिषेध नहीं किया जा सकता। उनकी एक सुन्दर तथा सरल युक्ति है। यदि युक्ति से अद्वैततत्त्व मानते हो, तो साधन और साध्य का द्वैत उपस्थित होता है। कदाचित् अपने वचनमात्र से अद्वैत को प्रमाणित करते हो, तो इस पद्धति से द्वैत पक्ष भी क्यों नहीं सिद्ध किया जा सकता है? अतः प्रमाण एवं युक्तिविरुद्ध अद्वैत की एकान्त मान्यता में कर्मसिद्धान्त सिद्ध नहीं होता।

अनेकान्त शासन में ही समीचीन रूप से कर्म-बन्ध व्यवस्था सिद्ध होती है। एकान्तवादी अपनी दार्शनिक मान्यता के आधार पर कर्म-व्यवस्था को प्रमाणित नहीं कर सकते।

कर्मसिद्धान्त का अतिरेक

कर्मसिद्धान्त का अतिरेक भी इष्ट साधक नहीं है। इसके अतिरेकवश मनुष्य दैव के नाम पर अकर्मण्यता का आश्रय लेकर अपने विकास के मार्ग को अवरुद्ध करता है। कर्म को ही सब कुछ समझनेवाला कहता है—“यदत्र लिखितं भाले तस्मिन्निस्थितस्यापि जायते” जो भाल में लिखा है वह उद्यम न करने पर भी प्राप्त हुए बिना न रहेगा। पौरुष करने में शक्ति लगाना व्यर्थ है—‘विधिरेव शरणम्’ भाग्य ही का भरोसा है; इस प्रकार दैवैकान्त के चक्र में फँसे हुए व्यक्ति प्रलाप करते हैं। स्वामी समन्तभद्र कहते हैं^२—“दैव से ही यदि प्रयोजन सिद्ध होता है, तो यह बताओ, जीव के प्रयत्न के द्वारा, दैव की उत्पत्ति क्यों होती है? आज जो हमारा पुरुषार्थ है, भावी जीवन के लिए वह दैव बन जाता है। पूर्वकृत कर्म को छोड़कर दैव और क्या है?”

यदि दैव के द्वारा दैव की उत्पत्ति मानते हो और उसमें बुद्धिपूर्वक किये गये मानव प्रयत्नों का तनिक भी हस्तक्षेप नहीं मानते, तो मोक्ष की प्राप्ति सम्भव न होगी; क्योंकि पूर्वकृत कर्मबन्ध के अनुसार ही आगामी कर्म का बन्ध होगा; इस प्रकार की परम्परा चलने से मोक्ष का अवसर नहीं मिलेगा और पौरुष अकार्यकारी ठहरेगा।

दैवैकान्त की दुर्बलता से लाभ उठाते हुए पुरुषार्थवादी कहता है—बिना पौरुष के कोई कार्य नहीं बनता। सोमदेवसूरि के शब्दों में वह कहता है—

“येषां बाहुबलं नास्ति, येषां नास्ति मनोबलम्।

तेषां चन्द्रबलं देव! किं कुर्यादम्बरस्थितम् ॥”—यशस्तिलक, ३,५४

जिनकी भुजाओं में बल नहीं है और न जिनके पास मनोबल है, ऐसे व्यक्तियों का आकाश में स्थित चन्द्रबल—जन्मकालीन नक्षत्र आदि की स्थिति क्या करेगी?”

केवल भाग्य को ही भगवान् माननेवाले पुरुषों का कृषि आदि कार्य, कोई अर्थ नहीं रखता है।

१. “कर्मद्वैतं फलद्वैतं लोकद्वैतं च नो भवेत्।

विद्याऽविद्याद्वयं न स्याद्बन्धमोक्षद्वयं तथा ॥” —आप्तमीमांसा, का. ३५

२. “दैवादेवार्थसिद्धिश्चेद्दैवं पौरुषतः कथम्। दैवतश्चेदनिर्माक्षः पौरुषं निष्फलं भवेत् ॥”—आप्तमीमांसा, का. ८८

पुरुषार्थ का एकान्त भी बाधित है

पुरुषार्थ के अनन्य भक्त से स्वामी समन्तभद्र पूछते हैं^१—यदि पुरुषार्थ से ही तुम कार्य सिद्धि मानते हो तो यह बताओ, दैव से तुम्हारा पुरुषार्थ कैसे उत्पन्न होता है? कदाचित् यह मानो कि हम सब कुछ पुरुषार्थ के द्वारा ही सम्पन्न करते हैं, तब सम्पूर्ण प्राणियों का पुरुषार्थ जयश्री समन्वित होना चाहिए। कर्म का तीव्र उदय आने पर पुरुषार्थ कार्यकारी नहीं होता है। समान पुरुषार्थ करते हुए भी पूर्वकृत कर्मोदयानुसार फल में भिन्नता पायी जाती है। समान श्रम करनेवाले किसान दैववश एक समान फसल नहीं काट पाते हैं।

समन्वय पथ

इस दैव और पुरुषार्थ के द्वन्द्व में अनेकान्त समन्वय शैली-द्वारा मैत्री स्थापित करता है। 'सोमदेवसूरि कहते हैं—“इस लोक में फल प्राप्ति दैव—पूर्वोपार्जित कर्म तथा मानुषकर्म—पुरुषार्थ इन दोनों के अधीन है। ऐसा न मानने वालों से आचार्य पूछते हैं कि क्या कारण है, समान चेष्टा करनेवालों के फलों में—सिद्धि में भिन्नता प्राप्त होती है?।” आचार्य कहते हैं—

“परस्परपकारेण जीवितौषधयोरेव ।

दैवपौरुषयोर्वृत्तिः फलजन्मनि मन्यताम् ॥” —यशस्तिलक, ३, ६३

जैसे औषधि जीवन के लिए हितप्रद है और आयुर्कर्म औषधि के प्रभाव के लिए आवश्यक है, अर्थात् जैसे फलोत्पत्ति में आयुर्कर्म और औषधिसेवन परस्पर में एक-दूसरे को लाभ पहुँचाते हैं, उसी प्रकार दैव और पौरुष की वृत्ति समझना चाहिए।

वे कहते हैं—दैव चक्षु आदि इन्द्रियों के अगोचर अतीन्द्रिय आत्मा से सम्बन्धित है और प्राणियों की सम्पूर्ण क्रियाएँ पुरुषार्थपर निर्भर हैं, इसलिए उद्यम की ओर ध्यान रहना चाहिए।

सत्परामर्श—‘आत्मानुशासन’ में भव्य प्राणी को यह सत्परामर्श दिया गया है कि वह वर्तमान जीवन को सुखी बनाने के लिए जो अधिक श्रम उठाता है, वह अच्छा नहीं है। उसे उज्ज्वल भविष्य निर्माण के क्षेत्र में विशेष प्रयत्नशील होना चाहिए। वर्तमान जीवन तो अतीत के पुरुषार्थ का पुरस्कार है जो दैव के नाम से वर्तमान में माना जाता है। भदन्त गुणभद्र के महत्त्वपूर्ण शब्द इस प्रकार हैं—

“आयुः श्रीवपुरादिकं यदि भवेत्पुण्यं पुरोपार्जितं

स्यात् सर्वं न भवेन्न तच्च नितरामायासितेऽप्यात्मनि ।

इत्यार्याः सुविचार्य कार्यकुशलाः कार्येऽत्र मन्दोद्यमा-

द्रागागाभिभवार्थमेव सततं प्रीत्या यतन्तेतराम् ॥” —आत्मानुशासन, श्लोक ३७

—यदि पूर्व में संचित पुण्य पास में है, तो दीर्घ जीवन, धन तथा शरीर, सम्पत्ति आदि मनोवांछित पदार्थ प्राप्त हो सकते हैं। यदि वह पुण्य नहीं है, तो स्वयं को अपार कष्ट देने पर भी वह सामग्री प्राप्त नहीं हो सकती। अतएव उचित-अनुचित का सम्यक् रूप से विचार करने में प्रवीण श्रेष्ठजन भावी जीवन निर्माण के विषय में शीघ्र ही प्रीतिपूर्वक विशेष प्रयत्न करते हैं तथा इस लोक के कार्यों के विषय में उद्यम नहीं करते।

कोई-कोई प्रमादी मानवोचित पुरुषार्थ करने से जी चुराते हुए भाग्य का अथवा नियति (Destiny) का

१. “पौरुषादेव सिद्धिश्चेत् पौरुषं दैवतः कथम् । पौरुषाच्चेदमोघं स्यात् सर्वप्राणिषु पौरुषम् ॥” —आप्तमीमांसा, का. ८६

२. “दैवं च मानुषं कर्म लोकस्यास्य फलाप्तिषु । कुतोऽन्यथा विचित्राणि फलानि समवेष्टिषु ॥” —यशस्तिलक, ३, ६०

३. “तथापि पौरुषायत्ताः सत्त्वानां सकलाः क्रियाः । अतस्तच्चिन्त्यमन्यत्र का चिन्तातीन्द्रिन्यात्मनि ॥”

आश्रय लेकर अपने मिथ्या पक्ष को उचित बताने का प्रयत्न करते हैं। वे लोग कहते हैं कि जिस समय जैसा होना है, उस समय वैसा ही होगा। नियति के विधान को बदलने की किसी में समर्थ नहीं है। उसका उल्लंघन नहीं हो सकता। आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती ने ऐसे भीरुतापूर्ण भावों को मिथ्यात्वका भेद नियतिवाद कहा है—

“जत्तु जदा जेण जह्म जस्स य णियमेण होदि तत्त तदा।

तेण तहा तस्स हवे इदि वादो णियदिवादी दुं ॥”—गो. कर्मकाण्ड, गा. ८८२

जो जिस काल में जिसके द्वारा जैसे जिसके नियम से होता है, वह उस काल में उससे उस प्रकार उसके होता है। इस प्रकार का पक्ष नियतिवाद है।

विवेकी व्यक्ति आत्मशक्ति, जिनेन्द्रभक्ति तथा जिनागम की देशना का आश्रय लेकर अपना जीवन संयम तथा सदाचार समलंकृत बनाता हुआ, दैव का दास न बनकर अपने भविष्य का निर्माता बनता है। जो दैव या नियति आदि की ओट में पाप से विपके रहते हैं, वे अपने नरजन्म रूपी चिन्तामणि रत्न को समुद्र में फेंक देते हैं।

समन्तभद्र स्वामी इस सम्बन्ध में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन करते हैं^१—अबुद्धि पूर्वक इष्ट-अनिष्ट कार्य अपने दैव की प्रधानता से होता है। बुद्धिपूर्वक इष्ट-अनिष्ट फल प्राप्ति में पौरुष की प्रधानता है।

सोते हुए व्यक्ति का सर्प से स्पर्श होते हुए भी मृत्यु न होने में दैव की प्रधानता है। लेकिन सर्प देखकर बुद्धिपूर्वक आत्मरक्षा करने में पुरुषार्थ की विशेषता कारण है।

भोगी प्राणी दैव और पुरुषार्थ के महोदधि को मथकर अमृत के स्थान पर विष निकालकर सोचता है और तदनुसार निःसंकोच हो प्रवृत्ति भी करता है। वह अविवेकी मोक्ष-मार्ग के लिए दैव की ओर निहारा करता है और विषय-भोग के लिए कमर कसकर पुरुषार्थी बनता है। मुमुक्षु प्राणी विषयादिकों के विषय में पुरुषार्थ को अधिक महत्त्व नहीं देता। वह अपने पौरुष का प्रयोग कर्मजाल के काटने में करता है। तत्त्व की बात यह है कि मुमुक्षु के धर्माराम्यरूप प्रयत्न से विरुद्ध कर्म भी क्षीण-शक्तियुक्त बन जाता है। इस प्रकार आत्म-विकास का मार्ग अधिक सरल और उज्ज्वल हो जाता है।

जैनशासन में यह बताया है कि रत्नत्रय रूप सत्त्वे पुरुषार्थ के द्वारा यह जीव अनादि काल से आगत पुरातन कर्म-पुंज को अन्तर्मुहूर्त के भीतर ही विनष्ट करने में समर्थ होता है। आत्मकल्याण के क्षेत्र में दैव या नियति का आश्रय लेकर प्रमादी तथा विषयासक्त न बनकर सत्साहस पूर्वक कर्मों को नष्ट करने के हेतु सत्ययत्न करते जाना चाहिए। मोक्ष पुरुषार्थी को मिलता है। वह स्वयं चतुर्थ पुरुषार्थ कहा गया है।

कर्मों का विभाजन

‘कर्म’ के स्वभाव की अपेक्षा असंख्यात भेद हैं। अनन्तानन्त प्रदेशात्मक स्कन्धों के परिणमन की अपेक्षा कर्म के अनन्त भेद होते हैं। ज्ञानावरणादि अविभागी प्रतिच्छेदों की अपेक्षा भी अनन्त भेद कहे जाते हैं।^२ इस कर्म की बन्ध, उत्कर्षण, संक्रमण, अपकर्षण, उदीरणा, सत्त्व, उदय, उपशम, निघत्ति, निकाचना रूप दस कारणात्मक अवस्थाएँ पायी जाती हैं^३। बन्ध की परिभाषा की जा चुकी है।^४ उत्कर्षण करण में कर्म के अनुभाग तथा स्थिति की वृद्धि होती है। अपकर्षण में इसके विपरीत बात होती है। संक्रमण करण में एक कर्मप्रकृति का अन्य प्रकृति रूप परिणमन किया जाता है। कर्मों को उदय काल के पूर्व उदयावली

१. “अबुद्धिपूर्वपिषायामिष्टानिष्टं स्वदैवतः। बुद्धिपूर्वव्यपेक्षायामिष्टानिष्टं स्वपौरुषात् ॥” —आप्तभीमार्ता, का. ६१

२. अनगारधर्मांशुत पृ. ३००।

३. “बन्धुक्कट्टणकरणं संक्रमणोक्कट्टुदीरणा सत्तं।

उदयुवसामणिधत्ती णिकाचणा होदि पडिपयडी।”—गो. कर्मकाण्ड, गा. ४३७

४. गो. कर्मकाण्ड, ४३८-४०

में लाना उदीरणा करण है। कर्मों का सत्ता में रहना सत्त्व है। फलदान उदय कहलाता है। उदयावली में न आकर कर्मों की उपशान्त अवस्था उपशम है। कर्मों की ऐसी अवस्था, जिसमें उत्कर्षण, अपकर्षण करण के सिवाय उदीरणा तथा संक्रमण न हो सके, निधत्ति है। ऐसी कर्म-स्थिति, जिसमें उदीरणा, संक्रमण, उत्कर्षण तथा अपकर्षण न हो सके, निकाचना कही जाती है।

कर्मों की इन दस अवस्थाओं पर ध्यान देने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यह जीव अपने परिणामों के अनुसार कर्मों को हीनशक्ति और महान् शक्ति युक्त बना सकता है। यह उदीरणा के द्वारा उदयकाल के पूर्व भी कर्मों को उदय अवस्था में लाकर निर्जीर्ण कर सकता है। कभी कर्म शक्तिहीन बनकर निर्जरा को प्राप्त होते हैं। सार बात यह है कि जीव अपने परिणामों के अनुसार कर्मों को भिन्न रूप में परिणत कर सकता है।

कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा—“नाभुक्तं क्षीयते कर्म” यह बात जैन सिद्धान्त में सर्वथा रूप में सम्भव नहीं है। जब आत्मा में रत्नत्रय की ज्योति प्रदीप्त होती है, तब अनन्तान्त कर्मणवर्गणाएँ बिना फल दिये हुए निर्जरा को प्राप्त हो जाती हैं। केवली भगवान् को असाता प्रकृति कुछ भी बिना फल दिये हुए साता रूप में परिणत होकर निकल जाती है। इसलिए वीतराग शासन में केवली के असाता निमित्तक क्षुधा-तृषा आदि की पीड़ा का अभाव माना गया है।

बन्ध के प्रकार

कर्मबन्ध के प्रकृति, स्थिति, अनुभाग तथा प्रदेश—ये चार भेद बताये गये हैं। ‘महाबन्ध’ के इस प्रथम खण्ड में प्रकृतिबन्ध का विविध अनुयोग-द्वारों से वर्णन किया गया है। प्रकृति शब्द का अर्थ है—स्वभाव, जैसे गुड़ की प्रकृति मधुरता है। ज्ञानावरण कर्म का स्वभाव ज्ञान का आवरण करना है। दर्शनावरण की प्रकृति दर्शन गुण को ढाँकना है। वेदनीय का स्वभाव सुख-दुःख का अनुभवन कराना है। मोहनीय का स्वभाव आत्मा के दर्शन और चारित्र गुणों को विकृत करना है। यह आत्मा के सुख गुण को भी नष्ट करता है। मनुष्यादि के भवधारण का कारण आयु कर्म है। नर-नारकादि नाम से जीव संकीर्तित होता है। इसका कारण नाम की रचनाविशेष है। उच्च या नीच शरीर में जीव को रखना गोत्र की प्रकृति है। दान-भोगादि में बाधा डालना अन्तराय कर्म की प्रकृति है।

इन आठ कर्मों के नाम के अनुसार उनकी प्रकृति कही गयी है। इन कर्मों का स्वभाव समझाने के लिए जैन आचार्यों ने निम्नलिखित उदाहरण दिये हैं। ज्ञानावरण का उदाहरण परदा है। दर्शनावरण का द्वारपाल है, कारण उसके द्वारा इष्ट दर्शन का आवरण होता है। मधुलिप्त असिधारा के समान वेदनीय कर्म है। वह मधुरता के साथ जीभ कटने का सन्ताप पैदा करती है। मोहनीय मदिरा के समान जीव को आत्म-स्मृति नहीं होने देता है। आयु कर्म काष्ठ के खाण्डा-बन्धनविशेष-द्वारा व्यक्ति को कैदी बनाने के समान है। नाम कर्म भिन्न-भिन्न शरीर आदि की रचना चित्रकार के समान किया करता है। गोत्रकर्म जीव को उच्च, नीच शरीरधारी बनाता है; जैसे कुम्भकार छोटे-बड़े बर्तन बनाता है। भण्डारी जिस प्रकार स्वामी-द्वारा स्वीकृत द्रव्य को देने में बाधा पैदा करता है, उसी प्रकार विघ्न करना अन्तराय का स्वभाव है।

इन आठ कर्मों के १४८ भेद कहे गये हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय कर्म जीव के क्रमशः ज्ञान, दर्शन, सम्यक्त्व तथा अनन्त वीर्यरूप अनुजीवी गुणों को घातने के कारण घातिया कहे जाते हैं। आयु, नाम, गोत्र तथा वेदनीय को अघातिया कर्म कहा है। ये जीव के अवगाहनत्व, सूक्ष्मत्व, अगुरुलघुत्व तथा अब्याबाधत्व नामक प्रतिजीवी गुणों को घातते हैं।

स्थितिबन्ध उसे कहते हैं, जिसके कारण प्रत्येक कर्म के बन्धन की कालमर्यादा निश्चित होती है। कर्मों के रस प्रदान की सामर्थ्य को अनुभागबन्ध कहा है। कर्मवर्गणाओं के परमाणुओं की परिणगना को प्रदेशबन्ध कहते हैं। कहा भी है—

**“स्वभावः प्रकृतिः प्रोक्ता स्थितिः कालावधारणम् ।
अनुभागो विपाकस्तु प्रदेशोऽश्विकल्पनम् ॥”**

योग के कारण प्रकृति और प्रदेश बन्ध होते हैं। कषाय के कारण कर्मों में स्थिति और अनुभाग का बन्ध होता है।

कर्मकृत परिणमन पर वैज्ञानिक दृष्टि

गन्धक, शोरा, तेजाब आदि के मिलने पर रासायनिक प्रक्रिया प्रारम्भ होती है तथा भिन्न प्रकार के तत्त्वविशेष की उपलब्धि होती है; इसी प्रकार कर्मों का जीव के साक्षु सम्मेलन होने पर रासायनिक क्रिया (Chemical action) प्रारम्भ होती है और उससे अनन्त प्रकार की विचित्रताएँ जीव के भावानुसार व्यक्त हुआ करती हैं। जीव के परिणामों में वह बीज विद्यमान है जो प्रस्फुटित तथा विकसित होकर अनन्तविध विचित्रताओं को विशाल वट वृक्ष के समान दिखाता है। कोई जीव मरकर कुत्ता होता है, तो श्वान पर्याय में उत्पन्न होने के पूर्व व्यक्ति की मनोवृत्ति में श्वान वृत्ति के बीज सार रूप में संगृहीत होंगे; जिनके प्रभाव से गृहीत कर्मण-वर्गणा श्वान सम्बन्धी सामग्री (Environment) को प्राप्त करा देगी या उस रूप परिणत होगी।

आत्मा अत्यन्त सूक्ष्म है, इसलिए उसे बाँधने वाली कर्मण वर्गणाओं का पुंज भी बहुत सूक्ष्म है। उस सूक्ष्म पुंज में अनन्त प्रकार के परिणमन प्रदर्शन की सामर्थ्य है। अणु बम में (Atom bomb) आकार की अपेक्षा अत्यन्त लघुता का दर्शन होता है, किन्तु शक्ति की अपेक्षा वह सहस्रों विशाल बमों से अधिक कार्य करता है। भौतिक विज्ञान प्रयत्न करे तो राई के दाने से भी छोटा बम बन सकता है जो संसार-भर को हिला दे।

आत्मा के साथ मिली हुई कर्मण वर्गणाओं में अनन्तानन्त प्रदेश कहे गये हैं जो अभव्य जीवों से अनन्त गुणित हैं, फिर भी सूक्ष्म होने के कारण वे इन्द्रियों के अगोचर हैं। उनमें विद्यमान कर्मशक्ति (Karmicenergy) अद्भुत खेल दिखाती है। किसी जीव को निगोद, अपर्याप्तक पर्यायवाला जीव बना एक श्वास में अठारह बार शरीर-निर्माण और ध्वंस-द्वारा जीवन-भरण को प्रदर्शित करती है। वह आत्मा की अनन्त ज्ञान-शक्ति को ढाँककर अक्षर के अनन्तवें भाग बना देती है। ‘कार्तिकेयानुप्रेक्षा’ में कहा है—

**“का वि अपुष्वा दीसादे पुग्गलदव्वस्स एरिसी सत्ती ।
केवलणाणसहाओ विणासिदो जाइ जीवस्स ॥२११॥”**

—पुद्गल कर्म की भी ऐसी अद्भुत सामर्थ्य है, जिसके कारण जीव का केवलज्ञान स्वभाव विनाश को प्राप्त हो गया है।

उस कर्म शक्ति के कारण गाय, बैल, ऊँट आदि का आकार-प्रकार प्राप्त होता है। ऐसा कौन-सा काम है जो उस शक्ति की परिधि के बाहर हो। ज्ञानावरण के रूप में उसके द्वारा बुद्धि की हीनाधिकता का विचित्र दृश्य निर्मित होता है, लेकिन जिस प्रकार नाटक का अभिनय करानेवाला सूत्रधार होता है, जिसके संकेत के अनुसार कार्य होता है, इसी प्रकार सूत्रधारक जीव के भाव हैं। उन भावों की हीनता, उच्चता, वक्रता, सरलता, समलता, विमलता आदि पर जिन बाह्य क्रियाओं का प्रभाव पड़ता है, उनसे भिन्न-भिन्न प्रकार के कर्म बँधते हैं। उनका वर्णन जैन महर्षियों ने किया है जिनके अध्ययन से मानव इस बात की कल्पना कर सकता है कि उसका अतीत कैसा था, जिससे उसे वर्तमान सामग्री मिली और वर्तमान विकृत अथवा विमल जीवन के अनुसार वह अपने किस प्रकार के भविष्य का निर्माण कर सकता है।

उदाहरणार्थ—एक व्यक्ति अत्यन्त मन्द ज्ञानी है। इसका क्या कारण है? शरीरशास्त्री तो शारीरिक कारणों के द्वारा मस्तिष्क के परमाणुओं की दुर्बलता को दोषी ठहराएगा; किन्तु कर्म सिद्धान्त का ज्ञाता कहेगा कि इस जीव ने पूर्व में जब कि इसके वर्तमान जीवन का निर्माण हो रहा था, ज्ञान को ढाँकने वाली साधन

सामग्री को संगृहीत किया था। इसी प्रकार अन्य प्रकार के बाह्य और आभ्यन्तर कार्यों के विषय में कर्म सिद्धान्त वाला समर्थन करेगा।

कर्मों के आगमन के कारणों का स्पष्टीकरण

ज्ञानावरण के कारण—ज्ञानावरण कर्म में विशेष कारण निम्नलिखित बातें बतायी गयी हैं; जैसे—निर्मल ज्ञान के प्रकाशित होने पर मन में दूषित भाव रखना, ज्ञान को छिपाना, योग्य व्यक्ति को दुर्भाववश ज्ञान प्रदान न करना, दूसरे की ज्ञान-साधना में बाधा डालना, वाणी अथवा प्रवृत्ति के द्वारा ज्ञानवान् के ज्ञान का निषेध करना, पवित्र ज्ञान में लांछन लगाना, निरादरपूर्वक ज्ञान का ग्रहण करना, ज्ञान का अभिमान तथा ज्ञानियों का अपमान, अन्याय पक्ष समर्थन में शक्ति लगाना, अनेकान्त विद्या को दूषित करनेवाला कथन करना, आदि। इस प्रकार के कार्यों से जो जीव के मलिनभाव होते हैं, उनके द्वारा इस प्रकार का मलिन कर्मपुंज गृहीत होता है जो ज्ञान के प्रकाश को ढँकता है।

दर्शनावरण के कारण—उपर्युक्त बातें दर्शन के विषय में करने से दर्शनावरण कर्म आता है। उसके अन्य भी कारण हैं; जैसे अधिक सोना, दिन में सोना, आँखों को फोड़ देना, निर्मल दृष्टि में दोष लगाना, मिथ्या मार्गवालों की प्रशंसा करना, आदि।

वेदनीय के कारण—जिस असातावेदनीय के कारण जीव कष्टमय जीवन बिताता है, उसके कारण ये हैं—स्व-पर अथवा दोनों को पीड़ा पहुँचाना, शोकाकुल रहना, हृदय में दुःखी बने रहना, रुदन करना, प्राणघात करना, अनुकम्पा उत्पादक फूट-फूटकर रोना, अन्य की निन्दा और चुगली करना, जीवों पर दया न करना, अन्य को सन्ताप देना, दमन करना, विश्वासघात, कुटिल स्वभाव, हिंसापूर्ण आजीविका, साधुजनों की निन्दा करना, उन्हें सदाचार के मार्ग से डिगाना, जाल, पिंजरा आदि जीवघातक पदार्थों का निर्माण करना, अहिंसात्मक वृत्ति का विनाश करना आदि।

जीव को आनन्दप्रद अवस्था प्राप्त करानेवाले सातावेदनीय के कारण ये हैं—जीवमात्र पर दया करना, सन्त जनों पर स्नेह रखना, उन्हें दान देना, प्रेमपूर्वक संयम पालन करना, विवशता में शान्त भाव से कष्टों को सहना करना, क्रोधादि का त्याग करना, जिनेन्द्र भगवान् की पूजा, सत्पुरुषों की सेवा-परिचर्या, आदि।

मोहनीय के कारण—मोहनीय कर्म के कारण मदोन्मत्त हो यह जीव न आत्मदर्शन कर पाता है और न सच्चे कल्याण के मार्ग में लगता है।^१ दर्शनमोहनीय के कारण देव, गुरु, शास्त्र तथा तत्त्वों के विषय में यह सम्यक् श्रद्धा वंचित रहता है और वैज्ञानिक दृष्टि से श्रेष्ठ और पवित्र प्रकाश को नहीं प्राप्त करता। इसके कारण ये हैं—जिनेन्द्र देव, वीतराग वाणी तथा दिगम्बर मुनिराज के प्रति काल्पनिक दोष लगाकर संसार की दृष्टि में मलिन भाव उत्पन्न करना, धर्म तथा धर्म के फलरूप श्रेष्ठ आत्माओं में पाप प्रवृत्तियों के पोषण की सामग्री को बताकर भ्रम उत्पन्न करना, मिथ्या मार्ग का प्रचार करना, आदि।

चारित्र्यमोहनीय के कारण यह जीव अपने निज स्वरूप में स्थित न रहकर क्रोधादि विकृत अवस्था को प्राप्त करता है। क्रोधादि के तीव्र वेगवश मलिन प्रचण्ड भावों का करना, तपस्वियों की निन्दा तथा धर्म का ध्वंस करना, संयमी पुरुषों के चित्त में चंचलता उत्पन्न करने का उपाय करने से कषायों का बन्ध होता

१. आत्मा को पराधीन बनाकर दुःखी बनाने में प्रमुख स्थान मोहनीय कर्म का है। मोह के कारण ज्ञान अज्ञानरूप बनता है। 'तत्त्वानुशासन' में मिथ्याज्ञान को मोह महाराज का मन्त्री कहा है—

“बन्धहेतुषु सर्वेषु मोहश्चक्रतीति कीर्तितः। मिथ्याज्ञानं तु तस्यैव सचिवत्वमशिश्रयत ॥” —तत्त्वानुशासन, श्लोक १२
बन्ध के कारणों में मोह चक्रवर्ती कहा गया है। मिथ्याज्ञान ने सचिवरूप में उसका आश्रय लिया।

“ममाहंकारनामानौ सेनान्धौ च तत्सुतौ। यदायत्तः सुदुर्भेदो मोह-व्यूहः प्रवर्तते ॥” —तत्त्वानुशासन, श्लोक १३

उस मोह के ममकार अहंकार नाम के दो पुत्र सेनानायक हैं। उन दोनों के आधीन मोह का व्यूह—सेना का चक्र कार्य करता है।

है। अत्यन्त हास्य, बहुप्रलाप, दूसरे के उपहास से हास्य का पात्र बनता है। विचित्र रूप से क्रीड़ा करने से, औचित्य की सीमा का उल्लंघन करने से रति-वेदनीय का आगमन होता है। दूसरे के प्रति विद्वेष उत्पन्न करना, पापप्रवृत्ति वालों का संसर्ग करना, निन्द्य प्रवृत्ति को प्रेरणा प्रदान करना, आदि अरति प्रकृति के कारण हैं। दूसरे को दुःखी करना और दूसरे के दुःखों को देख हर्षित होना, शोक प्रकृति का कारण है। भय प्रकृति के द्वारा यह जीव भयभीत रहता है, उसका कारण भय के परिणाम रखना, दूसरों को डराना, सताना तथा निर्दयतापूर्ण प्रवृत्ति करना है। ग्लानिपूर्ण अवस्था का कारण जुगुप्सा प्रकृति है। पवित्र पुरुषों के योग्य आचरण की निन्दा करना, उनसे घृणा करना, आदि से यह बँधती है। स्त्रीत्व विशिष्ट स्त्रीवेद का कारण महान् क्रोधी स्वभाव रखना, तीव्र मान, ईर्ष्या, मिथ्यावचन, तीव्रराग, परस्त्रीसेवन के प्रति विशेष आसक्ति रखना, स्त्री सम्बन्धी भावों के प्रति तीव्र अनुराग भाव है। पुरुषत्व सम्पन्न पुरुषवेद के कारण क्रोध की न्यूनता, कुटिल भावों का अभाव, लोभ तथा मान का त्याग, अल्प राग, स्वस्त्रीसन्तोष, ईर्ष्या परिणाम की मन्दाता, आभूषण आदि के प्रति उपेक्षा के भाव आदि हैं, जिसके उदय से नपुंसक वेद मिलता है। उसके कारण प्रचुर प्रमाण में क्रोध, मान, माया, लोभ से दूषित परिणामों का सद्भाव, परस्त्रीसेवन, अत्यन्त हीन आचरण, तीव्र राग, आदि हैं।

आयु के कारण—नरक आयु के कारण बहुत आरम्भ और अधिक परिग्रह, हिंसा के परिणाम, मिथ्यात्वपूर्ण आचरण, तीव्र मान तथा लोभ, दूसरे को सन्ताप पहुँचाना, सदाचार तथा शीलहीनता, काम, भोगसम्बन्धी अभिलाषा में वृद्धि, बध-बन्धन करने के भाव, मिथ्याभाषण, पापनिमित्तक आहार, सन्मार्ग में दूषण लगाना, कृष्ण लेश्या युक्त रौद्र ध्यानसहित मरण करना है।

पशु पर्याय के कारण कुटिल तथा छलपूर्ण मनोवृत्ति तथा प्रवृत्ति, अधर्म प्रचार, विसंवाद उत्पन्न करना, जाति, कुल तथा शील में कलंक लगाना, नकली नाप-तौल का सामान रखना, नकली सोना, मोती, घी, दूध, अगर, कपूर, कुंकुम आदि के द्वारा लोगों को ठगना, सद्गुणों का लोप करना, आर्त्तध्यान युक्त मरण करना, आदि हैं।

मनुष्यायु के कारण अल्पारम्भ तथा अल्पपरिग्रह, मृदुल परिणाम, महान् पुरुषों का सम्मान, सन्तोष वृत्ति, दान में प्रवृत्ति, संक्लेश का अभाव, वाणी का संयम, भोगों के प्रति उदासीनता, पापपूर्ण कार्यों से निवृत्ति, अतिथि-संविभागीशीलता, आदि हैं। प्रेमपूर्वक पूर्ण तथा अल्प संयम का धारण करना, संकट आने पर शान्त भाव धारण करना, तत्त्वज्ञान शून्य तपश्चर्या, दयापूर्ण अन्तःकरण आदि से देवायु की प्राप्ति होती है।

नाम के कारण—विकृत अंग-उपांग होना, शरीर सम्बन्धी दोषों का सद्भाव, अपयश आदि का कारण अशुभ नाम-कर्म है। वह मन, वचन, कायकी कुटिलता, मिथ्याप्रचार, मिथ्यात्व, परनिन्दा, मिथ्या, कठोर तथा निरंकुश भाषण, महा आरम्भ और परिग्रह, आभूषणों में आसक्ति, मिथ्यासाक्षी, नकली पदार्थों का देना, वन में आग लगाना, पापपूर्ण आजीविका करना, तीव्र क्रोध, मान, माया, लोभ के परिणाम, मन्दिर के धूप, गन्ध, माल्य, आदि का अपहरण करना, अभिमान करना, अन्य के घातक यन्त्र आदि बनाना, दूसरे के द्रव्य का अपहरण करने से सम्पादित होता है। इस अशुभ नाम कर्म के कारण आज जगत् में शारीरिक विकृतियों की बहुलता दिखती है। शुभ नाम कर्म का कारण पूर्वोक्त प्रवृत्तियों से विपरीतपना है।

गोत्र के कारण—लोकनिन्दित कुलों में जन्म धारण करने का कारण नीच गोत्र है। वह जाति, कुल, रूप, बल, ऐश्वर्य आदि का मद, दूसरों का तिरस्कार अथवा अपवाद, सत्पुरुषों की निन्दा, यश का अपहरण करना, पूज्य पुरुषों का तिरस्कार करना, अपने को बड़ा बताना, दूसरों की हँसी उड़ाना आदि से प्राप्त होता है। श्रेष्ठ कुलों में उत्पन्न होकर लोकप्रतिष्ठा लाभ का कारण उच्च गोत्र कर्म है। यह मानरहितपना, सत्पुरुषों का आदर करना, जाति-कुल आदि का उत्कर्ष होते हुए उसका अभिमान नहीं करना, अन्य का तिरस्कार, निन्दा, उपहास न करना, अनुपमगुणभूषित होते हुए भी निरभिमानता, भस्म से ढँकी हुई अग्नि के समान अपनी महिमा को स्वयं प्रकाशित न करना, धर्म के साधनों का सम्मान करना, आदि से प्राप्त होता है।

अन्तराय के कारण—प्रत्येक कार्य में विघ्न उपस्थित करनेवाला अन्तराय कर्म है। वह प्राणिवध, ज्ञान

का निषेध करना, धर्म-कार्यों में विघ्न उत्पन्न करना, देवता को अर्पित नैवेद्य का प्रसादपूर्वक ग्रहण करना, भोजन-पान आदि में विघ्न करना, निर्दोष सामग्री का परित्याग, गुरु तथा देवपूजा का व्याघात करना, आदि के द्वारा सम्यग् होता है। यह अन्तराय कर्म दान देना, पदार्थों की प्राप्ति, उनका भोग तथा उपभोग में बाधा उत्पन्न करता है। इसके ही कारण जीव शक्तिहीन होता है।

उपर्युक्त कारणों से ज्ञानावरण आदि को विशेष अनुभाग मिलता है, कारण आयुर्कर्म को छोड़कर शेष कर्मों का निरन्तर बन्ध हुआ करता है। इसका तात्पर्य यह है कि किसी ने यदि ज्ञान के साधनों में बाधा उपस्थित की, तो उसके मोहनीय, अन्तराय आदि कर्मों का भी आस्रव होगा। इतनी विशेषता होगी कि ज्ञानावरण को विशेष अनुराग मिलेगा, ज्ञानावरण के रस में प्रकर्षता होगी।

तत्त्वज्ञानी के बन्ध होता है या नहीं?

इस बन्धतत्त्व के विषय में कुछ लोगों की ऐसी समझ है कि सम्यक्त्व की आत्मनिधि मिलने पर आत्मा की बन्ध-परम्परा नष्ट हो जाती है। वे कहते हैं—बन्ध का कारण अज्ञान चेतना है। सम्यग्दृष्टि के ज्ञानचेतना होती है, इसलिए वह बन्धन की व्याप्ति से मुक्त है। ज्ञान से मुक्ति लाभ का समर्थन सांख्य, बौद्ध, नैयायिक आदि भी करते हैं। यदि ज्ञान अथवा सम्यग्दर्शन के द्वारा कर्मों का अभाव हो जाये, तो रत्नत्रय-मार्ग की मान्यता के साथ कैसे समन्वय होगा?

सम्यग्दृष्टि के बन्ध के विषय में अमृतचन्द्र सूरि लिखते हैं—“ज्ञानी जीव आस्रव-भावना के अभिप्राय के अभाववश निरास्रव है। वहाँ उसके भी द्रव्यप्रत्यय प्रत्येक समय अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों को बाँधते हैं। इसमें ज्ञान गुण का परिणमन कारण है।”

यहाँ शंकाकार पूछता है—ज्ञान गुण का परिणमन बन्ध का हेतु किस प्रकार है?

इस पर महर्षि कुन्दकुन्द कहते हैं—

“जम्हा दु जहण्णादो णाणगुणादो पुणो वि परिणमदि ।

अण्णत्तं णाणगुणो तेण दु स्रो बंधगो भणिदो ॥” —समयसार, गा. १७१

—‘यतः ज्ञानगुण जघन्य ज्ञानगुण से पुनः अन्यरूप परिणमन करता है, ततः वह ज्ञानगुण कर्म का बन्धक कहा गया है।’

इस प्रकार प्रकाश डालते हुए अमृतचन्द्र सूरि कहते हैं—“ज्ञानगुणस्य यावज्जघन्यो भावः, तावत् तस्यान्तर्मुहूर्तविपरिणामित्वात् पुनः पुनरन्यतयाऽस्ति परिणामः । स तु यथाख्यातचारित्रावस्थाया अधस्तादवश्यंभावि-रागसद्भावात् बन्धहेतुरेव स्यात्” ‘जब तक ज्ञानगुण का जघन्यभाव है—क्षायोपशमिक भाव है, तब तक उसका अन्तर्मुहूर्त में विपरिणमन होता है, इस कारण पुनःपुनः अन्यरूप परिणमन होता है। वह ज्ञान का परिणमन यथाख्यात चारित्ररूप अवस्था के नीचे निश्चय से रागसहित होने से बन्धका ही कारण है।’

‘सर्वार्थसिद्धि’ में कहा है; “यथाख्यात-विहारशुद्धि-संयता उपशान्तकषायादयोऽयोगकेवल्पन्ताः” (१,८, पृष्ठ १२)—यथाख्यात विहारशुद्धि संयमी उपशान्तकषाय नामक ग्यारहवें गुणस्थान से अयोगी जिनपर्यन्त पाये जाते हैं। अतः कषायरहित जीवों के ही अबन्ध होता है। अध्यात्मशास्त्र में सम्यक्त्व की के अबन्धकपने का अर्थ यही है कि कषायरहित सम्यक्त्व की के बन्ध नहीं होता है; शेष के बन्ध होता है। जिसके कषाय है, उससे अवश्य बन्ध होता है।

यदि ज्ञानगुण का जघन्य भावरूप परिणमन बन्ध का कारण है, तो ज्ञानी को कैसे निरास्रव कहा? इस शंका के समाधान में आचार्य कुन्दकुन्द कहते हैं—

“दंसणणाणचरित्तं जं परिणमदे जहण्ण-भावेण ।

णाणी तेण दु बज्झदि पुग्गलकम्मेण विविहेण ॥” —समयसार, गा. १७२

—“दर्शन, ज्ञान, चारित्र का जघन्य भाव से परिणमन होता है, इससे ज्ञानी जीव अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों से बँधता है।”

इस विषय पर विशेष प्रकाश डालते हुए टीकाकार जयसेनाचार्य लिखते हैं—

—“इस कारण भेदज्ञानी अपने गुणस्थानों के अनुसार परम्परा रूप से मुक्ति के कारण तीर्थंकर नामकर्म आदि प्रकृतिरूप पुद्गलात्मक अनेक पुण्यकर्मों से बँधता है।” (समयसार, पृ. २४५)

शंका—कोई स्वाध्यायशील व्यक्ति पूछता है—यदि उपर्युक्त कथन ठीक है, तो उसका भगवत्कुन्दकुन्द के इस वचन से किस प्रकार समन्वय होगा—

“रागो दोसो मोहो य आसवा णत्थि सम्मदिट्ठिसि ॥” समयसार, गा. १७७

‘सम्यक्त्वी के राग, द्वेष, मोह रूप आस्रवों का अभाव है।’ इस गाथा के उत्तरार्ध में आचार्य लिखते हैं—

“तम्हा आसवभावेण विणा हेदू ण पच्चया होति ।”

—अर्थात् इस कारण आस्रवभाव के अभाव में द्रव्यप्रत्यय कर्मबन्ध के कारण नहीं होते हैं।

समाधान—इस विषय में विरोध की कल्पना का निराकरण करते हुए जयसेनाचार्य लिखते हैं—

—“सम्यग्दृष्टि के अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्वोदयजनित राग-द्वेष मोह नहीं हैं; अन्यथा वह चतुर्थ गुणस्थानवर्ती सरागसम्यक्त्वी नहीं हो सकेगा। अथवा अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभोदयजनित राग, द्वेष-मोह सम्यक्त्वी के नहीं पाये जाते हैं, कारण षष्ठ गुणस्थानरूप सरागचारित्र के अविनाभावी सरागसम्यक्त्व की अन्य प्रकार से उपपत्ति नहीं पायी जाती है। अथवा अनन्तानुबन्धी अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभोदयजनित प्रमाद के उत्पादक राग-द्वेष-मोह सम्यक्त्वी के नहीं हैं, कारण अप्रमत्तादिगुणस्थानवर्ती वीतरागचारित्र के साथ अविनाभाव सम्बन्ध रखनेवाले वीतराग सम्यक्त्व की अन्य प्रकार से उपपत्ति नहीं पायी जाती है।”

इस सुव्यवस्थित तथा सुस्पष्ट निरूपण-द्वारा आचार्य महाराज ने यह समझा दिया है कि सम्यक्त्वी के बन्ध-अबन्ध का कथन एकान्तरूप से नहीं है। अविरत सम्यक्त्वी के मिथ्यात्व तथा अनन्तानुबन्धी निमित्तक प्रकृतियों का बन्ध नहीं होता है, किन्तु अन्य कषायादि निमित्तक प्रकृतियों का बन्ध होता है। मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी निमित्तक प्रकृतियों के अभाव को मुख्य बना अविरत सम्यक्त्वी के अबन्ध का वर्णन सुसंगत है। इस विवक्षा को गौण बनाकर बन्ध को प्राप्त होनेवाली प्रकृतियों की अपेक्षा बन्ध का कथन भी समीचीन है।

शंका—सम्यक्त्वी के बन्धाभाव का एकान्तपक्ष वाले कहते हैं कि ‘अविरत सम्यक्त्वी के जो अप्रत्याख्यानावरण, यज्ञवृषभ संहनन, औदारिक शरीर आदि का बन्ध है, वह बन्ध नहीं के समान है।’

समाधान—इस कथन में तात्त्विक विचार का अभाव है। जब अविरतसम्यक्त्वी के द्वारा बाँधे गये कर्मों में कषाय और योग के कारण प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग बन्ध होते हैं, तब उनको बिलकुल ही तुच्छ मानना और सर्वथा अबन्ध घोषित करना जैन दृष्टि—स्याद्वाद विचार शैली के अनुकूल नहीं कहा जा सकता। जयसेनाचार्य ने पूर्णतया विश्लेषण करके सम्यक्त्वी को कथंचित् बन्धक और कथंचित् अबन्धक प्रमाणित कर दिया है।

आगम की आज्ञा—इस प्रसंग में ‘षट्खण्डागमसूत्र’ के दूसरे खण्ड क्षुद्रबन्ध में भूतबलि भट्टारक रचित महत्त्वपूर्ण सूत्र आया है। ‘षट्खण्डागम’ सूत्र का साक्षात् सम्बन्ध गणधर की वाणी से रहा है; अतः उस सूत्र का सर्वोपरि महत्त्व हो जाता है। वह सूत्र इस प्रकार है—“सम्मादिट्ठी बंधा वि अत्थि, अबंधा वि अत्थि” ३६—सम्यक्त्वी के बन्ध होता है, अबन्ध भी होता है। इस पर धवला टीकाकार कहते हैं—“कुदो? सासवाणासवेसु सम्महंसणुवलंभा”—

प्रश्न—उपर्युक्त कथन क्यों किया गया?

उत्तर—आस्रवयुक्त तथा आस्रवरहित जीवों में सम्यग्दर्शन का सद्भाव पाया जाता है।

इस कथन से दो प्रकार के सम्यक्त्वी ज्ञात होते हैं। एक सम्यक्त्वी सास्रव है और दूसरा आस्रवरहित

है। आस्रव के उत्तर क्षण में बन्ध होता है, अतः बन्धसहित भी सम्यक्त्वी होता है; यह सर्वज्ञ की प्ररूपणा शिरोधार्य करना श्रेयस्कर है। आस्रव का कारण योग है—“काय-वाङ्मनः कर्मयोगः, स आस्रवः”। ऐसी स्थिति में सयोगकेवली को आस्रवयुक्त मानना होगा। आस्रवरहित अयोगकेवली माने गये हैं—“गिरुद्धगिस्तेस-आस्रवो जीवो...गय जोगो केवली”—जब केवली भगवान् के सयोगी होने पर कर्मबन्ध माना है, तब अविरत सम्यक्त्वी को सर्वथा बन्धरहित कहना उचित नहीं है। उसके आस्रव तथा बन्ध के चार कारण अविरति, प्रमाद, कषाय और योग पाये जाते हैं।

बन्ध का लक्षण सूत्रकार ने इस प्रकार किया है—“सकषायत्वाज्जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गलानादते स बन्धः”—(८/२) जीव सकषाय होने के कारण जो कर्मों के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है, उसे बन्ध कहते हैं। यह लक्षण अविरत सम्यक्त्वी आदि के द्वारा गृहीत कर्मों में गर्भित होने से उनके पाया जानेवाला बन्ध काल्पनिक नहीं है। सम्यग्दर्शन की प्राथमिक दशा में अल्प मात्रा में निर्जरा होती है। अविरति आदि कारणों से कर्मों का निरन्तर बन्ध होता रहता है। अविरत दशावाला कर्मों की महान् निर्जरा करता है, उसके बन्ध नहीं होता, ऐसा साहित्य प्रचार में आता है; उससे प्रभावित चित्तवालों को पक्षमोह छोड़ना चाहिए।

महत्त्वपूर्ण कथन—गुणभद्र आचार्य का यह कथन ध्यान से मनन करने योग्य है। उन्होंने ‘उत्तरपुराण’ में विमलनाथ भगवान् के वैराग्यभाव का उल्लेख करते हुए कहा है कि भगवान् इस प्रकार सोचते हैं—जब तक संसार की अवधि है, तब तक इन उत्तम तीन ज्ञानों से क्या काम निकलता है और इस वीर्य से भी क्या लाभ है; यदि मैंने श्रेष्ठ विकास-मोक्ष को नहीं प्राप्त किया। भगवान् अपने चित्त में विचारते हैं :—

“चारित्रस्य न गन्धोऽपि प्रत्याख्यानोदयो यतः।

बन्धश्चतुर्विधोऽप्यस्ति बहुमोहपरिग्रहः ॥

प्रमादाः सन्ति सर्वेऽपि निर्जराप्यल्पिकेव सा।

अहो मोहस्य माहात्म्यं मान्द्याम्यहमिहैव हि॥ —उत्तरपुराण, पर्व ५६, श्लोक ३५-३६

प्रत्याख्यानारण कषाय के उदय होने से मेरे चारित्र की गन्ध तक नहीं है तथा बहुत मोह और परिग्रह जनित प्रकृति, प्रदेश, स्थिति तथा अनुभाग रूप चतुर्विध बन्ध हो रहा है। मेरे सभी प्रमाद पाये जाते हैं। मेरे कर्मों की निर्जरा भी अत्यन्त अल्प प्रमाण में होती है। अहो! यह मोह की महिमा है, जो मैं (तीर्थकर होते हुए भी) इस संसार में ही बैठा हूँ”। भगवान् विमलनाथ के विचारों के माध्यम से चतुर्थ, पंचम गुणस्थानवर्ती व्यक्ति की मनोदशा का यथार्थ स्वरूप समझा जा सकता है तथा इस प्रकाश में देखने पर यह प्रतीत होता है कि कुछ आध्यात्मिक कवियों, लेखकों तथा भजन-निर्माताओं ने जो अविरत सम्यक्त्वी के महत्त्व पर गहरा रंग भरा है और उसे अबन्धक कहा है, वह उनकी निजी वस्तु है। आगम तो यह मानता है कि अविरत दशा में अविरति आदि कारणों से बन्ध होता रहता है तथा पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा अत्यन्त अल्प मात्रा में होती है।

प्रश्न—चौथे गुणस्थान से आगे के गुणस्थान चारित्र के विकास से सम्बन्ध रखते हैं। असली रत्न कहां, विधि कहां; वह तो सम्यक्त्व है। चारित्र का कोई विशेष महत्त्व नहीं है क्या?

समाधान—यह धारणा सर्वज्ञ प्रणीत देशना से विपरीत है। सम्यक्त्व का महत्त्व सर्वोपरि है, किन्तु बिना चारित्र के वह सम्यक्त्व मोक्ष का कारण नहीं हो सकता। सम्यक्त्वी जिस वीतरागता की चर्चा करता है, वह रागरहितपना चारित्र धारण किए बिना असम्भव है। राग चारित्रमोह का भेद है। जितना-जितना चारित्र का धारण होता है, उतना-उतना रागरहित भाव जागृत होता जाता है। सोमदेव सूरी ने बड़ी मार्मिक बात कही है—

“सम्यक्त्वात्सुगतिः प्रोक्ता ज्ञानात्कीर्तिरुदाहता।

वृत्तात्पूजामवाप्नोति त्रयाच्च लभते शिवम् ॥”

सम्यक्त्व से मनुष्य तथा देवगति में जन्म प्राप्त होता है, ज्ञान के द्वारा कीर्ति मिलती है तथा चारित्र के द्वारा पूज्यता प्राप्त होती है। तीनों के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है।

सम्यक्चारित्र का महत्त्व—आचरण के बिना श्रद्धा शोभायान नहीं होती। सम्यक् श्रद्धा तथा चारित्र का भोग मणि-कांचन योग सदृश है। कुन्दकुन्द स्वामी ने 'रयणसार' में कहा है—

“गाणी खवेई कम्मं पाणबलेणेदि बोल्लए अण्णाणी।

वेज्जो भेसज्जमहं जाणे इदि णस्सदे वाही ॥”—रयणसार, गा. ७२

ज्ञानी पुरुष ज्ञान के प्रभाव से कर्मों का क्षय करता है, यह कथन करने वाला अज्ञानी है। मैं वैद्य हूँ, मैं औषधि को जानता हूँ, क्या इतने जानने मात्र से व्याधि दूर हो जाएगी?

केवल सम्यग्दर्शन से सुगति प्राप्त होती है तथा मिथ्यात्व से नियमतः कुगति मिलती है—यह कथन कुन्दकुन्द स्वामी को भी सम्मत है, इससे वे कहते हैं—

“सम्मत्तगुणाइ सुग्गइ भिच्छादो होइ दुग्गई णियमा।

इदि जाण किमिह बहुणा जं ते रुवेइ तं कुणहो ॥”—रयणसार, गा. ६६

सम्यक्त्व के कारण सुगति तथा मिथ्यात्व से नियमतः दुर्गति होती है, ऐसा जानो। अधिक कहने से क्या प्रयोजन? जो तुझको रुचे, वह कर।

'प्रवचनसार' में कहा है—

“ण हि आगमेण सिज्झदि सहहणं जदि वि णत्थि अत्थेसु।

सद्वहमाणो अत्थे असंजदो वा ण णिव्वादि ॥”—प्रवचनसार, गा. २३७

यदि पदार्थों की सम्यक् श्रद्धा नहीं है, तो शास्त्रज्ञान के बल से मोक्ष नहीं होगा। कदाचित् पदार्थों की श्रद्धा भी है और संयम नहीं है, तो ऐसा असंयमी सम्यक्त्वी भी मोक्ष नहीं पाएगा। अतः अमृतचन्द्र सूरि कहते हैं—“ततः संयमशून्यात् श्रद्धानात् ज्ञानाद्वा नास्ति सिद्धिः।” (पृ. ३२८)

अयोगकेवली रूप सम्यक्त्वी के सर्वथा बन्ध का अभाव है। उपशान्त कषाय, क्षीण कषाय तथा सयोगी जिनके केवल सातावेदनीय का प्रकृति तथा प्रदेशबन्ध योग के कारण होता है। उससे नीचे चारों बन्ध होते हैं।

सम्यक्त्वी ही कुछ प्रकृतियों का बन्धक—कर्मों में कुछ प्रकृतियाँ तो मिथ्यात्वी जीव बाँधता है और कुछ ऐसी प्रकृतियाँ जिनके लिए विशुद्धभाव कारण होने से सम्यक्त्वी ही बन्धक कहा गया है। इतना ही नहीं, शुक्लध्यानी, शुद्धोपयोगी मुनीन्द्र तक पुण्य कर्म रूप प्रकृतियों का बन्ध करते हैं। जिनके क्रोध, मान तथा माया कषाय का अभाव हो चुका है, ऐसे सूक्ष्म लोभ गुणस्थान वाले मुनिराज के उच्चगोत्र, यशःकीर्ति रूप पुण्यप्रकृतियाँ उत्कृष्ट अनुभागबन्ध युक्त बाँधती हैं। 'महाबन्ध' में लिखा है—“आहारसरीर-आहारसरीरंगोवंगाणं को बंधको? को अबंधको? अप्पमत्त-अपुव्वकरणद्धाए संखेज्जभागं गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि। एदे बंधा, अवसेसा अबंधा”—आहारकशरीर तथा आहारकशरीरंगोपांग का कौन बन्धक है, कौन अबन्धक है? अप्रमत्त गुणस्थानवर्ती मुनि तथा अपूर्वकरण के काल में संख्यातभाग व्यतीत होने पर बन्ध की व्युत्थिति होती है। उपर्युक्त गुणस्थान वाले बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं।

“तित्थयरस्स को बंधको, को अबंधो? असंजदसम्माइड्ढि याव अपुव्वकरणं बंधां। अपुव्वकरणद्धाए संखेज्जभागं गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि। एदे बंधा, अवसेसा अबंधा।—” तीर्थकर प्रकृतिका कौन बन्धक है, कौन अबन्धक है? असंयतसम्यग्दृष्टि लेकर अपूर्वकरण गुणस्थान पर्यन्त बन्धक है। अपूर्वकरण के काल के संख्यातभाग व्यतीत होने तक बन्ध होता है। आगे बन्ध की व्युत्थिति हो जाती है। अतः पूर्वोक्त बन्धक है तथा शेष अबन्धक हैं। ('महाबन्ध' प्रकृतिबन्ध, भाग १, ताम्र पत्र प्रति, पृ. ५) जीव के भावों की विचित्रता का रहस्य सर्वज्ञ ज्ञानगम्य है। सकल संयम के धारक शुक्लध्यान में निमग्न शुद्धोपयोग की उच्च स्थिति

को प्राप्त व्यक्ति के जब पुण्य प्रकृतियों का बन्ध होता है, तब नीचे की अवस्थावाले अविरत सम्यक्त्वी को बन्धरहित कहना सोचना, समझना तथा समझाना परमागम की देशना के विपरीत कथन करना है।

क्या सम्यक्त्वी के ज्ञानचेतना ही होती है?

शंका—सम्यक्त्वी के बन्धाभाव का समर्थन शंकाकार अन्य प्रकार से करता हुआ कहता है। सम्यक्त्वी के ज्ञानचेतना होती है, इससे उस बन्ध का अभाव आगमाविरुद्ध है।

समाधान—मिथ्यात्वी के ज्ञान चेतना का अभाव सबको इष्ट है। सम्यक्त्वी के ज्ञान चेतना ही होती है, ऐसी बात नहीं है। चेतना के स्वरूपपर विशेष प्रकाश डालते हुए अमृतचन्द्रसूरि 'समयसार' की टीका म

(पृ. ४८१) लिखते हैं—“ज्ञान से अन्यत्र मैं 'यह' हूँ; इस प्रकार का चिन्तन अज्ञानचेतना है। वह कर्मचेतना, कर्मफल चेतना के भेद से दो प्रकार की है। ज्ञान से पृथक् मैं 'यह' करता हूँ, यह चिन्तन कर्म चेतना है। ज्ञान से अन्य मैं यह अनुभव करता हूँ, इस प्रकार का चिन्तन कर्मफल चेतना है। दोनों चेतनाएँ समान रसवाली हैं तथा संसार की कारण हैं। संसार का बीज अष्टविध कर्मों के बीजरूप होता है। अतः मुमुक्षु को उचित है कि वह अज्ञान चेतना को दूर करने के लिए सम्पूर्ण कर्मों के त्याग की भावना तथा सम्पूर्ण कर्मफल त्याग की भावना को नृत्य कराकर आत्मस्वरूपवाली भगवती ज्ञान चेतना को ही नित्य नृत्य करावे।”

इस विषय को अधिक स्पष्ट करते हुए जयसेनाचार्य लिखते हैं—“मेरा कर्म है, मेरे द्वारा किया गया है, इस प्रकार अज्ञान भाव से मन-वचन-काय की क्रिया करना कर्म चेतना है। आत्मस्वभाव से रहित अज्ञानभाव द्वारा इष्ट अनिष्ट विकल्परूप से हर्ष, विषाद, सुख-दुःख का जो अनुभव करना है, वह कर्मफल चेतना है। (पृ. ४६०) कुन्दकुन्द स्वामी 'प्रवचनसार' में कहते हैं—

“परिणमदि चेदणाए आदा पुण चेदणा तिघाभिमदा ।

सा पुण णाणे कम्मे फलम्मि वा कम्मणो भणिदा ॥” —गा. १२३

—‘चेतना की ज्ञानरूप परिणति ज्ञानचेतना है, कर्मरूप परिणति कर्म-चेतना तथा फलरूप परिणति कर्मफल-चेतना है।’

इससे यह प्रकट होता है कि ज्ञानचेतना में ज्ञातृत्व भाव है, कर्मचेतना में कर्तृत्व परिणति है और कर्मफल चेतना में भोक्तृत्व भाव है।

सम्यक्त्वी के कर्म तथा कर्मफल चेतना का सद्भाव

सम्यक्त्वी के ज्ञान चेतना ही पायी जाती है, इस भ्रम का निवारण करते हुए पंचाध्यायीकार कहते हैं—

“अस्ति तस्यापि सद्दृष्टेः कस्यचित् कर्मचेतना ।

अपि कर्मफले सा स्यादर्थतो ज्ञानचेतना ॥” —पंचाध्यायी, २,२७५

—‘किसी सम्यक्त्वी के कर्म तथा कर्मचेतना भी पायी जाती हैं। किन्तु परमार्थ से सम्यक्त्वी के ज्ञान चेतना पायी जाती है।’

यहाँ पूर्ण ज्ञान विशिष्ट सम्यक्त्वी को लक्ष्य में रखकर उसके ज्ञानचेतना का परमार्थ रूप से सद्भाव प्रतिपादित किया है। अपूर्ण ज्ञानी की अपेक्षा कर्मचेतना तथा कर्मफल चेतना भी कही है।^१ इस दृष्टि का स्पष्टीकरण निम्नलिखित पद्य से होता है—

१. “सर्वे कर्मफलं मुख्यभावेन स्यावरास्त्रसाः । सकार्यं चेतयन्तस्ते प्राणित्वाज्ञानमेव च ॥” अन. ध. २/३५

“चेतनायाः फलं बन्धस्तत्फले वाऽय कर्मणि।

रागाभावात्र बन्धोऽस्य तस्मात्सा ज्ञानचेतना ॥” —पंचाध्यायी, २,२७६

—‘कर्म तथा कर्मफलचेतना का फल बन्ध कहा है। उस सम्यक्त्वी के राग का अभाव होने से बन्ध नहीं है। अतः उसके ज्ञानचेतना है।’ यहाँ रागाभाव होने से बन्ध का अभाव कहा है। यह रागाभाव उपशान्तकषायादि गुणस्थान में होगा, अतः उसके पूर्व रागभाव का सद्भाव होने से बन्ध का होना स्वीकार करना होगा। यथार्थ ज्ञानचेतना केवलज्ञानी के होगी जिनके अज्ञान का अभाव हो गया है और छद्मस्य अवस्था से अतीत हो गये हैं। कुन्दकुन्द स्वामी की यह गाथा इस विषय में बहुत उपयोगी है।

“सर्वे खलु कम्मफलं धावरकाया तसादि कञ्जजुदं।

पाणिन्तमदिवक्कंता णाणं विंदंति ते जीवा ॥” —पंचास्तिकाय, गा. ३६।

—“सम्पूर्ण स्थावर जीवों के कर्मफल चेतना है। त्रस जीवों में कर्मफल के सिवाय कर्मचेतना भी पायी जाती है। प्राणी इस व्यपदेश को अतिक्रान्त-जीवन्मुक्त ज्ञानचेतना का अनुभवन करते हैं। यहाँ ‘जीवन्मुक्त’ शब्द का अर्थ अविरत सम्यक्त्वी नहीं, किन्तु केवली भगवान् हैं; कारण टीकाकार अमृतचन्द्र सूरि ने लिखा है कि सम्पूर्ण मोह कलंक के नाशक, ज्ञानावरण-दर्शनावरण ध्वंस करनेवाले, वीर्यान्तराय के क्षय से अनन्तवीर्य को प्राप्त करने वाले अत्यन्त कृतकृत्य केवली भगवान् ज्ञानचेतना को ही अनुभव करते हैं।

‘पंचास्तिकाय’ टीका के ये शब्द महत्त्वपूर्ण हैं—“तत्र स्थावराः कर्मफलं चेतयन्ते। त्रसाः कार्यं चेतयन्ते। केवलज्ञानिनो ज्ञानं चेतयन्ते (पंचास्तिकाय, टीका, पृ. १२) स्थावर जीव कर्मफलचेतना का अनुभवन करते हैं। त्रस जीव कर्मचेतना का अनुभव करते हैं। केवलज्ञानी ज्ञानचेतना का अनुभवन करते हैं।

‘अनगारधर्ममृत’ की संस्कृत टीका (पृ. १०७ में पण्डितप्रवर आशाधरजी लिखते हैं—“जीवन्मुक्तास्तु मुख्यभावेन ज्ञानम्। गौणतया त्वन्यदपि।...सा चोभय्यपि जीवन्मुक्तेर्गौणी बुद्धिपूर्वक कर्तृत्व-भोक्तृत्वयोरुच्छेदात्” —जीवन्मुक्तों के मुख्यता से ज्ञान चेतना है। गौण रूप से उनके अन्य भी चेतनाएँ हैं। वे कर्म और कर्मफल चेतनाएँ जीवन्मुक्त में मुख्य नहीं, किन्तु गौणरूप से हैं; कारण उनमें बुद्धिपूर्वक कर्तृत्व और भोक्तृत्व का अभाव हो चुका है।

इस विवेचन से यह विदित हो जाता है कि केवली भगवान् से नीचे के गुणस्थानवर्ती सम्यक्त्वी जीवों में कर्म और कर्मफल चेतनाएँ भी पायी जाती हैं। अविरत सम्यक्त्वी के विचित्र कार्यों को बन्धरहित बताना और उसे सदा सजग ज्ञानचेतना का ही स्वामी कहना बड़ी आश्चर्यप्रद बात है। क्षायिक सम्यक्त्वी श्रेणिक महाराज ने आत्मघात करके प्राण परित्याग किये। परम धार्मिक सीता के प्रतीन्द्र पर्याय के जीवन ने तपश्चर्या में निमग्न महामुनि रामचन्द्र को धर्म से डिगाने का मोहवश प्रयत्न किया, ताकि रामचन्द्रजी का सीता के स्वर्ग में ही उत्पाद हो जाए। ये क्रियाएँ शुद्धचेतना के प्रकाश को नहीं बताती हैं। इन पर कर्म, कर्मफल चेतनाओं का प्रभाव स्पष्टतया दृष्टिगोचर होता है। चारित्रमोहोदयवश ये क्रियाएँ हुआ करती हैं। ‘सदन-निवासी, तदपि उदासी तातें आस्रव छटाछटी-सी—यह सम्यक्त्वी गृहस्थ का चित्रण सम्पूर्ण आस्रव के निरोध को नहीं बताता है। मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी तथा असंयम निमित्तक आस्रव के निरोध का ज्ञापक है। अतः परमागम के प्रकाश से ज्ञात होता है कि सम्यक्त्वी के जघन्य अवस्था में ज्ञानचेतना के सिवाय कर्म और कर्मफल चेतनाएँ भी पायी जाती हैं। उनके कारण वह किन्हीं प्रकृतियों का बन्ध नहीं करता है और किन्हीं कर्म-प्रकृतियों का बन्ध भी करता है; इस प्रकार का स्याद्वाद है।

ग्रन्थ का विषय—‘महाबन्ध’ के इस ‘पयडिबन्धाहियार’—प्रकृतिबन्धाधिकार नामक खण्ड में प्रकृतिसमुत्कीर्तन, सर्वबन्ध, नोसर्वबन्ध, उत्कृष्टबन्ध, जघन्यबन्ध, अजघन्यबन्ध, सादिबन्ध, अनादिबन्ध, ध्रुवबन्ध, अध्रुवबन्ध, बन्धस्वामित्वविचय, बन्धकाल, बन्ध-अन्तर, बन्धसन्निकर्ष, भंगविचय, भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव तथा अल्पबहुत्व—इन चौबीस अनुयोग द्वारों से प्रकृति बन्ध पर प्रकाश डाला गया है।

इस कर्मबन्धन के कारण अनन्त ज्ञान-आनन्द शक्ति, आदि का अधिपति यह आत्मा दीनतापूर्ण जीवन बिता कष्ट उठाता है। इस आत्मा का यथार्थ कल्याण आत्मीय दोषों के निर्मूल करने में है। समाधि की प्रचण्ड अग्नि द्वारा इस दोष-पुंज का अविलम्ब क्षय होता है। संवर और निर्जरा रूप परिणति से उस स्वरूप की उपलब्धि हो जाती है, जिसको परम निर्वाण कहते हैं। इस पद का प्रधान कारण भेदज्ञान की प्राप्ति है। मेरा आत्मा एक है, ज्ञान-दर्शनमय है; शेष सर्व अनात्म भाव है। इस विद्या के प्रभाव से सिद्धत्व की अभिव्यक्ति होती है। बन्ध की विपत्ति से बचने के लिए योगीन्द्रदेव कहते हैं—

“अण्णु जि तित्थु म जाहि जिय, अण्णु जि गुरुउ म सेवि ।

अण्णु जि देउ म चित्ति तुहुं, अप्पा विमलु मुएवि ॥” परमात्मप्रकाश, अ. १, दो. ६५

“हे आत्मन्! तू दूसरे तीर्थों को मत जा; अन्य गुरु की शरण में मत पहुँच, अन्य देव का चिन्तन मत कर। अपनी निर्मल आत्मा को छोड़कर अन्य का चिन्तन मत कर।”

जब आत्मा यह समझ लेता है कि मैं कर्मों के बन्ध में बद्ध हो गया हूँ; किन्तु मैं इससे भिन्न स्वरूपवाला हूँ, तब उसे सच्चा प्रकाश प्राप्त हो जाता है। तत्त्व की बात तो इतनी है—

“भेदविज्ञानतः सिद्धाः सिद्धा ये किल केचन ।

तस्यैवाभावतो बद्धा बद्धा ये किल केचन ॥”

‘जो जीव सिद्ध हुए हैं, वे सब अभेदरत्नत्रय स्वरूप भेद-विज्ञान से सिद्ध हुए हैं। जो अब तक संसार में बद्ध हैं, वे उस निर्विकल्पज्ञान के अभाव से बँधे हैं।

भेदविज्ञान की लोकोत्तरता

भेदविज्ञान की उपलब्धि सरल कार्य नहीं है। उसके लिए ही सर्व उद्योग मुमुक्षु पुरुष किया करते हैं। विश्व के अतुलनीय साम्राज्य और विभूति का त्याग करके भी उसकी प्राप्ति दुर्लभ रहती है। भेदविज्ञान के पश्चात् अद्वैत भावना के अभ्यास द्वारा निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करके जब जीव एकत्व-वितर्क नाम के द्वितीय शुक्लध्यान को प्राप्त करता है, तब कर्मों का राजा मोहनीय क्षय को प्राप्त होता है। उस समय क्षण मात्र में आत्मा अर्हन्त बनकर अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तसुख तथा अनन्तवीर्य रूप अनन्त चतुष्टय से समलंकृत होता है। उस प्राप्तव्य परम पदवी के लिए उपायरूप मार्गदर्शन गुणभद्राचार्य के इन शब्दों-द्वारा प्राप्त होता है—

“अकिंचनोऽहमित्यास्व त्रैलोक्याधिपतिर्भवेः ।

योगिगम्यं तव प्रोक्तं रहस्यं परमात्मनः ॥—आत्मानुशासन, श्लोक ११०

हे भद्र! ‘अकिंचनोऽहं’ ‘मेरा कुछ नहीं है’, इस भावना के साथ स्थित हो। ऐसा करने से तू त्रिलोकीनाथ बन जाएगा। मैंने यह तुझको परमात्मा का रहस्य कहा है जो योगियों के ही अनुभवगम्य है।

सत्यम्—इस अकिंचनपने की भावना के साथ संयमशील पुनीत जीवन भी आवश्यक है। वे मुनीश्वर यह मार्मिक बात कहते हैं—

“दुर्लभमशुद्धमपसुखमविदितमृतिसमयमल्पपरमायुः ।

मानुष्यमिहैव तपो मुक्तिस्तपसैव तत्तपः कार्यम् ॥१११॥”

यह मनुष्य पर्याय दुर्लभ, अशुद्ध, सुखरहित है। इस पर्याय में आगामी मरण कब होगा, यह अविदित है। अन्य पर्यायों की तुलना में आयु भी थोड़ी है। यह विशेष बात है कि तपःसाधना इसी पर्याय में सम्भव है। कर्मक्षयरूप मुक्ति उसी तप से प्राप्त होती है। इससे तप का आचरण भी करना चाहिए।

आचार्य वादीभरसिंहसूरि ‘क्षत्रचूडामणि’ में कहते हैं—

“नटवन्नैकवेषेण भ्रमस्यात्मन्स्वकर्मतः ।

तिरश्चि निरये पापादिवि पुण्याद्द्वयात्ररे ॥” —क्षत्रचूडामणि, ११,३६

“हे आत्मन्! तू अपने कर्म के उदय से नाटक के नटके समान जगत् में भ्रमण करता है। पाप के उदय से तिर्यच और नरक पर्याय पाता है। पुण्य के उदय से देव होता है तथा पाप और पुण्य के संयुक्त उदय से मनुष्य पर्याय पाता है।”

“त्वमेव कर्मणां कर्ता भोक्ता च फलसन्ततेः ।

भोक्ता च तात किं मुक्तौ स्वाधीनार्या न चेष्टसे ॥” —क्षत्रचूडामणि, ११,४५

हे आत्मन्! तू ही अपने कर्मों का बन्ध करता है और उसकी फलपरम्परा का भोक्ता भी तू है। तू ही कर्मों का क्षय करने में समर्थ है। हे तात! मुक्ति तेरे स्वाधीन है, उसके लिए क्यों नहीं उद्योग करता है?

कवि कर्मों के कुचक्र से बचने के हेतु आत्मा को सचेत करता हुआ कहता है—भद्र! तू इन कर्माष्ट के दुष्कृत्यों पर दृष्टि देकर उनके विषय में धोखा मत खा। इन कर्मों का ढंग बड़ा अद्भुत है। क्षणभर में ये तुझे सिंहासन का अधिपति बनाकर दूसरे काल में तुझे भिखारी भी बना सकते हैं। इन पर विश्वास मत कर—

“आठन की करतूति विचारहु कौन-कौन ये करते हाल ।

कबहूँ सिर पर छत्र फिरावें, कबहूँ रूप करें बेहाल ।

देव-लोक सुख कबहूँ भुगते, कबहूँ रंक नाज को काल ।

ये करतूति करें कर्मादिक चेतन रूप तू आप सन्हाल ॥”

सार की बात

मोक्ष प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थी मानव को आत्मा और अनात्मा का पूर्णतया स्पष्ट अवबोध आवश्यक है। इसके पश्चात् जीव परम-यथाख्यात चारित्र के द्वारा कर्म-शैल के ध्वंस करने में समर्थ होता है। आचार्य कुन्दकुन्द की यह अमृतवाणी अमृत पथ को इन सारगर्भित शब्दों-द्वारा स्पष्ट करती है—

“बंधाणं च सहावं वियाणिहुं अप्पणो सहावं च ।

बंधेसु जो विरज्जदि सो कम्म—विमोक्खणं कुणदि ॥” —समयसार, गा. २६३

जो विवेकी बन्ध का तथा आत्मा का स्वभाव सम्यक् प्रकार से अवगत कर बन्ध से विरक्त होता है, वह कर्मों का पूर्णतया क्षय करता है।^१

‘तत्त्वानुशासन’ की तत्त्वदेशना अभिवन्दनीय है—

“कर्मजेम्यः समस्तेम्यः भावेम्यो भिन्नमन्वहम् ।

ज्ञ-स्वभावमुदासीनं पश्येदात्मानमात्मना ॥१६४॥”

मेरा आत्मा सम्पूर्ण कर्मजनित भावों से सर्वदा भिन्न है तथा वह ज्ञान स्वभाव एवं उदासीनरूप (राग-द्वेषरहित) है, ऐसा अपनी आत्मा के द्वारा आत्मा का दर्शन करे।

१. Whoever with a clear knowledge of the nature of Karmic bondage as well as the nature of the Self, does not get attracted by bondage—that person obtains liberation from *karmas*. (Samayasara by Prof. A. Chakravarti, P. 189.)

विषय-परिचय

‘महाबन्ध’ के प्रथम भाग का नाम—प्रकृतिबन्धाधिकार (पयडिबन्धाहियारो) है। इसमें प्रकृतिबन्ध का अधिकार है। प्रकृतियों के स्वरूप का निरूपण करना ‘प्रकृति समुत्कीर्तन’ कहलाता है जो ‘महाबन्ध’ के प्रथम भाग का मूल विषय है, किन्तु ताड़पत्र के टूटने से कुछ अंश प्रकाशित नहीं हो सका है। प्रकृतिसमुत्कीर्तन के दो भेद हैं—मूलप्रकृतिसमुत्कीर्तन और उत्तरप्रकृतिसमुत्कीर्तन। अपने अन्तर्गत समस्त भेदों का संग्रह करनेवाली तथा द्रव्यार्थिकनय—निबन्धक प्रकृति का नाम मूल प्रकृति है। अलग-अलग अवयव वाली तथा पर्यायार्थिकनय निमित्तक प्रकृति को उत्तरप्रकृति कहते हैं। मूल में जीव और कर्म स्वतन्त्र दो द्रव्य हैं। जीव अमूर्त है और कर्म मूर्तिक है। अनादि काल से जीव और कर्म का भावात्मक तथा द्रव्यात्मक सम्बन्ध है। ‘प्रकृति’ शब्द का अर्थ शील, स्वभाव है। निक्षेप की दृष्टि से विचार किया जाए, तो नामप्रकृति, स्थापनाप्रकृति, द्रव्यप्रकृति और भावप्रकृति ये चार भेद किये गये हैं। द्रव्यप्रकृति के भी दो भेद हैं—आगमद्रव्यप्रकृति और नोआगमद्रव्यप्रकृति। ‘द्रव्य’ का अर्थ यहाँ पर भव्य है। इसके दो भेद हैं—कर्मद्रव्यप्रकृति और नोकर्मद्रव्यप्रकृति। जैसे, घट, सकोरा आदि की प्रकृति मिट्टी है, पुद्गल की प्रकृति पूरन-गलन है; वैसे ही ज्ञानावरवादि आठ कर्मों की अपनी-अपनी प्रकृति है। ज्ञान जीव का स्वभाव है और ज्ञान का आवरण करना यह ज्ञानावरण कर्म का स्वभाव है। ज्ञानावरणकर्म की पाँच प्रकृतियाँ हैं—आभिनिबोधिकज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण, अवधिज्ञानावरण, मनःपर्ययज्ञानावरण और केवलज्ञानावरण। मिथ्यात्व के उदय में होने वाले आभिनिबोधिक, श्रुतज्ञान तथा अवधिज्ञान को कुज्ञान कहा जाता है। ज्ञान एक होने पर भी बन्धविशेष के कारण वह पाँच प्रकार का कहा गया है।

आभिनिबोधिकज्ञान पाँच इन्द्रियों और मनके निमित्त से अप्राप्त रूप बारह प्रकार के पदार्थों का अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा एवं प्राप्त रूप उन बारह प्रकार के पदार्थों के स्पर्शन, रसना, घ्राण और श्रोत्र इन्द्रियों के द्वारा मात्र अवग्रह रूप होता है, इसलिये इसके अनेक भेद हो जाते हैं। अर्थावग्रह रूप होता है, इसलिए इसके अनेक भेद हो जाते हैं। अर्थावग्रह व्यक्त वस्तु को ग्रहण करता है जो इन्द्रिय और मन के द्वारा होता है। ईहा, अवाय और धारणा ज्ञान भी पाँच इन्द्रियों और मन से होने के कारण अर्थावग्रहकी भाँति प्रत्येक छह-छह भेदवाला है। इस कारण व्यंजनावग्रह के चार भेदों में अर्थावग्रहादि के चौबीस भेदों को मिलाने से २८ भेद होते हैं। अतएव आभिनिबोधिकज्ञानावरण कर्म के भी २८ भेद हो जाते हैं। इसके बहु, एक, बहुविध, एकविध, क्षिप्र, अक्षिप्र, उक्त, अनुक्त, ध्रुव, अध्रुव, निःसृत, अनिःसृत—इन बारह प्रकार के पदार्थों को विषय करने से प्रत्येक के बारह-बारह भेद हो जाते हैं। इस प्रकार २८ × १२=३३६ भेद मतिज्ञान या आभिनिबोधिकज्ञान के होते हैं। अतः आभिनिबोधिक ज्ञानावरणकर्म के भी ३३६ भेद होते हैं।

ज्ञानका दूसरा भेद श्रुतज्ञान है। यह मतिज्ञानपूर्वक मन के आलम्बन से होता है। श्रुतज्ञान के शब्दजन्य तथा लिंगजन्य दो भेद किये गये हैं। यथार्थ में पदार्थ को जानकर उसके सम्बन्ध में या उससे सम्बन्धित अन्य पदार्थ के सम्बन्ध में विचार-धारा की प्रवृत्ति होना श्रुतज्ञान है। इस दृष्टि से श्रुतज्ञान अक्षरात्मक, अनक्षरात्मक अथवा द्रव्य—भाव के भेद से दो प्रकार का है। अतः आचारांग, सूत्रकृतांग आदि बारह अंग, उत्पाद पूर्व आदि चौदह पूर्व और सामायिकादि चौदह प्रकीर्णक द्रव्यश्रुत हैं। द्रव्यश्रुत अक्षरात्मक है। उसके सुनने-पढ़ने से श्रुतज्ञान की पर्याय रूप जो उत्पन्न हुआ ज्ञान है, वह भावश्रुत है। वर्तमान परमागम नामसे द्रव्यश्रुत तथा परमागमके आधार से उत्पन्न निर्विकार, स्वसंवेदन (आत्मानुभव) ज्ञान रूप भावश्रुतज्ञान है। अतः आत्मविषयक उपयोग दर्शन कहा गया है। दर्शन ज्ञानरूप नहीं होता, क्योंकि ज्ञान बाह्य अर्थों को विषय करता है।

द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा से सीमित ज्ञान को अवधिज्ञान कहते हैं। इसको सीमाज्ञान भी कहते हैं। महास्कन्ध से लेकर परमाणु पर्यन्त समस्त पुद्गल द्रव्यों को, असंख्यात लोकप्रमाण क्षेत्र, काल और भावों को तथा कर्म के सम्बन्ध से पुद्गलभावको प्राप्त हुए जीवों को जो प्रत्यक्ष रूप से जानता है, उसे अवधिज्ञान समझना चाहिए। जहाँ इस ज्ञान का विकास नहीं हो रहा है, वह अवधिज्ञानावरणीय कर्म है जो एक प्रकार का है। उसकी प्ररूपणा दो प्रकार की है। क्षयोपशम की दृष्टि से असंख्यात प्रकार का होने पर भी अवधिज्ञान के मुख्य दो भेद कहे गये हैं—भवप्रत्यय और गुणप्रत्यय। भवप्रत्यय अवधिज्ञान देवों, नारकियों और तीर्थकरों के होता है और गुणप्रत्यय अवधिज्ञान तिर्यचों तथा मनुष्यों के होता है। इन दोनों अवधिज्ञानों के अनेक भेद हैं—देशावधि, परमावधि और सर्वावधि तथा हीयमान, वर्द्धमान, अवस्थित, अनवस्थित, अनुगामी, अननुगामी, सप्रतिपाती, अप्रतिपाती, एकक्षेत्र और अनेकक्षेत्र। इन सबका प्रतिबन्धक होने से अवधिज्ञानावरण कर्म कहा जाता है। इसकी असंख्यात कर्म-प्रकृतियाँ हैं। काल की अपेक्षा अवधिज्ञान जघन्य से दो-तीन तथा उत्कर्ष से सात-आठ भवों का जानता है।

दूसरे के मन में स्थित विषय को जो जानता है, वह मनःपर्यय ज्ञान है। इसका जो आवरण करता है, वह मनःपर्यय ज्ञानावरण कर्म है। मनःपर्ययज्ञान के दो भेद हैं—ऋजुमति और विपुलमति। पैतालीस लाख योजन के भीतर के चित्तगत स्थित पदार्थ को मनःपर्ययज्ञान जानता है। मनःपर्ययज्ञान पराधीन ज्ञान नहीं है। वर्तमान काल में जीवों के मन में स्थित सरल मनोगत, वचनगत और कायगत पदार्थ को जो जानता है, वह ऋजुमति मनःपर्ययज्ञान है। जिसकी मति विस्तीर्ण है, वह विपुलमति मनःपर्ययज्ञान है। द्रव्य की अपेक्षा वह जघन्य रूप से चक्षु इन्द्रिय की निर्जरा को जानता है। कालकी अपेक्षा जघन्य से सात-आठ भवों को और उत्कृष्ट से असंख्यात भवों को जानता है। श्रेत्र की अपेक्षा जघन्य से योजनपृथक्त्वप्रमाण (आठ-नौ घन योजन प्रमाण) क्षेत्र को जानता है। भाव की अपेक्षा जो भी द्रव्य इसे ज्ञात है उस—उसकी असंख्यात पर्यायों को जानता है। ऋजुमति में इन्द्रियों और मन की अपेक्षा होती है; किन्तु विपुलमति में उनकी अपेक्षा नहीं होती है।

केवलज्ञान सम्पूर्ण तथा अखण्ड है। खण्डरहित होने से वह सकल है। पूर्ण रूप से विकास को प्राप्त होने से उसे सम्पूर्ण कहा गया है। कर्म-शत्रुओं का अभाव होने से वह असपल है। केवलज्ञान का विषय तीनों कालों और तीनों लोकों के सम्पूर्ण पदार्थ माने गये हैं। यथार्थ में केवलज्ञान की स्वच्छता का ऐसा परिणामन है कि तीनों लोकों व तीनों कालों के जितने पदार्थ हैं वे सब एक साथ एक समय में केवलज्ञान में झलकते हैं। लोक में ऐसा कोई ज्ञेय नहीं है जो केवलज्ञान का विषय न हो। अतः ज्ञान का धर्म ज्ञेय को जानना है और ज्ञेय का स्वभाव ज्ञान का विषय होना है। इन दोनों में विषय-विषयीभाव का सम्बन्ध है। लेकिन सर्वज्ञ का ज्ञान सम्पूर्ण सम्बन्धों से रहित परम स्वाधीन है। फिर, ज्ञान ज्ञान-चेतना से निकलकर बाहर जाता नहीं है और ज्ञेय कभी भी ज्ञान में प्रवेश करता नहीं है। अतएव केवलज्ञान असहाय है, उसे मन और इन्द्रियों की तथा ज्ञेय द्रव्यों की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं होती है। यही कारण है कि केवलज्ञानी का ज्ञान युगपत् (एक साथ) सब को जानता है; क्रमवार नहीं। लेकिन एक साथ तीनों लोकों, तीनों कालों के सभी द्रव्यों, उनके गुणों और पर्यायों को जानने पर भी ज्ञान सीमित नहीं होता, बल्कि व्यापक हो जाता है।

कर्म की सामान्य प्रकृतियाँ १४८ हैं। इनके विशेष भेद किये जायें, तो अनन्त भेद हो जाते हैं। ओषसे ५ ज्ञानावरण तथा ५ अन्तराय की प्रकृतियों का सर्वबन्ध होता है। आयुर्कर्म को छोड़कर सातों कर्मों की प्रकृतियों का निरन्तर बन्ध होता है। मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योगों के निमित्त से कर्म उत्पन्न होते हैं और कर्मों के निमित्त से जाति, बुद्धापा, मरण और वेदना उत्पन्न होते हैं। शुभाशुभ कर्मों का विपाक प्रकृति, स्थिति, प्रदेश और अनुभाग इन चार भागों में विभक्त है। जीवों को एक और अनेक जन्मों में पुण्य तथा पाप कर्म का फल प्राप्त होता है।

धर्मध्यान कषायसहित जीवों के होता है। जिनदेव का उपदेश है कि असंयत सम्यग्दृष्टि के धर्मध्यान

होता है। (षट्खण्डागम, वर्गणाखण्ड ५, ४, २६) प्रथमोपशम सम्यक्त्व में मिथ्यात्व गुणस्थान सम्बन्धी १६ और सासादन गुणस्थान सम्बन्धी २५ प्रकृतियों का अभाव होने से बन्ध योग्य ७७ प्रकृतियों कही गयी हैं। द्वितीयोपशम सम्यक्त्व में सातवें गुणस्थान से ग्यारहवें पर्यन्त आरोहरण कर जब उतरकर चौथे गुणस्थान में आता है, तब भी ७७ प्रकृतियों का बन्ध होता है तथा प्रथमोपशम सम्यक्त्व की भाँति मनुष्यायु और देवायु का अभाव होता है।

दर्शनावरण, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी, तिर्यचगति त्रिक का जघन्य बन्धकाल अन्तर्मुहूर्त है। 'कर्मस्थिति' शब्द से केवल दर्शनमोहनीय की सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति का ग्रहण हुआ है। उस में सब कर्मों की स्थिति संगृहीत है। (महाबन्ध, भा. १, पृ. ६३) अनन्तानुबन्धी का सासादन पर्यन्त बन्ध होता है, किन्तु मिथ्यात्व का प्रथम गुणस्थान पर्यन्त।

'महाबन्ध' के प्रथम भाग का 'प्रकृतिबन्धाधिकार' षट्खण्डागमके वर्गणा खण्ड के अन्तर्गत बन्धनीय अर्थाधिकार में २३ पुद्गल वर्गणाओं की प्ररूपणा में विवेचित है। मिथ्यादर्शन, असंयमादि परिणाम विशेष से कार्मणवर्गणा के परमाणु कर्म रूप से परिणत होकर जीवप्रदेशों के साथ सम्बद्ध होते हैं जिसे 'प्रकृतिबन्ध' कहते हैं। इस प्रकृतिबन्ध की प्ररूपणा २४ अनुयोग द्वारों में की गयी है जो इस प्रकार है—

१. प्रकृति समुत्कीर्तन—इस अनुयोगद्वार में कर्म की मूल और उत्तर प्रकृतियों की प्ररूपणा है। महाबन्ध के इस भाग में ज्ञानावरणीय की उत्तर तथा उत्तरोत्तर प्रकृतियों की प्ररूपणा अनुयोगद्वार के समान प्ररूपित है।

२-३. सर्वबन्ध-नोसर्वबन्ध—इन दो अनुयोगद्वारों में ज्ञानावरणादि कर्म-प्रकृतियों के विषय में सर्वबन्ध और नोसर्वबन्ध की प्ररूपणा की गयी है। जिस कर्म की जब अधिक से अधिक प्रकृतियाँ एक साथ बँधती हैं, तब उनके बन्ध को सर्वबन्ध कहते हैं। उदाहरण के लिए, ज्ञानावरण की पाँच प्रकृतियाँ और अन्तराय की पाँच प्रकृतियाँ दोनों अपनी बन्ध-व्युच्छिति होने तक सूक्ष्म सांपराय गुणस्थान तक साथ-साथ बँधती हैं, इसलिए इन दोनों कर्मों का सर्वबन्ध है। दर्शनावरण की नौ प्रकृतियाँ दूसरे गुणस्थान तक साथ-साथ बँधती हैं, इसलिए उसका दूसरे गुणस्थान तक सर्वबन्ध है। दूसरे गुणस्थान में निद्रानिद्रा, प्रचला-प्रचला तथा स्थानगृद्धि इन तीन की बन्ध-व्युच्छिति हो जाने से उसके बाद के अपूर्वकरण गुणस्थान के प्रथम भाग तक छह प्रकृतियाँ बँधती हैं, इसलिए उसका यह नोसर्वबन्ध है। इसी प्रकार प्रथम भाग में निद्रा और प्रचला इन दो प्रकृतियों के व्युच्छिन्न हो जाने पर सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थान तक उसकी चार प्रकृतियाँ बँधती हैं जो दर्शनावरण का नोसर्वबन्ध है। वेदनीय, आयु और गोत्र इन तीन कर्मों का नोसर्वबन्ध ही होता है। इसका कारण यह है कि एक समय में इन कर्मों की एक प्रकृति का ही बन्ध सम्भव है।

४-७. उत्कृष्टबन्ध, अनुत्कृष्टबन्ध, जघन्यबन्ध और अजघन्यबन्ध ये प्रकृतिबन्ध में सम्भव नहीं हैं।

८-९. सादि-अनादिबन्ध—किसी कर्मप्रकृति के बन्ध का अभाव हो जाने पर पुनः उसका बन्ध होना सादिबन्ध कहा जाता है। जैसे कि ज्ञानावरण की ५ प्रकृतियों का बन्ध सूक्ष्मसाम्पराय तक होता है। जो जीव इस गुणस्थान में बन्ध-व्युच्छिति करके उपशान्तकषाय हुआ है, उसके वहाँ उनके बन्ध का अभाव हो गया। परन्तु जब उपशान्तकषाय से गिरकर सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थान में आता है, तब उन प्रकृतियों का पुनः बन्ध होने लगता है। इसे सादिबन्ध कहते हैं।

जब तक जीव श्रेणि पर आरोहण नहीं करता, तब तक उसके अनादिबन्ध होता रहता है। सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थान तक अनादिबन्ध कहा गया है। इसी प्रकार अन्य कर्मों के सम्बन्ध में भी सादि-अनादि बन्ध का विचार किया गया है।

१०-११. ध्रुव-अध्रुवबन्ध—अभय्य जीव के जो बन्ध होता है वह ध्रुवबन्ध है, क्योंकि उसके अनादिकाल से होने वाले उस कर्मबन्ध का कभी अभाव होने वाला नहीं है। किन्तु भय्य जीवों का कर्मबन्ध अध्रुवबन्ध है, क्योंकि उनके कर्मबन्ध का अभाव हो सकता है।

१२. बन्ध-स्वामित्वविचय—इस प्रकरण का औघ तथा आदेश से दो प्रकार का निर्देश किया गया है।

ओघ की अपेक्षा मिथ्यादृष्टि से लेकर अयोगकेवली पर्यन्त चौदह जीव-समास-गुणस्थान होते हैं। इन में प्रकृतिबन्ध की व्युच्छित्ति कही गई है। बन्ध-व्युच्छित्ति प्राप्त प्रकृतियों इस प्रकार हैं—

मिथ्यात्व में १६, सासादन में २५, अविरत में १०, देशविरत में ४, प्रमत्तसंयत में ६, अप्रमत्तसंयत में १, अपूर्वकरण में ३६, अनिवृत्तिकरण में ५, सूक्ष्मसाम्पराय में १६, सयोगकेवली में १—इस प्रकार इन १० गुणस्थानों के जीव बन्धक हैं; शेष अबन्धक हैं।

मनुष्यगति में मिथ्यात्व आदि चौदह गुणस्थान हैं। कर्म-बन्ध के योग्य १२० प्रकृतियों हैं। इनका वर्णन ओघवत् किया गया है। इनमें विशेष यह है कि मिथ्यात्व गुणस्थान में तीर्थंकर, आहारक द्विकका बन्ध न होने से शेष ११७ प्रकृतियों का बन्ध होता है। सासादन गुणस्थान में मिथ्यात्वादि १६ प्रकृतियों का बन्ध न होने से १०१ प्रकृतियों का बन्ध होता है। मिश्र गुणस्थान में ६६ प्रकृतियों का बन्ध होता है। अविरत सम्यग्दृष्टि के देवायु तथा तीर्थंकर का बन्ध प्रारम्भ हो जाने से ७१ प्रकृतियों का बन्ध होता है। देशविरत में अप्रत्याख्यानावरण ४ का बन्ध न होने से ६७ प्रकृतियों का बन्ध होता है। प्रमत्त गुणस्थान में प्रत्याख्यानावरण ४ का बन्ध न होने से ६३ प्रकृतियों का बन्ध होता है। अप्रमत्तसंयत के अस्थिर, असाता, अशुभ, अरति, शोक, अयशःकीर्ति इन छह का बन्ध नहीं होता, किन्तु आहारकद्विकका बन्ध होने से ५६ प्रकृतियों का बन्ध होता है। अपूर्वकरण में देवायु का बन्ध न होने से ५८ प्रकृतियों का बन्ध होता है। अनिवृत्तिकरण में बन्ध योग्य २२ प्रकृतियों हैं। सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थान में अनिवृत्तिकरण की पुरुषवेद और ४ सञ्चलन कषायों की बन्ध-व्युच्छित्ति हो जाने से १७ प्रकृतियों का बन्ध होता है। उपशान्तकषाय में एक सातावेदनीय का ही बन्ध होता है। क्षीणकषाय और सयोगी जिन के एक सातावेदनीय का ही बन्ध कहा गया है। अयोगकेवली के कोई बन्ध नहीं होता।

इनके अतिरिक्त बारह अनुयोगद्वारों में भी उल्लेख किया गया है। उन अनुयोगद्वारों के नाम इस प्रकार हैं—

१३. एक जीव की अपेक्षा काल-प्ररूपणा,
१४. एक जीव की अपेक्षा अन्तरानुगम प्ररूपणा,
१५. सन्निकर्ष-प्ररूपणा,
१६. भंगविचय-प्ररूपणा,
१७. भागाभागानुगम-प्ररूपणा,
१८. परिमाणानुगम-प्ररूपणा,
१९. क्षेत्रानुगम-प्ररूपणा,
२०. स्पर्शनानुगम-प्ररूपणा,
२१. अनेक जीवों की अपेक्षा कालानुगम प्ररूपणा,
२२. नाना जीवों की अपेक्षा अन्तरानुगम प्ररूपणा,
२३. भावानुगम-प्ररूपणा,
२४. अल्पबहुत्वानुगम-प्ररूपणा

इस प्रकार चौबीस अनुयोगद्वारों में कर्म की मूल और उत्तर प्रकृतियों की प्ररूपणा के समान प्रकृत प्रकृतिबन्धाधिकार (महाबन्ध) में प्रकृति अनुयोगद्वार के समान ज्ञानावरणीय प्रकृतियों के प्रसंग से उत्तर प्रकृतियों तथा उत्तरोत्तर प्रकृतियों की प्ररूपणा की गई है। प्रकृतिअनुयोगद्वार में जिन गाथा-सूत्रों का उपयोग किया गया है, 'महाबन्ध' की इस पुस्तक में भी आगे-पीछे वे ही प्रयुक्त हैं। (महाबन्ध, १, पृ. २१-२३)

—देवेन्द्रकुमार शास्त्री

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
मङ्गलाचरण	१	७. बन्धस्वामित्वविचय-प्ररूपणा	
मूल प्रकृतिसमुत्कीर्तन		ओघ से चौदह गुणस्थानों में	
आठ प्रकार के कर्म	२०	प्रकृतिबन्ध की व्युत्पत्ति	३७
ज्ञानावरण कर्म की पाँच प्रकृतियाँ	२१	तीर्थकर नामगोत्रकर्म का बन्ध	४१
आभिनिबोधक ज्ञानावरण-प्ररूपणा	२१	आदेश से तीसरे नरक तक	
श्रुतज्ञानावरण-प्ररूपणा	२२	तीर्थकर प्रकृति का बन्ध	४७
१. अवधिज्ञानावरण-प्ररूपणा		तिर्यचों में बन्धक	४८
भवप्रत्यय और क्षयोपशमनिमित्तक	२४	मिथ्यात्व गुणस्थान के बन्धक	४८
अवधिज्ञान के तीन भेद	२५	८. काल-प्ररूपणा	
अवधिज्ञान सम्बन्धी १६ काण्डकों		एक जीव की अपेक्षा वर्णन	५५
का निरूपण	२६	तिर्यचों में बन्धकाल	५६
परमावधि का काल	२७	देवों में जघन्य तथा उत्कृष्ट आयु	५६
परमावधि का क्षेत्र	२८	एकेन्द्रियों में जघन्य तथा उत्कृष्ट	
२. मनःपर्ययज्ञानावरण-प्ररूपणा		बन्धकाल	६१
दो प्रकार की प्ररूपणा	२६	पंचेन्द्रियों में जघन्य तथा उत्कृष्ट	
क्षेत्र तथा काल की अपेक्षा प्ररूपणा	३१	बन्धकाल	६२
३. केवलज्ञानावरण-प्ररूपणा		स्त्रीवेद में जघन्य तथा उत्कृष्ट	
त्रैकालिक तथा त्रिलोक विषयक ज्ञान	३२	बन्धकाल	६६
सर्वज्ञता	३३	उपशम श्रेणी की अपेक्षा बन्धकाल	६८
४. दर्शनावरणादि कर्म-प्ररूपणा		अभव्यसिद्धिक जीव की अपेक्षा	
दर्शनावरणादि कर्म-प्रकृतियाँ	३३	बन्धकाल	६६
कुल १४८ कर्म-प्रकृतियाँ	३४	तिर्यचगति त्रिक का ओघ से	
५. सर्वबन्धनोसर्वबन्ध-प्ररूपणा		बन्धकाल	७०
सर्वबन्ध तथा नोसर्वबन्ध	३४	मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्वी	
उत्कृष्टबन्ध-अनुत्कृष्टबन्ध-प्ररूपणा	३५	का बन्धकाल	७०
जघन्यबन्ध-अजघन्यबन्ध-प्ररूपणा	३५	मनुष्यगति पंचक का जघन्य	
६. सादि-अनादि-ध्रुव-अध्रुवबन्ध-प्ररूपणा		तथा उत्कृष्ट बन्धकाल	७१
ओघ से सादिबन्ध	३६	संयमासंयम का स्थितिकाल	७२
आयुबन्ध के विषय में नियम	३६	लेश्याओं में बन्धकाल	७२
ओघ तथा आदेश का अर्थ	३७	सम्यक्त्व में बन्धकाल	७६
ध्रुव तथा अध्रुवबन्ध	३७	आहारकों-अनाहारकों में बन्धकाल	७८
		९. अन्तरानुगम-प्ररूपणा	
		एक जीव की अपेक्षा ओघ से वर्णन	७६

महाबन्ध

प्रत्याख्यानावरणी-अप्रत्याख्यानावरणी		नोकषायादि का बन्धक मिथ्यात्व	
रूप आठ कषायों का बन्ध-काल	८०	का स्यात् बन्धक है	११४
अप्रमत्तसंयत का उत्कृष्ट अन्तर	८१	नरकत्रिक का बन्धक	११६
नारकियों में आदेश से बद्धचमान		तिर्यचगति का बन्धक	११६
प्रकृतियों में अन्तर	८२	मनुष्यगति का, देवगति का बन्धक	११७
तिर्यचों में बन्ध का अन्तर	८३	एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, पंचेन्द्रिय	
देवों में बन्ध का अन्तर	८७	जाति नामकर्म का बन्धक	११८
एकेन्द्रियों में बन्ध का अन्तर	८६	औदारिक, वैक्रियिक शरीर	
विकलत्रयों में बन्ध का अन्तर	६१	का बन्धक	११६
पंचेन्द्रिय, त्रसकाय तथा उनके		तैजस शरीर का बन्धक	१२०
पर्याप्तकों में अन्तर	६१	छह संहननों के बन्धक, अबन्धक	१२१
योगों तथा काययोगों का अन्तर-काल	६३	परघात के बन्धक	१२३
वेदों का अन्तरकाल	६६	आताप और उद्द्योत के बन्धक	१२४
ज्ञानावरणादि का अन्तर नहीं	१०१	बादर-सूक्ष्म के बन्धक	१२५
अज्ञानी जीवों का उत्कृष्ट अन्तर	१०२	स्थिर के बन्धक	१२७
मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान		गोत्र, अन्तराय के बन्धक	१२८
तथा मनःपर्ययज्ञान में अन्तर	१०३	आदेश से चारों गतियों के बन्धक	१२८
चक्षुदर्शनी तथा अचक्षुदर्शनी		काययोगों में बन्धक	१२६
का अन्तर	१०५	संयतासंयत, वेदक-उपशम	
छहों लेश्या वाले जीवों में अन्तर	१०६	सासादन सम्यक्त्व में बन्धक	१३१
क्षायिक सम्यक्त्व तथा वेदक		११. परस्थानसन्निकर्ष-प्ररूपणा	
सम्यक्त्व में अन्तर	१०८	ओघ से आभिनिबोधिक ज्ञानावरण	
उपशम सम्यक्त्वी में अन्तर	१०६	के बन्धक	१३२
आहारक तथा अनाहारकों में अन्तर	११०	निद्रा, निद्रा-निद्रा के बन्धक	१३३
१०. स्वस्थानसन्निकर्ष-प्ररूपणा		साता-असाता के बन्धक	१३४
ज्ञानावरण की प्रकृति का बन्धक		नोकषायों के बन्धक	१३४
नियमतः चारों का बन्धक	१११	मिथ्यात्व के बन्धक	१३५
निद्रानिद्रा का बन्धक नियम से		अप्रत्याख्यानावरण-प्रत्याख्यानावरण-	
दर्शनावरण का बन्धक	१११	संज्वलन क्रोध के बन्धक	१३६
अनन्तानुबन्धी क्रोध के बन्धक के		वेदों के बन्धक	१३७
मिथ्यात्व का बन्ध होने का		हास्य, रति, भय के बन्धक	१३६
नियम नहीं	११२	चारों गतियों के बन्धक	१४०
अप्रत्याख्यानावरण-प्रत्याख्यानावरण		आहारकादि शरीरों के बन्धक	१४४
तथा संज्वलन क्रोध के बन्धक के		संस्थान एवं संहननादि के बन्धक	१४४
मिथ्यात्व का बन्ध होने का		उद्द्योत के बन्धक	१४५
नियम नहीं	११३	तीर्थकर तथा उच्चगोत्र के बन्धक	१४६
संज्वलन क्रोध का बन्धक मान,		काययोगों के बन्धक	१४७
माया, लोभ रूप संज्वलन का		लेश्याओं में बन्धक	१४८
नियम से बन्धक	११४	१२. भंगविचयानुगम-प्ररूपणा	
		ओघ से नाना जीवों की अपेक्षा	
		साता के बन्धक	१४६

आदेश की अपेक्षा नरकगति के बन्धक	१५०	१४. परिमाणानुगम-प्ररूपणा	
तिर्यचों में बन्धक	१५१	ओघ से वर्णन	१६४
मनुष्यत्रिक में बन्धक	१५२	आदेश से नरक-तिर्यचगति में बन्धक	१६५
मनुष्यलब्ध्यपर्याप्तकों में बन्धक	१५३	मनुष्यों में बन्धक	१६६
देवों में बन्धक	१५३	ओघ से देवगति में बन्धक	१६७
काययोगों में बन्धक	१५३	त्रसपर्याप्तकों में बन्धक	१६८
क्षायिक, वेदक, उपशम सम्यक्त्व में बन्धक	१५६	योगों में बन्धक	१६९
अनाहारकों में बन्धक	१५७	स्त्रीवेद में बन्धक	२०१
१३. भागाभागानुगम-प्ररूपणा		मति-श्रुत-अवधिज्ञान में बन्धक	२०२
ओघ से वर्णन	१५८	छहों लेश्याओं में बन्धक	२०३
आदेश से साता-असाता के बन्धक	१६०	सम्यग्दृष्टियों में बन्धक	२०४
मनुष्य तथा तिर्यचगति के बन्धक	१६२	१५. क्षेत्रानुगम-प्ररूपणा	
पंचेन्द्रिय तिर्यचों में बन्धक	१६३	ओघ से बन्धक	२०६
मनुष्य-देव-नरकायु के बन्धक	१६४	साता-असाता के बन्धक	२०६
पंचेन्द्रिय तिर्यच लब्धि पर्याप्तक-अपर्याप्तकों में बन्धक	१६६	काययोगों के बन्धक	२०६
मनुष्यलब्ध्यपर्याप्त-पर्याप्तकों में बन्धक	१६७	आदेश से नारकियों में बन्धक	२१०
ओघ से देवगति में बन्धक	१६८	तिर्यचों में बन्धक	२११
एकेन्द्रियों में बन्धक	१७०	मनुष्यत्रिकों में बन्धक	२१२
सूक्ष्म अपर्याप्तकों में बन्धक	१७२	एकेन्द्रियों में बन्धक	२१४
पंचेन्द्रियों में बन्धक	१७३	१६. स्पर्शानुगम-प्ररूपणा	
त्रसों में बन्धक	१७४	ओघ से बन्धकों का क्षेत्र-स्पर्शन	२१७
योगों में बन्धक	१७५	मिथ्यात्व तथा अप्रत्याख्यानावरण के बन्धकों का सर्वलोक-स्पर्शन	२१६
काययोगों में बन्धक	१७६	तीनों वेदों तथा चारों आयु के बन्धकों का क्षेत्र-स्पर्शन	२२०
वेदों में बन्धक	१७६	आदेश से नारकियों में बन्धकों का क्षेत्र-स्पर्शन	२२१
क्रोधकषाय में बन्धक	१८०	तिर्यचगति के बन्धकों का क्षेत्र-स्पर्शन	२२२
साता-असाता के बन्धक	१८३	छहों संहननों के बन्धकों का क्षेत्र-स्पर्शन	२२५
मति-श्रुत-अवधि-मनःपर्ययज्ञान में बन्धक	१८४	पंचेन्द्रिय-तिर्यच-लब्ध्यपर्याप्तकों में बन्धकों का क्षेत्र-स्पर्शन	२२६
परिहारविशुद्धि, सूक्ष्मसाम्पराय, यथाख्यातसंयम में बन्धक	१८५	लबध्यपर्याप्तक मनुष्यों में बन्धकों का क्षेत्र-स्पर्शन	२३०
छहों लेश्याओं में बन्धक	१८६	देवों में बन्धकों का क्षेत्र-स्पर्शन	२३३
क्षायिक सम्यग्दृष्टियों में बन्धक	१८६	एकेन्द्रियों में बन्धकों का क्षेत्र-स्पर्शन	२३६
वेदक-उपशम-सासादन सम्यक्त्व में बन्धक	१९०	पंचेन्द्रिय पर्याप्तकों में बन्धकों का क्षेत्र-स्पर्शन	२३८
सम्यक्त्वमिथ्यात्वी में ध्रुव प्रकृतियों के बन्धक	१९०		
आहारक-अनाहारकों में साता-असाता के बन्धक	१९१		

ओष से काययोगियों में बन्धकों का क्षेत्र-स्पर्शन	२४२	आदेश से नारकियों में बन्धकों के भाव	३०१
वेदों में बन्धकों का क्षेत्र-स्पर्शन	२४७	तिर्यचों में बन्धकों के भाव	३०५
मत्स्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी में बन्धकों का क्षेत्र-स्पर्शन	२५५	एकेन्द्रियों में बन्धकों के भाव	३०७
आभिनिबोधिक-श्रुत-अवधिज्ञानियों में बन्धकों का क्षेत्र-स्पर्शन	२५८	देवों में बन्धकों के भाव	३०८
संयतासंयत जीवों में बन्धकों का क्षेत्र-स्पर्शन	२६०	काययोगों में बन्धकों के भाव	३०९
छहों लेश्याओं में बन्धकों का क्षेत्र-स्पर्शन	२६२	वेदों के बन्धकों के भाव	३१२
सम्यक्त्वों में बन्धकों का क्षेत्र-स्पर्शन	२६८	अपगतवेद में बन्धकों के भाव	३१५
आहारक-अनाहारकों में बन्धकों का क्षेत्र-स्पर्शन	२७२	सामायिक, छेदोपस्थापना संयम में बन्धकों के भाव	३१६
१७. कालानुगम-प्ररूपणा		तेजोलेश्या में बन्धकों के भाव	३१७
नाना जीवों की अपेक्षा ओष से वर्णन	२७३	तिर्यच-मनुष्य-देवायु के बन्धकों के भाव	३१८
आदेश से नारकियों में बन्धकाल	२७४	उपशमादि सम्यक्त्व में बन्धकों के भाव	३१८
तिर्यचों में बन्धकाल	२७५	अनाहारकों में बन्धकों के भाव	३२०
मनुष्यों में बन्धकाल	२७६	२०. स्वस्थानजीव-अल्पबहुत्व-प्ररूपणा	
योगों, काययोगों तथा वेदों में बन्धकाल	२७८	अल्पबहुत्व के भेद	३२१
मति-श्रुत-अवधिज्ञान, परिहार-विशुद्धिसंयम तथा संयतासंयतों में बन्धकाल	२८३	ओष से अल्पबहुत्व का निर्देश	३२१
लेश्याओं तथा सम्यक्त्वों में बन्धकाल	२८४	आदेश से नारकियों में अल्पबहुत्व का कथन	३२५
१८. अन्तरानुगम-प्ररूपणा		तिर्यचों में अल्पबहुत्व	३२६
ओष से अन्तर-निरूपण	२८७	चारों गतियों की आयु के बन्धक जीव	३२७
आदेश से नारकियों तथा तिर्यचों में अन्तर	२८८	देवगति के बन्धक जीव	३२८
मनुष्यों तथा देवों में अन्तर	२८९	औदारिक शरीर के बन्धक जीव	३२८
योगों में अन्तर	२९०	पंचेन्द्रिय तिर्यच लब्ध्यपर्याप्तकों में जीव	३२९
वेदों में अन्तर	२९२	मनुष्यगति के बन्धक जीव	३२९
आभिनिबोधिक श्रुत, अवधि, मनःपर्यय में अन्तर	२९३	दर्शनावरण, साता-असाता, लोभ, संज्वलन तथा नोकषाय के अबन्धक जीव	३३०
लेश्याओं में अन्तर	२९४	चारों गतियों के अबन्धक जीव	३३१
सम्यग्दृष्टियों में अन्तर	२९४	आहारक शरीर के बन्धक जीव	३३७
१९. भावानुगम-प्ररूपणा		नामकर्म सम्बन्धी चारों गतियों के अबन्धक जीव	३३७
भावानुगम का निर्देश	२९७	काययोगियों में बन्धक जीव	३३९
ओष से बन्धकों के भावों का निरूपण	२९८	वेदों में बन्धक जीव	३४१
		कषाय-अकषायों में बन्धक जीव	३४३

विषय-सूची

१२३

मनुष्य-देव-नरकायु के बन्धक- अबन्धक जीव	३४६	वेदों में बन्धक जीव	३६६
सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, यथाख्यातसंयम एवं संयतासंयतोंमें बन्धक-अबन्धक जीव	३४७	आभिनिबोधिक-श्रुत-अवधिज्ञान में बन्धक जीव	३७१
तीन कृष्ण, नील, तेजलेश्याओं में बन्धक-अबन्धक जीव	३४८	मनःपर्ययज्ञान में बन्धक जीव	३७२
अन्य तीन लेश्याओं में बन्धक- अबन्धक जीव	३५०	छहों लेश्याओं में बन्धक जीव	३७३
पाँचों शरीरों, संस्थानों तथा संहननों के बन्धक जीव	३५२	सम्यग्दृष्टियों में बन्धक जीव	३७५
सम्यग्दृष्टियों में बन्धक, अबन्धक जीव	३५३	आहारक-अनाहारकों में बन्धक जीव	३७८
आनुपूर्वियों में आहारक शरीर के बन्धक-अबन्धक जीव	३५४	२२. स्वस्थान अद्धा-अल्पबहुत्व-प्ररूप ओष से परिवर्तमान प्रकृतियों के बन्धकों का जघन्य-उत्कृष्टकाल	३७६
वैक्रियिक, तैजस, कर्मण शरीर के बन्धक जीव	३५६	चौदह जीवसमासों में बन्धकों का काल	३७६
अनाहारकों में बन्धक जीव	३५७	आदेश से नारकियों में बन्धकों का काल	३८३
२१. परस्थान-जीव-अल्प-बहुत्व-प्ररूपणा ओष से बन्धक जीव	३५८	पंचेन्द्रिय तिर्यचों तथा मनुष्यों में बन्धकों का काल	३८४
आदेश से नारकियों में बन्धक जीव	३५९	एकेन्द्रियों में बन्धकों का काल	३८५
तिर्यचों में बन्धक जीव	३६०	काययोगियों में बन्धकों का काल	३८६
मनुष्यों में बन्धक जीव	३६२	सम्यग्दृष्टियों, मति-श्रुत-अवधि मनःपर्ययज्ञान में बन्धकों का काल	३८७
देवों में बन्धक जीव	३६३	छहों लेश्याओं में बन्धकों का काल	३८७
एकेन्द्रियों में बन्धक जीव	३६५	२३. परस्थान-अद्धा-अल्पबहुत्व-प्ररूपणा परिवर्तमान सत्रह प्रकृतियों के बन्धकों का काल	३८८
त्रस पर्याप्तकों में बन्धक जीव	३६६	आदेश से नारकियों में बन्धकों का काल	३८९
योगों तथा काययोगियों में बन्धक जीव	३६७	मनुष्य-तिर्यचायु के बन्धकों का जघन्य काल	३९०
		लेश्याओं में बन्धकों का काल	३९३

महाबंधस्स
पयडिबंधो
पढमो अत्थाहियारो

मंगल-स्मरणम्

वारह-अंगगिञ्जा वियलिय-मल-भूढ-दंसणुत्तिलया ।
विविह-वर-चरण-भूसा पसियउ सुय-देवया सुइरं ॥ १ ॥



जयउ धरसेणणाहो जेण महाकम्मपयडि-पाहुडसेलो ।
बुद्धिसिरेणुद्धरिओ समप्पिओ पुप्फयंतस्स ॥ २ ॥



पणमह कय-भूय-बलिं भूयबलिं केस-वास-परिभूय-बलिं ।
विणिहय-बम्मह-पसरं वड्ढाविय-विमल-णाण-बम्मह-पसरं ॥ ३ ॥



भूतबलिप्रणीतं तं बन्धतस्वप्रकाशकम् ।
महाधवलविख्यातं महाबन्धं नमाम्यहम् ॥ ४ ॥



सिद्धानां कीर्तनादन्ते यः सिद्धान्त-प्रसिद्ध-वाक् ।
सोऽनाद्यनन्तसंतानः सिद्धान्तो नोऽवताञ्छिरम् ॥ ५ ॥



जिणवयणमोसहमिणं विसयसुह-विरेयणं अमिदभूयं ।
जर-मरण-बाहिहरणं खयकरणं सव्वदुक्खाणं ॥ ६ ॥

जयउ सुय-देवदा

सिरि भगवंतभूदबलिभडारयपणीदो

महाबंधो

[पहमो पयडिबंधाहियसो]

[अनुवादकर्ताका मंगल]

महाधवल नामसे प्रसिद्ध इस महाबन्ध महाशास्त्रकी टीकानिर्माणका कठिन कार्य निर्दोष तथा निरन्तराय सम्पन्न हो, इस कामनासे वेदनाखण्डकी धवलाटीकाके प्रारम्भमें श्रीरसेनाचार्यकृत मंगलगाथाओं-द्वारा पंच-परमेष्ठीका पुण्य-स्मरण किया जाता है—

सिद्धा दद्वट्टमला विसुद्धबुद्धीय लडसव्वत्था ।

तिहुवण-सिर-सेहरया पसियंतु भडारया सव्वे ॥ १ ॥

अर्थ—जिन्होंने ज्ञानावरणादि अष्ट प्रकारके कर्ममलको दग्ध कर दिया है, जिन्होंने विशुद्ध बुद्धि-केवलज्ञान-द्वारा समस्त पदार्थोंको उपलब्धि की है—इनका पूर्ण बोध प्राप्त किया है, जो त्रिभुवनके मस्तकपर मुकुटके समान विराजमान हैं, वे सम्पूर्ण सिद्ध भट्टारक प्रसन्न होंगे।

भाषार्थ—आत्माका सहज स्वभाव अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख तथा अनन्त वीर्य है। मोहनीय ज्ञानावरणादि कर्मोंका मल आत्मामें अनादिसे लगा हुआ है, जिससे यह संसारी आत्मा जगत्में परिभ्रमण किया करती है। सिद्ध भगवान्ने उस कर्ममलका ध्वंस कर दिया है। विशुद्धज्ञानके कारण समस्त पदार्थोंका बोध होता है। जिस प्रकार दर्पणके तलसे मल दूर होनेपर बाह्य वस्तुएँ स्वयमेव दर्पणकी निर्मलताके कारण उसमें प्रतिबिम्बित होती हैं, उसी प्रकार कर्ममलरहित आत्मामें स्वतः सर्व पदार्थ झलकते हैं।

निर्मल तथा पूर्णबोधयुक्त होनेसे तथा कर्ममलरहित होनेके कारण सिद्ध परमात्मा जगत्में श्रेष्ठ हैं। उनके द्वारा विश्व शोभित होता है। वे लोकके अग्रभागमें विद्यमान ईषत्प्राग्भार पृथ्वीके ऊपर अवस्थित हैं और ऐसे मालूम पड़ते हैं मानो त्रिभुवनके मस्तकपर मुकुट ही हों। यहाँ लोककी पुरुषाकृतिको दृष्टिमें रखकर सिद्धोंको मुकुट कहा गया है।

सिद्ध परमात्माकी निवासभूमिके विषयमें तिलोयपण्णत्तिमें इस प्रकार कथन किया गया है, “सर्वार्थसिद्धि इन्द्रक विमानके ध्वज-दण्डसे द्वादश योजन मात्र ऊपर जाकर आठवीं पृथ्वी स्थित है। उसके उपरिम और अधस्तन तलमें-से प्रत्येकका विस्तार पूर्व-पश्चिममें

रूपरहित एक राजू है। वेत्रासनके सदृश वह पृथ्वी उत्तर-दक्षिण भागमें कुछ कम सात राजू लम्बी तथा आठ योजन बाहुल्यवाली है। यह पृथ्वी घनोदधि, घनवात और तनुवात इन तीन वायुओंसे युक्त है। इनमें प्रत्येक वायुका बाहुल्य बीस हजार योजन प्रमाण है (८-६५४, ति० प०)।”

इसके बहुमध्य भागमें चाँदी तथा सुवर्णके समान नाना रत्नोंसे परिपूर्ण ईषत् प्राग्भारा नामका क्षेत्र है। यह क्षेत्र ऊर्ध्वमुखयुक्त धबल छत्रके समान सुन्दर और पैतालीस लाख योजन प्रमाण विस्तारसहित है। उसका मध्य बाहुल्य अष्ट योजन और अन्तमें एक अंगुल-मात्र है। अष्टम भूमिमें स्थित सिद्ध क्षेत्रकी परिधि मनुष्य क्षेत्रकी परिधिके समान है। (गाथा ६५२ से ६५८ पृ० ८६४ ति० प०)

त्रिलोकसारमें अष्टम पृथ्वीको ईषत्प्राग्भारा कहा है—

त्रिभुवन-मूर्धारूढा ईषत्प्राग्भारा धराष्टमी रुद्रा ।

दीर्घा एक-सप्तस्रज्ज् अष्टयोजन-प्रमितबाहुल्या ॥ ५५६ ॥

त्रिलोकसारके शिखरपर स्थित ईषत्प्राग्भारा नामकी आठवीं पृथ्वी है। वह एक राजू चौड़ी, सात राजू लम्बी तथा आठ योजन प्रमाण बाहुल्य युक्त है।

उस पृथ्वीके मध्यमें जो सिद्धक्षेत्र छत्राकार कहा है, उसका वर्ण त्रिलोकसारमें चाँदीका बताया है।

तन्मध्ये रूप्यमयं छत्राकारं मनुष्यमही-व्यासम् ।

सिद्धक्षेत्रं मध्येऽष्टवेधक्रमहीनं बाहुल्यम् ॥ ५५७ ॥

इस सिद्धक्षेत्रके ऊपर तनुवातबलयमें अष्टगुणयुक्त तथा अनन्त सुखसे सन्तुष्ट सिद्ध त भगवान् रहते हैं। आठवीं पृथ्वीके ऊपर सात हजार पचास धनुष जाकर सिद्धोंका निवास है।

राजवार्तिकके अन्तमें लिखा है—

तन्वी मनोज्ञा सुरभिः पुण्या परमभासुरा ।

प्राग्भारा नाम वसुधा लोकमूर्ध्नि व्यवस्थिता ॥ १६ ॥

नृलोकतुल्यविष्कम्भा सितच्छत्रनिभा शुभा ।

ऊर्ध्वं तस्याः चित्तेः सिद्धाः लोकान्ते समवस्थिताः ॥ २० ॥

त्रिलोकसारके मस्तकपर स्थित प्राग्भारा नामकी पृथ्वी है जो तन्वी अर्थात् स्थूलतार-रहित है, मनोज्ञ है, सुगन्धयुक्त है, पवित्र है तथा अत्यन्त देदीप्यमान है।

वह पृथ्वी नरलोक तुल्य विस्तारयुक्त है। श्वेत वर्णके छत्र समान तथा शुभ है। उस पृथ्वीके ऊपर लोकके अन्तमें सिद्ध भगवान् विराजमान हैं। सकलज्ञ सिद्धोंका निवास-स्थल ही यथार्थमें ब्रह्मलोक है। धवलवर्णयुक्त निर्वाण-स्थलमें महाधवल परणतियुक्त परमात्माका निवास पूर्णतया सुसंगत प्रतीत होता है।

सिद्ध भगवानने राग-द्वेष, मोहादि विभावोंका त्याग कर स्वभावकी उपलब्धि की है। वे वीतराग हो चुके हैं। किसीकी स्तुतिसे वे प्रसन्न नहीं होते और न निन्दासे खिन्न ही

होते हैं। वे राग-द्वेषकी दुविधाके चक्करसे परे पहुँच चुके हैं। ऐसी व्यवस्था होते हुए मंगलगायामें सिद्ध परमात्मासे प्रसन्नताकी प्रार्थनाका क्या रहस्य है? यह विशेष विचारणीय है। यदि भगवान् यथार्थमें प्रसन्न हो गये, तो उनकी वीतरागता कहाँ रही और यदि वे प्रसन्न न हुए, तो प्रसन्नताकी प्रार्थना अप्रयोजनीक ठहरती है।

यथार्थ बात यह है कि प्रसन्न—निर्मलभावपूर्वक प्रभुकी आराधना करनेवाला भक्त उपचारसे प्रभुमें प्रसन्नताका आरोप करता है।

आचार्य विद्यानन्दी आप्तपरीक्षामें लिखते हैं—वीतरागमें क्रोधके समान सन्तोषलक्षण प्रसादकी भी सम्भावना नहीं है। अतः प्रसन्न अन्तःकरणद्वारा प्रभुकी आराधना करना वीतरागकी प्रसन्नता मानी जाती है। इसी अपेक्षासे भगवान्को प्रसन्न कहते हैं, जैसे प्रसन्न अन्तःकरणपूर्वक रसायनका सेवन करके नीरोग व्यक्ति कहता है कि रसायनके प्रसादसे मैं नीरोग हुआ हूँ, उसी प्रकार प्रसन्न चित्तवृत्तिपूर्वक वीतराग प्रभुकी आराधनासे इष्टसिद्धि प्राप्त कर भक्त उपचारसे कहता है कि परमात्माके प्रसादसे मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ है।

इसी दृष्टिसे वीतराग सिद्ध परमात्मासे प्रसन्नताकी प्रार्थना की गयी है।

तिहुवण-भवण-पसरिय-पञ्चक्खवोह-किरण-परिवेदो ।

उडओ वि अणत्थवणो अरहंत-दिवायरो जयऊँ ॥ २ ॥

अर्थ—वे अरहन्त भगवान्रूपी सूर्य जयवन्त हों, जो तीन लोकरूपी भवनमें फैली हुई ज्ञानकिरणोंसे व्याप्त हैं, तथा जो उदित होते हुए भी अस्तको प्राप्त नहीं होते हैं।

भावार्थ—यहाँ अरहन्त भगवान्की सूर्यके साथ तुलना की है। सूर्य स्वपरप्रकाशक है। अरहन्त भगवान्का केवलज्ञान भी स्वपरप्रकाशक है। लोकप्रसिद्ध सूर्यकी अपेक्षा अरहन्त-सूर्यमें विशेषता है। लौकिक सूर्य जब कि मध्यलोकके थोड़े-से प्रदेशको आलोकित करता है, तब अरहन्त सूर्य सकल विश्वको प्रकाशित करता है। सूर्यका उदय और अस्त होता है, किन्तु केवलज्ञान सूर्यका उदय तो होता है, पर अस्त नहीं। जब केवल्यका प्रकाश आत्मामें उत्पन्न हो चुका, तब उस सर्वज्ञ आत्माकी ज्ञानज्योतिको कर्मपटल पुनः कैसे ढाँक सकेंगे? अतः केवलज्ञानसूर्य उदययुक्त होते हुए भी अस्तरहित है। वह अनन्तकाल पर्यन्त प्रकाशित रहता है। अरहन्तसूर्यकी किरणें ज्ञानात्मक हैं, लौकिक सूर्यकी किरणें पौद्गलिक हैं।

ति-रयण-खग-णिहाणुत्तारिय-मोह-सेण-सिर-णिवहो ।

आइरिय-राउ पसियउ परिवालिय-भत्रिय-जिय-लोओ ॥ ३ ॥

१. "प्रसादः पुनः परमेष्ठिनस्तद्विनेयानां प्रसन्नमनोविषयत्वमेव, वीतरागाणां तुष्टिलक्षणप्रसादा-संभवात् कोपासंभवत् । तदारोधकजनैस्तु प्रसन्नेन मनसोपास्यमानो भगवान् प्रसन्न इत्यभिधीयते रसायन-वत् । यथैव हि प्रसन्नेन मनसा रसायनमास्यव्य तत्फलमाप्नुवन्तः सन्तो रसायनप्रसादादिदमस्माकमारोग्यादिकरं समुत्पन्नमिति प्रतिपद्यन्ते तथा प्रसन्नेन मनसा भगवन्तं परमेष्ठिनमुपास्य तद्गुणसकलं श्रेयोमार्गाधिगमलक्षणं प्रतिपद्यमानास्तद्विनेयजनाः भगवत्परमेष्ठिनः प्रसादादस्माकं श्रेयोमार्गाधिगमः सम्पन्न इति समनुमन्यन्ते ।"—आप्तप० पृ० २, ३ । २. "तास्ते कदाचिदुपवासि न राहुगम्यः स्वष्टीकरोष सहसा युगपजगन्ति ॥ नाम्भो-धरोदरनिरुद्धप्रहाप्रभावः सूर्यातिशायिमहिमासि मुनीन्द्रलाके ॥"—भक्तामर० श्लो० १७ ।

अर्थ—जिन्होंने रत्नत्रयरूपी खड्गके प्रहारसे मोहरूपी सेनाके शिर-समूहका नाश कर दिया है तथा भव्य-जीव-लोकका परिपालन किया है वे आचार्य महाराज प्रसन्न होंगे।

भावार्थ—यहाँ आचार्य महाराजकी राजासे तुलना की गयी है। जैसे कोई प्रतापी राजा अपनी प्रचण्ड तलवारके प्रहारसे शत्रुसैन्यका नाश करता है, उसी प्रकार आचार्य परमेश्वरी सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान तथा सम्यक्चारित्र्य रूपी अजेय खड्गसे मोहरूपी सेनाके मस्तकोंका नाश करते हैं। जिस प्रकार राजा अत्याचारीका अन्त करके धर्मपरायण प्रजाका रक्षण करता है, उसी प्रकार आचार्य महाराज मोहका ध्वंस करके भव्यात्माओंका रक्षण करते हैं। मोहके कारण संसारमें भव्य जीव बहुत कष्ट पार रहे थे। आचार्य महाराजने रत्नत्रयसे अपनी आत्माको सुसज्जित करके अपनी पुण्य अभय बाणी तथा जीवनदात्री लेखनीके द्वारा जो वीतरागताकी धारा बहायी, उससे भव्यात्माओंके अन्तःकरणमें जो मोहका आतंक था, वह दूर हुआ और उन्होंने अपने निज रूपकी उपलब्धि की। भव्यात्माओंको जब भी मोहका आतंक व्यथा पहुँचाता है, तब ही वे आचार्य परमेश्वरीके चरणोंका आश्रय ले अभय अवस्थाको प्राप्त होते हैं।

अण्णाणयंधयारे अणोरपारे भमंत-भविषाणं ।

उज्जोवो जेहि कओ पसियंतु सया उवज्झाया ॥ ४ ॥

अर्थ—जिसके ओर-छोरका पता नहीं है, ऐसे अज्ञान-अन्धकारमें भटकनेवाले भव्य-जीवोंको जिन्होंने प्रकाश प्रदान किया है वे उपाध्याय प्रसन्न होंगे।

भावार्थ—यहाँ अज्ञानको अन्धकारकी उपमा दी गयी है। जिस प्रकार चक्षुष्मान् व्यक्ति प्रकाशरहित स्थलमें अन्धेका भौंति आचरण करता है, उसी प्रकार सम्यक्ज्ञानज्योतिके अभावमें यह जीव परद्रव्यको स्व मानकर तथा आत्मतत्त्वको अनात्म पदार्थ मानकर अन्धेके समान प्रवृत्ति करता है। इस मिथ्याज्ञानरूप अन्धकारके आदि-अन्तका पता नहीं चलता है। वह अपार है। उसमें भव्य जीव भटक रहे हैं और परको अपना मानकर दुःखी हो रहे हैं। यह मिथ्याज्ञानका ही प्रभाव है कि जीव कल्याणके मार्गको न पाकर चौरासी लाख योनियोंमें परिभ्रमण करता फिरता है। जैसे अन्धकारमें भटकनेवाले जीवोंको प्रकाशका दर्शन होते ही हित-मार्ग सूझने लगता है, उसी प्रकार उपाध्याय परमेश्वरीके प्रसादसे सम्यक्-ज्ञानका प्रकाश प्राप्त होता है, जिससे यह मोहान्ध प्राणी पंच परावर्तनरूप संसारका परिभ्रमण छोड़कर शाश्वतिक शान्तिमय शिवपुरकी ओर उन्मुख हो जाता है।

उपाध्यायके समीप सविनय आकर भव्यात्माएँ आगमका अभ्यास करती हैं, और सम्यक्ज्ञानका लाभ करती हैं, इस कारण अज्ञान अन्धकार निवारण करनेवाले उपाध्याय परमेश्वरीसे प्रसन्नताकी प्रार्थना की गयी है।

दुह-तिट्ठ-तिसा-विणदिय-तिहुवण-भविषाण सुदुराएण ।

परिट्ठविया धम्म-पवा सुअ-जल-वाणप्पयाणेण ॥ ५ ॥

१. "अण्णाणघोरतिमिरे दुरंततीरमिह हिडमाणं । भविषाणुज्जोवपरा उवज्झाया वरमधि देतु ॥"
—ति० प० गा० ४ । २. "विनयेनोपेत्य यस्माद् व्रतशीलभावनाधिष्ठानादागमं भुतास्वमधीयते स उपाध्यायः ।"—त० रा०, पृ० ३४६ ।

अर्थ—दुःखरूप तीव्र प्याससे पीड़ित तीनलोकके भव्योंके प्रति प्रशस्त रागवश जिन्होंने श्रुतज्ञानरूपी जल पिलानेके लिए धर्मरूप प्रपा-प्याऊ स्थापित की है, वे उपाध्याय सदा प्रसन्न होंगे ।

भावार्थ—इस जगत्के प्राणियोंकी विषयोंकी लालसासे जनित सन्ताप सदा दुःखी करता है । महान् पुण्यशाली देवेन्द्र, चक्रवर्ती आदि भी विषयतृष्णाके तापसे नहीं बच सके हैं । उनकी तृष्णाग्नि तो और अधिक प्रज्वलित रहती है । इस तृष्णाकी शान्तिके लिए यह जीव विषयोंका सेवन करता है, किन्तु इससे वेदना तनिक भी न्यून न होकर उत्तरोत्तर वृद्धिगत हुआ करती है । जिस प्रकार पिपासाकुल व्यक्तियोंकी तृषानिवृत्ति-निमित्त उदार पुरुष प्याऊकी व्यवस्था करते हैं, जिससे सबको मधुर शीतल जलकी प्राप्ति हो, उसी प्रकार उपाध्याय परमेष्ठीने परम करुणाभावसे विषयोंकी तृष्णासे सन्तप्त भव्योंके कल्याणार्थ श्रुतज्ञानरूप प्रपा स्थापित की है । उनके द्वारा शास्त्रका उपदेश होते रहनेसे तथा आगमका शिक्षण होनेसे भव्यात्माओंकी विषयतृष्णा कम होती जाती है और वे आत्मोन्मुख बनकर विषयोंकी आशा ही नहीं करती हैं । श्रुतज्ञान प्रपाके जलका पान करनेसे भोगोंकी अभिलाषारूप तृषा दूर होती है तथा आत्मा, स्वरूपकी उपलब्धि कर, महान् शान्तिका लाभ करती है । द्वादशांगरूप महाशास्त्र-सिन्धुमें अवगाहन कर अपनी पिपासाकी शान्ति साधारण आत्माएँ नहीं कर पाती हैं, अतः उनके हितार्थ प्रपा बनायी गयी, जहाँ अपनी मन्दमतिरूपी चुल्लूमें श्रुतरूपी पानी भरकर आत्मा पिपासाकी शान्ति करती है । जितना-जितना यह जीव श्रुतज्ञानके रसका पान करता है और अपनी आत्माको तृप्त करता है, उतना-उतना वह सन्तापमुक्त हो शान्ति लाभ करता है ।

१. शंका—राग परिणाम मोहनीय कर्मका भेद है । मोहनीय कर्म घातिया कर्ममें प्रमुख है । घातिया कर्म जब पाप प्रकृतियोंमें अन्तर्भूत है, तब रागभाव भी पापप्रकृति रूप स्वयं सिद्ध होता है । अतएव पाप-प्रकृति रूप राग परिणामको 'मुट्टु' (शुभ) रूप कहना कैसे उचित होगा ?

समाधान—इस विषयमें सन्देह निवारण हेतु महर्षि कुन्दकुन्द स्वामीके प्रवचनसारसे प्रकाश प्राप्त होता है । वहाँ जेयाधिकारमें रागभावके शुभ तथा अशुभ रूप भेद कहे गये हैं—“सुहो व असुहो हवति रागो ॥ (१८०) उक्त ग्रन्थके चारित्र्य अधिकारमें लिखा है—“रागो वसत्यभूदो” (२५५) राग प्रशस्त रूप होता है । अतः राग परिणाम प्रशस्त रूप भी होता है, यह कथन आगमके प्रतिकूल नहीं है । रागको शुभ या प्रशस्त कहनेका कारण यह है कि उसके द्वारा पुण्य कर्मका बन्ध होता है । जिम रागात्मक चित्त-वृत्तिके द्वारा पुण्य कर्मका बन्ध होता है उस पुण्यबन्धके उत्प्रेषक राग भावको आगममें शुभ राग या प्रशस्त राग माना गया है । शुभ भाव पुण्यबन्धका कारण कहा गया है । कुन्दकुन्द स्वामीने लिखा है—

सुहपरिणामो पुण्यं असुहो पात्रत्ति भणियमण्येसु ।

परिणामो णण्यगदो दुक्खक्खयकारणं समये ॥ १८१ ॥

—प्रवचनसार

शुभ परिणाम रूप रागभावमें पुण्यका बन्ध होता है और अशुभ भावमें पापका बन्ध होता है । अन्यमें रमण न करनेवाला दुःखभाव आगममें ममस्त दुःखोंके क्षयका कारण कहा गया है ।

इस कारण शुभ रागभावमें प्रेरित होकर उपाध्याय परमेष्ठी दुःखी जीवोंका सन्ताप दूर करते हैं ।

संधारिय-शीलहरा उत्तारिय-चिरपमाद-दुस्शीलभरा ।

साहू जयंतु सव्वे सिवसुह-पह-संठिया हु णिग्गलियभया ॥ ६ ॥

अर्थ—जिन्होंने शीलरूप हारको धारण किया है, चिरकालीन प्रमाद तथा कुशीलके भारको दूर कर दिया है, जो शिव-सुखके मार्गमें स्थित हैं तथा निर्भीक हैं, वे सर्व साधु जयवन्त हों ।

भावार्थ—हारके धारण करनेसे कण्ठ शोभनीक मालूम पड़ता है, इसीलिए साधुओंने शीलरूप हारसे अपने कण्ठको भूषित किया है । कण्ठमें स्थित हार प्रत्येकके देखनेमें आता है, साधुओंकी दिग्म्बर वृत्ति होनेके कारण उनके शीलरूपी हारको प्रत्येक व्यक्ति देख सकता है । प्रायः संसारी जन प्रमाद तथा कुशील (अनात्मभाव) में निमग्न रहा करते हैं किन्तु मुनिराज प्रमादोंका परित्याग करते हैं तथा ब्रह्मचर्यमें निमग्न रहनेके कारण कुशील रूप विकारी भावसे दूर रहते हैं । निरन्तर कर्मशत्रुओंका संहार करनेमें संलग्न रहनेके कारण उनके पास प्रमादका अवसर ही नहीं आता है । आत्मकल्याणमें वे सदा सावधान रहते हैं । महर्षि पूज्य-पादके शब्दोंमें वे मुनिराज बोलते हुए भी मौनीके समान रहते हैं, गमन करते हुए भी नहीं गमन करते हुए सरीखे हैं, देखते हुए भी नहीं देखते हुए सदृश हैं, कारण उन्होंने आत्मतत्त्वमें स्थिरता प्राप्त की है । सम्पूर्ण परिग्रहका परित्याग करके तथा सकल संयमको अंगीकार करनेके कारण वे निराकुलतापूर्ण यथार्थ निर्वीण सुखके मार्गमें प्रवृत्त हैं । उन्हें जीवनकी न ममता है, न मृत्युका भय है । तिलतुषमात्र भी परिग्रह न रहनेसे किसी प्रकारकी भीति नहीं है । वे आत्माकी अजर-अमर तथा अविनाशी आनन्दका भण्डार समझ भयमुक्त रहते हैं । ऐसी उज्ज्वल आत्माओंके प्रसादसे अनुवादक निर्विघ्न रूपसे ग्रन्थसमाप्तिके लिए मंगलकामना करता है ।

[मूलग्रन्थका मंगल]

महाकर्म-प्रकृति-प्राभुतके प्रारम्भमें गौतम गणधर-द्वारा विरचित मंगलको वहाँसे उद्धृत कर भूतबलि आचार्य इस शास्त्रका मंगल मान ग्रन्थारम्भ करते हैं । द्रव्याधिक नयाश्रित भट्ट्य जीवोंके अनुग्रहार्थ गौतम स्वामी सूत्रका प्रणयन करते हुए कहते हैं—

णमो जिणाणं ॥ १ ॥

अर्थ—जिन भगवानको नमस्कार हो ।

विशेषार्थ—‘जिन’ शब्दसे तात्पर्य उन श्रेष्ठ आत्माओंसे है, जिन्होंने सम्पूर्ण आत्म-प्रदेशोंमें निविड रूपसे निबद्ध धातियाकर्मरूप मेघपटलको दूर करके अनन्तज्ञान, अनन्त-

१. “धोरधरियसीलमाला वत्रणयरया जसोहपडत्तया । बहु-विणय-भूमियंगा सुडाइं साहू पयच्छंतु ॥”-
ति० प० गा० ५ । २. “बुवन्नपि हि न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति । स्थिरीकृतात्मतन्वस्सु पश्यन्नपि न पश्यति ॥”-इष्टोप० श्लो० ४१ । ३. “एवं दस्वट्टिय-त्रणाणुगहणट्टं णमोक्कारं गोदमभडारशो महाकम्म-
पयडिपाहुडस्स आदिहि काऊण.....”-ध० टी० । ४. “अहं हों अहं णमो अरिहताणं, णमो जिणाणं ।”-
-भ० क० य० १ । “अहं हों जिणाणं.....” -भ० क० य० २ ।

दर्शन, अनन्त-दानादि नव केवल लब्धियोंको प्राप्त किया है, जिन्होंने अनेक विषम भयोंके गहन दुःख प्रदान करनेवाले कर्मशत्रुओंको जीता है—निर्जरा की है, वे जिन हैं। जिन्होंने घातिया कर्मोंका नाश किया है वे सकल अर्थान् पूर्णरूपसे जिन कहलाते हैं। उनमें अरहन्त और सिद्ध गभित हैं। आचार्य, उपाध्याय तथा साधु एकदेश जिन कहे जाते हैं।

शंका—इसपर विशेष प्रकाश डालनेकी दृष्टिसे सूत्रके टीकाकार वीरसेनाचार्य कहते हैं—यह सूत्र क्यों कहा गया ?

समाधान—मंगलके लिए कहा गया है। पुनः प्रश्न उठता है कि मंगल क्या है ? पूर्व-संचित कर्मोंका विनाश मंगल है।

शंका—यदि मंगलका यह भाव है, तो यह सूत्र निष्फल है। कारण, जिनेन्द्रके मुखसे विनिर्गत है अर्थ जिसका, जो अविस्मृतसे केवलज्ञानके समान है तथा वृषभसेनादि गणधर देवोंके द्वारा जिनकी शब्दरचना की गयी है ऐसे सर्व सूत्रोंके पठन, मनन तथा क्रियामें प्रवृत्त सम्पूर्ण जीवोंके प्रतिसमय असंख्यात गुणश्रेणी रूपसे पूर्व संचित कर्मोंकी निर्जरा होती है। कदाचित् यह मंगलसूत्र सफल है, तो ग्रन्थरूप सूत्रका अध्ययन निष्फल है, क्योंकि उससे उत्पन्न कर्मशत्रुकी उपलब्धि इसके ही द्वारा हो जायेगी।

समाधान—यह ठीक नहीं है। सूत्राध्ययन-द्वारा सामान्यरूपसे कर्मोंकी निर्जरा होती है, किन्तु इस मंगल सूत्रसे स्वाध्यायमें चित्रकारक कर्मका नाश होता है। इस कारण मंगल सूत्रका प्रारम्भ हुआ।

शंका—तीव्र कपाय, इन्द्रिय तथा मोहका विजय करनेसे सकल जिनोंका नमस्कार पापनाशक हो, कारण उनमें सम्पूर्ण गुणोंका सद्भाव पाया जाता है, किन्तु यह बात देशजिनोंमें नहीं पायी जाती। अतः 'णमो जिणान्' सूत्र-द्वारा अरहन्त-सिद्धके सिवाय आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेश्वरीका नमस्कार मानना युक्तियुक्त नहीं है।

१. "महलात्मप्रदेश - निबिड - निबद्धवानिकर्ममेषपटलविषटनप्रकटीभूतानन्तजानादिनवकेवललब्धिवान् जितः।" -गो० जी० जी० प्र०। "अनेकविषमभवगहनदुःखप्राणहेतून् कर्मरितीन् जयन्ति, निर्जरयन्तीति जिताः।।" -गो० जी० म० प्र० टी०। २. किमद्रुमिदं वुच्चदे ? मंगलद्रुं। किं मंगलं ? पुध्वमंचियकम्मविणामो। यदि एत्वं तो जिणत्रयणविणिग्गयत्थादो अविंसयादेण वेवलणाणसमाणादो उमहसेणादिगणधरदेवेहि विरह्यमहरयणादो मव्वमुत्तादो तण्णण-गुण-किरिठावावराणं मव्वजोवाणं पडिसमयमसंवेज्जणसेडीए पुध्वमंचिदकम्मणिज्जरा होदिंति णिणहलादिमुत्तमिदि। अह सफलमिदं, णिणफलं मुत्तज्जयणं, ततो समुद्रजायमाणकम्मकल्लयस्स एत्थेवोवल्लंभो ति। ण एम दोमो, मुत्तज्जयणेण सामणकम्मणिज्जरा कोरदे एदेण पुण मुत्तज्जयण-विषय-फल-कम्मविणामो कोरदि ति, भिण्णविसयत्तादो मुत्तज्जयणविषयफलकम्मविणामो सामणकम्मविरोहमुत्तंभासादो चैव होदि ति मंगलमुत्तारंभो। जिणा दुविहा सयल-देसजिणभेएण। खविषयाइकम्मा सयलजिणा। के तं ? अरिहंसमिद्धा। अबरे आइरिय-उवज्जाय-साहू देसजिणा, तिक्कसाय-इदियमोहविजवादो।" -ध० टी० वे०। ३. "सयलासयलजिणट्टिवतिरयणाणं ण समाणत्तं, संपुण्णासंपुण्णाणं समाणत्तविरोहादो। संपुण्ण-तिरयणकज्जमसंपुण्ण-तिरयणा ण करेति, असमाणत्तादो ति। ण, दंसमाणण-चरणणमुत्तणसमाणानुवळंभादो। ण च असमाणाणं कज्जं असमाणमेवेति णियमः अत्थि, संपुण्णव्राग्गिणा कोरमाणदाहकज्जसम तदवपवेत्ति उवळंभादो। अमियवडमएण कोरमाण णिव्विमोकरणादिकज्जसम अमिय-चलवेत्ति उवळंभादो वा। ण च तिरयणाणं देसजिणट्टियणं सयलजिणट्टिवहि भेओ। एत्वं.....गोदमभडारओ महाकम्मवयडिराहूइसम पज्जवट्टियणयाणमहणद्रुपुत्तरमुत्ताणि भणदि।" -ध० टी० वेदना० प० ६२३।

समाधान—रत्नत्रयकी अपेक्षा पाँचों परमेष्ठी समान हैं, कारण सकल जिनोंके समान एकदेश जिनोंमें भी रत्नत्रय विद्यमान हैं। देवत्वके लिए रत्नत्रयके सिवाय अन्य कारण नहीं है। इससे सकल जिनोंके समान देशजिनोंका नमस्कार भी कर्मक्षयकारी जानना चाहिए।

शंका—सकल और असकल जिनोंके रत्नत्रयमें समानता नहीं पायी जाती है। सम्पूर्ण सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप रत्नत्रय और असम्पूर्ण रत्नत्रयमें समानताका विरोध है। सम्पूर्ण रत्नत्रयका कार्य असम्पूर्ण रत्नत्रय नहीं करते, कारण वे असमान हैं। ज्ञान, दर्शन और चारित्रमें समानताकी उपलब्धि नहीं पायी जाती है ?

समाधान—असमानोंका कार्य असमान ही होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। सम्पूर्ण अग्निके द्वारा क्रियमाण दाह-कार्यकी उपलब्धि उसके अवयवमें भी देखी जाती है। अमृतके शतघटों-द्वारा सम्पादित किया जानेवाला निर्विषीकरणरूप कार्य चुल्लू-भर अमृतमें भी पाया जाता है। रत्नत्रयकी अपेक्षा देश तथा सकल जिनोंमें भेद नहीं पाया जाता है।

अब पर्यायार्थिक नयाश्रित जीवोंके कल्याणार्थ गौतमस्वामी आगामी सूत्रोंको कहते हैं—

णमो ओहिजिणाणं ॥ २ ॥

अर्थ—अवधिज्ञानी जिनोंको नमस्कार हो।

विशेषार्थ—यहाँ 'जिन' शब्दकी अनुवृत्ति आगे भी करनी चाहिए। अवधिज्ञानी देव, नारकी, मनुष्य तथा तिर्यच भी होते हैं। उन सबको नमस्कार करनेसे क्या कर्मोंकी निर्जरा हो सकती है ? उससे तो कर्मोंका बन्ध ही होगा। 'जिन' शब्दका ग्रहण करनेसे ऐसी आशंकाका निराकरण हो जाता है। इससे रत्नत्रयसे भूषित अवधिज्ञानियोंको नमस्कार करना यहाँ इष्ट है।

णमो परमोहिजिणाणं ॥ ३ ॥

अर्थ—परमावधिज्ञानधारी जिनोंको नमस्कार हो।

णमो सव्वोहिजिणाणं ॥ ४ ॥

अर्थ—सर्वावधिज्ञानधारी जिनोंको नमस्कार हो।

णमो अणंतोहिजिणाणं ॥ ५ ॥

अर्थ—अनन्त अवधिवाले जिनोंको नमस्कार हो।

विशेषार्थ—अनन्त है अवधि-मर्यादा जिसकी, ऐसे केवलज्ञानधारक अनन्तावधि जिनोंको नमस्कार हो।

१. परमावधयश्च ते जिनाश्च परमावधिजिनाः तेभ्यो नमः । २. "ॐ ह्रीं अहं णमोहिजिणाणं" —भ०क०य०३ । "ॐ ह्रीं अहं णमोहिबुद्धीणं"—भ०क०य०१२ । ३. "ॐ ह्रीं अहं णमो सव्वो-
हिजिणाणं" —भ०क०य०४ । ४. "ॐ ह्रीं अहं णमो अणंतोहिजिणाणं" —भ०क०य०५ ।
५. अनन्तश्च अवधिश्च अनन्तावधिः । न विद्यतेऽन्तो यस्य सः अनन्तावधिः । अमेदाज्जीवस्यापीर्यं संजा ।
अनन्तावधयश्च ते जिनाश्च अनन्तावधिजिनाः तेभ्यो नमः । अणंतोहिजिणा णाम केवलजाणिणो ।

णमो कोष्ठबुद्धीणं ॥ ६ ॥

अर्थ—कोष्ठबुद्धिधारी जिनोंको नमस्कार हो ।

विशेषार्थ—जिस प्रकार किसी कोठेमें पृथक्-पृथक् तथा सुरक्षित बहुत-से धान्यके बीजोंका संग्रह रहता है, उसी प्रकार कोष्ठबुद्धिनामक ऋद्धिमें परोपदेशके बिना ही तत्त्वोंके अर्थ, ग्रन्थ तथा बीजोंका अवधारण करके पृथक्-पृथक् अवस्थान किया जाता है। इस बुद्धिमें कोष्ठके समान भिन्न-भिन्न बहुत तत्त्वोंकी अवधारणा रहती है (त०रा० अ०३, पृ० १४३) ।

तिलोपपणत्तिमें कहा है कि उत्कृष्ट धारणासम्पन्न कोई पुरुष गुरुके उपदेशसे नाना प्रकारके ग्रन्थोंसे विस्तारपूर्वक लिंगसहित शब्दरूप बीजोंको अपनी बुद्धिसे ग्रहण करके बिना मिश्रणके अपनी बुद्धिरूपी कोठेमें धारण करता है, उसे कोष्ठबुद्धि कहते हैं (पृ० २७२) ।

णमो बीजबुद्धीणं ॥ ७ ॥

अर्थ—बीजबुद्धिधारी जिनोंको नमस्कार हो ।

विशेषार्थ—जैसे सम्यक् प्रकार हल-बखरसे तैयार की गयी उपजाऊ भूमिमें योग्य कालमें बोया गया एक भी बीज बहुत बीजोंको उत्पन्न करता है, उसी प्रकार नोइन्द्रियावरण, श्रुत-ज्ञानावरण तथा वीर्यान्तराय कर्मके क्षयोपशम-प्रकर्षसे एक बीज पदके ग्रहण-द्वारा अनेक पदार्थोंको जाननेवाली बीजबुद्धि है। (राजवा० पृ० १४३) ।

तिलोपपणत्तिमें कहा है—नोइन्द्रियावरण, श्रुतज्ञानावरण तथा वीर्यान्तराय इन तीन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट क्षयोपशमसे विशुद्ध हुई किसी भी महर्षिकी जो बुद्धि, संख्यातस्वरूप शब्दोंके बीचमें-से लिंगसहित एक ही बीजभूत पदको परके उपदेशसे प्राप्त करके उस पदके आश्रयसे सम्पूर्ण श्रुतको विस्तार कर ग्रहण करती है, वह बीजबुद्धि है (पृ० २७२) ।

णमो पदानुसारीणं ॥ ८ ॥

अर्थ—पदानुसारी ऋद्धिधारी जिनोंको नमस्कार हो ।

विशेषार्थ—दूसरे व्यक्तिसे एक पदके अर्थको सुनकर आदि, मध्य तथा अन्तके शेष ग्रन्थार्थका निश्चय करना पदानुसारित्व है। यह अनुश्रोतृ, प्रतिश्रोतृ तथा उभयरूप तीन प्रकार है। तिलोपपणत्तिमें कहा है—जो बुद्धि आदि, मध्य अथवा अन्तमें गुरुके उपदेशसे एक बीज पदको ग्रहण करके उपरिम ग्रन्थको ग्रहण करती है वह अनुसारिणी बुद्धि है। गुरुके उपदेशसे आदि, मध्य अथवा अन्तमें एक बीज पदको ग्रहण करके जो बुद्धि अधस्तन ग्रन्थको जानती है, वह प्रतिसारिणी बुद्धि कहलाती है। जो बुद्धि नियम अथवा अनियमसे एक बीज शब्दको ग्रहण करनेपर उपरिम और अधस्तन ग्रन्थको एक साथ जानती है वह उभयसारिणी है। ये पदानुसारित्वके तीन भेद हैं। (गा० ९८१-८३) ।

णमो संभिण्णसोदारारणं ॥ ९ ॥

अर्थ—संभिन्नश्रोतृत्व नामक ऋद्धिधारी जिनोंको नमस्कार हो ।

१. 'ॐ ह्रीं अहं णमो कुट्टबुद्धीणं...'—भ० क० य० ६ । २. 'ॐ ह्रीं अहं णमो बीजबुद्धीणं...'—भ० क० य० ७ । ३. 'ॐ ह्रीं अहं णमो अरिहंताणं णमो पदानुसारीणं...'—भ० क० य० ८ । ४. 'ॐ ह्रीं अहं णमो अरिहंताणं णमो संभिण्णसोदारारणं...'—भ० क० य० ९ । ५. सम्यक् श्रोत्रेन्द्रियावरणक्षयोपशमेन भिन्नाः अनुविद्याः संभिन्नाः । संभिन्नाश्च ते श्रोतारश्च संभिन्नश्रोतारः ।

विशेषार्थ— नौ योजन लम्बी, बारह योजन चौड़ी चक्रवर्तीकी सेनाके हाथी, घोड़ा, ऊँट तथा मनुष्यादिकोंके एक साथमें उत्पन्न अक्षरात्मक, अनक्षरात्मक अनेक प्रकारके शब्दोंको तपोबलविशेषके कारण सर्वजीव-प्रदेशोंमें कर्ण-इन्द्रियका परिणमन होनेसे सर्व शब्दोंका एक कालमें ग्रहण करना सम्भन्नश्रोतृत्व ऋद्धि है ।

तिलोयपण्णन्तिमें कहा है—श्रोत्रेन्द्रियावरण, श्रुतज्ञानावरण तथा वीर्यान्तरायका उत्कृष्ट क्षयोपशम तथा अंगोपांग नाम कर्मके उदय होनेपर श्रोत्रेन्द्रियके उत्कृष्ट क्षेत्रसे बाहर दसों दिशाओंमें संख्यात योजनप्रमाण क्षेत्रमें स्थित मनुष्य एवं तिर्यचोंके अक्षरात्मक-अनक्षरात्मक बहुत प्रकारके उत्पन्न होनेवाले शब्दोंको सुनकर जिससे उत्तर दिया जाता है वह सम्भन्न-श्रोतृत्व है ।

णमो उजुमदीणं ॥ १० ॥

अर्थ—ऋजुमति मनःपर्यय ज्ञानी जिनोंको नमस्कार हो ।

णमो विउलमदीणं ॥ ११ ॥

अर्थ—विपुलमति मनःपर्यय ज्ञानी जिनोंको नमस्कार हो ।

णमो दसपुव्वीणं ॥ १२ ॥

अर्थ—दश पूर्वधारी जिनोंको नमस्कार हो ।

विशेषार्थ—महारोहिणी आदि विद्याओंके द्वारा अपने रूप, सामर्थ्य आदिका प्रदर्शन करनेपर भी अडिग चारित्रधारीका जो दशमपूर्व रूप दुस्तर-सागरके पार पहुँचना है, वह दशपूर्वत्व है । यहाँ जिन शब्दकी अनुवृत्ति होनेसे अभिन्नदशपूर्वत्वका ग्रहण किया है ।

तिलोयपण्णन्तिमें कहा है—दशम पूर्वके पढ़नेमें रोहिणी आदि पाँच सौ महाविद्याओं तथा अंगुष्ठप्रसेनादिक सात सौ क्षुद्र विद्याओंके द्वारा आज्ञा माँगनेपर भी जो महर्षि जितेन्द्रिय होनेके कारण उन विद्याओंकी इच्छा नहीं करते हैं, वे 'विद्याधरश्रमण' या 'अभिन्नदशपूर्वी' कहलाते हैं । (पृ० २७४) ।

णमो चौदसपुव्वीणं ॥ १३ ॥

अर्थ—चौदह पूर्वधारी जिनोंको नमस्कार हो ।

विशेषार्थ—जो सम्पूर्ण श्रुतकेवलीपनेको प्राप्त हैं, वे चतुर्दशपूर्वी कहलाते हैं ।

१. "ॐ ह्रीं अहं णमो ऋजुमदीणं" — भ० क० य० १३ । २. "ॐ ह्रीं अहं णमो विउलमदीणं" — भ० क० य० १४ । ३. "ॐ ह्रीं अहं णमो दसपुव्वीणं" — भ० क० य० १५ । ४. "एत्थ दसपुव्वीणो भिण्णाभिण्णभेएण दुविहा होति । भिण्णदसपुव्वीणं कथं पडिणियत्तो ? जिणसहाणुवत्तो दो । ण च तेमि जिणसमत्थि, भग्गमहव्वएमु जिणत्ताणुवत्तो दो ।" — ध० टी० । ५. "ॐ ह्रीं अहं णमो चउदसपुव्वीणं" — भ० क० य० १६ ।

णमो अट्टंगमहाणिमित्तकुसलाणं ॥ १४ ॥

अर्थ—अष्टांग महानिमित्त विद्यामें प्रवीण जिनोंको नमस्कार हो ।

विशेषार्थ—^१अन्तरिक्ष, भौम, अंग, स्वर, व्यंजन, लक्षण, छिन्न और स्वप्न—ये आठ महानिमित्त कहे जाते हैं । सूर्य, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र, ताराओंके उदय, अस्त आदिसे भूत-भविष्यत्सम्बन्धी फलका ज्ञान करना अन्तरिक्षज्ञान है । पृथ्वीके घन, सुविर, रूक्षतादिके ज्ञानसे अथवा पूर्वादि दिशाओंमें सूत्रनिवास करनेसे वृद्धि, हानि, जय, पराजय आदिका ज्ञान करना तथा भूमिमें छिपे हुए स्वर्ण, चाँदी आदिका परिज्ञान करना भौमज्ञान है । अंग-उपांगोंके देखने आदिसे त्रिकालवर्ती सुख-दुःखादिको जान लेना अंगज्ञान है । अक्षरात्मक या अनक्षरात्मक शुभ-अशुभ शब्दको सुनकर इष्ट-अनिष्ट फलको जान लेना स्वरज्ञान है । मस्तक, शीर्षा आदिमें तिल, मशक आदि चिह्नोंको देखकर त्रिकालसम्बन्धी हित-अहितका जानना व्यंजनज्ञान है । शीघ्र, स्वस्तिक, भुंगार, कलश आदि लक्षणोंको देखकर त्रिकालवर्ती स्थान, मान, ऐश्वर्य आदिका विशेष ज्ञान करना लक्षण नामक निमित्तज्ञान है । बन्ध, शस्त्र, लज्जा, जूता, आसन, शयनादिकोंमें देव, मानुष, राक्षसादि विभागोंसे शस्त्र, कण्ठक, चूहा आदिकृत छेदनको देखकर त्रिकालसम्बन्धी हानि, लाभ, सुख, दुःखादिको सूचित करना छिन्न नामक ज्ञान है । वात, पित्त, कफ दोषोंके उदयसे रहित व्यक्तिके रात्रिके पिछले भागमें, चन्द्र, सूर्य, पृथ्वी, समुद्र आदिका अपने मुखमें प्रवेश करना सम्पूर्ण पृथ्वीमण्डलका उपगूहन आदि शुभ स्वप्न तथा घृन या तैललिप्त अपना शरीर देखना, गर्दभ, ऊँटपर चढ़े हुए इधर-उधर भटकते फिरना आदि अशुभ स्वप्नके दर्शनसे आगामी जीवन, मरण, सुख, दुःखादिका ज्ञान करना स्वप्नज्ञान है । इन महानिमित्तोंमें जो कुशलता है, वह अष्टांगमहानिमित्तता है । (त० रा० पृ० १४३) ।

णमो विउव्वणपत्तणं ॥ १५ ॥

अर्थ—वैक्यिक ऋद्धिधारी जिनोंको नमस्कार हो ।

विशेषार्थ—विक्रियाको विषय करनेवाली ऋद्धिके अनेक भेद हैं । जैसे अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राक्काम्य, ईशित्व, वशित्व, अप्रतिघात, अन्तर्धान, कामरूपित्व आदि । शरीरको अत्यन्त छोटा करना 'अणिमा' है । इस ऋद्धिके प्रभावसे कमल-मृणालके छिद्रमें प्रवेश करके वहाँ ठहरने तथा चक्रवर्तीके परिवारकी विभूतिको उत्पन्न करनेकी सामर्थ्य प्राप्ति होती है । अपने शरीरको मेरु पर्वतसे भी विशाल करना 'महिमा' ऋद्धि है । शरीरको वायुसे भी हलका करना 'लघिमा' है । शरीरको वज्रसे भी अधिक भारी बनाना 'गरिमा' है । भूमिपर स्थित रहते हुए भी अंगुलीके कोनेसे मेरु, शिखर, सूर्य आदिका स्पर्शन करनेकी सामर्थ्यको 'प्राप्ति' कहते हैं । जलमें पृथ्वीके समान चलना, भूमिपर जलके समान तैरना 'प्राक्काम्य' ऋद्धि है । तीन लोककी प्रसुता 'ईशित्व' है । सम्पूर्ण जीवोंको वश करनेकी सामर्थ्य 'वशित्व' है । पर्वतके भीतर भी आकाशमें गमनागमनके समान बिना रुकावटके आना-जाना 'अप्रति-

१. "ॐ हीं अहं णमो अट्टांगमहाणिमित्तकुसलाणं..."—भ० क० प० १७ । २. "अंगं सरो बंजणलवखणाणि छिण्णं च भौमं सुमिणंतरेवक्खं । एदं णिमित्ते हि पराहिं णिन्वा जाणंति लोयस्स सुझामुहाइं ॥" —ध० टी० प० ६२७ । ३. देव, दानव, राक्षस, मनुष्य और तिर्यचोंके द्वारा छेदे गये शास्त्र एवं वस्त्रादिक तथा भवन नगर और देशादि चिह्नोंको देखकर त्रिकालभावी शुभ, अशुभ, मरण, विविध प्रकारके द्रव्य और सुख-दुःखको जानना यह चिह्न निमित्त ज्ञान है । यहाँ 'छिन्न' का नाम 'चिह्न' दिया गया है ।—ति० प०, पृ० २७६ ।

घात' है। अदृश्य रूप होनेकी सामर्थ्य 'अन्तर्धान' है। युगपत् अनेक आकार और रूप बनानेकी शक्ति 'कामरूपित्व' है।

यहाँ 'जिन शब्दकी अनुवृत्ति होनेसे अष्टगुण ऋद्धि होते हुए भी देवोंका ग्रहण नहीं किया गया है, कारण, देवोंमें संयमका अभाव है, अतः वे 'जिन' नहीं हैं।

णमो विज्जाहराणं ॥१६॥

अर्थ—विद्याधारी जिनोंको नमस्कार हो।

विशेषार्थ—^३विद्या तीन प्रकारकी होती हैं। मातृ पक्षसे प्राप्त जातिविद्या है। पितृपक्षसे प्राप्त कुलविद्या है। षष्ठ, अष्टम आदि उपवास करनेसे सिद्ध की गयी तपविद्या है। यहाँ देव तथा विद्याधरोंका ग्रहण नहीं किया गया है, कारण वे जिन नहीं हैं।

णमो चारणाणं ॥ १७ ॥

अर्थ—चारणऋद्धिधारी जिनोंको नमस्कार हो।

विशेषार्थ—जल, जंघा, तन्तु, पुष्प, पत्र, अग्नि-शिखादिके आलम्बनसे गमन करना 'चारण' ऋद्धि है। कुँआ, बाघड़ी आदिमें जलकायिक जीवोंकी विराधना नहीं करते हुए भूमिके समान चरणोंके उठाने-धरनेकी प्रवीणताको 'जलचारण' कहते हैं। भूमिसे चार अंगुल ऊँचे आकाशमें जंघाके उठाने-धरनेकी कुशलतासे सैकड़ों योजन गमन करनेकी प्रवीणता 'जंघाचारण' है। इसी प्रकार इस ऋद्धिके अन्य भेद हैं।

णमो पण्हसमणाणं ॥ १८ ॥

अर्थ—^५प्रज्ञाश्रमण जिनोंको नमस्कार हो।

विशेषार्थ—असाधारण प्रज्ञाशक्तिधारी प्रज्ञाश्रमण कहलाते हैं। अत्यन्त सूक्ष्म तत्त्वार्थचिन्तनके प्रभावसे चौदह पूर्वोंके विषयमें पूछे जानेपर जो द्वादशांग, चतुर्दश पूर्वोंकी बिना पढ़े हुए भी उत्कृष्ट श्रुतावरण और वीर्यान्तरायके क्षयोपशमसे उत्पन्न असाधारण प्रज्ञाशक्तिके लाभसे स्पष्ट निरूपण करते हैं वे प्रज्ञाश्रमणधारी हैं।

तिलोयपण्णत्ति (पृ० २७७) में प्रज्ञाके चार भेद कहे हैं—औत्पत्तिकी, पारिणामिकी, वैनयिकी तथा कर्मजा। भवान्तरमें कृत श्रुतके विनयसे उत्पन्न होनेवाली औत्पत्तिकी, निज-निज जातिविशेषमें उत्पन्न हुई पारिणामिकी, द्वादशांगश्रुतकी विनयसे उत्पन्न वैनयिकी एवं उपदेशके बिना तपविशेषके लाभसे उत्पन्न कर्मजा कहलाती है।

१. "अष्टगुणऋद्धिजुलाणं देवाणं एसो णमोक्कारो विष्णु पाब्बे ? ण एस दोसो, जिणसहाणुवट्टणेण तण्णि-
राकरणादो । ण च देवाणं जिणत्तमस्सि । तत्थ संजमाभावादो ॥"—ध० टी० । २. "ॐ ह्रीं अहं णमो
विज्जाहराणं"—भ० क० य० १९ । ३. "तत्थ सगमादुपक्खादो लद्धविज्जाओ जादिविज्जाओ णाम ।
पिटुपक्खलट्ठाओ कुलविज्जाओ । छट्ठमादिउववासविहाणेहिं साहिदाओ तवविज्जाओ । एवमेदाओ तिविहाओ
हंति ।"—ध० टी० । ४. "ॐ ह्रीं अहं णमो चारणाणं"—भ० क० य० २० । ५. "ॐ ह्रीं अहं णमो
पण्हसमणाणं"—भ० क० य० २१ । ६. "औत्पत्तिकी वैनयिकी कर्मजा पारिणामिकी चेत्ति चतुर्विधा
प्रज्ञा । प्रज्ञा एव श्रवणं येषां ते प्रज्ञाश्रवणाः । अर्हजदाणं न पण्हसमणाणं गहणं जिणसहाणुउत्तीदो ।"
—ध० टी० ।

यहाँ 'जिन' शब्दकी अनुवृत्ति रहनेसे असंयतोका निराकरण हो जाता है ।

णमो आगासगामीणं^१ ॥ १६ ॥

अर्थ—आकाशगामी जिनोंको नमस्कार हो ।

विशेषार्थ—पल्यंकासन वा कायोत्सर्ग आसनसे ही पैरोंको बिना उठाये-धरे आकाशमें गमन करनेकी विशेषताको आकाश-गमन ऋद्धि कहते हैं । यहाँ जिन शब्दकी अनुवृत्ति रहने-के कारण देव विद्याधरोंका निराकरण हो जाता है ।

णमो आसीविसाणं^२ ॥ २० ॥

अर्थ—आशीविष ऋद्धिधारी जिनोंको नमस्कार हो ।

उग्र विषयुक्त आहार भी जिनके मुखमें जाकर निर्विष हो जाता है वा जिनके मुखसे निकले हुए वचनोंके श्रवणसे महाविषयुक्त व्यक्ति निर्विष हो जाता है, वे 'आस्याविष' ऋद्धि-धारी हैं । महान् तपोबलसे विभूषित यतिजन जिसको कहें 'तू मर जा' वह तत्क्षण ही महा-विषयुक्त हो मृत्युको प्राप्त हो जाता है, वह 'आस्यविष' ऋद्धि है । इस प्रकार 'आस्य अविष' तथा 'आस्य विष' दोनों प्रकारके अर्थ कहे गये हैं ।

णमो दिट्ठिविसाणं^३ ॥ २१ ॥

अर्थ—दृष्टिविष ऋद्धिधारी जिनोंको नमस्कार हो ।

विशेषार्थ—जिनके देखने मात्रसे अत्यन्त तीव्र विषसे दूषित भी प्राणी विषरहित हो जाता है वे 'दृष्टिविष' ऋद्धिधारी हैं । उग्र तपस्वी मुनिजन क्रुद्ध हो जिसे देख लें, वह उसी समय उग्र विषयुक्त हो मर जाता है । इसे भी दृष्टिविष ऋद्धि कहते हैं । यहाँ भी 'जिन' शब्दकी अनुवृत्ति है, अन्यथा दृष्टिविष सर्पोंको भी प्रणामका प्रसंग आता । यद्यपि साधुजन तोष अथवा रोषसे मुक्त हैं, फिर भी तपस्याके कारण उनमें उपर्युक्त विशेष शक्ति उत्पन्न हो जाती है, जिसका उपयोग व्रीतराग ऋषिगण नहीं करते हैं ।

णमो उगतवाणं^४ ॥ २२ ॥

अर्थ—उग्र तपवाले जिनोंको नमस्कार हो ।

विशेषार्थ—एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह दिन वा पक्ष मासादिके अनशन योगोंमें किसी भी रूपके उपवासको प्रारम्भ करके मरणपर्यन्त भी उस योगसे विचलित नहीं होना उग्रतप ऋद्धि है ।

१. "ॐ ह्रीं अहं णमो आगासगामीणं"—भ० क० य० २२ । २. "ॐ ह्रीं अहं णमो आसीविसाणं"—भ० क० य० २३ । ३. "अविद्यमानस्यार्थस्य अर्शसमाप्तिः, आशीविषं येषां ते आशीविषाः । तत्रोक्तेण एवविद्वसत्सिंजुवकपणा होदूषणं जे जीवाणं णिग्गहाणुग्गहं ण कुण्ठति । ते आसीविसा ति वेतव्वा । कुदो ? जिणाणुउत्तीदो । ण च णिग्गहाणुग्गहेहि संदरिसिदरोसतोस्साणं जिणत्तमत्थि विरोधादो ।"—ध० टी० । ४. "ॐ ह्रीं अहं णमो दिट्ठिविसाणं"—भ० क० य० २४ । ५. "दृष्टिरिति चक्षुर्मनसोर्ग्रहणं । जिणाणमिदि अणुवट्ठे, अण्णहा दिट्ठिविसाणं सप्पाणं पि णमोक्कारप्प-संगादो ।"—ध० टी० । ६. "ॐ ह्रीं अहं णमो उगतवाणं"—भ० क० य० २५ ।

णमो दित्ततवाणं^१ ॥ २३ ॥

अर्थ—दीप्त तपवाले जिनोंको नमस्कार हो ।

विशेषार्थ—महान् उपवास करनेपर भी जिनकी मन, वचन, कायकी शक्ति बढ़ती हुई ही पायी जाती है, जो दुर्गन्धरहित मुखवाले, कमल—उत्पलादिकी सुगन्धके समान श्वासवाले तथा शरीरकी महाक्रान्तिसे सम्पन्न हैं, वे दीप्ततपस्वी जिन हैं ।

णमो तत्ततवाणं^२ ॥ २४ ॥

अर्थ—तप्त तपवाले जिनोंको नमस्कार हो ।

विशेषार्थ—तप्त लोहेकी कढ़ाईमें पतित जलकणके समान शीघ्र ही जिनका अल्प आहार शुष्क हो जाता है, उसका मल रुधिरादि रूपमें परिणमन नहीं होता वे तप्ततपस्वी हैं ।

णमो महातवाणं^३ ॥ २५ ॥

अर्थ—महातपधारी जिनोंको नमस्कार हो ।

विशेषार्थ—सिंहनिष्क्रीडितादि महान् उपवासादिके अनुष्ठानमें परायण महातपस्वी कहलाते हैं ।

णमो घोरतवाणं^४ ॥ २६ ॥

अर्थ—घोर तपधारी जिनोंको नमस्कार हो ।

विशेषार्थ—घात, पित्त, कफकी विषमतासे उत्पन्न ज्वर, खाँसी, श्वास, नेत्रपीड़ा, कुष्ठ, प्रमेहादि रोगोंसे पीड़ित शरीरयुक्त होते हुए भी जो अनशन, कायकलेशादि तपोंसे अविचलित रहते हैं तथा भयंकर इमशन, पर्वत-शिखर, गुहा, दरी, शून्य भ्राम आदिमें, जहाँ अत्यन्त दुष्ट, यक्ष, राक्षस, पिशाच, बेताल भयंकर रूपका प्रदर्शन कर रहे हैं एवं जहाँ भृगालके कठोर शब्द, सिंह, व्याघ्र, सर्प आदिके भीषण शब्द हो रहे हैं, ऐसे भयंकर प्रदेशोंमें सहर्ष रहते हैं वे घोर तपस्वी हैं ।

णमो घोरपरकमाणं^५ ॥ २७ ॥

अर्थ—घोर पराक्रमवाले जिनोंको नमस्कार हो ।

विशेषार्थ—पूर्वोक्त तपस्वी जब ग्रहण किये गये तपकी साधनामें वृद्धि करते हैं, तब वे घोर पराक्रमी कहलाते हैं ।

तिलोयपण्णत्ति (पृ० २८१) में कहा है—जिस ऋद्धि के प्रभावसे मुनिजन अपनी अनुपम सामर्थ्यसे कण्टक, शिला, अग्नि, पर्वत, धूम्र और उल्का आदिके पात करनेमें तथा सागरके समस्त जलका शोषण करनेमें समर्थ होते हैं, वह घोर पराक्रम ऋद्धि है ।

१. "ॐ ह्रीं अहं णमो दित्ततवाणं..." - भ० क० य० २६ । २. "ॐ ह्रीं अहं णमो तत्ततवाणं..." - भ० क० य० २७ । ३. "ॐ ह्रीं अहं णमो महातवाणं..." - भ० क० य० २८ । ४. "ॐ ह्रीं अहं णमो घोरतवाणं..." - भ० क० य० २९ । ५. "घोरा रउहा गुणा जेसि ते घोरगुणा । कथं चोरासीदिलखगुणाणं घोरत्तं ? घोरकउज्जकारिसत्तिजणणादो । तेसि घोरगुणाणं णमो इदि उत्तं होदि ।" - ध० टी० । ६. "ॐ ह्रीं अहं णमो घोरपरकमाणं..." - भ० क० य० ३१ ।

णमो घोरगुणाणं ॥ २८ ॥

अर्थ—घोर गुणवाले जिनोंको नमस्कार हो ।

णमोऽघोरगुणब्रह्मचारीणं ॥ २९ ॥

अर्थ—अघोर ब्रह्मचर्यधारी जिनोंको नमस्कार हो ।

विशेषार्थ—घोरसेनाचार्य कहते हैं—जिनमें तपोमाहात्म्यसे मारी आदि रोग, दुर्भिक्ष, वैर, कलह, वध, बन्धन आदिके प्रशमन करनेकी शक्ति उत्पन्न हो जाती है, वे अघोर ब्रह्मचारी हैं^३ । देवांगनाओंके द्वारा आर्लिगनादि किये जानेपर भी वे निर्विकार परिणाम-युक्त रहते हैं ।

अकलंक स्वामी राजवार्तिक (पृ० १४४) में अघोरके स्थानमें घोर पाठ मानकर यह अर्थ करते हैं—जो चिरकालसे अखण्ड ब्रह्मचर्यके धारक हैं और चारित्रमोहके उत्कृष्ट क्षयोप-शमसे जिनके दुःस्वप्नोंका विनाश हो चुका है वे घोर ब्रह्मचारी हैं ।

तिलोयपणत्तिकार (पृ० २८२) कहते हैं—जिस ऋद्धिसे मुनिके क्षेत्रमें चोरादिककी बाधा, दुष्काल तथा महायुद्ध आदि नहीं होते हैं, वह अघोर ब्रह्मचारित्व है, अथवा चारित्र-निरोधक मोहनीय कर्मका उत्कृष्ट क्षयोपशम होनेसे जो ऋद्धि दुःस्वप्नोंको दूर करती है वह अघोर ब्रह्मचारित्व है; अथवा जिस ऋद्धिके होनेसे महर्षिजन सब गुणोंके साथ अघोर अर्थात् अविनाशी ब्रह्मचर्यका आचरण करते हैं, वह अघोरब्रह्मचारित्व है ।

णमो आमोसहिपत्ताणं ॥ ३० ॥

अर्थ—जिनका आम अर्थात् अपक्वाहार औषधिरूपताको प्राप्त हो, उन जिनोंको नमस्कार हो ।

तिलोयपणत्तिमें इसे आमशौषधि कहा है । वहाँ लिखा है, जिस ऋद्धिके प्रभावसे जीव पासमें आनेपर ऋषिके हस्त व पादादिके स्पर्शसे ही नीरोग हो जाते हैं वह आम-शौषधि है (ति० प० पृ० २८३) ।

णमो खेलोसहिपत्ताणं ॥ ३१ ॥

अर्थ—क्ष्वेलौषधि प्राप्त जिनोंको नमस्कार हो ।

विशेषार्थ—जिनका निष्ठोवन (थूक) औषधिरूप अर्थात् रोगनिवारक होता है, वे मुनिराज क्ष्वेलौषधि प्राप्त हैं ।

१. "ॐ ह्रीं अहं णमो घोरगुणाणं....." -भ० क० य० ३० । २. "ॐ ह्रीं अहं णमो घोर-गुणब्रह्मचारीणं....." -भ० क० य० ३२ । घोरो दुर्धरो गुणो निरस्तिचारतालक्षणो यस्य तद्घोरगुणम्, दिव्याङ्गनालिङ्गनादिभिरव्यभूषितचित्तम् -प्रतिक्रमणग्रन्थत्रयी पृ० ९४ । ३. "ब्रह्म चारित्रं पञ्चव्रतसमितित्रिगुप्त्यात्मकं शान्तिमुष्टिहेतुत्वात् । अघोराः अन्ताः गुणाः यस्मिन् तदघोरगुणम् अघोरगुणं ब्रह्म चरन्तीति अघोरगुणब्रह्मचारीणः । जैसि तवोमाहूपेण मारिदुर्भिक्षवैरकलहवधबंधणरोगादिपसमण-सत्ती समुपपन्ना ते अघोरगुणब्रह्मचारीणो त्ति उत्तं होदि । एत्थ अकारो किण्ण मुण्जज्जे ? संधिणि-हेसादो ।" -ध० टी० । ४. आमोऽभक्वाहारः स एषौषधिः तां प्राप्ता आमौषधिप्राप्ताः-प्रतिक्र० पृ० ९४ । ५. "ॐ ह्रीं अहं णमो खिलोसहिपत्ताणं ।" -भ० क० य० ३४ ।

णमो जल्लोसहिपत्ताणं^१ ॥ ३२ ॥

अर्थ—जल्लौषधि ऋद्धिप्राप्त जिनोंको नमस्कार हो ।

विशेषार्थ—पसीनेसे मिले हुए धूलिसमूहरूप मलको जल्ल कहते हैं । जिन मुनियोंका जल्ल औषधिरूप होता है, वे जल्लौषधि प्राप्त जिन कहलाते हैं ।

णमो विट्ठोसहिपत्ताणं^२ ॥ ३३ ॥

अर्थ—जिनका मल औषधिरूप परिणत हो गया है, उन जिनोंको नमस्कार हो ।

विशेषार्थ—जिनका मूत्र-पुरीषादि मल रोगनिवारक होता है, वे विष्टौषधिप्राप्त हैं । महान् तपश्चर्याके प्रभावसे यह सामर्थ्य प्राप्त होती है ।

णमो सव्वोसहिपत्ताणं^३ ॥ ३४ ॥

अर्थ—सर्वौषधि ऋद्धिप्राप्त जिनोंको नमस्कार हो ।

विशेषार्थ—जिन ऋषियोंके अंग, प्रत्यंग, नख, दन्त, केशादि स्पर्श करनेवाले जल, पवनादि जीवोंके लिए औषधिरूप परिणत हो जाते हैं, वे सर्वौषधिप्राप्त जिन हैं ।

णमो मणवलीणं^४ ॥ ३५ ॥

अर्थ—मनबलधारी जिनोंको नमस्कार हो ।

विशेषार्थ—नोइन्द्रियावरण, श्रुतज्ञानावरण तथा वीर्यान्तराय कर्मके क्षयोपशमके प्रकर्षसे अन्तर्मुहूर्तमें ही सम्पूर्ण श्रुतके अर्थ-चिन्तनमें प्रवीण मनोबली हैं ।

णमो वचिबलीणं^५ ॥ ३६ ॥

अर्थ—वचनबली जिनोंको नमस्कार हो ।

विशेषार्थ—मन, रसना तथा श्रुतज्ञानावरण एवं वीर्यान्तरायके क्षयोपशमके अतिशयसे जो अन्तर्मुहूर्तमें सम्पूर्ण श्रुतके उच्चारण करनेमें समर्थ हैं तथा निरन्तर उबस्वरसे उच्चारण करनेपर भी जो श्रमरहित एवं कण्ठके स्वरमें हीनतारहित हैं, वे ऋषि वचनबली हैं ।

णमो कायबलीणं^६ ॥ ३७ ॥

अर्थ—कायबली जिनोंको नमस्कार हो ।

विशेषार्थ—वीर्यान्तरायके क्षयोपशमसे उत्पन्न असाधारण शरीरबल होनेसे मासिक, चातुर्मासिक, वार्षिक आदि प्रतिमायोग धारण करते हुए भी जिन्हें खेद नहीं होता, वे मुनिवर कायबली हैं ।

तिलोपपणत्ति (पृ० २८३) में कहा है—जिस ऋद्धिके बलसे वीर्यान्तरायका उत्कृष्ट क्षयोपशम होनेपर मुनिराज मास वा चातुर्मास आदि कायोत्सर्ग करते हुए भी श्रमरहित

१. "ॐ ह्रीं अहं णमो जल्लोसहिपत्ताणं"—भ० क० य० ३५ । २. "ॐ ह्रीं अहं णमो विट्ठोसहिपत्ताणं"—भ० क० य० ३६ । ३. "ॐ ह्रीं अहं णमो सव्वोसहिपत्ताणं"—भ० क० य० ३३-३७ । ४. "ॐ ह्रीं अहं णमो मणवलीणं"—भ० क० य० ३८ । ५. "ॐ ह्रीं अहं णमो वचिबलीणं"—भ० क० य० ३९ । ६. "ॐ ह्रीं अहं णमो कायबलीणं"—भ० क० य० ४० ।

होते हैं तथा शीघ्र ही तीनों लोकोंको कनिष्ठ अंगुलीपर उठाकर अन्यत्र धरनेमें समर्थ होते हैं, वह कायबल नामकी ऋद्धि है ।

णमो स्त्रीरसवीणं ॥ ३८ ॥

अर्थ—स्त्रीरसवी ऋद्धिधारी जिनोंको नमस्कार हो ।

विशेषार्थ—नीरस भोजन भी जिनके हस्त-पुटमें रखे जानेपर स्त्री-गुणरूप परिणमन करता है वा जिनके वचन क्षीण व्यक्तियोंको दुग्धके समान तृप्ति प्रदान करते हैं, वे स्त्रीरसवी हैं । तत्त्वार्थराजवार्तिक (पृ० १४५) में 'स्त्रीरसवी' पाठ ग्रहण किया है ।

णमो सृत्पिसवीणं ॥ ३९ ॥

अर्थ—घृतस्रवी जिनोंको नमस्कार हो ।

विशेषार्थ—रूक्ष भोजन भी जिनके कर-पात्रमें पहुँचते ही घृतके समान शक्तिदायक हो जाता है अथवा जिनका सम्भाषण जीवोंको घृत-सेवनके समान तृप्ति पहुँचाता है, वे घृतस्रवी हैं ।

णमो मधुसवीणं ॥ ४० ॥

अर्थ—मधुस्रवी जिनोंको नमस्कार हो ।

विशेषार्थ—जिनके हस्त-पुटमें रखा हुआ नीरस आहार भी मधुर रसपूर्ण तथा शक्ति-सम्पन्न हो जाता है, अथवा जिनके वचन दुःखी श्रोताओंको मधुके समान सन्तोष देते हैं, वे मधुस्रवी हैं । यहाँ 'मधु'शब्दका तात्पर्य मधुररसवाले गुड़, ख़ाँड़, शर्करा आदिसे है, कारण उन सबमें मधुरता पायी जाती है ।^१

णमो अमृतसवीणं ॥ ४१ ॥

अर्थ—अमृतस्रवी जिनोंको नमस्कार हो ।

विशेषार्थ—जिनके हस्त-पुटमें पहुँचकर कोई भी भोज्य वस्तु अमृतरूप हो जाती है, अथवा जिनकी वाणी जीवोंको अमृत तुल्य कल्याण देती है, वे अमृतस्रवी हैं ।

णमो अक्षीणमहाणसाणं ॥ ४२ ॥

अर्थ—अक्षीण महानस ऋद्धिधारी जिनोंको नमस्कार हो ।

विशेषार्थ—लाभान्तरायके क्षयोपशमके उत्कर्षको प्राप्त मुनीश्वरोंको जिस पात्रसे आहार दिया जाता है, उससे यदि चक्रवर्तीका कटक भी भोजन करे, तो उस दिन अन्नकी कमी न पड़े यह अक्षीण महानस ऋद्धि है । तिलोपपण्ति (पृ० २८५) में कहा है—लाभान्तरायके क्षयोपशमसे संयुक्त मुनिराजके भोजनानन्तर भोजनशालाके अवशिष्ट अन्नमें-से जिस किसी भी प्रिय वस्तुका उस दिन चक्रवर्तीके कटकको भोजन करानेपर भी लेशमात्र क्षीण न होना अक्षीण महानस ऋद्धि है ।

१. "ॐ ह्रीं अहं णमो स्त्रीरसवीणं"—भ० क० य० ४२ । २. "ॐ ह्रीं अहं णमो मधुरसवीणं"—भ० क० य० ४३ । ३. "मधुवयणेण गुडखंडसकरादीणं गहणं मधुरसादं पंडि एदासि साहम्भुवलंभादो ।" ध० टी० । ४. "ॐ ह्रीं अहं णमो अभियसवीणं" —भ० क० य० ४४ । ५. "ॐ ह्रीं अहं णमो अक्षीणमहाणसाणं" —भ० क० य० ४५ ।

णमो सच्चसिद्धायदणानं ॥ ४३ ॥

अर्थ—सम्पूर्ण सिद्धायतनों अर्थात् निर्वाणक्षेत्रोंको नमस्कार हो ।

णमो वड्डमाणबुद्धरिसिस्सं ॥ ४४ ॥

अर्थ—वर्धमान बुद्ध ऋषिको नमस्कार हो ।

[प्रकृतिसमुत्कीर्तननिरूपणा]

[इस महाबन्ध अथवा महाधवल शास्त्रका प्रारम्भिक ताडपत्र नं० २७१ नष्ट हो गया है, उसकी उसी रूपमें पूर्ति होना असम्भव है । आगेके वर्णनक्रमके साथ सम्बन्ध मिलानेकी दृष्टिसे मतिज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण तथा अवधिज्ञानावरणका संक्षेपमें वर्णन करते हैं, कारण ग्रन्थमें ज्ञानावरणपर आरम्भमें प्रकाश डाला गया है ।]

जो त्रिकालवर्ती द्रव्य, गुण, पर्यायोंको नाना भेदोंसहित प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूपसे जानता है, उसे ज्ञान कहते हैं ।^१ उस ज्ञानका आवरण करनेवाला ज्ञानावरण कर्म है । यह ज्ञान जीवका स्वभाव है । इसके द्वारा जीव स्व तथा अपूर्व वस्तुका व्यवसाय निश्चय करता है । वस्तु सामान्य तथा विशेष धर्मोंसे समन्वित है । साकार उपयोग ज्ञान तथा निराकार उपयोग दर्शन कहलाते हैं ।^२ ज्ञान तथा दर्शन जीवके पृथक्-पृथक् गुण हैं ।^३ चित्-प्रकाशकी बहिर्मुख वृत्तिको भी ज्ञान कहते हैं और चित्-प्रकाशकी अन्तर्मुख वृत्तिको दर्शन कहते हैं । 'गोम्मटसार' जीवकाण्डमें लिखा है—सामान्य विशेषात्मक पदार्थोंके भेदकी ग्रहण न करके जो सामान्यग्रहण-स्वरूपमात्रका अवभासन है, वह दर्शन है (४८२ गाथा) । इस दर्शनका आवरण करनेवाला कर्म दर्शनावरण है । जिसके उदयसे देवादि गतियोंमें शारीरिक तथा मानसिक सुखकी प्राप्ति होती है, उसे साता कहते हैं, उसको जो भोगवाचे तथा जिससे साताका वेदन करना, भोगना होता है, वह सातावेदनीय है । जिसके उदयका फल अनेक प्रकारके दुःख हैं, वह असाता है । जो उसे भोगवाचे—अनुभवन करावे, वह असातावेदनीय है । जो जीवको मोहित करे, वह मोहनीय कर्म है । भव धारण करनेमें कारण आयु कर्म है । इस जीवकी नर-नारकादि विविध पर्यायोंमें कारण नाम कर्म है । कुल-परम्परासे प्राप्त जीवके उच्च अथवा नीच आचरणका कारण गोत्रकर्म है । इस जीवके दान, लाभ, भोग, उपभोग तथा वीर्य (शक्ति) में जो अन्तराय—बाधा डालता है, वह अन्तराय कर्म है । इन आठ कर्मोंमें ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोह तथा अन्तरायको घातिया कर्म कहते हैं, कारण ये जीवके अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख तथा अनन्त वीर्य नामक गुणोंका

१. "सिद्धानां मुक्तारमतनाभायतानि निर्वाणस्थानानि तेषां नमः"—प्रतिक्रमणग्रन्थत्रयी, पृ० ६५ ।

२. "ॐ ह्रीं अर्हं णमो वड्डमाणानां"—भ० क० य० ४६ । "ॐ ह्रीं अर्हं णमो सच्चसाहूणं महति महावीर-वड्डमाण बुद्धिरिमीणं"—भ० क० य० ४८ । "बुद्धश्च स्वहेयोपादेयविवेकसंपन्नः, ऋषिश्च प्रत्यक्षवेदी"

प्र० ग्रन्थत्रयी पृ० ६५ । ३. "जाणइ तिकालविसए दव्वगुणे पज्जए य बट्टभेदे । पच्चस्सं च परोस्सं अणेण णाणे ति णं वेत्ति ॥"—गो० जी०, गा० २६८ । ४. 'साकारं ज्ञानमनाकारं दर्शनम्'—त० रा०, पृ० ८८ ।

५. "अन्तर्वह्निर्मुखोश्चित्प्रकाशयोर्दर्शनज्ञानव्यपदेशभाजोरेकरव विरोधात्"—ध० टी०, भा० १, पृ० १४५ ।

६. "यदुदयात् देवादिगतिषु शारीरमानससुखप्राप्तिः तत्साताम् । तद्वेदयति वेद्यते इति नातवेदनीयम् ।

यदुदयफलं दुःखमनेकविधं तदसाताम्, तद्वेदयति वेद्यते, इत्यसातावेदनीयमिति—गो० क०, टीका पृ० २७ ।

घात करते हैं। ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य जीवके अनुजीवी गुण हैं। सिद्धोंके अव्याबाध सुखका घात आठों ही कर्म करते हैं। प्रत्येक कर्मका कार्य जीवके विशेष गुणके घात करनेका है, किन्तु उन सबका सामान्य धर्म जीवके सुख गुणके भी विनाश करनेका पाया जाता है।

वेदनीय, आयु, नाम तथा गोत्र ये प्रतिजीवी गुणोंका नाश करते हैं। अनुजीवी गुणोंका घात न करनेके कारण इनको अघातिया कर्म कहते हैं। ये क्रमशः अव्याबाध, अवगाहनत्व, सूक्ष्मत्व तथा अगुरुलघुत्व गुणोंका नाश करते हैं। चार घातियाका नाश करनेवाले अरहन्त भगवान्में गुणचतुष्टयकी अभिव्यक्ति होती है तथा सिद्धोंमें कर्माष्टकके ध्वंस करनेसे आठ गुण व्यक्त होते हैं। कर्मोंके ध्वंसका अर्थ पुद्गलका अत्यन्त क्षय नहीं है, कारण सत्का अत्यन्त विनाश नहीं हो सकता। पुद्गलकी कर्मत्वपर्यायका नष्ट हो जाना अर्थात् आत्माके साथ उसका सम्बन्ध न रहना ही कर्मक्षय है।

ज्ञानावरण कर्मकी पाँच प्रकृतियाँ हैं—आभिनिबोधिकज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण, अवधिज्ञानावरण, मनःपर्ययज्ञानावरण और केवलज्ञानावरण। ये आवरणपंचक आभिनिबोधिकज्ञान—श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान तथा केवलज्ञानरूप ज्ञानकी पाँच अवस्थाओंको आवृत करते हैं। मिथ्यात्वके उदयसे आभिनिबोधिकज्ञान, श्रुतज्ञान तथा अवधिज्ञानको मत्यज्ञान, श्रुताज्ञान तथा विभंगज्ञान कहते हैं। इन तीन ज्ञानोंको कुज्ञान भी कहते हैं।

इन्द्रिय तथा मनकी सहायतासे अभिसुख तथा प्रतिनियत पदार्थको जाननेवाला आभिनिबोधिक या मतिज्ञान कहलाता है। मतिज्ञानद्वारा गृहीत अर्थसे जो अर्थान्तरका बोध होता है, उसे श्रुतज्ञान कहते हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल तथा भावकी अपेक्षा जिस प्रत्यक्षज्ञानके विषयको अवधि या सीमा हो, उसे अवधिज्ञान या सीमाज्ञान कहते हैं। परकीय मनमें स्थित पदार्थको जो ज्ञान जानता है, उसे मनःपर्ययज्ञान कहते हैं। त्रिकालगोचर सर्वद्रव्यों तथा उनकी समस्त पर्यायोंको ग्रहण करनेवाला केवलज्ञान है।

[आभिनिबोधिकज्ञानावरणप्ररूपणा]

जो आभिनिबोधिक ज्ञानावरण कर्म है, वह चार, चौबीस, अट्ठाईस तथा बत्तीस प्रकारका है। अवग्रह, ईहा, अवाय तथा धारणाका आवरण करनेवाला अवग्रहावरण, ईहावरण, अवायावरण तथा धारणावरण कर्म है। विषय और विषयीके सन्निपातके अनन्तर पदार्थका आद्य ग्रहण अवग्रह है। इसका आवरण करनेवाला अवग्रहावरण कर्म है। अवग्रहके द्वारा गृहीत अर्थके विषयमें विशेष जाननेकी इच्छाके बाद भवितव्यता प्रत्ययरूप ज्ञानको ईहा कहते हैं। उसका आवारक कर्म ईहावरण कर्म है। इसके अनन्तर भाषा, वेप आदिका विशेष ज्ञान होनेसे जो संशयादिका निराकरण करके निर्णयरूप ज्ञान होता है, वह अवाय है। उसका आवारक अवायावरण कर्म है। अवायज्ञानके विषयभूत पदार्थके कालान्तरमें स्मरणका कारण धारणाज्ञान है, उसका आवारक धारणावरण कर्म है।

१. "कर्माष्टकं त्रिपक्षि स्यात् सुखस्यैकगुणस्य च । अस्ति किञ्चिन्न कर्मकं तद्विपक्षं ततः पृथक् ॥
-पञ्चाध्यायी २।११५। २. "मणेमलादेव्यावृत्तिः क्षयः । सतीऽत्यन्तविनाशानुपपत्तोः । तादृगात्मनोऽपि कर्मणो निवृत्तौ परिशुद्धिः ॥"-अष्टसह० पृ० ५३। ३. "तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम्"-त० सू० १।१४। ४. "अथादो अन्तरमुवल्लंभं तं भणति सुदणानं । आभिनिबोधियपुष्वं ग्णियमेणिह सहजं पदुमं ॥"-गो० जी०, ३१४। ५. "अयहोयदि त्ति ओही संमाणार्णेत वणिणयं समवे । भवगुणपचचवविहियं जमोहिणाणे त्ति णं वेत्ति ॥"-गो० जी०, ३६६।

अवग्रहावरण कर्मके अर्थावग्रहावरण तथा व्यंजनावग्रहावरण कर्म ये दो भेद हैं। अव्यक्त पदार्थका ग्रहण करना व्यंजनावग्रह है। यह इन्द्रियोंसे सम्बद्ध अर्थका होता है। इसके विपरीत स्वरूपवाला अर्थावग्रह है। व्यंजनावग्रहका आवारक व्यंजनावग्रहावरण कर्म है तथा अर्थावग्रहका आवारक अर्थावग्रहावरण कर्म है। व्यंजनावग्रह चक्षु तथा मनको छोड़कर शेष स्पर्शन, रसना, घ्राण तथा श्रोत्र इन्द्रियसे होता है। अतएव इसके स्पर्शनेन्द्रिय-व्यंजनावग्रहावरण कर्म, रसनेन्द्रियव्यंजनावग्रहावरण कर्म, घ्राणेन्द्रियव्यंजनावग्रहावरण कर्म तथा श्रोत्रेन्द्रियव्यंजनावग्रहावरण कर्म ये चार भेद होते हैं।

अर्थावग्रह व्यक्त वस्तुका ग्राहक होनेके कारण पाँच इन्द्रिय तथा मनके द्वारा होता है। इस कारण उसके आवारक स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु तथा श्रोत्रेन्द्रियावरण कर्म और नोइन्द्रियावरण कर्म हैं। ईहा, अवाय तथा धारणा ज्ञान भी पाँच इन्द्रिय तथा मनसे होनेके कारण अर्थावग्रहके समान प्रत्येक छह-छह भेदवाला है। इस कारण व्यंजनावग्रहके चार भेदोंमें अर्थावग्रहादिके चौबीस भेदोंको मिलानेसे २८ भेद होते हैं। अतएव मतिज्ञानावरण कर्मके भी २८ भेद हो जाते हैं। इसके बहु, एक, बहुविध, एकविध, क्षिप्र, अक्षिप्र, उक्त, अनुक्त, ध्रुव, अध्रुव, निःसृत, अनिःसृत—इन बारह प्रकारके पदार्थोंको विषय करनेके कारण प्रत्येकके द्वादश भेद हो जाते हैं। इस प्रकार २८ × १२ = ३३६ भेद मतिज्ञानके हैं। अतएव मतिज्ञानावरण कर्मके भी ३३६ भेद होते हैं।

[श्रुतज्ञानावरणप्ररूपणा]

मतिज्ञानके द्वारा जाने गये पदार्थसे पदार्थान्तरका ग्रहण करना श्रुतज्ञान है। वह 'नित्य शब्दनिमित्तक है अथवा अन्य-निमित्तक है' ऐसी शंकाका निराकरणके लिए उस श्रुतज्ञानको मतिपूर्वक कहा है। यद्यपि श्रुतज्ञानपूर्वक भी श्रुतज्ञान होता है, फिर भी श्रुतज्ञानके मतिपूर्वकत्वमें बाधा नहीं आती है। श्रुतज्ञान मतिपूर्वक होता है, इसका तात्पर्य इतना है कि प्रत्येक श्रुतज्ञानके प्रारम्भमें मतिज्ञान निमित्त हुआ करता है। पश्चात् मतिपूर्वकत्वका कोई नियम नहीं है।

उस श्रुतज्ञानके शब्दजन्य तथा लिंगजन्य ये दो भेद कहे गये हैं। अक्षरात्मक तथा अनक्षरात्मक रूपसे भी उसके दो भेद कहे जाते हैं। श्रुतज्ञानको अक्षरात्मक या शब्दात्मक मानना उपचरित कथन है। श्रुतज्ञानका कारण प्रवचन है, इससे प्रवचनको भी श्रुतज्ञान कह दिया है। अनक्षरात्मक श्रुतज्ञानके असंख्यात भेद हैं। अपुनरुक्त अक्षरात्मक श्रुतज्ञानके संख्यात भेद हैं। पुनरुक्त अक्षरात्मक श्रुतज्ञानका प्रमाण इससे कुछ अधिक है। ३३ व्यंजन, २७ स्वर तथा ४ अयोगवाह मिलकर कुल चौसठ मूलवर्ण होते हैं। इन चौसठ वर्णोंके संयोगसे १८४४६७४४०७३७०६५५१६१५ इन बीस अंक प्रमाण अपुनरुक्त अक्षर होते हैं। उपर्युक्त अक्षरोंमें १६३४८३०७८८८ इन एकादश अंकप्रमाण अक्षरात्मक मध्यम पदका भाग देनेपर लब्धि-रूपमें प्राप्त संख्याप्रमाण अंगप्रविष्ट पद होते हैं जो द्वादशांग-आचारांगादिके नामसे ख्यात हैं।

१. "श्रुतज्ञानस्य कारणं हि प्रवचनं श्रुतमित्युपचर्यते । मुख्यस्य श्रुतज्ञानस्य भेदप्रतिपादनं कथमुपपन्नम् ? तज्ज्ञानस्य भेदप्रभेदरूपत्वोपपत्तेः । द्विभेदप्रवचनजनितं हि ज्ञानं द्विभेदम् । अङ्गर्वाहप्रवचनजनितस्य ज्ञानस्याङ्गर्वाहत्वात् अङ्गप्रविष्टजनितज्ञानस्याङ्गप्रविष्टत्वात् ।"—त० श्लो० पृ० २३६ । "तस्य अंगवाहिरस्स चोद्दस अत्याहियारा, अंगपविट्टुअत्याधियारो बारसविहो ।"—ध० टी० भाग १, पृ० ६६ ।

भाग देनेसे शेष बचे हुए अक्षरोंको अंगबाह्य कहते हैं। अंगबाह्यके सामायिक, चतुर्विंशतिस्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, वैयर्थिक, कृतिकर्म, दशवैकालिक, उत्तराध्ययन, कल्पव्यवहार, कल्प्याकल्प्य, महाकल्प्य, पुण्डरीक, महापुण्डरीक तथा निपिट्टिका ये चौदह प्रकार हैं^१। बुद्धिके अतिशय तथा ऋद्धिविशिष्ट गणधरदेवके द्वारा अनुस्मृत जो द्वादशांगरूप जिनवाणीकी ग्रन्थरचना है, वह अंगप्रविष्ट है। आचार्य अकलंकदेव उन गणधरदेवके शिष्य-प्रशिष्योंके द्वारा आरातीय आचार्योंके पाससे श्रुतज्ञानके तत्त्वको ग्रहण करके कालदोषसे अल्पमेधा, अल्पबल तथा अल्प आयुयुक्त प्राणियोंके अनुग्रहके लिए उपनिबद्ध संक्षिप्तरूपसे अंगोंके अर्थरूप वचन-विन्यासको अंगबाह्य कहते हैं। इस दृष्टिसे आचार्यपरम्परासे प्राप्त तथा जिनवाणीके तत्त्वका प्रतिपादन करनेवाले अन्य ग्रन्थान्तर अंगबाह्य श्रुतमें समाविष्ट होते हैं।

अनक्षरात्मक श्रुतज्ञानका सबसे छोटा रूप पर्यायज्ञान कहलाता है। उससे कम ज्ञान किसी भी जीवके नहीं पाया जा सकता है। उस ज्ञानको नित्य प्रकाशमान तथा निरावरण कहा है। सूक्ष्म निगोदिया लब्धपर्याप्तक जीव अपने योग्य सम्भवनीय ६०१२ भवोंमें परिभ्रमण कर अन्तके अपर्याप्तक शरीरको तीन मोड़ाओंसहित जत्र ग्रहण करता है, तब उसके प्रथम मोड़ाके समयमें सर्व जघन्य ज्ञान होता है।

^२इस पर्यायज्ञानसे आगे पर्याय-समास, अक्षर, अक्षर-समास, पद, पद-समास, संघात, संघात-समास, प्रतिपत्तिक, प्रतिपत्तिक-समास, अनुयोग, अनुयोग-समास, प्राभृत, प्राभृत-समास, प्राभृत-प्राभृत, प्राभृत-प्राभृत-समास, वस्तु, वस्तु-समास, पूर्व, पूर्व-समास भेद होते हैं।

^३श्रुतज्ञानका विषयभूत अर्थ मनका विषय होता है। श्रुतज्ञानमें मानसिक व्यापार होता है। ऐसी स्थितिमें जिनके मन नहीं है, उन असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्यन्त जीवोंके श्रुतज्ञानका अभाव समझा जाना चाहिए था, किन्तु परमागममें कमसे-कम लब्धस्थोंके मति तथा श्रुत ये दो ज्ञान नियमतः कहे गये हैं। श्रुतज्ञानावरण कर्मका क्षयोपशम होनेसे एकेन्द्रियादिके मन न होते हुए भी श्रुतज्ञानका सद्भाव आगममें वर्णित है। इसका कारण यह है कि असंज्ञी जीवोंमें जो कुछ ऐसी क्रियाएँ पायी जाती हैं, जिनसे उनके मनके सद्भावकी कल्पना होने लगती है उनका कारण मन नहीं है, किन्तु श्लोकवार्तिककार विद्यानन्दी स्वामीके शब्दोंमें मति-सामान्यके समान स्मृतिसामान्य, धारणासामान्य तथा उनके निमित्तरूप अवायसामान्य, ईहासामान्य, अबग्रहसामान्य पाये जाते हैं, जो कि अनादिभवाभ्यासके कारण उत्पन्न होते हैं। उनके क्षयोपशमनिमित्त भावमन नहीं है, कारण वह प्रतिनियत संज्ञी प्राणियोंके होता है। इसका भाव यह है कि पिपीलिका आदिमें योग्य आहारका ग्रहण, अनुसन्धान, अयोग्य-

१. "तत्राङ्गप्रविष्टमङ्गबाह्यं चेति द्विविधमङ्गप्रविष्टमाचारादिद्वादशभेदम्, बुद्धयतिशयद्वियुक्तगणधरा-नुस्मृतग्रन्थरचनम्। आरातीयाचार्यकृताङ्गार्थ-प्रत्यासन्नरूपमङ्गबाह्यम्। तद्गणधरशिष्यैः प्रशिष्यैरारातीयैरधि-गतश्रुतार्थतत्त्वैः कालदोषादल्पमेधायुर्बलानां प्राणिनामनुग्रहार्थमुपनिबद्धं संक्षिप्ताङ्गार्थवचनविन्यासं तदङ्गबाह्यम्। -त० २०, पृ० ५४। २. "सुहृमणिगोदअपज्जत्तयस्स जादस्स पढमसमयमिह्। हवदि हु सब्वजहण्णं णिच्चुगघाडं णिरावरणं ॥ ३१९ ॥ सुहृमणिगोदअपज्जत्तयस्सु सगसंमवेसु भमिळण। चरिमापुण्णतिवक्काणादिमवक्कट्टियेष हव्वे ॥ ३२० ॥"-गो० जी०। ३. "पज्जायक्खरपदसंघादं पडियत्तिथाणिज्जोगं च। दुम्बारपाट्टं च य पाट्टडयं वत्सु पुव्वं च ॥ तेसि च समासेहि य बीसविहं वा हु होदि सुदणाणं। आवरणस्स वि भेदा तत्तियमेत्ता हव्वति त्ति ॥"-गो० जी० ३१६, १७। ४. "श्रुतज्ञानविषयोऽर्थः श्रुतम्। स विषयोऽनिन्द्रियस्य। अथवा श्रुतज्ञानं श्रुतम्। तदनिन्द्रियस्यार्थः प्रयोजनमिति यावत्।"-स० सि०, पृ० १०५।

का परिहार आदि बातें पायी जाती हैं, उसका कारण मन न होकर स्मृतिसामान्य, धारणा-सामान्य, ईहासामान्य, अवायसामान्य आदि हैं ।

यहाँ श्रुतज्ञानकी प्ररूपणा की गयी है । इससे श्रुतज्ञानावरण कर्मकी प्ररूपणा कैसे हो जायेगी ? इसके समाधानमें वीरसेनाचार्य^२ लिखते हैं—यह दोष नहीं है, आवरण किये जानेवाले ज्ञानके स्वरूपकी प्ररूपणाका ज्ञानावरणके स्वरूप-परिज्ञानके साथ अविनाभाव है । इस अविनाभावके कारण श्रुतज्ञानके स्वरूपनिरूपण-द्वारा श्रुतज्ञानावरणका परिज्ञान कराया गया है ।

इस प्रकार श्रुतज्ञानावरणकी प्ररूपणा हुई ।

[अवधिज्ञानावरणप्ररूपणा]

जो अवधिज्ञानावरणीय कर्म है, वह एक प्रकारका है । उसकी दो प्रकारकी प्ररूपणा है । एक भवप्रत्यय अवधिज्ञान, दूसरा गुणप्रत्यय अवधिज्ञान । अवधिज्ञान सीमाज्ञान भी कहा जाता है, कारण यह द्रव्य, क्षेत्र, काल तथा भावकी मर्यादासे रूपी पदार्थको विषय करता है । भवप्रत्यय अवधिज्ञानमें भव निमित्त है । उस भवमें नियमसे क्षयोपशम होता ही है । जैसे^३ पक्षियोंकी पर्यायमें उत्पन्न होनेवाले जीवके गगन-गमन विषयक क्षयोपशम पाया जाता है । इसी प्रकार देव तथा नारकियोंकी पर्यायमें जानेवाले सम्पूर्ण जीवधारियोंको नियमसे अवधिज्ञान उत्पन्न हो जाता है । तीर्थंकर भगवान्के भी जन्मसे जो अवधिज्ञान होता है, उसे भवप्रत्यय कहा है^४ ।

सम्यग्दर्शनादि निमित्तोंके सन्निधान होते हुए शान्त तथा क्षीण कर्मवालोंके जो अवधिज्ञान होता है, उसे क्षयोपशमनिमित्तक या गुणप्रत्यय अवधि कहते हैं । यह जीवके विशेष प्रयत्नपर अबलम्बित रहता है, भवमात्र इसमें कारण नहीं है । गुण या क्षयोपशम निमित्तक होनेसे इसे क्षयोपशमनिमित्तक कहते हैं ।

१. “न चापनस्कानां स्मरणसामान्याभावोऽनादिभवसंभूतविषयानुभूतोऽज्ञायाः सामान्यधारणायास्तद्वेतोः सद्भावात् आहारसंज्ञासिद्धेः प्रवृत्तिविशेषोपलब्धेः.....ततो नाममतिवदाहारादिसंज्ञातद्वेतुश्च स्मृतिसामान्यं धारणासामान्यं च तन्निमित्तपत्रायहामान्यमोहासामान्यमवग्रहसामान्यं च सर्वप्राणिसाधारणमनादिभवाभ्याससंभूतमभ्युपगन्तव्यम्, न पुनः क्षयोपशमनिमित्तं भावमनः, तस्य प्रतिनियतप्राणिविषयतयानुभूयमानत्वात् ॥”-त० श्लो० पृ० ३२६, ३३० । २. सुदणाणस्स एयदु पुरुवणा भणिससमाणा कथं सुदणाणावरणीयस्स कम्मस्स पुरुवणा होज्ज ? ए एम दोसो, आवरणिज्जसुरुवणवणाए तदावरणसुरुवावगमाविणाभाविताओ ।”-ध० टी०, प० १२५५ । ३. “यथाकाशे सति पक्षिणो गतिर्भवति तथा ज्ञानावरणक्षयोपशमेऽन्तरंगे हेतो सत्यवधेर्भावः, भवस्तु बाह्यो हेतुः । कथं पुनर्भवो हेतुः ? इति चेत्, व्रतनियमालम्भात् । यथा तिरश्चां मनुष्याणां चाहिंसादिव्रतनियमहेतुकोऽवधिर्न तथा देवानां नारकाणां चाहिंसादिव्रतनियमभिसंधिरस्ति । कुतो भवं प्रतीत्य कर्मोदास्य तथाभावात् । तस्मात् तत्र भव एव बाह्यसाधनमुच्यते ।”-त०रा०, पृ० ५४, ५५ । “यथोक्तसम्यग्दर्शनादिनिमित्तसन्निधाने सति शास्तक्षीणकर्मणां तस्य उपलब्धिर्भवति ।”-त० रा०, पृ० ५६ । ४. “देशोहिंस य अवरं णरतिरिये होदि संजदम्हि वरं । परमोही सबोही चरमसरीरस्स विरदस्स ।”पडिवादी देशोही अपडिवादी हवति सेसाओ । मिच्छत्तं अविरमणं ण य पडिवज्जति चरिमदुगे ॥ दध्वं खेतं कालं भावं पडिह विजाणरे ओही । अवरादुक्कसोत्ति य वियपरहिदो दु सबोही ॥” गो० जी० ३७३-७५ ।

.....[अत्र सप्तविंशतितमं ताडपत्रं त्रुटिनम्].....


१. अयणं-संवच्छर-पलिदोपम-सागरोपमादया वि भवति ।
ओगाहणा जहण्णा णियमा दु सुहुमणियोदजीवस्स ।
यद्देहो तद्देही जहण्हयं खेत्तदो ओधी ॥ १ ॥

अवधिज्ञानके देशावधि, परमावधि तथा सर्वावधि रूपसे तीन भेद भी हैं। भवप्रत्यय अवधिज्ञान देशावधिके जघन्य भेदरूप होता है। गुणप्रत्यय तीनों भेदरूप होता है। गुण-प्रत्यय देशावधिका जघन्य असंयमी मनुष्य, तिर्यचोंके पाया जा सकता है। इसके आगेके विकल्प संयमी मनुष्यके ही पाये जाते हैं। परमावधि, सर्वावधि चरमशरीरी मुनिराजके ही पाया जाता है। सर्वावधि जघन्य, मध्यम, उक्कृष्ट आदि भेदोंसे रहित है।

¹सम्यक्त्वरहित अवधिज्ञानको विभंगावधि कहते हैं। अवधिज्ञानत्वकी अपेक्षा दोनोंमें विशेष अन्तर नहीं है। सम्यक्त्व, मिथ्यात्वके सहचारवश उनमें नाममात्रका भेद है।

कालकी अपेक्षा अवधिज्ञानके समय, आवली, क्षण, लव, मुहूर्त, दिवस, पक्ष, ऋतु, अयन, संवत्सर, युग (पंचवर्ष), पूर्व (सत्तरकोटि छप्पनलक्ष, सहस्र कोटि वर्ष), पर्व (चौरासी लाख पूर्व प्रमाण), पल्योपम, सागरोपम आदि विधान जानना चाहिए।

महाबन्धके त्रुटित पत्रमें जो प्रथम पंक्ति है उसमें लिखा है—'अयन, संवत्सर, पल्योपम, सागरोपम आदि होते हैं।' थवला टीकाके प्रकरणसे तुलना करनेपर ज्ञात होता है कि यहाँ अवधिज्ञानसम्बन्धी कालका निरूपण चल रहा है।



१.....अयन, संवत्सर, पल्योपम, सागरोपम आदि होते हैं।

अवधिज्ञानके क्षेत्रकी प्ररूपणा करनेके लिए उत्तर सूत्र कहते हैं—सूक्ष्मलब्ध्यपर्याप्तक निगोदिया जीवकी जघन्य अवगाहना है। जघन्य अवधिज्ञानका क्षेत्र उसके शरीरप्रमाण है।

विशेषार्थ—सूक्ष्म लब्ध्यपर्याप्तक निगोदिया जीवके ऋजुगतिसे उत्पन्न होनेके तीसरे समयमें घनांगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण सर्वजघन्य अवगाहना होती है। उस समय निगोदियाकी शरीराकृति वर्तुलाकार होनेसे सबसे कम क्षेत्रफल रहता है। उतना जघन्यावधिका क्षेत्र है।

१. "दोषणं वि ओहिणाणत्तं पडि भेदाभावादो । ण च सम्मत्त-मिच्छत्तसहचारेण कवणामभेदादो भेदो अत्थि अह्वपसंगादो ।".....कालदो ताव समयावलयखण-लव-मुहूर्त-दिवस-पक्ख-मास-उदु-अवण-संवच्छर-जुग-पुव्व-पलिदोवम-सागरोपमादओ विधर्ओ णादव्वा भवति ।" -ध० टी०, प० १२५८ ।

१ अंगुलमावलियाए भागमसंखेज्जदो वि संखेज्जा ।
 २ अंगुलमावलियंतो आवलियं अंगुलपुधत्तं ॥ २ ॥
 ३ आवलियपुधत्तं पुण हत्थोवथा (हत्थं तह) गाउदं मुहुत्तंतो ।
 जोजण भिण्णमुहुत्तं दिवसंतो पण्णुवीसं तु ॥ ३ ॥
 ४ भरदं च अद्धमासं साधियमासं [च] जंबुदीवं हि ।
 वासं च मणुसलोगे वासपुधत्तं च रुजगं हि ॥ ४ ॥
 ५ संखेज्जदिमे कालं दीवसमुदा हवंति संखेज्जा ।
 कालं हि असंखेज्जो दीवसमुदा हवंति असंखेज्जा ॥५॥
 तेजाकम्म-सरीरं तेजादव्वं च भासदव्वं च (भासमणदव्वं) ।
 वोद्धव्वं असंखेज्जा दि(दी)वसमुदा(दा) य वासा य ॥६॥

अब क्षेत्र तथा कालकी अपेक्षा अद्यधिज्ञानसम्बन्धी १९ काण्डकोंका निरूपण करते हैं। प्रथम काण्डकमें अंगुलका असंख्यातवाँ भाग जघन्य क्षेत्र है। आवलीका असंख्यातवाँ भाग जघन्य काल है। अंगुलका संख्यातवाँ भाग उत्कृष्ट क्षेत्र है, आवलीका संख्यातवाँ भाग उत्कृष्ट काल है। दूसरे काण्डकमें घनांगुलप्रमाण क्षेत्र है, कुछ कम आवलीप्रमाण काल है।

विशेषार्थ—यहाँ दूसरे, तीसरे आदि काण्डकोंमें उत्कृष्टकी अपेक्षा वर्णन किया गया है। तीसरे काण्डकमें अंगुलपृथक्त्व क्षेत्र है, आवलीपृथक्त्वप्रमाण काल है ॥२॥

चतुर्थ काण्डकमें आवलीपृथक्त्व काल है, हस्तप्रमाण क्षेत्र है। पंचम काण्डकमें अन्त-सुहूर्त काल है, एक कोश क्षेत्र है। छठेमें भिन्न सुहूर्त (एक समय कम सुहूर्त) काल है। एक योजन क्षेत्र है। सप्तममें कुछ कम एक दिन काल है, २५ योजन क्षेत्र है ॥३॥

अष्टममें अर्धमास काल है, भारतवर्ष क्षेत्र है। नवममें साधिक मास काल है, जम्बूद्वीप क्षेत्र है। दशममें वर्षप्रमाण काल है, मनुष्य लोकप्रमाण क्षेत्र है। ग्यारहवेंमें वर्षपृथक्त्व काल है, रुचक द्वीप क्षेत्र है ॥४॥

बारहवेंमें संख्यात वर्ष काल है, संख्यात द्वीप समुद्र क्षेत्र है। तेरहवेंमें असंख्यात वर्ष काल है, असंख्यात द्वीप-समुद्रप्रमाण क्षेत्र है ॥ ५ ॥

विशेष, आगामी पंच काण्डकोंका द्रव्यकी अपेक्षा कथन है।

चौदहवेंमें देशाधिके मध्यम विकल्परूप विस्त्रसोपचयसहित तैजस शरीररूप द्रव्य विषय है। पन्द्रहवेंमें विस्त्रसोपचयसहित कामुण शरीर स्कन्ध विषय है। सोलहवेंमें विस्त्र-सोपचयरहित केवल तेजोवर्गणा विषय है। सत्रहवेंमें विस्त्रसोपचयरहित केवल भाषावर्गणा विषय है। अठारहवेंमें विस्त्रसोपचयरहित केवल मनोवर्गणा विषय है।

१. गो० जी०, गा०, ४०३ । २. "सूक्ष्मनिगोदस्य लब्धपयसिप्तकस्य जातस्य, ऋजुगत्या उत्पन्नस्य, उत्तरोस्तृतीयसमये वर्तमानस्य जीवस्य घनाङ्गुलासंख्येयभागमात्रं सर्वजघन्यमवगाहनं भवति" गो०जी०, गाथा ६४, संस्कृत टीका, पृ० २१५ । ३. "आवलियपुधत्तं पुण हत्थं तह" —गो० जी०, गा० ४० । ४. "भर-हस्मि अद्धमासं साधियमासं च जंबुदीवस्मि" —गो० जी०, गा० ४०५ । ५. "संखेज्जपमे वासे दीवसमुदा" वासस्मि असंखेज्जे" —गो० जी०, गा०, ४०६ ।

कालो (काले) चटुणं बुड्डी कालो भजिदव्वे खेत्तबुड्डीए ।
 उड्डीयं दव्वपज्जयं भजिदव्वं खेत्तकालो य ॥७॥
 परंमोधिमसंखेज्जा लोगामेत्ताणि समय-कालो दु ।
 रुवगदं लभदि दव्वं खेत्तोवममगणि-जीवेहिं ॥८॥
 पैणुवीसं जोण(य)णाणं ओधी वेंतरकुमारवग्गाणं ।
 संखेज्जजोणणाणं जोदिसियाणं जहण्होधी ॥९॥
 अंसुराणमसंखेज्जा जोजणकोडी सेसजोदिसंताणं ।
 संखाती(दी)दसहस्सा उक्कस्सेणोधिविसे(स)यो दु ॥१०॥
 संकीसाणे पढमं दो च्चदु विदियं सणक्कुमार-माहिंदे ।
 तच्चदु (तदियं तु) बम्हलंतय सुक्कसहस्सारया चउत्थी ॥११॥
 आणदपाणदवासी तथ आरणआरणच्चुदा देवा ।
 पस्संति पंचमखिदिं छट्ठी गेवेज्जया देवा ॥ १२ ॥

तेरहवें, चौहवें आदि काण्डकोंमें असंख्यातगुणित क्षेत्र तथा असंख्यातगुणित काल है । अर्थात् बारहवें काण्डकके काल तथा क्षेत्रसे असंख्यातगुणित काल तथा क्षेत्र तेरहवें काण्डकमें है । इसी प्रकार आगे जानना चाहिए ॥६॥

विशेषार्थ—उन्नीसवें काण्डकमें एक समय कम पत्यप्रमाण काल है, सम्पूर्ण लोकाकाश क्षेत्र है ।

कालकी वृद्धि होनेपर द्रव्य, क्षेत्र, काल तथा भावरूप चारों वृद्धियाँ होती हैं । क्षेत्रकी वृद्धि होनेपर कालकी वृद्धि भजनीय है अर्थात् हो भी, न भी हो । द्रव्य और भाव (पर्याय) की वृद्धि होनेपर क्षेत्र, कालकी वृद्धि भजनीय है ॥७॥

परमावधिका काल एक समय अधिक लोकाकाशके प्रदेशप्रमाण है, क्षेत्र असंख्यात लोकप्रमाण है, जो अग्निकायिक जीवोंकी संख्याप्रमाण है । एक प्रदेशाधिक लोकाकाशप्रमाण इसका द्रव्य है ॥८॥

व्यन्तरो तथा भवनवासी देवोंमें जघन्य क्षेत्रपच्चीस योजन प्रमाण है, ज्योतिषी देवोंका जघन्य क्षेत्र संख्यात योजन है । असुरकुमारोंका उत्कृष्ट क्षेत्र संख्यात कोटि योजन है । शेष नव भवनवासी तथा व्यन्तरो-ज्योतिषियोंका उत्कृष्ट क्षेत्र असंख्यात हजार योजन है ॥९-१०॥

सौधर्मद्विकका क्षेत्र प्रथम नरकपर्यन्त है । सनत्कुमार, माहेन्द्रका दूसरे नरकपर्यन्त है । ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लान्तव, कापिष्ठवासियोंका तीसरे नरकपर्यन्त; शुक्र, महाशुक्र, शतार, सहस्रारवाले चौथे नरकपर्यन्त जानते हैं ॥ ११ ॥

आनत, प्राणत, आरण, अच्युत स्वर्गवासी पाँचवें नरक तक, नवभ्रैवेयकवासी छठीं पृथ्वीपर्यन्त देखते हैं ॥ १२ ॥

१. "काले चउण्ण उड्ढो" - गी० जी०, गा० ४११ । २. यह गाथा १६वें नम्बरपर भी पायी जाती है । वर्णनक्रमकी दृष्टिसे यह १६वें नम्बरपर विशेष उपयुक्त प्रतीत होती है । ३. गी० जी०, गा० ४२५ । ४. गी० जी०, गा० ४३६ । ५. "संकीसाणा पढमं विदियं तु सणक्कुमारमाहिंदा । तदियं तु बम्हलंतव" - गी० जी०, गा० ४२६ । ६. गी० जी०, गा ४३० । ७. त० रा०, पृ० ५७ । ८. त० रा०, पृ० ५७ ।

सर्वं पि लोगणालि पस्संति अणुत्तरेसु जे देवा ।

संखेते (सखेत्ते) य सकम्मे रूवगदमणंतभागो य ॥ १३ ॥

तेजासरीरलंभो उक्कस्सेण दु तिरिक्खजोणीणं ।

गाउदजहण्णमोधी गिरयेसु य जोजणुकस्सं ॥ १४ ॥

उक्कस्समणुसे (स्से) सु य मणुस (स्स) तेरच्छिण जहण्होधी ।

उक्कस्सं लोगमेत्तं पडिवादी तेण परमप्पडिवादी ॥ १५ ॥

परमोधि असंखेजा लोगमेत्ताणि समय कालो दु ।

नव अनुदिश तथा पंच अनुत्तर विमानवासी देव सर्व त्रसनालीको देखते हैं ॥ १३ ॥

विशेषार्थ—सौधर्मादिकके देव अपने विमानकी ध्वजाके दण्डके शिखरपर्यन्त ऊपर जानते हैं। नव अनुदिश तथा पंच अनुत्तर विमानवासी देव अपने विमानके शिखरपर्यन्त ऊपर देखते हैं। नीचे बाह्य तनुवात बलयपर्यन्त सम्पूर्ण त्रसनालीको देखते हैं। अनुदिश विमानवाले कुछ अधिक तेरह राजू प्रमाण तथा अनुत्तर विमानवाले कुछ कम इक्कीस योजन-रहित चौदह राजू प्रमाण क्षेत्रको देखते हैं। गाथाके उत्तरार्थमें अवधिके विषयभूत द्रव्यको जाननेका क्रम कहते हैं—अपने-अपने अवधिज्ञानावरण कर्मके द्रव्यमें एक बार ध्रुवहारका भाग देनेपर अपने क्षेत्रके प्रदेशमें-से एक-एक प्रदेश कम करते जाना चाहिए और यह कार्य तबतक करते जाना चाहिए, जबतक कि क्षेत्रके प्रदेशोंका प्रमाण घटते-घटते समाप्त न हो जाये। इस प्रकार करनेके अनन्तर जो अनन्तभाग प्रमाण द्रव्य अवशिष्ट रहेगा वहाँ-वहाँ उतना-उतना ही द्रव्यका प्रमाण समझना चाहिए।

^१तिर्यचगतिमें अवधिका उत्कृष्ट द्रव्य तैजस शरीरके द्रव्यप्रमाण है; क्षेत्र भी इतना ही है। अर्थात् तैजस शरीर द्रव्यके परमाणुप्रमाण आकाश प्रदेशोंसे जितने द्वीप, समुद्र व्याप्त किये जायें, उतना है। वह असंख्यात द्वीप समुद्रप्रमाण होता है ॥ १४ ॥

नरकगतिमें अवधिका जघन्य क्षेत्र एक कोस, उत्कृष्ट क्षेत्र एक योजन है।

उत्कृष्ट देशावधि मनुष्योंमें ही होता है। जघन्य देशावधि मनुष्य, तिर्यचोंमें होता है। उत्कृष्ट देशावधिका क्षेत्र लोकप्रमाण है। यह प्रतिपाती होता है अर्थात् इसके धारकका मिथ्यात्वादिमें पतन सम्भव रहता है। परमावधि तथा सर्वावधि अप्रतिपाती होते हैं ॥ १५ ॥

^३परमावधिका उत्कृष्ट क्षेत्र लोकालोकप्रमाण असंख्यात लोक है। यह अग्निकायिक

१. "सखेत्ते य सकम्मे" —गो० जी०, गा० ४३१। २. "तिरिक्खामुक्कृष्टदेशावधिहच्यते" तेजसरीरप्रमाणं द्रव्यम् । कियच्च तत् ? असंख्येयसमुद्राकाशप्रदेशपरिच्छिन्नाभिरसंख्येयाभिस्तेजःशरीर-द्रव्यवर्णणाभिनिवर्तितं तावदसंख्येयस्कन्धाननन्तप्रदेशान् जानातीत्यर्थः ।" —त० रा०, पृ० ५७। ३. उत्कृष्ट-परमावधिः क्षेत्रं सलोकालोकप्रमाणा असंख्येया लोकाः । कियन्तस्ते अग्निजोवतुल्याः "कालः प्रदेशाधिकलोक-काशप्रदेशावधूतप्रमाणा अत्रिभागिनः समयास्ते चासंख्याताः संवत्सराः ।" "द्रव्यं प्रदेशाधिक-लोककाश-प्रदेशावधूतप्रमाणम् ॥" त० रा०, पृ० ५७।

रूवगदं लभदि द्रुवं खेत्तोपममगणिजीवेहिं ॥ १६ ॥

एवं ओधिणाणावरणीयस्स कम्मस्स परूवणा कदा भवदि ।

२. यं तं मणपञ्जवणाणावरणीयं कम्मं बंधंतो (कम्मं) तं एयविधं । तस्स दुविधा परूवणा—उज्जुमदिणाणं चेव विपुलमदिणाणं चेव । यं तं उज्जुमदिणाणं तं तिविधं—उज्जुगं मणोगदं जाणदि । उज्जुगं अचिगदं जाणदि । उज्जुगं कायगदं जाणदि । मण्णेण माणसं पडिविंदइत्ता परेसिं सण्णासदिमदिचिंतादि विजाणदि, जीविदमरणं लाभालाभं

जीवोंकी संख्याप्रमाण है । परमावधिका काल समयाधिक लोकाकाशके प्रदेशप्रमाण है। यह असंख्यात वर्ष रूप है । इसका द्रव्य प्रदेशाधिक लोकाकाशके प्रदेश प्रमाण है ॥ १६ ॥

विशेष—अवधिज्ञानके जितने भेद कहे गये हैं, उतने ही अवधिज्ञानावरण कर्मके भेद हैं । अवधिज्ञानका अवधिज्ञानावरण कर्मके साथ अचिनाभाव सम्बन्ध है । अतः श्रुतज्ञानके समान यहाँ भी अवधिज्ञानके वर्णन-द्वारा अवधिज्ञानावरणीय कर्मका वर्णन हुआ समझना चाहिए ।

इस प्रकार अवधिज्ञानावरण कर्मको प्ररूपणा हुई ।

[मनःपर्ययज्ञानावरणप्ररूपणा]

२. यह जो मनःपर्ययज्ञानावरणीय कर्म है, वह एक प्रकारका है । उसकी दो प्रकारकी प्ररूपणा है । एक ऋजुमतिज्ञान है, दूसरा विपुलमति मनःपर्ययज्ञान है । जो ऋजुमतिज्ञान है, वह तीन प्रकारका है । वह सरल मनोगत पदार्थको जानता है । सरल वचनगत पदार्थको जानता है । सरल कायगत पदार्थको जानता है । यह ऋजुमतिज्ञान मनसे—मतिज्ञानसे अन्य जीवके मनको अथवा मनःस्थित पदार्थको ग्रहण करके मनःपर्ययज्ञानके द्वारा अन्यकी संज्ञा (प्रत्यभिज्ञान) स्मृति, मति, चिन्तादिको जानता है ।

विशेषार्थ—मनसे अर्थात् मतिज्ञानसे मानसिक पदार्थको पर्यय—ग्रहण करना मनःपर्ययज्ञान है । मतिज्ञान मनःपर्ययमें अवलम्बनमात्र है, कारणरूप नहीं है । जैसे आकाशमें स्थित चन्द्रदर्शनके लिए वृक्षकी शाखादिकी सीधका अवलम्बनमात्र लिया जाता है^१, चन्द्रदर्शनमें कारण नेत्रकी शक्ति है । इसी प्रकार मनोगतादि भावोंका परिज्ञान करनेमें मनःपर्ययज्ञानावरण कर्मका क्षयोपशम कारण है । मन अथवा मतिज्ञान अवलम्बनमात्र हैं । विपुलमति मनःपर्ययज्ञान मनके द्वारा अचिन्तित अथवा अर्धचिन्तित पदार्थको भी ग्रहण करता है ।

१. “परूवणा णाम किं उत्तं होदि ? ओघावेसेहि गुणेसु जीवसमासेसु पज्जस्तीसु पाणेसु सण्णासु गवीसु इदिएसु काएसु जोगेसु वेदेषु कसाएसु णाणेसु संजमेसु दंसणेसु लेस्सासु भविएसु अभविएसु सम्मत्तेसु सणिगअसण्णोसु आहारिअणहारीसु उवजोगेसु च पज्जत्तापज्जतविससणेहि विसेसिअण जा जीवपरिवत्ता सा परूवणा णाम ।”-ध० टी०, भा० २, पृ० ४१२ । २. “यथाऽप्रे चन्द्रमसं पश्येति अत्रमपेक्षाकारणमात्रं भवति, न च चक्षुरादिविचिन्तकं चन्द्रज्ञानस्य । तथाऽऽयदीयमनोऽप्यपेक्षाकारणमात्रं भवति । परकीयमनसि व्यवस्थितमर्थं जानाति मनःपर्ययः । ततो नास्य तदायत्तः प्रभव इति न मतिज्ञानप्रसंगः ।”-त० रा०, पृ० ५८ ।

सुखदुःखं णगरविणासं देह(देस)विणासं जणपदविणासं अदिवुट्ठि अणावुट्ठी-
सुवुट्ठि-दुवुट्ठी सुभिक्षं दुब्भिक्षं खेमाखेमं भयरोगं उब्भमं विब्भमं संभमं वत्त-
माणानं जीवाणं, णो अवत्तमाणानं जीवाणं जाणदि । जहण्णेण गाउदपुधत्तं । उक्खसेण
जोजणपुधत्तस्स अब्भंतरादो, णो बहिद्वा । जहण्णेण दो तिण्णि भवग्गहणाणि, उक्खसेण
सत्तद्दुभवग्गहणाणि गदिरागदि पदुप्पादेति ।

यह ऋजुमति मनःपर्ययज्ञान 'वत्तमाणानं'—व्यक्तमनवाले (संशय, विपर्यय, अनध्यव-
सायरहित मनयुक्त) अन्य जीवोंके एवं अपने अथवा 'वत्तमाणानं'^३—'वर्तमान' जीवोंके,
वर्तमानमें मनःस्थित त्रिकालसम्बन्धी पदार्थको जानता है । अतीत अथवा अनागत मनोगत
पदार्थको यह ऋजुमति नहीं जानता है । यह वर्तमान अथवा व्यक्तमनवाले जीवोंके जीवन,
मरण, लाभ, अलाभ, सुख, दुःख, नगरविनाश, देशविनाश, जनपदविनाश, अतिवृष्टि, अनावृष्टि,
सुवृष्टि, दुर्वृष्टि, सुभिक्ष, दुर्भिक्ष, क्षेम, अक्षेम, भय, रोग, उद्भ्रम, विभ्रम तथा सम्भ्रमको
जानता है । यह ऋजुमति जघन्यसे कोसपृथक्त्व, उत्कृष्टसे योजनपृथक्त्वके भीतर जानता
है । बाहर नहीं जानता है । कालकी अपेक्षा जघन्यसे दो तीन भव, उत्कृष्टसे सात आठ भव
ग्रहणसम्बन्धी गति-आगतिका प्रतिपादन करता है ।

१. "चतुर्गौरान्वितं नगरम् । अंगवंगकलिगमगघादओ देसा णाम । देसस्स एगदेसो जणवओ णाम
जहा सूरसेणकासिणांधारआवन्ति आदओ । सस्ससम्पादिका वृष्टिः सुवृष्टिः । सालीवीहोजवगोधूमादिघाणानं
सुलहत्तं सुहिवखं णाम । अरादोणामभावो.खेमं णाम । परक्कक्कागमादओ भयं णाम ।"—ध० टी०, प० १२९६ ।
२. उद्धृतमिदम्—“आगमे ह्युक्तं मनसा मनः परिच्छिद्य परेषां संज्ञादीन् जानातीति ।”—त० राज०, पृ० ५८ ।
“मणेण माणसं पडिदिदइत्ता परेसि सण्णा-सदि-मदि-विता-जीविद-मरणं लाहालाहं सुहदुक्खं णयरविणासं
देसविणासं जणवविणासं खेडविणासं, कव्वडविणासं, मडंविणासं, पट्टणविणासं दोणमुहविणासणं अद्वुट्ठि-
अणावुट्ठि-सुवुट्ठि-दुवुट्ठि-सुभिक्षं दुर्भिक्षं खेमाखेम-भयरोगकालसंजुत्ते अत्थे विजाणदि ।”—ध० टी०, प० १२५८ ।
“मणेण मदिणाणेण । कथं मदिणाणस्स मणववएसो ? कज्जे कारणोवयारादो । मणम्मि भवं लिगं माणसं ।
अथवा मणो चेव माणसो, पडिदिदइत्ता घेत्तूण पच्छा मणपज्जवणाणेण जाणदि ।” “मदिणाणेण परेसि मणं
घेत्तूण चेव मणपज्जवणाणेण मणम्मि द्विदमत्थं जाणदि त्ति भणिदं होदि । एसो णियमो ण विउलमइस्स, अचि-
तिदाणं पि अट्टाणं विसईकरणादो”—ध० टी० । ३. “व्यक्तमनसां जीवानामर्थं जानाति, नाव्यक्तमनसाम् ।
व्यक्तः स्फुटीकृतोऽर्थश्चिन्तया मुनिर्वतितो येस्ते जीवा व्यक्तमनसस्तैरर्थं चिन्तितं ऋजुमतिर्जानाति नेतरैः ।”
—त० राज०, पृ० ५८ । ४. “वट्टमाणभवग्गहणेण विणा दोणिण, तेण सह तीण्णि भवग्गहणाणि जाणदि त्ति ।”
—ध० टी० । धवला टीकामे वीरसेन स्नासी उपरोक्त दोनों दृष्टियोंका समन्वय करते हुए लिखते हैं—“व्यक्तं
निष्पन्नं संशयविपर्ययानध्यवसायरहितं मनः येषां ते व्यक्तमनसः, तेषां व्यक्तमनसां जीवानां परेषामात्मनश्च
सम्बन्धि वस्त्वन्तरं जानाति, नाव्यक्तमनसां जीवानां सम्बन्धि वस्त्वन्तरम्, तत्र तस्य सामर्थ्याभावात् । अथवा
वर्तमानानां जीवानां वर्तमानमनोगतं त्रिकालसम्बन्धिनमर्थं जानाति, नातीतानागतमनोविषयमिति ।”—ध० टी०,
प० १२६६ ।

३. यं तं विपुलमदिणाणं तं छन्विधं—उज्जुगं मणोगदं जाणदि, उज्जुगं वचिगदं जाणदि, उज्जुगं कायगदं जाणदि, अणुज्जुगं मणोगदं जाणदि, एवं वचिगदं काय(गदं) च । एवं याव वत्तमाणाणं पि जीवाणं जाणदि । जहण्णेण जोजणपुधत्तं, उक्कस्सेण माणुसुत्तरसेलस्स अब्भंतरादो, णो बहिद्वा । जहण्णेण सत्तट्ठभवग्गहणाणि, उक्कस्सेण असंखेजाणि भवग्गहणाणि गदिरागदिं पदुप्पादेदि । एवं मणपज्जवणाणावरं कम्मस्स परूवणा कदा भवदि ।

विशेषार्थ—यदि वर्तमान भवको ग्रहण करते हैं तो तीन भव होते हैं । यदि वर्तमानको छोड़ दिया जाये, तो दो भव होते हैं । इस कारण दो भव या तीन भवसम्बन्धी कथनमें विरोधका सद्भाव नहीं रहता है । सात-आठ भवकी गति-आगतिके विषयमें भी यही समाधान है । वर्तमान भवकी सम्मिलित करनेपर आठ भव, उसको छोड़नेपर सात भव होते हैं ।

३. जो विपुलमति मनःपर्ययज्ञान है, वह छह प्रकारका है । वह सरल मनोगत पदार्थको जानता है, सरल वचनगत पदार्थको जानता है, सरल कायगत-पदार्थको जानता है, कुटिल मनोगत पदार्थको जानता है, कुटिल वचनगत पदार्थको जानता है, कुटिल कायगत पदार्थको जानता है । यह वर्तमान जीव तथा अवर्तमान जीवोंके अथवा उग्रक्तमनवाले तथा अव्यक्त मनवाले जीवोंके द्वारा चिन्तित अचिन्तित सुख-दुःख लाभालाभादिको जानता है ।^१

इसका क्षेत्र जघन्यसे योजन पृथक्त्व है । यह उत्कृष्टसे मानुषोत्तर पर्वतके अभ्यन्तर जानता है । बाहर नहीं जानता है ।

विशेषार्थ—मनःपर्ययज्ञानका क्षेत्र ४५ लाख योजन वर्तुलाकार न होकर^२ विष्कम्भात्मक है, चौकोर रूप है । अत एव मानुषोत्तर पर्वतके बाहरके कोणमें स्थित विषयोंको भी विपुल-मतिज्ञानवाला जानता है ।

कालकी अपेक्षा यह जघन्यसे सात आठ भव, उत्कृष्टसे असंख्यात भवोंकी गति आगतिका प्ररूपण करता है ।^३

विशेष—शंका—इस मनःपर्ययज्ञानावरण प्ररूपणामें मनःपर्ययज्ञानका निरूपण क्यों किया गया ? ज्ञानमें कर्मत्वका समन्वय कैसे होगा ?

समाधान—मनःपर्ययज्ञानावरणके द्वारा मनःपर्ययज्ञान आवृत्त होता है । यहाँ आवरण किये जानेवाले ज्ञानमें आवरण अर्थात् मनःपर्ययज्ञानावरणीय कर्मका उपचार किया गया है ।

इस प्रकार मनःपर्ययज्ञानावरण कर्मकी प्ररूपणा की गयी ।

१. "चित्तिमचित्तिर्यं वा अद्धचित्तिमणेपभेयगयं । ओहिं वा विउलमदो लहिकण विजाणए पच्छा ।" —गो०जी०, गा० ४४८ । त०रा०, पृ० ५९ । २. "णरलोएत्ति य वयणं विक्कम्भणियामयं ण वट्टस्स । तम्हा तम्भणपदरं मणपज्जवखेतमुहिट्ठं ॥"—गो० जी०, गा० ४५५ । ३. "दुगतिगमवा हं अवरं सत्तट्ठमवा हवति उवकस्सं । अडणवमवा ह् अवरमसंखेज्जं विउलउवकस्सं ॥"—गो० जी०, गा० ४५६ ।

४. यं तं केवलणाणावरणीयं कम्मं तं एयविधं । तस्स परूवणा कादव्वा भवदि । सयं भगवं उप्पण्णणाणदरिसी सदेवासुरमणुसस्स लोगस्स अगदि-ग्दि चयणोपवादं बंधं मोक्खं इद्धि जुद्धि अणुभागं तक्कं कलं मणो-माण(णु)सिक्क-भुत्तं कदं पडिसेविदं आदिकम्मं अरहकम्मं सव्वलोगे सव्वजीवाणं सव्वभावे समं सम्मं जाणदि । एवं केवलणाणावरणीयस्स कम्मस्स परूवणा कदा भवदि ।

[केवलज्ञानावरणप्ररूपणा]

४. जो केवलज्ञानावरणीय कर्म है, वह एक प्रकारका है। उसकी प्ररूपणा की जाती है। जिनेन्द्र भगवान्को केवलज्ञान तथा केवलदर्शनकी उपलब्धि हो चुकी है। वे स्वयं स्वर्गवासी देव, असुर^३ अर्थात् भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी देव, तिर्यच तथा मनुष्यलोककी गति, आगति, चयन, उपपाद्, बन्ध, मोक्ष, ऋद्धि, युति (जीवादि द्रव्योंका मिलना), अनु-भाग, तर्क, पत्रछेदनादि कला, मनजनित ज्ञान, मानसिक विषय, राज्यादि एवं महात्रतादिका पालन करना, रूप भुक्ति, कृत, प्रतिसेवित (त्रिकालमें पंचेन्द्रियोंके द्वारा सेवित), आदि कर्म अरह अर्थात् अनादि कर्मको सर्वलोकमें, सर्वजीवोंके सर्वभावोंको युगपत् सम्यक् प्रकारसे जानते हैं।

विशेषार्थ—केवली भगवान् त्रिकालावच्छिन्न लोक-अलोकसम्बन्धी सम्पूर्ण गुण पर्यायोंसे समन्वित अनन्त द्रव्योंको जानते हैं। ऐसा कोई ज्ञेय नहीं हो सकता है, जो केवली भगवान्के ज्ञानका विषय न हो। ज्ञानका धर्म ज्ञेयको जानना है और ज्ञेयका धर्म है-ज्ञानका विषय होना। इनमें विषयविषयिभाव सम्बन्ध है। जब मति और श्रुतज्ञानके द्वारा भी यह जीव वर्तमानके सिवाय भूत तथा भविष्यत् कालकी बातोंका परिज्ञान करता है, तब केवली भगवान्के द्वारा अतीत, अनागत, वर्तमान सभी पदार्थोंका ग्रहण करना युक्तियुक्त ही है। प्रतिबन्धक ज्ञानावरण कर्मके क्षय होनेपर आत्मा सकल पदार्थोंका साक्षात्कार कर लेता है। जैसे प्रदीपका प्रकाशन करना स्वभाव है, उसी प्रकार ज्ञानका भी स्वभाव स्व तथा परका प्रकाशन करना है। यदि क्रमपूर्वक केवली भगवान् अनन्तानन्त पदार्थोंको जानते तो सम्पूर्ण पदार्थोंका साक्षात्कार न हो पाता। अनन्तकाल व्यतीत होनेपर भी पदार्थोंकी अनन्त गणना अनन्त ही रहती। आत्माकी असाधारण निर्मलता होनेके कारण एक समयमें ही सकल

१. "असुराश्च भवनवासिनः, देवामुरवचनं देशामर्षकमिति ज्योतिषां व्यन्तराणां तिरश्चां ग्रहणं कर्तव्यम् ।"—ध० टी० । २. "जीवादिदव्वाणं मेलणं जुद्धि । पत्तच्छेद्यादि कलाणाम । मणोजणिदं णाणं वा मणो वुच्चदे । रज्जमहव्वयादिविपरालणं भुत्ती णाम । पंचहि इदिह्दि तिसुवि कालेसु जं सेविदं तं पडिसेविदं णाम । आद्यकम्मं आदिकम्मं णाम, अत्थवंजणपज्जायभावेण सव्वेसि दव्वाणमादि जाणदि त्ति भणिदं होदि । रहः अन्तरम् । अरहः अनन्तरम् । अरहः कर्म अरहकम्मं तं जानाति । सुद्धदव्वट्ठियणयविसएण सव्वेसि दव्वाणमणादित्तं जाणदि त्ति भणिदं होदि ।" ध० टी०, प० १२७२ । ३. असुर व्यन्तरांके भेदविशेषका ज्ञापक होते हुए भी यहाँ सुरोंसे भिन्न असुर इस अर्थमें प्रयुक्त हुआ है। इस कारण तिर्यच भी असुर शब्दके द्वारा गृहीत हुए हैं ।—ध० टी० । ४. "सर्वद्रव्यपर्यायिषु केवलस्य ।"—त० सू० १२२९ । ५. "न खलु जस्वभावस्य कश्चिच्चदोषोऽस्ति यन्न क्रमेत, तस्वभावांतरप्रतिषेधात् ।" "जो ज्ञेय कथमज्ञः स्यादसति प्रतिबन्धने । दाहोऽग्निदीहको न स्यादसति प्रतिबन्धने ॥"—अष्टसह०, पृ० ४६।५० ।

५. दर्शनावरणीयस्य कम्मस्स णव पगदीओ । वेदणीयस्स कम्मस्स दुवे पगदीओ । मोहणीयस्स कम्मस्स अट्ठावीसपगदीओ । आयुगस्स कम्मस्स चत्तारि पगदीओ ।

पदार्थोंका ग्रहण होता है। 'जब ज्ञान एक समयमें सम्पूर्ण जगत्का या विश्वके तत्त्वोंका बोध कर चुकता है, तब आगे वह कार्यहीन हो जायगा' यह आशंका भी युक्त नहीं है; कारण काल द्रव्यके निमित्तसे तथा अगुरुलघुगुणके कारण समस्त वस्तुओंमें क्षण-क्षणमें परिणमन-परिवर्तन होता है। जो कल भविष्यत् था, वह आज वर्तमान बनकर आगे अतीतका रूप धारण करता है। इस प्रकार परिवर्तनका चक्र सदा चलनेके कारण ज्ञेयके परिणमनके अनुसार ज्ञानमें भी परिणमन होता है। जगत्के जितने पदार्थ हैं, उतनी ही केवलज्ञानकी शक्ति या मर्यादा नहीं है। केवलज्ञान अनन्त है। यदि लोक अनन्तगुणित भी होता, तो केवल-ज्ञानसिन्धुमें वह बिन्दुतुल्य समा जाता। इस केवलज्ञानकी प्राप्ति मुख्यतासे ज्ञानावरणके क्षयसे होती है; किन्तु ज्ञानावरणके साथ दर्शनावरण तथा अन्तरायका भी क्षय होता है। इन तीन घातिया कर्मोंके पूर्व मोहका क्षय होता है। मोहक्षय हुए बिना केवल्यकी उपलब्धि नहीं होती है। उज्ज्वल तथा उक्लृष्ट ज्ञानोंकी प्राप्तिके लिए मोहका निवारण होना आवश्यक है। अनन्त केवलज्ञानके द्वारा अनन्त जीव तथा अनन्त आकाशादिका ग्रहण होनेपर भी वे पदार्थ सान्त नहीं होते हैं। अनन्त ज्ञान अनन्त पदार्थ या पदार्थोंको अनन्त रूपसे बताता है, इस कारण ज्ञेय और ज्ञानकी अनन्तता अबाधित रहती है। कोई-कोई व्यक्ति सोचते हैं, सर्वज्ञका भाव सकल पदार्थोंका अबोध नहीं है, किन्तु केवल आत्माका ज्ञानप्राप्त व्यक्ति उपचारसे सर्वज्ञ कहलाता है, वास्तवमें सर्वज्ञ कोई नहीं है।

यह धारणा भ्रान्तिपूर्ण है। जब ज्ञान क्षायोपशमिक अवस्थामें रहना है, तब वह अनेक पदार्थोंका साक्षात्कार करता है; जब वह ज्ञान क्षायिक अवस्थाको प्राप्त करता है, तब उस ज्ञानको न्यून बताकर आत्माके ज्ञान रूपमें सीमित सोचना असम्यक् है। क्षायिक अवस्थामें आबाधक कारण दूर होनेपर ज्ञानकी वृद्धि स्वीकार न कर, उसे न्यून मानना अयोग्य है। शंकाकार यह सोचे कि किस कारणसे सुविकसित मति, श्रुत, अवधि तथा मनः-पर्ययरूप ज्ञानचतुष्टय क्षीण होकर केवल्यकालमें आत्माके ज्ञानरूपमें सीमित हो जाते हैं। आत्माका स्वभाव ज्ञान है। प्रतिबन्धक सामग्रीके अभाव होनेपर ऐसी कोई भी सामग्री नहीं है जो आत्माकी सर्वज्ञताको क्षति पहुँचा सके, अतः जिनशासनमें आत्माकी सर्वज्ञताको काल्पनिक नहीं, किन्तु वास्तविक रूपमें मान्यता प्रदान की गयी है।

इस प्रकार केवलज्ञानावरण कर्मकी प्ररूपणा हुई।

[दर्शनावरणादिकर्मप्ररूपणा]

५. दर्शनावरण कर्मकी नव प्रकृतियाँ हैं—चक्षु-अचक्षु-अवधि-केवल-दर्शनावरण, निद्रा, निद्रा-निद्रा, प्रचला, प्रचला-प्रचला तथा स्त्यानगृद्धि ।

वेदनीय कर्मकी साता तथा असाता—ये दो प्रकृतियाँ हैं ।

मोहनीय कर्मकी अट्ठाईस प्रकृतियाँ हैं—अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ, सम्यक्त्व प्रकृति, सम्यक्त्व-मिथ्यात्व, मिथ्यात्व, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद ।

नरक, मनुष्य, तिर्यच, देवायु ये आयु कर्मकी चार प्रकृतियाँ हैं ।

णामस्स कम्मस्स बादालीसं बंध-पगदीओ । यं तं गदिणामं कम्मं तं चदुविधं-णिरय-
गदि याव देवगदि त्ति । या(य)था पगदिभंगो तथा कादव्वो । गोदस्स कम्मस्स दुवे
पगदीओ । अंतराङ्गस्स कम्मस्स पंच पगदीओ । एवं पगदिसमुक्कित्तणा समत्ता ।

६. जो सो सव्वबंधो णोसव्वबंधो णाम तस्स इमो दुवि०-ओघेण आदेसेण य ।
ओघे णाणंतराङ्गस्स पंच पग० किं सव्वबंधो णोसव्वबंधो ? [सव्वबंधो ।] दंसणाव०
किं सव्वबंधो णोसव्वबंधो ? सव्वाओ पगदीओ बंधमाणस्स सव्वबंधो । तदूणबंधमाणस्स

नामकर्मकी बयालीस बन्ध प्रकृतियाँ हैं-गति, जाति, शरीर, बन्धन, संघात, संस्थान, अंगोपांग, संहनन, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, आनुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, आताप, उद्योत, विहायोगति, त्रस-स्थावर, बादर-सूक्ष्म, पर्याप्त-अपर्याप्त, प्रत्येक-साधारण, स्थिर-अस्थिर, शुभ-अशुभ, सुभग-दुर्भग, सुस्वर-दुस्वर, आदेय-अनादेय, यशःकीर्ति-अयशःकीर्ति, निर्माण और तीर्थकर ।

इस नामकर्ममें जो गति नामका कर्म है, उसके चार भेद हैं-नरकगति, देवगति मनुष्यगति, तिर्यचगति । इस प्रकार जिस प्रकृतिके जितने भेद हैं, उतने भेद समझ लेना चाहिए । अर्थात् षट्खंडागम वर्गणाखंडान्तर्गत प्रकृति अनुयोगद्वारमें जिस प्रकार कर्मोंकी उत्तर प्रकृतियोंका निरूपण किया गया है, तदनुसार यहाँ भी जानना चाहिए ।

विशेषार्थ-गतिके सिवाय नामकर्मकी ये प्रकृतियाँ भी भेदयुक्त हैं । एकेन्द्रिय, दो इन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चौइन्द्रिय तथा पञ्चेन्द्रिय जाति । औदारिक, वैक्रियिक, आहारक, तैजस, कामण शरीर । औदारिकादि रूप पञ्च बन्धन तथा पंच संघात । समचतुरस्र, न्यग्रोधपरिमण्डल, कुब्ज, स्वाति, वामन, हुण्डक-संस्थान । औदारिक-शरीरांगोपांग, वैक्रियिक-शरीरांगोपांग, आहारक-शरीरांगोपांग । वज्रवृषभनाराच, वज्रनाराच, नाराच, अर्धनाराच, कीलित, असम्प्राप्तासृपाटिका-संहनन । शुक्ल, कृष्ण, नील, पीत, लाल वर्ण । सुगन्ध, दुर्गन्ध । खट्टा, मीठा, चिरपिरा, कटु, कषायला रस । ठंडा, गरम, स्निग्ध, रूक्ष, हलका, भारी, नरम, कठोर-रूप-स्पर्श । नरक-तिर्यच-मनुष्य-देवगति-प्रायोग्यानुपूर्वी । प्रशस्त-अप्रशस्त विहायोगति । ये ६५ उत्तर प्रकृतियाँ हैं जो पिण्डरूपसे १४ कही गयी हैं । ६५ उत्तर भेदवाली पिण्ड प्रकृतियोंमें २८ भेदरहित अपिण्ड प्रकृतियोंको जोड़नेपर नाम कर्मकी ९३ प्रकृतियाँ होती हैं ।

उच्चगोत्र, नीचगोत्रके भेदसे गोत्रकर्म दो प्रकारका है ।

दान-लाभ-भोग-उपभोग तथा वीर्यान्तराय ये अन्तरायकी पाँच प्रकृतियाँ हैं । सब प्रकृतियाँ १४८ होती हैं ।

विशेष-इन कर्म-प्रकृतियोंके विशेष भेद किये जायें, तो अनन्त भेद हो जाते हैं ।

इस प्रकार प्रकृति-समुत्कीर्तन समाप्त हुआ

[सर्वबन्धनोसर्वबन्धप्ररूपणा]

६. जो सर्वबन्ध तथा नोसर्वबन्ध है, उसका ओघ अर्थात् सामान्य और आदेश अर्थात् विशेषसे दो प्रकार निर्देश होता है ।

ओघसे ५ ज्ञानावरण तथा ५ अन्तरायकी प्रकृतियोंका क्या सर्वबन्ध है या नोसर्वबन्ध ? [इनका सर्वबन्ध होता है ।]

विशेषार्थ-ज्ञानावरण अथवा अन्तरायके पाँच भेदोंमेंसे अन्यतमका बन्ध होनेपर

णोसव्वबंधो । एवं मोहणीय-णामाणं । वेयणी०-आयु-गोदा० किं सव्वबंधो णोसव्व-
बंधो ? णोसव्वबंधो । एवं याव अणाहारग त्ति, णवरि अणुदिसा० याव सव्ववृत्ति
दंसणा०-णोसव्वबंधो । एदेण बीजेण णेदव्वं । एवं उक्कस्सं-बंधो अणुक्कस्सं-बंधोपि
णेदव्वं । यो सो जहण्णबंधो अजहण्णबंधो णाम तस्स इमो दु० णिहेसो । ओघे०
आदेसे० । ओघे० णाणंतराइगरस्स पंचविहस्स किं जहण्णबंधो, अजहण्णबंधो ? अजहण्ण-
बंधो । दंसणावरणीय-मोहणीय-णामाणं वि किं जहण्णबंधो, अजहण्णबंधो ? जहण्णबंधो
वा अजहण्णबंधो वा । वेदणी०-आयु-गोदा० किं जह० अजह० ? जहण्णबंधो । एवं
याव आण (अणा)हारग त्ति णेदव्वं । यो सो सादिय-बंधो अणादिय बंधो ४, तस्स

शेष चार भेदोंका नियमसे बन्ध होता है । सर्व भेदोंका बन्ध होनेके कारण इनका सर्वबन्ध
कहा गया है ।

प्रश्न—दर्शनावरण कर्मका सर्वबन्ध है या नोसर्वबन्ध है ?

उत्तर—सम्पूर्ण प्रकृतियोंके बन्ध करनेवालेके सर्वबन्ध होता है । सर्व प्रकृतियोंमें-से
न्यून प्रकृतियोंके बन्ध करनेवालेके नोसर्वबन्ध है ।

मोहनीय तथा नामकर्ममें दर्शनावरणके समान जानना चाहिए अर्थात् सर्व प्रकृतियोंके
बन्ध करनेवालेके सर्वबन्ध और कुछ न्यून प्रकृतियोंके बन्ध करनेवालेके नोसर्वबन्ध होता है ।
वेदनीय, गोत्र तथा आयुकर्ममें क्या सर्वबन्ध है, अथवा नोसर्वबन्ध है ? नोसर्वबन्ध है ।

विशेषार्थ—साता, असाता वेदनीय, उच्च, नीच गोत्र इन युगलोंमें-से किसी एकका
बन्ध होगा तथा अन्यका अबन्ध होगा । इसी प्रकार आयुचतुष्टयमें-से अन्यतमका बन्ध
होगा, शेषका अबन्ध होगा । इसलिए वेदनीय, गोत्र तथा आयुका नोसर्वबन्ध कहा है ।

आदेशसे यह क्रम अनाहारक पर्यन्त जानना चाहिए । विशेषता यह है कि अनु-
दिशसे सर्वार्थसिद्धिपर्यन्त देवोंमें दर्शनावरण तथा मोहनीयका नोसर्वबन्ध होता है । इस
कथनको आगे भी अन्य मार्गणाओंमें सर्व नोसर्वबन्धका बीजभूत समझना चाहिए ।

[उत्कृष्टबन्ध-अनुत्कृष्टबन्धप्ररूपणा]

इसी प्रकार उत्कृष्टबन्ध तथा अनुत्कृष्टबन्धमें भी जानना चाहिए ।

विशेष—सर्वबन्ध नोसर्वबन्धमें ओघ तथा आदेशसे जैसा वर्णन किया गया है, उसी
प्रकार यहाँ भी जानना चाहिए ।

[जघन्यबन्ध-अजघन्यबन्धप्ररूपणा]

जो जघन्यबन्ध तथा अजघन्यबन्ध है, उसका ओघ तथा आदेशसे दो प्रकारसे
निर्देश करते हैं । ५ ज्ञानावरण, ५ अन्तरायका क्या जघन्यबन्ध है या अजघन्यबन्ध है ?
अजघन्यबन्ध है । दर्शनावरण, मोहनीय तथा नामकर्मका क्या जघन्यबन्ध है या अजघन्य-
बन्ध ? जघन्यबन्ध है तथा अजघन्यबन्ध है । वेदनीय, आयु तथा गोत्रका क्या जघन्यबन्ध
है या अजघन्यबन्ध ? जघन्यबन्ध है ।

अनाहारक मार्गणापर्यन्त इसी प्रकार जानना चाहिए ।

१. "सादि अणादो धुव अद्धुवो य बंधो दु कम्मल्लवकस्स । तदियो सादिय सेसो अणादि धुव सेसगो
आऊ ॥"—गो० कर्म०, गा० १२२ ।

इमो दुवि० । ओषे० आदे० ।

७. ओषे० सादिय-बंधो णाम तत्थ इमं अट्ठपदं एक्का वा छा वा पगदीओ वोच्छिण्णाओ संतिओ भूयो वज्झदि ति । एसो सादियबंधो णाम ।

[सादि-अनादि-ध्रुव-अध्रुवबन्धप्ररूपणा]

जो सादि, अनादि, ध्रुव, अध्रुव बन्ध है, उसका ओष तथा आदेशसे दो प्रकारका निर्देश है ।

७. सादि बन्धका यह अर्थपद है कि एक कर्म अर्थात् आयु कर्मका, छह कर्मोंका अर्थान् वेदनीयको छोड़कर शेष ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, नाम, गोत्र तथा अन्तराय रूप छह कर्मोंका बन्ध व्युच्छिन्न होनेके पश्चात् पुनः बन्ध होना सादिवन्ध है ।

विशेषार्थ—आयुका निरन्तर बन्ध नहीं होता है । आयुका बन्ध होकर रुक जाता है, पुनः बन्ध होता है, अतएव इसको सादिवन्ध कहा है । सदा बन्ध न होनेके कारण अध्रुव भी है । आयुके विषयमें गोस्मटसार कर्मकाण्डमें लिखा है कि भुज्यमान आयुके उत्कृष्ट छह मास अवशेष रहनेपर देव तथा नारकी मनुष्यायु वा तिर्यचायुका बन्ध करते हैं । भोग-भूमिया जीव छह मास अवशेष रहनेपर देवायुका ही बन्ध करते हैं । मनुष्य तथा तिर्यच भुज्यमान आयुका तीसरा भाग अवशेष रहनेपर चारों आयुका बंध करते हैं । तेजकायिक तथा वातकायिक जीव एवं ममम पृथ्वीके नारकी तिर्यच आयुको ही बाँधते हैं । एकेन्द्रिय वा विकलेन्द्रिय मनुष्यायु वा तिर्यचायु ही का बन्ध करते हैं ।

एक जीव एक भवमें एक ही आयुका बन्ध करता है । वह भी योग्यकालमें आठ बार ही बाँधता है । वहाँ सर्वत्र तीसरा-तीसरा भाग शेष रहनेपर बाँधता है ।

आठ अपवर्षके कालोंमें पहली बारके बिना द्वितीयादिक बारमें पूर्वमें जो आयु बाँधी थी, उसकी स्थितिकी वृद्धि, हानि व अवस्थिति होती है । पहली बार आयुकी जो स्थिति बाँधी थी, उसके पश्चात् यदि दूसरी बार, तीसरी बार इत्यादिक बन्ध योग्य कालमें पहली स्थितिसे यदि अधिक आयुका बन्ध हुआ है, तो पीछे जो अधिक स्थिति बाँधी उसकी प्रधानता जाननी चाहिए । यदि पूर्ववद् स्थितिकी अपेक्षा न्यून स्थिति बाँधी, तो पहली बाँधी अधिक स्थितिकी प्रधानता जाननी चाहिए । आयुके बन्धको करते हुए जीवके परिणामोंके कारण आयुका अपवर्तन अर्थात् घटना भी होता है । इसे अपवर्तन घात कहते हैं ।

उद्य प्राप्त आयुके अपवर्तनको कदलीघात कहते हैं । यह भी ज्ञातव्य है कि तीसरा भाग अवशेष रहने पर आगामी आयुका बन्ध होगा ही ; इस प्रकार का एकान्त नियम नहीं है । उस कालमें आयुके बन्ध होनेकी योग्यता है । वहाँ आयुका बन्ध होवे तथा न भी होवे । (गो० क० बड़ी टीका पृ० ८३६-८३८ गाथा ६३९—६४३) उपज्ञान्त कषाय गुण-स्थानमें जब कोई जीव पहुँचता है, तब ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, नाम, गोत्र तथा अन्तरायका बन्ध रुक जाता है, वहाँ केवल सातावेदनीयका ही बन्ध होता है । जब वह जीव गिरकर पुनः सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानमें आता है, तब ज्ञानावरणादिका बन्ध पुनः प्रारम्भ हो जाता है । इस कारण ज्ञानावरणादिका सादिवन्ध कहा गया है ।

१. "सादी अबंधवधे तेहि अणाकवगे अणादी हु । अभवसिद्धिं ध्रुवो, भवसिद्धे अद्धवो बंधो ॥"

८. एवं मूलपददि-अट्ठपदभंगो कादच्चो । एदेण अट्ठपदेण दुवि० ओघे० आदेसे० । ओघे० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छत्तं सोलसकसा०-भयं-दुगुं०-तेजा-कम्म०-वण्ण०४-अगुरु०-उप०-णिमिण० पंचंतराह० किं सादि० ४ ? सादियबंधो वा० ४ । सादासादं सत्तणोकसाय-चदुआयु-चदुग०-पंचजा०-तिणिसरी०-ल्लस्संठा०-तिणि-अंगो०-ल्लस्संघड० चत्तारि आणुपु०-परघादुस्सास-आदावुज्जोवं दोविहायगदि-तसादि-दसयुगलं तिस्थयरं णीचुच्चागोदाणं किं सादि०४ ? सादियअधुवबंधो । एवं अचक्खु० । भवसिद्धि० धुवरहिदं । एवं याव अणाहारग ति णेदव्वं ।

९. यो सो बंधसामित्तविचयो णाम तस्स इमो णिहेसो ओघे० आदे० । ओघे० चोदस-जीवसमासा णादच्चा भवंति । तं यथा मिच्छादिद्धि याव अजोगिकेवलि ति । एदेसि चोदस-जीवसमासाणं पददिबंधवोच्छेदो कादच्चो भवदि ।

८. इस प्रकार मूल कर्मप्रकृतिके अर्थपदभंग (प्रयोजनभूत पदोंके भंग) करना चाहिए । इस अर्थपदसे इस वातको लक्ष्यमें रखते हुए अर्थात् ओघ तथा आदेश-द्वारा दो प्रकार निर्देश करते हैं ।

ओघका अर्थ सामान्य तथा आदेशका अर्थ विशेष है । ओघसे ५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजस, कर्मण, वर्ण आदि ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण, ५ अन्तरायके क्या सादि, अनादि, ध्रुव, अध्रुव ये चारों बन्ध होते हैं ? सादि, अनादि, ध्रुव, अध्रुव बन्ध होते हैं ।

साता, असाता, भय जुगुप्सा बिना ७ नोकषाय, ४ आयु, ४ गति, ५ जाति, ३ शरीर, ६ संस्थान, ३ आंगोपांग, ६ संहनन, ४ आनुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, आताप, उद्योत, २ विहायोगति, त्रसादि दस युगल, तीर्थकर, नीचगोत्र, उच्चगोत्र इनके क्या सादि आदि चार बन्ध होते हैं ? सादि तथा अध्रुव बन्ध हैं ।

ऐसा अचक्षु दर्शनमें जानना चाहिए । भव्यसिद्धिकोंमें ध्रुव भंग नहीं है । अनाहार-कपर्यन्त ऐसा जानना चाहिए ।

[बन्धस्वामित्वविचयप्ररूपणा]

९. जो बन्धस्वामित्वविचय है—उसका ओघ तथा आदेशसे दो प्रकार निर्देश करते हैं । ओघसे—मिथ्यादृष्टिसे लेकर अयोगकेवली पर्यन्त चौदह जीवसमास—गुणस्थान होते हैं । इन चौदह जीवसमासों—गुणस्थानोंमें प्रकृतिबन्धकी व्युच्छित्ति कहनी चाहिए ।

१. 'घादितिमिच्छकसायाभय-तेजगुह-दुग-णिमिण-वण्णवओ । सत्तेलालधुवाणं चदुधा सेसाणयं च दुधा ॥' —गो० क०, गा० १२३-१२४ । २. "एतो इमेसि चोदसण्हं जीवसमासाणं मग्गणदुनाए तस्य इमाणि चोदम चेतुणाणि णायव्वाणि भवंति । जीवाः समस्यन्ते एष्विति जीवसमासाः । तेषां चतुर्दशानां जीवसमासानां चतुर्दशगुणस्थानानामित्यर्थः ।" —ध० टी०, भा० १, पृ० ९१, १३१ ।

१०. पंचाणावरणीय-चतुदसणावरणीय-जसगिति-उच्चागोद-पंच-अंतराइमाणं को बन्धको, अबन्धो ? मिच्छादिद्विप्पहुदि याव सुहुमसंपराइयसुद्धिसंजदा ति बंधा । सुहुमसांपराइय-सुद्धिसंज०दव्वाए चरिमसमयं गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अबसेसा

गुणस्थान	बन्ध व्युच्छित्ति याप्त प्रकृतियाँ	विवरण
मिथ्यात्व	१६	मिथ्यात्व, हुण्डसंस्थान, नपुंसकवेद, असम्प्राप्तासृपाटिकासंहमन, एकेन्द्रिय, स्थावर, आताप, सूक्ष्मत्रय, विकलेन्द्रिय, नरकगति, नरकानुपूर्वी, नरकायु ।
सासादन	२५	४ अन्तानुबन्धो, स्त्यानत्रिक, दुर्भगत्रिक, संस्थान ४, संहनन ४, दुर्गमन, स्त्रीवेद, नीचगोत्र, तिर्यक्गति, तिर्यक्(ानुपूर्वी, उद्योत, तिर्यक्चायु ।
मिश्र	०	×
अविरत	१०	अप्रत्याख्यानावरण ४, वज्रवृषभसंहनन, औदारिकशरीर, औदारिक-आंगोपांग, मनुष्यप्रतिक तथा मनुष्यायु ।
देशविरत	४	प्रत्याख्यानावरण ४ ।
प्रमत्तसंयत	६	अस्थिर, अशुभ, असाता, अयशःकोति, अरति, शोक ।
अप्रमत्तसंयत	१	देवायु ।
अपूर्वकरण	३६	निद्रा-प्रचला ये प्रथम भागमें । छटेमें तीर्थकर, निर्माण, प्रशस्त-विहायोगति, पंचेन्द्रिय, तैजस, कामिग, आहारद्विक, समवनुरत्न-संस्थान, सुरद्विक, वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक आंगोपांग, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय । चरममें हास्य, रति, भय, जुगुप्सा ।
अनिवृत्तिकरण	५	प्रथम भागमें पुरुषवेद, २२में सं० क्रोध, ३२में सं० मान, ४ धेमें सं० माया, ५ वेमें सं० लोभ ।
सूक्ष्मसाम्पराय	१६	५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, ५ अन्तराय, यशःकोति, उच्चगोत्र
उपशांतकषाय	०	×
क्षीणमोह	०	×
सयोगकेवली	१	सातावेरनीय ।
अयोगकेवली	०	×
	१२०	गो० क० गा० ९४-१०२ ।

१०. ५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, यशस्कीर्ति, उच्चगोत्र तथा ५ अन्तरायोंका कौन बन्धक है, कौन अबन्धक है ? मिथ्यादृष्टिसे लेकर सूक्ष्मसाम्परायशुद्धिसंयतपर्यन्त बन्धक हैं । सूक्ष्मसाम्परायशुद्धिसंयत द्रव्यके चरम समय तक पहुँचकर अन्तमें बन्धकी व्युच्छित्ति हो

अबंधा । थीणगिद्धितिगं-अणंताणुबंधि०-४-इत्थिवे०-तिरिक्खायु०-तिरिक्खग०-च-
दुसंठा०-चदुसंघा०-तिरिक्खगदिपा० उज्जो० अप्पसत्थवि० दूमग-दुस्सर-अणादेज्ज-
णीचागोदा० को बंधो, को अबंधो ? मिच्छादि० सासणसम्मदिट्ठिबंधा । एदे
बंधा, अवसेसा अबंधा । णिहापयलाणं को बंधगो, को अबंधो ? मिच्छादि-
ट्ठिपहुदि याव अपुव्वकरणपविट्ठ-सुद्धिसंजदेसु उवसमा खवा बंधा । अपुव्वकर-
णद्धाए संखेज्जदिभागं गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा अवसेसा अबंधा ।
सादावेद० को बंधो, को अबंधो ? मिच्छादिट्ठिपभुदि (हुडि) याव सयोगकेवली
बंधा सजोगकेवलिअद्धाए चरिमसमयं गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि एदे बंधा, अवसेसा
अबंधा । असादावेद०-अरदि-सोग-अधिर-असुभ-अजसगिति को बं० को अबं० ?
मिच्छादिट्ठि पभुदि (हुडि) याव अपमत्त (पमत्त) संजदा त्ति बंधा । एदे बंधा
अवसेसा अबंधा । मिच्छत्त-णपुसंक०वेद-णिरयायु०-णिरयगदि-चदुजादि हुंडसं-
ठाण-असंपत्तसेवट्टसंध०-णिरयगदिपाओग्गाणुपु०-आदाव-थावर-सुहुम-अपज्जत्त - साधा-
रण० को बंधो, को अबं० ? मिच्छादिट्ठी बंधा अवसेसा अबं० । अपच्चक्खाणावर०
४-मणुसगदि-ओरालियसरी०-ओरालि०-अंगो०-वज्जरिसभसंध० - मणुसगदिपाओ० को
बंधको० अबं० ? मिच्छादिट्ठिपभुदि याव असंजद० बंधा । एदे बं० अवसेसा अबं० ।

जाती है । इसलिए आदिके १० गुणस्थानवाले जीव बन्धक हैं; शेष अबन्धक हैं ।

स्थानगुद्धित्रिक, अनन्तानुबन्धी ४, स्त्रीवेद, तिर्यंचायु, तिर्यंचगति, ४ संस्थान,
४ संहनन, तिर्यंचगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्तविहायांगति, दुर्भग, दुस्वर, अतावेय
तथा नीच गोत्रके बन्धक-अबन्धक कौन हैं ? मिथ्यादृष्टिसे सासादन सम्यक्त्वोपर्यन्त बन्धक
हैं । ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं ।

निद्रा-प्रचलाका कौन बन्धक है, कौन अबन्धक है ? मिथ्यादृष्टिसे लेकर अपूर्व-
करणप्रविष्ट शुद्धिसंयतोमें उपशमकों तथा क्षपकोंपर्यन्त बन्धक हैं । अपूर्वकरणके कालमें
संख्यातवें भाग बीतनेपर बन्धकी व्युच्छित्ति होती है । ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं ।

सातावेदनीयका कौन बन्धक-अबन्धक है ? मिथ्यादृष्टिसे लेकर सयोगकेवलीपर्यन्त
बन्धक हैं । सयोगकेवलीके कालके अन्तिम समय व्यतीत होनेपर बन्धकी व्युच्छित्ति होती
है । ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं ।

असातावेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ, अयशस्कीर्तिके कौन बन्धक हैं ?
कौन अबन्धक हैं ? मिथ्यादृष्टिसे लेकर प्रमत्तसंयतपर्यन्त बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, शेष
अबन्धक हैं ।

मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, नरकायु, नरकगति, ४ जाति, हुण्डकसंस्थान, असम्प्राप्ता-
सुपाटिक संहनन, नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, आताप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त तथा साधारण-
का कौन बन्धक, कौन अबन्धक है ? मिथ्यादृष्टि बन्धक है ; शेष अबन्धक है ।

अप्रत्याख्यानावरण ४, मनुष्यगति, औदारिक शरीर, औदारिक आंगोपांग,
वज्रवृषभनाराच संहनन, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका कौन बन्धक है ? कौन अबन्धक है ?
मिथ्यादृष्टिसे लेकर असंयत सम्यक्त्वपर्यन्त बन्धक हैं ; शेष अबन्धक हैं ।

पञ्चखाणावर०४ को बंधो, को अबं० ? मिच्छादिद्वि याव संजदासंजदा बंधा । एदे बं० अवसेसा अबंधा । पुरिसवे०-कोध० संज० को बं० को अबं० ? मिच्छादिद्वि याव अणियद्विउवसमा खवा बंधा । अणियद्विचादरद्वाए संखेज्जाभागं गंतूण वोच्छिज्जदि । एदे बंधा अवसेसा अबंधा । एवं माणमायसंज० । णवरि सेसे सेसे संखेज्जाभागं गंतूण बंधा । एदे बं० अवसेसा अबं० । एवं लोभसंज० । णवरि अणियद्विअद्धाए चरिमसमयं गंतूण बंधो० ; एदे बं० अवसेसा अबं० । हस्सरदिभयदुगुं० को बंधो ? मिच्छादिद्वि याव अपुव्वकरणउवसमा खमा (खवा) बंधा । अपुव्वकरणद्धाए चरिमसमयं गंतू० बंधो वो० । एदे बं० अवसेसा अबं० । मणुसायु० को बंध० को० [अबंधको] ? मिच्छादि०-सासणसम्मादि०-असंजद० बंधा । एदे बं० अवसेसा अबंधा । देवा० मिच्छादि० सासण० असंजदसं० संजदासंजद-पमत्तसंजद-अप्पमत्तसंजद० । अप्पमत्तसंजदद्वाए संखेज्जदिभागं [गंतूण] बंधो० [वोच्छिज्जदि] । एदे बंधा० अवसेसा [अबंधा] । देवगदि०

प्रत्याख्यानावरण ४ का कौन बन्धक, अबन्धक है ? मिथ्यादृष्टिसे लेकर संयतासंयतपर्यन्त बन्धक हैं । ये बन्धक हैं; शेष अबन्धक हैं ।

पुरुषवेद, संज्वलन क्रोधका कौन बन्धक, अबन्धक है ? मिथ्यादृष्टिसे लेकर अनिवृत्तिकरणमें उपशमक क्षपक पर्यन्त बन्धक हैं, अनिवृत्तिवाद्दरके कालके संख्यात भाग बीतनेपर व्युच्छित्ति होती है । ये बन्धक हैं; शेष अबन्धक हैं ।

मान-माया-संज्वलनमें भी यही बात जाननी चाहिए । विशेष यह है कि शेष शेषके संख्यात भाग बीतनेपर्यन्त बन्ध होता है । ये बन्धक हैं; शेष अबन्धक हैं ।

इसी प्रकार संज्वलन लोभमें है । विशेष-अनिवृत्तिकरणके कालके चरम समयपर्यन्त बन्ध होता है । ये बन्धक हैं; शेष अबन्धक हैं ।

हास्य, रति, भय, जुगुप्साका कौन बन्धक है ? मिथ्यात्वसे लेकर अपूर्वकरणके उपशमक तथा क्षपकपर्यन्त बन्धक हैं । अपूर्वकरणके चरम समयके बीतनेपर बन्धकी व्युच्छित्ति होती है । ये बन्धक हैं; शेष अबन्धक हैं ।

मनुष्य आयुका कौन बन्धक है ? कौन अबन्धक है ? मिथ्यादृष्टि, सासादन तथा असंयतसम्यक्त्वी बन्धक हैं । ये बन्धक हैं; शेष अबन्धक हैं ।

देवायुका कौन बन्धक, अबन्धक है ? मिथ्यादृष्टि, सासादन, असंयतसम्यक्त्वी, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत, अप्रमत्तसंयत बन्धक हैं । अप्रमत्तसंयतके कालके संख्यातवें भाग बीतनेपर बन्धकी व्युच्छित्ति होती है । ये बन्धक हैं; शेष अबन्धक हैं ।

देवगति, पंचेन्द्रिय, वैक्रियिकशरीर, तैजस, कार्मण, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिक आंगोपांग, वर्ण ४, देवानुपूर्वा, अगुरुलघु ४, प्रशस्तविहायोगति, [त्रस, वाद्दर, पर्याप्त, प्रत्येक,] स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माणका कौन बन्धक, अबन्धक है ? मिथ्यादृष्टिसे लेकर अपूर्वकरण गुणस्थानके उपशमक क्षपकपर्यन्त बन्धक हैं । अपूर्वकरणके संख्यातवें भाग बीतनेपर बन्धकी व्युच्छित्ति होती है । ये बन्धक हैं; शेष अबन्धक हैं ।

पंचिदि० वेगुच्चि० तेजाकम्म० समचदु० वेउ० अंगो०-वण्ण०४ देवाणुपु० - अगुरु०४
 पसत्थवि० थीरा-(थिर-सुभ-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज० णिमिणं को बंध० को अबं० ?
 मिच्छादि० याव अपुच्च० उवस० खवा बंधा० । अपुच्चकरण० संखेजाभागं गंतू०
 बंधो वोच्छे० । एदे बंधा अबं [अबंधा] । आहारस०-आहारस०अंगोवं को
 बं० को अबं० ? अप्पमत्त-अपुच्चकरणद्वाए संखेजाभागं गंतूण बंधो० [वोच्छिज्जदि] ।
 एदे बंधा अवसेसा [अबंधा] । तिथयरस्स को बं०, को अबं० ? असंज०
 याव अपुच्चकर० बंधा० । अपुच्चकरणद्वाए संखेजाभागं गंतू० । एदे बं० अवसेसा
 अबंधा० । कदिहि कारणेहि जीवा तिथयरणामागोदकम्मं बंधदि ? तत्थ
 इमेणेहि सोलसकारणेहि जीवा तिथयरणामागोदं कम्मं बंधदि । दंसेणविसुज्झदाए,
 विणयसंपण्णदाए, सीलवदेसु णिरदिचारदाए, आवासएसु अपरिहीणदाए, खणलव-
 पडिमज्झ(वुज्झ) णदाए, लड्ढिसंवेगसंपण्णदाए, यथा छामे(थामे) तथा तवे, साधूणं
 समाधिसंधारणदाए, साधूणं वेजावच्चयोगयुत्तदाए, साधूणं पासुगपरिचागदाए, अरहंत-
 भत्तीए, बहुस्सुदभत्तीए, पवयणभत्तीए, पवयणवच्छल्लदाए, पवयणपभावणदाए अभि-

आहारक शरीर, आहारक आंगोपांगका कौन बन्धक है ? कौन अबन्धक है ?
 अप्रमत्त, अपूर्वकरणके संख्यातवें भाग व्यतीत होनेपर बन्धकी व्युच्छित्ति होती है । ये बन्धक
 हैं; शेष अबन्धक हैं ।

तीर्थकरप्रकृतिका कौन बन्धक है ? कौन अबन्धक है ? असंयत सम्यग्दृष्टिसे
 अपूर्वकरणपर्यन्त बन्धक हैं । अपूर्वकरणके संख्यात भाग बीतनेपर बन्धकी व्युच्छित्ति होती
 है । ये बन्धक हैं; शेष अबन्धक हैं ।

शंका—कितने कारणोंसे जीव तीर्थकर नामगोत्र कर्मका बन्ध करता है ?

समाधान—इन सोलह कारणोंसे जीव तीर्थकर नामगोत्र कर्मका बन्ध करता है ।
 दर्शनविशुद्धता, विनयसम्पन्नता, शीलव्रतेषु निरतिचारता, आवश्यकेषु अपरिहीनता, क्षण-
 लव-प्रतिबोधनता, लडिधसंवेगसम्पन्नता, यथाशक्ति तप, साधुसमाधिसन्धारणता, वैयावृत्त्य-
 योगयुक्तता, साधु-प्रासुकपरित्यागता, अरहन्तभक्ति, बहुश्रुतभक्ति, प्रवचनभक्ति, प्रवचन-

१. धवल टीकामें जो षोडशकारणोंके नाम मितायें हैं, उनके क्रममें थोड़ा अन्तर है । यहाँ आठवें
 नम्बरपर 'साधुसमाधिसंधारणता'के स्थानमें 'साधुप्रासुकपरित्यागता' पाठ है । ९वें नम्बरपर 'वैयावृत्त्य-
 योगयुक्तता'के स्थानमें 'समाधिसंधारणता' पाठ है । नं० १० में 'साधु प्रासुकपरित्यागता'के स्थानमें 'वैयावृत्त्य-
 योगयुक्तता' पाठ है । शेष पाठ समान हैं । तत्त्वार्थसूत्रमें इस प्रकार पाठभेद है—नं० ४ में अभीक्षणज्ञानोपयोग,
 नं० ५ में संवेग, ६ में शक्तितः त्याग, नं० १० में अर्हद्भक्ति, नं० १४ में आवश्यकपरिज्ञानि, नं० १६ में
 प्रवचनबत्सलत्व पाठ है । तत्त्वार्थसूत्र तथा भूनबलिस्वामी-द्वारा कथित भावनाओंके नामोंमें भी कहीं-कहीं
 अन्तर है । तत्त्वार्थसूत्रमें 'संवेग', 'साधुसमाधि', 'शक्तितः त्याग', 'मार्गप्रभावना' पाठ है, उसके स्थानमें
 क्रमशः 'लडिधसंवेगसम्पन्नता', 'साधु-समाधिसंधारणता', 'प्रासुकपरित्यागता', 'प्रवचनप्रभावनता' पाठ है ।
 आचार्यभक्तिका 'महाबन्धि' पाठ नहीं है । एक नवीन भावना क्षणलवप्रतिबोधनता सम्मिलित की गयी है ।

कृष्णं णाणोपयुत्तदाए । इदेहि सोलसेहि कारणेहि जीवो तित्थयरणाभागोदं कम्मं बंधदि ।

वत्सलता, प्रवचनप्रभावनता, अभीक्षणज्ञानोपयोगयुक्तता, इन सोलह कारणोंसे जीव तीर्थंकर नामगोत्र कर्मका बन्ध करता है ।

विशेषार्थ—यहाँ यह शंका उत्पन्न होती है कि जब अन्य कर्मोंके बन्धके कारण नहीं बताये गये, तब तीर्थंकर प्रकृतिके बन्धके कारणोंका सूत्रकारने क्यों पृथक् रूपसे उल्लेख किया है ?

इसके समाधानमें वीरसेनाचार्य धवला टीकामें लिखते हैं कि तीर्थंकरके बन्धके कारण ज्ञात न होनेसे उनका पृथक् उल्लेख करना उचित है । उसके बन्धका कारण मिथ्यात्व नहीं है, कारण मिथ्यात्वी जीवके तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध नहीं होता । सम्यग्दृष्टिके ही तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध होता है । असंयम भी बन्धका कारण नहीं है; क्योंकि संयमी जीव भी उसके बन्धक होते हैं । कषाय भी बन्धका कारण नहीं है, कारण कषायके होते हुए भी इसके बन्धका विच्छेद देखा जाता है अथवा बन्धका आरम्भ भी नहीं होता है । कदाचित् मन्द कषायको बन्धका कारण कहें, तो यह भी नहीं बनता है; कारण तीव्र कषाययुक्त नारकियोंमें भी तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध देखा जाता है । तीव्र कषाय भी उसका कारण नहीं है; क्योंकि मन्द कषायवाले सर्वार्थसिद्धिके देवों और अपूर्वकरणगुणस्थानवालोंमें भी उसका बन्ध होता है । बन्धका कारण कदाचित् सम्यक्त्वको कहें, तो यह भी ठीक नहीं है । सम्यग्दर्शन होते हुए भी बन्धका कहीं-कहीं अभाव देखा जाता है । यदि दर्शनकी निर्मलताको कारण कहें तो दर्शनमोहके क्षय करनेवाले सभी व्यक्तियोंके तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध होना चाहिए था, किन्तु ऐसा भी नहीं है । अतः दर्शनकी शुद्धता भी कारण नहीं है । कार्यकारणभक्षिका नियम तो तब बनता है, जब कारणके होनेपर नियमसे कार्य बन जाये । सब क्षायिक सम्यक्त्वी जीव तो तीर्थंकरप्रकृतिका बन्ध नहीं करते हैं । ऐसी स्थितिमें उत्पन्न होनेवाली शंकाके निराकरणके लिए भूतवली स्वामीने कहा है कि इन सोलह कारणोंसे जीव तीर्थंकर नामगोत्रका बन्ध करते हैं ।

शंका—नामकर्मके भेद तीर्थंकरकी गोत्र संज्ञा क्यों की गयी ?

समाधान—उच्चगोत्रके बन्धके अविनाभावी होनेसे तीर्थंकरप्रकृतिको भी गोत्र कहा है^१ (?)

तीर्थंकरके बन्धका प्रारम्भ मनुष्यगतिमें ही होता है, इस बातका परिज्ञान करानेके लिए सूत्रमें 'तत्थ' शब्दका ग्रहण किया है ।

शंका—तीर्थंकरके बन्धका प्रारम्भ अन्य गतियोंमें क्यों नहीं होता है ?

समाधान—तीर्थंकरप्रकृतिमें सहकारी कारण केवलज्ञानसे उपलक्षित जीवद्रव्य है । उसके बिना बन्धका प्रारम्भ नहीं होता । मनुष्यगतिमें केवलज्ञानसे उपलक्षित जीव पाया जाता है । इससे मनुष्यगतिमें ही बन्धका प्रारम्भ कहा है । इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्यगतिमें केवलज्ञान उत्पन्न होकर तीर्थंकरप्रकृति पूर्ण विकसित हो अपना कार्य कर सकती है; अन्य गतिमें यह बात नहीं है । अतः तीर्थंकरप्रकृतिका अंकुरारोपण मनुष्यगतिमें ही होता है ।

१. कथं तित्थयरस्स णामकम्मावयवस्स गोदसण्णा ? ण, उच्चगोदबंधाविणाभावित्तणेण तित्थयरस्सवि गोदत्तसिद्धोदो—बंधसामित्तविचय पृ० २८ ताम्रपत्रोय प्रतिः । २. "अण्णगदोसुं कि ण पारंभो होदित्ति बुत्ते ण होदि केवलणाणोवलक्खियजीवद्वसहकारिकारणस्स तित्थयर-णामकम्मबंधपारंभस्स तेण विणा सम्पत्ति-विरोहादो ।"—ध० टी०, प० ५३६ ।

‘गोम्मटसार’कर्मकाण्डकी संस्कृत टीकामें लिखा है कि तीर्थंकरप्रकृतिका बन्ध मनुष्य-गतिमें प्रारम्भ किया जाता है, क्योंकि अन्य गतियोंमें विशिष्ट विचार, क्षयोपशम आदि सामग्रीका अभाव है। इसी कारण मनुष्यगतिका सूचक ‘णरा’ यह पद ६३ गाथामें आया है। टीकाकारके ये शब्द महत्त्वपूर्ण हैं—“नरा इति विशेषणं शेषगतिज्ञानमपाकरोति, विशिष्ट-प्रणिधान-क्षयोपशमादिसामग्रीविशेषाभावात्” (पृ० ७८)।

किन्हीं आचार्योंका मत है कि इस तीर्थंकरप्रकृतिका बन्ध प्रथमोपशम सम्यक्त्वमें नहीं होता है, क्योंकि उसका काल स्तोत्र अन्तर्मुहूर्त प्रमाण है। उसमें षोडशकारण भावनाएँ नहीं भायी जा सकती। महाबन्धकारका यह अभिमत नहीं है। यह बन्ध प्रत्यक्षकेवली, श्रुत-केवलीके चरणोंके समीप ही होता है, कारण अन्यत्र उस प्रकारकी विशिष्ट विशुद्धताका अभाव है।

बन्धसामित्तविचय (मूल पृ० ७५) में लिखा है, “पारद्वित्थयर-बंधादो तदियभवे त्थयरसंतकम्मियजीवाणं मोक्खगमणियमादो” तीर्थंकर प्रकृतिके बन्धारम्भके भवसे तृतीय भवमें तीर्थंकर कर्मके सत्त्वयुक्त जीवोंके मोक्षगमनका नियम है। अतएव तीर्थंकर प्रकृतिका बन्धक तीन भवसे अधिक संसारमें नहीं रहता है।

पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षा इस प्रकृतिके बन्धके कारण सोलह कहे गये हैं। द्रव्यार्थिक नयका अवलम्बन करनेसे एक कारण भी इसके बन्धका हेतु है, दो भी कारण होते हैं; अतः सोलह ही होते हैं या नहीं, इस संशयके निवारणके लिए सोलह कारणोंकी गणना सूत्रमें की है।

इन भावनाओंके स्वरूपपर वीरसेनाचार्यने बन्धसामित्त विचय नामक तृतीय खण्डकी धवलाटीकामें विशद विवेचन किया है। उसका मर्म इस प्रकार है—

दर्शनविशुद्धता—यह भावना सोलह कारण भावनाओंमें प्रथम संगृहीत की गयी है। इसका भाव तीन मूढता तथा अष्टमलरहित निर्मल सम्यग्दर्शनका लाभ होना है।

शंका—यदि इस एक ही भावनासे तीर्थंकरप्रकृतिका बन्ध होता है, तो सभी सम्यक्त्वों जीव उसका बन्ध क्यों नहीं करते ?

समाधान—शुद्ध नयसे मात्र तीन मूढता तथा अष्टमलोंसे व्यतिरिक्तपना ही दर्शन-विशुद्धता नहीं है, इसके साथ-ही-साथ साधु-प्रासुक-परित्यागता, साधु-समाधि-सन्धारणता, साधुवैयावृत्त्युक्तता, अरहन्तभक्ति, बहुश्रुतभक्ति, प्रवचनभक्ति, प्रवचनवत्सलता, प्रवचन-प्रभावनता, अभीक्षणज्ञानोपयोगयुक्तता आदिका भी समावेश होना आवश्यक है। इस प्रकार अन्य भावनाओंका भी संग्रह करनेवाली दर्शनविशुद्धता तीर्थंकरका बन्ध करती है।

विनयसम्पन्नता भी तीर्थंकरकर्मको बाँधती है। विनयके ज्ञान, दर्शन तथा चारित्रकी अपेक्षा तीन भेद हैं। ज्ञानविनयमें अभीक्षणज्ञानोपयोगयुक्तता, बहुश्रुतिभक्ति और प्रवचनभक्ति संगृहीत है। दर्शनविनयका अर्थ है—प्रवचनोपदिष्ट सम्पूर्ण तत्त्वोंका श्रद्धान तथा त्रिमूढता और अष्टमलका त्याग करना। इसमें अरहन्त-सिद्धभक्ति, क्षणलवप्रतिबोधनता, लब्धिसंवेगसम्पन्नता तथा प्रवचनप्रभावनताका सद्भाव पाया जाता है। चारित्र विनयमें शीलव्रतेषु निरतिचारिता,

१. प्रथमोपशमसम्यक्त्वे शेषद्वितीयोपशम-शायोपशमिकक्षायिकसम्यक्त्वेषु च असंयताप्रमत्तान्तमनुष्या एव तीर्थंकरबन्धं प्रारभन्ते, तेषु प्रत्यक्षकेवलि-श्रुतकेवलिश्रीपादोपान्त एव। अत्र प्रथमोपशमसम्यक्त्वे इति भिन्नविभक्तिकरणं तत्सम्यक्त्वे स्तोत्रान्तर्मुहूर्तकालत्वात् षोडशभावनासमूह्यभावात् तद्बन्धप्रारम्भो न इति केषांचित् पक्षं ज्ञापयति। केवलद्वयान्ते एवेति नियमः, तदन्यत्र तादृग्विशुद्धिविशेषासंभवात्, पृ० ७८।

आवश्यकेषु अपरिहीनता, यथाशक्ति तप, साधु-प्रासुक-परित्यागता, साधु-समाधि-सन्धारणता, साधुवैयावृत्त्ययोगयुक्तता, प्रवचनवत्सलता संगृहीत है। इस प्रकार अनेक भावनाओंसे समन्वित एक विनयसम्पन्नता रूप भावना तीर्थकर नामकर्मका बन्ध करती है। यह दर्शन तथा ज्ञानकी विनय देव तथा नारकियोंमें कैसे सम्भव हो सकती है? इससे इसे मनुष्योंमें ही कहा है।

शंका—जिस प्रकार यहाँ देव-नारकियोंके दर्शन और ज्ञान-विनयका अभाव कहा है, उसी प्रकार चारित्र-विनयका अभाव क्यों नहीं कहा है ?

समाधान—ज्ञानदर्शन विनयका विरोधी चारित्र भी नहीं हो सकता। अर्थात् ज्ञान-दर्शन विनयके अभावमें चारित्र-विनयका भी अभाव होगा। यह बात प्रकट करनेको चारित्र-विनयका पृथक् उल्लेख नहीं किया है।

शीलव्रतेषु निरतिचारतासे भी तीर्थकर नामकर्मका बन्ध होता है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रहसे विरति होना व्रत है। व्रतका रक्षण करनेवाला शील कहलाता है। मद्यपान, मांसभक्षण, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुष-वेद, नपुंसक वेदका अपरित्याग अतिचार कहलाता है। इनका अभाव करना शीलव्रतेषु निरतिचारता है। इससे तीर्थकर कर्मका बन्ध होता है।

शंका—यहाँ शेष पन्द्रह कारण किस प्रकार सम्भव होंगे ?

समाधान—सम्यग्दर्शन, क्षणलवप्रतिबोधनता, लब्धिसंवेगसम्पन्नता, साधुसमाधि-सन्धारणता, वैयावृत्त्ययोगयुक्तता, साधुप्रासुकपरित्यागता, अरहन्त-बहुश्रुत-प्रवचनभक्ति, प्रवचनप्रभावनताके बिना शीलव्रतेषु अनतिचारता सम्भव नहीं है। असंख्यात गुणश्रेणियुक्त कर्मनिर्जरांमें जो हेतु है, उसे व्रत कहते हैं। सम्यक्त्वके बिना केवल हिंसा, असत्य, चौर्य, अब्रह्म तथा परिग्रहके त्यागमात्रसे ही वह गुणश्रेणी निर्जरा नहीं हो सकती, कारण दोनोंके द्वारा होनेवाले कार्यका एकके द्वारा सम्पन्न होनेका विरोध है। षट्द्रव्य नवपदार्थके समूह रूप लोकको विषय करनेवाली अभीक्षणज्ञानोपयोगयुक्तताके बिना शीलव्रतोंमें कारणभूत सम्यक्त्वकी अनुपपत्ति है। इस प्रकार उसमें सम्यग्दर्शनके समान सम्यग्ज्ञानका भी सद्भाव पाया जाता है। यथाशक्ति तप, आवश्यकपरिहीनता तथा प्रवचनवत्सलत्वरूप चारित्र-विनयके बिना यह शीलव्रतेषु निरतिचारिता नहीं बन सकती है। इस प्रकार व्यापक अर्थयुक्त यह भावना तीर्थकरनामकर्मके बन्धका कारण है।

आवश्यकेषु-अपरिहीनता—समता, स्तुति, वन्दना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान तथा व्युत्सर्गके भेदसे आवश्यक छह प्रकार कहा गया है। शत्रु-मित्र, मणि-पाषाण, सुवर्ण-मृत्तिका-में राग-द्वेषका अभाव समता है। अतीत अनागत तथा वर्तमान कालसम्बन्धी पंचपरमेष्ठियों-का भेद न करके 'णमो अरहंताणं, णमो सिद्धाणं' इत्यादि द्रव्यस्तुतिका कारण नमस्कार स्तुति कहलाता है। वृषभादि चौबीस तीर्थकर, भरतादि क्षेत्रोंके केवली, आचार्य, चैत्यालयादिकका पृथक्-पृथक् रूपसे नमस्कार करना अथवा गुणोंका अनुस्मरण करना वन्दना है। पंच महा-व्रतों तथा ८४ लाख उत्तरगुणोंमें लगे हुए कलकोंका प्रक्षालन करना प्रतिक्रमण है। महाव्रतोंके

१. "हिंसालियचोउज्ज-बंध-परिगर्हेहितो विरदी वदं णाम। वदपरिवखणं सोलं णाम। सुरावाण-मांस-भवखण-काह-माण-माया-लोह-हंस-रइ-सोम-भय-दुगुच्छित्तिव-पुरिस-णउंसयवेदापरिच्छागो अदिचारो। एदेति विणासां णिरदिचारो संपुण्णदा, तस्स भावो णिरदिचारदी"—बन्धसामित्तविचय, पृ० ३०।

बिनाशके कारण अथवा उनमें मलिनता लगानेवाले दोषोंका जिस प्रकार अभाव होगा, उस प्रकार मैं करूँगा। इस प्रकार चित्तसे आलोचना करके ८४ लाख व्रतोंकी शुद्धिका प्रतिग्रह करना प्रत्याख्यान है। शरीर, आहारादिकसे मन वचनकी प्रवृत्तिको अलग करके ध्येयमें रोकनेको व्युत्सर्ग कहते हैं। इन छह आवश्यकोंकी अपरिहीनता—अखण्डताको आवश्यकता-परिहीनता कहते हैं। इसके द्वारा तीर्थकरधर्मका बन्ध होता है।

यहाँ शेष कारणोंका अभाव नहीं होता है। दर्शनविशुद्धि, विनयसम्पन्नता, व्रतशील-निरतिचारता, क्षणलवप्रतिबोधनता, लब्धिसंवेगसम्पन्नता, यथाशक्ति तप, साधु-समाधि-सन्धारण, वैयावृत्त्ययोगयुक्तता, प्रासुकपरित्यागता, अरहन्त-बहुश्रुत-प्रवचनभक्ति, प्रवचन-प्रभावना, प्रवचनवत्सलता, अभोक्षणज्ञानोपयोगयुक्तताके बिना छह आवश्यकोंकी निरति-चारिता नहीं बन सकती है। अतः आवश्यकेषु अपरिहीनता तीर्थकरनामकर्मका चतुर्थ कारण है।

क्षण-लव-प्रतिबोधनता—‘क्षणलव’ शब्द कालविशेषका द्योतक है। उस कालविशेषमें सम्यग्दर्शन, ज्ञान, व्रत तथा शीलरूप गुणोंका उज्ज्वल करना अर्थात् कलंकका प्रक्षालन करना अथवा व्रतादिकी प्रदीप्ति अर्थात् वृद्धि करना प्रतिबोध है। उसका भाव प्रतिबोधनता है। क्षणलवोंकी प्रतिबोधनताको क्षणलवप्रतिबोधनता कहते हैं। यह अकेली भावना भी तीर्थकर-नामकर्मका बन्ध करती है। यहाँ भी पूर्वकी भाँति शेष कारणोंका अन्तर्भाव रहता है।

लब्धिसंवेगसम्पन्नता—सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यमें जीवके समागमका नाम लब्धि है। लब्धिके लिए जो संवेग है—वह लब्धिसंवेग है। उसकी सम्पन्नताको लब्धिसंवेगसम्पन्नता कहते हैं। शेष कारणोंके अभावमें इसका सद्भाव नहीं बनता है, कारण उनके अभावका और लब्धिसंवेग-सम्पन्नताके सद्भावका विरोध है।

यथाशक्ति तप—बल-वीर्यको प्राकृतमें ‘थाम’ कहते हैं। अनशनादि बाह्य, विनयादि-अंतरंग द्वादश प्रकारके तप हैं। शक्तिके अनुसार तप करनेसे तीर्थकरकर्मका बन्ध होता है। यह भावना ज्ञान, दर्शनके बलसे सम्पन्न धीर पुरुषके होती है तथा दर्शनविशुद्धतादिके अभावमें यह नहीं पायी जा सकती है। इससे अकेली इस भावनाको तीर्थकरनामकर्मका कारण कहा है।

साधुप्रासुक-परित्यागता—जो अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तवीर्य, विरति, क्षायिक सम्यक्त्वकी साधना करता है उसे साधु कहते हैं। प्रासुकका एक अर्थ है ‘वह वस्तु, जिससे जीव निकल गये हों’, दूसरा अर्थ है निरवद्य-निर्दोष वस्तु। साधुओंको ज्ञान, दर्शन, चारित्र-का परित्याग अर्थात् दान प्रासुकपरित्यागता है। ज्ञानदर्शनचारित्रका परित्यागरूप दान गृहस्थोंमें सम्भव नहीं हो सकता, कारण वहाँ चारित्रका अभाव है। रत्नत्रयका उपदेश भी गृहस्थोंमें नहीं बन सकता है। कारण उनमें दृष्टिवादादि ऊपरके सूत्रोंके उपदेशका अधिकार नहीं है। अतः यह साधु-प्रासुकपरित्यागरूप कारण महर्षियोंके होता है।

यहाँ भी शेष कारणोंका अभाव नहीं है। अरहन्तादिककी भक्ति, नवपदार्थोंका श्रद्धान, शीलव्रतोंमें निरतिचारिताके अभावमें ज्ञान, चारित्रका परित्याग अर्थात् दान असम्भव है,

१. “आवलि असंखसमया संखेजनावलिसमूहमुत्सासो । सत्तुत्सासा घोवो सत्तस्थोवो लवो भणियो ॥”

—गो० जी० २. “खणलवा णाम कालविसेमा । सम्महंसणणाणवदसोलगुणाणमुज्जालणं कलंकपक्खालणं अंधुक्खणं वा पडिवुज्जणं णाम । तस्स भावो पडिवुज्जणदा । खणलवाणं पडिवुज्जणदा खणलवपडिवुज्जणदा ॥”

—ध० टी०, प० ५९४ । ३. “संवेगः परमात्साहो धर्मे धर्मफले चितः ।” —पञ्चा० ।

यस्स इणं कम्मस्स उदयेण सदेवासुरमाणुसस्स लोगस्स अच्चणिज्जा पूजणिज्जा वंद-
णिज्जा णमंसणिज्जा धम्मतित्थयरा जिणा केवली (केवलिणो) भवन्ति । एवं ओघभंगो
पंचिदियतस०२ भवसि० ।

कारण इसमें विरोध आता है । अतः केवल इस भावनासे भी तीर्थंकर कर्मका बन्ध होता है ।

साधुसमाधिसन्धारणता—ज्ञान, दर्शन, चारित्रमें सम्यक् प्रकारसे अवस्थान होना समाधि है । भले प्रकार धारण करनेको सन्धारण कहते हैं । साधुओंको समाधिको भले प्रकार धारण करना साधुसमाधिसन्धारण है । किसी कारणसे प्राप्त होनेवाली समाधिको देखकर सम्यक्स्वी प्रवचनवत्सलता, प्रवचनप्रभावना, विनयसम्पन्नता, शीलव्रतातिचारवर्जित अरहन्तादिकमें भक्तिवश जो धारण करता है, वह समाधिसन्धारण है । यहाँ भी शेष कारणोंका अभाव नहीं है; क्योंकि इसका सद्भाव उन कारणोंके अभावमें नहीं बन सकता है ।

वैयावृत्त्ययोगयुक्तता—जिस कारणसे जीव सम्यक्त्व, ज्ञान, अरहन्तभक्ति, बहुश्रुत-भक्ति, प्रवचनवत्सलतादिके द्वारा वैयावृत्त्यमें लगता है, उसे वैयावृत्त्ययोगयुक्तता कहते हैं । इस प्रकार अकेली इस भावनासे भी तीर्थंकरप्रकृतिका बन्ध होता है । यहाँ शेष कारणोंका यथासम्भव अन्तर्भाव जानना चाहिए ।

अरहन्त-भक्ति—घातिया कर्मोंके नाश करनेवाले, केवलज्ञानके द्वारा सम्पूर्ण पदार्थोंके देखनेवाले अरहन्त हैं । उनकी भक्तिसे तीर्थंकरनामकर्मका बन्ध होता है । यह भावना दर्शन-विशुद्धतादिके अभावमें नहीं पायी जाती है, कारण इसमें विरोध आयेगा ।

बहुश्रुतभक्ति—द्वादशांगके पारगामीको बहुश्रुत कहते हैं । उनमें भक्तिका अर्थ है—उनके द्वारा व्याख्यान किये गये आगमका अनुगमन करना अथवा अनुष्ठानका प्रयत्न करना बहुश्रुत भक्ति है । दर्शनविशुद्धतादिके बिना यह सम्भव नहीं है ।

प्रवचनभक्ति—सिद्धान्त अर्थात् बारह अंगोंको प्रवचन कहते हैं । 'प्रकृष्टस्य वचनं प्रवचनम्' श्रेष्ठ आत्माके वचनोंको प्रवचन कहा है । उनके प्रति भक्तिको प्रवचनभक्ति कहते हैं । इसमें भी शेष कारणोंका अन्तर्भाव रहता है ।

प्रवचनवत्सलता—महाव्रती, देशसंयमी तथा असंयत सम्यग्दृष्टिमें प्रेम रखना प्रवचन-वत्सलता है । इससे ही तीर्थंकरनामकर्मका बन्ध कैसे होता है—यह शंका नहीं करनी चाहिए, कारण महाव्रतादि आगमिक विषयोंमें गाढानुरागका दर्शनविशुद्धतादिसे अविनाभाव है ।

प्रवचनप्रभावना—प्रवचन अर्थात् आगमकी प्रभावना करनेका भाव प्रवचनप्रभावना है । उत्कृष्ट प्रवचनप्रभावनाका दर्शनविशुद्धताके साथ अविनाभाव है ।

अभीक्षणज्ञानोपयोगयुक्तता—अभीक्षण अर्थात् 'बहुवार' भावश्रुत अथवा द्रव्यश्रुतमें उपयोगको लगाना अभीक्षणज्ञानोपयोगयुक्तता है । इससे तीर्थंकरनामकर्मका बन्ध होता है । दर्शनविशुद्धतादिके बिना इसकी अनुपपत्ति है ।

इन सोलह कारणोंसे तीर्थंकरनामकर्मका बन्ध होता है । अथवा सम्यग्दर्शनके होनेपर शेष कारणोंमें-से एक-दो आदिके संयोगसे भी बन्ध होता है ।

इस कर्मके उदयसे सुर, असुर तथा मनुष्यलोकके द्वारा अर्चनीय, पूजनीय, वन्दनीय तथा नमस्करणीय धर्म तीर्थके कर्ता जिन केवली होते हैं ।

इस प्रकार पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, त्रसपर्याप्तक तथा भव्यसिद्धिकोंमें ओघवन्त भंग जानना चाहिए ।

११. आदेसेण णिरएसु पंचणाणां-छद्दसणां-सादासादं वारसकसां सत्त-
णोकं मणुसगं-पंचिदिं-ओरालियतेजाकं-समचदुं-ओरालियं अंगोवंगवजरिसं-
वण्णां४ मणुसगदिपां-अगुरुगलहुं ४ पसत्थविं तमं४ थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-
सुस्सर-आदेज्ज-जसगित्ति-अजसगित्ति-णिमिणं उच्चागोदं पंचअंतं को वं०? सन्वे बंधा,
अबंधा णत्थि । थीणगिद्धिआदि-पणुवीसं ओषं । मिच्छत्त-णपुंसकवे-हुंछसंठाणं
असंपत्तसें को वं० ? मिच्छादिं बंधा । एदे बंधा अवसेसा अबं० । मणुसायु ओषं ।
तित्थयरं को वं० ? असंजदसं । एदे [बंधा] अवसें अबंधा । एवं पढम-विदिय-तदि-
यासु । चउत्थि-पंचमि-छट्टीसु एवं चेव, णवरि तित्थगरं णत्थि । सत्तमाए छट्टिमंगो,
णवरि मणुसायु णत्थि । मणुसगं-मणुसगं-पां-उच्चां को वं० ? सम्मामिच्छां-
असंजं । एदे वं० । अवसें [अबंधा] । तिरिक्खायुं को वं० ? मिच्छादिट्टी बंधा ।
एदे [बंधा] अवसें अबंधा ।

११. आदेशसे, नारकियोंमें-५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, साता-असाता वेदनीय,
अनन्तानुबन्धी ४ को छोड़कर शेष १२ कषाय, (स्त्रीवेद, नपुंसकवेद बिना) ७ नोकषाय,
मनुष्य गति, पंचेन्द्रिय जाति, औदारिक-तैजस-कार्माण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, औदा-
रिक अंगोपांग, वर्ण ४, मनुष्यगति प्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वांस,
प्रशस्तविहायोगति, वज्रवृषभसंहनन, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, अस्थिर, शुभ,
अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति, निर्माण, उच्चगोत्र तथा ५ अन्तरायका
कौन बन्धक है ? सर्व बन्धक हैं; अघन्धक नहीं हैं । स्त्यानगृद्धि आदि २५ प्रकृतियोंका
ओषवत् जानना चाहिए अर्थात् सासादन गुणस्थान पर्यन्त बन्धक हैं । मिथ्यात्व,
नपुंसकवेद, हुण्डक संस्थान, असम्प्राप्तासृपाटिका संहननका कौन बन्धक है ? मिथ्यादृष्टि
बन्धक है । ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं । मनुष्यायुके बन्धकका ओषवत् जानना चाहिए,
अर्थात् अविरत गुणस्थान पर्यन्त बन्धक हैं । तीर्थकरप्रकृतिका कौन बन्धक है ? असंयत
सम्यग्दृष्टि बन्धक है । ये बन्धक हैं; शेष अबन्धक हैं । प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पृथ्वी पर्यन्त
ऐसा ही जानना चाहिए । चौथी, पाँचवी तथा छठी पृथ्वियोंमें इसी प्रकार जानना
चाहिए । विशेष, यहाँ तीर्थकर प्रकृति नहीं है । तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध तीसरी पृथ्वी पर्यन्त
होता है ।

सातवीं पृथ्वीमें-छठी पृथ्वीके समान भंग है । विशेष, यहाँ मनुष्यायु नहीं है ।
मनुष्यगति, मनुष्यगति प्रायोग्यानुपूर्वी तथा उच्चगोत्रका कौन बन्धक है ? सम्यग्मिथ्यात्वी
तथा असंयतसम्यग्दृष्टि जीव बन्धक हैं । ये बन्धक हैं; शेष अबन्धक हैं । तिर्यच्चायुका कौन
बन्धक है ? मिथ्यादृष्टि बन्धक है । ये बन्धक हैं; शेष अबन्धक हैं ।

१. "विदियगुणे अणथीणत्ति दुभगत्तिसंठाण संद्गदिचउवकं । दुग्गमणित्थी-णीचं तिरियदुग्गज्जीव
तिरियाऊ ॥"—गो० क०, गा० ९६ । २. "मिस्साविरदे उच्चं मणुवदुगं सत्तमे ह्वे बंधो ॥"
—गो० क०, १०७ ।

१२. तिरिक्खेसु-पंचणाणावरणं छदंसणा० सादासादं अट्टक०सत्तणो०देवगदि० पंचिदि० वेउव्विय-तेजा-क० समचदु० वेगुव्वि० अंगो०-वण्ण०४-देवगदिपा०-अगुरुग०४-पसत्थवि०-तसं०४-थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसगित्ति-अजस-गित्ति-णिमि० उच्चागो० पंचअंतराइ० को बं० ? मिच्छादिद्वि याव संजदासंजदा त्ति सन्वे बंधा, अबंधा णत्थि । थीणगिद्धितियं अणंताणुबंधि०४-इत्थिवे०-तिरिक्खायु-मणुसायु-तिरिक्खगदि-मणुसगदि-ओरालिय० चदुसंठा० ओरालिय०अंगो०-पंचसंघड०-दोआणुपुव्वि० उज्जोवं अप्पसत्थवि० दूभग-दुस्सर-अणादे० णीचा०को॥बं० ? मिच्छा-दिद्वि-सासण०। एदे बं०, अवसेसा अबं० । मिच्छत्तदंडओ ओवो । अपच्चक्खा०४ को बं० ? मिच्छादि०याव असंजदसम्मादिद्वि त्ति। एदे बं०, अवसेसा [अबंधा] । देवायु०

विशेषार्थ—सातवीं पृथ्वीवाला मरकर नियमसे तिर्यञ्च होता है। इस कारण वहाँ मनुष्यायुका बन्ध नहीं बताया है। मरण मिथ्यात्वगुणस्थानमें ही होता है। तिर्यञ्चायुका बन्ध मिथ्यात्वगुणस्थानमें ही होता है। मनुष्यद्विक तथा उच्चगोत्रका बन्ध मिश्र तथा अवि-रतसम्यक्त्व गुणस्थानमें ही होता है, नीचे नहीं होता है।

१२. तिर्यञ्चोंमें—५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, साता, असाता, प्रत्याख्यानावरण तथा संवलन रूप ८ कषाय, स्त्रीवेद नपुंसकवेद बिना सात नोकषाय, देवगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक, तैजस, कार्माण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिक अंगोपांग, वर्ण ४, देवगति प्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु ४, प्रशस्तविहायोगति, त्रस ४ (त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक), स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति, निर्माण, उच्चगोत्र तथा ५ अन्तरायोंका कौन बन्धक है ? मिथ्यादृष्टिसे लेकर देशसंयमी पर्यन्त सर्वबन्धक हैं। अबन्धक नहीं हैं।

स्थानगुद्धिक, अनन्तानुबन्धी ४, स्त्रीवेद, तिर्यञ्चायु, मनुष्यायु, तिर्यञ्चगति, मनुष्यगति, औदारिक शरीर, ४ संस्थान, औदारिक अङ्गोपाङ्ग, ५ संहनन, दो आनुपूर्वी (तिर्यञ्च, मनुष्यानुपूर्वी), उद्योत, अप्रशस्तविहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय तथा नीच-गोत्रका कौन बन्धक है ? मिथ्यादृष्टि तथा सासादन सम्यग्दृष्टि बन्धक हैं। ये बन्धक हैं। शेष अबन्धक हैं। मिथ्यात्व दण्डकमें ओघवत् जानना चाहिए।

विशेष—मिथ्यात्व, दण्डक संस्थानादि सोलह प्रकृतियाँ मिथ्यात्व दण्डकमें सम्मिलित हैं। उनके बन्धक मिथ्यादृष्टि होते हैं। वे बन्धक हैं; शेष अबन्धक हैं।

अप्रत्याख्यानावरण ४ का कौन बन्धक है ? मिथ्यादृष्टिसे लेकर असंयत सम्यग्दृष्टि पर्यन्त बन्धक हैं। ये बन्धक हैं। शेष अबन्धक हैं। देवायुका कौन बन्धक है ? मिथ्यादृष्टि,

१. “छट्टो त्ति य मणुवाऊ चरिमे मिच्छेव तिरियाऊ ॥”-गो० क०, गा० १०६। २. वज्रवृषभ-संहनन, औदारिकद्विक, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, मनुष्यायु इन छह प्रकृतियोंकी “उवरिं छण्हं च छिट्ठो सासणसम्मे हवे णियमा”—(गो० क०, १०८ गा०) के अनुसार सासादनमें बंधकृच्छित्ति होती है, अतः असंप्राप्तानुपाटिकासंहननके बिना शेष ५ संहनन कहे गये हैं।

को बंध० ? मिच्छादि० सासादनासम्मा० असंजद० संजदासंजदा ति बंधा । एदे बं० अवसेसा अबंधा । एवं पंचिदिय-तिरिक्ख०३ । पंचिदिय-तिरिक्ख-अपज्जत्त-पंचणाणा० णव दंस० सादासा० मिच्छ०-सोलसक०-णवणो०-तिरिक्खमणुसायु-तिरिक्खमणुसगदि-पंचिदि०(पंचजा०)-ओरालि० तेजाकम्म० छस्संठाणं ओरालिय-सरीर-अंगोव० छस्संघड०-वण्ण०४-दोआणुपु०-अगुरुगलहुग०४-आदावुज्जो०-दोविहा०-तसादिदसयुगलं णिमिणं णीचुच्चागो०-पंचतरा० को बं० ? सन्वे बंधा, अबंधा णत्थि । एवं सव्व-अपज्जत्ताणं सव्व-एइंदियाणं सव्वविगलिंदि० । ...

[अत्र ताडपत्रं त्रुटितम् ।]

सासादन सम्यक्त्वी, असंयत सम्यक्त्वी तथा देश संयमी बन्धक हैं । ये बन्धक हैं । शेष अबन्धक हैं ।

पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्तक, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च योनिमतीमें तिर्यञ्चोंके समान भंग जानना चाहिए ।

पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च-लब्धपर्याप्तकोंमें- ५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, साता, असाता, मिथ्यात्व, १६ कषाय, ६ नोकषाय, तिर्यञ्चायु, मनुष्यायु, तिर्यञ्चगति, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रिय- (जाति पंच जाति) औदारिक-तैजस-कार्माण शरीर, ६ संस्थान, औदारिक शरीरांगोपांग, ६ संहनन, वर्ण ४, मनुष्य-तिर्यञ्चानुपूर्वी, अगुरुलघु ४ (अगुरुलघु, उग्रघात, परघात, उच्छ्वास), आताप, उद्योत, दो विहायोगति, त्रसादि दस युगल (त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकीर्ति), निर्माण, नीचगोत्र, उच्चगोत्र, तथा ५ अन्तरायका कौन बन्धक हैं ? सर्व बन्धक हैं ; अबन्धक नहीं हैं ।

सम्पूर्ण लब्धपर्याप्तकों, सम्पूर्ण एकेन्द्रियों, सर्व विकलेन्द्रियोंमें इसी प्रकार जानना चाहिए ।

विशेष—लब्धपर्याप्तक' तिर्यचोंमें नरकायु, देवायु तथा चैक्रियिक पट्कका अभाव रहनेसे इनकी गणना नहीं की गयी है । इनके मिथ्यात्व गुणस्थान ही पाया जाता है ।

[ताडपत्र नष्ट हो जानेसे इस प्रकरणका आगामी विषय नष्ट हो गया है । ग्रन्थके प्रकरणसे ज्ञात होता है कि आचार्य महाराजने मनुष्य गति आदि मार्गणाओंकी अपेक्षा 'बंध सामित्त-विचय' प्ररूपणाका वर्णन दिया होगा । सम्बन्ध मिलानेकी दृष्टिसे श्री गोम्मटसार कर्मकाण्डके आश्रयसे कुछ प्रकाश डाला जाता है]

मनुष्यगति—यहाँ मिथ्यात्वादि चौदह गुणस्थान हैं । बन्ध योग्य १२० प्रकृतियाँ हैं । यहाँका वर्णन ओघवत् जानना चाहिए । विशेष यह है कि मिथ्यात्व गुणस्थानमें तीर्थंकर, आहारकद्विकका बन्ध न होनेसे शेष ११७ प्रकृतियोंका बन्ध होता है । सासादन गुणस्थानमें मिथ्यात्वादि १६ प्रकृतियोंका बन्ध न होनेसे बन्ध १०१ का होता है । मिश्र गुणस्थानमें ६९ का बन्ध होता है । यहाँ सासादन गुणस्थानमें बन्ध-व्युच्छिन्न होनेवाली अनन्तानुबन्धी आदि २५ प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होगा । इसके सिवाय मनुष्यगति-द्विक, मनुष्यायु, ब्रह्मवृषभनाराच संहनन, औदारिक शरीर, औदारिकशरीराङ्गोपाङ्ग इन छह प्रकृतियोंकी भी सासादन गुणस्थानमें बन्धव्युच्छित्ति होती है । साधारणतया इनकी अविरतमें बन्धव्युच्छित्ति होती थी ।

१. सुरणिरयाउ अपुण्णे वेगुव्वियच्छक्कमवि णत्थि ॥ गो० क०, गा० १०९ ।

मिश्र गुणस्थानमें आयुका बन्ध न होनेसे देवायुका अबन्ध हो गया। इस प्रकार ३२ प्रकृतियोंके घटानेसे मिश्र गुणस्थानमें ६९ प्रकृतियोंका बन्ध होता है। अविरत सम्यक्त्वीके देवायु तथा तीर्थंकरका बन्ध प्रारम्भ हो जानेसे ७१ का बन्ध होता है। अप्रत्याख्यानावरण ४ का देशविरतमें बन्ध न होनेसे वहाँ ६७ प्रकृतियोंका बन्ध होता है। प्रमत्तगुणस्थानमें ६३ प्रकृतियोंका बन्ध है, कारण, यहाँ प्रत्याख्यानावरण ४ का बन्ध नहीं है। अप्रमत्तसंयतके अस्थिर, असाता, अशुभ, अरति, शोक, अयशःकीर्ति इन छहका बन्ध नहीं होगा, किन्तु यहाँ आहारकद्विकका बन्ध होनेसे, ५६ का बन्ध होता है। अपूर्वकरणमें ५८ का बन्ध है, कारण, यहाँ देवायुका बन्ध नहीं होता, देवायुकी बन्धव्युच्छित्ति अप्रमत्त गुणस्थानमें हो जाती है। अनिवृत्तिकरणमें बन्ध योग्य २२ हैं, कारण, अपूर्वकरण, गुणस्थानमें निद्रा, प्रचला, तीर्थंकर, आहारकद्विक आदि कुल ३६ प्रकृतियोंकी बन्धव्युच्छित्ति हो जानेसे २२ प्रकृति ही बन्धके लिए शेष रहती हैं। सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानमें १७ का बन्ध होता है, कारण, अनिवृत्तिकरणमें पुरुषवेद तथा ४ संज्वलन कषायोंकी बन्धव्युच्छित्ति हो जाती है। उपशान्तकषायमें केवल एक सातावेदनीयका ही बन्ध होता है। सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानमें ५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, ५ अन्तराय, यशःकीर्ति तथा उच्चगोत्रकी बन्धव्युच्छित्ति हो जाती है। क्षीणकषाय तथा सयोगीजिनके एक सातावेदनीयका ही बन्ध होता है। अयोगकेवलीके बन्ध नहीं है, कारण वहाँ बन्धके हेतुओंका अभाव हो चुका है।

सामान्य मनुष्य, मनुष्य पर्याप्तक, मनुष्यनीमें मनुष्यगतिके समान भंग है।

लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्यमें - तीर्थंकर, आहारकद्विक, देवायु, नरकायु तथा वैक्रियिकषट्क इन ११ प्रकृतियोंको बन्धके अयोग्य कहा है। अतः उसके १०६ प्रकृतिका बन्ध होगा। इसके केवल मिथ्यात्व गुणस्थान होता है।

निवृत्त्यपर्याप्तक मनुष्यमें - चार आयु, नरकद्विक तथा आहारकद्विक इन आठ प्रकृतियोंको बन्धके अयोग्य कहा है, अतः उसके १२० - ८ = ११२ बन्ध योग्य हैं। यहाँ मिथ्यात्व, सासादन, असंयतप्रमत्त तथा सयोगकेवली गुणस्थान होते हैं।

देवगति - यहाँ सूक्ष्मत्रय, विकलत्रय, सुरचतुष्क, नरकद्विक, नरकायु, देवायु, आहारकद्विक, इन सोलह प्रकृतियोंका बन्ध न होनेसे बन्धयोग्य १२० - १६ = १०४ कही हैं। देवगतिमें मिथ्यात्वादि चार गुणस्थान होते हैं। भवनत्रिक तथा कल्पवासी स्त्रियोंमें तीर्थंकरका अभाव होता है "भवणतिष्ठ तिष्ठतिस्थिर", "कल्पिस्थीसु ण तिष्ठति"। उनके १०३ प्रकृतियाँ बन्धयोग्य हैं। सौधर्म, ईशान स्वर्गवालोंके तीर्थंकरका बन्ध होता है; इससे १०४ प्रकृतियाँ बन्धयोग्य कही हैं। सनत्कुमारादि सहस्रार स्वर्ग पर्यन्त एकेन्द्रिय स्थावर तथा आतापका बन्ध न होनेसे १०४ - ३ = १०१ बन्धयोग्य हैं। आनत, प्राणत, आरण, अच्युत तथा नव ग्रैवेयकोंमें तिर्यंच गति, तिर्यंचगत्यानुपूर्वी, तिर्यंचायु, उद्योत इन शतारचतुष्क प्रकृतियोंका बन्ध न होनेसे १०१ - ४ = ९७ प्रकृतियोंको बन्धयोग्य कहा है। नव अनुदिश तथा पंच अनुत्तर त्रिमानोंमें सम्यक्त्वी जीव ही उत्पन्न होते हैं, अतः उनके अविरत सम्यक्त्वीके बन्धयोग्य ७२ प्रकृतियाँ कही गयी हैं।

निवृत्त्यपर्याप्तक भवनत्रिक तथा कल्पवासिनियोंमें तिर्यंचायु तथा मनुष्यायुका बन्ध न होनेसे १०३ - २ = १०१ बन्ध योग्य हैं। यहाँ मिथ्यात्व तथा सासादन गुणस्थान होते

१. कल्पिस्थीसु तिष्ठति सदरसहस्रारगो ति तिरियदुगं ।

निरियाऊ ऊब्जोवो अत्थि तदो णत्थि सदरच्चऊ ॥ गो० क०, ११२ ।

हैं। सम्यक्त्वी जीवकी उत्पत्ति भवन्नत्रिक तथा देवांगनाओंमें नहीं होती इससे यहाँ पूर्वोक्त दो गुणस्थान होते हैं। सौधर्मन्द्रकी इन्द्राणीकी पर्यायमें भी सम्यक्त्वकी उत्पाद नहीं होता। जन्म धारणके पश्चात् पर्याप्त अवस्थामें सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका निषेध नहीं है। सौधर्म ईशान स्वर्गमें निर्वृत्यपर्याप्तावस्थामें तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध होनेसे यहाँ बन्धयोग्य १०१+१=१०२ कही गयी है।

सनत्कुमारादि सहस्रार स्वर्ग पर्यन्त निर्वृत्यपर्याप्त अवस्थामें मनुष्यायु तथा तिर्यचायुका बन्ध न होनेसे ९९ प्रकृतियोंका बन्ध होता है। उनके पर्याप्त अवस्थामें १०१ का बन्ध कहा गया है। उसमें-से उक्त दो प्रकृतियाँ यहाँ घट जाती हैं।

आनतादि स्वर्गों तथा नव ग्रैवेयकोंमें पर्याप्त अवस्थामें ६७ का बन्ध होता था उसमें-से मनुष्यायुको घटानेसे ९६ का बन्ध निर्वृत्यपर्याप्तक अवस्थामें कहा गया है।

नव अनुदिश तथा पंच अनुत्तर विमानोंमें पूर्वोक्त ७२ प्रकृतियोंमें-से मनुष्यायुको बन्धके अयोग्य होनेसे घटानेपर निर्वृत्यपर्याप्तक अवस्थामें ७१ का बन्ध कहा गया है।

सौधर्मादि नव ग्रैवेयक पर्यन्त निर्वृत्यपर्याप्तक अवस्थामें मिथ्यात्व, सासादन तथा असंयतमें तीन गुणस्थान होते हैं। आगे सम्यक्त्वी जीवका ही उत्पाद होनेसे चौथा गुणस्थान कहा है।

नरकगति—यहाँ मिथ्यात्व गुणस्थानमें बन्धव्युच्छित्तिवाली सोलह प्रकृतियोंमें-से मिथ्यात्व, हुण्डक संस्थान, नपुंसक वेद तथा असम्प्राप्तास्पृष्टिकासंहननको छोड़कर शेष बारह प्रकृतियोंको बन्धके अयोग्य कहा है। इन बारह प्रकृतियोंके सिवाय देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक अंगोपांग, देवायु तथा आहारकद्विक इन सात प्रकृतियोंका भी बन्ध नहीं होनेसे १२+७=१९ प्रकृतियोंको १२० में घटानेसे १०१ का बन्ध कहा गया है। यहाँ प्रथमसे चतुर्थ गुणस्थान पर्यन्त चार गुणस्थान कहे गये हैं।

चौथे, पाँचवें, छठे तथा सातवें नरकोंमें तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध नहीं होता है। चौथी, पाँचवी तथा छठी पृथ्वीमें १०१-१=१०० प्रकृति बन्ध योग्य कही हैं। सातवी पृथ्वीमें मनुष्यायुका बन्ध नहीं होता है। वहाँसे निकलकर जीव पशु पर्यायको ही प्राप्त करता है, अतः सातवी पृथ्वीमें १००-१=९९ प्रकृतियोंको बन्ध योग्य कहा है।

पहली पृथ्वीमें निर्वृत्यपर्याप्तक अवस्थामें मनुष्यायु तथा तिर्यचायुका अभाव होनेसे १०१-२=९९ को बन्ध योग्य कहा है। यहाँ मिथ्यात्वादि चार गुणस्थान होते हैं।

दूसरे नरकसे छठे नरक पर्यन्त अपर्याप्तावस्थामें केवल मिथ्यात्व गुणस्थान होता है। वहाँ तीर्थकर, मनुष्यायु तथा तिर्यचायु इन तीन प्रकृतियोंका बन्ध न होनेसे १०१-३=९८ को बन्ध योग्य कहा है।

सातवें नरकमें अपर्याप्त अवस्थामें मिथ्यात्व गुणस्थान होता है। वहाँ अपर्याप्त अवस्थामें मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी तथा उच्च गोत्रका बन्ध न होनेसे ९८-३=९५ प्रकृतियोंको बन्ध योग्य कहा है।

तिर्यचगति—तिर्यचोंके सामान्य तिर्यच, पञ्चेन्द्रिय तिर्यच, पर्याप्ततिर्यच तथा योनिभूत तिर्यच इस प्रकार जो चार भेद कहे गये हैं, उनके पाँच गुणस्थान होते हैं। तिर्यचोंमें तीर्थकर तथा आहारकद्विक इन प्रकृतियोंके बन्धका अभाव रहनेसे १२०-३=११७ का बन्ध होता है। मनुष्यगतिके समान तिर्यच्चोंमें भी वज्रवृषभनाराचसंहनन, औदारिकद्विक, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी तथा मनुष्यायुकी बन्धव्युच्छित्ति अविरतके बदलेमें सासादन गुणस्थानमें होती है।

निर्वृत्यपर्याप्तक तिर्यञ्चोंमें चार आयु तथा नरकद्विकका बन्धाभाव होनेसे बन्धयोग्य ११७-६=१११ प्रकृतियाँ हैं। इनके मिथ्यात्व, सासादन तथा असंयत ये तीन गुण-स्थान होते हैं।

लब्ध्यपर्याप्तक तिर्यञ्चोंमें नरकायु, देवायु तथा वैक्रियिक षट्कका बन्ध न होनेसे ११७-८=१०९ का बन्ध होता है। यहाँ मिथ्यात्व गुणस्थानका सद्भाव कहा गया है।

इन्द्रिय मार्गणा—पर्याप्तक एकेन्द्रिय तथा विकलेन्द्रियोंमें तीर्थकर, आहारकद्विक, देवायु, नरकायु तथा वैक्रियिकषट्क इन एकादश प्रकृतियोंका बन्ध न होनेसे १२०-११=१०९ प्रकृतियोंका बन्ध कहा गया है। इनके प्रथम और द्वितीयगुणस्थान होते हैं।

पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें चौदह गुणस्थान कहे गये हैं।

पञ्चेन्द्रिय निर्वृत्यपर्याप्तकोंमें आहारकद्विक, नरकद्विक तथा आयुचतुष्टय इस प्रकार आठ प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होनेसे १२०-८=११२ का बन्ध कहा है। इनके १, २, ४, ६ तथा तेरहवें गुणस्थान कहे हैं। आहारकमिश्रकाययोगावस्थामें जीव निर्वृत्यपर्याप्तक होता है। उस समय प्रमत्तसंयतावस्था पायी जाती है। केवली भगवान्के समुद्घातकालमें औदारिक मिश्रकायके समय निर्वृत्यपर्याप्तक अवस्था पायी जाती है।

लब्ध्यपर्याप्तक पञ्चेन्द्रियोंमें तीर्थकर, आहारकद्विक, देवायु, नरकायु, वैक्रियिकषट्क इन ११ प्रकृतियोंको छोड़कर १२०-११=१०९ का बन्ध बताया गया है। गुणस्थान प्रथम ही होता है।

कायमार्गणा—पृथ्वीकाय, जलकाय, वनस्पतिकायवाले जीवोंमें मिथ्यात्व, सासादन गुणस्थान होते हैं। इनकी १०९ प्रकृतियोंका बन्ध होता है।

अग्निकायिकों, वायुकायिकोंमें मनुष्यद्विक, उच्चगोत्र तथा मनुष्यायुका बन्ध न होनेसे १०९-४=१०५ का बन्ध है। गुणस्थान मिथ्यात्व ही होता है। गोम्मटसार कर्मकाण्डमें लिखा है—“ण हि सासणो अणुण्णे साहारणसुहुमणे य तेउदुणे ।” ॥११५॥

लब्ध्यपर्याप्तकों, साधारण वनस्पतिकायिकों, सम्पूर्ण सूक्ष्मस्थावर जीवोंमें तथा तेजकायिक वायुकायिकोंमें सासादन गुणस्थान नहीं होता है। नारकी जीवोंमें भी अपर्याप्तावस्थामें सासादनका अभाव है।

योगमार्गणा—असत्य मन तथा असत्यवचनयोग, उभय मन तथा वचन योगोंमें मिथ्यात्वसे आदि क्षीण कषाय पर्यन्त द्वादश गुणस्थान पाये जाते हैं।

सत्य मन, सत्य वचन तथा अनुभय मन तथा अनुभय वचनमें सयोगी जिन पर्यन्त त्रयोदश गुणस्थान कहे गये हैं।

औदारिक काययोगमें त्रयोदश गुणस्थान कहे गये हैं। मनुष्यगतिके समान वर्णन जानना चाहिए। औदारिकमिश्र काययोगमें आहारक द्विक, नरकद्विक, नरकायु और देवायु इन छह प्रकृतियोंके बिना १२०-६=११४ का बन्ध होता है। यहाँ मिथ्यात्व, सासादन, असंयत तथा सयोगी जिन ये गुणस्थान पाये जाते हैं।

वैक्रियिक काययोगमें सौधर्म-ईशान स्वर्गके समान १०४ प्रकृतियोंका बन्ध होता है। वैक्रियिक मिश्र काययोगमें मनुष्यायु तथा तिर्यचायुका बन्ध न होनेसे १०४-२=१०२ प्रकृतियोंका बन्ध होता है। यहाँ मिथ्यात्व, सासादन तथा असंयत गुणस्थान होते हैं।

आहारक काययोगमें छठा गुणस्थान होता है। यहाँ ६३ प्रकृतियोंका बन्ध होता है। आहारक मिश्रयोगमें देवायुका बन्ध नहीं होनेसे ६३-१=६२ का बन्ध होता है।

कार्मण काययोगमें प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ तथा त्रयोदशम गुणस्थान पाये जाते हैं। यहाँ औदारिकमिश्रकाययोग सम्बन्धी ११४ प्रकृतियोंमेंसे मनुष्यायु तथा तीर्थचायुको घटाने पर ११२ का बन्ध होता है।

वेदमार्गणा—तीनों वेदोंमें प्रथमसे नवम गुणस्थान पर्यन्त गुणस्थान होते हैं। यहाँ तीनों वेदोंमें १२० प्रकृतियाँ बन्ध योग्य कही गयी हैं।

स्त्रीवेदीके निर्वृत्यपर्याप्तक अवस्थामें प्रथम तथा द्वितीय गुणस्थान कहे गये हैं। यहाँ चार आयु, तीर्थकर, आहारकद्विक, वैक्रियिकषट्क इन १३ प्रकृतियोंको छोड़कर १२० - १३ = १०७ का बन्ध होता है।

नपुंसकवेदी निर्वृत्यपर्याप्तक अवस्थामें मिथ्यात्व, सासादन तथा असंयतगुणस्थान कहे गये हैं। यहाँ चार आयु, आहारकद्विक, वैक्रियिकषट्क इन द्वादश प्रकृतियोंके विना १०८ का बन्ध होता है। तीर्थकर प्रकृतिका बन्धक जब नरकमें जाता है, तब उसके अपर्याप्तक दशममें तीर्थकरका बन्ध होनेसे यहाँ १०८ का बन्ध कहा है। ऐसा स्त्रीवेदीमें नहीं होता है। सम्यक्त्वी जीव प्रथम नरक तो जाता है और वहाँ नपुंसकवेदी होता है, किन्तु वह स्त्रीवेदी नहीं होता है।

पुरुषवेदीके १२० प्रकृतियोंका बन्ध होता है। निर्वृत्यपर्याप्तक अवस्थामें उसके आहारकद्विक, नरकद्विक, तथा चार आयुको छोड़कर १२० - ८ = ११२ का बन्ध होता है।

कषायमार्गणा—यहाँ १ से १० पर्यन्त गुणस्थान कहे गये हैं। यहाँ बन्ध १२० प्रकृतियों का होता है।

ज्ञानमार्गणा—कुमति, कुश्रुत तथा कुअवधि ज्ञानोंमें तीर्थकर तथा आहारकद्विकको छोड़कर १२० - ३ = ११७ का बन्ध होता है। यहाँ मिथ्यात्व तथा सासादन गुणस्थान कहे गये हैं। सुमति, सुश्रुत तथा सुअवधिज्ञानोंमें चौधसे बारहवें पर्यन्त गुणस्थान होते हैं। यहाँ बन्धयोग्य ७९ प्रकृतियाँ कही गयी हैं।

मनःपर्यय ज्ञानमें प्रमत्तसंयतसे क्षीणकषायपर्यन्त गुणस्थान हैं। यहाँ ६५ प्रकृतियाँ कही गयी हैं।

मनःपर्यय ज्ञानमें प्रमत्तसंयतसे क्षीणकषाय पर्यन्त गुणस्थान हैं। यहाँ ६५ प्रकृतियोंका बन्ध होता है। यहाँ आहारकद्विकका भी बन्ध होता है। मनःपर्ययज्ञानोंके आहारकद्विकके उदयका विरोध है। केवलज्ञानमें सयोगकेवली, अयोगकेवली गुणस्थान पाये जाते हैं। सयोगकेवलीके केवल सातावेदनीयका बन्ध होता है। अयोगी जिनके बन्धका अभाव है।

संयममार्गणा—असंयम मार्गणामें आदिके चार गुणस्थान हैं। यहाँ संयम अवस्थामें बंधनेवाली आहारकद्विकका बन्ध न होनेसे बन्ध योग्य १२० - २ = ११८ प्रकृतियाँ कही गयी हैं।

देशसंयमीके पाँचवाँ गुणस्थान होता है। सामायिक तथा छेदोपस्थापना सयममें ६, ७, ८, ९ पर्यन्त चार गुणस्थान होते हैं। यहाँ ६५ प्रकृति बन्ध योग्य हैं।

परिहार विशुद्धि संयममें छठवें, सातवें गुणस्थान होते हैं। यहाँ भी ६५ प्रकृतिका बन्ध होता है। इस संयमीके आहारकद्विकका बन्ध तो होता है; किन्तु उनका उदय नहीं होता है।

यथाख्यात संयम—यह ११वें से १४वें पर्यन्त होता है। उपशान्त कषायसे सयोगी जिन पर्यन्त केवल सातावेदनीय का बन्ध होता है। चौदहवें गुणस्थानमें बन्धाभाव है, क्योंकि वहाँ योगका अभाव हो जाता है।

दर्शनमार्गणा—चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शनमें १ से १२ पर्यन्त गुणस्थान होते हैं। यहाँ १२० प्रकृतिका बन्ध होता है।

१. अत्र आहारकद्वयोदय एव विहृद्ध्यते, नाप्रमत्तापूर्वकरयोस्तद्बन्धः।

अवधिदर्शनमें ४थे से १२वें पर्यन्त गुणस्थान कहे गये हैं। यहाँ अवधिज्ञानवत् ७६ का बन्ध जानना चाहिए।

केवलदर्शन १३ तथा १४ ये दो गुणस्थान होते हैं। बन्धकी अपेक्षा सयोगी जिनके सातावेदनीयका ही बन्ध होता है।

लेश्यामार्गणा - कृष्ण, नील, तथा कापोत इत् तीन लेश्याओंमें आदिके चार गुणस्थान होते हैं। अतः यहाँ आहारकद्विकके बिना $१२० - २ = ११८$ प्रकृतियोंका बन्ध कहा है।

पीत लेश्यामें १ से लेकर ७वें पर्यन्त गुणस्थान हैं। यहाँ सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, विकलत्रय, नरकायु तथा नरकद्विक इन ९ प्रकृतियोंका बन्ध न होनेसे बन्ध योग्य $१२० - ९ = १११$ कही गयी है।

पद्म लेश्यामें पूर्वचत् ७ गुणस्थान होते हैं। यहाँ एकेन्द्रिय, स्थावर तथा आतापका बन्ध न होनेसे $१११ - ३ = १०८$ बन्ध योग्य कही हैं।

शुक्ललेश्या - यहाँ सयोगी जिन पर्यन्त त्रयोदश गुणस्थान होते हैं। यहाँ पद्मलेश्या-सम्बन्धी १०८ प्रकृतियोंमें से तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, तिर्यञ्चायु तथा उद्योत इन शतार-चतुष्कका अभाव होनेसे $१०८ - ४ = १०४$ का बन्ध होता है।

भग्न्यमार्गणा - भग्न्योंके चौदह गुणस्थान होते हैं। इनके १२० प्रकृतियोंका बन्ध होता है।

अभग्न्य जीवोंके तीर्थकर तथा आहारकद्विकको छोड़ ११७ का बन्ध होता है। इनके मिथ्यात्व गुणस्थान ही होता है।

सम्यक्त्वमार्गणा - प्रथमोपशम सम्यक्त्वमें मिथ्यात्व गुणस्थानसम्बन्धी १६ तथा सासादन गुणस्थान सम्बन्धी २५ प्रकृतियोंका अभाव होने के साथ देवायु तथा मनुष्यायुका अभाव होता है, अतः $१६ + २५ + २ = ४३$ प्रकृतियोंको घटानेसे यहाँ $१२० - ४३ = ७७$ प्रकृतियोंका बन्ध होता है। यहाँ चौथेसे सातवें पर्यन्त चार गुणस्थान कहे गये हैं। द्वितीयोपशम सम्यक्त्वमें चौथेसे ग्यारहवें पर्यन्त सात गुणस्थान कहे गये हैं। सातवें गुणस्थानसे ग्यारहवें पर्यन्त चढ़कर जब वह जीव नीचे उतरकर चौथे गुणस्थानमें आता है, तब उसके प्रथमोपशम सम्यक्त्वके समान ७७ प्रकृतियोंका बन्ध होता है। यहाँ भी मनुष्यायु तथा देवायुका अभाव कहा है। "संखुवसम्मे णरसुरआऊणि णत्थि णियमेण" (गो० कं० १२०)

'गोमटसार'कर्मकाण्डकी संस्कृत टीकामें लिखा है = अत्र प्रथमद्वितीयोपशमसम्यक्त्वयोरायुरबन्धात् आरोहकापूर्वकरणप्रथमसमये 'मरणोन्' इति विशेषोऽनर्थकः ? इति न वाच्यम्, प्राग्बद्धदेवायुष्कस्यापि सातिशयप्रमत्तस्य श्रेण्यारोहणसंभवात् (११६ पृष्ठ) यहाँ ग्रह प्रश्न क्रिया है, प्रथमोपशम तथा द्वितीयोपशम सम्यक्त्वोंमें आयुबन्धका अभाव कहा है, तब श्रेणीका आरोहण करनेवाले अपूर्वकरण गुणस्थानके प्रथम समयमें 'मरणोन्' मरणरहित ऐसा विशेषण निरर्थक रहा ? इसका समाधान यह है कि पहले देवायुका बन्ध करनेवाले सातिशय अप्रमत्तके श्रेणीका आरोहण सम्भव है। पूर्वमें आयुबन्ध करनेके अन्तर्मुहूर्त पर्यन्त सम्यक्त्वमें मरण नहीं होता है। इस प्रकार प्रथमोपशम सम्यक्त्वमें तथा श्रेणी चढ़ते अपूर्वकरणके प्रथम भागके अन्तर्मुहूर्तमें मरण नहीं होता है; अन्यत्र उपशम श्रेणीमें मरण होता है। (गो० कं०, संस्कृत टी०, पृ० १२२)

क्षयोपशम अथवा वैदिक सम्यक्त्व चौथेसे सातवें पर्यन्त कहा है। यहाँ प्रथमोपशम सम्यक्त्वकी ७७ प्रकृतियोंमें मनुष्यायु तथा देवायुको जोड़नेसे ७९ का बन्ध कहा गया है।

[कालपरूवणा]

१३.जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं साग० दे० । तिथ्य०-जह० चदुरासीदि-
वाससहस्साणि, उक्क० तिण्णि साग० सादिरे० । पढमाए याव छट्ठित्ति पढमदंड-
बंधकालो जह० दसवाससहस्साणि सागरोपम-तिण्णि-सत्त-दस-सत्तारस-सागरोप०
सादिरे० । उक्क० अप्पण्णो द्विदी कादव्वो (दव्वा) । साद[द] डगे तिरिक्खगदि-
तिगं पविट्ठं जह० एयस० उक्क० अंतो० । थीणगिद्विद्वं डओ गिरयोधो । णवरि
अप्पण्णो द्विदी भा(भ)णिदव्वा । एवं मिच्छत्त-दंडओ । पुरिसवेददंडओ अप्पण्णो
द्विदी० दे० । दो आयु० ओघं । तिथ्यर० पढमाए जह० चदुरासीदि-वस्स-सहस्साणि,
उक्क० सागरो० देख्ख० । विदियाए जह० सागरो० सादिरे० । उक्क० तिण्णि सागरो०
देख्ख० । तदियाए जह० तिण्णि साग० सादिरे० । उक्क० तिण्णि साग० सादिरे० ।
सत्तमाए णेरइ ओघो । णवरि दंसणतियं मिच्छत्तं अणंताणुबंधि०४ तिरिक्खपगदितियं
च जह० अंतो० । मणुस० मणुसाणुपुव्वि० उच्चागो० जह० अंतो० । तिथ्यर० णत्थि ।

क्षायिक सम्यक्त्वमें चौथेसे चौदहवें पर्यन्त गुणस्थान होते हैं। यहाँ भी ७९ का बन्ध होता है।

संज्ञी मार्गणा - संज्ञी जीवके १ से १२ पर्यन्त गुणस्थान कहे गये हैं। यहाँ १२० का बन्ध होता है।

असंज्ञीके प्रथम तथा द्वितीय गुणस्थान होते हैं। यहाँ तीर्थकर तथा आहारकद्विकके विना १२० - ३ = ११७ का बन्ध कहा गया है।

आहार मार्गणा - यहाँ १ से १३ गुणस्थान होते हैं। १२० प्रकृतिका बन्ध होता है।

अनाहारकोंके प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, तेरहवें गुणस्थान कहे गये हैं। यहाँ ४ आयु, आहारकयुगल, नरकद्विकके विना १२० - ८ = ११२ का बन्ध कहा है।

कालपरूवणा

[ताड़पत्र नं० २८ नष्ट हो जानेके कारण इस पररूपणाका प्रारम्भिक अंश भी विनष्ट हो गया। प्रकरणको देखते हुए ज्ञात होता है कि यहाँ आदेशकी अपेक्षा नरकगतिका वर्णन चल रहा है और ओघका वर्णन नष्ट हो गया है]

विशेष - यहाँ एक जीवकी अपेक्षा वर्णन किया गया है।

१३. नरकगतिमें ... जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे देशोनतेतीस सागरोपमं है। एक जीवकी अपेक्षा तीर्थकर प्रकृतिका जघन्य बन्धकाल ८४ हजार वर्ष, तथा उत्कृष्ट साधिक तीन सागर प्रमाण है। प्रथम नरकसे छठे नरक पर्यन्त प्रथम दण्डकका बन्धकाल जघन्यसे दशहजार वर्ष, एक सागर, तीन सागर, सात सागर, दस सागर, सत्रह सागरसे कुछ अधिक है तथा उत्कृष्ट अपने-अपने नरककी स्थिति प्रमाण जानना चाहिए। अर्थात् क्रमशः एक सागर, तीन सागर, सात सागर, दस सागर, सत्रह सागर तथा बाईस सागर प्रमाण है। साता दण्डकमें तिर्यच-गतित्रिकमें प्रविष्ट जीवका बन्धकाल जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे अन्तर्मुहूर्त प्रमाण है। स्यान्नगृद्धि दण्डकका बन्धकाल नरक गतिकी ओघ रचनाके समान है। विशेष यह है कि यहाँ अपनी-अपनी स्थिति कहनी चाहिए।

१४. तिरिक्खेषु पंचणाणां छद्मसणं मिच्छं अट्टकं भयदुगुंछं तेजाकं वण्णं४ अगुरुं उपं णिमिणं पंचंतं बंधं जहं खुद्धाभवं, उक्कं अणंतकालं असंखे० [पोग्गलपरियट्टं०] । एवं थीणगिद्धितिगं अणंताणुं आदि० (?) अट्टकसाय ओरालियं, णवरि जहं एगसं । सादासां-छण्णोकसां-दोगदि-चदुजादि-पंचसंठाणं ओरालियं अंगो० छस्संघडं-दोआणुपुं-आदावुज्जोवं अप्पसत्थविं थावरादि०४ थिरादि दो युं दूभग-दुस्सर-अणादेज्ज-जसं अजसं जहं एगसं, उक्कं अंतो०।

विशेष - ओघ रचनावाला ताड़पत्रका अंश नष्ट हो गया, अतः ओघ रचना अज्ञात है। मिथ्यात्व दण्डकमें इसी प्रकार जानना चाहिए। पुरुषवेद दण्डकमें अपनी-अपनी स्थिति प्रमाण किन्तु कुछ कम बन्धकाल है।

दो आयु (मनुष्य-तिर्यचायु) का बन्धकाल ओघके समान है। तीर्थंकर प्रकृतिका बन्धकाल प्रथम पृथ्वीमें जघन्यसे चौरासी हजार वर्ष है, उत्कृष्टसे देशोन एक सागर है।

विशेषार्थ - इस कथनसे विदित होता है कि तीर्थंकर प्रकृतिका बन्धक नरकमें कमसे कुल ८४ हजार वर्षकी आयुको प्राप्त करेगा। उदाहरणार्थ-श्रेणिक महाराजके जीवने नरकमें जाकर ८४ हजार वर्षकी आयु प्राप्त की है।

दूसरी पृथ्वीमें जघन्य बन्धकाल साधिक एक सागर, उत्कृष्ट किंचित् उन तीन सागर है। तीसरी पृथ्वीमें जघन्य साधिक तीन सागर, उत्कृष्ट साधिक तीन सागर बन्धकाल है।

विशेषार्थ - तीसरी पृथ्वीमें सात सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति पायी जाती है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ उत्पन्न होनेवाला जीव किंचित् उन सात सागर पर्यन्त सम्यक्त्वी रहनेसे उतने काल पर्यन्त तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध करता है; किन्तु इस सम्बन्धमें यह आगम बताता है कि उस प्रकृतिका उत्कृष्ट बन्धकाल साधिक तीन सागर है। इससे अधिक बन्धकालकी कल्पना करना आगम बाधित होगा।

सातवीं पृथ्वीमें - नारकियोंके ओघवत् जानना चाहिए। विशेष यह है कि दर्शनावरण ३, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी ४, तिर्यचगतित्रिकका जघन्य बन्धकाल अन्तर्मुहूर्त है। मनुष्य-गति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, उच्चगोत्रका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है। यहाँ तीर्थंकर प्रकृति नहीं है। [चौथी, पाँचवीं तथा छठी पृथ्वीमें भी तीर्थंकर प्रकृति नहीं है।]

१४. तिर्यच्चोमें - ५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, ८ कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजस-कार्माण शरीर, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और ५ अन्तरायोंका जघन्यसे बन्धकाल क्षुद्रभवग्रहण, उत्कृष्टसे अनन्तकाल असंख्यात पुद्गल परावर्तन है। स्थानगृद्धित्रिक, अनन्तानुबन्धी आदि आठ कषाय तथा औदारिक शरीरमें भी इसी प्रकार समझना चाहिए। विशेष यह है कि यहाँ जघन्य बन्धकाल एक समय है। साता-असातावेदनीय, ६ नोकषाय, २ गति, ४ जाति, ५ संस्थान, औदारिक अंगोपांग, ६ संहनन, २ आनुपूर्वी, आताप, उद्योत, अप्रशस्त-विहायोगति, स्थावरादि ४, स्थिरादि दो युगल, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय, यशःकीर्ति, अयशः-

१. "तिरिक्खगदीए तिरिक्खेषु मिच्छादिद्वी केवचिरं कालादो होति ? एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहूर्तं उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्जपोग्गलपरियट्टं"-पट्खं०, का० ४८ । २. "सातणम्ममादिद्वी केवचिरं कालादो होति ? एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ ।"-पट्खं०, का० ५, ७, ८ ।

पुरिसवे०-देवग०-वेउन्वि० समच० वेउन्वि० अंगो० देवाणुपु० पसत्थवि० सुभग० सुस्वर० आदेज्ज० उच्चागो० जह० एगस० । उक्क० तिण्णि पलिदो० । चदुआयु० तिरिक्खगदितिगं ओघं । पंचिदिय० परघा० उस्सासं तस०४ जह० एग० । उक्कस्सेण तिण्णि पलिदो० सादिरे० ।

१५. पंचिदि० तिरिक्ख० ३ ओघं । पढमदंडओ जह० खुद्दा० । पज्जत्तजोणिणीसु [जहण्णेण] अंतो० । उक्क० तिण्णि पलिदो० पुव्वकोडिपुध० । एवं थीणगिद्धितिगं अट्टकसा० । णवरि जह० एगस० । साददंडओ तिरिक्खोघं । णवरि तिरिक्खग-

कीर्तिका जघन्य बन्धकाल एक समय, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त है । पुरुषवेद, देवगति, वैक्रियिक शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वैक्रियिक अंगोपांग, देवानुपूर्वा, प्रशस्तविहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रका जघन्य बन्धकाल एक समय, उत्कृष्ट तीन पल्य है । चार आयु और तिर्यचगतित्रिकका ओघके समान जानना चाहिए । पंचेन्द्रिय जाति, परघात, उच्छ्वास, त्रस ४ का जघन्य एक समय, उत्कृष्ट साधिक तीन पल्य प्रमाण है ।

१५. पंचेन्द्रिय-तिर्यच, पंचेन्द्रिय-तिर्यचपर्याप्तक, पंचेन्द्रिय तिर्यच योनिमतीमें - ओघके समान जानना चाहिए । प्रथम दण्डकमें जघन्य बन्धकाल क्षुद्रभव ग्रहण प्रमाण है । तिर्यच-पर्याप्तक तथा योनिमतियोंमें (जघन्य) अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट पूर्वकोटि पृथक्त्वाधिक तीन पल्य प्रमाण बन्धकाल है ।

विशेषार्थ - एक देव, नारकी, मनुष्य अथवा विवक्षित पंचेन्द्रिय तिर्यचसे विभिन्न अन्य तिर्यच मरकर विवक्षित पंचेन्द्रिय तिर्यच हुआ । वहाँ संज्ञी स्त्री, पुरुष, नपुंसक वेदोंमें क्रमसे आठ-आठ पूर्वकोटि काल व्यतीत करके तथा असंज्ञी स्त्री, पुरुष, नपुंसकमें पूर्ववत् आठ-आठ पूर्व कोटि प्रमाण काल-श्लेष करके पश्चात् लब्धपर्याप्तक पंचेन्द्रिय तिर्यचोंमें उत्पन्न हुआ । वहाँ अन्तर्मुहूर्त रहकर पुनः पंचेन्द्रिय तिर्यच असंज्ञी पर्याप्तकोंमें उत्पन्न होकर उनमें-के स्त्री, पुरुष, नपुंसकवेदी जीवोंमें पुनः आठ-आठ पूर्वकोटि प्रमाण काल व्यतीत करके पश्चात् संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यच पर्याप्तक स्त्री और नपुंसक वेदियोंमें आठ-आठ पूर्व कोटियाँ तथा पुरुष वेदियोंमें सात पूर्वकोटियाँ भ्रमण करके पश्चात् देवकुरु, वा उत्तरकुरुमें, तिर्यचोंमें, पूर्वबद्धायुके वश पुरुष या स्त्री तिर्यच हुआ तथा तीन पल्योपम काल व्यतीत करके मरा और देव हुआ । इस प्रकार पूर्वकोटि पृथक्त्व वर्ष अधिक तीन पल्य कहे हैं । (ध०टी०, का०पृ० ३६७, ३६७)

इसी प्रकार स्थानगृद्धित्रिक तथा आठ कषायका भी जानना चाहिए । विशेष यह है कि यहाँ जघन्य एक समय है । सात दण्डकमें तिर्यचोंके ओघवत् जानना चाहिए ।

१. "पंचिदिय-तिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्खपज्जत्त-पंचिदियतिरिक्खजोणिणीसु मिच्छादिट्ठी केवचिरं कालादो होति ? एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण तिण्णि पलिदोवमाणि पुव्वकोडिपुधत्तेण-धमहियाणि ।"-पट्ख्व०, का० ५७-५६ । २. यहाँ बारह भवोंमें-से ११ भवोंमें पूर्वकोटिपृथक्त्ववर्ष अर्थात् आठ-आठ पूर्व कोटि वर्ष प्रमाण परिभ्रमणका काल और अन्तके बारहवें भवमें सात पूर्वकोटि वर्ष प्रमाण परिभ्रमण करनेका काल मिलकर १५ पूर्वकोटि वर्ष प्रमाण होता है । इस कालको 'पूर्वकोटिपृथक्त्व' शब्दसे ग्रहण किया है ।

दितिगं ओरालियं च पविट्टं । पुरिसवेददंडओ तिरिक्खोघं । णवरि जोणिणीसु देसु० ।
चदु आयु० ओघं । पंचिदि० दंडओ तिरिक्खोघं ।

१६. पंचिंदिय-तिरि०-अप० पंचणाणा०-णवदं० मिच्छ०-सोलसक०-भयदुगुं०
ओरालिय० तेजाक० वण्ण०४ अगु० उप० णिमिणं पंचंत० जह० सुद्धा० । उक्क०
अंतो० । दो आयु ओघं । सेसाणं जह० एगस० । उक्क० अंतो० । एवं सव्व-अपज्जत्ताणं
तसाणं थावराणं च ।

१७. मणुस०३-पंचणा० णवदंस० सोलसक० भयदुगुं० तेजाक० वण्ण०४
अगु० उप० णिमिणं पंच-(पंचंत०) जह० एग० । [उक्कस्सेण] तिण्णि पलिदो०
पुव्वकोडिपुध० । एवं मिच्छ० । णवरि जह० सुद्धा० । पज्जत्त(०)मणुसिणि अंतो० ।
सादावे० चदुआयु ओघं । असाद०-छण्णोक०-तिण्णिगदि-चदु जाति(दि)-ओरालिय०-
पंचसंठा०-ओरालिय-अंगो०छसंसंघ०-तिण्णिआणु०-आदावुज्जो० अप्पस०-थावरादि०४-

तिर्यंचगतित्रिक तथा औदारिक शरीरमें विशेष जानना चाहिए । पुरुषवेद दण्डकका तिर्यञ्चोके
ओघवत् है । इतना विशेष है कि योनिमती तिर्यञ्चोके कुछ कम जानना चाहिए । चार आयुका
बन्धकाल ओघवत् जानना चाहिए । पञ्चेन्द्रिय दण्डकमें तिर्यञ्चोके ओघवत् है ।

१६. पञ्चेन्द्रिय-तिर्यञ्च-लब्धपर्याप्तिकोमें--५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १६
कषाय, भय, जुगुप्सा, औदारिक-तैजस-कामर्ण शरीर, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण
तथा पञ्च अन्तरायोंका बन्धकाल जघन्यसे क्षुद्रभवग्रहण, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त है ।

मनुष्य, तिर्यंचायुका बन्धकाल ओघवत् है । शेषका जघन्य बन्धकाल एक समय, उत्कृष्ट
अन्तर्मुहूर्त है । इस प्रकार संपूर्ण अपर्याप्तक त्रसों तथा स्थावरोंमें जानना चाहिए ।

१७. मनुष्य सामान्य, मनुष्य पर्याप्त तथा मनुष्यनियोंमें-५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण,
१६ कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजस, कामर्ण शरीर, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण तथा ५
अन्तरायोंका जघन्य बन्धकाल एक समय, (उत्कृष्ट) पूर्वकोटि पृथक्त्वाधिक तीन पत्य प्रमाण
है । इसी प्रकार मिथ्यात्वका भी बन्धकाल है । इतना विशेष है कि मनुष्य सामान्यमें जघन्य
बन्धकाल क्षुद्रभव ग्रहण प्रमाण है । पर्याप्त मनुष्य तथा मनुष्यनीमें जघन्य बन्धकाल अन्त-
र्मुहूर्त प्रमाण है । सातावेदनीय, चार आयुका बन्धकाल ओघवत् जानना चाहिए । असाता-
वेदनीय, ६ नोकषाय, तीन गति, चार जाति, औदारिक शरीर, पाँच संस्थान, औदारिक
अंगोपांग, छह संहनन, तीन आनुपूर्वी, आताप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावरादि ४,

१. "पंचिंदियतिरिक्खअपज्जत्ता केवचिरं कालादो होति ? एगजीवं पडुच्च जहण्णेण सुद्धाभवग्गहणं,
उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ।" - षट्खं०, का० १५, ६७ ।

२. "मणुसगदीए मणुस-मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु मिच्छादिट्ठी केवचिरं कालादो होदि ? एगजीवं
पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण तिण्णि पलिदोवमाणि पुव्वकोडिपुधसेणअभहियाणि ।" - षट्खं०, का०,
६८-७० ।

यहाँ यह विशेष है कि मनुष्य मिथ्यात्वके ४७ पूर्व कोटि अधिक तीन पत्य है, पर्याप्त मिथ्यात्वकी मनुष्यके
२३ पूर्वकोटियाँ अधिक हैं । मनुष्यनी मिथ्यादृष्टिके सात पूर्वकोटि अधिक है । यथा-"मणुसमिच्छादिट्ठिस्स
चे य सत्तेतालपुव्वकोडोओ अहिया होति, पज्जत्तमिच्छादिट्ठीणं तेवीसपुव्वकोडोयो, मणुसिणि मिच्छादिट्ठीसु
सत्त पुव्वकोडोओ अहियाओ ।" - ध० टी०, का०, पृ० ३७३ ।

थिरादिदोयु०दूभग-दुस्स०-अणादे०-जस०-अज्जस०-णीचागो० जहण्णे० एग० ।
उक्क० अंतो० । पुरिस० देवग०४ समच्च० पसत्थ० सुभग० सुस्सर० आदेज्ज०
उचागो० जह० एगस० । उक्क० तिण्णि पलिदो० सादिरे० । मणुसिणीसु देसु० ।
पंचिंदिय० परघादु० तस०४ तिरिक्खोघं । आहार०२ जह० एग० । उक्क० अंतो० ।
तित्थ० जह० एग० । उक्क० पुव्वकोटिदेसु० ।

१८. देवेषु-पंचणा० छदंसणा०बारसक०भयदुगुं०ओरालिय०तेजाक०-
वण्ण०४ अगु०४ बादर-पज्जत्त-पत्तोय० णिमि० पंचंत० जह० दसवस्ससहस्सा० ।
उक्क० तेतीसं सा० । थीणगिद्धित्तिग० मिच्छ० अणंताणुचं०४ जह० एग० । [णवरि]
मिच्छ० अंतो० । उक्क० एकसीसं सा० । सादासा० छण्णोक० तिरिक्ख० एइंदि०

स्थिरादि दो युगल, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय, यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति तथा नीचगोत्रका जघन्य बन्धकाल एक समय, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त है। पुरुषवेद, देवगति ४, समचतुरस्र संस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय तथा उच्चगोत्रका जघन्य बन्धकाल एक समय, उत्कृष्ट साधिक तीन पत्य प्रमाण है। विशेष यह है कि मनुष्यनीमें देशोन तीन पत्य है। पंचेन्द्रिय जाति, परघात, उच्छ्वास, त्रस ४ का बन्धकाल तिर्यञ्चोके ओघवत् है। आहारकद्विकका जघन्य बन्धकाल एक समय, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त है। तीर्थकरका जघन्य बन्धकाल एक समय, उत्कृष्ट देशोन पूर्वकोटि है।

१८. देवोमें-५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, १२ कषाय, भय, जुगुप्सा, औदारिक, तैजस, कार्मण, शरीर, वर्ण ४, अगुरुलघु ४, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, निर्माण तथा पञ्च अन्तरायोंका जघन्य बन्धकाल दस हजार वर्ष, उत्कृष्ट तेतीस सागर प्रमाण है।

विशेषार्थ - देवोंको जघन्य तथा उत्कृष्ट आयुकी अपेक्षा यह वर्णन हुआ है।

स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी ४ का जघन्य बन्धकाल एक समय है। (इतना विशेष है कि) मिथ्यात्वका जघन्य बन्धकाल अन्तर्मुहूर्त है, किन्तु सबका उत्कृष्ट बन्धकाल ३१ सागर प्रमाण है।

विशेष - कोई मिथ्यात्वी द्रव्यलिङ्गी मरकर ३१ सागरकी आयुवाले ग्रैवेयक वासी देवोमें उत्पन्न हुआ। वहाँ उसने जीवन-भर मिथ्यात्वादिका बन्ध किया। इस अपेक्षा ३१

१. "असंजदसम्मादिट्ठी केवचिरं कालादो होदि ? एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमूहुत्तं, उक्कस्सेण तिण्णि पलिदोवमाणि सादिरेयाणि तिण्णि पलिदोवमाणि देसूणाणि ।" - षट्खं०, का०, ७९-८१ ।

"मणुस-मणुसपजत्तएसु सादिरेयाणि तिण्णि पलिदोवमाणि अणत्थ देसूणाणि ।" - ध० टी०, का०, पृ० ३७७ ।

पूर्वकोटि आयुके त्रिभागमें मनुष्यायुको बाँधनेवाले मनुष्यने अन्तर्मुहूर्तमें सम्यक्त्व प्राप्त किया तथा सम्यक्त्वसहित भोगभूमिमें तीन पत्य बिताये और मरकर देव हुआ। इस प्रकार साधिक तीन पत्य है। कुछ कम तीन पत्य प्रमाणकाल मनुष्यनियोंमें है। कोई मिथ्यात्वी मनुष्य भोगभूमिमें तीन पत्यको स्थिति-वाला मनुष्य हुआ। ९ माह गर्भमें बिताये, पश्चात् ४९ दिनमें सम्यक्त्व लाभ किया और सम्यक्त्वयुक्त शेष तीन पत्य पूर्ण कर मरा और देव हुआ। इस प्रकार ९ माह ४९ दिन कम तीन पत्य प्रमाणकाल हुआ। ध० टी०, का०, पृ० ३७८ ।

पंचसं० पंचसंध० तिरिक्खगदिपाओ० आदावुज्जो०-अप्पसत्थवि०[थावर-]थिरादिदो-
युग० दूभगदुस्सर०-अणादे०-जस०-अजस० णीचा० जह० एग० । उक्क० अंतो० ।
पुरिस० मणुस० पंचिदि० समच० ओरालिय० अंगो० वज्जरिस० मणुसाणु० पस-
त्थवि० तस० सुभग० सुस्सर० आदेज्ज उच्चागो० जह० एगस० । उक्क० तेत्तीसं
सा० । दो आयु ओघो (ओघं) । तित्थय० जह० वेसाग० सादि० । उक्क० तेत्तीसं
सा० । एवं सच्चदेवाणं अप्पणो द्विदिकालो णेदव्वो याव सव्वट्ठा त्ति । णवरि भवण-
वा०-वाण-वेत्त०-जोदिसि० तित्थय० णत्थि । सणक्कुमारादि पंचिदियसंयुतं कादव्वं ।
एवं एइंदिय थावरि(रं) णत्थि । आणदादि० तिरिक्खायु-तिरिक्खगदि०३ णत्थि ।
मणुसगदि धुवं कादव्वं ।

सागर प्रमाण बन्धकाल कहा है ।^१

साता-असाता वेदनीय, ६ नोकपाय, तिर्यचगति, एकेन्द्रिय जाति, पञ्च संस्थान, पञ्च
संहनन, तिर्यचगत्यानुपूर्वी, आताप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर, स्थिरादि दो युगल,
दुभग, दुस्वर, अनादेय, यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति, नीचगोत्रका जघन्य बन्धकाल एक समय,
उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त है । पुरुषवेद, मनुष्यगति, पंचेन्द्रिय जाति, समचतुरस्र संस्थान, औदारिक
अंगोपांग, वज्रवृषभ संहनन, मनुष्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, त्रस, सुभग, सुस्वर, आदेय,
उच्चगोत्रका जघन्य बन्धकाल एक समय है, उत्कृष्ट ३३ सागर है ।

विशेषार्थ - यह उत्कृष्ट बन्धकालका कथन सर्वार्थसिद्धिके देवोंकी अपेक्षा है ।

दो आयुका बन्धकाल ओघवत् जानना चाहिए । तीर्थंकर प्रकृतिका जघन्य बन्धकाल
साधिक दो सागर है, उत्कृष्ट ३३ सागर है ।

विशेषार्थ - देवगतिकी अपेक्षा तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध कल्पवासी^२ देवोंमें होता है ।
सौधर्मद्विकमें आयु साधिक द्विसांगरोपम है और सर्वार्थसिद्धिके ३३ सांगरोपम है । इस
अपेक्षा यहाँ वर्णन किया गया है ।

इस प्रकार सब देवोंमें अपनी-अपनी स्थिति-प्रमाण बन्धका काल सर्वार्थसिद्धि पर्यन्त
जानना चाहिए । इतना विशेष है कि भवनवासी, व्यन्तर तथा ज्योतिषी देवोंमें तीर्थंकर
प्रकृति नहीं है । सनत्कुमारादि देवोंमें पंचेन्द्रियका संयोग करना चाहिए । वहाँ एकेन्द्रिय
तथा स्थावर नहीं हैं ।

विशेष - सौधर्मद्विकके आगे केवल पंचेन्द्रिय जातिका बन्ध होता है, एकेन्द्रिय, स्थावर
प्रकृतिका बन्ध नहीं होता है ।

आनतादि स्वर्गोंमें - तिर्यचगतित्रिक अर्थात् तिर्यचायु, तिर्यचगति, तिर्यच्चानुपूर्वी
तथा उद्योतका बन्ध नहीं है । यहाँ मनुष्यगतिका ध्रुव रूपसे भंग करना चाहिए, । (कारण,
यहाँ मनुष्यगतिका ही बन्ध होता है) ।

विशेष - शतारचतुष्टय नामसे ख्यात तिर्यचायु, तिर्यचगति, तिर्यचानुपूर्वी तथा
उद्योतका बन्ध शतार-सहस्रारसे ऊपर नहीं होता है ।

१. 'देवगदीए देवेसु मिच्छादिद्वी केवचिरं कालादो होदि ? एगजीवं पडुच्च जहण्णे अंतोमुहुत्तं,
उक्कस्सेण एक्कत्तीस सायरोपमाणि ।' - षट्ख०, का०, ८७-८६ ।

२. 'कप्पित्थीसु ण तित्थं' - गो० क०, गा० ११२ । षट् टी०, भा० १, प्र० ६१, १३१ ।

१६. एइंदिएसु-पंचणा० णवदंसणा० मिच्छ० सोलस० भयदुगुं० ओरालिय० तेजाक० वण्ण०४ अगु० उप० णिमिणं पंचंतरा० जह० खुद्धा० । उक्क० अणंतकालम० । बादरे० अंगुल० असं० । सुहुमे असंखेज्जा लोगा । बादर-एइंदिय-पज्जत्ता० जह० अंतो० । उक्क० संखेज्जवस्ससहस्सा० । सुहुम-एइंदि० पज्जत्त जहण्णु० अंतो० । तिरिक्खगदितियं जह० एय० । उक्क० असंखेज्जा लोगा । एवं सुहुम बादरे अंगुलस्स असंखे० । पज्जत्ते संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । सुहुम-पज्ज० जह० एग० उक्क० अंतो० । सेसाणं सादादीणं जह० एय० । उक्क० अंतो० । दो आयु० ओघं । एवं सच्च-एइंदियाणं णेद्व्वं । विगल्लिंदिया०-पंचणा० णवदंसणा० मिच्छत्त० सोलसक० भयदुगुं० ओरालियतेजाक०-वण्ण०४ अगु० उप० णिमिणं पंचंतरा० जह० खुद्धाभ० पज्जत्ते० अंतो०, उक्क० संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । दो आयु ओघं । सेसाणं सा [दा] दीणं जह० एयस० । उक्क० अंतो० ।

१६. एकेन्द्रियोंमें - ५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, औदारिक-तैजस-कार्मण शरीर, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण, पाँच अन्तरायका बन्धकाल क्षुद्रभव प्रमाण जघन्यसे है तथा उत्कृष्ट अनन्तकाल असंख्यात पुद्गल परावर्तन जानना चाहिए। बादर एकेन्द्रियमें उत्कृष्ट बन्धकाल अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है तथा सूक्ष्ममें असंख्यात लोक प्रमाण है।

विशेष - यहाँ 'अंगुलका असंख्यातवें भाग' यह क्षेत्रकी मर्यादाका द्योतक शब्द, कालके लिए प्रयुक्त हुआ है। इसका तात्पर्य यह है कि आकाशके उक्त प्रमाण क्षेत्रमें जितने प्रदेश आवें, उतनी संख्या-प्रमाण समय-समूहात्मक रूपकालको ग्रहण करना चाहिए।

बादर-एकेन्द्रिय-पर्याप्तकमें जघन्य बन्धकाल अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट बन्धकाल संख्यात हजार वर्ष प्रमाण है। सूक्ष्म-एकेन्द्रिय-पर्याप्तकमें जघन्य बन्धकाल तथा उत्कृष्ट बन्धकाल अन्तर्मुहूर्त प्रमाण है। तिर्यचगतित्रिकका बन्धकाल जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे असंख्यात लोक प्रमाण है। इस प्रकार सूक्ष्मोंमें जानना चाहिए। बादर एकेन्द्रियोंमें अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाणकाल है। किन्तु इनके पर्याप्तकोंमें संख्यात हजार वर्ष प्रमाण बन्धकाल है। सूक्ष्म-पर्याप्तकोंमें जघन्य बन्धकाल एक समय, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त है। शेष साता आदि प्रकृतियोंका जघन्य बन्धकाल एक समय, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त है। मनुष्य तथा तिर्यचायुका बन्धकाल ओघवत् जानना चाहिए। इस प्रकार सम्पूर्ण एकेन्द्रियोंमें जानना चाहिए। त्रिकलेन्द्रियोंमें-५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, औदारिक-तैजस-कार्मण-शरीर, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण तथा ५ अन्तरायोंका जघन्य बन्धकाल क्षुद्रभव प्रमाण है। किन्तु पर्याप्तकोंमें अन्तर्मुहूर्त प्रमाण जघन्य बन्धकाल है। उत्कृष्ट बन्धकाल संख्यात

१. "इंदियाणुवादेण एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुद्दाभवगहणं, उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्जपोगल-परियट्टं ।" - षट्खं०, का०, १०७-१०६ । २. "बादरेंदियपज्जत्ता केवचिरं कालादो हांति ? एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहत्तं, उक्कस्सेण संखेज्जाणि वाससहस्साणि ।" - षट्खं०, का०, ११३-११५ । ३. "सुहुमें-दियपज्जत्ता... एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहत्तं, उक्कस्सेण अंतोमुहत्तं," - षट्खं०, का०, १२२-१०४ ।

२०. पंचिदि० तस०२-पंचणा०-णवदंस०-मिच्छत्त०-सोलसक०-भयदुगुं०
तेजाक०-वण्ण०४-अगु०-उप० णिमिणं पंचंतरा० जह० खुद्धा० पज्जत्ते० अंतो० ।
उक्क० सागरोपमसह० पुव्वकोडिपुध० । पज्जत्ते सागरोपम-सद-पुध० । तसेसु-
वेसाग० सहस्साणि पुव्वकोडिपुध०, पज्जत्ते वेसागरोपमसहस्साणि । सादावे०
चदुआयु ओधं । असादा० छण्णोक० णिरयग०-चदुजा०-आहारदुगं पंचसंठाणं-
पंचसंध०-णिरयाणु०-आदावुज्जो०-अप्पस० धावर०४ थिरादिदोयुग० दुभग०
दुस्सर० अणादेज्ज० जस० अज्ज० जह० एग० । उक्क० अंतो० । पुरिस० ओधं ।
तिरिक्खगदितिगं ओरालि० ओरालिय० अंगोवं० जह० एय० । उक्क० तेत्तीसं
सा० सादि० । मणुसग० वज्जरि० मणुसाणु० जह० एग० । उक्क० तेत्तीसं
सा० । देवग०४ जह० एय० । उक्क० तिण्णि पलिदो० सादिरे० । पंचिदि०

हजार वर्ष प्रमाण है । मनुष्य तथा तिर्यंच आयुका बन्धकाल ओघवत् जानना चाहिए । शेष सातावेदनीय आदि प्रकृतियोंका बन्धकाल जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे अन्तमुहूर्त प्रमाण है ।

२०. पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय-पर्याप्तक, त्रस, त्रस-पर्याप्तकोंमें-५ ज्ञानावरण, ६ दशनावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजस, कर्मण शरीर, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपधात, निर्माण तथा ५ अन्तरायोंका जघन्य बन्धकाल क्षुद्रभव प्रमाण है । विशेष यह है कि पर्याप्तकोंमें जघन्य बन्धकाल अन्तमुहूर्त प्रमाण है । इनका उत्कृष्टकाल पूर्वकोटिपृथक्त्वसे अधिक सहस्र सागरोपम है । विशेष यह है कि पर्याप्तकोंमें सागरोपम शतपृथक्त्व प्रमाण है । त्रसोंमें दो हजार पूर्वकोटिपृथक्त्वाधिक है । इनके पर्याप्तकोंमें दो हजार सागरोपम प्रमाण बन्धकाल है । सातावेदनीय तथा आयु ४ का बन्धकाल ओघवत् जानना चाहिए । असातावेदनीय, ६ नोकषाय, नरकगति, ४ जाति, आहारकद्विक, पंच संस्थान, पंच संहनन, नरकानुपूर्वी, आताप, उद्योत, अग्रशस्त विहायोगति, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्तक, साधारण, स्थिरादि दो युगल, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय, यशःकीर्ति, अयशःकीर्तिका बन्धकाल जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे अन्तमुहूर्त है । पुरुषवेदका बन्धकाल ओघकी तरह जानना चाहिए । तिर्यंचगतित्रिक, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांगका जघन्य बन्धकाल एक समय उत्कृष्ट साधिक तेनीस सागर है । मनुष्यगति, वज्रवृषभ संहनन, मनुष्यानुपूर्वीका जघन्य बन्धकाल एक समय, उत्कृष्ट तेतीस सागर है । देवगति चतुष्कका जघन्य बन्धकाल एक समय, उत्कृष्ट साधिक तीन पत्योपम है ।

१. "बीइन्द्रिया-तीइन्द्रिया-चउरिन्द्रिया बीइन्द्रिय-तीइन्द्रिय-चउरिन्द्रियपज्जत्ता केवचिरं कालादो होति ? एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुद्दाभवगहणं, अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण संखेज्जाणि वाससहस्साणि ।" -पट्खं०, का०, १२८-१३० ।

२. "पंचिन्द्रिय-पंचिन्द्रियपज्जत्तएमु मिच्छादिट्ठी केवचिरं कालादो होति ? एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण सागरोवमसहस्साणि, सागरोवमसदपुधत्तं ।" -पट्खं०, का०, १३४-१३६ ।

३. "तसकाइय-तसकाइयपज्जत्तएमु मिच्छादिट्ठी केवचिरं कालादो होति ? एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं उक्कस्सेण वेसागरोवमसहस्साणि पुव्वकोडिपुधत्तेणव्भहियाणि वेसागरोवमसहस्साणि ।" -पट्खं०, का०, १५२-१५७ ।

परघादुस्सास तस०४ जह० एग० । उक्क० पंचासीदि-सागरोवमसद० । समचदु० पसत्थवि० सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-उच्चागो० जह० एग० । उक्क० केळावड्ढि-साग० सादि० तिण्णि-पलिदो० देख्ठु० । तित्थय० जह० अंतो० उक्क० तेत्तीसं सादि० सादिरेयाणि । पंचकायाणं-पंचणा०णवदंस०मिच्छत्त०सोलसक०भयदुगुं०ओरा-लिय-तेजाकम्म० वण्ण०४ अगु० उप० णिमि० पंचंतरा० जह० खुदा० । उक्क० असंखेज्जा लोगा अणंतकालं असंखेज्जा पो०, अड्ढादिज्ज पोग्गल० । बादरेसु कम्मद्विदि अंगुलस्स असंखे० कम्मद्विदि० । बादरे पज्जत्ते जह० अंतो०, उक्क० संखे-ज्जाणि वस्ससह० । सुहुमे [पज्जत्ते] सुहुमएडंदियभंगो । सेसाणं सादादीणं जह०

पंचेन्द्रिय, परघात, उच्छ्वास, त्रस, चादर, पर्याप्तक, प्रत्येकका जघन्य बन्धकाल एक समय है । उत्कृष्टसे १८५ सागरोपम प्रमाण बन्धकाल है । समचतुरस्र संस्थान, प्रशस्त विहायो-गति, सुभग, सुस्वर, आदेय, उच्चगोत्रका जघन्य बन्धकाल एक समय, उत्कृष्ट, बन्ध-काल कुछ कम तीन पल्योपम अधिक दो लघ्यासठ सागरोपम जानना चाहिए । तीर्थकरका जघन्य बन्धकाल अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट साधिक ३३ सागर हैं । पंच कायोंमें—५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १६ कर्माय, भय, जुगुप्सा, औदारिक, तैजस, कार्मण शरीर, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण तथा पाँच अन्तरायोंका जघन्य बन्धकाल^३ क्षुद्रभव है, उत्कृष्ट असंख्यात लोक, अनन्तकाल, असंख्यात पुद्गलपरावर्तन, अर्दाई पुद्गल परावर्तन है ।^३ बादरकायमें कर्मस्थिति अंगुलके असंख्यातवें भाग कर्मस्थिति है । बादर पर्याप्तकोंमें जघन्य बन्धकाल अन्तर्मुहूर्त तथा उत्कृष्ट संख्यात हजार वर्ष प्रमाण है ।

विशेषार्थ—यहाँ 'कर्मस्थिति' शब्दसे केवल दर्शनमोहनीयकी सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरो-पम उत्कृष्ट स्थितिका ग्रहण हुआ है । दर्शनमोहनीय कर्मकी स्थितिकी प्रधानता देनेका कारण यह है कि उसमें सर्व कर्मोंकी स्थिति संगृहीत है । (ध० टी०, का०, पृ० ४०५)

सूक्ष्म (पर्याप्तकोंमें) सूक्ष्म एकैन्द्रियके समान भंग है । शेष साता आदि प्रकृतियोंका

१. "असंजदसम्मादिट्ठी केवचिरं कालादो होंति ? एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि सादिरेयाणि ।" —पट् खं०, का०, १३-१५ ।

२. "पुढविकाइया आउकाइया तेउकाइया वाउकाइया केवचिरं कालादो होंति ? एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुदाभवग्गहणं उक्कस्सेण असंखेज्जा लोगा ।" —पट् खं०, का० १३६-१४१ । ३. "बादरपुढवि-काइया बादरआउकाइया बादरतेउकाइया बादरवाउकाइया बादरवणपफदिकाइयपत्तेयसरीरा केवचिरं कालादो होंति ? एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुदाभवग्गहणं, उक्कस्सेण कम्मट्ठिदी ।" —पट् खं०, काल० १४२-४४ । "बादरपुढविकाइया बादरआउकाइया बादरतेउकाइया बादरवाउकाइया बादरवणपफदिकाइया-पत्तेयसरीर-पज्जत्ता केवचिरं कालादो होंति ? एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण संखेज्जाणि वाससह-स्साणि ।" —पट् खं०, काल०, १४५-४७ ।

शुद्ध पृथ्वीकायिक पर्याप्तकोंकी आयु-स्थिति १२ हजार वर्ष है, खरपृथ्वीकायिक पर्याप्तकोंकी २२ हजार है । जलकायिक पर्याप्तकोंकी ७ हजार वर्ष है, तेजकायिक पर्याप्तकोंकी तीन दिवस, वायुकायिक पर्याप्तकोंकी ३ हजार वर्ष, वनस्पतिकायिक पर्याप्तक जीवोंकी स्थितिका प्रमाण दस हजार वर्ष है । इन आयुकी स्थितियोंमें संख्यात हजार बार उत्पन्न होनेपर संख्यात सहस्रवर्ष हो जाते हैं ।—ध०टी०, का०, पृ० ४०४

एग० । उक्क० अंतो० । दो आयु ओघं । णवरि तेज० वाउका० मणुसगदि०४
वज्जरि० [वज्ज] तिरिक्खगदितिगं धुवभंगो ।

२१. पंचमण० पंचवचि०—सव्वदगदीणं बंधे (बंध) कालो जह० एग० ।
उक्क० अंतो० । एवं वेउव्विका० आहारका० । का [य] जोमि०—पंचणा० णवदंसण०—
मिच्छत्त० सोलसक० भयदु० ओरालिय-तेजाकं० वण्ण०४ अगुरु० उप० णिमि०
पंचंतरा० जह० एग० । उक्क० अणंतकालं असंखे० पोग्गलपरियद्वं । तिरिक्खगदितिगं
ओघं । सेसाणं सादादीणं जह० एग० । उक्क० अंतो० । ओरालियकायजोगीसु—
पंचणा० णवदंसण० मिच्छत्त० सोलसक० भयदुगुं० ओरालिय - तेजाक० वण्ण०४ अगु०
उप० णिमि० पंचतरा० जह० एग० । उक्क० बावीस-वस्स-सहस्साणि देसु० ।
तिरिक्खगदि-तिगं जह० एग० उक्क० तिणिण-वस्स-सहस्साणि देसु० । सेसाणं सादा-
दीणं जह० एग० । उक्क० अंतो० । ओरालियमिस्स०—पंचणा० णवदंसण० मिच्छत्तं०
सोलसक० भयदुगुं० ओरालिय—तेजाक० वण्ण० ४ अगु० उप० णिमिणं पंचंतरा जह०

जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त है। मनुष्यायु तथा तिर्यञ्चायुका ओघवत् जानना चाहिए। इतना विशेष है कि तेजकाय और वायुकायमें, मनुष्यगति, मनुष्यायु, मनुष्यानुपूर्वी तथा उच्चगोत्र रूप चतुष्क तथा वज्रपभनाराच संहननको (छोड़कर) तिर्यञ्चगतित्रिकका ध्रुवभंग है।

२१. पाँच मनोयोग, पाँच वचनयोगमें—सर्व प्रकृतियोंका बन्धकाल जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे अन्तर्मुहूर्त है। ऐसा ही वैक्रियिक काययोग तथा आहारक काययोगमें है। काययोगमें—५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, औदारिक-तैजस-कर्मणः शरीर, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण, ५ अन्तरायका जघन्य बन्धकाल एक समय, उत्कृष्ट अनन्तकाल असंख्यात पुद्गलपरावर्तन है। तिर्यञ्चगतित्रिकका ओघवत् है। शेष सातादि प्रकृतियोंका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त है। औदारिक काययोगियोंमें—५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, औदारिक-तैजस-कर्मणः शरीर, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण तथा ५ अन्तरायोंका जघन्य बन्धकाल एक समय, उत्कृष्ट कुछ कम २२ हजार वर्ष है।

विशेषार्थ—एक तिर्यञ्च, मनुष्य या देव २२ हजार वर्षकी आयुवाले एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुआ और जघन्य अन्तर्मुहूर्तके पश्चात् उसने पर्याप्तियोंको पूर्ण किया। इससे अपर्याप्त दशमें औदारिकमिश्रके कालको घटाकर औदारिक काययोगका काल कुछ कम २२ हजार वर्ष रहा। अथवा देवका यहाँ एकेन्द्रियोंमें उत्पाद नहीं कहना चाहिए, कारण, उसके जघन्य अपर्याप्त काल नहीं होगा। (ध० टी०, का०, पृ० ४११)

तिर्यञ्चगति-त्रिकका बन्धकाल जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे तीन हजार वर्षसे कुछ कम है। शेष साता आदि प्रकृतियोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे अन्तर्मुहूर्त बन्धकाल है।

औदारिकमिश्रकाययोगमें—५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, औदारिक-तैजस-कर्मणः शरीर, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण, ५ अन्तराय-का जघन्य बन्धकाल तीन समय कम क्षुद्रभव प्रमाण है, उत्कृष्ट बन्धकाल अन्तर्मुहूर्त है।

खुद्धा० तिसमऊ० उक्क० अंतो० । दो आयु ओघं । देवगदि०४ तित्थय० जहणु० अंतो० । सेसाणं सादासादादीणं जह० एय० उक्क० अंतो० । वेउव्वियमिस्स०-पंचणा०णवदंस०मिच्छत्त०सोलसक०भयदुगुं०ओरालियतेजाक० वण्ण०४ अगु०४ बादर-पज्जत्त-पत्तेय०-णिमि०-तित्थय०पंचंत० जहणु० अंतो० । सेसाणं सादादीणं जह० एग० उक्क० अंतो० । आहारमिस्स०-पंचणा०द्धदंसण०-चदुसंजल०-पुरिस०-भयदु० देवगदि० पंचि० वेउव्विय-तेजाक० समचदु० वेउव्विय-अंगो० वण्ण०४ देवाणु० अगु०४ पसत्थ०-तस०४-सुभग-सुस्स०-आदेज्ज-णिमिणं तित्थयं० (य०) उच्चागो० पंचंत० जहणु० अंतो० । णवरि तित्थय० जह० एग० उक्क० अंतो० ।

विशेषार्थ-एकेन्द्रिय जीव अधोलोकके अन्तमें तीन मोड़े करके क्षुद्रभव-प्रमाण आयुवाला सूक्ष्म वायुकायिक जीव हुआ। वहाँ ३ समय कम क्षुद्रभवग्रहण काल तक लब्ध्य-पर्याप्तक हो जीवित रहकर मरा। पुनः विग्रह करके कर्मणःकाययोगी हुआ। इस प्रकार तीन समय कम क्षुद्रभवग्रहण प्रमाण काल सिद्ध हुआ। उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त प्रमाण इस प्रकार जानना चाहिए कि कोई जीव लब्ध्यपर्याप्तकोंमें उत्पन्न होकर संख्यात भवग्रहण प्रमाण उनमें परावर्तन करके पुनः पर्याप्तकोंमें उत्पन्न होकर औदारिककाययोगी बन गया। इन सब संख्यातभवोंका काल मिलकर भी अन्तर्मुहूर्तके अन्तर्गत ही रहता है। (ध० टी०, का० पृ० ४१६)

दो आयुमें ओघवत् जानना चाहिए। देवगति ४ और तीर्थकरका जघन्य तथा उत्कृष्ट बन्धकाल अन्तर्मुहूर्त है। शेष साता आदि प्रकृतियोंका जघन्य बन्धकाल एक समय तथा उत्कृष्ट बन्धकाल उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त प्रमाण है। वैक्रियिकमिश्र काययोगमें—५ ज्ञाना-वरण, ९ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, औदारिक-तैजस-कर्मण शरीर, वर्ण ४, अगुरुलघु ४, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, निर्माण, तीर्थकर तथा पाँच अन्तरायका जघन्य तथा उत्कृष्ट बन्धकाल अन्तर्मुहूर्त है।

विशेषार्थ-एक द्रव्यलिंगी साधु उपरिमत्रैवेयकमें दो विग्रह करके उत्पन्न हो सर्वलघु अन्तर्मुहूर्तमें पर्याप्तक हुआ अथवा एक भावलिंगी मुनि दो विग्रह करके सर्वार्थसिद्धिमें उत्पन्न हुआ और सर्वलघु अन्तर्मुहूर्तमें पर्याप्त हुआ। इस प्रकार वैक्रियिकमिश्र काययोगमें जघन्य बन्धकाल अन्तर्मुहूर्त है। उत्कृष्ट बन्धकाल भी अन्तर्मुहूर्त प्रमाण इस प्रकार है कि कोई मिथ्यात्वी जीव सातवें नरकमें उत्पन्न हुआ और सबसे बड़े अन्तर्मुहूर्त प्रमाण कालके अनन्तर पर्याप्त हुआ। इसी प्रकार एक नरक-बद्धायुष्क जीव सम्यक्त्वी हो दर्शनमोहका क्षुण्ण करके मरण कर सबसे बड़े अन्तर्मुहूर्त कालमें पर्याप्तियोंकी पूर्णताको करता है। यहाँ दोनोंमें जघन्य कालसे दोनोंका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है। (ध० टी०, का०, पृ० ४२८-४२६)

शेष साता आदि प्रकृतियोंका जघन्य बन्धकाल एक समय, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त है।

आहारकमिश्र काययोगमें—५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, ४ संज्वलन, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, देवगति, पंचेन्द्रियजाति, वैक्रियिक, तैजस-कर्मण शरीर, समचतुरस्र-संस्थान, वैक्रियिक अंगोपांग, वर्ण ४, देवानुपूर्वी, अगुरुलघु ४, प्रशस्त विहायोगति, त्रस ४, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थकर, उच्चोत्र तथा ५ अन्तरायोंका जघन्य तथा उत्कृष्ट

सेसाणं सादादीणं जह० एग० उक्क० अंतो० । कम्मइगका०-देवगदि०४ तिथिय०
जह० एग०, उक्क० बेसम० । सेसाणं सव्वपगदीणं जह० एग० उक्क० तिणिसम० ।

२२. इत्थिवेद०-पंचणा०णवदंस०मिच्छत्तं सोलसक० भयदुगुं
तेनाक० (तेजाक०) वण्ण०४ अगु० उप० णिमि० पंचतरा० जह० एग०, उक्क०
पलिदोपमसदपुधत्तं । णवरि मिच्छ० जह० अंतो० । सादासादा० छण्णक०
(छण्णोक०) दोगदि-चदुजादि-आहारदुगं पंचसंठाण-पंचसंघ दो-आणु० आदा-बुज्जो-
अप्पसत्थ० थावर०४ थिरादिदोयुग० दूभग-दुस्सर-अणादेज्ज० जस० अज्जस०
णीचागो० जह० एग०, उक्क० अंतो० । पुरिस० मणुसगदि० पंचिदि० समचदु०
ओरालिय० अंगो० वज्जरिस० मणुसाणु-पसत्थ० तस-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज० उच्चा०

बन्धकाल अन्तर्मुहूर्त है। विशेष यह है कि तीर्थकर प्रकृतिका जघन्य बन्धकाल एक समय, उत्कृष्ट बन्धकाल अन्तर्मुहूर्त है। शेष सातादि प्रकृतियोंका जघन्य बन्धकाल एक समय, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त है। कर्मणकाययोगमें- देवगति ४, तीर्थकरका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट दो समय प्रमाण बन्धकाल है। शेष सर्व प्रकृतियोंका जघन्य एक समय उत्कृष्ट तीन समय है।

विशेषार्थ - सासादन या असंयतसम्यक्त्वी कर्मणकाययोगियोंका सूक्ष्म एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होनेका अभाव है। वृद्धि और हानिके क्रमसे विद्यमान लोकान्तमें भी इनकी उत्पत्ति नहीं होती। इससे उत्कृष्ट दो समय कहा है।

तीन समय प्रमाण बन्धकाल इस प्रकार है-एक सूक्ष्म एकेन्द्रियजीव अधस्तन सूक्ष्म वायुकायिकोंमें तीन विग्रहवाले मारणान्तिक समुद्घातको प्राप्त हुआ। पुनः अन्तर्मुहूर्तसे छिन्नायुष्क होकर उत्पन्न होनेके प्रथम समयसे लगाकर तीन विग्रहोंमें तीन समय तक कर्मण-काययोगी रहकर तथा चौथे समयमें औदारिकमिश्र काययोगी हो गया। तीन विग्रह करनेकी दशा इस प्रकार है। ब्रह्मलोकवर्ती प्रदेशपर वाम दिशासम्बन्धी लोकके पर्यन्त भागसे तिरछे दक्षिणकी ओर तीन राजू प्रमाण जा, पुनः १०३ राजू नीचेकी ओर इपुगतिसे जाकर, पश्चान् सामनेकी ओर चार राजू प्रमाण जाकर कोणयुक्त दिशामें स्थित लोकके अन्तवर्ती सूक्ष्मवायुकायिकोंमें उत्पन्न होनेवालेके ३ विग्रह होते हैं। (ध० टी०, का० ४३४-४३५)

२२. स्त्रीवेदमें-५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १६ कपाय, भय, जुगुप्सा, तैजस, कर्मण शरीर, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण, ५ अन्तरायका जघन्य बन्धकाल एक समय, उत्कृष्ट पत्थोपम शतपृथक्त्व है। विशेष यह है कि मिथ्यात्वका बन्धकाल जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त है। साता असाता वेदनीय, ६ नोकपाय, दो गति, ४ जाति, आहारकद्विक, पंच संस्थान, ५ संहनन, दो आनुपूर्वी, आताप, उद्योत, अप्रशस्तविहायोगति, स्थावर४, स्थिरादि दोयुगल, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय, यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति, नीचगोत्रका जघन्य बन्धकाल एक समय, उत्कृष्टसे अन्तर्मुहूर्त है। पुरुषवेद, मनुष्यगति, पंचेन्द्रिय जाति, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिक अंगोपांग, वज्रवृषभसंहनन, मनुष्यानुपूर्वी, प्रशस्तविहायोगति, त्रस, सुभग,

१. "आहारमिस्सकायजोगीसु पमत्तसंजदा केवचिरं कालादो हंति? एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्ता उक्कस्सेण अंतोमुहुत्ता।"-षट् स्व०, काल०, २१३-१६।

जह० एग० । उक० पणवण्णं पलिदोवमं देसू० । चदुआयु ओघं । देवगदि०४ जह० एग० । उक० तिण्णिपलिदोप० देसू० । ओरालिय० परघादुस्सास० बादर-पज्जत्त-पत्तेय० जह० एग० । उक० पणवण्णं पलिदो० सादिरे० । तिथय० जह० एग० । उक० पुव्वकोडिदेसू० । पुरिसवे०-पंचणा० णवदंस० मिच्छत्त० सोलसक० भयदुगुं० तेजाकम्म० वण्ण०४ अगु० उप० णिमि० पंचंतरा० जह० अंतो० । उक० सागरोप-मसदपुध० । पुरिसवेद ओघं । मणुसगदिपंचगं जह० एग० । उक० तेत्तीसं सा० । देवगदि०४ जह० एग० । उक० तिण्णि पलिदोप० सादिरे० । पंचिदिय-परघादुस्सा० तस०४ जह० एग० । उक० तेवड्डिसागरोवमसदं(द०) । समचदु०पसत्थवि०-सुभग-सुस्सर० आदेज्ज० उच्चा० जह० एग० । उक० वेआवड्डिसाग० सादि० तिण्णि

सुस्वर, आदेय, उच्चगोत्रका जघन्य बन्धकाल एक समय, उत्कृष्ट देशोन ५५ पल्योपम प्रमाण है ।

विशेषार्थ - एक जीव ५५ पल्य स्थितिवाली देवी रूपसे उत्पन्न हुआ । उसने छह पर्याप्ति पूर्ण की, अन्तर्मुहूर्त विश्राम किया, पश्चात् अन्तर्मुहूर्तमें विशुद्ध होकर वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त किया । पश्चात् जीवन पूर्ण करके मरण किया । अतः उसके तीन अन्तर्मुहूर्त कम ५५ पल्योपम प्रमाणकाल सम्यक्त्वयुक्त स्त्री-वेदका है, 'उसमें पुरुषवेदादिका बन्ध करनेके कारण उनका बन्धकाल देशोन ५५ पल्योपम कहा है ।

चार आयुका ओघवत् जानना चाहिए । देवगति चतुष्कका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट कुछ कम तीन पल्योपम बन्धकाल है । औदारिक शरीर, परघात, उच्छ्वास, बादर, पर्याप्तक, प्रत्येकका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट साधिक ५५ पल्योपम बन्धकाल है । तीर्थकर प्रकृतिका जघन्य बन्धकाल एक समय, उत्कृष्ट कुछ कम पूर्वकोटि प्रमाण है । पुरुषवेदमें-५ ज्ञानावरण, ३ दर्शनावरण, मि०यात्व, १६ कथाय, भय, जुगुप्सा, तैजस, कामर्ण शरीर, वर्ण४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण, ५ अन्तरायका बन्धकाल जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्टसे सागरोपम शत-पृथक्त्व है । पुरुषवेदका बन्धकाल ओघवत् है ।

विशेष - इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि स्त्री और नपुंसकवेदी जीवोंमें बहुत बार भ्रमण करता हुआ कोई एक जीव पुरुषवेदी हुआ, सागरोपम शत पृथक्त्वकाल पर्यन्त भ्रमण करके अविबक्षित वेदको प्राप्त हो गया । (ध० टी०, का० पृ० ४४१)

मनुष्यगतिपंचक अर्थात् मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, वन्नवृषभनाराच संहनन, औदारिक शरीर, औदारिक आंगोपांगका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट ३३ सागर प्रमाण है । देवगति ४ का जघन्य एक समय, उत्कृष्ट साधिक तीन पल्योपम है । पंचेन्द्रिय, परघात, उच्छ्वास, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकका जघन्य बन्धकाल एक समय, उत्कृष्ट १६३ सागरोपम है । समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय, उच्चगोत्रका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट बन्धकाल कुछ कम तीन पल्याधिक छ्वासठ सागरोपम जानना चाहिए ।

१. "इत्थिवेदेसु असंजदसम्माविट्ठी केवचिरं कालादो होति ? एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं उक्कस्सेण पणवण्णपलिदोवमाणि देसूणाणि । सासणसम्माविट्ठी ओघं । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ ।" षट् खं०, का०, ५, ७, २३०, २३४ ।

पलिदो० देसू० । सादादि ज० [एग० उक० अंतो०] । आयुगचदुक्ख(क्कं) इत्थिभंगो । तित्थयरं ओघं । णपुंसक०—पंचणा० णवदंसण० मिच्छत्त० सोलसक० भयदुगुं० ओरालिय० तेजाक० वण्ण०४ अगु० उप० णिमि० पंचंतरा० जह० एग०, मिच्छरां खुद्रा० । उक० अणंतकालं-असंखे० । पुरिस० मणुस० समचदु० वज्जरिसभसंघ० मणुसाणु० पसत्थ० सुभग-सुस्सर-आदेज्ज० जह० एग० । उक० तेत्तीसं सा० देसू० । तिरिक्खगदितिगं ओघं । देवगदि०४ जह० एग० उक० पुव्वकोडिदेसू० । पंचिदिय० ओरालिय अंगो० परघादुस्सा०-तस०४ जह० एग० । उक० तेत्तीसं सा० सादिरे० । सादादीणं जह० एग० । उक० अंतो० । तित्थय० जह० एग० । उक० तिण्णि सागरो० सादिरे० । अवगद०—पंचणा० चदुदंस० चदुसंज० पु० जस० उच्चागो० पंचंत० जह० एग० । उक० अंतो० । सादावे० ओघं । सुहुमसंप०—पंचणा०

सातादिकका जघन्यसे [एक समय, उत्कृष्टसे अन्तर्मुहूर्त प्रमाण है] आयुचतुष्कका स्त्रीवेदके समान भंग है । तीर्थकरका ओघवत् है । नपुंसक वेदमें—५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १६ कपाय, भय, जुगुप्सा, औदारिकतैजस-कर्मण शरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपधात, निर्माण तथा पाँच अन्तरायोंका बन्धकाल जघन्यसे एक समय है, किन्तु मिथ्यात्वका क्षुद्रभव प्रमाण है । इनका उत्कृष्ट बन्धकाल असंख्यात पुद्गल परावर्तन है । पुरुषवेद, मनुष्यगति, समचतुरस्रसंस्थान, वज्रवृषभसंज्ञन, मनुष्यानुपूर्वा, प्रशस्तविहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेयका जघन्य बन्धकाल एक समय, उत्कृष्ट बन्धकाल कुछ कम तैतीस सागर प्रमाण है ।

विशेषार्थ—मोहनीयको २८ प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई जीव मरण कर सप्तम पृथ्वीमें उत्पन्न हुआ । छह पर्याप्तियोंको पूर्ण कर तथा विश्राम ले, विशुद्ध होकर, सम्यक्त्वको प्राप्त किया, एवं आयुके अन्तर्मुहूर्त शेष रहनेपर मिथ्यात्वको प्राप्त कर आगामी भवकी आयुका बन्ध किया । अन्तर्मुहूर्त विश्राम करके मरण किया । उसके छह अन्तर्मुहूर्त कम ३३ सागरप्रमाण बन्धकाल होगा । (ध० टी०, काल०, ४४३) तिर्यचगतित्रिकका ओघके समान भंग है । देवगति ४ का जघन्य बन्धकाल एक समय, उत्कृष्ट बन्धकाल कुछ कम पूर्व कोटि है । पंचेन्द्रिय, औदारिक आंगोपांग, परघात, उच्छ्वास, त्रस ४ का जघन्य बन्धकाल एक समय, उत्कृष्ट साधिक तैतीस सागर है । साता आदिक प्रकृतियोंका जघन्य बन्धकाल एक समय, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त है । तीर्थकर प्रकृतिका जघन्य बन्धकाल एक समय, उत्कृष्ट साधिक तीन सागर है । अपगत वेदमें—५ ज्ञानावरण, पंच निद्राओंका अभाव होनेसे शेष चार दर्शनावरण, ४ संज्वलन, पुरुषवेद, यज्ञकीर्ति, उच्चगोत्र, ५ अन्तरायका जघन्य बन्धकाल एक समय, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त है । साता वेदनीयका ओघवत् है । सूक्ष्मसाम्पराय संयममें—५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, सातावेदनीय, यज्ञकीर्ति, उच्चगोत्र, ५ अन्तरायका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त बन्धकाल है ।

विशेषार्थ—उपशम श्रेणीकी अपेक्षा यह बन्धका काल कहा गया है । क्षपककी अपेक्षा

१. णवुंसयवेदेषु मिच्छादिद्वी केवचिरं कालादो होति ? एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहूर्तं, उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्जपोगलपरिपट्टं ।"—पट् खं०, का०, २४०-४२ ।

चदुदंस० सादा० जस० उच्चा० पंचंत० जह० एग० । उक्क० अंतो० । कोधादि०४-
पंचणा० चदुदंस० चदुसंज० पंचंत० जहणु० अंतो० । सेसाणं जह० एग० । उक्क०
अंतो० । णवरि माणे तिण्णि संज० । मायाए दोण्णि संज० । लोभे०-पंचणा० चदु-
दंस० लोभसंज० पंचंतरा० जहणु०-अंतो० । सेसाणं जह० एग० । उक्क० अंतो० ।
अकसाई०-सादावे० ओघं । एवं यथाखादं । एवं चेव केवलणा० केवलदं० । णवरि
जह० अंतो० ।

२३. मदि०-सुद०-पंचणा० णवदंस० मिच्छत्तं सोलस० भयदु० तेजाक०
वण्ण०४ अगु० उप० णिमि० पंचंत० तिण्णि भंगो ओघं । तिरिक्खमदि-तिगं
ओघं । मणुसग० मणुसाणुपु० जह० एग० । उक्क० एकतीसं० सादिरे० । देवगदि-
वेउच्चियस० समचदु० वेउच्चि० अंगो० देवगदिपाओ० पसत्थ० सुभग-सुस्सर-

जघन्य और उत्कृष्ट दोनों अन्तर्मुहूर्त प्रमाण हैं ।

कोधादि चतुष्कमे-५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, ४ संञ्चलन, ५ अन्तरायका बन्धकाल
जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त प्रमाण है । शेषका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त बन्ध-
काल है । विशेष यह है कि मानकपायमें तीन संञ्चलन, माया कपायमें दो संञ्चलनका बन्ध
है । लोभकषायमें - ५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, संञ्चलन लोभ, ५ अन्तरायका जघन्य और
उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त प्रमाण है । शेष प्रकृतियोंका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त बन्ध-
काल है । अकषायियोंमें--सातावेदनीयका ओघवत् बन्धकाल है । इसी प्रकार यथाख्यात
संयममें जानना चाहिए । केवलज्ञान, केवलदर्शनमें भी ऐसा ही जानना चाहिए । इतना विशेष
है कि यहाँ जघन्य बन्धकाल अन्तर्मुहूर्त है ।

२३. मत्यज्ञान, श्रुताज्ञानमें-५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, भय,
जुगुप्सा, तैजस, कामण, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण, ५ अन्तरायके तीन भंग
ओघवत् जानना चाहिए ।

विशेषार्थ-अभ्यसिद्धिक जीवकी अपेक्षा अनादि अपर्यवसित काल है । भवसिद्धिक-
के मिथ्यात्वका अनादि सपर्यवसित काल है । तीसरा भंग सादि सान्तका है । इसी तीसरे
भंगमें जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट देशोन अर्धपुद्गल परावर्तन प्रमाण बन्धकाल है ।
(ध० टी०, काल०, ३२४-३२५)

तियंचगति-त्रिकका ओघके समान है । मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्विका जघन्य एक
समय, उत्कृष्ट साधिक ३१ सागर प्रमाण बन्धकाल है । देवगति, वैक्रियिक शरीर, सम-
चतुरस्र संस्थान, वैक्रियिक अंगोपांग, देवगति प्रायोग्यानुपूर्विका, प्रशस्त विहायोगति, सुभग,

१. "चउहं उवसमा केवचिरं कालादो होंति ? एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं, उक्कस्सेण
अंतोमुहुत्तं, चदुहं खवगा एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ।"-षट् खं०,
काल०, २२-२८ ।

२. "एगजीवं पडुच्च अणादिओ सपज्जवसिदो, सादिओ सपज्जवसिदो । जो सो सादिओ सपज्ज-
वसिदो तस्से इमो णिद्वेसो जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण अद्धपोगलपरियट्टं देसुणं ।"-षट् खं०, काल०,
३१०-३१३ ।

आदेज० उच्चा० जह० एग० । उक्क० तिण्णि पलिदो० देसू० । पंचिदि० ओरालि० अंगो० परघादु० सा०(दुस्सा०) तस०४ जह० एग० । उक्क० तेत्तीसं सा० सादिरे० । ओरालियस्स० जह० एग० । उक्क० अणंतकालं असंखे० । आयु ओघं । सेसं जह० एग० । उ० अंतो० । एवं मिच्छादिट्ठि० अब्भवसिद्धि० एवं चेव । णवरि धुवियाणं अणादियो अपज्जवसिदो । विभंगे०—पंचणा० णवदंस० मिच्छत्तं सोलसक० भयदुगुं० तिरिक्खगदि० पंचिदि० ओरालिय-तेजाकम्म० ओरालिय० अंगो० वण्ण०४ तिरिक्खगदि-पाओ० अगु०४, तस०४ णिमिणं णीचा० पंचंत० जह० एग०, मिच्छत्तं० अंतो० । उक्क० तेत्तीसं सा० देसू० । मणुसग० मणुसाणु० जह० एग० । उक्क० एकत्तीसं देसू० । आयु ओघं । सेसाणं जह० एग० । उक्क० अंतो० । आभि० सुद० ओधिणा०—पंचणा० छदंस० चदुसंज० पुरिस० भयदु० पंचिदिय० तेजाक० समचदु० वण्ण०४ अगु०४ पसत्थवि० तस०४ सुभग-सुस्स० आदे० णिमि०

सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रका जघन्य बन्धकाल एक समय, उत्कृष्ट देशोन तीन पलय प्रमाण है। पंचेन्द्रिय जाति, औदारिक अंगोपांग, परघात, उच्छ्वास तथा त्रस ४ का जघन्य बन्धकाल एक समय, उत्कृष्ट साधिक ३३ सागर है। औदारिक शरीरका जघन्य बन्धकाल एक समय, उत्कृष्ट अनन्तकाल असंख्यात पुद्गलपरावर्तन है। आयुका ओघवत् है। शेषका जघन्य बन्धकाल एक समय, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त है। इसी प्रकार मिथ्यादृष्टिमें भी जानना चाहिए। अभव्यसिद्धिकोंमें भी इसी प्रकार समझना चाहिए। विशेष यह है, कि अभव्योंमें ध्रुव प्रकृतियोंका बन्धकाल अनादि अपर्यवसित अर्थात् अनन्त काल है। विभंगावधिमें— ५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलइ कपाय, भय, जुगुप्सा, तिर्यचगति, पंचेन्द्रिय जाति, औदारिक, तैजस, कार्मण शरीर, औदारिक अंगोपांग, वर्ण ४, तिर्यचगतिप्रायोग्यानु-पूर्वी, अगुरुलघु ४, त्रस ४, निर्माण, नीचगोत्र और ५ अन्तरायोंका जघन्य बन्धकाल एक समय है, किन्तु मिथ्यात्वका जघन्य अन्तर्मुहूर्त तथा उत्कृष्ट बन्धकाल देशोन ३३ सागर है।

विशेषार्थ— एक मिथ्यात्वी सातवीं पृथ्वीमें उत्पन्न होकर अन्तर्मुहूर्तमें पर्याप्तियोंको पूर्ण कर विभंगज्ञानी हुआ। आयुके ३३ सागर पूर्ण कर मरण करके निकला, तब उसका विभंग ज्ञान नष्ट हो गया, कारण अपर्याप्त कालमें विभंग ज्ञानका विरोध है। इस प्रकार उत्कृष्ट बन्धकाल देशोन ३३ सागर प्रमाण है। (ध० टी०, काल०, पृ० ४५०)

मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वीका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट देशोन इकतीस सागर बन्धकाल है।

विशेषार्थ— एक द्रव्यलिंगी साधु मरण कर प्रैवेयकमें उत्पन्न हुआ। ३१ सागरकी आयु प्राप्त की। यहाँ अंतर्मुहूर्तमें पर्याप्त हो विभंगावधिको प्राप्त करके शेष ३१ सागर प्रमाण काल व्यतीत करके मरा। उसके अंतर्मुहूर्त कम ३१ सागर प्रमाण मनुष्यद्विकका बंधकाल होगा।

आयुका ओघके समान बंधकाल है। शेषका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त बंधकाल है।

आभिनिबोधिक श्रुतज्ञान, अबधिज्ञानमें— ५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, ४ संज्वलन, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस-कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थानं, वर्ण ४, अगुरुलघु ४, प्रशस्त विहायोगति, त्रस ४, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, उच्चगोत्र तथा ५

उच्चा० पंचंत० जह० अंतो०, उक्क० छावड्डि० सागरोप० सादिरे० । सादासा० हस्सरदि० अरदि० सो० आहारदुगं थिरादितिण्णियु० जह० एग० उक्क० अंतो० । अप्पच्चक्खाणावर०४ तित्थयरं जह० अंतो० । उक्क० तेत्तीसं सा० सादि० । अप्पच्चक्खाणा० (पच्चक्खाणा०) ४ जह० अंतो० । उक्क० बादालीसं सा० सादि० । अथवा तेत्तीसं सा० सादिरे० परिअदि । दो-आयु ओघं । मणुसगदि-पंचगं जह० अंतो० । उक्क० तेत्तीसं सा० । देवगदि०४ जह० एग० । उक्क० तिण्णि-पलिदो० सादि० । एअं ओधिदं० । एवं चैव सम्मादिड्डि० । णवरि सादं ओघं । मणपज्जव०-पंचणा० छदंसण० चदुसंज० पुरिस० भयदु० देवगदि० पंचिदि० वेउ० तेजाक० समचदु० वेउन्वि० अंगोअं वण्ण०४ देवगदि-पाओ० अगु०४ पसत्थ० तस०४ सुभग-सुस्सर-आदेज्ज० णिमि० तित्थयरं उच्चा० पंचंत० जह० एग० । उक्क० पुव्वकोडिदेसु० । सादासा० चदुणो० आहारदुगं० थिरादि-तिण्णि-युग०० जह० एग० । उक्क० अंतो० । देवायु ओघं ।

२४. एवं संजदासामाइ० छेदो० । णवरि संजदे सादं ओघं । परिहार-संजदा-

अन्तरायका जघन्य बन्धकाल अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट साधिक ६६ सागर प्रमाण है। साता. असाता वेदनीय, हास्य-रति, अरति-शोक, आहारकद्विक और स्थिरादि तीन युगलका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त बन्धकाल है। अप्रत्याख्यानावरण ४, तीर्थंकरका जघन्य अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट साधिक ३३ सागर है। प्रत्याख्यानावरण ४ का जघन्य अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट साधिक ४२ सागर प्रमाण है। अथवा कुछ अधिक तेतीस सागर बन्धकाल जानना चाहिए। दो आयुका ओघके समान है। मनुष्यगति-पंचकका जघन्य बन्धकाल अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट ३३ सागर है। देवगति ४ का जघन्य एक समय, उत्कृष्ट साधिक तीन पत्य बन्धकाल है। अवधि-दर्शनमें इसी प्रकार जानना चाहिए। सम्यग्दृष्टियोंमें भी इसी प्रकार जानना चाहिए। विशेष यह है कि साता वेदनीयका ओघके समान भंग जानना चाहिए। मनःपर्ययज्ञानमें - ५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, ४ संज्वलन, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, देवगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक-नैजस-कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिक अंगोपांग, वर्ण ४, देवगति-प्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु ४, प्रशस्तविहायोगति, त्रस ४, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थंकर, उच्चगोत्र और ५ अन्तरायका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट कुछ कम पूर्वकोटि बन्धकाल है।

विशेषार्थ - एक कोटि पूर्वकी आयुवाले किसी मनुष्यने गर्भकालसे लेकर आठ वर्ष अन्तर्मुहूर्त प्रमाण काल व्यतीत करके सकल संयमी बन मनःपर्ययज्ञानको उत्पन्न किया। जीवन भर मनःपर्ययसंयुक्त रहा, किन्तु मरणके अन्तर्मुहूर्त रहनेपर नीचेके गुणस्थानमें आकर मरण किया, इस प्रकार देशोनपूर्व कोटि काल है।

साता-असाता वेदनीय, ४ नोकषाय, आहारकद्विक, स्थिरादि तीन युगलका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त बन्धकाल है। देवायुका ओघके समान है।

२४. इस प्रकार संयत तथा सामायिक छेदोपस्थापना संयतमें जानना चाहिए। इतना विशेष है कि संयम मार्गणमें साता वेदनीयका ओघवत् जानना चाहिए।

परिहारविशुद्धिसंयतो तथा संयतासंयतोमें इसी प्रकार जानना चाहिए।

संजदाणं एवं चेव । णवरि धुविगाणं जह० अंतो०, असंजदे धुविगाणं मदिभंगो ।
पुरिस० पंचिदि० समचहु० ओरालिय० अंगो० परघादुस्सा० पसत्थ० तस०४
सुभग-सुस्सर-आदे० उच्चा० जह० एग० । उक्क० तेत्तीसं सादिरे० । तिरिक्खगदि-
तिगं मणुसग० वज्जरिस० मणुसाणु० देवगदि०४ आयु० तित्थयरं च ओषं ।
सेसाणं जह० एग० । उक्क० अंतो० । चक्खुदंस० तम-पज्जत्तभंगो । णवरि सादा०
जह० एग० । उक्क० अंतो० । अचक्खुदं ओषं । णवरि सादं० चक्खुदं० भंगो० ।

२५. किण्ण० णील० काउ०--पंचणा० णवदंस० मिच्छत्त० सोलसक० भयदु०

परिहारविशुद्धि संयमके विषयमें 'सुदाबन्ध' में लिखा है संजमाणुवादेण संजदा परिहारसुद्धिसंजदा संजदासंजदा केवचिरं कालादो होति ? जहणणेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण पुण्वकोडिदेसूणा (१४७, १४८, १४९ सूत्र) ।

संयम मार्गणाके अनुसार संयत, परिहार शुद्धि संयत तथा संयतासंयत कितने काल-तक रहते हैं ? कमसे कम अन्तर्मुहूर्त काल पर्यन्त अन्तर है । उत्कृष्टसे कुछ कम पूर्व कोटि है । धबला टीकामें लिखा है— "गर्भसे लेकर आठ वर्षोंसे संयमको प्राप्त कर और कुछ कम पूर्वकोटि वर्ष तक संयमका पालन कर व मरकर देवोंमें उत्पन्न हुए मनुष्यके कुछ कम पूर्वकोटि मात्र संयमकाल पाया जाता है । इसी प्रकार परिहारशुद्धिसंयतका भी उत्कृष्ट काल कहना चाहिए । विशेष इतना है कि सर्वसुखी होकर तीस वर्षोंको बिताकर पश्चात् वर्ष पृथक्त्वसे तीर्थकरके पादमूलमें प्रत्याख्यान नामक पूर्वको पढ़कर पुनः तत्पश्चात् परिहार-शुद्धि संयमको प्राप्त कर और कुछ कम पूर्व कोटि वर्ष तक रहकर देवोंमें उत्पन्न हुए जीवके उपर्युक्त काल प्रमाण कहना चाहिए । इस प्रकार अड़तीस वर्षोंसे कम पूर्व कोटि वर्ष प्रमाण परिहार शुद्धि संयमका काल कहा गया है । कोई आचार्य सोलह वर्षोंसे और कोई बाईस वर्षोंसे कम पूर्व कोटि वर्ष प्रमाण कहते हैं । इसी प्रकार संयतासंयतका भी उत्कृष्ट काल जानना चाहिए । विशेष यह है कि अन्तर्मुहूर्त पृथक्त्वसे कम पूर्व कोटि वर्ष संयमासंयमका काल होता है । (श्रुद्रक बन्ध २, ७ पुस्तक, पृ० १६७)

सुदाबन्धका कथन - सामान्यतया संयम, परिहारविशुद्धि संयम, संयमासंयम, सामान्यकी अपेक्षा कहा गया है । महाबन्धका प्रतिपादन संयम, परिहारविशुद्धि संयम, संयमासंयममें बंधनेवाली कर्मप्रकृतियोंकी अपेक्षा किया गया है ।

विशेष, ध्रुव प्रकृतियोंका जघन्य बन्धकाल अन्तर्मुहूर्त है, किन्तु असंयतोंमें ध्रुव प्रकृतियोंका बन्धकाल मत्स्यज्ञानके समान है । पुरुषवेद, पञ्चेन्द्रिय जाति, समघतुरम्भसंस्थान, औदारिक अंगोपांग, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त विहायोगति, त्रस ४, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रका जघन्य बन्धकाल एक समय, उत्कृष्ट साधिक ३३ सागर है । तिर्यञ्जगति-त्रिक, मनुष्यगति, वज्रवृषभसंहनन, मनुष्यानुपूर्वी, देवगति, ४ आयु तथा तीर्थकरका ओषके समान काल है । शेषका जघन्य बन्धकाल एक समय, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त है । चक्षुदर्शनमें त्रस पर्याप्तकोंका भंग जानना चाहिए । विशेष यह है कि सातावेदनीयका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त प्रमाण बन्धकाल है । अचक्षुदर्शनमें ओषवत् है । यहाँ यह विशेष है कि साता वेदनीयका चक्षुदर्शन के समान भंग है ।

२५. कृष्ण-नील-कापोत लेश्यामें-५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजस-कार्मण, वर्ष ४ अगुरुलघु, उपघात, निर्माण तथा ५ अन्तरायोंका

तेजाक० वण०४ अगु० उप० णिमि० पंचंत० जह० अंतो०, उक० तेत्तीसं सत्तारस-
सत्तसा० सादिरे० । सादासा० छण्णोक० दोगदि० चदुजादि० वेउव्वि० पंचसं० वेउव्वि०
अंगो० पंचसंघ० दो-आणु० आदाउज्जो० अपसत्थ० थावरादि०४ थिरादि-दोणियुग०
दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज० जह० एग० । उक० अंतो० । पुरिस० गणुस० समचदु०
वज्जरिस० मणुसाणु० पसत्थवि० सुभगं० सुस्स० आदेज्ज० उच्चा० जह० एग० ।
उक० तेत्तीसं सत्तार [स] सत्त-साग० देसू० । चदुआयु० जहणु० अंतो० ।
तिरिक्खगदि-पंचिदि० ओरालि० ओरालि० [अंगो०] तिरिक्खाणुपु० परघादु०
तस०४ गीचा० जह० एग० । उक० तेत्तीसं-सत्तारस-सत्तसागरो० सादिरे० । णवरि

जघन्य बन्धकाल अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट बन्धकाल ३३ सागर है, १७ सागर है, सात सागर प्रमाण है ।

विशेषार्थ - नीललेश्याधारी कोई जीव कृष्णलेश्यायुक्त हो, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त प्रमाण विश्राम कर मरण करके सातवीं पृथ्वीमें ३३ सागरप्रमाण कृष्णलेश्यासहित रहा । मरण कर अन्तर्मुहूर्त कालपर्यन्त भावनावश वही लेश्या रही । इस कारण दो अन्तर्मुहूर्तोंसे अधिक ३३ सागरोपम कृष्णलेश्याका उत्कृष्ट काल रहा । मिथ्यात्वादिका बन्धकाल भी इसी प्रकार जानना चाहिए । इसी प्रकार पाँचवीं पृथ्वीमें उत्पत्तिकी अपेक्षा नीललेश्यामें साधिक १७ सागर तथा तीसरे नरककी अपेक्षा कापोत लेश्यामें साधिक सात सागर प्रमाण बन्धकाल कहा है । (ध० टी०, काल०, ४५७-४५८)

साता-असाता वेदनीय, ६ नोकपाय, दो गति, ४ जाति, वैक्रियिक शरीर, ५ संस्थान, वैक्रियिक अंगोपांग, ५ संहनन, दो आनुपूर्वी, आताप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावरा-दिचतुष्क, स्थिरादि दो युगल, दुर्भग, दुस्वर, अनादेयका जघन्य बन्धकाल एक समय, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त काल है । पुरुषवेद, मनुष्यगति, समचतुरस्रसंस्थान, वज्रवृषभनाराचसंहनन, मनुष्यानुपूर्वी, प्रशस्तविहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रका बन्धकाल जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे देशोन ३३ सागर, १७ सागर तथा ७ सागर है ।

विशेषार्थ - कोई २८ मोहनीयकी सत्तायुक्त मिथ्यात्वी जीव तीसरी, पाँचवीं तथा सातवीं पृथ्वीमें उत्पन्न हुआ । वहाँ पर्याप्ति पूर्ण करके दूसरे अन्तर्मुहूर्तमें विश्राम लिया । तथा तीसरेमें विशुद्ध होकर चौथे अन्तर्मुहूर्तमें वेदक सम्यक्त्व धारण किया और तीसरी तथा पाँचवीं पृथ्वीमें सात तथा १७ सागर प्रमाण क्रमशः पुरुषवेदादिका बन्ध किया, पश्चात् मरण किया । अतः सात तथा सत्रह सागरमें मिथ्यात्व दशाके तीन अन्तर्मुहूर्त कम होते हैं । सातवीं पृथ्वीमें ६ अन्तर्मुहूर्त कम होते हैं । कारण वहाँसे मिथ्यात्वके बिना निर्गमन नहीं होता है । मरणके एक अन्तर्मुहूर्त शेष रहनेपर मिथ्यात्व गुणस्थानको प्राप्त हुआ । दूसरे अन्तर्मुहूर्तमें आयुबन्ध किया, तीसरेमें विश्राम किया, बादमें निर्गमन किया । इस प्रकार पूर्वके तीन और पश्चात्के तीन इस प्रकार ६ अन्तर्मुहूर्त कम तेतीस सागर प्रमाण बन्धकाल है । (ध० टी०, काल०, ३५९, ३६२)

चार आयुका जघन्य तथा उत्कृष्ट बन्धकाल अन्तर्मुहूर्त प्रमाण है । तिर्यचगति, पंचेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, औदारिक [अंगोपांग], तिर्यचानुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, त्रस ४ तथा नीच गोत्रका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट साधिक ३३ सागर है, १७ सागर तथा ७ सागर

तिरिक्खगदि-तिगं णील० काउ० सादं० भंगो । किण्ण० णील० तित्थय० जहण्णु० अंतो० । काउ० जह० अंतो० । उक्क० तिण्णि साग० सादिरे० । तेउ०-पंचणा० णवदंस० मिच्छ० सोलसक० पुरिसवे० भयदुगु० मणुसगदि० पंचिदि० तेजाक० समचदु० ओरालि० अंगो० वज्जरिस० वण्ण०४ मणुसाणु० अगु०४ पसत्थवि० तस०४ सुभग-सुस्सरादेज्ज० णिमि० तित्थयं० उच्चा० पंचंतरा० जह० अंतो० । थीण-गिद्धितिगं० अणंताणुचं०४ एग० । उक्क० बेसागरोप० सादिरे० । णवरि केसिच० जह० एगस० । तिण्णि आयु० देवगदि०४ जहण्णु० अंतो० । ओरालिय० जह० दसवस्स-सहस्साणि देस्स० अथवा पलिदोपमं सादि० । उक्क० बेसागरोप० सादिरे० । सेसाणं जह० एग०, उक्क० अंतो० । पम्माए-पंचणा० णवदं० मिच्छत्तं सोलसक० पुरिस० भयदुगुं० मणुसग० पंचिदि० तेजाकम्म० समचदु० वज्जरिस० वण्ण०४ मणुसाणु० अगुरु०४ पसत्थवि० तस०४ सुभग-सुस्सर-आदे० णिमि० उच्चागो० तित्थय० पंचंतरा० जह० अंतो० । थीणगिद्धि० अणंताणु०४ एगस० । उक्क० अट्टारस० सादि० ।

बन्धकाल है। विशेष यह है कि तिर्यचगतत्रिकका नील तथा कापोत लेश्यामें साता वेदनीयकी भौंति बन्धकाल समझना चाहिए। कृष्ण-नील लेश्यामें तीर्थंकर प्रकृतिका जघन्य और उत्कृष्ट बन्धकाल अन्तर्मुहूर्त है। कापोत लेश्यामें जघन्य बन्धकाल अन्तर्मुहूर्त उत्कृष्ट साधिक तीन सागर है। तेजोलेश्यामें-५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, पंचेन्द्रिय जाति, तैजस, कर्मण, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिक अंगोपांग, वज्रवृषभनाराचसंहनन, वर्ण ४, मनुष्यानुपूर्वी, अगुरुलघु ४, प्रशस्त विहायोगति, त्रस ४, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थंकर, उच्चगोत्र तथा ५ अन्तरायका जघन्य बन्धकाल अन्तर्मुहूर्त है। स्थानगृद्धित्रिक, अनन्तानुबन्धी ४ का जघन्य एक समय, तथा पूर्वोक्त ज्ञानावरणादि सबका उत्कृष्ट बन्धकाल साधिक दो सागर है। विशेष यह है कि किन्हीं आचार्यों-के मतसे उपरोक्त जघन्य रूपसे अन्तर्मुहूर्त बन्धकालवाली ज्ञानावरणादि प्रकृतियोंका जघन्य काल एक समय प्रमाण है।

विशेषार्थ - एक मिथ्यात्वी कापोतलेश्याके कालक्षयसे तेजोलेश्यावाला हो गया। उसमें अन्तर्मुहूर्त प्रमाण रहकर मरा। सौधर्म-कल्पमें पत्योपमके असंख्यातवें भागसे अधिक दो सागर प्रमाण जीवित रहकर च्युत हुआ। उसकी तेजोलेश्या नष्ट हो गयी। इस प्रकार पूर्वके अन्तर्मुहूर्तसे अधिक सौधर्म-कल्पकी स्थिति प्रमाण कापोतलेश्या रही। इस दृष्टिको लक्ष्यमें रखकर मिथ्यात्वादिका उत्कृष्ट बन्धकाल कहा गया है। (ध० टी०, काल०, पृ० ४६३)

तीन आयु, देवगति ४ का जघन्य तथा उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त प्रमाण बन्धकाल है। औदारिक शरीरका जघन्य बन्धकाल कुछ कम १० हजार वर्ष अथवा साधिक पत्य है। उत्कृष्ट बन्धकाल साधिक दो सागर है। शेषका जघन्य बन्धकाल एक समय तथा उत्कृष्ट बन्धकाल अन्तर्मुहूर्त है। पद्मलेश्यामें-५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, पंचेन्द्रिय जाति, तैजस-कर्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान वज्रवृषभसंहनन, वर्ण ४, मनुष्यानुपूर्वी, अगुरुलघु ४, प्रशस्त विहायोगति, त्रस ४, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, उच्चगोत्र, तीर्थंकर और ५ अन्तरायोंका जघन्य बन्धकाल अन्तर्मुहूर्त है। स्थानगृद्धित्रिक, अनन्तानुबन्धी ४ का जघन्य एक समय, तथा पूर्वोक्त ज्ञानावरणादि

णवरि केसिंच एगस० । ओरालिय० ओरालिय० अंगो० जहण्णे० बेसाग० सादिरे० ।
उक्क० अट्टारस० सादिरे० । सेसं तेउभंगो । णवरि एइदि० आदाव-थावरं णत्थि ।
सुक्काए - पंचणा० छदंसण० (णा०) वारसक० पुरिसवे० भयदु० तेजाकम्म० समचदु०-
वण्ण० ४ अगु० पसत्थवि० तस० ४ सुभग-सुस्सर-आदेज्ज० णिमिणं तित्थवरं० उच्चा०
पंचंतरा० जह० एग० । धुविगाणं अंतो०, उक्क० तेत्तीसं० सादिरे० । थीणगिद्धितिगं
अणंताणु० ४ जह० एग०, मिच्छ० अंतो० । उक्क० एकत्तीसं सादि० । दो आयु०
सादादीणं च ओघं । मणुसग० ओरालिय० ओरालिय० अंगो० मणुसाणुपु० जह०
अट्टारस० सादिरे० उक्क० तेत्तीसं० । वज्जरिसभ० जह० एग० । उक्क० तेत्तीसं० । सेसाणं

सबका उत्कृष्ट साधिक १८ सागर है। विशेष, उपरोक्त ज्ञानावरणादि प्रकृतियोंका जघन्यकाल किन्हीं आचार्योंके मतमें अन्तर्मुहूर्तकी जगह एक समय प्रमाण है।

विशेषार्थ - वर्धमान तेजोलेइयावाला कोई एक मिथ्यात्वी जीव अपने कालके क्षीण होनेपर पद्मलेइयावाला हो गया। उसमें अन्तर्मुहूर्त रहकर मरा और शतार-सहस्रारस्वर्गवासी देवोंमें जाकर पल्योपमके असंख्यातवें भागसे अधिक १८ सागर जीवित रहकर च्युत हुआ, तब पद्मलेइया नष्ट हो गयी। उसकी अपेक्षा इस लेइयामें ज्ञानावरणादिका उत्कृष्ट बन्धकाल कहा है।

औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांगका जघन्य साधिक दो सागर, उत्कृष्ट साधिक १८ सागर बन्धकाल है। शेष प्रकृतियोंका बन्धकाल तेजोलेइयाके समान जानना चाहिए। विशेष यह है कि पद्मलेइयामें एकेन्द्रिय, आताप और स्थावरका बन्ध नहीं है।

शुक्ललेइयामें-५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, १२ कषाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, तैजस कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वर्ण ४, अगुरुलघु, प्रशस्तविहायोगति, त्रस ४, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थकर, उन्नगोत्र तथा ५ अन्तरार्योंका जघन्य बन्धकाल एक समय है। किन्तु ध्रुव प्रकृतियोंका जघन्य बन्धकाल अन्तर्मुहूर्त है। इन सबका उत्कृष्ट बन्धकाल साधिक ३३ सागर है।

विशेषार्थ - एक मनुष्य शुक्ललेइयासहित अन्तर्मुहूर्त रहकर मरा और सर्वार्थसिद्धिमें ३३ सागर पर्यन्त शुक्ललेइयायुक्त रहा। पश्चात् मरण किया। इस प्रकार शुक्ललेइयाका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त अधिक तेतीस सागर प्रमाण रहा। (ध० टी०, काल०, ३४७, ४७३)

स्थानगृद्धित्रिक तथा अनन्तानुबन्धी ४ का जघन्य बन्धकाल एक समय, मिथ्यात्वका जघन्य बन्धकाल अन्तर्मुहूर्त प्रमाण है, तथा इनका उत्कृष्ट बन्धकाल साधिक ३१ सागर है।

विशेषार्थ - एक द्रव्यलिङ्गी मिथ्यादृष्टि साधु मरणके समीपमें अन्तर्मुहूर्त पर्यन्त शुक्ललेइया धारण कर मरा और द्रव्यसंयमके प्रभावसे उपरिम प्रवेयकमें शुक्ललेइयायुक्त ३१ सागरकी आयुवाला अहमिन्द्र हुआ और अपनी स्थिति पूर्ण होनेपर उसी क्षण शुक्ललेइया-रहित होकर च्युत हुआ। उसके प्रथम अन्तर्मुहूर्त अधिक ३१ सागर प्रमाण बन्धकाल होगा। (ध० टी०, काल०, ४७२)

दो आयु तथा साता आदिक प्रकृतियोंका बन्धकाल ओघके समान है। मनुष्यगति, औदारिकशरीर, औदारिक अंगोपांग, मनुष्यानुपूर्वीका जघन्य बन्धकाल साधिक १८ सागर तथा उत्कृष्ट ३३ सागर है।

जह० एग०, उक्क० अंतो० । भवसिद्धिया ओषं । णवरि अणादिओ अपञ्जवमिदो णत्थि ।

२६. खड्गं-आभिणि०भंगो । णवरि धुविगाणं जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं० सादिरे० । मणुसगदि-पंचगं जह० चदुरासीदि-वस्स-सहस्साणि, उक्क० तेत्तीसं सा० । सादावे० दो आयु० देवगदि०४ ओषं । वेदगसं०-धुविगाणं जह० अंतो०, उक्क० छावड्डिसागरो० । मणुसगदिपंचग जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं सा० । देवगदि०४ जह० अंतो०, उक्क० तिण्णि-पलिदोप० देख्ठो० । सेसं ओधिभंगो । उवसम०-पंचणा० छदंसं० बारसक० पुरिसं० भयदुगुं० मणुसगदिपंचगं पंचिदियं० तेजाकम्म० समचदु० वण्ण०४ अगु०४ पसत्थवि० तस०४ सुभग-सुस्सर-आदेज्ज णिमिणं तित्थयरं उच्चागो० पंचंतं० जहण्णु० अंतो० । सेसाणं पगदी० जह० एग०, उक्क० अंतो० ।

वज्रवृषभसंहननका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट ३३ सागर बन्धकाल है। शेष प्रकृतियोंका जघन्य बन्धकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त प्रमाण है। भवसिद्धिकोमें - ओषके समान है। विशेष, यहाँ अनादि अनन्त रूप भंग नहीं है।

• २६. क्षायिकसम्यक्त्वमें - आभिनिबोधिक ज्ञानके समान भंग है। विशेष ध्रुव प्रकृतियोंका जघन्य बन्धकाल अन्तर्मुहूर्त तथा उत्कृष्ट साधिक ३३ सागर है। मनुष्यगति ५ का जघन्य बन्धकाल ८४ हजार वर्ष और उत्कृष्ट ३३ सागर है। सातावेदनीय, २ आयु, देवगति ४ का ओषके समान है। वेदकसम्यक्त्वमें ध्रुव प्रकृतियोंका जघन्य बन्धकाल अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट ६६ सागर है।

विशेष - वेदकसम्यक्त्वकी उत्कृष्ट स्थिति ६६ सागर प्रमाण है। इससे ध्रुव प्रकृतियोंका बन्धकाल भी उतना ही कहा है।

मनुष्यगति ५ का जघन्य बन्धकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट ३३ सागर है। देवगति ४ का जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट कुछ कम तीन पत्य है। शेष प्रकृतियोंका अवधिज्ञानके समान बन्धकाल है। उपशमसम्यक्त्वमें - ५ ज्ञानावरण, स्त्यानगृद्धित्रिकके बिना ६ दर्शनावरण, १२ कषाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति ५, पंचेन्द्रिय जाति, तैजस-कार्माण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वर्ण ४, अगुरुलघु ४, प्रशस्त विहाथोगति, त्रस ४, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थकर तथा उच्चगोत्र एवं ५ अन्तरायोंका जघन्य और उत्कृष्ट बन्धकाल अन्तर्मुहूर्त प्रमाण है। शेष प्रकृतियोंका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त है।

१. "असंजदसम्मादिट्ठी केवचिरं कालादो होति ? एगजोवं पडुच्च-जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण तेत्तीससागरोवमाणि सादिरेयाणि ।.....खड्गसम्मादिट्ठीसु असंजदसम्मादिट्ठिणहुडि जाव अजोगि केवल ति कोषं ।" -पट् खं०, काल०, १४, १५, ३१७ ।

२. "उवसमसम्मादिट्ठीसु असंजदसम्मादिट्ठी संजदासंजदा केवचिरं कालादो होति ? एकजोवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । पमत्तसजदप्पहुडि जाव उवसंतकसायवीदरागल्लुमुत्थात्ति केवचिरं कालादो होति ? एकजोवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं, उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ।" -पट् खं०, काल०, ३१९-२४ ।

सासणे-पंचणा०णवदंसण०(णा०)सोलसक० भयदु० तिण्णिगदि० पंचिदि० चदुसरी०
समचदु० दो-अंगो० वण्ण०४ तिण्णि-आणुपुव्वि० अगु०४ पसत्थवि० तस०४ सुभग-
सुस्सर-आदे० णिमिणं णीचुच्चागो० पंचंतरा० जह० एग०, उक्क० छावलियाओ ।
तिण्णि-आयु० ओघं । सेसाणं जह० एग०, उक्क० अंतो० । सम्मामि०-सादासादा०
चदुणोक० थिरादि-तिण्णि युम० जह० एग०, उक्क० अंतो० । सेसाणं जहणु० अंतो० ।

२७. सण्णि० - धुविगाणं जह० खुदाभ०, उक्क० सागरोपमसदपु० । सेसं पंचिदिय-

विशेषार्थ - असंयतसम्यक्त्वी अथवा देशसंयमीकी अपेक्षा उपशमसम्यक्त्वका जघन्य और उत्कृष्ट बन्धकाल अन्तर्मुहूर्त है । प्रमत्तसंयतसे लेकर उपशान्तकपाय बीतरागलक्ष्य पर्यन्त एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त प्रमाण है । (ध० टी०, काल० ४८२-४८४)

सासादनसम्यक्त्वमें - ५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, तीन गति (नरकगतिरहित), पंचेन्द्रिय जाति, ४ शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, दो अंगोपांग, वर्ण ४, तीन आनुपूर्वी, अगुरुलघु ४, प्रशस्त विहायोगति, व्रस ४, सुभग, सुस्वग, आदेय, निर्माण, नीच-उच्च-गोत्र तथा ५ अन्तरायोंका जघन्य बन्धकाल एक समय और उत्कृष्ट ६ आवली प्रमाण है ।

विशेषार्थ - कोई उपशमसम्यक्त्वी उपशमसम्यक्त्वका एक समय शेष रहनेपर सासादन गुणस्थानको प्राप्त हुआ, उसकी अपेक्षा सासादनका जघन्य काल एक समय प्रमाण है । कोई उपशमसम्यक्त्वी उपशमसम्यक्त्वका छह आवली प्रमाणकाल शेष रहनेपर सासादनमें आ गया । वहाँ छह आवली प्रमाण काल व्यतीत कर मिथ्यात्वमें पहुँचा । इस प्रकार जघन्य बन्धकाल एक समय और उत्कृष्ट छह आवली कहा है ।

तीन आयुका ओघके समान काल है । विशेष - यहाँ नरकायुका बन्ध नहीं होता है ।

शेष प्रकृतियोंका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त है । सम्यक्मिथ्यादृष्टिमें - साता, असाता वेदनीय, ४ नोकषाय, स्थिरादि तीन युगलका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त बन्धकाल है । शेष प्रकृतियोंका जघन्य तथा उत्कृष्ट बन्धकाल अन्तर्मुहूर्त प्रमाण है ।

विशेषार्थ - कोई मिथ्यात्वी विशुद्ध परिणामयुक्त हो मिश्र गुणस्थानमें सर्वलघु अन्तर्मुहूर्त रहकर चतुर्थ गुणस्थानमें चला गया, अथवा कोई वेदकसम्यक्त्वी संकलेशवश मिश्र गुणस्थानी हुआ, वहाँ सर्वलघु अन्तर्मुहूर्त काल व्यतीत कर पुनः संकलेशवश मिथ्यात्वी हुआ । इसी प्रकार कोई मिथ्यात्वी विशुद्ध परिणाम-युक्त हो उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त-प्रमाण मिश्र गुणस्थानी रहा, बादमें मिथ्यात्वी हो गया अथवा कोई वेदकसम्यक्त्वी संकलेशवश मिश्र गुणस्थानमें उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त-प्रमाण काल व्यतीत करके पुनः अविरतसम्यक्त्वी हो गया । इनकी अपेक्षा मिश्र गुणस्थानका जघन्य, उत्कृष्ट बन्धकाल अन्तर्मुहूर्त कहा है ।

संक्षीमें -^३ ध्रुव प्रकृतियोंका जघन्य बन्धकाल क्षुद्रभवग्रहण-प्रमाण है, उत्कृष्ट शत-

१. "एकजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ उक्कस्सेण छावलियाओ ।" -पट् खं०, काल०, ७, ८ ।

२. "एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहूर्तं उक्कस्सेण सागरोपमसदपुधत्तं ।" -पट् खं०, काल०,

पञ्जत्तभंगो । णवरि सादि ओधिभंगो । असण्णीसु-पंचणा० णवदं० मिच्छं० सोल-
सक० भयदुगु० तेजाकम्म० वण्ण०४ अगुरु० णिमिणं पंचंतरा० जहं० खुद्दा० । उक्क०
अणंतकालं, असंखे० । चदु-आयु० तिरिक्खगदि-तिगं ओरालि० ओघं० । सेसाणं जहं०
एगं, उक्क० अंतो० ।

२८. आहारगे०-पंचणा० णवदंसं० मिच्छं० सोलकं० भयदु० तिरिक्खगदि-
ओरालियं० तेजाकं० वण्ण०४ तिरिक्खगदिपाओ० अगुरु० उप० णिमिणं णीचा०
पंचंतं० जहं० एगं० । मिच्छत्तस्स खुद्दाभं० तिसमऊ० । उक्कं० अंगुलस्स [असंखेज्जदि-
भागो] असंखेज्जाओ ओस[प्पिणि-उस्सप्पिणीओ] । तित्थयं० जहं० एगं, उक्कं०
तेचीसं सादि० । सेसा ओघं० । अणाहारं० कम्मइग-भंगो । एवं कालं समत्तं ।

पृथक्त्व सागर है । शेष प्रकृतियोंका पंचेन्द्रिय पर्याप्तकके समान भंग है । विशेष यह है कि
साता वेदनीयमें अवधिज्ञानके समान भंग जानना चाहिए । असंज्ञीमें - ५ ज्ञानावरण,
६ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजस कार्मण शरीर, वर्ण ४, अगुरुलघु,
निर्माण, तथा ५ अन्तरायोंका जघन्य बन्धकाल क्षुद्रभवग्रहण, उत्कृष्ट अनन्तकाल असंख्यात
पुद्गलपरावर्तन है । चार आयु, तिर्यचगति-त्रिक, औदारिक शरीरका बन्धकाल ओघवत्
जानना चाहिए । शेष प्रकृतियोंका जघन्य बन्धकाल एक समय, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त प्रमाण है ।

२८. आहारकोंमें-५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा,
तिर्यचगति, औदारिक-तैजस-कार्मण शरीर, वर्ण ४, तिर्यचगति प्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु,
उपघात, निर्माण, नीचगोत्र, ५ अन्तरायोंका बन्धकाल जघन्य एक समय है । मिथ्यात्वका
तीन समय कम क्षुद्रभवग्रहण प्रमाण है । इनका उत्कृष्ट काल अंगुलका [असंख्यातवाँ भाग]
असंख्यात उत्सर्पिणी-अवसर्पिणी प्रमाण है । तीर्थंकर प्रकृतिका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट
साधिक ३३ सागर है । शेष प्रकृतियोंका ओघवत् जानना चाहिए । अनाहारकोंमें - कार्मण
काययोगके समान जानना चाहिए ।

इस प्रकार (एक जीवकी अपेक्षा) बन्धकालका वर्णन समाप्त हुआ ।

१. "एगंजीवं पडुच्च जहणेण खुद्दाभवग्रहणं उक्कस्तेण अणंतकालमसंखेज्जजोगलपरियट्टं ।"
-षट् खं०, काल०, ३३५-३६ ।

२. "आहाराणुवादेण - एगंजीवं पडुच्च जहणेण अंतोमुहूर्तं, उक्कस्तेण अंगुलस्स असंखेज्जदिभागो
असंखेज्जासंखेज्जाओ ओसप्पिणि उस्सप्पिणी ।" -षट् खं०, का०, ३३८-३६ ।

३. "अणाहारेमु.....कम्मइयकायजोगिभंगो ।" -षट् खं०, का०, ३४१ ।

[अंतराणुगमपरूवणा]

२६. अंतराणुग० दुवि० ओघे० आदे० । ओघे-पंचणा०-छदंसणा०-सादासा०-
चदुसंज०-पुरिस० हस्सरदि-अरदि-सोग-भय-दुगुं०-पंचिदि०-तेजाकम्म०-समचदु०-

[अन्तरानुगम]

२९. अन्तरानुगममें यहाँ (एक जीवकी अपेक्षा) ओघ और आदेशसे दो प्रकारका निर्देश करते हैं ।

विशेषार्थ - लखंडागम मुत्तके खुदाबन्ध (क्षुद्रकबन्ध) नामक दूसरे खण्डमें निम्न-लिखित एकादश अनुयोगद्वारा कहे हैं : "एकजीवेण सामित्तं, एकजीवेण कालो, एगजीवेण अंतरं, णाणाजीवेहि भंगविचओ, दस्वपरूवणाणुगमो, खेत्ताणुगमो, फोसणाणुगमो, णाणा-जीवेहि कालो, णाणाजीवेहि अंतरं, भागाभागाणुगमो, अण्पावहुगाणुगमो चेदि" २ (पृष्ठ २५) - एक जीवकी अपेक्षा स्वामित्व, एक जीवकी अपेक्षा काल, एक जीवकी अपेक्षा अन्तर, नानाजीवोंकी अपेक्षा भंगविचय, द्रव्यप्रमाणानुगम, क्षेत्रानुगम, स्पर्शानुगम, नानाजीवोंकी अपेक्षा काल, नानाजीवोंकी अपेक्षा अन्तर, भागाभागानुगम और अल्पबहुत्व ।

महाबन्धके पयडिबन्धाहियारमें उक्त अनुयोगद्वारोंके सिवाय सण्णियास परूवणा (सन्निकर्ष पररूपणा) तथा भावानुगमका भी निरूपण किया गया है ।

शंका - काल पररूपणाके पश्चात् अन्तर पररूपणाका कथन क्यों किया गया ?

समाधान - 'कालपररूपणाए विणा अन्तर-पररूपणाणुवत्तीदो' - कालकी पररूपणाके बिना अन्तर पररूपणाकी उपपत्ति नहीं बैठती । इस काल पररूपणाके पश्चात् अन्तर पररूपणा हो कहा जाना चाहिए, कारण एक जीवसे सम्बन्ध रखनेवाला अन्य अनुयोगद्वारा नहीं है । वीरसेन स्वामीने कहा है "पुणो अंतरमेव वत्तध्वं, एगजीव संवंधिणो अण्णस्स अणिओग-द्वारस्साभावा" (धवलाटीका क्षुद्रकबन्ध पृष्ठ २६) ।

'अन्तर' शब्दके अनेक अर्थ हैं-उनमें-से यहाँ छिद्र, मध्य अथवा विरह रूप अर्थ लेना चाहिए । आचार्य अकलंकदेवने लिखा है "अन्तरशब्दस्यानेकार्थवृत्तेरिच्छिद्र-मध्य-विरहेष्व-न्यतमग्रहणं" (रा० वा०, पृ० ३०)

ओघसे - ५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, साता-असाता वेदनीय, ४ संज्वलन, पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, चंचेन्द्रिय जाति, तैजस, कामण, समचतुरस्र-

१. बहुवचनेषु दृष्टः प्रयोगः, क्वचिच्छिद्रे वर्तते, 'सान्तरं काष्ठं सच्छिद्रमिति' । क्वचिदन्यत्वे 'द्रव्याणि द्रव्यान्तरमारभन्ते' इति, क्वचिन्मध्ये हिमवत्सागरान्तर इति । क्वचित्सामीप्ये "स्फटिकस्य शुक्लरक्ताद्यन्तरस्यस्य तद्वर्णतेति शुक्लरक्तसमीपस्थस्येति गम्यते । क्वचिद्विशेषे" ।

वारि-वारिज-लोहानां काष्ठपाषाणवाससाम् ।

नारी-पुरुष-तोयानामन्तरं महदन्तरम् ॥ इति

महान् विशेष इत्यर्थः । क्वचिद्बहिर्योगे "ग्रामस्थान्तरे कूपाः, इति; क्वचिदुपमंव्याने 'अन्तरे शाटका' इति, क्वचिद्विरहेऽनभिप्रेतश्रोतृजनान्तरे मन्त्रं मन्त्रयते, तद्विरहे मन्त्रयते इत्यर्थः । तत्रेह छिद्र-मध्य-विरहेष्वन्यतमो वेदितव्यः" त० रा०, पृ० ३० । अन्तरमुच्छेदो विरहो परिणामन्तरगमणं पन्थित्तगमणं अण्णभावववहाणमिदि एयदो । एदस्स अंतरस्स अणुगमो अंतराणुगमो ॥ (खुदाबन्ध, पृ० ३, सूत्र १ टीका)

वण्ण०४ अगु०४ पसत्थ०-तस०४ थिरादि-दोण्णि-यु०-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-णिमिणं-
तित्थयरं-पंचंतरा० बंधंतरं केवचिरं कालादो होदि ? जह० एग०, उक्क० अंतो० ।
णवरि णिहा-पचला जहण्णु० अंतो० । थीणगिद्धितिगं मिच्छत्तं अणंताणु०४ जह०
अंतो० । उक्क० बेच्चावट्टिसा० देसू० । अड्ढक० जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडिदेसू० ।

संस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु ४, प्रशस्तविहायोगति, त्रस ४, स्थिरादि २ युगल, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थकर और ५ अन्तरायके बन्धका अन्तर कितने काल पर्यन्त होता है ? जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे अन्तर्मुहूर्त है। विशेष यह है कि निद्रा और प्रचलाका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। स्त्यानगुद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चारका अन्तर जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट कुछ कम दो छयासठ सागर है।

विशेषार्थ - कोई एक तिर्यंच या मनुष्य चौदह सागर स्थितिवाले लान्तव, कापिष्ठ देवोंमें उत्पन्न हुआ। वहाँ एक सागरोपम काल वितकर द्वितीय सागरोपमके आरम्भमें सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ, तथा तेरह सागर काल सम्यक्त्व सहित व्यतीत कर मरा और मनुष्य हुआ। वहाँ संयम अथवा संयमासंयमका पालन कर इस मनुष्यभव सम्बन्धी आयुसे कम बाईस सागरवाले आरण, अच्युत कल्पमें उत्पन्न हुआ। वहाँसे मरकर पुनः मनुष्य हुआ। संयमको पालन कर उपरिम त्रैवेयकमें उत्पन्न हुआ और मनुष्य आयुसे न्यून इकतीस सागरकी आयु प्राप्त की।

वहाँ अन्तर्मुहूर्त कम छयासठ सागर कालके चरम समयमें मिश्र गुणस्थानवाला हुआ। अन्तर्मुहूर्त विश्राम कर पुनः सम्यक्त्वी हुआ। विश्राम ले, चयकर मनुष्य हुआ। संयम या संयमासंयमको पालन कर इसे मनुष्य भवकी आयुसे न्यून बीस सागरकी आयुवाले आनत-प्राणत देवोंमें उत्पन्न होकर पुनः यथाक्रमसे मनुष्यायुसे कम बाईस तथा चौबीस सागरके देवोंमें उत्पन्न होकर अन्तर्मुहूर्त कम दो छयासठ सागर कालके अन्तिम समयमें मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ। इस प्रकार अन्तर्मुहूर्त कम दो छयासठ सागर अर्थात् एक सौ बत्तीस सागर काल प्रमाण अन्तर हुआ। यह क्रम अव्युत्पन्न लोगोंको समझानेकी कहा है। परमार्थ-दृष्टिसे किसी भी तरह छयासठ सागरका काल पूर्ण किया जा सकता है। (ध० टी० अन्तरा० पृ० ६-७)

प्रत्याख्यानावरण तथा अप्रत्याख्यानावरण रूप आठ कषायका जघन्य बन्धान्तर अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट कुछ कम एक कोटि पूर्व है।

विशेषार्थ - कोई जीव मोहनोयकी अट्ठाईस प्रकृतियोंकी सत्तायुक्त एक कोटि पूर्व प्रमाण-आयुवाला मनुष्य उत्पन्न हुआ। गर्भसे आठ वर्ष पूर्ण होनेपर वेदकसम्यक्त्वी हो उसने सकलसंयमको प्राप्त किया। एक कोटि पूर्वके अन्तमें उसने मिथ्यात्वी होकर मरण किया। इस प्रकार सकलसंयमकी अपेक्षा देशोन एक कोटि पूर्वकाल कषयाष्टकका अन्तर कहलाया।

१. एसो उप्पत्तिकमो अउप्पण-उप्पाप्रणट्ठं उत्तो । परमत्थदो पुण जेण केण वि पयारेण छावट्ठी पूरेदव्वा । (ध० टी०, अं०, पृ० ७)

इत्थिवेदा० जह० एग०, उक्क० वेछावट्टि-साग० सादिरे० । णपुंसक० पंचसंठा० पंचसंघ० अप्पसत्थ० दूमग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागो० जह० एग०, उक्क० वेछा-वट्टिसा० सादि० तिण्णि पल्लिदो० देखू० । णिरय-मणुस-देवायु० जह० अंतो०, उक्क० अणंतकालं-असंखेज्जा० । तिरिक्खायु० जह० अंतो, उक्क० सागरोवमसदपु० । णिरयगदि-देवगदि० वेउत्वि० वेउत्वि० अंगो० दोआणुपु० जह० एग०, उक्क० अणंतकालं-असं० । तिरिक्खगदि० तिरिक्खगदिपाओ० उज्जोव० जह० एग०, उक्क० तेवट्टिसागरोपम-सद० । मनुसगदि-मणुसाणु० उच्चा० जह० एग० उक्क० असंखेज्जा लोगा । चट्टुजादि-आदाव-थावरादि०४ जह० एग०, उक्क० पंचासीदिसागरोपमसदं । ओरालिय० ओरालिय० अंगो० वज्जरिसभ० जह० एग०, उक्क० तिण्णि पल्लिदो० सादिरे० । [आहार०] आहार० अंगो० जह० अंतो०, उक्क० अद्रुपोगल० देखू० ।

स्त्रीवेदका अन्तर जघन्यसे एक समय, उत्कृष्ट कुल अधिक एक सौ बत्तीस सागर है । नपुंसक वेद, ५ संस्थान, ५ संहनन, अप्रमत्त विहायोगति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय, नीच-गोत्रका जघन्य अन्तर एक समय, उत्कृष्ट किंचित् न्यून तीन पत्य अधिक एक सौ बत्तीस सागर प्रमाण है । नरकमनुष्य-देवायुका जघन्य अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट अनन्तकाल असंख्यात पुद्गलपरावर्तन है । तिर्यचायुका जघन्य अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट शतसागरप्रथक्त्व है । नरकगति, देवगति, वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक अंगोपांग, नरक-देवानुपूर्वीका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अनन्तकाल—असंख्यात पुद्गलपरावर्तन है । तिर्यचगति, तिर्यचगत्यानुपूर्वी, उद्योतका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट एक सौ त्रेसठ सागरप्रथक्त्व है । मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट असंख्यात लोक प्रमाण है । ४ जाति, आताप, स्थावरादि ४ का जघन्य एक समय, उत्कृष्ट एक सौ पचासी सागर प्रमाण है । औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, वज्रवृषभ संहननका जघन्य अन्तर एक समय, उत्कृष्ट कुल अधिक तीन पत्य है । [आहारक शरीर] आहारक अंगोपांगका जघन्य अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट कुल कम अर्धपुद्गलपरावर्तन अन्तर है ।

विशेषार्थ - एक अनादि मिथ्यादृष्टिजीवने अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण रूप तीन करण करके उपशमसम्यक्त्व तथा अप्रमत्त गुणस्थानको एक साथ प्राप्त होकर अनन्त संसारका छेद करके अर्धपुद्गलपरिवर्तन मात्र किया । इस अप्रमत्त गुणस्थानमें अन्तर्मुहूर्त रहकर प्रमत्त हुआ और अन्तरको प्राप्त होकर मिथ्यात्वके साथ अर्धपुद्गलपरावर्तन काल व्यतीत कर अन्तिम भवमें सम्यक्त्व अथवा देशसंयमको प्राप्त कर दर्शन-मोहनीय ३ और अनन्तानुबन्धी ४ अर्थान् ७ प्रकृतियोंका क्षय करके अप्रमत्तसंयत हो गया । इस प्रकार अप्रमत्तसंयतका अनन्तर काल उपलब्ध हुआ । पुनः प्रमत्त, अप्रमत्त गुणस्थानमें हजारों बार परावर्तन करके अप्रमत्तसंयत हुआ । पुनः अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्मसाम्पराय, क्षीण-कषाय, सयोगकेवली अयोगकेवली होकर निर्वाणको प्राप्त हुआ । इस प्रकार दस अन्तर्मुहूर्तसे कम अर्धपुद्गलपरिवर्तन काल अप्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर है । यही अन्तर आहारक-द्विकके बन्धके निषयमें होगा । कारण, आहारकद्विकका बन्ध अप्रमत्तसंयतमें होता है । (ध० टी० अन्तरा० पृ० १७)

३०. आदेशे०-गेरहएसु पंचणा०-छदंसणा०-चारसक०-भय दुगुं०-पंचि०-ओरा-
लिय-तेजाकम्म०-ओरालिय०-अंगो०-वण्ण०४अगु०४तस०४णिमिण-तित्थय० - पंचंत० -
णत्थि अंत० । थीणगिद्धि०३ मिच्छ० अणंताणुबं०४ जह० अंतो०, उक्क०
तेत्तीसं० देखू० । सादासा० पुरिस० चदुणो० समचदु० वज्ज०रिसभसं०, पसत्थवि०
थिरादि-दोण्णि-युग०-सुभग-सुस्सर-आदे०जह० एग०, उक्क० अंतो० । इत्थिवे०-
णपुंसय०-दोगदि० पंचसंठा० पंचसं० दो आयु० (आणुपु०) अप्पसत्थवि० उज्जोवं
दूभग-दुस्सर अणादेज्ज०-णीच्चुचागो० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं० देखू० । दो

३०. आदेशसे - नारकियोंमें - पाँच ज्ञानावरण, लह दर्शनावरण, बारह कषाय, भय, जुगुप्सा, पंचेंद्रिय जाति, औदारिक-तैजस-कामण शरीर, औदारिकशरीर अंगोपांग, वर्ण चार, अगुरुलघु चार, त्रस चार, निर्माण, तीर्थकर और पाँच अन्तरायोंके बन्धका अन्तर नहीं है। स्त्यानगृद्धित्रिक, मिध्यात्व, अनन्तानुबन्धी चारका जघन्य अन्तर, अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट कुल कम तेतीस सागर है।

विशेषार्थ - यहाँ नरकगतिके आश्रयसे बध्यमान प्रकृतियोंके अन्तरका कथन किया गया है। क्षुद्रक बन्धमें इस प्रकार विशेष कथनकी विवक्षाके स्थानमें सामान्य रूपसे प्रति-पादन किया गया है। जैसे नरकगतिमें नारकी जीवोंका अन्तर कितने काल तक होता है, इस प्रश्नके उत्तरमें आचार्य जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त तथा उत्कृष्टसे अनन्तकाल असंख्यात पुद्गल परिवर्तन कहते हैं। भूतबलि स्वामी रचित सूत्र इस प्रकार है, “एग जीवेण अन्तराणुगमेण गदियाणुवादेण णिरयगदीए गेरहयाणं अंतरं केवचिरं कालादो होदि ? ॥१॥ जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥२॥ उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्जपोग्गलपरियट्ठं ॥३॥ इन पूर्वोक्त सूत्रोंपर धवलाटीकामें प्रकाश डालते हुए वीरसेन स्वामी लिखते हैं-नरकसे निकलकर गर्भोपक्रान्तिक तिर्यच जीवोंमें अथवा मनुष्योंमें उत्पन्न हो, सबसे कम आयुके भीतर नरकायुको बाँध मरण कर पुनः नरकोंमें उत्पन्न हुए नारकी जीवके नरकगतिसे अन्तर्मुहूर्त मात्र अन्तर पाया जाता है। उत्कृष्ट अन्तरके सम्बन्धमें इस प्रकार स्पष्ट किया है-नारकी जीवके नरकसे निकलकर अवि-बन्धित गतियोंमें आवलीके असंख्यातवें भाग प्रमाण पुद्गल परिवर्तन परिभ्रमण करके पश्चात् पुनः नरकोंमें उत्पन्न होनेपर सूत्रोक्त अन्तरका प्रमाण पाया जाता है।

महाबन्धमें नारकियोंमें ज्ञानावरणादिके अन्तरका अभाव कहा है। स्त्यानगृद्धि आदिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त तथा उत्कृष्ट अन्तर देशोन तेतीस सागर कहा है। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है : मोहनीय कर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई मनुष्य या तिर्यच नीचे सातवीं पृथ्वीके नारकियोंमें पैदा हुआ। छहों पर्याप्तियोंको पूर्ण कर (१) विश्राम ले (२) विशुद्ध हो (३) वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त कर अल्प आयुके शेष रहनेपर मिध्यात्वको पुनः प्राप्त हुआ, (४) पुनः तिर्यच आयुको बाँधकर (५) विश्राम लेकर (६) निकला। इस-प्रकार लह अन्तर्मुहूर्त कम तेतीस सागर प्रमाणकाल मिध्यात्वके अन्तरका है। यही अन्तर स्त्यानगृद्धित्रिक और अनन्तानुबन्धी चारका भी होगा।

साता-असाता वेदनीय, पुरुषवेद, चार नोकषाय, समचतुरस्र संस्थान, वज्रवृषभ-संहनन, प्रशस्त विहायोगति, स्थिरादि दो युगल, सुभग, सुस्वर, आदेयका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त है। स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, दो गति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, दो आयु (आनुपूर्वी), अप्रशस्त विहायोगति, उद्योत, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय, नीच, उच्च गोत्रका जघन्य

आयु० जह० अंतो०, उक्क० छम्मासं देसूणा । एवं पढमादि याव छट्ठित्ति । धुविगाणं तित्थय० णत्थि अंत० । साददंड० ओघं । णवरि मणुस० मणुसग० पाओ०-उच्चागोदं पविट्ठ० । सेसे णिरयोघं । णवरि अप्पणो ड्डीदी भाणिदच्चा । सत्तमाए पुढवीए णिरओघं । णवरि दोगदि-दो आणुपु०-दोगोदं० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं० देसूणा ।

३१. तिरिक्खेसु-पंचणा० छदंस० अड्ढक०-भय-दु०-तेजा-कम्म० वण्ण०४ अगु० उप० णिमिणं पंचरा०णत्थि अंत० । थीणगिद्धिरे मिच्छ०-अणंताणु०४ जह० अंतो०, उक्क०तिणिण पलिदोव०देसू० । एवं इत्थि० । णवरि जह०एग० ।

एक समय, उत्कृष्ट कुछ कम तेतीस सागर है । विशेष-यहाँ 'दो आयु' के स्थानमें दो आनुपूर्वी पाठ उपयुक्त लगता है, कारण दो आयुका अन्तर आगे कहा गया है । दो आयुका जघन्य अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट कुछ कम छह माह अन्तर है ।

विशेषार्थ - नारकियोंमें भुज्यमान आयुके अधिकसे अधिक छह माह और कमसे कम अन्तर्मुहूर्त शेष रहनेपर आगामी बध्यमान मनुष्य-तिर्यच आयुका बन्ध होता है । किसी जीवने छह महीने जीवन शेष रहनेपर प्रथम अन्तर्मुहूर्तमें नरकगतिमें परभवकी आयुका बन्ध किया और पश्चात् मरणसमयमें पुनः बन्ध किया । इस प्रकार उत्कृष्ट अन्तर होगा ।

इस प्रकार प्रथमसे छठी पृथिवी पर्यन्त जानना चाहिए । यहाँ ध्रुव प्रकृतियों तथा तीर्थकरका अन्तर नहीं है ।

विशेषार्थ - तीर्थकर प्रकृतिवाला जीव मिथ्यात्वसहित मरण कर मेघा नामकी तीसरी पृथ्वीसे नीचे नहीं जाता । इससे उसके बन्धका अन्तर तीसरी पृथ्वी तक जानना चाहिए, नीचेकी पृथिवियोंमें नहीं जानना चाहिए ।

सातादण्डकका ओघके समान अर्थान् जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त है । मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रमें प्रविष्टके विशेष जानना चाहिए ।

शेष प्रकृतियोंमें नारकियोंके ओघके समान है । विशेष यह है कि यहाँ प्रत्येक नरकमें अपनी-अपनी स्थितिके समान अन्तर जानना चाहिए । सातवीं पृथ्वीमें सामान्य नरकके समान अन्तर है । इतना विशेष है कि दो गति, दो आनुपूर्वी, दो गोत्रका जघन्य अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट कुछ कम तेतीस सागर अन्तर है ।

३१. तिर्यचोमें - ५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, ८ कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजस, कामर्ण, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और ५ अन्तरायोंका बन्धका अन्तर नहीं है । क्योंकि इनका निरन्तर बन्ध होता है । स्थानगुद्धित्रिक, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी ४ का जघन्य अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट कुछ कम तीन पल्य है । इसी प्रकार स्त्रीवेदका अन्तर समझना चाहिए । विशेष यह है कि यहाँ जघन्य एक समय (और उत्कृष्ट कुछ कम तीन पल्य) है ।

१. "पढमादि जाव सत्तमीए पुढवीए णेरइएमुमिच्छादिट्ठि-असंजदसम्मादिशोणमंतरं केवचिरं कालाशो होदि ? एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण सागरोवमं, तिणिण, सत्त, दस, सत्तारस, बावीस, तेत्तीसं सागरोवमाणि देसूणाणि" - पट्खं०, अन्तरा०, २८-३० ।

सादासाद-पंचणोक० पंचि० समचदु० परघादुस्सा०-पसत्थवि० तस०४ धिरादि-
दोणिण-युग०-सुभग-सुस्सर-आदेज्जा० जह० एग०, उक० अंतो० । अपच्चक्खा-
णाव०४-णपुंस०-तिरिक्खगदि-चदुजादि-ओरालिय० पंचसंठा०-ओरालि०-अंगोव०-
छसंध०-तिरिक्खाणु०-आदा०-उज्जोव अपसत्थवि०-थावरादि०४-दूभग०-दुस्सर-अणादे-
ज्ज०-णीचा०जह० एग० । अपच्चक्खाणा०४ जह० अंतो०, उक० पुव्वकोडिदेसु० ।
तिणिण आयु० जह० अंतो०, उक० पुव्वकोडितिभागं दे० । तिरिक्खायु० जह०
अंतो०, उक० पुव्वकोडि०सादिरे० । वेउव्वियळ्ळक० जह० एग०, उक० अणंतकालं-
असंखे० । मणुसग०-मणुसाणु० उच्चा०ओघं ।

३२. पंचिदिय-तिरिक्ख तिग० धुविगाणं णत्थि अंत० । धीणगिद्धि०३ मिच्छ०

विशेषार्थ - एक मनुष्य या तिर्यंच, अट्टाईस मोहनीयकी प्रकृतियोंकी सत्तावाला तीन पत्यकी आयुवाले मुर्गा, बन्दर आदिमें उत्पन्न हुआ । दो माह गर्भमें रहकर बाहर निकला । यहाँ आचार्य-परम्परागत दक्षिण-प्रतिपत्तिके अनुसार ऐसा उपदेश है कि तिर्यंचोंमें उत्पन्न हुआ जीव दो माह और मुहूर्तपृथक्त्वके ऊपर सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ । उत्तर-प्रतिपत्तिके अनुसार तिर्यंचोंमें उत्पन्न हुआ जीव तीन पक्ष, तीन दिन और अन्तर्मुहूर्तके ऊपर सम्यक्त्वको प्राप्त होता है । पश्चात् आयुके अन्तमें मिथ्यात्वको प्राप्त कर मरण किया । इस प्रकार आदिके मुहूर्तपृथक्त्वसे अधिक दो मासोंसे और आयुके अन्तमें उपलब्ध दो अन्तर्मुहूर्तोंसे न्यून तीन पल्योपम काल मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अन्तर है । (ध० टी०, अन्तरा० पृ० ३२)

साता-असाता वेदनीय, ५ नोकपाय, पंचेन्द्रिय जाति, समचतुरस्रसंस्थान, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिरादि दो युगल, सुभग, सुस्वर, आदेयका अन्तर जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त है । अप्रत्याख्यानावरण ४, नपुंसकवेद, तिर्यंचगति, चार जाति, औदारिक शरीर, ५ संस्थान, औदारिक अंगोपांग, ६ संहनन, तिर्यंचानुपूर्वा, आताप, उद्योत, अप्रशस्तविहायोगति, थावरादिचतुष्क, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और नीच-गोत्रका अन्तर जघन्य एक समय है किन्तु अप्रत्याख्यानावरण ४ का जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट कुछ कम एक कोटिपूर्व है ।

विशेषार्थ - कोई मिथ्यात्वी जीव संज्ञी पंचेन्द्रिय सम्मूर्छन पर्याप्तक एक कोटिपूर्वकी आयुवाले तिर्यंचमें उत्पन्न हुआ । छहों पर्याप्तियोंको पूर्ण कर विश्राम ले, विशुद्ध हो, वेदक सम्यक्त्व तथा संयमासंयमको प्राप्त किया । मरणसमय देशसंयमसे च्युत हो गया । इस प्रकार उसके एक कोटि पूर्वमें कुछ कम कालपर्यन्त अप्रत्याख्यानावरण ४ का अन्तर होगा ।

तीन आयुका जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर एक कोटि पूर्वके तीन भागोंमें-से कुछ कम एक भाग प्रमाण है । तिर्यंचायुका जघन्य अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट कुछ अधिक एक कोटिपूर्व अन्तर है । वैक्रियिकषट्कका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अनन्तकाल, असंख्यात पुद्गलपरिवर्तन है । मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रका ओघके समान अन्तर जानना चाहिए ।

३२. पंचेन्द्रिय-तिर्यंच, पंचेन्द्रिय-तिर्यंच-पर्याप्त, पंचेन्द्रिय-तिर्यंच-योनिमतीमें—ध्रुव प्रकृतियोंका अन्तर नहीं है, क्योंकि इनका निरन्तर बन्ध होता है । स्थानगुद्धिचक्र, मिथ्यात्व,

अणंताणु०४जह० अंतो०, इत्थिवेद०जह० एग०, उक्क० तिण्णि पलिदोव०देसू० । सादासादं० पंचणोक० देवगदि०४ पंचिदि० समचदु० परघादुस्सा०-पसत्थवि०- तसचदुरं थिरादिदोण्णि-युग०-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज उच्चा० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अपच्चखाणा०४ जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडिदेसू० । णपुंसय०तिगदि-चदुजादि- ओरालिय०-पंचसंठा०-ओरालिय०अंगो०-छस्संघ० तिण्णि आणपु०-अप्पसत्थ० आदाउज्जो०-थावरादि०४ दूभग-दुस्सर-अणादे०-णीचागो० जह० एग०, उक्क० पुव्वकोडिदे० । आयु-चत्तारि तिरिक्खोघं । पंचिदिय-तिरिक्ख-अपज्ज०-पंचणा० णवदंसं मिच्छ० सोलसं भयदु० ओरालिय-तेजाकम्म० वण्ण०४ अगु० उपघा० णिमिणं पंचंतं णत्थि अंतं । सादासादं सत्तणोक० दोगदि-पंचजादि-छस्संठाण०- ओरालिय० अंगो छस्संघ०-दोआणु० परघादुस्सा०-आदा-वुज्जो०-दोविहा०-तसादिदस- युगल-णीचुच्चा०गोदाणं जह० एग०, उक्क० अंतो० । दोआयु० जहण्णु०अंतो० । एवं सब्ब-अपज्जत्तणं तसाणं थावराणं च ।

अनन्तानुबन्धी ४ का जघन्य अन्तर्मुहूर्त तथा स्त्रीवेदका जघन्य एक समय तथा इन सबका उत्कृष्ट कुछ कम ३ पल्य अन्तर है ।

विशेषार्थ - मोहनीय कर्मकी २८ प्रकृतियोंकी सत्ता रखनेवाले तिर्यंच अथवा मनुष्य तीन पल्योपमकी आयुवाले पंचेन्द्रिय तिर्यंचत्रिक कुक्कुट, मर्कट आदिमें उत्पन्न हुए वा दो माह गर्भमें रहकर निकले । मुहूर्तपृथक्त्वसे विशुद्ध होकर वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त हुए और आयुके अन्तमें आगामी आयुको बाँधकर मिथ्यात्वसहित मरण किया । पुनः इस प्रकार दो अन्तर्मुहूर्तोंसे तथा मुहूर्तपृथक्त्वसे अधिक दो मासोंसे न्यून तीन पल्योपम काल तीनों प्रकारके तिर्यंच मिथ्यादृष्टियोंका उत्कृष्ट अन्तर होता है । यही अन्तर मिथ्यात्व आदि-का भी है ।

साता-असाता वेदनीय, ५ नोकपाय, देवगति ४, पंचेन्द्रिय जाति, समचतुरस्रसंस्थान, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तविहायोगति, त्रस ४, स्थिरादि दो युगल, सुभग, सुस्वर, आदेय, और उच्चगोत्रका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त है । अप्रत्याख्यानावरण ४ का जघन्य अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट कुछ कम पूर्व कोटि अन्तर है ।

नपुंसकवेद, देवगतिके बिना ३ गति, ४ जाति, औदारिक शरीर, पाँच संस्थान, औदारिक अंगोपांग, छह संहनन, ३ आनुपूर्वी, अप्रशस्तविहायोगति, आताप, उद्योत, स्थावरादि ४, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्रका जघन्य अन्तर एक समय, उत्कृष्ट कुछ कम पूर्वकोटि है । चार आयुका तिर्यंचोंके औघ समान है ।

पंचेन्द्रिय तिर्यंच लब्धपर्याप्तकमें-५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १६ कपाय, भय, जुगुप्सा, औदारिक-तैजस-कार्माण शरीर, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पंच अन्तरायोंका अन्तर नहीं है । साता-असाता वेदनीय, ७ नोकपाय, २ गति (मनुष्य-तिर्यंचगति), ५ जाति, ६ संस्थान, औदारिक अंगोपांग, ६ संहनन, दो आनुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, आताप, उद्योत, दो विहायोगति, त्रसादि-दस-युगल, नीच-उच्च गोत्रका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त अन्तर है । दो आयुका जघन्य तथा उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त है ।

३३. मणुस० ३-पंचणा० छदंसण० चदुसंज० भयदुगुं० तेजाकम्म० वण्ण० ४ अगुरु०
उप० णिमिण० तिक्खय० पंचंत० जहणु० अंतो० । थीणगिद्धितिग-दंडओ इत्थिदंडओ
साददंडओ णपुंसदंडओ आयुदंडओ पंचिदिय-तिरिक्ख-पज्जत्तभंगो । णवरि मणुसा०
जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडिसादि० । आहारदुगं जह० अंतो०, उक्क० पुव्व-
कोडिपुध० ।

सभी अपर्याप्तक व्रस-स्थावरौका इसी प्रकार अन्तर समझना चाहिए ।

विशेषार्थ—सामान्य कथनकी अपेक्षा निर्यचौका अन्तर जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त तथा उत्कृष्टसे सागरोपम-शत-पृथक्त्व कहा है । खुदाबंधकी टीकामें लिखा है तिरिक्खस्स तिरिक्खेहिंतो णिग्गयस्स सेसागदीसु सागरोवमसदपुधत्तादो उवरि अवट्टाणाभावादो (पृ० १८२)—निर्यच जीवके निर्यचौमें-से निकलकर शेष गतियोंमें सागरोपमशत पृथक्त्व कालसे ऊपर ठहरनेका अभाव है ।

३३. मनुष्य-सामान्य, मनुष्यपर्याप्तक, मनुष्यनीमें-५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, ४ संज्ञलन, भय, जुगुप्सा, तैजस-कामण वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघान, निर्माण, तीर्थकर और ५ अंतरायोंका जघन्य, उत्कृष्ट अन्तर अंतर्मुहूर्त है । स्यान्गुद्धिचिक-दंडक, स्त्रीदंडक, सातादंडक, नपुंसकदंडक, आयुदंडकमें पंचेन्द्रिय-निर्यच-पर्याप्तकके समान अंतर है । विशेष मनुष्यायुका जघन्य अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट साधिक पूर्वकोटि है ।

आहारकद्विकका जघन्य अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट पूर्वकोटिपृथक्त्व है ।

विशेषार्थ—२८ मोहनीयकी प्रकृतियोंको सत्तावाला अन्य गतियोंसे आकर कोई जीव मनुष्य हुआ । गर्भको आदि लेकर ८ वर्षका हुआ । सम्यक्त्व एवं अप्रमत्त गुणस्थानको एक साथ प्राप्त हुआ । (१) पुनः प्रमत्तचयत हो अंतरको प्राप्त हुआ और ४८ पूर्वकोटियाँ परिभ्रमण कर अंतिम पूर्वकोटिमें देवायुको बाँधता हुआ अप्रमत्तचयत हो गया । (२) इस प्रकार अंतर प्राप्त हुआ । तत्पश्चात् प्रमत्तचयत होकर (३) मरा और देव हुआ । ऐसे तीन अंतर्मुहूर्तोंसे अधिक आठ वर्षोंसे कम ४८ पूर्वकोटियाँ उत्कृष्ट अंतर होता है । (ध० टी०, अंत०, पृ० ५२)

आहारकद्विकके बंधक अप्रमत्तगुणस्थानवर्ती होते हैं । इस कारण यह वर्णन-क्रम उसमें भी सुघटित है ।

‘खुदाबंधमें मनुष्यों तथा पंचेन्द्रिय-निर्यचौका जघन्य अंतर क्षुद्रभवग्रहण काल तथा उत्कृष्ट अंतर असंख्यातपुद्गल परिवर्तन प्रमाण अनंतकाल कहा है । सूत्रोंके शब्द इस प्रकार हैं— “पंचिदियतिरिक्खा पंचिदियतिरिक्खपज्जत्ता पंचिदियतिरिक्खजोगिणी पंचिदिय-तिरिक्खअपज्जत्ता मणुसगदीप मणुस्सा मणुसपज्जत्ता मणुसिणी मणुसअपज्जत्ताणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? जहणणेण खुदाभवगहणं । उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्जा पोग्गलपरियट्ठा” (सूत्र ८, ६, १०, पृष्ठ १८६, १६०) ।

१. संजदासंजदप्पहडि जाव अप्पमत्तसंजदाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? णाणाजीवं पडुच्च णदिय अंतरं णिरंतरं । एगजीवं पडुच्च जहणणेण अंतोमुहत्तं, उक्कस्सेण पुव्वकोडिपुधत्तं । सूत्र ६७, ६८, ६९, अंत०, पृ० ५२ । उत्कपेण पूर्वकोटिपृथक्त्वानि । स० सि०, १, ८ ।

३४. देवेसु—पंचणा० छदंसणा० बारसक० भयदुगुं० ओरालिय-तेजाक० वण्ण०-
 ४ अगु०४ बादर-पज्जत्त-पत्तेय०णिमिणं तित्थय०पंचंतरा०णत्थि अंत० । थीण-
 गिद्धितिगं मिच्छत्तं अणंताणु०४ जह० अंतो० । इत्थि० णवुंसक० पंचसंठा० जह०
 एग०, उक्क० अट्टारस-सा० सादिरेगाणि । एइंदिय-आदाव-थाव०जह० एग०, उक्क०
 बेसाग० सादिरे०। एवं सव्वदेवेसु अप्पणो द्विदिअंतरं कादव्वं । एइंदिएसु पंचणा०
 णवदंस० मिच्छत्तं सोलस० भयदुगुं० ओरालियतेजाक० वण्ण०४ जह० एग०, उक्क०
 अंतो० । *दोआयु० णिरयभंगो० । तिरिक्खगदि--तिरिक्ख० उज्जो० जह० एग०,
 उक्क० अट्टारससा०सादिरेगाणि । एइंदिय-आदाव-थाव० जह० एग०, उक्क० बे साग०
 सादिरे० । एवं सव्वदेवेसु अप्पणोद्विदि अंतरं कादव्वं ।*

३४. देवोंमें—५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, १२ कषाय, भय, जुगुप्सा, औदारिक-
 शरीर, तैजस-कामण शरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु ४, बादर, पर्याप्तक, प्रत्येक, निर्माण,
 तीर्थकर और ५ अन्तरायोंका अन्तर नहीं है। स्थानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबंधी४
 का जघन्य अंतर्मुहूर्त है। स्त्रीवेद, नपुंसकवेद तथा पाँच संस्थानका जघन्य अंतर एक समय,
 उत्कृष्ट साधिक १८ सागर है। एकेन्द्रिय, आताप और स्थावरका जघन्य एक समय अंतर
 है, उत्कृष्ट कुछ अधिक दो सागर है। इसी प्रकार सम्पूर्ण देवोंमें अपनी-अपनी स्थितिका अंतर
 लगाना चाहिए।

विशेषार्थ—सौधर्म-ईशान स्वर्ग पर्यन्त एकेन्द्रिय, आताप तथा स्थावर प्रकृतियोंका
 बन्ध होता है। इनके बन्धका अन्तर देवगतिकी अपेक्षा साधिक दो सागर उक्त स्वर्ग-
 युगलकी अपेक्षा है।

दो आयुका नरकगतिके समान अन्तर है, जो जघन्य अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट कुछ कम ६
 माह है। तिर्यचगति, तिर्यचगत्यानुपूर्वी, उद्योतका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट साधिक १८
 सागर है।

विशेष—शतार-सहस्रार स्वर्ग पर्यन्त तिर्यचगति, तिर्यचानुपूर्वी, तथा उद्योतका बन्ध
 होता है। इन स्वर्ग-युगलमें आयु साधिक १८ सागर प्रमाण कही है। इस दृष्टिसे यहाँ
 बन्धका अन्तर कहा है।

सुहाबन्धमें देवगति सामान्यको लक्ष्य कर यह कथन किया गया है— देवोंका जघन्य
 अन्तर अन्तर्मुहूर्त है “जहणणे अंतोमुहुत्तं” सूत्र १२। इस पर ध्वला टीकामें यह स्पष्टीकरण
 किया गया है, देवगतिसे आकर गर्भापक्रान्तिक पर्याप्त तिर्यचों व मनुष्योंमें उत्पन्न होकर
 पर्याप्तियाँ पूर्ण कर देवायु बाँध पुनः देवोंमें उत्पन्न हुए जीवके देवगतिसे अन्तर्मुहूर्त मात्र अन्तर
 पाया जाता है। (क्षु० २,७ पृ० १६०) इस कथनसे यह स्पष्ट होता है कि कोई-कोई जीव
 अल्पायु युक्त मनुष्य होनेसे गर्भावस्थामें ही मरण कर मंदकषायवश देवगतिको प्राप्त करते हैं।

देवोंका उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल असंख्यात, पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है, उक्कस्सेण
 अणंतकालमसंखेजा पोगलपरियट्ठा, “कारण ध्वला टीकामें लिखा है, देवगतिसे चयकर
 शेष तीन गतियोंमें अधिकसे अधिक आवलीके असंख्यातवें भाग मात्र पुद्गलपरिवर्तन

* एतच्चिह्नान्तर्गतः पाठोऽधिकः प्रतिभाति ।

परिभ्रमण कर पुनः देवगतिमें आगमन करनेमें कोई विरोध नहीं आता” (पृ० १९१) । भवन-त्रिक तथा सौधर्य ईशान स्वर्गोंमें पूर्वोक्त अन्तर है । सनत्कुमारादिमें इस प्रकार अन्तर कहा है: ‘सणक्कुमार-माहिंदाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि? जहण्णेण मुहुत्तपुधत्तं । उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्जपोगलपरियट्ठं” । इस सूत्रकी व्याख्या करते हुए धवला टीकाकार कहते हैं; “तिर्यच या मनुष्यायुको बाँधनेवाले सनत्कुमार-माहेन्द्र देवोंके तिर्यच व मनुष्य मत सम्बन्धी जघन्य स्थितिका प्रमाण मुहूर्त-पृथक्त्व पाया जाता है । इसी मुहूर्त-पृथक्त्व प्रमाण जघन्य तिर्यच व मनुष्यायुको बाँधकर तिर्यचों वा मनुष्योंमें उत्पन्न होकर परिणामोंके निमित्तसे पुनः सनत्कुमार-माहेन्द्र देवोंकी आयु बाँधकर सनत्कुमार-माहेन्द्र देवोंमें उत्पन्न हुए जीवोंका मुहूर्त पृथक्त्वप्रमाण जघन्य अन्तर होता है, ऐसा सूत्र-द्वारा बतलाया गया है ।

आगेका सूत्र इस प्रकार है: ‘बम्ह-बम्हुत्तर-लांतवकाविट्ठ-कप्पवासियदेवाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि? जहण्णेण दिवसपुधत्तं’ सूत्र १८, १६

शंका - दिवस पृथक्त्वकी आयुमें तो तिर्यच व मनुष्य गर्भसे भी नहीं निकल पाते और इसलिए उनमें अणुव्रत व महाव्रत भी नहीं हो सकते । ऐसी अवस्थामें वे दिवस पृथक्त्वमात्रकी आयुके पश्चात् पुनः देवोंमें कैसे उत्पन्न हो सकते हैं ।

समाधान - परिणामोंके निमित्तसे दिवस-पृथक्त्वमात्र जीवित रहनेवाले तिर्यच व मनुष्य पर्याप्तक जीवोंके देवोंमें उत्पन्न होनेमें कोई विरोध नहीं आता ।

शुक्र, महाशुक्र, शतार, सहस्रार स्वर्गवासी देवोंका देवगतिसे जघन्य अन्तर “जहण्णेण पक्खपुधत्तं”- पक्षपृथक्त्व कहा है । आनतादिका जघन्य अन्तरवाला सूत्र इस प्रकार है- “आणद-पाणद आरण-अञ्चुदकप्पवासियदेवाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि? जहण्णेण मास-पुधत्तं” - सूत्र २४-२५ । इसपर भाष्यकार महत्त्वपूर्ण शंका उत्पन्न कर समाधान भी करते हैं ।

शंका - जब आनत आदि चार कल्पवासी देव मनुष्योंमें उत्पन्न होते हैं, तब मनुष्य होकर भी वे गर्भसे आठ वर्ष व्यतीत हो जानेपर अणुव्रत व महाव्रतोंको ग्रहण करते हैं । अणुव्रतों व महाव्रतोंको ग्रहण न करनेवाले मनुष्योंकी आनतादि देवोंमें उत्पत्ति ही नहीं होती; क्योंकि वैसा उपदेश नहीं पाया जाता । अतएव आनत आदि चार देवोंका मास पृथक्त्व अन्तर कहना युक्त नहीं है । उनका अन्तर वर्ष पृथक्त्व होना चाहिये ?

समाधान - शंकाका समाधान इस प्रकार है - अणुव्रत व महाव्रतोंसे संयुक्त ही तिर्यच व मनुष्य (तिरिक्ख-मणुस्सा) आनत-प्राणत देवोंमें उत्पन्न हों, ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेपर तो तिर्यच असंयत-सम्यग्दृष्टि जीवोंका जो छह राजू स्पर्शन बतलानेवाला सूत्र है, उससे विरोध उत्पन्न हो जायेगा । (देखो, षट्खंडागम, जीवट्टाण, स्पर्शानुगम सूत्र २८, पुस्तक ४, पृ० २०७)

आनत-प्राणत कल्पवासी असंयतसम्यग्दृष्टिदेव जब मनुष्यायुकी जघन्य स्थिति बाँधते हैं, तब वे वर्ष पृथक्त्वसे कमकी आयु-स्थिति नहीं बाँधते हैं, क्योंकि महाबन्धमें जघन्य-स्थितिबन्धके कालविभागमें सम्यग्दृष्टि जीवोंकी आयुस्थितिका प्रमाण वर्ष पृथक्त्वमात्र प्ररूपित किया गया है । सोधम्मीसाणे आयु० जह० ट्टिदि० अंतो०, अंतोमु० आवा० । सणक्कुमारमाहिंदे मुहुत्त-पुधत्तं; बम्ह-बम्हुत्तर-लांतव-काविट्ठ० दिवसपुधत्तं । सुक्क-महासुक्क-सदारसहस्सार-कप्प० पक्खपुधत्तं, आणद-पाणद-आरणञ्चुद० मासपुधत्तं, उवरि सव्वाणं वासपुधत्तं । सव्वत्थ अंतो० आवा० ॥ आभिणि० सुद ओधि-खचगपगदीणं ओघं । मणुसायु० जह० ट्टिदि० वास-पुघं, अंतो०, आवा० । महाबन्ध ताम्रपत्रप्रति, स्थिति बन्धाधिकार, पृ० ७२, ८० । अतः

३५. एइंदिएसु-पंचणा० णवदंस० मिच्छत्तं० सोलस० भयदुगुं० ओरालिय-
तेजाक० वण्ण०४ अगु० उप० णिमिणं पंचंत० णत्थि अंत० । सादासाद-सत्तणोक०
तिरिक्खगदि-पंचजादि० छस्संठा० ओरालिय० अंगोवं-छस्संघ० तिरिक्खाणु०
परघादुस्सासं आदावुज्जो० दोविहाय० तसादि-दसयुगलं णीचा० जह० एग०, उक्क०
अंतो० । तिरिक्खायु० जह० अंतो०, उक्क० बावीसवस्ससहस्साणि सादिरे० । मणुसायु०
जह० अंतो०, उक्क० सत्तवस्ससहस्साणि सादि० । मणुसगदि-मणुसाणु० उच्चागो०
जह० एग०, उक्क० असंखेज्जा लोगा । बादरेसु अंगुलस्स असंखे० । बादरपज्जत्ते०
संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । सुहुमे असंखेज्जा लोगा । सुहुम पज्जत्ते जह० एग०,

आनत-प्राणत कल्पवासी (आणद-पाणद-मिच्छाइट्टिस्स) मिथ्यावृष्टि देवके मासपृथक्त्वमात्र मनुष्यायु बाँधकर फिर मनुष्योंमें उत्पन्न हो मास पृथक्त्व जीवित रहकर पुनः अन्तर्मुहूर्तमात्र आयुवाले संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचसम्मूर्छन पर्याप्त जीवोंमें उत्पन्न होकर संयमासंयम ग्रहण करके आनतादि कल्पोंकी आयु बाँधकर वहाँ उत्पन्न हुए जीवके सूत्रोक्त मास-पृथक्त्व प्रमाण जघन्य अन्तर होता है, ऐसा कहना चाहिए ।

नवप्रैवेयक विमानवासियोंका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त तथा उत्कृष्ट अन्तर “उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्जाणुगलपरियट्टं ॥२६॥” अन्तकाल असंख्यात पुद्गलपरिवर्तन रूप है । अनुदिशादि अपराजित पर्यन्त विमानवासियोंका जघन्य अन्तर ‘जहण्णेव वासपुधत्तं’ ॥ ३१ ॥ कहा है । “उक्कस्सेण वे सागरोपमाणि सादिरेयाणि” ॥३२॥ उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो हजार सागरोपम है । इस विषयमें धवलाटीकामें इस प्रकार खुलासा किया गया है — अनुदिशादि देवके पूर्वकोटिकी आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न होकर एक पूर्व कोटि तक जीकर सौधर्म-ईशान स्वर्गको जाकर वहाँ अढ़ाई सागरोपमकाल व्यतीत कर पुनः पूर्वकोटिकी आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न होकर संयमको ग्रहण कर अपने-अपने विमानमें उत्पन्न होनेपर उनका अन्तरकाल साधिक दो सागरोपम प्रमाण प्राप्त होता है । (पृष्ठ १६७)

सर्वार्थसिद्धिसे चयकर एक ही भवमें मुक्ति होती है, अतः वहाँ अन्तरका अभाव सूचक यह सूत्र कहा है—“सव्वट्टसिद्धि-विमाणवासियदेवाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? णत्थि अन्तरं णिरंतरं” ॥३४॥ सु०, पृ० १९७॥

३५. एकेन्द्रियोंमें—५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १६ कपाय, भय, जुगुप्सा, औदारिक-तैजस-कार्मण शरीर, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरार्योंका अन्तर नहीं है । साता-असाता वेदनीय, ७ नोकषाय, तिर्यचगति, पंच जाति, ६ संस्थान, औदारिक शरीरांगोपांग, ६ संहनन, तिर्यचानुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, आताप, उद्योत, दो विहायोगति, त्रसादि दसयुगल और नीचगोत्रका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त है । तिर्यचायुका जघन्य अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट २२ हजार वर्ष कुछ अधिक अन्तर है । मनुष्यायुका जघन्य अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट कुछ अधिक ७ हजार वर्ष है । मनुष्यगति, मनुष्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट असंख्यात लोक है । बादरोंमें अंगुलका असंख्यातवाँ भाग अन्तर है । बादर पर्याप्तकमें संख्यात हजार वर्ष है । सूक्ष्ममें असंख्यात लोक है । सूक्ष्मपर्याप्तकमें जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त है ।

उक्त० अंतो० । एवं पुढ० आउ० वणप्फदिका०-बादरवणप्फदि-पत्तेय-णियोदाणं च अप्पणो-योमेहि० । णवरि मणुसगदितिगं सादभंगो । तिरिक्खायु० जह० अंतो०, उक्त० वावीसं वस्ससहस्साणि, सत्त वस्ससहस्साणि, दस वस्ससहस्साणि सादि० । णियोदाणं अंतो० । मणुसायु० जह० अंतो०, उक्त० सत्त वस्ससहस्साणि, वे वस्ससहस्साणि तिण्णि वस्ससहस्साणि सादि० । णियोदाणं जहण्णु० अंतो० । तेउ० वाउ० एइंदियभंगो । णवरि मणुसगदिचदुक्कं वज्जं । तिरिक्खगदितिगं धुवभंगो कादव्वो । तिरिक्खायुगं जह० अंतो०, उक्त० तिण्णि रादिदियाणि, तिण्णि वस्ससह-

पृथ्वीकाय, अष्काय, वनस्पतिकाय, बादर वनस्पति, प्रत्येक तथा निगोद जीवोंका अपने-अपने योग्य अन्तर जानना चाहिए। इतना विशेष है कि मनुष्यगति-त्रिकमें सातके समान भंग जानना चाहिए। तिर्याचायुका जघन्य अन्तर्मुहूर्त है, उत्कृष्ट साधिक बाईस हजार वर्ष, साधिक सात हजार वर्ष, साधिक दस हजार वर्ष तथा निगोदियोंमें अन्तर्मुहूर्त अन्तर है।

विशेष—खर पृथ्वीकायिकोंमें बाईस हजार, अष्कायिकोंमें सात हजार, वनस्पतिकायिकोंमें दस हजार और निगोदिया जीवोंकी अन्तर्मुहूर्त आयुको लक्ष्यमें रखकर तिर्याचायुका अन्तर कहा गया है।

मनुष्यायुका अन्तर जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट साधिक सात हजार वर्ष, साधिक दो हजार वर्ष और साधिक तीन हजार वर्ष है। निगोदियोंका जघन्य-उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। तेजकाय, वायुकायमें एकेन्द्रियके समान अन्तर जानना चाहिए। विशेष यह है कि यहाँ मनुष्यगतिचतुष्कको नहीं ग्रहण करना चाहिए। यहाँ तिर्याचगतित्रिकका ध्रुव भंग जानना चाहिए। तिर्याचायुका जघन्य अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट साधिक तीन रात्रि-दिन और साधिक तीन हजार वर्ष अन्तर है।

विशेषार्थ—खुदाबन्धमें एकेन्द्रियोंका अन्तर 'जहणणेण खुदाभवगगहणं'—जघन्यसे क्षुद्रभवग्रहण काल प्रमाण है। "उक्कस्सेण बेसागरोवमसहस्साणि पुव्वकोडिपुधसेणब्भियाणि" (सूत्र ३७, टीका, पृ० १९८) उत्कृष्टसे पूर्वकोटि पृथक्त्वसे अधिक दो हजार सागरोपम एकेन्द्रिय जीवोंका अन्तर है। इसपर धवला टीकामें इस प्रकार प्रकाश डाला गया है : एकेन्द्रिय जीवोंमें-से निकलकर केवल त्रसकायिक जीवोंमें ही भ्रमण करनेवाले जीवके पूर्वकोटि पृथक्त्वसे अधिक दो हजार सागरोपममात्र स्थितिसे ऊपर त्रसकायिकोंमें रहनेका अभाव है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इस कालके व्यतीत होनेपर जीवको एकेन्द्रिय पर्याय धारण करनी पड़ेगी। एकेन्द्रिय पर्यायसे निकलकर यह जीव पुनः त्रसपर्यायको प्राप्त कर सकता है, किन्तु एकेन्द्रिय पर्यायमें पहुँचनेके पश्चात् त्रसपर्यायको प्राप्त करना शास्त्रकारोंने अत्यन्त कठिन बताया है। यदि जीवका संसार परिभ्रमण निकट आ चुका है, तो वह क्षुद्रभवग्रहण कालके पश्चात् पुनः त्रसपर्यायको प्राप्त कर सकता है। द्वीन्द्रियादिके जघन्य

१. "तत्र पृथ्वीकायिकाः द्विविधाः, शुद्धपृथ्वीकायिकाः खरपृथ्वीकायिकाश्चेति । तत्र शुद्धपृथ्वीकायिकानामुत्कृष्टा स्थितिर्द्वादशवर्षसहस्राणि । खरपृथ्वीकायिकानां द्वात्रिंशतिवर्षसहस्राणि । वनस्पतिकायिकानां दशवर्षसहस्राणि । अष्कायिकानां सप्तसहस्राणि, वायुकायिकानां त्रीणि वर्षसहस्राणि । तेजःकायिकानां त्रीणि रात्रिदिवानि ।" — त० रा०, पृ० १४६ ।

स्साणि सादरयाणि । विगलिदियेसु एइंदियभंगो । णवरि मणु .।।देतिगं सादभंगो । तिरिक्खायुं जह० अंतो०, उक्क० वारसवस्ससहस्साणि (वारसवस्साणि) एगूणवण्णं रादिंदियाणि छम्मासाणि सादिरे० । मणुसायुं जह० अंतो०, उक्क० चत्तारि वस्साणि देसु०, सोलस रादिं० सादिरे०, बे मासाणि देसु० ।

३६. पंचिदिय-तस-तेमिं चैव पज्जत्ता० पंचणा० छदंसणा० सादासा० चदुसंज० सत्तणोक० पंचिदिं० तेजाक० समचदुं वण्ण०४ अगुं४ पसत्थ० तस०४ थिरा-दिदोणियुग०-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-णिमिणं तित्थयं० पंचंत० जह० एगं, उक्क० अंतो० । णवरि णिदापचलाणं जहणुं० अंतो० । थीणगिद्धि३ मिच्छं० अणंताणुं०४

उत्कृष्ट अन्तरको इन सूत्रों-द्वारा कहा गया है—“बीइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदिय-पंचिंदियाणं तस्सेव पज्जत्त-अपज्जत्ताणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण खुदाभवग्गहणं, उक्क-स्सेण अणंतकालमसंखेज्जपोगलपरियट्टं ॥ ४४, ४५, ४६ ॥” द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जीवोंका तथा उन्हींके पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंका अन्तर कितने काल तक होता है ? कमसे कम क्षुद्रभवग्रहण काल तक अन्तर होता है, उत्कृष्टसे अनन्तकाल, असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण अनन्तकाल तक उक्त द्वीन्द्रियादि जीवोंका अन्तर होता है। इस सम्बन्धमें वीरसेन स्वामीका कथन है कि विवक्षित इन्द्रियोंवाले जीवोंमें-से निकलकर अविवक्षित एकेन्द्रिय आदि जीवोंमें आवलीके असंख्यातवें भाग पुद्गल परिवर्तनरूप भ्रमण करनेसे कोई विरोध नहीं आता (खु० बं०, पृ० २०१-२०२) ।

विकलत्रयमें एकेन्द्रियके समान अन्तर है। यहाँ इतना विशेष है कि मनुष्यगतत्रिक-का साताके समान भंग है। तिर्यचायुका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट साधिक वारह वर्ष, साधिक उनचास रात्रि-दिन, साधिक छह मास अन्तर है। मनुष्यायुका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट देशोन चार वर्ष, कुछ अधिक सोलह रात्रि-दिन तथा कुछ कम दो माह अन्तर है।

३६. पंचेन्द्रिय, त्रसकाय तथा उनके पर्याप्तकोंमें—५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, साता, असाता वेदनीय, ४ संज्यलन, ७ नोकपाय, पंचेन्द्रियजाति, तैजस, कर्मणा; समचतुरस्र संस्थान, वर्ण ४, अगुरुलघु ४, प्रशस्त विहायोगति, त्रस ४, स्थिरादि २ युगल, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थकर और पाँच अन्तरायोंका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त है। विशेष, निद्रा, प्रचलाका जघन्य उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त है, स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानु-

१. “द्वीन्द्रियाणामुत्कृष्टा स्थितिर्द्वादशवर्षा; त्रीन्द्रियाणां एकात्रपञ्चाशद्रात्रिदिवानि, चतुरिन्द्रियाणां षण्मासाः ।” —त० रा०, पृ० १४६ ।

२. “पंचिदिय-पंचिदियपज्जत्तएमुं सासणसम्मदिट्ठि-सम्मामिच्छादिट्ठोणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? एगजीवं पडुच्च जहण्णेण पलिदोवमस्स अंतखेजादिभागो, अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण सागरोवमसहस्साणि पुव्वकोडिपुत्तेणम्भहियाणि सागरोवमसदपुधत्तं । अमंजदसम्मदिट्ठिपट्ठिडि जाव अपमत्तमंजराणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं । उक्कस्सेण सागरोवमसहस्साणि पुव्वकोडिपुत्तेणम्भ-हियाणि सागरोवमसदपुधत्तं ।” —पट्खं०, अंतरा०, सूत्र ११४-१२१ ।

इत्थिवे० अंतो० । इत्थि० [जह०] एगस० उक्क० बे छावड्डिसागरो० सादिरे०
 देसू० । अड्डक० जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडिदेसू० । णपुंस० पंचसंठा० पंचसंध०
 अप्पसत्थ० दूमग-दुस्सर-अणादे० णीचा० जह० एग०, उक्क० बे छावड्डि० सादिरे०,
 तिण्णि पलिदोव० देसू० । तिण्णि आयु० जह० अंतो०, उक्क० सागरोपमसदपु० ।
 मणुसायु० जह० अंतो०, उक्क० सागरोपमसहस्साणि० पुव्वकोडिपुधत्तेणमदियणि ।
 पज्जत्ते सागरोपमसदपु० । तसेसु-तिण्णि-आयु० जह० अंतो०, उक्क० सागरोपमसदपुध० ।
 मणुसायु० जह० अंतो०, उक्क० बेसागरोवमसह पुव्वकोडिपु० । पज्जत्ते बेसागरोपम०
 देसू० । णिरयगदि चदुजादि-णिरयाणुपुव्वि-आदाव-थावरादि०४ जह० एग० उक्क०
 पंचासीदि-सागरोपमसदं । तिरिक्खगदि-तिरिक्खग०पाओ० उज्जोव० जह० एग०,
 उक्क० तेवड्डिसागरोवमसदं । मणुस० मणुसाणु० उच्चा० देवगदि०४ जह० एग०, उक्क०
 तेत्तीसं साग० सादिरे० । ओरालि० ओरालि० अंगो वज्जरिसभसंध० जह० एग०,
 उक्क० तिण्णि पलिदो० सादिरे० । आहारदुग० जह० अंतो०, उक्क० सगट्टिदी० ।

बन्धी ४ और श्रीवेदका जघन्य अन्तर्मुहूर्त हैं । विशेष—श्रीवेदका [जघन्य] एक समय है
 तथा इन सबका साधिक दो छयासठ सागरमें किंचित् न्यून उत्कृष्ट अन्तर है । आठ कपाय-
 का जघन्य अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट कुछ कम पूर्वकोटि है । नपुंसकवेद, ५ संस्थान, ५ संहनन,
 अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भंग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्रका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट
 साधिक दो छयासठ सागर कुछ कम तीन पत्य प्रमाण है । तीन आयुका जघन्य अन्तर्मुहूर्त
 और उत्कृष्ट सागर शतप्रथक्त्व है । मनुष्यायुका जघन्य अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट सहस्रसागरोपम
 पूर्वकोटि प्रथक्त्व अधिक है । पर्याप्तकोंमें सागर शतप्रथक्त्व है । त्रसोंमें—तीन आयुका
 जघन्य अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट सागरोपम शतप्रथक्त्व अन्तर है । मनुष्यायुका अन्तर
 जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्टसे दो हजार सागरोपम पूर्वकोटि प्रथक्त्वसे अधिक है ।
 पर्याप्तकोंमें दो हजार सागरोपममें कुछ कम अन्तर है । नरकगति, ४ जाति, नरकानुपूर्वी,
 आताप, स्थावरादि ४ का जघन्य एक समय, उत्कृष्ट एकसौ पचासी सागरोपम है । तिर्यच-
 गति, तिर्यचानुपूर्वी और उद्योतका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट एकसौ त्रैसठ सागरोपम है ।
 मनुष्यगति, मनुष्यानुपूर्वी, उच्चगोत्र, देवगतिचतुष्कका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट साधिक
 तेत्तीस सागर है । औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, वज्रवृषभ संहननका जघन्य एक
 समय, उत्कृष्ट साधिक तीन पत्य अन्तर है । आहारकट्टिकका जघन्य अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट
 अपनी स्थिति प्रमाण अन्तर है ।

(१) "तसकाइय-तसकाइयपज्जत्तएमु" सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छादिद्विणमंतरं केवचिरं कालादो
 होदि ? एगजीवं पडुच्च जहण्णेण पलिदोवस्स असंखेज्जदिभागे, अंतोमुहत्तं, उक्कस्सेण बे सागरोवमसहस्साणि
 पुव्वकोडि-पुधत्तेणमदियणि बे सागरोवमसहस्साणि देसूणाणि, असंजदसम्मदिद्विप्पहुडि जोव अप्पमत्त
 संजदाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहत्तं, उक्कस्सेण बे सागरोवम-
 सहस्साणि पुव्वकोडिपुधत्तेणमदियणि, बे सागरोवमसहस्साणि देसूणाणि ।"— षट्खं०, अंतरा०,
 सूत्र १३६-१४५ ।

३७. पंचमण० पंचवचि०-पंचणा० णवदंस० मिच्छ० सोलस० भयदुगुं०
चदुआयु० तेजाकम्म० आहारदुग० वण्ण०४ अगु० उपघा०-णिमिणं तित्थय० पंचंत०
णत्थि अंत० । सेसाणं जह० एग०, उक्क० अंतो० । कायजोगीसु-पंचणा० छदंसणा०

३७. पाँच मनोयोग, पाँच वचनयोगमें - ५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, मिध्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, ४ आयु, तैजस, कर्मण; आहारकट्टिक, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण, तीर्थंकर और ५ अन्तराथोंका अन्तर नहीं है। शेषका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त है।

मनोयोगी, वचनयोगी जीवोंके योगोंके अन्तरपर खुदाबन्धमें यह कथन पाया जाता है, “जोगाणुवादेण पंचमणजोगि - पंचवचिजोगीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि? जहण्णेण अंतोमुहुत्तं” - सूत्र ५९-६०। योगमार्गोंके अनुसार पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी जीवोंका अन्तर कितने काल तक होता है? कमसे कम अन्तर्मुहूर्त अन्तर है। महाबन्धमें जो ज्ञानावरणादि अन्तराय पर्यन्त प्रकृतियोंके सिवाय शेष प्रकृतियोंका अन्तर उक्त योगोंमें “जह० एग०”-जघन्यसे एक समय कहा है। उसका भाव यह है कि उक्त योगोंमें बँधनेवाली प्रकृतियोंके बन्धका विरहकाल कमसे कम एक समय जानना चाहिए। भ्रुद्रकबन्धमें सामान्य अपेक्षासे योगका अन्तर बताया है। एक योगसे अन्य योगको प्राप्त करनेके पश्चात् पुनः पूर्व-योगको प्राप्त करनेमें मध्यवर्ती काल कमसे कम अन्तर्मुहूर्त होगा। धवलाटीकामें यह शंका-समाधान आया है।

शंका - इन पाँच मनोयोगी और पाँच वचनयोगी जीवोंका एक योगसे दूसरेमें जाकर पुनः उसी योगमें लौटनेपर एक समय प्रमाण अन्तर क्यों नहीं पाया जाता ?

समाधान - नहीं पाया जाता; क्योंकि जब एक मनोयोग या वचनयोगका विघात हो जाता है या विवक्षित योगवाले जीवका मरण हो जाता है, तब केवल एक समयके अन्तरसे पुनः अनन्तर समयमें उसी मनयोग या वचनयोगकी प्राप्ति नहीं हो सकती।

उक्त योगोंका उत्कृष्ट अन्तरका काल असंख्यातपुद्गल परिवर्तन प्रमाण अनन्तकाल है। सूत्रकार भूतबलि स्वामी कहते हैं-“उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्ज-पोग्गल-परियट्ट” (६१ सूत्र)। इसका स्पष्टीकरण धवला टीकामें इस प्रकार किया गया है - मनयोगसे वचन योगमें जाकर वहाँ अधिक काल तक रहकर पुनः काययोगमें जाकर और वहाँ भी सबसे अधिक काल व्यतीत करके एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होकर आबलीके असंख्यातवें भागप्रमाण पुद्गल परिवर्तन परिभ्रमण कर पुनः मनयोगमें आये हुए जीवके उक्त प्रमाण अन्तर पाया जाता है। शेष चार मनयोगी पाँच वचनयोगी जीवोंका भी इसी प्रकार अन्तर प्ररूपित करना चाहिए, क्योंकि इस अपेक्षासे उनमें कोई विशेषता नहीं है। (पृ० २०६, सु० बं०)

इस प्रकरणमें खुदाबन्धका यह कथन ध्यान देने योग्य है - “कायजोगीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि? जहण्णेण एगसमञ्ची, उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं” सूत्र ६२, ६३, ६४। काययोगी

१. “जोगाणुवादेण—पंचमणजोगि-पंचवचिजोगीसु, कायजोगि-ओरालियकायजोगीसु मिच्छादिट्ठि-असंजदसम्मदिट्ठि-संजदामंजद-पमत्त-अपमत्तसंजद-सजोगिकेवलीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि? णाणं-गजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं । सादणसम्मदिट्ठि-सम्मामिच्छादिट्ठिणमंतरं केवचिरं कालादो होदि? एगजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं । चदुग्गमुवसामगाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि? एगजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं णिरंतरं । चदुग्गं खवगाणमोघं ।”-पट्खं०, अंतरा०, सूत्र १५३, १५६-१५६।

सादासाद० चदुसंज० णवणोक० तिण्णिग०-पंचजादि-चदुसरी०-झुसंठा०-दो अंगो०-
 छसंध० वण्ण०४ तिण्णि-आणु० अगु०४ आदाबुज्जो०-दोविहा० तसादि-दस-युगल-
 णिमिणं तित्थय० णीचा० पंचत० जह० एग०, उक्क० अंतो० । थीणगिद्धि०३ मिच्छत्त०
 वारसक० दोआयु० आहारदु० णत्थि अंत० । तिरिक्खायु० जह० अंतो०, उक्क०
 वावीसवस्ससहस्साणि सादिरे० । मणुसा० ओघं० । मणुसगदितिगं ओघं० । ओरालिय०-
 पंचणा० णवदंस० मिच्छत्त० सोलसक० भयदुगुं० दो आयु० आहारदुगं० तेजाक०
 वण्ण०४ अगु० उप० णिमिणं तित्थय० पंचत० णत्थि अंत० । दो आयु० जह०
 अंतो०, उक्क० सत्तवस्ससहस्सा० सादि० । सेसाणं जह० एग०, उक्क० अंतो० । ओरा-
 लिमि०-पंचणा० णवदंस० मिच्छ० सोलक० भयदुगुं० देवगदि०४ ओरालिय-तेजाक०
 वण्ण०४ अगु० उप० णिमि० तित्थ० पंचत० णत्थि अंत० । दो आयु० जहण्णु०
 अंतो० । सेसाणं जह० एग०, उक्क० अंतो० । वेउव्वियकायजो०-पंचणा० णवदंस०
 मिच्छ० सोल० भयदुगुं० ओरालिय० तेजा० वण्ण०४ अगुरु०४ वादर-पज्जत्त-पत्तेय-
 णिमि० तित्थय० पंचत० णत्थि अंत० । सेसाणं जह० एग०, उक्क० अंतो० । एवं

जीवोंका अन्तर कितने काल तक होता है ? कमसे कम एक समय, उत्कृष्टसे अन्तर्मुहूर्त है । इसपर वीरसेन स्वामीने इस प्रकार प्रकाश डाला है— काययोगसे मनयोग और वचनयोगमें क्रमशः जाकर और उन दोनों ही योगोंमें उनके सर्वोत्कृष्ट काल तक रहकर पुनः काययोगमें आये हुए जीवके अन्तर्मुहूर्त प्रमाण काययोगका अन्तर प्राप्त होता है । जघन्य अन्तरके विषयमें धवलाटीकामें लिखा है, “काययोगसे मनयोगमें या वचनयोगमें जाकर एक समय रहकर दूसरे समयमें मरण करने या योगके व्याघातिन होनेपर पुनः काययोगको प्राप्त हुए जीवके एक समयका जघन्य अन्तर पाया जाता है ।

काययोगियोंमें—५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, साता-असाता, ४ संश्वलन, ६ नोकषाय, ३ गति, ५ जाति, ४ शरीर, ६ संस्थान, २ अंगोपांग, ६ संहनन, वर्ण ४, ३ आनुपूर्वी, अगुरु-लघु ४, आताप, उद्योत, दो विहायोगति, त्रसादि १० युगल, निर्माण, तीर्थकर, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायोंका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त है । स्थानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, १२ कषाय, देव - नरकायु और आहारद्विकका अन्तर नहीं है । तिर्याचायुका जघन्य अन्तर्मुहूर्त उत्कृष्ट साधिक बाईस हजार वर्ष है । मनुष्यायुका ओघके समान है । मनुष्यगतित्रिकका भी ओघके समान है ।

औदारिक काययोगमें—५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, देव-नरकायु, आहार द्विक, तैजस, कर्मण, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण, तीर्थकर और ५ अन्तरायोंका अन्तर नहीं है । दो आयुका जघन्य अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट साधिक सात हजार वर्ष है । शेष प्रकृतियोंका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त है ।

औदारिकमिश्र काययोगमें - ५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, देवगति चार, औदारिक, तैजस, कर्मण, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण, तीर्थकर और ५ अन्तरायोंका अन्तर नहीं है । दो आयु अर्थात् मनुष्य-तिर्याचायुको जघन्य

चेव वेउन्वियमि० । णवरि दो आयु० णत्थि । आहार० आहारमिस्स०—पंचणा०
छदंसणा० चदुसंज० पुरिस० भयदुगुं० तेजाक० देवायु० देवगदि० पंचिदि० वेउन्वि०
समचदु० वेउन्वि० अंगो० वण्ण०४ देवाणुपु० अगुरु०४ पसत्थवि० तस०४ सुभग-
सुस्सर-आदे०-णिमिणं तित्थयर० उच्चा० पंचंत० णत्थि अंत० । सादासा०-चदुणोक०-

तथा उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त है । शेष प्रकृतियोंका जघन्य एक समय और उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त है ।

औदारिक तथा औदारिक काययोगी जीवोंका अन्तर खुदाचन्द्रमें “जहण्णेण एक-
समभो उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोपमाणि सादिरेयाणि” (६५, ६६, ६७ सूत्र) जघन्यसे एक
समय, उत्कृष्टसे साधिक तेतीस सागरोपम प्रमाण है । धवला टीकामें कहा है—

शंका - औदारिकमिश्र काययोगी तो अपर्याप्त अवस्थामें होता है, जब कि जीवके
मनयोग और वचनयोग होता ही नहीं है, अतः औदारिक मिश्र काययोगका एक समय अन्तर
किस प्रकार हो सकता है ?

समाधान—नहीं, हो सकता है । औदारिक मिश्र काययोगसे एक विग्रह करके कार्माण
काययोगमें एक समय रहकर दूसरे समयमें औदारिकमिश्रमें आये हुए जीवके औदारिक-
मिश्र काययोगका एक समय अन्तर प्राप्त हो जाता है । औदारिक काययोगका उत्कृष्ट अन्तर
इस प्रकार जानना चाहिए—औदारिक काययोगसे चार मनयोगों व चार वचनयोगोंमें परि-
णमित हो मरण कर तेतीस सागरोपम प्रमाण आयु स्थितिवाले देवोंमें उत्पन्न होकर वहाँ
अपनी स्थितिप्रमाण रहकर, पुनः दो विग्रह कर मनुष्यमें उत्पन्न हो औदारिकमिश्र काययोग-
सहित दीर्घकाल रहकर पुनः औदारिक काययोगमें आये हुए जीवके नौ अन्तर्मुहूर्तों व दो
समयोंसे अधिक तेतीस सागरोपम प्रमाण औदारिक काययोगका अन्तर प्राप्त होता है ।

औदारिकमिश्र काययोगका अन्तर अन्तर्मुहूर्त कम पूर्वकोटिसे अधिक तेतीस सागरो-
पम होता है, क्योंकि नारकी जीवोंमेंसे निकलकर पूर्वकोटि आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हो
औदारिकमिश्र काययोगको प्रारम्भ कर कमसे कम कालमें पर्याप्तियोंको पूर्ण कर औदारिक
काययोगके द्वारा औदारिकमिश्र काययोगका अन्तर कर कुछ कम पूर्व कोटिकाल व्यतीत करके
तेतीस सागरकी आयुवाले देवोंमें उत्पन्न हो पुनः विग्रह करके औदारिकमिश्र काययोगमें
जानेवाले जीवके सूत्रोक्त प्रमाण अन्तर पाया जाता है । (धवला टीका, खु० बं०, पृ० २०८)

वैक्रियिक काययोगमें—५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, भय,
जुगुप्सा, औदारिक, तैजस, कर्मण शरीर, वर्ण ४, अगुरुलघु ४, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक,
निर्माण, तीर्थंकर और ५ अन्तरायोंका अन्तर नहीं है । शेषका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट
अन्तर्मुहूर्त अन्तर है । इसी प्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगका समझना चाहिए । विशेष, यहाँ
मनुष्य-तियंचायु नहीं है । आहारक और आहारकमिश्रकाययोगमें - ५ ज्ञानावरण,
६ दर्शनावरण, ४ संज्वलन, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, तैजस, कर्मण-शरीर, देवायु, देवगति,
पंचेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वैक्रियिक अंगोपांग, वणंचतुष्क,
देवानुपूर्वी, अगुरुलघु ४, प्रशस्त विहायोगति, त्रस ४, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थंकर,
उच्च गोत्र और ५ अन्तरायोंका अन्तर नहीं है । साता-असातावेदनीय, ४ नोकषाय, स्थिरादि

१. आहारककाययोगि-आहारकमिस्सकायजोगोणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण अंतोमुहुचं,
उक्कस्सेण अदपोमालपरियट्टं देसुणं ७४, ७५, ७६ सूत्र, खु० बं०, पृ० २१० ।

थिरादि-तिण्णि युग० जह० एग०, उक्क० अंतो० । कम्मइ० का०-पंचणा०
णवदंस० मिच्छ० सोलस० तिण्णिवे०-भयदु०तिण्णि ग०-पंचजा०-चदुसरी०-छस्संटा०
दोअंगो०-छस्संघ०-वण्ण०४ तिण्णि आणु०-अगुरु०४ दोविहा०-तसथावरादिचदुयुगल-
सुभादि-तिण्णियुग०-णिमि०-तित्थय० णीचुच्चा०-पंचंत० णत्थि अंत० । सादासा०
चदुणोक्क० आदावुज्जो०-थिराथिर-सुभासुभ० जस० अज्जस० जहणु० एगस० ।

३८. इत्थिवे०-पंचणा० छदंसणा० चदुसंज० भयदुगु० तेजाक० वण्ण०४
अगु० उपघा०-णिमि० तित्थय० पंचंत० णत्थि० अंत० । थीणगिद्धि०३ मिच्छ०
अणंताणु०४ जह० अंतो०, उक्क०पणवण्णं पलिदो० देसू० । सादासा० पंचणोक्क०

तीन युगलका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त है। कर्मण-काययोगियोंमें—५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १६ कपाय, ३ वेद, भय, जुगुप्सा, ३ गति (नरकगति छोड़कर), ५ जाति, ४ शरीर, ६ संस्थान, २ अंगोपांग, ६ संहनन, वर्ण ४, ३ आनुपूर्वी, अगुरुलघु ४, दो विहायोगति, त्रसस्थावरादि ४ युगल, शुभादि ३ युगल, निर्माण, तीर्थकर, नीच-उच्च गोत्र और पाँच अन्तरायोंका अन्तर नहीं है। साता-असाता वेदनीय, ४ नोकषाय, आतापे, उद्योत, स्थिर-अस्थिर, शुभ-अशुभ, यशःकीर्ति, अयशःकीर्तिका जघन्य उत्कृष्ट अन्तर एक समय है।

विशेषार्थ—कर्मणकाययोगका उत्कृष्ट काल उत्कृष्टसे तीन समय प्रमाण है। तीन समयके बीचमें अन्तरका काल एक समयसे अधिक अथवा न्यून न होगा। एक समय बन्धका होगा, एक समय अबन्धका और एक समय पुनः बन्धका। इस कारण जघन्य-उत्कृष्ट अन्तर एक समय प्रमाण कहा है।

विशेषार्थ—खुदा बन्धमें कर्मणकाययोगियोंके विषयमें ये सूत्र हैं—कम्मइयकाय-जोगीणमंतरं केवच्चिरं कालादो होदि ? जहण्णेण खुदाभघग्गहणं तिसमऊणं, उक्कस्सेण अंगुलस्स असंखेज्जादिभागे असंखेज्जासंखेज्जाओ ओसप्पिणि-उस्सप्पिणीओ (७७, ७८, ७९) कर्मणकाययोगी जीवोंका कितने काल अन्तर होता है ? जघन्यसे तीन समय कम क्षुद्रभव-ग्रहण काल अन्तर हैं, उत्कृष्टसे अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण असंख्यातासंख्यात अवसर्पिणी उत्सर्पिणी काल होता है। इस संबन्धमें धवलाटीकाकारने इस प्रकार खुलासा किया है—तीन विग्रह करके क्षुद्रभव धारण करनेवाले जीवोंमें उत्पन्न हो, पुनः विग्रह करके निकलनेवाले जीवके तीन समय कम क्षुद्रभवग्रहणमात्र कर्मण-काययोगका अन्तर प्राप्त होता है।

कर्मण-काययोगसे औदारिक मिश्र अथवा वैक्रियिकमिश्र काययोगमें जाकर असंख्यात-संख्यात अवसर्पिणी-उत्सर्पिणीप्रमाण अंगुलके असंख्यातवें भाग मात्र काल तक रहकर पुनः विग्रहगतिको प्राप्त हुए जीवके कर्मण-काययोगका सूत्रोक्त अन्तर काल पाया जाता है। (खु० भा० २ पृ० २१२-२१३)

३८. स्त्रीवेदमें—५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, ४ संज्वलन, भय, जुगुप्सा, तैजस, कर्मण, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण, तीर्थकर और ५ अन्तरायोंका अन्तर नहीं है। स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी ४ का जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट कुछ कम ५५ पल्य है।

पंचिदि० समचदु० परघादुस्सा० पसत्थ० तस०४ थिरादितिणियु० सुभग-सुस्सर-
आदे० उच्चा० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अडुक० जह० अंतो०, उक्क० पुव्व-
कोडिदेसू० । इत्थि० णवुंस० तिरिक्खग० एइंदिय० पंचसंठा० पंचसंघ० तिरि-
क्खाणु० आदावुज्जो० अपसत्थवि० थावर-दुभग-दुस्सर-अणादे० णीचा० जह० एग०,
उक्क० पणवण्णं पलिदो० देसू० । णिरयायुजह० अंतो० । उक्क० पुव्वकोडितिभागं
देसू० । तिरिक्खायु-मणुसायु जह० अंतो० । उक्क० पलिदोपमसदपुध० । देवायु०
जह० अंतो० । उक्क० अट्टावण्णं पलिदो० पुव्वकोडिपुध० । दोगदि० तिण्णि जा०
वेउन्वि० वेउक्खिय० अंगो० दोआणुपु० सुहुम-अपज्जत्त० साधार०जह०एग० उक्क०

विशेषार्थ—मोहनीयकी २८ प्रकृतियोंको सत्तावाला कोई एक पुरुषवेदी या नपुंसक-
वेदी जीव ५५ पल्योपमवाली देवीमें उत्पन्न हुआ । लहों पर्याप्तियोंको पूर्ण कर, (१) विश्राम ले
(२) विशुद्ध हो (३) वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त कर अन्तरको प्राप्त हुआ । आयुके अन्तमें आगामी
भवकी आयुको बाँधकर मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ और मरण किया । इस प्रकार कुछ कम ५५
पल्योपम स्त्रीवेदी मिथ्यादृष्टिका उत्कृष्ट अन्तर होता है । इसी प्रकार मिथ्यात्वादिका अन्तर
जानना चाहिए । (ध० टी०, अन्तरा० पृ० ६५)

साता-असाता वेदनीय, ५ नोकषाय, पंचेन्द्रियजाति, समचतुरस्र संस्थान, परघात,
उच्छ्वास, प्रशस्तविहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिरादि तीन युगल, सुभग, सुस्वर, आदेय,
उच्चगोत्रका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त है । आठ कषायोंका जघन्य अन्तर्मुहूर्त,
उत्कृष्ट कुछ कम पूर्वकोटि अन्तर है ।

विशेषार्थ—मोहनीयकी २८ प्रकृतिकी सत्तावाला कोई जीव मरण कर भाव-स्त्रीवेदी
किन्तु द्रव्य पुरुष हुआ । एक कोटिपूर्वकी आयु प्राप्त की । गर्भसे लेकर आठ वर्ष बीतनेपर
सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके साथ-साथ सकलसंयमको भी प्राप्त किया । पश्चात् संकलेशघ्न गिरकर
अप्रत्याख्यानावरण तथा प्रत्याख्यानावरणरूप ८ कषायका बन्ध करके मरण किया । इस
प्रकार अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण रूप आठ कषायोंके बन्धकका अन्तर कुछ कम
एक कोटिपूर्व कहा है ।

स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, तिर्यच गति, एकेन्द्रिय जाति, ५ संस्थान, ५ संहनन, तिर्यचानु-
पूर्वी, आताप, उद्योत, अप्रशस्तविहायोगति, स्थावर, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीच
गोत्रका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट कुछ कम ५५ पल्य प्रमाण है । नरकायुका जघन्य अन्त-
र्मुहूर्त, उत्कृष्ट कुछ कम कोटिपूर्वका त्रिभाग है । तिर्यचायु, मनुष्यायुका जघन्य अन्तर्मुहूर्त,
उत्कृष्ट पल्यशतपृथक्त्व है ।

विशेषार्थ—कोई २८ मोहकी प्रकृतियोंकी सत्तावाला जीव स्त्रीवेदी था । मरणकर
देवोंमें उत्पन्न हुआ । लहों पर्याप्तियोंको पूर्ण कर (१) विश्राम ले (२) विशुद्ध हो (३) वेदक-
सम्यक्त्वी हुआ, (४) पश्चात् मिथ्यात्वी हो गया । तिर्यच आयु अथवा मनुष्यायुका बन्ध कर
मरण किया और पल्यशत पृथक्त्व कालप्रमाण परिभ्रमण कर तिर्यचायु या मनुष्यायुका
बन्ध कर सम्यक्त्वसहित हो मरण किया । इस प्रकार असंयत सम्यक्दृष्टि स्त्रीवेदी जीवकी
अपेक्षा पल्यशत पृथक्त्व प्रमाण अन्तर होता है । (ध० टी०, अन्तरा० पृ० ९६)

देवायुका जघन्य अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट ५८ पल्योपम पूर्वकोटि पृथक्त्व है । दो गति,
तीन जाति, वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक अंगोपांग, दो आनुपूर्वी, सूक्ष्म, अपर्याप्तक, साधारणका

पणवण्णं पलिदो० सादिरे० । मणुसग० ओरालिय० ओरालिय० अंगो० वज्जरिसभ-
संघ० मणुसाणु० जह० एग०, उक्क० तिण्णि पलि० देख्ठ० । आहारदुगं जह० अंतो०,
उक्क० पलिदोवमसदपु० । पुरिस०-पंचणा० चदुदंसणा० चदुसंज० पंचंत० णत्थि
अंत० । थीणगिद्धि०३ मिच्छ० अणंताणु०४ अट्ठक० । इत्थिवे० ओघं । णिद्धापयला
ओघं । सादासा० सत्तणो० पंचिदि० तेजाक० समचदु० वण्ण०४ अगु०४ पसत्थ०
तस०४ थिरादिदोण्णियुग०-सुभग-सुस्सर-आदे० णिमि० तित्थय० उच्चा० जह०
एग०, उक्क० अंतो० । णपुंस० पंचसंठा० पंचसंघ० अप्पसत्थ० दूभग-दुस्सर०
अणादे०णीचा० जह० एग०, उक्क० वेच्चावट्ठि-सादि० तिण्णि पलिदो०देख्ठ० ।
णिरयायु० इत्थिवेदभंगो । दोआयु० जह० अंतो०, उक्क० सागरोपमसदपु० ।
देवायु० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि० । णिरयगदि-चदुजादि-णिरया-
णुपु०-आदावुज्जो०-थावरादि०४ जह० एगस० उक्क० तेवट्ठिसाग० सदं० । एवं
तिरिक्खगादिदुगं । मणुसगदिपंचगं जह० एग०, उक्क० तिण्णि पलिदो० सादि० ।
देवगदि०४ जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं सा० सादि० । आहारदुगं जह० अंतो०,
उक्क० सागरोपमसदपु० । णपुंस०-पंचणा० छदंस० चदुसंज० भयदुगुं० तेजाकम्म०
वण्ण०४ अगुरु० उप० णिमि० पंचंत० णत्थि अंत० । थीणगिद्धि०३ मिच्छ० अणं-

जघन्य एक समय, उत्कृष्ट कुल अधिक ५५ पत्य अन्तर है। मनुष्यगति, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, वज्र-वृषभसंहनन, मनुष्यानुपूर्वीका जघन्य एक समय उत्कृष्ट अन्तर कुल कम तीन पत्य है। आहारकद्विकका जघन्य अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट पत्यशत प्रथक्त्व प्रमाण अन्तर है।

पुरुषवेदमें-५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, ४ संज्वलन, ५ अन्तरायोंका अन्तर नहीं है। स्थानगुद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुचर्धी ४, न कषाय, श्रीवेदका ओघके समान जानना चाहिए। निद्रा, प्रचलाका भी ओघके समान है। साता-असाता वेदनीय, ७ नोकषाय, पंचेन्द्रिय जाति, तैजस, कार्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वर्ण ४, अगुरुलघु ४, प्रशस्त त्रिहायोगति, त्रस ४, स्थिरादि दो युगल, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तार्थकर, उच्च गोत्रका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त है। नपुंसकवेद, ५ संस्थान, ५ संहनन, अप्रशस्त त्रिहायोगति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीच गोत्रका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट कुल कम तीन पत्य अधिक दो छयासठ सागर प्रमाण अन्तर है। नरकायुका श्रीवेदके समान जानना। मनुष्य, तिर्यचआयुका जघन्य अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट सागरोपम शत-प्रथक्त्व अन्तर है। देवायुका जघन्य अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट साधिक तेत्तीस सागर है। नरकगति, ४ जाति, नरकानुपूर्वी, आताप, उद्योत, स्थावरादि ४ का जघन्य एक समय, उत्कृष्ट ६३ सागरोपम अन्तर है। तिर्यचगति, तिर्यचगत्यानुपूर्वीमें इसी प्रकार जानना चाहिए। मनुष्यगतिपंचकका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट साधिक तीन पत्य है। देवगति ४ का जघन्य एक समय, उत्कृष्ट साधिक तेत्तीस सागर है। आहारकद्विकका जघन्य अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट सागर शत-प्रथक्त्व अन्तर है।

नपुंसकवेदमें-५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, ४ संज्वलन, भय, जुगुप्सा, तैजस, कार्मण, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और ५ अन्तरायोंमें अन्तर नहीं है। स्थानगुद्धित्रिक,

ताणु०४ इत्थि णपुंसक० तिरिक्खगदि-पंचसंठा० पंचसंघ० तिरिक्खाणु० उज्जोव०
अप्पसत्थ० दूमग० दुस्सरअणादे० णीचा० जह० अंतो०, एगस०। उक्क० तेत्तीसं०
देसु०। सादासादा० पंचणो० पंचिदि० समचदु० परघादु०-पसत्थ० तस०४ थिरादि-
दोण्णियु०-सुभ०-सुस्सर-आदे० जह० एग०, उक्क० अंतोमु०। अडुक० दोआयु०
वेउन्वि० छक० मणुसगदितिगं आहारदुगं ओघभंगो। तिरिक्खायु० जह० अंतो०,
उक्क० सागरोपमसदपुध०। देवायु० जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडितिभागं देसु०।
चदुजा० आदाव-थावरादि०४ जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं० सादिरे०। ओरालिय०
ओरालि०अंगो० वज्जरिसभ० जह० एक०, उक्क० पुव्वकोडिदेसु०। तित्थय० जहणु०
अंतो०। अवगद०-पंचणा० चदुदंस० चदुसंज० जसगि० उच्चा० पंचंत० जहणु०

मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धो ४, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, तिर्यचगति, ५ संस्थान, ५ संहनन, तिर्य-
चानुपूर्वा, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय, नीचगोत्रका जघन्य
अन्तर्मुहूर्त अथवा एक समय, उत्कृष्ट कुछ कम तेतीस सागर है।

विशेषार्थ—मोहनीय कर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई जीव मिथ्यात्वयुक्त
हो, सातवें नरकमें उत्पन्न हुआ। छहों पर्याप्तियोंको पूर्ण कर (१) विश्राम ले (२) विशुद्ध
हो (३) सम्यक्त्वको प्राप्त किया। आयुके अन्तमें मिथ्यात्वको पुनः प्राप्त करके (४)
आयुको बाँध, (५) विश्राम ले, (६) मरा और तिर्यच हुआ। इस प्रकार छह अन्तर्मुहूर्तोंसे
कम तेतीस सागरोपम नपुंसकवेदी मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट अन्तर रहा। (पृ० १०७) यही
अन्तर मिथ्यात्व आदि प्रकृतियोंका होगा।

साता-असाता वेदनीय, ५ नोकषाय, पंचेन्द्रिय जाति, समचतुरस्रसंस्थान, परघात,
उच्छ्वास, प्रशस्त विहायोगति, त्रस ४, स्थिरादि दो युगल, सुभग, सुस्वर, आदेयका जघन्य
एक समय, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त है। ८ कषाय, २ आयु, वैक्रियिक षट्क, मनुष्यगतित्रिक,
आहारकद्रिकका ओघवत् जानना चाहिए। तिर्यच आयुका जघन्य अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट सागर
शतपृथक्त्व है। देवायुका जघन्य अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट कुछ कम पूर्वकोटिका त्रिभाग है। जाति
४, आताप, स्थावरादि ४ का जघन्य एक समय, उत्कृष्ट साधिक तेतीस सागर है। औदारिक
शरीर, औदारिक अंगोपांग, बन्न-वृषभसंहननका जघन्य एक समय उत्कृष्ट कुछ कम पूर्वकोटि
है। तीर्थंकरका जघन्य-उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त है।

विशेषार्थ—खुद्दावंधमें स्त्रीवेदीका जघन्य अन्तर क्षुद्रभव-ग्रहणकाल “जहण्णेण खुदा-
भवगहणं” (सूत्र ८१) कहा है। उत्कृष्ट अन्तर “उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्जपोगलपरि-
यट्ठं” (८२) असंख्यातपुद्गलपरावर्तन प्रमाण अनन्तकाल कहा है।

पुरुषवेदीका जघन्य अन्तर एक समय “जहण्णेण एगसमओ” (८३) कहा है। इसका
खुलासा वीरसेन स्वामीने इस प्रकार किया है : पुरुषवेदसहित उपशम श्रेणीको चढ़कर
अपगतवेदी हो, एक समय तक पुरुषवेदका अन्तर करके दूसरे समयमें मरणकर पुरुषवेदी
जीवोंमें उत्पन्न होनेवाले जीव पुरुषवेदका अन्तर एक समय मात्र पाया जाता है। (खु०

१. “णउसगवेदेमु मिच्छादिदृशेणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ?.....एगजीवं पटुच्च जहण्णेण
अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि देमूणणि।” —पट् खं०, अंतरा० २०७-९।

अंतो० । सादावे० गत्थि अंत० ।

३६. क्रोध०—पंचणा० सत्तदंसणा० मिच्छ० सोलस० चदुआयु० आहारदुग०
पंचंत० गत्थि अंत० । णिद्दा—पचला० जहणु० अंतो० । सेसाणं जह० एग०, उक्क०

वं० टीका पृ० २१४) इनका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात पुद्गलपरावर्तन प्रमाण अनन्तकाल है,
“उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्जपोगलपरियट्ठं” (सूत्र २३)

नपुंसक वेदीका जघन्य अन्तर “जहणणेण अंतोमुहुत्तं” (८७) अन्तर्मुहूर्त है ।

शंका—नपुंसकवेदी जीवोंका जघन्य अन्तर क्षुद्रभवग्रहण प्रमाण क्यों नहीं प्राप्त हो सकता ?

समाधान—क्षुद्रभवग्रहणमात्र आयुवाले अपर्याप्तक जीवोंमें नपुंसकवेदको छोड़कर स्त्री व पुरुषवेद नहीं पाया जाता और पर्याप्तकोंमें अन्तर्मुहूर्तके सिवाय क्षुद्रभवग्रहण काल नहीं पाया जाता ।

नपुंसकवेदीका उत्कृष्ट अन्तर “उक्कस्सेण सागरोवमसदपुधत्तं” (८८) सागरोपमशत पृथक्त्व है । क्योंकि नपुंसकवेदसे निकलकर स्त्री और पुरुष वेदोंमें ही भ्रमण करनेवाले जीवके सागरोपम शत-पृथक्त्वसे ऊपर वहाँ रहना संभव नहीं है । पृ० २१५ ।

अपगत वेदमें—५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, ४ संज्वलन, यज्ञःकीर्ति, उच्चगोत्र, ५ अन्तरायोंका जघन्य-उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । साता वेदनीयका अन्तर नहीं है ।

विशेषार्थ—अपगतवेदीके “उवसमं पडुच्च जहणणेण अंतोमुहुत्तं” (९०) उपशमकी अपेक्षा अपगतवेदी जीवोंका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । इसका स्पष्टीकरण ध्वलाटीकामें इस प्रकार है, उपशम श्रेणीसे उतरकर सबसे कम अन्तर्मुहूर्तमात्र सवेदी होकर अपगत-वेदित्वका अन्तर कर पुनः उपशमश्रेणीको चढ़कर अपगत वेदभावको प्राप्त होनेवाले जीवके अपगतवेदित्वका अन्तर्मुहूर्तमात्र अन्तर पाया जाता है । उपशमकी अपेक्षा अपगतवेदी जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर देशोर्ध्वपुद्गल परिवर्तन प्रमाण है—“उक्कस्सेण अद्धपोगलपरियट्ठं देसुणं” (९१) । इसका स्पष्टीकरण वीरसेन आचार्यने इस प्रकार किया है : किसी अनादि मिथ्यादृष्टि जीवने तीनों करण करके, अर्धपुद्गल परिवर्तनके आदि समयमें सम्यक्त्व और संयमको एक साथ ग्रहण किया और अन्तर्मुहूर्त रहकर उपशम श्रेणीको चढ़कर अपगतवेदी हो गया । वहाँसे फिर नीचे उतरकर सवेदी हो, अपगतवेदका अन्तर प्रारम्भ किया और उपार्धपुद्गल परिवर्तनप्रमाण भ्रमण कर पुनः संसारके अन्तर्मुहूर्तमात्र शेष रहनेपर उपशमश्रेणीको चढ़कर अपगतवेदी हो अन्तरको समाप्त किया । पश्चात् फिर नीचे उतरकर क्षपकश्रेणीको चढ़कर अबन्धक भावको प्राप्त किया । ऐसे जीवके अपगतवेदित्वका कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण अन्तर-काल प्राप्त हो जाता है ।

३६. क्रोधमें—५ ज्ञानावरण, ७ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, ४ आयु, आहारकद्विक और ५ अन्तरायोंका अन्तर नहीं है । निद्रा, प्रचलाका जघन्य-उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त है । शेष प्रकृतियोंका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त है ।

विशेषार्थ—निद्रा, प्रचलाका बन्ध अपूर्वकरणके प्रथमभागपर्यन्त होता है । इन प्रकृतियोंका बन्धक जीव उपशमश्रेणीका आरोहण करके, उपशान्तकषाय पर्यन्त चढ़कर तथा

१. “अवगदवेदेषु अणियट्ठि-उवसम-सुहुम-उवसमाणमंतरं केवचिरं कालादो हादि ? एगजीवं पडुच्च जहणणेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ।” —घट्खं०, अंतरा०, २१४-२१७ ।

अंतो० । माणे-तिणिण संजलणांणत्थि अंत० । मायाए दोणिण संज० णत्थि अंत० । सेसाणं कोधभंगो । लोभे-पंचणा० सत्तदंसणा० मिच्छ० बारसक० चदुआयु० आहारदु० पंचंत० णत्थि अंत० । सेसाणं जह० एग०, उक्क अंतो० । णवरि णिहापचला जहणु० अंतो० । अकसाई-साद० णत्थि अंत० । केवलणा०-यथाक्खाद० केवलदंस० एवं चेष ।

४०. मदि० सुद०-पंचणा० णवदंस० मिच्छ० सोलसक० भयदु० तेजाक० वण्ण०४. अगु० उप० णिमि० पंचंत० णत्थि अंत० । सादासा० छण्णोक० पंचिदि० समचदु० परघादुस्सा० पसत्थवि० तस०४ थिरादिदोणिण्यु०-सुभग-सुस्सर-आदेज० जह० एग०, उक्क० अंतो० । णपुंस० ओरालियस० पंचसंठा० ओरालिय० अंगो० छसंध० अप्ससत्थ० दूभग-दुस्सर-अणादे० णीचा० जह० एग०, उक्क० तिणिण पलिदोप० दे० । तिणिण आयु० जह० अंतो०, उक्क० अणंतकालं असंखे० । तिरिक्खायु० जह० अंतो०, उक्क० सागरोपमसदपुध० । वेउच्चियक्क० जह० एग०, उक्क०

उतरते हुए अपूर्वकरणके प्रथमभागमें पुनः बन्ध प्रारम्भ कर देता है । इस कारण इनका जघन्य-उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त प्रमाण कहा है ।

मानमें-३ संज्वलनका अन्तर नहीं है । मायामें-दो संज्वलनका अन्तर नहीं है । शेष प्रकृतियोंमें क्रोधके समान भंग जानना चाहिए । लोभकषायमें-५ ज्ञानावरण, ७ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १२ कषाय, ४ आयु, आहारकद्विक और ५ अन्तरायोंका अन्तर नहीं है । शेष प्रकृतियोंका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त है । विशेष-निद्रा, प्रचलाका जघन्य-उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त है । अकषायीमें-सातावेदनीयका अन्तर नहीं है ।

विशेषार्थ—सातावेदनीयका अप्रमत्तसे लेकर सयोगोंकेवली पर्यन्त निरन्तर बन्ध होता है । इस कारण उपशान्तकषाय या क्षीणकषायमें साताका अन्तर नहीं बताया है ।

केवलज्ञान, यथाख्यात संयम, केवलदर्शनका अकषायकी तरह वर्णन जानना चाहिए ।

४०. मत्थज्ञान, श्रुताज्ञानमें-५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजस, कार्मण, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण तथा ५ अन्तरायोंका अन्तर नहीं है ।

विशेषार्थ—ज्ञानावरणादिके अबन्धक उपशान्त कषायादि गुणस्थानमें होंगे । इन कुक्षानयुगलमें आदिके दो गुणस्थान ही पाये जाते हैं । इससे ज्ञानावरणादिका अन्तर नहीं कहा ।

साता-असाता वेदनीय, ६ नोकषाय, पंचेन्द्रियजाति, समचतुरस्रसंस्थान, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तविहायोगति, त्रस ४, स्थिरादि २ युगल, सुभग, सुस्वर, आदेयका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त है । नपुंसकवेद, औदारिक शरीर, ५ संस्थान, औदारिक अंगोपांग, ६ संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीच गोत्रका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट कुछ कम तीक्ष्णत्व है । तीन आयु अर्थात् देव, नर, नरक आयुका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट अन्तकाल असंख्यात पुद्गल परावर्तन है । तिर्यच आयुका जघन्य अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट सागर शत-पृथक्त्व अन्तर है । वैक्रियिक षट्कका जघन्य एक

अणंतकाल असंखे० । तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु० उज्जोव० जह० एग०, उक्क० एकतीसं सादि० । मणुसगदितिगं ओधं । चदुजादि० आदाव-थावरादि० ४ जह० एगस०, उक्क० एकतीसं सादि० । एवं अब्भवसिद्धियमिच्छादिट्टि० । विभंगे-पंचणा० णवदंसं मिच्छ० सोलसक० भयदुगु० णिरय० देवायु० तेजाक० वण्ण० ४ अगु० उपधा० णिमि० पंचंत० णत्थि अंत० । दोआयु० देवोओधं । सेसाणं जह० एग०, उक्क० अंतो । आभि० सुद० ओधि०-पंचणा० छदंसं चदुसंज० सादासा० सत्तणोक० पंचिदि० तेजाकम्म० समचतु० वण्ण० ४ अगुरु० ४ पसत्थवि०

समय, उत्कृष्ट अनन्तकाल असंख्यात पुद्गल परावर्तन है। तिर्यंच गति, तिर्यंचगत्यानुपूर्वी, उद्योतका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट साधिक ३१ सागर है। मनुष्यगतित्रिकमें ओघकी तरह जानना चाहिए। ४ जाति, आताप, स्थावरादि ४ का जघन्य अन्तर एक समय, उत्कृष्ट साधिक ३१ सागर है। अभव्यसिद्धिकमिथ्यादृष्टिका भी इसी प्रकार जानना चाहिए।

विशेषार्थ—मति अज्ञानी, श्रुताज्ञानी जीवोंका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है। इसका स्पष्टीकरण धवला टीकामें इस प्रकार किया गया है : “मति अज्ञान तथा श्रुताज्ञानसे सम्यक्त्व ग्रहण कर मतिज्ञान व श्रुतज्ञानमें आकर कमसे कम कालका अन्तर देकर पुनः मति अज्ञान, श्रुताज्ञान भावमें गये हुए जीवके अन्तर्मुहूर्त प्रमाण अन्तरकाल पाया जाता है।

उक्त अज्ञानी जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर “उक्कस्सेण वेद्धावट्टि सागरोपमाणि” (९९) दो छ्यासठ सागरोपम अर्थात् एक सौ बत्तीस सागरोपमकाल है। इसपर वीरसेन स्वामीने इस प्रकार प्रकाश डाला है : किसी कुमति-कुश्रुतज्ञानी जीवके सम्यक्त्वग्रहण करके कुछ कम छ्यासठ सागरोपमकाल प्रमाण सम्यक्त्वज्ञानोंका अन्तर देकर पुनः सम्यक्त्व-मिथ्यात्वको जाकर मिश्रज्ञानोंका अन्तर देकर पुनः सम्यक्त्वग्रहण करके कुछ कम छ्यासठ सागरोपम-प्रमाण परिध्रमण कर मिथ्यात्वको जानेसे दो छ्यासठ सागरोपम प्रमाण मतिश्रुत-अज्ञानोंका अन्तरकाल पाया जाता है।

शंका—दो छ्यासठ सागरोपमोंमें जो कुछ कम काल बतलाया है उसका क्या हेतु है ?

समाधान—इसका कारण यह है कि उपशम सम्यक्त्व कालसे दो छ्यासठ सागरोपमोंके भीतर मिथ्यात्वका अधिक काल पाया जाता है (जीवद्वान्, अंतराणुगम सूत्र, ४ की टीका)। सम्यग्मिथ्यादृष्टिज्ञानको मतिश्रुत अज्ञान रूप मानकर कितने ही आचार्य उपर्युक्त अन्तर-प्ररूपणामें सम्यग्मिथ्यात्वका अन्तर नहीं दिलाते, पर यह बात घटित नहीं होती; क्योंकि सम्यग्मिथ्यात्वभावके अर्धीन हुआ ज्ञान सम्यग्मिथ्यात्वके समान एक अन्य जातिका बन जाता है। अतः उस ज्ञानको कुमति कुश्रुत रूप माननेमें विरोध आता है।

विभंगावधिमें—५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १६ कपाय, भय, जुगुप्सा, नरक, देवायु, तैजस, कर्मण, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण, और ५ अन्तरार्योंका अन्तर नहीं है। दो आयुका देवोंके ओघबन् जानना चाहिए। शेष प्रकृतियोंका जघन्य एक समय उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त है।

मतिज्ञान, श्रुतज्ञान तथा अवधिज्ञानमें—५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, ४ संवलन, साता-असाता वेदनीय, ७ नोकपाय, पंचेन्द्रिय जाति, तैजस-कर्मण, समचतुरस्रसंस्थान,

तस०४ थिरादि-दोष्णिपुग०-सुभग-सुस्सर-आदे० गिमि० तित्थय० उच्चा० पंचंत० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अट्टक० जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडिदेसू० । दोआयु० देवग०४ जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं० सादि० । मणुसगदिपंचगं जह० वासपुध०, उक्क० पुव्वकोडि० । आहारदुगं जह० अंतो०, उक्क० छावड्डिसा० सादिरे० । एवं ओधिदं० सम्मादिट्टित्ति ।

मणपञ्जवणा०-पंचणा० छदंसं० चदुसंज० पुरिसं० भयदु० देवगदि-पंचिदि० चदुसरीर० समचदु० दोअंगो० वण्ण०४ देवाणुपु० अगुरु०४ पसत्थवि० तस०४ सुभग-सुस्सर-आदे०-गिमिण-तित्थय०-उच्चा०-पंचंत० जहणु० अंतो० । सादासा०-चदुणोक० थिरादितिण्णियु० जह० एग०, उक्क० अंतो० । देवायु० जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडितिभागं देसू० ।

वर्ण ४, अगुरुलघु ४, प्रशस्त विहायोगति, त्रस ४, स्थिरादि दो युगल, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थकर, उच्चगोत्र तथा ५ अन्तरायोंका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त है ।

विशेषार्थ—ज्ञानावरणादि प्रकृतियोंका बन्धक जीव उपशमश्रेणीका आरोहण कर जब उपशान्तकषाय गुणस्थानमें पहुँचा, तब इन ज्ञानावरणादि प्रकृतियोंका बन्ध रुक गया । वादमें जैसे ही वह जीव नीचे गिरा कि इनका बन्ध पुनः प्रारम्भ हो गया । इस दृष्टिसे इन ज्ञानोंमें बन्धका अन्तर जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त प्रमाण कहा गया है ।

आठ कषायोंका जघन्य अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट कुछ कम पूर्व कोटि है ।

विशेषार्थ—एक मनुष्यने अविरत दशमें अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरणरूप कषायाष्टकका बन्ध किया । आठ वर्षकी अवस्थाके अनन्तर सम्यक्त्व तथा महाव्रतको एक साथ धारण कर एक पूर्व कोटिसे अवशिष्ट बची आयु प्रमाण महाव्रती रह मरणकालमें असंयमी बन पुनः ८ कषायोंका बन्ध किया । इस प्रकार देशोन पूर्व कोटि अन्तर होता है ।

दो आयु, देवगति ४ का जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट कुछ अधिक ३३ सागर है । मनुष्य गतिपंचकका जघन्य वर्षपृथक्त्व और उत्कृष्ट पूर्वकोटि है । आहारकट्टिकका जघन्य अन्तर्मुहूर्त उत्कृष्ट साधिक ६६ सागर है । अवधिदर्शन तथा सम्यक्त्वमें भी इसी प्रकार जानना चाहिए ।

मनःपर्ययज्ञानमें—५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, ४ संव्रलन, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, देवगति, पंचेन्द्रिय जाति, ४ शरीर, समचतुरस्र संस्थान, दो अंगोपांग, वर्ण ४, देवानुपूर्वी, अगुरुलघु ४, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थकर, उच्चगोत्र और ५ अन्तरायका जघन्य उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त है ।

विशेषार्थ—कोई मनःपर्ययज्ञानी उपशमश्रेणी चढ़कर उपशान्तकषाय गुणस्थानमें पहुँचा, तब अन्तर्मुहूर्तपर्यन्त ज्ञानावरणादि प्रकृतियोंका अबन्ध हो गया । पश्चात् वह सूक्ष्म-साम्परायादि गुणस्थानोंमें उतरा, तो पुनः उन प्रकृतियोंका बन्ध प्रारम्भ हो गया । इस प्रकार यहाँ अन्तर जघन्य, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त प्रमाण कहा है ।

साता-असातावेदनीय, ४ नोकषाय, स्थिरादि ३ युगलका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त है । देवायुका जघन्य अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट कुछ कम पूर्वकोटिका त्रिभाग अन्तर है ।

४१. एवं संजद० । एवं चेव सामाइ० छेदो० परिहार० संजदासंजदा० । णवरि धुविगाणं णत्थि अंत० । सुहुमसंप० सव्वपगदीणं णत्थि अंत० । असंजदे धुविगाणं णत्थि अंत० । थीण०३ मिच्छ० अणंताणु०४ इत्थि० णपुंस० तिरिक्खगदि-पंचसंटा० पंचसंव० तिरिक्खाणु० अप्पसत्थ० उज्जो० दूमग-दुस्स०-अणादे० णीचागो० जह० एग० उक्क० तेत्तीसं० देसु० णवरि थीणगिद्धि०३ मिच्छ० अणंताणु०४ जह० अंतो० । चदुआयु० वेउव्वियल्लक० मणुसगदितिगं च ओघं । एइंदिय-दंडओ तित्थयरं च णपुंसकवेदभंगो । चक्खुदंस० तसपज्जत्तभंगो । अचक्खुदं० ओघं ।

विशेषार्थ—कोई एक कोटिपूर्वकी आयुवाला जीव मनःपर्ययज्ञानी हुआ । आयुका त्रिभाग शेष रहनेपर देवायुका प्रथम अन्तर्मुहूर्तमें बन्ध किया । इसके अनन्तर मरणकाल आनेपर पुनः आयुका बन्ध किया । इस प्रकार कुछ कम पूर्वकोटिका त्रिभाग देवायुका अन्तर होगा ।

विशेषार्थ—मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्ययज्ञानवालोंका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है । क्योंकि मति, श्रुत, और अवधिज्ञानी देव या नारकी जीवके मिथ्यात्वकी प्राप्त कर मति-अज्ञान, श्रुताज्ञान, व विभंगज्ञानके द्वारा अन्तर करके पुनः मतिज्ञान, श्रुतज्ञान व अवधिज्ञानमें आनेपर उक्त ज्ञानोंका अन्तर्मुहूर्तप्रमाण जघन्य अन्तर प्राप्त होना है ।

इसी प्रकार मनःपर्ययज्ञानीका भी जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त प्रमाण होता है । यहाँ यह विशेषता है कि मनःपर्ययज्ञानी संयत जीव मनःपर्ययज्ञानको नष्ट करके अन्तर्मुहूर्त काल तक उस ज्ञानके बिना रहकर फिर उसी मनःपर्ययज्ञानमें लाया जाना चाहिए । (धवला-टीका, खु० वं०, पृ० २२०)

४१. संयममें भी इसी प्रकार है । सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि तथा संयतासंयतोमें भी इस प्रकार जानना चाहिए । विशेष यह है कि यहाँ ध्रुव प्रकृतियोंमें अन्तर नहीं है । सूक्ष्मसाम्परायमें—सर्व प्रकृतियोंका अन्तर नहीं है । असंयतमें—ध्रुव प्रकृतियोंका अन्तर नहीं है । स्थानगुद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी ४, स्त्रीवेद, नपुंसक वेद, तिर्यचगति, ५ संस्थान, ५ संहनन, तिर्यचानुपूर्वी, अप्रज्ञस्तविहायोगति, उद्योत, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय, नीच गोत्रका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट कुछ कम ३३ सागर है ।

विशेषार्थ—कोई मनुष्य या तिर्यच मोहनीयकी २८ प्रकृतियोंको सत्तावाला मरणकर सातवीं पृथ्वीमें उत्पन्न हुआ । उहाँ पर्याप्तियोंको पूर्ण कर, (१) विश्राम ले, (२) विशुद्ध हो, वेदक-सम्यक्त्वी हुआ (३) उस समय मिथ्यात्वादि प्रकृतियोंका बन्ध रुका । इस प्रकारकी अवस्था आयुके अल्पकाल अवशेष रहने तक रही । पश्चात् वह जीव मिथ्यात्व गुणस्थानको प्राप्त हुआ (४) इस प्रकार अन्तर प्राप्त हुआ । पुनः तिर्यच आयुका बन्ध कर (५) विश्राम ले (६) निकला । इस प्रकार ६ अन्तर्मुहूर्त कम ३३ सागर प्रमाण मिथ्यात्वादिका बन्ध नहीं होनेसे उतना अन्तर रहा । (ध० टी० अन्तरा० पृ० १३४)

विशेष यह है कि स्थानगुद्धि ३, मिथ्यात्व तथा अनन्तानुबन्धी ४ का जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । चार आयु वैक्रियिक षट्क, मनुष्यगतित्रिकका ओघवन् जानना चाहिए । एकेन्द्रिय दण्डक तथा तीर्थकरका नपुंसकवेदके समान भंग जानना चाहिए । चक्षुदर्शनमें—त्रस पर्याप्तकोंका भंग जानना चाहिए । अचक्षुदर्शनमें—ओघवन् अन्तर जानना चाहिए ।

४२. किष्णाए—पंचणा० छदंसणा० बारसक० भयदु० तेजाकम्म० वण्ण०४
अगु० उप० णिमि० तित्थि०-पंचंत० दो-आयु० णत्थि अंत० । थीणगिद्धि०३ मिच्छ०
अणंताणु०४ जह० अंतो० । इत्थि० णपुंसक० दोगदि० पंचसंठा० पंचसंध० दोआणु०
उज्जो० अप्पसत्थि० दूमग-दुस्स० अणादे० णीचुच्चागो० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं०
दे० । दोआयुगस्स णिरयभंगो । वेउव्विय० वेउव्विय०अंगो० जह० एग०, उक्क०
बावीसं सा० (?) । सेसाणं जह० एग०, उक्क अंतो० ।

४३. एवं णील-काऊणं । णवरि मणुसगदितिगं सादभंगो । वेउव्वि० वेउव्वि०-
अंगो० जह० एग०, उक्क० सत्तारस-सत्तसागरो० ।

खुदाबन्धमें चक्षुदर्शनी जीवोंका जघन्य अन्तर “जहण्णेण खुदाभवग्गहणं” (सूत्र
११६) क्षुद्रभवग्रहण प्रमाण है । इसपर ध्वलाटीकाकार इस प्रकार प्रकाश डालते हैं, जो
चक्षुदर्शनी जीव क्षुद्रभवग्रहण मात्र आयु-स्थितिवाले किसी भी एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, व त्रीन्द्रिय
लब्ध्यपर्याप्तकोंमें अचक्षुदर्शनी होकर उत्पन्न होता है और क्षुद्रभवग्रहण मात्र काल चक्षु-
दर्शनका अन्तर कर पुनः चतुरिन्द्रियादिक जीवोंमें चक्षुदर्शनी होकर उत्पन्न होता है, उस
जीवके चक्षुदर्शनका क्षुद्रभवग्रहण मात्र अन्तरकाल पाया जाता है ।

चक्षुदर्शनीका उत्कृष्ट अन्तर “उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्जपोगलपरियट्टं” (१२०
सूत्र) असंख्यात पुद्गलपरिवर्तन प्रमाण अनन्तकाल है ।

अचक्षुदर्शनी जीवोंके विषयमें ‘णत्थि अंतरं णिरंतरं’ (सूत्र १२२) अन्तर नहीं है,
वे निरन्तर होते हैं । अचक्षुदर्शनीका अन्तर केवलदर्शनी होनेपर हो सकता है, किन्तु केवल-
दर्शनी होनेपर अचक्षुदर्शनकी उत्पत्तिका अभाव है । क्षायिक दर्शनके होनेपर क्षायोपशमिक
दर्शनका अभाव हो जाता है ।

४२. कृष्णलेश्यामें—५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, १२ कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजस,
कार्मण, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण, तीर्थकर, ५ अन्तराय तथा २ आयुका
अन्तर नहीं है ।

स्थानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी ४ का जघन्य अन्तर्मुहूर्त है [उत्कृष्ट कुछ
कम ३३ सागर अन्तर है] । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, २ गति, ५ संस्थान, ५ संहनन, २ आनुपूर्वी,
उद्योत, अप्रशस्तविहायोगति, दुर्भंग, दुस्वर, अनादेय, नीचगोत्र, उच्चगोत्रका जघन्य एक
समय, उत्कृष्ट कुछ कम ३३ सागर है । दो आयुका नरकगतिके समान भंग जानना चाहिए ।
वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिक अंगोपांगका जघन्य अन्तर एक समय, उत्कृष्ट २२ सागर जानना
चाहिए । शेषका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त है ।

४३. इसी प्रकार नील तथा कापोत लेश्यामें जानना चाहिए । विशेष, मनुष्यगतित्रिक-
में सातावेदनीयके समान भंग जानना चाहिए । वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक अंगोपांगका
जघन्य एक समय, उत्कृष्ट सत्रह सागर तथा सात सागर अन्तर है ।

१. लेस्साणुवादेण किहल्लेस्सिय-णील्लेस्सिय-काउलेस्सियाणमन्तरं केवचिरं कालादो होदि ?
जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण तेत्तीस सागरोवमाणि सादिरेयाणि ॥ तेउल्लेस्सिय-ग्गमलेस्सिय-मुक्कलेस्सियाण-
मन्तरं केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण अंतोमुहुत्तं उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्जपोगलपरियट्टं ॥ —खुदाबन्ध,
सूत्र १२५-१३० ।

४४. तेउ०—पंचणा० छदंसणा० बारसक० भयदु० ओरालिय० आहारतेजाकम्म०
आहार०-अंगो० वण्ण०४ अगु०४ बादर-पञ्जत्त-पत्तेय-णिमि०-तित्थय०-पंचंत०
णत्थि अंत० । थोणगिद्धि०३ मिच्छ० अणंताणु०४ जह० अंतो० । इत्थि० णपुंस०
तिरिक्खगदि० एइदि० पंचसंठाण० पंचसंध० तिरिक्खाणु० आदावुजो० अप्पसत्थ०
दूभग-दुस्सर-अणादे० णीचा० जह० एग०, उक्क० बेसाग० सादि० । सादासाद-
पंचणोक० मणुस० पंचिदि० समचदु० ओरालिय०-अंगो० वज्जरिस० मणुसाणु० पसत्थ०
तस० धिरादिदोणियु०-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज० उच्चा० जह० एग०, उक्क० अंतो० ।
तिरिक्ख-मणुसायु० देवोघं । देवायुगं णत्थि अंतरं । देवगदि०४ जह० दसवस्ससह०
अथवा पल्लिदो०-सादि० । उक्क० बेसागरो० सादि० ।

४५. पम्माए-पंचणा० छदंसणा० बारसक० भयदु० पंचिदिय० चदुसरी०-
ओरालियअंगो० आहारस० अंगो० वण्ण०४ अगु०४ तस०४ णिमिणं तित्थय० पंचंत०
णत्थि अंत० । सेसं तेउभंगो । णवरि सगद्धिदी भाणिदुच्चा । एइदिय-आदाव-थावरं

विशेषार्थ—कृष्णलेख्याके समान नील तथा कापोतलेख्यायुक्त दो जीवोंने वैक्रियिक शरीर तथा वैक्रियिक अंगोपांगका बन्ध करके मरण क्रिया और क्रमशः पाँचवें तथा तीसरे नरकमें जन्म धारण किया । वहाँ सत्रह सागर तथा सात सागरपर्यन्त उक्त दोनों प्रकृतियोंका बन्ध नहीं हो सका । पश्चान् मरण कर वे मनुष्य हुए, जहाँ उन प्रकृतियोंका पुनः बन्ध हो सका । इस प्रकार सत्रह तथा सात सागर प्रमाण अन्तर सिद्ध हुआ ।

४४. तेजोलेख्यामें—५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, १२ कषाय, भय, जुगुप्सा, औदारिक, आहारक, तैजस, कामण शरीर, आहारक अंगोपांग, वर्ण ४, अगुरुलघु ४, बादर, पर्याप्तक, प्रत्येक, निर्माण, तीर्थकर तथा ५ अन्तरायोंका अन्तर नहीं है । स्थानगृद्धिचक्र, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी ४ का जघन्य अन्तर्मुहूर्त [और उत्कृष्ट साधिक दो सागर] है ।

विशेषार्थ—तेजोलेख्यावाले किसी मिथ्यात्वी जीवने सौधर्मद्विकमें उत्पन्न हो साधिक दो सागर प्रमाण स्थिति प्राप्त की । वहाँ छहों पर्याप्ति पूर्ण कर विश्राम ले, विशुद्ध हो, सम्यक्त्वकी ग्रहण कर आयुके अन्तमें मिथ्यात्वी हो मरण किया । उसकी अपेक्षा यहाँ मिथ्यात्व आदिका उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागरोपम कहा है ।

स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, तिर्यचगति, एकेन्द्रिय जाति, ५ संस्थान, ५ संहनन, तिर्यचानुपूर्वी, आनाप, उद्योत, अप्रशस्तविहायोगति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय तथा नीचगोत्रका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट साधिक दो सागर है । साता-असाता वेदनीय, ५ नोकषाय, मनुष्यगति, पंचेन्द्रिय जाति, समचतुरस्र संस्थान, औदारिक अंगोपांग, वज्रवृषभ संहनन, मनुष्यानुपूर्वी, प्रशस्तविहायोगति, त्रस, स्थिरादि दो युगल, सुभग, सुस्वर, आदेय, उच्चगोत्रका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त है । तिर्यचायु-मनुष्यायुका देवोंके ओष समान है । देवायुका अन्तर नहीं है । देवगति ४ का जघन्य दस हजार वर्ष अथवा साधिक पत्यप्रमाण है । उत्कृष्ट कुल अधिक दो सागर है ।

४५. पद्मलेख्यामें—५ ज्ञानावरण ६ दर्शनावरण, १२ कषाय, भय, जुगुप्सा, पंचेन्द्रिय जाति, चार शरीर, औदारिक अंगोपांग, आहारकशरीर, अंगोपांग, वर्ण ४, अगुरुलघु ४, त्रस ४, निर्माण, तीर्थकर तथा ५ अन्तरायोंके बन्धकोंका अन्तर नहीं है । शेषका तेजोलेख्या-

गत्थि । देवगदि०४ जह० बेसाग० सादि०, उक्क० अट्टारस० सादिरे० ।

४६. सुक्काए—पंचणा० छदंसणा० सादासाद० चदुसंज० सत्तणोक० पंचिं-
दि० तेजाकम्म० समचदु० वज्जरिस० वण्ण०४ अगुरु०४ पसत्थवि० तस०४
थिरादिदोण्णियु०-सुभग-सुस्स०-आदे० णिमि० तित्थय० उच्चा०-पंचंत० जह० एगस०,
उक्क० अंतो० । णवरि णिहा-पचला ओघं । थीणगिद्धि०३ मिच्छ० अणंताणु०४
जह० अंतो० । इत्थि० णपुंस० पंचसंठा० पंचसंघ० अप्पसत्थ० दूभग-दुस्सर-अणादे०
णीचा० जह० एगस०, उक्क० एककात्तीसं देसू० । अट्टक० देवायु० मणुसग०
ओरालिय० ओरालियअंगो० मणुसाणु० गत्थि अंतरं० । मणुसायु० देवोघं । देव-
गदि०४ जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं सा० सादि० । आहारदुगं जहण्णु० अंतो० ।
भवसिद्धिया ओघं ।

के समान भंग जानना चाहिए । विशेष यह है कि अपनी-अपनी स्थितिप्रमाण अन्तर ग्रहण करना चाहिए । यहाँ एकेन्द्रिय, आताप तथा स्थावरका अन्तर नहीं है ।

विशेषार्थ—एकेन्द्रिय, आताप तथा स्थावरका बन्ध सौधमैद्विक पर्यन्त होता है । वहाँ पीतलेश्या पायी जाती है । पद्मलेश्यामें इनका बन्ध नहीं है, अतः अन्तर नहीं कहा है ।

देवगति ४ का जघन्य अन्तर साधिक दो सागर तथा उत्कृष्ट साधिक १८ सागर है ।

विशेषार्थ—पद्मलेश्यावाले देवोंकी जघन्य स्थिति साधिक दो सागर है और उत्कृष्ट साधिक १८ सागर है । इनके देवगतिचतुष्कका बन्ध नहीं होगा । इस अपेक्षा कूपरोक्त अन्तर कहा है ।

४६. शुक्ललेश्यामें—५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, साता-असातावेदनीय, ४ संज्वलन, ७ नोकषाय, पंचेन्द्रियजाति, तैजस-कर्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वज्रवृषभ-संहनन, घर्ण ४, अगुरुलघु ४, प्रशस्तविहायोगति, त्रस ४, स्थिरादि दो युगल, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थकर, उच्चगोत्र तथा पंच अन्तरार्योंका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त है । विशेष-निद्रा-प्रचलाका ओघवत् जघन्य, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त अन्तर है । स्थानगुद्वित्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी ४ का जघन्य अन्तर्मुहूर्त है । [उत्कृष्ट कुछ कम इकतीस सागर है ।]

विशेषार्थ—शुक्ललेश्यावाला द्रव्यलिंगी जीव ३१ सागरोकी स्थितिवाले अन्तिम प्रवे-
यकमें उत्पन्न हुआ । छहों पर्याप्तियोंको पूर्ण कर, विश्राम ले, विशुद्ध हो, सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ । आयुके अन्तमें पुनः मिथ्यात्वको प्राप्त कर मरण किया । इस प्रकार देशीन ३१ सागर प्रमाण मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट अन्तर हुआ । इस अपेक्षा मिथ्यात्व अनन्तानुबन्धी आदिका अन्तर उतना ही कहा गया है ।

स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, ५ संस्थान, ५ संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय, नीचगोत्रका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट कुछ कम ३१ सागर है । आठ कषाय, देवायु, मनुष्यगति, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, मनुष्यानुपूर्वका अन्तर नहीं है । मनु-
ष्यायुका देवोंके ओघ समान है । देवगति ४ का जघन्य अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट साधिक ३३ सागर है । आहारकद्विकका जघन्य उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त है । भव्यसिद्धिकोंमें—ओघवत् जानना चाहिए ।

१. भवियाणुनादेण भवसिद्धि-अभवसिद्धियाणमंतरं केवचिरं कालादां होदि ? गत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥

--सुदाबन्ध सूत्र, १३१-१३२, पृ. २३०

कुदो ? भवियाणमभवियाणं च अण्णोणसरूवेण परिणामाभावादो । --सुदाबन्ध टीका, पृ० २३० ।

४७. खड्गसम्मादिद्वि ध्रुविगाणं अट्टकसायाणं च ओधिभंगो । मणुसायु देवोषं । देवायु० जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडितिभागं देखू० । मणुसगदिपंचगं णत्थि अंत० । देवगदि०४ आहारदुगं जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं० सादि० । सादादीणं ओधिभंगो ।

४८. वेदमे ध्रुविगाणं तिथ्यपरस्स च णत्थि अंत० । अट्टक० दोआयु० मणु-सगदिपंचगं ओधिभंगो । देवगदि०४ जह० पलिदोप० सादि०, उक्क० तेत्तीसं सा० । आहारदुगं जह० अंतो०, उक्क० छावट्टिसागरो० देखुणा, अथवा तेत्तीसं सादिरे० । सेसाणं जह० एग०, उक्क० अंतो० ।

४९. उवसम०—पंचणा० चदुदंस० सादासाद० चदुसंज० सत्तणोक० पंचिदि० तेजाक० समचदु० वण्ण०४ अगु०४ पसत्थवि० तस०४ थिरादिदोण्णियु०

४७. क्षायिकसम्यक्त्वमें—ध्रुव प्रकृति तथा आठ कषायोंका अवधिज्ञानके समान भंग जानना चाहिए । मनुष्यायुका देवोंके ओघ समान है । देवायुका जघन्य अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट कुछ कम पूर्व कोटिका त्रिभाग है ।

विशेषार्थ—कोई क्षायिकसम्यक्त्वी जीव एक कोटिपूर्वकी आयुवाला मनुष्य उत्पन्न हुआ । आयुका त्रिभाग शेष रहनेपर उसने आगामी देवायुका बन्ध किया और आयुके पूर्ण होनेके पूर्व पुनः उसी आयुका बन्ध किया । इस प्रकार कुछ कम एक कोटि पूर्वका त्रिभाग देवायुका अन्तर रहा ।

मनुष्यगतिपंचकमें अन्तर नहीं है । देवगति ४, आहारकद्विकका जघन्य अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट साधिक ३३ सागर है । सातादि प्रकृतियोंका अवधिज्ञानके समान भंग जानना चाहिए ।

४८. वेदकसम्यक्त्वमें ध्रुव प्रकृतियों तथा तीर्थकर प्रकृतिका अन्तर नहीं है । आठ कषाय, (अप्रत्याख्यानावरण ४, प्रत्याख्यानावरण ४, दो आयु, मनुष्यगतिपंचकका अवधि-ज्ञानके समान भंग जानना चाहिए । देवगति ४ का जघन्य साधिक पत्य है तथा उत्कृष्ट १३ सागर है ।

विशेषार्थ—किसी वेदकसम्यक्त्वी मनुष्यने सुरचतुष्कका बन्ध करनेके अनन्तर मरण करके सौधर्मद्विक या सर्वार्थसिद्धिमें जन्म धारण किया । वहाँ सौधर्मद्विककी जघन्य आयु साधिक पत्यप्रमाण वेदकसम्यक्त्वी रहा और सुरचतुष्कका बन्ध नहीं हुआ । मरणके बाद पुनः मनुष्य हो उनका बन्ध प्रारम्भ कर दिया । इसी प्रकार सर्वार्थसिद्धिमें तेतीस सागर-प्रमाण वेदकसम्यक्त्वयुक्त रहकर सुरचतुष्कका बन्ध नहीं किया । मरण करके मनुष्य हो सुरचतुष्कका बन्ध पुनः प्रारम्भ कर दिया । इस प्रकार पूर्वोक्त बन्धका अन्तर जानना चाहिए ।

आहारकद्विकका जघन्य अन्तर्मुहूर्त उत्कृष्ट कुछ कम ६६ सागर है । अथवा साधिक तेतीस सागर है । शेष प्रकृतियोंका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त है ।

४९. उपशमसम्यक्त्वमें—५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, साता-असाता वेदनीय, ४ संज्व-लन, ७ नोकषाय, पंचेन्द्रियजाति, तैजस-कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वर्ण ४, अगुहल्यु ४,

१. खड्गसम्मादृष्टीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? णत्थि अन्तरं, णिरंतरं । -खु० बंध २, पृ० २३२ ।

२. सौधर्मज्ञानयोः सागरोपमेऽधिके अपरा पत्योपसमधिकम् । -त० सूत्र, अ० ४

सुभ० सुस्स० आदे० णिमि० तित्थ० उच्चा० पंचंत० जह० एग०, उक्क० अंतो० ।
णिहा-प० अट्टक० देवगदि०४ आहारदुग० जहणु० अंतो० । मणुसगदिपंचगं
णत्थि अंतरं ।

५०. सासगे-पंचणा० णवदंस० सोलसक० भयदुगुं० तिण्णिआयु० पंचिदि०
तेजाक० वण्ण०४ अगु०४ तस०४ णिमि० पंचंत० णत्थि अंत० । सेसाणं जह० एग०,
उक्क० अंतो० ।

५१. सम्मामि०-दो वेदणी०-चदुणी० थिरादितिण्णियु०-जह० एग० उक्क०
अंतो० । सेसाणं णत्थि अंतरं ।

५२. सण्णि-पंचिदियपज्जत्तमंगो ।^१ असण्णि-धुविगणं णत्थि अंत० ।^३

प्रशस्तविहायोगति, त्रस ४, स्थिरादि दो युगल, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थकर, उच्चगोत्र तथा पंच अन्तरायोंका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त है ।

विशेषार्थ—किसी उपशमसम्यक्त्वी जीवने उपशमश्रेणीका आरोहण कर जब उपशान्त-कषाय गुणस्थान प्राप्त किया, तब ज्ञानावरणादि प्रकृतियोंके बन्धकी व्युच्छित्ति हो गयी, पुनः नीचे गिरनेपर उन प्रकृतियोंका बन्ध प्रारम्भ हो गया । इस दृष्टिसे यहाँ अन्तर कहा है ।

निद्रा-प्रचला, आठ कषाय, देवगति ४, आहारकद्विकका जघन्य उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ।

विशेषार्थ—निद्रादिका बन्धक कोई उपशमसम्यक्त्वी उपशम श्रेणीमें चढ़ा । वह जब अपूर्वकरणके अन्तिम भाग तथा आगेके गुणस्थानोंमें चढ़ा, तब निद्रादिका बन्ध होना रुक गया । पश्चात् नीचे उतरनेपर पुनः बन्ध आरम्भ हो गया । इसका अन्तर अन्तर्मुहूर्त प्रमाण होगा ।

मनुष्यगतिपंचकका अन्तर नहीं है ।

५०. सासादनसम्यक्त्वमें—५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, नरकको छोड़ तीन आयु, पंचेन्द्रिय, तैजस- कर्मण वर्ण ४, अगुरुलघु ४, त्रस ४, निर्माण ५, अन्तरायोंका अन्तर नहीं है । शेष प्रकृतियोंका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त है ।

५१. सम्यक्त्वमिथ्यात्वोंमें—दो वेदनीय, ४ नोकषाय, स्थिरादि तीन युगलका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त है । शेष प्रकृतियोंमें अन्तर नहीं है ।

५२. संज्ञीमें—पंचेन्द्रियपर्याप्तकका भंग जानना चाहिए । असंज्ञीमें-ध्रुव प्रकृतियोंका

१. सम्मत्ताणुवादेण सम्माइट्ठि-वेदकसम्माइट्ठि-उवसमसम्माइट्ठि-सम्मामिच्छाइट्ठिणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? ॥१३३॥ जहण्णेण अंतोमुहूर्तं, उक्कस्सेण अट्टपोगलपरियट्ठं देवूणं ॥१३४-१३५॥ —खुदाबंध २, पुस्तक ७, पृ० २३१ ।

२. सण्णियाणुवादेण सण्णीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण खुदाभवग्गहणं, उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्जपोगलपरियट्ठं ।

३. असण्णीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण खुदाभवग्गहणं, उक्कस्सेण सामरोवमसदपुधत्तं ॥ खुदाबंध सूत्र, १४२-१४७ ।

चदुआयु० वेउञ्चियल्लक० मणुसगदितिगं च तिरिकखोघं । सेसाणं जह० एग० स०, उक्क० अंतो० ।

५३. आहारगे-पंचणा० छदंसणा० सादासाद० चदुसंज० सत्तण्णेक० पंचिदि० तेजाक० समचतु० वण्ण०४ अगु०४ पसत्थवि० तस०४ थिरादि दोण्णियुग० सुभग-सुस्स०-आदे० णिमि० तित्थय०-पंचत० जह० एग०, उक्क० अंतो० । णवरि णिदा-पचलाणं जहण्णु० अंतो० । तिण्णि आयु० आहारदुगं जह० अंतो०, उक्क० अंगुलस्स असंखे० । एवं चेव वेउञ्चियल्लक-मणुसगदितिगं च । णवरि जह० एग० । ओरालिय० ओरालि०-अंगो० वज्जरिस० जह० एग०, उक्क० तिण्णि पलिदो० सादि० । सेसाणं ओघं । अणाहार० कम्मइगभंगो ।

एवं अंतरं समत्तं ।

अन्तर नहीं है । चार आयु, वैक्रियिकपट्टक, मनुष्यगतित्रिकका तिर्यचोके ओघ समान जानना चाहिए । शेष प्रकृतियोंका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त अन्तर है ।

५३. आहारकमें-५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, सात्ता-असातावेदनीय, संज्वलन ४, ७ नोकपाय, पंचेन्द्रियजाति, तैजस-कार्मण-शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वर्ण ४, अगुल्लघु ४, प्रशस्तविहायोगति, त्रस ४, स्थिरादि दो युगल, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थकर तथा पंच अन्तरायोंका जघन्य एक समय तथा उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त है । विशेष, निद्रा-प्रचलाका जघन्य उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त है । ३ आयु, आहारकद्विकका जघन्य अन्तर्मुहूर्त है । उत्कृष्ट अंगुलके असंख्यातवें भाग है । इसी प्रकार वैक्रियिकपट्टक, मनुष्यगतित्रिकका जानना चाहिए । विशेष, इनका जघन्य एक समय प्रमाण है । औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, वज्र-वृषभसंहननका अन्तर जघन्य एक समय, उत्कृष्ट साधिक तीन पत्य है । शेष प्रकृतियोंका ओघवत् है ।

अनाहारकोंमें— कार्मण काययोगके समान जानना चाहिए ।

इस प्रकार एक जीवकी अपेक्षा अन्तर समाप्त हुआ ।

१. कम्मइयकायजोगेणमंतरं केवच्चिरं कालादो होदि ? ॥७७॥ जहण्णेण खुदाभवगहणं तिसमऊणं ॥७८॥ उपकस्सेण अंगुलस्स असंखेज्जदिभागो असंखेज्जासंखेज्जाओ ओसप्पिणि-उस्सप्पिणीओ ॥७९॥
—खुदाबंध खंड २, पु० ७, पृ० २१२ ।

२. "आहाराणुवादेण सासणंमग्गमादिट्ठि-सम्मामिच्छादिट्ठीणमंतरं केवच्चिरं कालादो होदि ? एगजीवं पडुच्च जहण्णेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, अंतोमुहूर्तं । उक्कस्सेण अंगुलस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जा-संखेज्जाओ ओसप्पिणि-उस्सप्पिणीओ । अमंजदमग्गमादिट्ठिणहुडि जाव अप्पमत्तसंजदाणमंतरं केवच्चिरं कालादो होदि ? एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहूर्तं, उक्कस्सेण अंगुलस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाओ ओसप्पिणि-उस्सप्पिणीओ ॥"— पु. ५, पृ. १७३-७५, सूत्र ३८४-६०

[सणियासपरूवणा]

५४. सणियासो दुविधो सस्थाणसणियासो चैव परस्थाणसणियासो चैव ।
सस्थाणसणियासे पगदं । दुविधो णिहेसो ओघे० आदेसे० ।

५५. ओघे०—आभिणिवोधिय-णाणावरणीयं बंधंतो चहुण्णं णाणावरणीयाणं
णियमा बंधगो । एवं एकमेकस्स बंधगो । णिहाणिहं बंधंतो अट्टदंसणा० णियमा
बंध० । एवं थीणगिद्धितियस्स । णिहं बंधं० थीणगिद्धितियं सिया बंधगो । सिया
अबंधगो, पंचदंसणा० णियमा बंधगो । एवं पचला० । चक्खुदंसणा० बंध० पंच-

[सन्निकर्षप्ररूपणा]

५४. सन्निकर्ष दो प्रकारका है, एक स्वस्थान सन्निकर्ष और दूसरा परस्थान सन्निकर्ष
है । यहाँ स्वस्थान सन्निकर्ष प्रकृत है । उसका ओघ और आदेशकी अपेक्षा दो प्रकारसे निर्देश
करते हैं ।

विशेषार्थ—स्वस्थान सन्निकर्षमें एक साथ बँधनेवाली एकजातीय प्रकृतियोंका ग्रहण
किया गया है । परस्थान सन्निकर्षमें एक साथ बँधनेवाली सजातीय एवं विजातीय प्रकृतियों-
का ग्रहण किया गया है ।

५५. ओघसे—आभिनिबोधिक ज्ञानावरणका बन्ध करनेवाला शेष श्रुतादि ज्ञानावरण-
चतुष्टयको नियमसे बाँधता है । इसी प्रकार एक प्रकृतिका बन्ध करनेवाला ज्ञानावरणकी
शेष प्रकृतियोंका बन्धक है ।

विशेषार्थ—ज्ञानावरणकी मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय, केवलज्ञानावरणरूप किसी
भी प्रकृतिका बन्ध होनेपर शेष चार प्रकृतियोंका भी नियमसे बन्ध होगा । ऐसा नहीं है कि
अवधिज्ञानावरणका तो बन्ध होता रहे और मनःपर्ययज्ञानावरणादिका बन्ध न हो । पाँचों
ज्ञानावरणके भेदोंका सदा एक साथ बन्ध होता रहता है ।

निद्रानिद्राका बन्ध करनेवाला ८ दर्शनावरणका नियमसे बन्धक है । इसी प्रकार
स्थानगृद्धित्रिकमें भी समझना चाहिए । निद्राका बन्धक स्थानगृद्धित्रिकका बन्धक है भी
और नहीं भी है । किन्तु वह दर्शनावरणपंचक अर्थात् चक्षु-अचक्षु-अवधि-केवलदर्शनावरण
तथा प्रचलाका नियमसे बन्धक है ।

विशेषार्थ—स्थानगृद्धित्रिकका बन्ध सासादन गुणस्थान तक होता है और निद्रा-
प्रकृतिका अपूर्वकरण गुणस्थानके प्रथमभागपर्यन्त बन्ध होता है, अतः निद्राका बन्ध होनेपर
स्थानगृद्धित्रिकका बन्ध होना अनिवार्य नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी होवे ।

निद्राके समान प्रचलाका भी वर्णन जानना चाहिए । चक्षुदर्शनावरणका बन्धक जीव
निद्रादिक पाँच दर्शनावरणका कथंचित् बन्धक है, कथंचित् अबन्धक है, किन्तु अचक्षु-अवधि-
केवलदर्शनावरणका नियमसे बन्धक है । इसी प्रकार अचक्षु-अवधि-केवलदर्शनावरणमें
जानना चाहिए ।

दंसणा० सिया बंधगो सिया अबंधगो, तिणिण दंसणा० णियमा बंधगो । एवं तिणिण दंसणा० । सादं बंधंतो असादस्स अबं० । असादं बंधं सादं अबं० ।

५६. मिच्छत्तं बंधंतो सोलसक०-भयदुगुं० णियमा बंधगो । इत्थिवेदं सिया बंधगो, सिया अबंधगो । पुरिसवेदं सिया अबंधगो [बंधगो], सिया अबंधगो । णपुंसं० सिया बंधं० सिया अबंधं० । तिणिण वेदाणं एकतरं बंधगो, ण चेव अबंधं० । हस्सरदि सिया बंधं० सिया अबंधं० । अरदि-सोगा० सिया बंधं० सिया अबंधं० । दोणं युगलाणं एकतरं बंधगो ण चेव अबंधं० ।

५७. अणंताणुबंधिकोधं बंधंतो मिच्छत्तं सिया बंधं० सिया अबं०, पणारसक०-भयदुगुं० णियमा बंधगो । इत्थिवेदं सिया बं०, पुरिसं० सिया बं०, णपुंसं० सिया बं० । तिणिण वेदाणं एकतरं बंधओ ण चेव अबंधं० । हस्सरदि सिया बं० । अरदिसोगं सिया बंधं० । दोणं युगला० एकतरं बंधं०, ण चेव अबं० । एवं तिणिण कसायाणं ।

विशेषार्थ—चक्षुदर्शनावरणका बन्ध सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानपर्यन्त होता है और पंच निद्राओंका अपूर्वकरणपर्यन्त होता है, इस कारण चक्षुदर्शनावरणके बन्धकके निद्रादिका बन्ध विकल्प रूपसे कहा है ।

साताका बन्ध करनेवाला असाताका अबन्धक है । असाताका बन्धक साताका अबन्धक है ।

विशेषार्थ—साता और असाता परस्पर प्रतिपक्षी प्रकृतियाँ हैं । अतः एकके बन्ध होते समय दूसरीका अबन्ध होगा ।

५६. मिथ्यात्वका बन्ध करनेवाला—सोलह कषाय, भय, जुगुप्साका नियमसे बन्धक है । स्त्रीवेदका स्यात् (कथंचित्) बन्धक है, स्यात् अबन्धक है । पुरुषवेदका स्यात् बन्धक है, स्यात् अबन्धक है । नपुंसकवेदका स्यात् बन्धक है, स्यात् अबन्धक है । तीन वेदोंमें-से अन्यतमका बन्धक है; अबन्धक नहीं है । हास्य, रतिका स्यात् बन्धक है, स्यात् अबन्धक है । अरति-शोकका स्यात् बन्धक है, स्यात् अबन्धक है । दोनों युगलोंमें-से अन्यतरका बन्धक है, अबन्धक नहीं है ।

५७. अनन्तानुबन्धी क्रोधका बन्ध करनेवाला मिथ्यात्वका स्यात् बन्धक है, स्यात् अबन्धक है । किन्तु शेष १५ कषाय, भय, जुगुप्साका नियमसे बन्धक है ।

विशेषार्थ—अनन्तानुबन्धीका सासादनपर्यन्त बन्ध होता है, किन्तु मिथ्यात्वका प्रथम गुणस्थान पर्यन्त । अतः अनन्तानुबन्धीके बन्धकके साथ मिथ्यात्वका बन्ध हो भी और न भी हो ।

स्त्रीवेदका स्यात् बन्धक है, पुरुषवेदका स्यात् बन्धक है, नपुंसकवेदका स्यात् बन्धक है, तीनों वेदोंमें-से किसी एकका बन्धक है; अबन्धक नहीं है । हास्य-रतिका स्यात् बन्धक है, अरति-शोकका स्यात् बन्धक है । दो युगलोंमें-से किसी एक युगलका बन्धक है; अबन्धक नहीं है । इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी मान, माया तथा लोभके बन्धकमें जानना चाहिए ।

५८. अपच्चक्खाणं कोधं बंधंतो मिच्छन्त० अणंताणु०४ सिया बंधगो । सिया अबंध० । एकारसक०-भयदुगु० णियमा बंध० । इत्थिवे० सिया बंध० । पुरिसवं०[वे०] सिया बंध० । णपुंस० सिया बंध० । तिण्णि वेदाणं एककतरं बंधगो । ण चेव अबंध० । हस्सरदि सिया बंध० । अरदिसो० सिया वं० । दोण्णि युग० एकतरं बंधगो ण चेव अबंध० । एवं तिण्णि कसायाणं ।

५९. पच्चक्खाणावर० कोधं बंधंतो मिच्छन्त० अहुकसा० सिया वं० सिया अबं० । सत्तक०-भयदु० णियमा बंधगो । इत्थि० सिया वं० । पुरिस० सिया वं० । णपुंस० सिया वं० । तिण्णि वेदाणं एककतरं वं०, ण चेव बंध० [अबंधगो] । हस्सरदि सिया बंध० । अरदिसोगाणं सिया बंधगो । दोण्णं युगलाणं एकतरं बंध०, ण चेव अबंध० । एवं तिण्णि कसायाणं ।

६०. कोधसंज० बंधं० मिच्छन्त० बारसक० भयदुगुं० सिया बंध० तिण्णि संज०

५८. अप्रत्याख्यानावरण क्रोधका बन्ध करनेवाला मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी ४ का स्यात् बन्धक है, स्यात् अबन्धक है ।

विशेषार्थ—अप्रत्याख्यानावरणका बन्ध चतुर्थ गुणस्थान पर्यन्त होता है और मिथ्यात्व तथा अनन्तानुबन्धी ४ का क्रमशः मिथ्यात्व, सासादन गुणस्थान तक बन्ध होता है; इस कारण अप्रत्याख्यानावरण ४ के बन्धके साथ मिथ्यात्व तथा अनन्तानुबन्धी ४ के बन्धकी अनिवार्यता नहीं है ।

अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ तथा अप्रत्याख्यानावरण क्रोधको छोड़कर शेष ग्यारह कषाय, भय, जुगुप्साका नियमसे बन्धक है । स्त्रीवेदका स्यात् बन्धक है । पुरुषवेदका स्यात् बन्धक है । नपुंसकवेदका स्यात् बन्धक है । तीनों वेदोंमें-से अन्यतरका बन्धक है; अबन्धक नहीं है । हास्य, रतिका स्यात् बन्धक है । अरति, शोकका स्यात् बन्धक है । दो युगलोंमें-से अन्यतरका बन्धक है, अबन्धक नहीं है ।

विशेषार्थ—हास्य-शोक, रति-अरति ये परस्पर विरोधी प्रकृतियाँ हैं । अतः जय हास्य-रतिका बन्ध होगा, तब शोक-अरतिका बन्ध नहीं होगा ।

अप्रत्याख्यानावरण मान, माया, लोभमें अप्रत्याख्यानावरण क्रोधके समान जानना चाहिए ।

५९. प्रत्याख्यानावरण क्रोधका बन्ध करनेवाला—मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी तथा अप्रत्याख्यानावरणरूप कषायाष्टकका स्यात् बन्धक है, स्यात् अबन्धक है । शेष प्रत्याख्यानावरण ३ तथा संज्वलन ४ इस प्रकार ७ कषाय, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्धक है । स्त्रीवेदका स्यात् बन्धक है । पुरुषवेदका स्यात् बन्धक है । नपुंसकवेदका स्यात् बन्धक है । तीन वेदोंमें-से किसी एकका बन्धक है; अबन्धक नहीं है । हास्य-रतिका स्यात् बन्धक है । अरति-शोकका स्यात् बन्धक है । दो युगलोंमें-से अन्यतरका बन्धक है; अबन्धक नहीं है । इसी प्रकार प्रत्याख्यानावरण मान, माया तथा लोभका भी वर्णन जानना चाहिए ।

६०. संज्वलन क्रोधका बन्ध करनेवाला—मिथ्यात्व, १२ कषाय, भय, जुगुप्साका स्यात्

णियमा बंध० । इत्थि० सिया बं० । पुरिस० सिया बं० । णपुंस० सिया बं० । तिण्णि वेदाणं एकदरं बंध० । अथवा तिण्णं पि अबं० । हस्सरदि सिया बं० । अरदिसोग० सिया बं० । दोण्णं युग० एकतरं बं० अथवा दोण्णं पि अबं० । एवं तिण्णं संजलणाणं । णवरि माणं बं० मायालो० णियमा बंध० । तेरसक० भयदुगुं० सिया बं० । मायं बंध० लोभं णियमा बंध० । चोदसक० भयदु० सिया बं० । लोभसंज० बंधं० पण्णा-रसक० भयदु० सिया [बंधगो] ।

६१. इत्थिवेदं बंधंतो मिच्छत्तं सिया [बं०] । सोलसक० भयदु० णियमा बं० । हस्सरदि सिया० । अरदिसोग० सिया० । दोण्णं युगलाणं एकतरं बंध० णव (१) चैव अबं० ।

६२. पुरिसवेदं बंधंतो मिच्छत्तं चारसक० भयदु० सिया बं० हस्सरदि सिया बं० अरदिसोग० सिया बं० । दोण्णं युगलाणं एकतरं बं० । अथवा दोण्णं पि अबं० । चदुसंज० णियमा बं० ।

बन्धक है, किन्तु शेष मान, माया, लोभरूप संज्वलनका नियमसे बन्धक है । स्त्रीवेदका स्यात् बन्धक है । पुरुषवेदका स्यात् बन्धक है । नपुंसकवेदका स्यात् बन्धक है । तीनों वेदोंमें-से किसी एकका बन्धक है, अथवा तीनोंका भी अबन्धक है ।

विशेषार्थ—वेदका बन्ध अनिवृत्तिकरणके प्रथम भाग पर्यन्त है, किन्तु संज्वलन क्रोधका बन्ध अनिवृत्तिकरणके अवेदभाग तक होता है । अतः संज्वलन क्रोधके बन्धकको वेदत्रयका अबन्धक भी कहा है ।

हास्य-रतिका स्यात् बन्धक है । अरति-शोकका स्यात् बन्धक है । दो युगलोंमें-से किसी एक युगलका बन्धक है अथवा दोनों युगलोंका ही अबन्धक है ।

विशेषार्थ—अरति-शोकका प्रमत्त गुणस्थानपर्यन्त तथा हास्य-रतिका अपूर्वकरणपर्यन्त बन्ध है । अतः संज्वलन क्रोधके बन्धकमें इनके बन्धका स्यात् सद्भाव है, स्यात् नहीं भी है ।

संज्वलन मान, माया, लोभमें भी इसी प्रकार जानना चाहिए । इतना विशेष है कि संज्वलन मानको बाँधनेवाला संज्वलन माया और लोभका नियमसे बन्धक है । तेरह कषाय अर्थात् संज्वलन मान-माया-लोभरहित शेष कषाय, भय तथा जुगुप्साका स्यात् बन्धक है । संज्वलन मायाको बाँधनेवाला संज्वलन लोभको नियमसे बाँधता है । शेष १४ कषाय तथा भय, जुगुप्साका स्यात् बन्धक है । संज्वलन लोभको बाँधनेवाला-१५ कषाय, भय, जुगुप्साका स्यात् बन्धक है ।

६१. स्त्रीवेदको बाँधनेवाला मिथ्यात्वका स्यात् बन्धक है, १६ कषाय, भय, जुगुप्साका नियमसे बन्धक है । हास्य-रतिका स्यात् बन्धक है । अरति-शोकका स्यात् बन्धक है । दोनों युगलोंमें-से एकका बन्धक है, अबन्धक नहीं है ।

विशेषार्थ—स्त्रीवेदकी बन्धव्युच्छिन्ति सासादन गुणस्थानके अन्तमें होती है, अतः स्त्रीवेदके बन्धकके मिथ्यात्वका बन्ध विकल्प रूपसे कहा है ।

६२. पुरुषवेदको बाँधनेवाला-मिथ्यात्व, संज्वलन ४ को छोड़कर शेष १२ कषाय, भय, जुगुप्साका स्यात् बन्धक है ।

६३. णपुंसं बंधं० मिच्छत्त० सोलसक० भयदुगु० णियमा बं० । हस्सरदि सिया० [बं०] अरदिसोग० सिया बं० । दोणं युगलाणं एकतरं बं०, ण चेव अबं० ।

६४. हस्सं बंधं० मिच्छत्त० बारसक० सिया बं० । चदुसंज० रदि-भय-दुगुं णियमा बं० । इत्थि० पुरिस० णपुंस० सिया बं० । तिण्णि वेदाणं एक० [बंधगो] ण चेव अबं० । एवं रदि ।

६५. अरदिं बंधं० मिच्छ० बारसक० सिया [बं०] । चदुसंज० सोग-भयदुगु० णियमा बं० । इत्थि० पुरिस० णपुंस० सिया० । तिण्णं वेदाणं एकद० बंधं०, ण चेव अबंधं० । एवं सोगं ।

६६. भयं बंधंतो मिच्छत्त-बारसक० सिया० [बंधगो] । चदुसंजल० दुगु० णियमा बं० । इत्थि० पुरिस० णपुंस० सिया० । तिण्णं वेदाणं एकद० [बंधगो]

विशेषार्थ—पुरुषवेदके बन्धकके संज्वलन ४ का अनिवृत्तिकरण गुणस्थान पर्यन्त नियमसे बन्ध होता है। अतः यहाँ संज्वलनचतुष्टयको छोड़कर बारह कषायोंका विकल्प रूपसे बन्ध कहा है।

हास्य-रतिका स्यात् बन्धक है। अरति-शोकका स्यात् बन्धक है। दोनों युगलोंमें-से किसी एक युगलका बन्धक है अथवा दोनोंकाही अबन्धक है। चार संज्वलनका नियमसे बन्धक है।

६३. नपुंसकवेदको बाँधनेवाला—मिथ्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुप्साका नियमसे बन्धक है। हास्य-रतिका स्यात् बन्धक है। अरति-शोकका स्यात् बन्धक है। दोनों युगलोंमें-से अन्य-तरका बन्धक है; अबन्धक नहीं है।

विशेषार्थ—नपुंसकवेद तथा स्त्रीवेदके बन्धकोंके १६ कषायोंका नियमसे बन्ध कहा है, किन्तु पुरुषवेदके बन्धकोंके संज्वलनको छोड़कर शेष १२ कषायोंका स्यात् बन्धक कहा है। इसका कारण यह है कि नपुंसकवेद तथा स्त्रीवेदके बन्धक क्रमशः मिथ्यात्व, सासादन तक होते हैं, वहाँ १६ कषायोंका बन्ध होता है। पुरुषवेदका बन्ध अनिवृत्तिकरणगुणस्थान पर्यन्त होता है, इस कारण पुरुषवेदके बन्धकोंके १२ कषायोंके कथंचित् बन्धका वर्णन किया गया है; किन्तु संज्वलन ४ का नियमसे बन्ध कहा है।

६४. हास्यका बन्ध करनेवाला—मिथ्यात्व तथा १२ कषायका स्यात् बन्धक है।

विशेषार्थ—हास्यका बन्ध अपूर्वकरणगुणस्थानपर्यन्त होता है, किन्तु मिथ्यात्व एवं १२ कषायोंका उसके नीचे पर्यन्त बन्ध होता है। इस कारण हास्यके बन्धकके मिथ्यात्वादिका बन्ध विकल्प रूपसे बताया है।

चार संज्वलन, रति, भय, जुगुप्साका नियमसे बन्धक है। स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक-वेदका स्यात् बन्धक है। तीनों वेदोंमें-से एकका बन्धक है, अबन्धक नहीं है। इसी प्रकार रति प्रकृतिमें जानना चाहिए।

६५. अरतिका बन्ध करनेवाला—मिथ्यात्व, १२ कषायका स्यात् बन्धक है। ४ संज्व-लन, शोक, भय, जुगुप्साका नियमसे बन्धक है। स्त्री-पुरुष-नपुंसकवेदका स्यात् बन्धक है। तीनों वेदोंमें-से एक वेदका बन्धक है; अबन्धक नहीं है। इसी प्रकार शोकमें जानना चाहिए।

६६. भयका बन्ध करनेवाला—मिथ्यात्व, १२ कषायका स्यात् बन्धक है। ४ संज्वलन तथा जुगुप्साका नियमसे बन्धक है। स्त्री-पुरुष-नपुंसकवेदका स्यात् बन्धक है। तीनों वेदोंमें-से

ण चेव अबं० । हस्सरदी सिया [बं०], अरदिसोग० सिया [बं०] । दोणं युग०
एकद० ण चेव अबं० । एवं दुगु० ।

६७. गिरयायुगं बंधंतो तिरिक्खायुगं मणुसायुगं देवायुगं अबंधगो ।
एवमणमणस्स अबंधगो ।

६८. गिरयगतिं [दिं] बंधंतो पंचिदि० वेउन्विय-तेजाक० हुंडसंठाणं वेउन्वि०
अंगो० वण्ण०४ गिरयाणुपु० अगु०४ अपस० तस०४ अधिरादिद्ध० णिमिण०
णियमा बं० । एवं गिरयाणुपुन्वि० ।

६९. तिरिक्खगतिं बंधंतो ओरालिय-तेजाक० वण्ण०४ तिरिक्खाणु० अगु०
उप० णिमिण० णियमा बंध० । एइंदियजादि सिया० । एवं वेइं० तेइं० चदु० पंचिदि०
सिया [बंधगो] । पंचणं जादीणं एककदरं बंधगो, ण चेव अबंधगो । एवं छसंठा०
एकतरं बंधगो । ण चेव अबंधगो । ओरालि० अंगो० परघादुस्सा० आदावुज्जो० सिया
बं० सिया अबं० । छस्संघ० सिया० । दो विहाय० सिया० । दो सरं सिया बंधगो,

किसी एकका बन्धक है; अबन्धक नहीं है । हास्य, रतिका स्यात् बन्धक है । अरति, शोकका स्यात् बन्धक है । दोनों युगलोंमें-से एक युगलका बन्धक है; अबन्धक नहीं है । जुगुप्साका बन्ध करनेवालेके इसी प्रकार जानना चाहिए।

६७. नरकायुका बन्ध करनेवाला-तिर्यचायु, मनुष्यायु तथा देवायुका अबन्धक है । इसी प्रकार किसी अन्य आयुका बन्ध करनेवाला शेषका अबन्धक है । जैसे तिर्यचायुका बन्धक शेष तीन आयुओंका अबन्धक होगा । कारण एक समयमें वध्यमान एक ही आयु होगी ।

६८. नरकगतिका बन्ध करनेवाला-पंचेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक, तैजस, कार्मण शरीर, हुंडक संस्थान, वैक्रियिक अंगोपांग, वर्ण ४, नरकानुपूर्वी, अगुरुलघु ४, अप्रशस्तविहायोगति, त्रस ४, अस्थिरादिषट्क, निर्माणका नियमसे बन्धक है ।

विशेषार्थ—नरकगतिमें संहननका अभंभव होनेसे उसका बन्ध नहीं बताया है । कारण संहनन अस्थिबन्धन विशेषरूप है, वैक्रियिक शरीरमें अस्थिका अभाव है ।

नरकानुपूर्वीका बन्ध करनेवालेके-नरकगतिके समान जानना चाहिए ।

६९. तिर्यचगतिका बन्ध करनेवाला-औदारिक, तैजस, कार्मण शरीर, वर्ण ४, तिर्यचानु-पूर्वी, अगुरुलघु; उपघात तथा निर्माणका नियमसे बन्धक है । एकेन्द्रिय जातिका स्यात् बन्धक है । इसी प्रकार दो, तीन, चार, पंचेन्द्रिय जातिका स्यात् बन्धक है । पंचजातियोंमें-से एकका बन्धक है; अबन्धक नहीं है । इसी प्रकार छह संस्थानोंमें-से किसी एकका बन्धक है; अबन्धक नहीं है । औदारिक अंगोपांग, परघात, उच्छ्वास, आताप, उद्योतका स्यात् बन्धक है, स्यात् अबन्धक है । ६ संहननोंका स्यात् बन्धक है ।

विशेषार्थ—तिर्यचगतिके बन्धकके ६ संहननका बन्ध अबिज्ञार्य नहीं है; कारण एकेन्द्रियोंमें संहनन नहीं होता है । अस्थिबन्धनविशेषको संहनन कहते हैं । एकेन्द्रियोंके अस्थियाँ नहीं पायी जाती हैं । उनके द्वारा गृहीत आहारका मांस रुधिरादिरूप परिणमन नहीं होता है । इस कारण उनके संहननका अभाव कहा है ।

सिया अबंधगो । अथवा ल्पणं दोष्णं दोष्णं पि अबं० । तस० सिया० । थावरं सिया० । दोष्णं पगदी० एकतरं वं०, ण चेव अबं० । एवं अट्टयुगलाणं । एवं तिरिक्खाणुं० ।

७०. मणुसगदिं वं० पंचिदि० ओरालिय-तेजाक० ओरालि० अंगो० वण्ण०४ मणुसाणु० अगु० उप० तस-बादर-पत्तो० णिमि० णियमा [बंधगो] । छस्संठा० छस्संध०पज्जत्ता० अपज्ज० थीरादि-पंच-युग० सिया वं०, सिया अबं० । एदेसिं एकतरं वं०, ण चेव अबं० । परघादुस्सा० तित्थय० सिया वं०, सिया अबं० । दो विहा० दो सर० सिया बंध०, सिया अ० । अथवा दोष्णं दोष्णं पि अबं० । एवं मणुसाणु० ।

७१. देवगदिं बंधंतो पंचिदि० वेउव्विय-तेजाक० समच्चदु० वेउव्वि० अंगो० वण्ण०४ देवाणु० अगु०४ पसत्थ० तस०४ सुभग-सुस्सर-आदे० णिमि० णियमा वं० । आहारदुग-तित्थय० सिया० [वं० सिया] अबं० । थिरादेतिण्णि यु० सिया वं०, सिया अबंध० । तिण्णि युगलाणं एकतरं बंध०, ण चेव अबं० । एवं देवाणुपु० ।

दो विहायोगतिका स्यात् बन्धक है । दो स्वरका स्यात् बन्धक है, स्यात् अबन्धक है । अथवा ६ संहनन, दो विहायोगति, तथा दो स्वरोका भी अबन्धक है ।

विशेषार्थ—एकेन्द्रियोंमें संहननके समान विहायोगति तथा स्वरका अभाव है । इस कारण ६, २, २ का अबन्धक भी कहा है ।

त्रसका स्यात् बन्धक है । स्थावरका स्यात् बन्धक है । दोनोंमें-से किसी एकका बन्धक है; अबन्धक नहीं है । बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, शुभ, सुभग, आदेय, यशःकीर्ति और स्थिर इनके आठ युगलोंका इसी प्रकार वर्णन समझना चाहिए अर्थात् प्रत्येक युगलमें-से अन्यतरका बन्धक है, अबन्धक नहीं है । तिर्यचानुपूर्वीका बन्ध करनेवालेके तिर्यचगतिके समान भंग है ।

७०. मनुष्यगतिका बन्ध करनेवाला—पंचेन्द्रिय जाति, औदारिक-तैजस-कार्माण शरीर, औदारिक अंगोपांग, वर्ण ४, मनुष्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, त्रस, बादर, प्रत्येक और निर्माणका नियमसे बन्धक है । ६ संस्थान, ६ संहनन, पर्याप्त, अपर्याप्त, स्थिरादि पंचयुगलका स्यात् बन्धक है, स्यात् अबन्धक है । इनमें-से किसी एकका बन्धक है, अबन्धक नहीं है । परघात, उच्छ्वास, तीर्थकरका स्यात् बन्धक है, स्यात् अबन्धक है । दो विहायोगति, २ स्वरका स्यात् बन्धक है, स्यात् अबन्धक है । अथवा दो विहायोगति, दो स्वरका भी अबन्धक है । मनुष्यानुपूर्वीमें मनुष्यगतिके समान जानना चाहिए ।

७१. देवगतिका बन्ध करनेवाला—पंचेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, तैजस-कार्माण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिक अंगोपांग, वर्ण ४, देवानुपूर्वी, अगुरुलघु ४, प्रशस्त-विहायोगति, त्रस ४, सुभग, सुस्वर, आदेय तथा निर्माणका नियमसे बन्धक है । आहार-कद्विक, तीर्थकरका [स्यात् बन्धक] स्यात् अबन्धक है । स्थिरादि तीन युगलका स्यात् बन्धक स्यात् अबन्धक है । तीन युगलोंमें-से किसी एक युगलका बन्धक है, अबन्धक नहीं है ।

देवानुपूर्वीमें देवगतिके समान जानना चाहिए ।

७२. एहंदिं बंधंतो तिरिक्खग० ओरालिय-तेजाक० हुंड० वण्ण०४ तिरिक्खाणु० अगु०उप० थावर-दुभग-अणा० णिमि० णियमा० । पर० उस्सा० आदावुजो० सिया बं०, सिया अबं० । बादरसुहुम० सिया [बं०] । दोण्णं० एकदरं बं०, ण चेव अबं० । एवं पज्जत्तापज्जत्त-पत्तेय-साधारण-थिराथिर-सुभासुभ-जस-अज० सिया एकतरं बं०, ण चेव अ० । एवं थावरं० ।

७३. बीइदिं बंधं० तिरिक्खग० ओरालि० तेजाकम्म० हुंडसं० ओरालि० अंगो० असंपत्त० वण्ण०४ तिरिक्खाणुपु० अगु० उप० तस० बादरपत्ते० दुभग-अणा० णिमि० णियमा० [बंधगो] । परघादुस्सा० उज्जोव० अप्पसत्थ० दुस्स० सिया [बं०] सिया अबं० । पज्जत्ता अपज्ज० सिया [बं०] सिया [अबं०] । दोण्णं युगजो० (?) एक० बं०, ण चेव अबं० । एवं थिरादि-तिण्णियुगलाणं एकतरं बं०, ण चेव अबं० एवं तीइदिं चतुरिदिं० ।

७४. पंचिंदिय-जादिणामं बंधंतो णिरयगदिं सिया बं०, सिया अबं० । एवं तिरिक्ख-मणुस-देवगदिं० । चदुण्णं गदीणं एकदरं बं०, णव चेव अबं० । एवं दो सरीरं० छस्संठा० दो-अंगो० चदुआणु० पज्जत्तापज्जत्त० थिरादि पंचयुगलाणं । आहार-दुगं परघादुस्सा० उज्जो० तित्थय० सिया बं०, सिया अ० । तेजाक० वण्ण०४

७२. एकेन्द्रिय जातिका बन्ध करनेवाला—तिर्यचगति, औदारिक-तैजस-कर्मण शरीर, हुंडक संस्थान, वर्ण ४, तिर्यचानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, स्थावर, दुभग, अनादेय और निर्माणका नियमसे बन्धक है। परघात, उच्छ्वास, आताप, उद्योतका स्यात् बन्धक है, स्यात् अबन्धक है। बादर, सूक्ष्मका स्यात् बन्धक है। दोमें-से एकका बन्धक है, अबन्धक नहीं है। इसी प्रकार पर्याप्त-अपर्याप्त, प्रत्येक साधारण, स्थिर-अस्थिर, शुभ-अशुभ, यशःकीर्ति-अयशःकीर्तिमें-से एकतरका स्यात् बन्धक है; अबन्धक नहीं है। स्थावरके विषयमें एकेन्द्रियके समान जानना चाहिए।

७३. दो इन्द्रियका बन्ध करनेवाला—तिर्यचगति, औदारिक-तैजस-कर्मण शरीर, हुंडक संस्थान, औदारिक अंगोपांग, असम्प्राप्तासृपाटिका संहनन, वर्ण ४, तिर्यचानुपूर्वी, अगुरु-लघु, उपघात, त्रस, बादर, प्रत्येक, दुभग, अनादेय तथा निर्माणका नियमसे बन्धक है। पर-घात, उच्छ्वास, उद्योत, अप्रशस्तविहायोगति तथा दुस्वरका स्यात् बन्धक, स्यात् अबन्धक है। पर्याप्त-अपर्याप्तक स्यात् बन्धक, स्यात् अबन्धक है। दोनोंमें-से एकका बन्धक है, अबन्धक नहीं है। स्थिरादि तीन युगलमें-से एकतरका बन्धक है; अबन्धक नहीं है। त्रीन्द्रिय, चौइन्द्रिय-का बन्ध करनेवालेके इसी प्रकार जानना चाहिए।

७४. पंचेन्द्रिय जाति नामकर्मका बन्ध करनेवाला—नरकगतिका स्यात् बन्धक है, स्यात् अबन्धक है। इसी प्रकार तिर्यच-मनुष्य-देवगतिमें जानना चाहिए अर्थात् स्यात् बन्धक है, स्यात् अबन्धक है। चारों गतियोंमें-से एकका बन्धक है, अबन्धक नहीं है। दो शरीर (औदा-रिक, वैक्रियिक), छह संस्थान, दो अंगोपांग, ४ आनुपूर्वी, पर्याप्त, अपर्याप्त, स्थिरादि पंच युगलमें भी इसी प्रकार जानना चाहिए। आहारकद्विक, परघात, उच्छ्वास, उद्योत तथा

अगु० उप० तस-वादर-पत्ते० णिमि० णियमा [बंधगो] । छस्संघ० दोविहा० दोस० सिया बंधगो । छण्णं दोण्णं दोण्णं पि एकदरं बं०, अथवा छण्णं दोण्णं दोण्णं पि अबं० ।

७५. ओरालियसरीरं बंधं० तेजाक० वण्ण०४ अगु० उप० णिमिणं णियमा बंधं० । तिरिक्खमणुसगदि सिया [बं०] । दोण्णं एकदरं बंधगो, ण चेव अबं० । एवं भंगो पंचजादि-छस्संठाणं दो आणु० तसथावरादि-णव-युगलाणं । ओरालि० अंगो० परघादु० आदावुज्जो० तिस्थय० सिया बं०, सिया अबं० । छस्संघ० दोविहा० दो सरं सिया बंधं०, सिया अबं० । अथवा [छण्णं] दोण्णं दोण्णं पि अबंधं० ।

७६. वेगुव्वियस० बंधंतो पंचिदि० तेजाक० वेगुव्विय० अंगो० वण्ण०४ अगु०४ तस०४ णिमिणं णियमा बं०, णिरयगदि-देवगदी० सिया बंधं० । दोण्णं एकदरं बं०, ण चेव अबंधं० । एवं समचदु० हुंडसंठा० दोण्णं आणुपु० दो विहाय०

तीर्थकर प्रकृतिका स्यात् बन्धक है, स्यात् अबन्धक है । तैजस, कार्मण, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, त्रस-वादर, प्रत्येक और निर्माणका नियमसे बन्धक है । ६ संहनन, दो विहाययोगति तथा दो स्वरका स्यात् बन्धक है । इन, ६, २, २ में-से एकतरका बन्धक है, अथवा ६, २, २ का भी अबन्ध है ।

७५. औदारिक शरीरका बन्ध करनेवाला - तैजस, कार्मण वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माणका नियमसे बन्धक है । तिर्यचगति, मनुष्यगतिका स्यात् बन्धक है । दोनोंमें-से अन्यतरका बन्धक है; अबन्धक नहीं है ।

विशेषार्थ—देवगति, नरकगतिका सन्निकर्ष वैक्रियिक शरीरके साथ है औदारिकके साथ नहीं है, इससे यहाँ उनका उल्लेख नहीं किया गया है ।

पाँच जाति, ६ संस्थान, दो आनुपूर्वी, त्रस-स्थावरादि ९ युगलमें भी तिर्यच मनुष्यगति-के समान जानना चाहिए ।

औदारिक अंगोपांग, परघात, उच्छ्वास, आताप, उद्योत और तीर्थकरका स्यात् बन्धक है, स्यात् अबन्धक है ।

विशेषार्थ—औदारिक शरीरको धारण करनेवाले एकेन्द्रियके औदारिक अंगोपांग नहीं पाया जाता है । इस कारण औदारिक अंगोपांगका बन्ध यहाँ विकल्प रूपसे कहा गया है ।

छह संहनन, दो विहाययोगति, दो स्वरका स्यात् बन्धक है, स्यात् अबन्धक है । अथवा [६] २, २ का भी अबन्धक है ।

७६. वैक्रियिक शरीरका बन्ध करनेवाला - पंचेन्द्रिय जाति, तैजस-कार्मण शरीर, वैक्रियिक अंगोपांग, वर्ण ४, अगुरुलघु ४, त्रस ४ और निर्माणका नियमसे बन्धक है ।

विशेषार्थ—वैक्रियिक शरीरके साथ वैक्रियिक अंगोपांगका नियमसे बन्ध होता है । इस कारण यहाँ औदारिक शरीर और औदारिक अंगोपांगके समान विकल्प नहीं है ।

नरकगति, देवगतिका स्यात् बन्धक है । दोमें-से एकका बन्धक है; अबन्धक नहीं है । समचतुरस्र संस्थान, तथा हुंडक संस्थानमें इसी प्रकार जानना चाहिए अर्थात् इनमें अन्यतरका बन्धक है; अबन्धक नहीं ।

विशेषार्थ—वैक्रियिक शरीरधारी देवोंमें समचतुरस्र संस्थान होता है और नारकियोंमें हुंडक संस्थान पाया जाता है । अन्य संस्थानोंका वैक्रियिक शरीरके साथ सन्निकर्ष नहीं है ।

थिरादि-द्वयुग० सिया एदेसिं एकरं बंध० ण चेव अबं० । आहारदुगं सिया [बं०] तिस्थयरं सिया [बं] एवं वेगुविय अंगो० ।

७७. आहारसरीरं बंधंतो देवगदिपंचिदियजादि-तिष्णं सरीरं० समचदु० दो अंगो० वण्ण०४ देवाणु० अगुरु० पसत्थ० तस०४ थिरादिद्व० णिमि० णियमा बं० । तिस्थयरं सिया [बं०] एवं आहारंगोव० ।

७८. तेजासरी० बं० चदुगदि० सिया बं० । चदुण्णं गदीणं एक्कदरं बं०, ण चेव अबं० । पंचजादि-दोसरी० छसंठा० चदुआणु० तस-थावरादि-णवयुगलं गदि-भंगो । आहारदुगं पर० उस्सा० आदावुज्जोव-तिस्थय० सिया बं० । दो अंगो० छसंघ० दो विहाय-दोस [र]० सिया बं० सिया अबं० । दोण्णं छण्णं दोण्णं दोण्णं पि एक्कदरं बं० । अथवा दोण्णं छण्णं दोण्णं दोण्णं पि अबंधगो । एवं कम्मइय० ।

७९. वण्ण०४ अगु० उप० णिमि० समचदु० बंधंतो तिरिक्ख-मणुस-देवगदि

दो आनुपूर्वी, दो विहायोगति, स्थिरादि छह युगलमें-से अन्यतरका स्यात् बन्धक है, अबन्धक नहीं है ।

विशेषार्थ—वैक्रियिक शरीरके साथ संहननका बन्ध नहीं होता है, कारण देव-नारकियोंके संहनन नहीं पाया जाता है ।

आहारकद्विकका स्यात् बन्धक है । तीर्थकरका स्यात् बन्धक है । वैक्रियिक अंगोपांगका बन्ध करनेवालेके वैक्रियिक शरीरके बन्धकके समान जानना चाहिए ।

७७. आहारक शरीरका बन्ध करनेवाला - देवगति, पंचेन्द्रियजाति तथा तैजस-कर्मण वैक्रियिक इन शरीरत्रयका नियमसे बन्धक है ।

विशेषार्थ—औदारिक शरीरकी बन्धव्युच्छित्ति चतुर्थगुणस्थानमें हो जाती है, इस कारण सप्तम गुणस्थानमें बंधनेवाले आहारक शरीरके साथ औदारिक शरीरका सन्निकर्ष नहीं कहा है ।

समचतुरस्र संस्थान, आहारक-वैक्रियिक अंगोपांग, वर्ण ४, देवानुपूर्वी, अगुरुलघु, प्रशस्तविहायोगति, त्रस ४, स्थिरादि छह तथा निर्माणका नियमसे बन्धक है । तीर्थकरका स्यात् बन्धक है । आहारक अंगोपांगका बन्धक करनेवालेके भी आहारक शरीरके समान भंग है ।

७८. तैजस शरीरका बन्ध करनेवाला-४ गतिका स्यात् बन्धक है । चारों गतियोंमें-से किसी एकका बन्धक है; अबन्धक नहीं है । ५ जाति, दो शरीर, छह संस्थान, ४ आनुपूर्वी, त्रस-स्थावरादि नव युगलोंका गतिके समान भंग है अर्थात् अन्यतरका बन्धक है, अबन्धक नहीं है । आहारकद्विक, परघात, उच्छ्वास, आताप, उद्योत तथा तीर्थकर प्रकृतिका स्यात् बन्धक है । दो अंगोपांग, ६ संहनन, दो विहायोगति, तथा २ स्वरका स्यात् बन्धक है अर्थात् कथंचित् बन्धक, कथंचित् अबन्धक है । इन २, ६, २, २ में-से अन्यतरका बन्ध करनेवाला है । अथवा २, ६, २, २ का भी अबन्धक है । कर्मण शरीरका बन्ध करनेवालेके तैजस शरीरके समान जाना चाहिए ।

७९. वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माणमें इसी प्रकार है । समचतुरस्र संस्थानका

सिया बंध० । तिष्णं गदीणं एकदरं ब०, ण चेव अब० । दोसरी० दोअंगो० तिष्णि-
आणु० दो-विहा०-थिरादि छयुगलं गदिभंगो । पंचिदि० तेजाक० वण्ण०४ अगु०४
तस०४ णिमि० णियमा ब० । आहारदुगं तित्थयरं उज्जोवं सिया ब० । छस्संध०
सिया ब० सिया अब० । छण्णं संघ० एकदरं ब० । अथवा छण्णं पि अबंधगो । एवं
पसत्थवि० सुभग-सुस्स० आदे० ।

८०. णग्गोह-सरीरं (संठाणं) बंधंतो तिरिक्ख-मणुसगदि सिया [बंधगो]
सिया अब० । दोष्णं गदीणं एकदरं बंध० । ण चेव अब० । एवं गदिभंगो छस्संध०
दो आणु० दो विहा० थिरादिछयुगलं । पंचि० तिष्णि-स० ओरालि० अंगो० वण्ण०४
अगु०४ तस०४ णिमिणं णियमा ब० । उज्जोवं सिया [ब०] । एवं सादि०
खुज्ज० वामणसं० ।

८१. हुंडसंठा० बंधंतो तिष्णं गदिणाभाणं सिया [बंधगो] । एकदरं ब० । ण
चेव अब० । एवं पंचजा० दो-सरीर-तिष्णि-आणु० तसादिणवयुग० तेजाक० वण्ण०४

बन्ध करनेवाला तिर्यचगति, मनुष्यगति, देवगति का स्यात् बन्धक है । तीन गतियोंमें-से
एकका बन्धक है, अवन्धक नहीं है ।

विशेषार्थ—नारकियोंमें समचतुरस्र संस्थान नहीं पाया जाता है, इस कारण यहाँ
नरकगति का उल्लेख नहीं किया गया है ।

दो शरीर, दो अंगोपांग, तीन आनुपूर्वी, दो विहायोगति तथा स्थिरादि छह युगलका
गतिके समान भंग जानना चाहिए । अर्थात् एकतरका बन्धक है; अवन्धक नहीं है । पंचेन्द्रिय
जाति, तैजस-कार्मण शरीर, वर्ण ४, अगुरुलघु ४, त्रस ४ तथा निर्माणका नियमसे बन्धक है ।
आहारकद्रिक, तीर्थकर तथा उद्योतका स्यात् बन्धक है । छह संहननका स्यात् बन्धक, स्यात्
अवन्धक है । छहमें-से किसी एकका बन्धक है अथवा छहोंका अवन्धक भी है ।

विशेषार्थ—संहननका बन्ध तो चतुर्थ गुणस्थान पर्यन्त होता है और समचतुरस्र
संस्थानका बन्ध अपूर्वकरण तक होता है । अतः यहाँ ६ संहननका अवन्धक भी कहा है ।

प्रशस्तविहायोगति, सुभग, सुस्वर तथा आदेयका भी इसी प्रकार समझना चाहिए ।

८०. न्यप्रोथ परिमण्डल संस्थानका बन्ध करनेवाला - तिर्यचगति, मनुष्यगतिका स्यात्
बन्धक है, स्यात् अवन्धक है । दो गतियोंमें-से अन्यतरका बन्धक है; अवन्धक नहीं है ।

विशेषार्थ—देवगतिमें समचतुरस्रसंस्थान होता है और नरकगतिमें हुंडकसंस्थान
पाया जाता है । इस कारण यहाँ उक्त दोनों गतियोंका वर्णन नहीं किया गया है ।

छह संहनन, दो आनुपूर्वी, दो विहायोगति, स्थिरादि छह युगलमें गतिके समान पूर्वोक्त
भंग है । पंचेन्द्रिय जाति, ३ शरीर, औदारिक अंगोपांग, वर्ण ४, अगुरुलघु ४, त्रस ४ तथा
निर्माणका नियमसे बन्धक है । उद्योतका स्यात् बन्धक है । स्वातिसंस्थान, कुज्जकसंस्थान,
वामनसंस्थानके बन्ध करनेवालेमें इसी प्रकार जानना चाहिए ।

८१. हुंडकसंस्थानका बन्ध करनेवाला - नरक-मनुष्य तिर्यच गतियोंका स्यात् [बन्धक
है ।] अन्यतरका बन्धक है । अवन्धक नहीं है ।

विशेष—हुंडकसंस्थान देवगतिमें न होनेसे यहाँ उसका वर्णन नहीं किया गया है ।

अगु० उप० णिमि० णियमा ब० । दो-अंगो० छस्संघ० दो-विहा० दो-सरं सिया ब० । दोणं छणं दोणं दोणं एककदरं बंध० । अथवा दोणं छणं दोणं दोणं पि अ० । परघादुस्सा० आदावुज्जो० सिया ब० सिया अब० । एवं हुंडभंगो दूभग-अणादेज्ज० । ओरालिय० अंगोवंगं बंधंतो दो-गदि सिया ब० सिया अब० । दोणं गदीणं एककदरं [बंधगो] । ण चेव अब० । एवं चदुजादि० छस्संठा० छस्संघ० दो आणु० पज्जत्ता-पज्जत्त० थिरादिपंचयुगलाणं । ओरालिय-तेजाक० वण्ण०४ अगुरु० उप० तस-वादर-पत्तेय० णिमि० णियमा ब० । परघादुस्सा० उज्जो० तित्थयरं सिया ब० । दो विहा० दो सरं सिया ब० । दोणं दोणं एककद० ब० । अथवा दोणं दोणं पि अब० ।

८२. वज्जरिसभं बंधंतो दो-गदि सिया ब०, सिया अब० । दोणं गदीणं एकदरं ब० । ण चेव अब० । एवं छस्संठा० दो आणु० दो-विहा० थिरादिछयुगलाणं । पंचिदि० तिण्णि-सरी० ओरालि० अंगो० वण्ण०४ अगु०४, तस०४ णिमि० णियमा ब० । उज्जोव तित्थ० सिया [बंधगो] । एवं चदु-संघ० । णवरि तित्थयवज्जं ।

५ जाति, २ शरीर, ३ आनुपूर्वी (देवानुपूर्वी बिना) त्रसादि नव युगलमें इसी प्रकार वर्णन है । तैजस-कर्मण शरीर, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात तथा निर्माणका नियमसे बन्धक है । दो अंगोपांग, छह संहनन, दो विहायोगति तथा २ स्वरका स्यात् बन्धक है । इन २, ६, २, २ में-से किसी एकका बन्धक है । अथवा २, ६, २, २ का भी अबन्धक है । परघात, उच्छ्वास, आताप, उद्योतका स्यात् बन्धक, स्यात् अबन्धक है ।

दुर्भग तथा अनादेयके बन्ध करनेवालेमें हुंडक संस्थानके समान भंग है ।

औद्धारिक अंगोपांगका बन्ध करनेवाला—दो गति (मनुष्य-तिर्यचगति) का स्यात् बन्धक है, स्यात् अबन्धक है । दोमें-से एकका बन्धक है ; अबन्धक नहीं है । चार जाति, ६-संस्थान, ६ संहनन, २ आनुपूर्वी, पर्याप्तक, अपर्याप्तक, स्थिरादि पंचयुगलमें इसी प्रकार जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—एकेन्द्रियके अंगोपांगका अभाव होनेसे यहाँ एकेन्द्रिय जातिको छोड़कर चार जातियोंका कथन किया गया है ।

औद्धारिक तैजस-कर्मण शरीर, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, त्रस, वादर, श्रत्येक तथा निर्माणका नियमसे बन्धक है । परघात, उच्छ्वास, उद्योत, तीर्थकरका स्यात् बन्धक है । दो विहायोगति, २ स्वरका स्यात् बन्धक है । दो दोमें-से किसी एकका बन्धक है । अथवा दो दोका भी अबन्धक है ।

८२. वज्जवुपभसंहननका बन्ध करनेवाला—तिर्यचगति, मनुष्यगतिका स्यात् बन्धक है; स्यात् अबन्धक है । दो गतियोंमें-से अन्यतरका बन्धक है ; अबन्धक नहीं है । इस प्रकार छह संस्थान, दो आनुपूर्वी, दो विहायोगति, स्थिरादि छह युगलमें जानना चाहिए । पंचेन्द्रिय जाति, तीन शरीर, औद्धारिक अंगोपांग, वर्ण ४, अगुरुलघु ४, त्रस ४ तथा निर्माणका नियमसे बन्धक है ; उद्योत, तीर्थकरका स्यात् बन्धक है ।

आदि तथा अन्तके संहननको छोड़कर शेष ४ संहननके बन्ध करनेवालेमें यहाँ यही

असंपत्तं बंधंतो दो-गदि सिया बंध० । दोण्णं गदीणं एकदरं ब० । ण चेव अबं० । एवं चदुजादि-छस्संठा० दो-आणु० पज्जत्तापज्ज० थिरादिपंचयुगलाणं । तिण्णिसरी० ओरालि० अंगो० वण्ण४ अगु० उप० तस-वादर-पत्ते० णिमि० णियमा बं० । परघा-दुस्सास० उज्जो० सिया [बंधगो०] । दो विहा० दो सरी० (सरं) सिया [बं०] । दोण्णं दोण्णं एकदरं बंध० । अथवा दोण्णं दोण्णं पि अबं० ।

८३. परघादं बंधंतो चदुगदि सिया बं० सिया अबं० । चदुण्णं गदीणं एकदरं बं०, ण चेव अबं० । एस भंगो पंच-जादि-दो-सरीरं छस्संठा० चदु-आणु० तस-थावरादि-णवयुगलाणं पज्जत्तापज्जत्तवज्जं । तेजाक० वण्ण०४ अगु० उप० उस्सास-पज्ज० णिमिणं णियमा बंधगो । आहारदुग्गं आदा-वुज्जो० तिथ्य० सिया बं० सिया अबं० । दो अंगो० छस्संघ० दो विहा० दो सरं सिया बं० सिया अबं० । दोण्णं छण्णं दोण्णं दोण्णं एकदरं बं० अथवा दोण्णं छण्णं दोण्णं दोण्णं पि अबं० । एवं भंगो उस्सास पज्जत्त० थिर(?)सुभ(?)णामाणं च ।

क्रम है । विशेष यह है कि यहाँ तीर्थंकर प्रकृतिको छोड़ देना चाहिए ।

विशेषार्थ—यहाँ तीर्थंकर प्रकृतिका सन्निकर्ष न बतानेसे ज्ञात होता है कि संहनन चतुष्टयके साथ तीर्थंकरका बन्ध नहीं होता । वज्रवृषभ संहननके साथ तीर्थंकरका बन्ध हो सकता है । तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध सम्यक्त्वमें होता है । अतः मिथ्यात्व-सासादनमें बंधने-वाले असम्प्राप्तासृपाटिका संहनन तथा वज्रवृषभको छोड़, शेष ४ संहननका अभाव होगा ।

असम्प्राप्तासृपाटिकासंहननका बन्ध करनेवाला—दो गति (मनुष्य-तिर्यचगति) का स्यात् बन्धक है । दो गतियोंमें-से अन्यतरका बन्धक है, अबन्धक नहीं है । ४ जाति, ६ संस्थान, २ आनुपूर्वी, पर्याप्तक-अपर्याप्तक, स्थिरादि पंचयुगलोंमें भी इसी प्रकार जानना चाहिए । औदारिक-तैजस-कर्मण शरीर, औदारिक अंगोपांग, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, त्रस, वादर, प्रत्येक तथा निर्माणका नियमसे बन्धक है । परघात, उच्छ्वास तथा उद्योतका स्यात् बन्धक है । दो विहायोगति, दो स्वरका स्यात् बन्धक है । दो-दोमें-से अन्यतरका बन्धक है अथवा दो-दोका भी अबन्धक है ।

८३. परघातका बन्ध करनेवाला—४ गतिका स्यात् बन्धक है, स्यात् अबन्धक है । इन चारोंमें-से अन्यतरका बन्धक है, अबन्धक नहीं है । ५ जाति, औदारिक वैक्रियिक शरीर, ६ संस्थान, ४ आनुपूर्वी, पर्याप्तक-अपर्याप्तक रहित त्रस-स्थावरादि ९ युगलमें भी इसी प्रकार है । अर्थात् इनमें-से एकतरका बन्धक है, अन्यका बन्धक नहीं है । तैजस-कर्मण वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, उच्छ्वास, पर्याप्त तथा निर्माणका नियमसे बन्धक है । आहारकद्विक, आताप, उद्योत, तीर्थंकरका स्यात् बन्धक है, स्यात् अबन्धक है । दो अंगोपांग, ६ संहनन, दो विहायोगति तथा २ स्वरका स्यात् बन्धक है, स्यात् अबन्धक है । इन २, ६, २, २ में-से किसी एकका बन्धक है । अथवा २, ६, २, २ का भी अबन्धक है ।

उच्छ्वास, पर्याप्तक, नामकर्ममें इसी प्रकार भंग जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—स्थिर तथा शूभका वर्णन आगे किया गया है, इससे मूल पाठमें 'थिर-सुभ'-का उल्लेख अधिक पाठ प्रतीत होता है ।

८४. आदावं बंधं० तिरिक्खग० एहंदि० तिण्णि सरी० हुंडसंठा० वण्ण०४ तिरिक्खाणु० अगु०४ थावर-वादर-पज्जत्त-पत्तेय-दूम० अणा० णिमि० णियमा बं० । थिरादि-तिण्णि युग० सिया बं० । तिण्णि युगलाणं एकदरं बं०, ण चेव अबं० ।

८५. उज्जोवं बंधंतो तिरिक्खगदि० तिण्णं सरी० वण्ण०४ तिरिक्खाणु० अगु०४ बादर-पज्जत्त-पत्तेय-णिमि० णियमा बंधगो । पंच-जादि-छस्संठा० तसथाव० थिराथिर-सुभासुभ-सुभगदूम-आदेज्जअणादेज्ज-जस०-अजस० सिया बं० । एदेसिं एकतरं बं० । ण चेव अवं० । ओरालिय० अंगो० सिया बं० । सिया अबं० । छस्संध० दो विहा० दो सरीर (सरं) सिया बं० । छण्णं दोण्णं दोण्णं एकदरं बं० । अथवा दोण्णं(?)छण्णं दोण्णं दोण्णं पि अबंध० ।

८६. अप्पसत्थ-विहाय० बंधंतो तिण्णि मदि सिया बं०, तिण्णं मदीणं एकदरं बं०, ण चेव अबं० । एवं भंगो चदुजादि० दो सरी० छस्संठा० दो अंगो० णिरय-

८४. आतापका बन्ध करनेवाला—तिर्यचगति, एकेन्द्रिय, तीन शरीर, हुंडक-संस्थान, वर्ण ४, तिर्यचगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु ४, स्थावर, वादर, पर्याप्तक, प्रत्येक, दुर्भग, अनादेय तथा निर्माणका नियमसे बन्धक है । स्थिरादि तीन युगलका स्यात् बन्धक है । तीन युगलोंमें-से अन्यतरका बन्धक है ; अबन्धक नहीं है ।

विशेषार्थ—आताप प्रकृतिका उदय सूर्यके विमानमें स्थित वादर पृथ्वीकायिक जीवोंके पाया जाता है । इससे यहाँ एकेन्द्रियका ही बन्ध कहा है । संहननके बन्धके अभावका कारण भी यही है, क्योंकि स्थावरोंमें संहनन नहीं होता है ।

८५. उद्योतका बन्ध करनेवाला—तिर्यचगति, ३ शरीर, वर्ण ४, तिर्यचानुपूर्वी, अगुरुलघु ४, वादर, पर्याप्तक, प्रत्येक तथा निर्माणका नियमसे बन्धक है । ५ जाति, ६ संस्थान, त्रस-स्थावर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, दुर्भग, आदेय, अनादेय, यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति-का स्यात् बन्धक है । इनमें-से एकतरका बन्धक है ; अबन्धक नहीं है ।

विशेषार्थ—उद्योत प्रकृति एकेन्द्रियसे लेकर पंचेन्द्रिय पर्यन्त पायी जाती है, इस कारण इसके बंधककी पंच जातियाँ कही हैं ।

औदारिक अंगोपांगका स्यात् बन्धक है । स्यात् अबन्धक है । छह संहनन, २ विहायोगति, २ स्वरका स्यात् बन्धक है । इन ६, २, २ में-से एकतरका बन्धक है । अथवा ६, २, २ का भी अबन्धक है ।

विशेषार्थ—एकेन्द्रियकी अपेक्षा उद्योतके बन्धकों अंगोपांग, संहनन, विहायोगति तथा स्वरका अबन्धक भी कहा गया है । यहाँ यह विशेष बात ज्ञातव्य है कि शरीरका पूर्वमें कथन हो चुका है, अतः यहाँ 'दो-शरीर' के स्थानमें 'दो सर' पाठ सम्यक् प्रतीत होता है ।

८६. अप्रशस्त विहायोगतिका बन्ध करनेवाला—नरक-तिर्यच-मनुष्यगतिका स्यात् बन्धक है । तीन गतियोंमें-से एकका बन्धक है ; अबन्धक नहीं है ।

विशेषार्थ—देवोंमें अप्रशस्तविहायोगतिका अभाव है । अतः यहाँ उसका उल्लेख नहीं है । ४ जाति, २ शरीर, ६ संस्थान, २ अंगोपांग, नरक-तिर्यच-मनुष्यानुपूर्वी, स्थिर,

१ "मूलग्रहपहा अगो आदावो होदि उण्हवहियपहा । आहूचे तेरिच्छे उण्हणपहा हु उज्जोवो ॥"

—गो० क०, गा० ३३ ।

तिरिक्ख-मणुसाणुपु० थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-दुभग-सुस्सर-दुस्सर-आदेज्ज-अणादे० जस० अज्जस० । तेजाक० वण्ण०४ अगु०४ तस०४ णिमि० णियमा बं० । छस्संघ-सिया बं० । छण्णं एकदरं बंधगो । अथवा छण्णं पि अबं० । उज्जोव० सिया बं० सिया अबं० । एवं दुस्सर० ।

८७. तसं बंधंतो चदुगदि सिया बं० । चदुण्णं एकदरं बं० । ण चेव अबं० । एवं भंगो चदुजादि-दोसरी० छस्संठा० दो अंगो० चदु-आणुपु० पज्जत्तापज्ज० थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-दुभग-आदेज्ज-अणादेज्ज-जस०-अज्जस० । आहारदुगं परघादु० उज्जोवं तित्थय० सिया बं०, सिया अबं० । तेजाक० वण्ण०४ अगु० उप० बादर-पत्ते०-णिमि० णियमा बं० । छस्संघ० दो विहा० दो सरं सिया बं० । छण्णं दोण्णं दोण्णं पि एकदरं बं० । अथवा छण्णं दोण्णं दोण्णं पि अबं० ।

८८. बादरणामं बंधंतो चदुगदि सिया बं०, सिया अबं० । चदुण्णं गदीणं एकदरं बं० । ण चेव अबं० । एवं गदिभंगो पंचजादि-दो सरी० छस्संठा० चदुआणुपु० तसादिणवयु० । आहारदु० परघादुस्सा० आदावज्जो० तित्थय० सिया बं० सिया अबं० । दोण्णं अंगो० छस्संघ० दो विहा० दो सरं सिया बं० । दोण्णं छण्णं दोण्णं

अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, दुर्भग, सुस्वर, दुस्वर, आदेय, अनादेय, यशःकीर्ति, अयशः-कीर्तिमें पूर्ववत् है अर्थात् स्यात् बन्धक है, एकतरके बन्धक हैं; अबन्धक नहीं हैं । तैजस-कर्मण, वर्ण ४, अगुरुलघु ४, त्रस ४ तथा निर्माणका नियमसे बन्धक है, ६ संहननका स्यात् बन्धक है, ६ में-से किसी एकका बन्धक है अथवा ६ का भी अबन्धक है ।

विशेष—यहाँ नरकगति तथा एकेन्द्रियकी अपेक्षा संहननका अबन्धक भी कहा गया है ।

उद्योतका स्यात् बन्धक है, स्यात् अबन्धक है । दुस्वरमें ऐसा ही वर्णन जानना चाहिए ।

८७. त्रसका बन्ध करनेवाला—चार गतिका स्यात् बन्धक है, ४ में-से अन्यतरका बन्धक है; अबन्धक नहीं है । ४ जाति, २ शरीर, ६ संस्थान, २ अंगोपांग, ४ आनुपूर्वी, पर्याप्तक, अपर्याप्तक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, दुर्भग, आदेय, अनादेय, यशःकीर्ति, अयशःकीर्तिमें इसी प्रकार भंग जानना चाहिए । आहारकट्टिक, परघात, उच्छ्वास, उद्योत, तीर्थकर प्रकृतिका स्यात् बन्धक है, स्यात् अबन्धक है । तैजस-कर्मण, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, बादर, प्रत्येक और निर्माणका नियमसे बन्धक है । ६ संहनन, दो विहायोगति, २ स्वरका स्यात् बन्धक है । इन ६, २, २ में-से एकतरका बन्धक है अथवा ६, २, २ का भी अबन्धक है ।

८८. बादर नामकर्मका बन्ध करनेवाला—४ गतिका स्यात् बन्धक है, स्यात् अबन्धक है । चार गतियोंमें-से एकतरका बन्धक है; अबन्धक नहीं है । ५ जाति, दो शरीर, ६ संस्थान, ४ आनुपूर्वी, त्रसादि नवयुगलमें गतिके समान भंग जानना चाहिए । आहारकट्टिक, परघात, उच्छ्वास, आताप, उद्योत तथा तीर्थकरका स्यात् बन्धक है, स्यात् अबन्धक है । दो अंगोपांग, ६ संहनन, २ विहायोगति, २ स्वरका स्यात् बन्धक है । २, ६, २, २ में-से किसी एकका बन्धक

दोष्णं पि एकदरं बं० । अथवा दोष्णं छ्णं दोष्णं दोष्णं पि अबं० । सेसं नियमा बंधगो । एवं पत्तेयसरी० ।

८६. सुहुमं बंधंतो तिरिक्खगदि-एहंदियजादि-तिण्णि सरी०-हुंडसं० वण्ण०४ तिरिक्खाणु० अगु० उप० थावर-दूभग-अणादेज्ज-अज्जस-णिमिणं नियमा बं० । पज्जत्तापज्जत्त-पत्तेय० साधारण-थिराथिर-सुभासुभ० सिया बं० । एदेसिं एकदरं बं० । ण चेव अबं० । परघादुस्सा० सिया बं० सिया अबं० । एवं साधारणं० । अपज्जत्तं बं० दो गदि सिया [बं०] । दोष्णं एकदरं बं० । ण चेव अबं० । तिण्णि सरीर-हुंडसंठा० वण्ण०४ अगु० उप० अथिर-असुभ-दूभग-अणादेज्ज० अजस० णिमिणं नियमा बं० । ओरालि० अंगो असंपत्तसेव० सिया बं० । पंचजादि-दो-आणु० तसथावरादि-तिण्णि युग० सिया बं० । एदेसिं एकदरं बं० ण चेव अबं० ।

६०. अथिरं बंधंतो चदुगदि-सिया बं० । [चउष्णं गदीणं] एकदरं [बंधगो] । ण चेव अबं० । एवं पंचजादि दो सरीर० छस्संठा० चत्तारि आणुपुव्वि० तस-थाव-रादिअट्टयुग० । तेजाक० वण्ण०४ अगु० उप० णिमिणं नियमा बं० । दो अंगो० छस्संघ० दो विहा० दो सरं सिया बं० । दोष्णं छ्णं दोष्णं दोष्णं पि एकदरं बं० ।

है अथवा २, ६, २, २ का भी अबन्धक है; शेष प्रकृतियोंका भी नियमसे बन्धक है ।

प्रत्येक शरीरके बन्ध करनेवालेमें—इस प्रकार जानना चाहिए ।

८९. सूक्ष्मका बन्ध करनेवाला—तिर्यचगति, एकेन्द्रिय जाति, औदारिक-तैजस-कर्मण शरीर, हुंडक संस्थान, वर्ण ४, तिर्यचानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, स्थावर, दुर्भग, अनादेय, अयशःकीर्ति तथा निर्माणका नियमसे बन्धक है ।

विशेष—सूक्ष्म नामक कर्मका सन्निकर्ष एकेन्द्रिय जीवके साथ ही पाया जाता है, अतएव यहाँ एकेन्द्रिय जातिका ही ग्रहण किया गया है ।

पर्याप्तक, अपर्याप्तक, प्रत्येक, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभका स्यात् बन्धक है । इनमें-से एकतरका बन्धक है; अबन्धक नहीं है । परघात, उच्छ्वासका स्यात् बन्धक है, स्यात् अबन्धक है ।

साधारणके बन्ध करनेवालेमें—इसी प्रकार जानना चाहिए ।

अपर्याप्तकका बन्ध करनेवाला—दो गति (तिर्यच तथा मनुष्यगति) का स्यात् बन्धक है । दोमें-से एकतरका बन्धक है; अबन्धक नहीं है ।

औदारिक-तैजस-कर्मण शरीर, हुंडकसंस्थान, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, अनादेय, अयशःकीर्ति तथा निर्माणकानियमसे बन्धक है । औदारिक अंगोपांग, असम्प्राप्तपाटिका संहननका स्यात् बन्धक है । ५ जाति, २ आनुपूर्वी, त्रस-स्थावरादि तीन युगलका स्यात् बन्धक है । इनमें-से एकतरका बन्धक है; अबन्धक नहीं है ।

९०. अस्थिरका बन्ध करनेवाला—४ गतिकका स्यात् बन्धक है । चार गतियोंमें-से एकतरका बन्धक है; अबन्धक नहीं है । इसी प्रकार ५ जाति, २ शरीर, ६ संस्थान, ४ आनुपूर्वी, त्रस-स्थावरादि ८ युगलोंमें जानना चाहिए । तैजस-कर्मण; वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माणका नियमसे बन्धक है । दो अंगोपांग, ६ संहनन, २ विहायोगति, २ स्वरका स्यात्

अथवा दोणं छणं दोणं दोणं पि अवंधगो । परघादुस्सा० आदावुज्जो० तित्थयरं सिया [बंध०], सिया अवंध० । एवं अशुभ-अज्जसगिति ।

६१. थिरं बंधंतो तिण्णि-गदि सिया बंध० । तिण्णं गदीणं एकदरं बंध०, ण चेव अवंध० । एवं पंच-जादि दो सरीरं-छस्संठा- तिण्णि-आणु० तसथावरादि-दोणिण युगलं सुभादि-चदुयुगलं सिया बंध० । एदेसिं एकदरं बंधगो । ण चेव अवंध० । आहारदुगं आदावुज्जोव० तित्थयरं सिया बंध०, सिया अ० । दो-अंगो० छस्संध० दोवि० दो सरं सिया बंध० । दोणं छणं दोणं दोणं पि एकदरं बंध० । अथवा दोणं छणं दोणं दोणं पि अवंध० । तेजाक० वण्ण०४ अगु०४ पज्जत्त-णिमि० णियमा बंधगो । एवं शुभ-जसगिति । णवरि जसगितीए सुहुम-साधारणं वज्जं ।

६२. तित्थयरं बंधंतो दो-गदि सिया बंध० । दोणं गदीणं एकदरं बंध० । ण चेव अवंध० । एवं दो-सरीरं० दो अंगोवंध० दो आणु० थिरादि-तिण्णि यु० एकदरं बंधगो । ण चेव अवंध० । पंचि तेजाक० समचदु० वण्ण०४ अगु० ४ पसत्थ० तस०४ शुभग-सुस्स०-आदे० णिमिणं णियमा बंध० । आहारदुगं वज्जरिसभसंध० सिया [बंधगो] ।

बन्धक है । २, ६, २, २ में-से एकतरका बन्धक है । अथवा २, ६, २, २ का भी अबन्धक है । परघात, उच्छ्वास, आताप, उद्योत तथा तीर्थकर प्रकृतिका स्यात् बन्धक है, स्यात् अबन्धक है ।

अशुभ तथा यशःकीर्तिके बन्ध करनेवालेमें इसी प्रकार जानना चाहिए ।

९१. स्थिरका बन्ध करनेवाला—३ गति (नरकको छोड़कर) का स्यात् बन्धक है । ३ गतिमें-से एकतरका बन्धक है ; अबन्धक नहीं है । ५ जाति, औदारिक, वैक्रियिक शरीर, ६ संस्थान, ३ आनुपूर्वी, त्रस-स्थावरादि दो युगल, शुभादिक चार युगलका स्यात् बन्धक है । इनमें-से एकतरका बन्धक है ; अबन्धक नहीं है । आहारकद्विक, आताप, उद्योत तथा तीर्थकर प्रकृतिका स्यात् बन्धक है, स्यात् अबन्धक है । दो अंगोपांग, छह संहनन, दो विहायोगति, दो स्वरका स्यात् बन्धक है । इन २, ६, २, २ में-से एकतरका बन्धक है । अथवा २, ६, २, २ का भी अबन्धक है । तैजस-कर्मण, वर्ण ४, अगुरुलघु ४, पर्याप्तक तथा निर्माणका नियमसे बन्धक है ।

शुभ तथा यशःकीर्तिके बन्ध करनेवालेमें इसी प्रकार जानना चाहिए । विशेष यह है कि यशःकीर्तिके बन्धकके सूक्ष्म तथा साधारण प्रकृतिको छोड़ देना चाहिए । अर्थात् इनका बन्ध इसके नहीं होगा ।

९२. तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध करनेवाला—मनुष्य, देवगतिका स्यात् बन्धक है । दो गतियोंमें-से किसी एकका बन्धक है ; अबन्धक नहीं है ।

विशेष—तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध सम्यक्त्वाके ही होता है । अतः मिथ्यात्वमें बंधने-वाली नरकगति तथा सासादनमें बंधनेवाली तिर्यचगतिका बन्ध इसके नहीं होगा ।

दो शरीर, २ अंगोपांग, २ आनुपूर्वी, स्थिरादि तीन युगलमें-से एकतरका बन्धक है ; अबन्धक नहीं है । पंचेन्द्रिय जाति, तैजस-कर्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वर्ण ४, अगुरु-लघु ४, प्रशस्तविहायोगति, त्रस ४, शुभग, सुस्वर, आदेय तथा निर्माणका नियमसे बन्धक है । आहारकद्विक, वञ्चवृषभसंहननका स्यात् बन्धक है ।

६३. उच्चागोदं बंधंतो णीचागोदस्स अबंधगो । णीचागोदं बंधंतो उच्चागोदस्स अबंधगो ।

६४. दाणंतराइगं बंधंतो चदुण्णं अंतराइगणं णियमा बंधगो । एवमण्णमण्णस्स बंधगो ।

६५. एवं ओघभंगो मणुस०३ पंचिदि० तस तेसिं चैव पज्जत्ता पंचमण० पंचवचि० काजोगि-ओरालिय० इत्थि-पुरिस-णपुंस० कोधादि०४ चक्खुदं० अचक्खुदं० भवसिद्धि० सण्णि-आहारगित्ति, णवरि मणुस०३ ओरालिका० इत्थि० तित्थयरं बंधंतो देवगदि०४ णियमा बंधगो ।

६६. आदेसेण णेरइ० एइंदिय-विगलिंदिय-संजुत्त-आहारदुगं वेगुव्वियच्छकं णिरय-देवायुगं च अपज्जत्तगं च वज्जं सेसं णेदव्वं । एवं सव्व-णेरइएसु । णवरि चउत्थी याव सत्तमा ति तित्थयरं वज्जं । सत्तमाए मणुसायुगं णत्थि ।

६७. तिरिक्खेसु—आहारदुगं तित्थयरं वज्ज, सेसं ओघं । एवं पंचिदिय-तिरिक्ख०३ । पंचिदिय-तिरिक्ख-अपज्जत्तगेषु वेगुव्वियच्छकं च णिरयदेवायुगं वज्ज-

९३. उच्चगोत्रका बन्ध करनेवाला—नीच गोत्रका अबन्धक है । नीच गोत्रका बन्ध करनेवाला उच्चगोत्रका अबन्धक है ।

विशेष—दोनों गोत्र परस्पर प्रतिपक्षी हैं । अतः एक जीवके एक साथ दोनोंका बन्ध नहीं होता है । इस कारण नीचके बन्धकके उच्च अबन्ध होगा अथवा उच्चके बन्धकके नीचका अबन्ध होगा ।

९४. दानान्तरायका बन्ध करनेवाला—लाभ, भोग, उपभोग तथा चौर्यान्तरायका नियमसे बन्धक है । एकका बन्ध करते समय अन्य चतुष्कका नियमसे बन्ध होता है । अर्थात् दानान्तरायके बन्ध होनेपर अन्य लाभान्तरायादिका नियमसे बन्ध होता है ।

९५. मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य, मनुष्यनी, पंचेन्द्रिय, त्रस तथा पंचेन्द्रियपर्याप्त, त्रसपर्याप्त, ५ मनयोगी, ५ वचनयोगी, काययोगी, औदारिक काययोगी, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुसंक वेद, क्रोधादि ४ कषाय, चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन, भव्यसिद्धिक, संज्ञी, आहारक पर्यन्त इसी प्रकार अर्थात् ओघवत् जानना चाहिए ।

विशेष यह है कि मनुष्यत्रिक, औदारिक काययोग तथा स्त्रीवेदमें तीर्थकरका बन्ध करनेवाला देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, वैक्रियिक, वैक्रियिक अंगोपांगका नियमसे बन्धक है ।

९६. आदेशसे—नारकियोंमें एकेन्द्रिय तथा त्रिकलेन्द्रिय संयुक्त प्रकृति, आहारकद्विक, वैक्रियिकपट्क, नरकायु-देवायु तथा अपर्याप्तको छोड़कर शेष प्रकृतियोंको जानना चाहिए । इसी प्रकार सम्पूर्ण नारकियोंमें जानना चाहिए । विशेष, चौथासे सातवीं पृथ्वी पर्यन्त तीर्थकरका बन्ध छोड़ देना चाहिए । सातवीं पृथ्वीमें मनुष्यायुका बन्ध नहीं है ।

९७. तिर्यचगतिमें—आहारकद्विक तथा तीर्थकरका बन्ध नहीं होता है । शेषका ओघवत् वर्णन है । पंचेन्द्रिय तिर्यच, पंचेन्द्रिय पर्याप्तक तिर्यच, पंचेन्द्रिय योनिमती तिर्यचमें इसी

सेसं तं चैव । एवं मणुस-अपज्जत्त-सव्वएइंदि० सव्वविगल्लिदिय-पंचिदिय-त्तस-अपज्ज-त्तसव्वपंचकायाणं । णवरि तेउ० वाउ० मणुसग्गदिच्चदुक्कं णत्थि ।

६८. देवेषु गिरयभंगो । णवरि एइंदिय-तिगं जाणिट्ठवं । एवं भवणवासिय याव सोधम्मसीसाण त्ति । णवरि भवणादि याव जोइसिया त्ति तित्थयरं णत्थि । सणक्कुमार याव सहस्सार त्ति गिरयोघं । आणद याव णवगेवेज्जा त्ति एवं चैव । णवरि तिरिक्खायुगं तिरिक्खग० तिरिक्खाणु० उज्जोर्वं णत्थि । अणुदिस याव सव्वट्ठा त्ति मिच्छत्तपग्दीओ णत्थि । सेसं भाणिट्ठवं ।

६९. ओरालि०मिस्से-गिरयगदितिगं देवायुगं आहारदुगं णत्थि । सेसं ओघभंगो । वेगुच्चियका० देवगदिभंगो । एवं वेगुच्चियमि० । णवरि आयुगं णत्थि । आहार० आहारमि० असंजद-पग्दीओ आहारदुगं णत्थि । कम्मइग्गका०

प्रकार जानना चाहिए ।

पंचेन्द्रिय तिर्यच लब्ध्यपर्याप्तकर्मों—वैक्रियिकपट्टक, नरकायु, देवायुको छोड़कर शेष प्रकृतियोंका ओघवत् सन्निकर्ष जानना चाहिए । मनुष्यलब्ध्यपर्याप्तक, सर्व एकेन्द्रिय, सर्व विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय-त्रस-अपर्याप्तक तथा सम्पूर्ण पंच कार्योंमें भी इसी प्रकार जानना चाहिए । इतना विशेष है कि तेजकाय, वायुकायमें मनुष्यगतिचतुष्क नहीं है ।

९८. देवगतिमें नरकगतिका भंग है । विशेष, देवोंमें एकेन्द्रिय स्थावर, आतापका बन्ध होता है । यह बात भवनवासी, व्यन्तर, उद्योतिपी, सीधर्म, ईशान स्वर्गपर्यन्त है । विशेष भवनत्रिकमें तीर्थकर नहीं होते हैं ।

विशेषार्थ—देवोंका एकेन्द्रियोंमें भी जन्म होता है, किन्तु नारकी जीव मरण कर नियमसे संज्ञी, पर्याप्तक कर्मभूमिज मनुष्य या तिर्यच होते हैं । इससे देवगतिमें विशेषता कही है । सानत्कुमारसे सहस्रार स्वर्गपर्यन्त नरकगतिके ओघ समान भंग हैं । आनतसे प्रवैयकपर्यन्त इसी प्रकार हैं । विशेष-तिर्यचायु, तिर्यचगति, तिर्यचानुपूर्वी तथा उद्योतका बन्ध नहीं होता है ।

विशेष—आनतादि स्वर्गवासी देवोंका तिर्यच रूपसे उत्पाद नहीं होनेके कारण तिर्यचायु आदि ज्ञानार चतुष्कका बन्ध नहीं कहा गया है ।

अनुदिशसे सर्वार्थसिद्धि पर्यन्त मिथ्यात्व सम्बन्धी प्रकृतियाँ नहीं हैं, [कारण वहाँ सभी सम्यक्त्व ही होते हैं ।] अतः शेष प्रकृतियोंको कहना चाहिए ।

९९. औदारिकमिश्रकाययोगमें—नरकगतित्रिक, देवायु, आहारकद्विक नहीं है । शेष ११४ बन्ध योग्य प्रकृतियोंका ओघवत् वर्णन जानना चाहिए ।

वैक्रियिक काययोगमें—देवगतिके समान जानना चाहिए । वैक्रियिकमिश्रकाययोगमें भी इसी प्रकार जानना चाहिए । विशेष, यहाँ आयुके बन्धका अभाव है ।

आहारक-आहारकमिश्रयोगमें—असंयतसम्बन्धी प्रकृतियाँ तथा आहारकद्विकके बन्धका अभाव है । आहारककाययोगमें ६३ और आहारकमिश्र काययोगमें ६२ बन्धयोग्य प्रकृतियाँ हैं ।

१. "ओराले वा मिस्से । णहि मुरणिरयायुत्तारणिरयदुगं ।"—गो० क०, गा० ११६ ।

आयुचदुकणिरयगादेदुगं आहारदुगं च णत्थि । सेसं ओघभंगो ।

१००. अवगदवेदे याओ पगदी [ओ] वज्झति ताओ पगदीओ जाणिदूण भाणि-
दव्वाओ । मदि० सुद० विभंग० अच्चव० मिच्छादि० असण्णि० तिरिक्खोघो ।
आभिणि० सुद० ओधि० ओघभंगो । णवरि मिच्छत्त-सासण-पगदीओ णत्थि ।
एवं ओधिदं० सम्मा० खइय० । एवं चैव मणपज्जव-संजद० सामाह० छेदो० परिहार० ।
णवरि असंजदपगदीओ णत्थि । अकसा० केवलणा० यथाखाद० केवलदंस० सण्णियासो
णत्थि । सुहुमसंप० पंचणा० चदुदंस० पंचंतराइमाणमण्णमण्णस्स बंधदि ।

१०१. संजदासंजदा संजदभंगो । णवरि आहारदुगं णत्थि । पच्चक्खाणा०-
४ अत्थि । असंजदेसु ओघभंगो । णवरि आहारदुगं णत्थि ।

विशेषार्थ—आहारकद्विकका बन्ध अग्रमत्त दशामे होता है और यह योग प्रमत्तसंयत
गुणस्थानमें होता है । अतः आहारकद्विकके बन्धका यहाँ अभाव कहा गया है ।

कार्मणाकाययोगमें—आयु ४ तथा नरकगति, नरकगत्यानुपूर्वका अभाव है । शेषका
ओघवत् भंग जानना चाहिए ।

१००. अपगत वेदमें—जिन प्रकृतियोंका बन्ध होता है, उनको जानकर वर्णन करना
चाहिए ।

विशेष—४ संज्वलन, ५ ज्ञानावरण, ५ अन्तराय, ४ दर्शनावरण, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र
तथा सातावेदनीय इन २१ प्रकृतियोंका यहाँ बन्ध होता है ।

मत्यज्ञान, श्रुताज्ञान, विभंगावधि, अभव्यसिद्धिक, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञीका तिर्यचोके
ओघवत् है । आभिनिबोधिक, श्रुत तथा अवधिज्ञानमें ओघवत् भंग है । विशेष—यहाँ
मिथ्यात्वसम्बन्धी १६ और सासादनसम्बन्धी २५ प्रकृतियोंका अभाव है ।

इसी प्रकार अवधिदर्शन, सम्यक्त्व, क्षायिक सम्यक्त्वमें जानना चाहिए । मनःपर्यय-
ज्ञान, संयत, सामायिक, छेदोपस्थापना और परिहारविशुद्धिमें भी इसी प्रकार जानना
चाहिए । विशेष, यहाँ असंयमगुणस्थानवाली प्रकृतियाँ नहीं हैं ।

अकषाय, केवलज्ञान, यथाख्यातसंयम, केवल दर्शनमें सन्निकर्ष नहीं है ।

विशेष—इन मार्गणाओंमें एक सातावेदनीयका ही बन्ध होता है । इस कारण यहाँ
सन्निकर्षका वर्णन नहीं किया गया है । एक प्रकृतिमें सन्निकर्ष नहीं हो सकता है । किसका
किसके साथ सन्निकर्ष कहा जायेगा ? अतः सन्निकर्ष नहीं बताया है ।

सूक्ष्मसाम्परायमें—५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण (निद्रापंचकरहित) तथा ५ अन्तरायों-
का एकके रहते हुए शेष अन्यका बन्ध होता है ।

विशेष—यद्यपि सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानमें सातावेदनीय, उच्चगोत्र तथा यशःकीर्तिका
भी बन्ध होता है, किन्तु ये वेदनीय, गोत्र तथा नामकर्मकी अकेली ही प्रकृतियाँ हैं; इस कारण
स्वस्थानसन्निकर्षकी दृष्टिसे इनका ग्रहण नहीं किया गया है ।

१०२. एवं तिष्ठिण लेस्सा० । णवरि किण्ण-णील० तित्थयरं बंधं० देवगदि०४
णियमा बंधगो । काऊए सिया देवगदि सिया मणुसगदि । तेऊए सोधम्मभंगो ।
णवरि देवायु देवगदि०४ आहारदुगं अत्थि । एवं पम्माए । णवरि एइंदियतिगं
णत्थि । सुक्काए णिरयगदितिगं तिरिक्खगदिसंयुतं च णत्थि । सेसं ओघभंगो ।

१०३. वेदगे० आभिणि०भंगो । एवं उवसम० । णवरि आयु णत्थि । सासणे
मिच्छत्तसंयुतं तित्थयरं आहारदुगं च णत्थि । सेसं ओघभंगो । सम्मामि० उवसम-
सम्मा० भंगो । णवरि आहारदुगं तित्थयरं च णत्थि ।

१०४. अणाहारा० कम्मइगभंगो ।

एवं सत्थाणसण्णियासो समत्तो ।

१०१. संयतासंयतोमें—संयतोका भंग जानना चाहिए । विशेष, यहाँ आहारकट्टिक
नहीं है । इनमें प्रत्याख्यानावरण ४ का बन्ध पाया जाता है । असंयतोमें—ओघवत् भंग है ।
विशेष आहारकट्टिक नहीं है ।

१०२. कृष्ण, नील तथा कापोत लेश्यामें—इसी प्रकार जानना चाहिए ।^२ विशेष—कृष्ण-
नील लेश्यामें—तीर्थकरका बन्ध करनेवाला नियमसे देवगति ४ का बन्धक है । कापोत लेश्यामें—
स्यात् देवगति, स्यात् मनुष्यगतिका बन्ध होता है । तेजोलेश्यामें—सौधर्म स्वर्गके समान भंग
है । विशेष, देवायु, देवगति ४ तथा आहारकट्टिकका बन्ध है ।^३ पद्मलेश्यामें—इसी प्रकार है ।
विशेष, यहाँ एकेन्द्रिय, स्थावर, आतापका बन्ध नहीं है । शुक्ललेश्यामें—नरकगति, नरक-
गत्यानुपूर्वी, नरकायु तथा तियंचगति संयुक्तका बन्ध नहीं है । शेष प्रकृतियोंका ओघवत्
भंग है ।

१०३. वेदक सम्यक्त्वमें—आभिनिबोधिक ज्ञानके समान भंग है ।^४

उपशमसम्यक्त्वमें—इसी प्रकार है । विशेष, यहाँ आयुका बन्ध नहीं होता है ।

सासादन सम्यक्त्वमें—मिथ्यात्वसम्बन्धी प्रकृतियाँ तीर्थकर, तथा आहारकट्टिकका
बन्ध नहीं है । शेष प्रकृतियोंका ओघवत् भंग है । सम्यक्त्वमिथ्यात्वमें उपशमसम्यक्त्वकीका
भंग जानना चाहिए । विशेष, यहाँ आहारकट्टिक तथा तीर्थकरका बन्ध नहीं है ।

१०४. अनाहारकमें—^५ कर्मण काययोगीके समान भंग है ।

इस प्रकार स्वस्थानसन्निकर्ष पूर्ण हुआ ।

१. "सम्मेव तित्थबन्धो आहारदुगं पमादरहिदेसु ।" -गो० क०, गा० ९२ । २. "अयदोत्ति
छलेस्साओ सुह-तियलेस्सा हु देसविरदतिये । तत्तो सुक्का लेस्सा, अजोगिठार्ण अलेस्सं तु ॥" -गो० जी०,
गा० ५३१ । ३. "मिच्छत्तसंतिमणवयं वारं णहि तेउ पम्मेसु" -गो० क०, गा० १२० । "सुक्के सदरचउधकं
वामतिमवारसं च णव अत्थि ।" -गो० क०, गा० १२ । ४. "णवरि य सव्वुवसम्मे णरसुरआऊणि णत्थि
णियमेण ।" -गो० क०, गा० १२० । ५. "कम्मेव अणाहारे ।" -गो० क०, गा० १२१ ।

[परस्थानसण्णियास-परुवणा]

१०५. परस्थानसण्णियासे पगदं दुविधो ओघे० आदे० । ओघे० आभिणिबोधियणा० बंधंतो चदुणाणा० चदुदंसणा० पंचंत० णियमा [बंधगो] । पंचदंस० मिच्छन्त-सोलसक० भयदुगुं० चदुआयु० आहारदु० तेजाक० वण्ण०४ अगु०४ आदावुज्जो० णिमिणं तित्थयरं सिया बं०, सिया अबं० । सादं सिया बं०, सिया अबं० । असादं सिया बं०, सिया अबं० । दोण्णं पगदीणं एकदरं बंधगो । ण चेव अबं० । इत्थि० सिया बं०, पुरिस० सिया [बं०], णपुंस० सिया० । तिण्णं वेदाणं एकदरं बं० । अथवा तिण्णंपि अबंधगो । वेदभंगो हस्सरदि-अरदि-सोग-दोयुगला० चदुगदि० पंचजादि-दोसरीर-छस्संठा० दोअंगो० छस्संघ० चदुआणु० दो विहा० तस-थावरादि-णवयुगलाणं । जस० अजस० दोगोदं सादभंगो । यथा आभिणिबोधियणा० तथा

[परस्थान सन्निकर्ष]

१०५. यहाँ परस्थान सन्निकर्ष प्रकृत है । उसका ओघ तथा आदेशसे दो प्रकार निर्देश करते हैं । यहाँ सजातीय तथा विजातीय एक साथमें बंधनेवाली प्रकृतियोंकी प्ररूपणा की गयी है ।

ओघसे-आभिनिबोधिक ज्ञानावरणका बन्ध करनेवाला-श्रुतादि ज्ञानावरण ४, दर्शनावरण ४ तथा अन्तराय ५ का नियमसे बन्धक है ।

विशेषार्थ—यशःकीर्ति उच्चगोत्रका नियमसे बन्ध न होनेके कारण यहाँ उनका उल्लेख नहीं किया गया है ।

निद्रादि पाँच दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, ४ आयु, आहारकद्विक, तैजस-कामेण शरीर, वर्ण ४, अगुरुलघु ४, आताप, उद्योत, निर्माण तथा तीर्थंकरका स्यात् बन्धक है, स्यात् अबन्धक है । साताका स्यात् बन्धक है, स्यात् अबन्धक है । असाताका स्यात् बन्धक है, स्यात् अबन्धक है । दोनोंमें-से अन्यतरका बन्धक है, अबन्धक नहीं है ।

विशेषार्थ—दोनोंका अबन्धक अयोगकेवली गुणस्थानवर्ती होगा, वहाँ मतिज्ञानावरण ही नहीं है । अतः दोनोंके अबन्धकका अभाव कहा है ।

स्त्रीवेदका स्यात् बन्धक है । पुरुषवेदका स्यात् बन्धक है । नपुंसक वेदका स्यात् बन्धक है । तीनोंमें-से एकतरका बन्धक है अथवा तीनोंका भी अबन्धक है ।

विशेषार्थ—वेदका बन्ध नवमे गुणस्थान पर्यन्त होता है और मतिज्ञानावरणका सूक्ष्मसाम्पराय तक बन्ध होता है । अतः मतिज्ञानावरणके बन्धकके वेदका बन्ध हो तथा न भी हो । इससे यहाँ तीनोंका अबन्धक भी कहा है ।

हास्य-रति, अरति-शोक ये दो युगल, ४ गति, ५ जाति, २ शरीर, ६ संस्थान, २ अंगोपांग, ६ संहनन, ४ आनुपूर्वी, २ विहायोगति, त्रस-स्थावरादि ९ युगलका वेदके समान भंग है । अर्थात् इनमें-से एकतरके बन्धक हैं अथवा सबके भी अबन्धक हैं । यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति, दो गोत्रका सातावेदनीयके समान भंग है अर्थात् अन्यतरका बन्धक है, अबन्धक नहीं है ।

चदुणाणा० चदुदंस० पंचंतरा० ।

१०६. णिहाणिहं बंधंतो पंचणा० अट्ठदंसणा० सोलसक० भयदु० तेजाक० वण्ण०४ अगु० उप० णिमि० पंचंत० णियमा वं० । सादं सिया [वं०], असादं सिया [वं०] । दोण्णं एकदरं वं०, ण चेव अवं० । एवं वेदणीयभंगो तिण्णि वे० हस्सरदि-अरदिसो० चदुमदि० पंच [जादि]-दोसरीर-छस्संठा-चदुआणु० तसथावरादि-णवयुगलं दोगोदाणं । मिच्छत्त-चदुआयुगं परघादुस्सा० आदावुजो० सिया [वं०], सिया अवं० । दो-अंगो० छस्संघ० दो विहा० दोसरं सिया वं० । दोण्णं छण्णं दोण्णं दोण्णं पि एकदरं वं० । अथवा दोण्णं छण्णं दोण्णं दोण्णं पि अवं० । एवं पचलापचला-धीणगिद्धि-अणंताणुबंधि०४ ।

१०७. णिहं बंधंतो पंचणा० पंचदंसणा० चदुसंज० भयदु० तेजाक० वण्ण०४ अगु० उप० णिमि० पंचंत० णियमा वं० । धीणगिद्धि०३ मिच्छत्त-वारस० चदु-आयु० आहारदुगं पर०उस्सा० आदावुजो० तिथ्थ० सिया० [वं०] सिया अवं० । सादं सिया वं०, असादं सिया [बंधगो] । दोण्णं पगदीणं एकदरं वं० । ण चेव अवं० । एवं तिण्णि वे० हस्सरदिदोयु० चदुम० पंचजा० दोसरी० छस्संठा० चदुआणु० तसथावरादिणवयुगलं दोगोदाणं च । दोअंगो० छस्संघदोविहा० दोसरं सिया [वं०]

श्रुतादि ४ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, ५ अन्तरायका आभिनिबोधिक ज्ञानावरणके समान भंग जानना चाहिए ।

१०६. निद्रा-निद्राका बन्ध करनेवाला—५ ज्ञानावरण, ८ दर्शनावरण, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजस, कर्मण, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण तथा ५ अन्तरायका नियमसे बन्धक है । साताका स्यात् बन्धक है । असाताका स्यात् बन्धक है । दोमें-से अन्यतरका बन्धक है ; अवन्धक नहीं है । तीन वेद, हास्य, रति, अरति, शोक, ४ गति, ५ जाति, औदारिक, वैक्रियिक शरीर, ६ संस्थान, ४ आनुपूर्वी, त्रस-स्थावरादि ६ युगल तथा दो गोत्रमें वेदनीयके समान भंग है अर्थात् एकतरके बन्धक है ; अवन्धक नहीं है । मिथ्यात्व, ४ आयु, परघात, उच्छ्वास, आताप, उद्योतका स्यात् बन्धक है, स्यात् अवन्धक है । २ अंगोपांग, ६ संहनन, २ विहायोगति, २ स्वरका स्यात् बन्धक है । इत २, ६, २, २ में-से अन्यतरका बन्धक है अथवा २, ६, २, २ का भी अवन्धक है । प्रचला-प्रचला, स्यात्तगुद्धि तथा अनन्तानुबन्धी ४ के बन्धकका निद्रानिद्राके समान भंग है ।

१०७. निद्राका बन्ध करनेवाला—५ ज्ञानावरण, ५ दर्शनावरण, ४ संज्वलन, भय, जुगुप्सा, तैजस-कर्मण शरीर, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण, ५ अन्तरायका नियमसे बन्धक है । स्यात्तगुद्धिक, मिथ्यात्व, १२ कषाय (४ संज्वलनको छोड़कर), ४ आयु, आहारकद्विक, परघात, उच्छ्वास, आताप, उद्योत तथा तीर्थकरका स्यात् बन्धक है । साता-वेदनीयका स्यात् बन्धक है, असाता वेदनीयका स्यात् बन्धक है । दोनोंमें-से अन्यतरका बन्धक है ; अवन्धक नहीं है । तीन वेद, हास्य, रति, अरति, शोक, ४ गति, ५ जाति, औदारिक वैक्रियिक शरीर, ६ संस्थान, ४ आनुपूर्वी, त्रस-स्थावरादि ६ युगल तथा २ गोत्रका इसी प्रकार जानना चाहिए । २ अंगोपांग, ६ संहनन, २ विहायोगति, २ स्वरका स्यात् बन्धक

दोष्णं छण्णं दोष्णं दोष्णं एकदरं बं० । अथवा दोष्णं छण्णं दोष्णं दोष्णं पि अबंधगो । एवं पचला० ।

१०८. सादं बंधंतो पंचणा० णवदंस० मिच्छत्तं सोलसक० भयदुगु० तिण्णि-
आयु० आहारदु० तेजाक० वण्ण०४ अगु०४ आदावुज्जो० णिमिणं तित्थय० पंचंत०
सिया बं० सिया अबं० । तिण्णि वे० हस्सादि-दोयुग० तिण्णिगदि-पंचजादि-दोसरीर-
छस्संठा० दो अंगो० छस्संध० तिण्णि आयु० दो विहा० तसादिदसयुग० दोगो०
सिया बं० सिया अबं० । एदेसिं एकदरं बं०, अथवा एदेसिं अबंधगो । असादं
बंधंतो-पंचणा० छदंसणा० चदुसंज० भयदुगु०-तेजाक० वण्ण०४ अगु० उप० णिमि०
पंचंत० णियमा बं० । धीणगिद्धि०४ (३) मिच्छ० बारसक० तिण्णिआयु परघा-
दुस्सा० आदावुज्जो० तित्थय० सिया बं० सिया अबं० । तिण्णं वेदाणं सिया बं० ।
तिण्णं वेदाणं एकदरं बं० । ण चेव अबं० । हस्सरदि सिया बं० । अरदिसोग सिया
बं० । दोष्णं युगलाणं एकदरं बंधगो । ण चेव अबं० । एवं चदुगदि-पंचजादि-दोसरी०-

है । इन २, ६, २, २ में-से अन्यतरका बन्धक है अथवा २, [६,] २, २ का भी अबन्धक है । प्रचलाका बन्ध करनेवालेके निद्राके समान भंग है ।

१०८. साताका बन्ध करनेवाला—५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, नरकायुको छोड़कर ३ आयु, आहारकट्टिक, तैजस, कर्मणशरीर, वर्ण ४, अगुरुलघु ४, आताप, उद्योत, निर्माण, तीर्थंकर तथा ५ अन्तरायोंका स्यात् बन्धक है, स्यात् अबन्धक है ।

विशेष—साताका बन्धक सयोगी जिन पर्यन्त पाया जाता है, किन्तु ज्ञानावरणादिका बन्ध सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थान पर्यन्त होता है। अतः साताके बन्धकके ज्ञानावरणादिका बन्ध हो, तथा न भी हो ।

तीन वेद, हास्यादि दो युगल, ३ गांत्, ५ जाति, २ शरीर, ६ संस्थान, २ अंगोपांग, ६ संहनन, ३ आनुपूर्वी, २ त्रिहायोगति, त्रसादि दस युगल तथा दो गोत्रका स्यात् बन्धक है, स्यात् अबन्धक है । इनमें-से किसी एकका बन्धक है अथवा इनका भी अबन्धक है ।

असाताका बन्ध करनेवाला—५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण (स्त्यानगृद्धित्रिक विना), ४ संज्वलन, भय, जुगुप्सा, तैजस-कर्मण, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण तथा ५ अन्तरायोंका नियमसे बन्धक है । स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, १२ कषाय, ३ आयु, परघात, उच्छ्वास, आताप, उद्योत, तीर्थंकरका स्यात् बन्धक है, स्यात् अबन्धक है । तीन वेदोंका स्यात् बन्धक है तथा इनमें-से किसी एकका बन्धक है; अबन्धक नहीं है ।

विशेष—असाता प्रमत्तसंयत पर्यन्त बंधता है तथा वेदका अनिवृत्तिकरणपर्यन्त बन्ध होता है । अतः असाताके बन्धकको वेदोंका अबन्धक नहीं कहा है, कारण यहाँ वेदका बन्ध सदा होगा ।

हास्य, रतिका स्यात् बन्धक है । अरति, शोकका स्यात् बन्धक है । दो युगलोंमें-से अन्यतर युगलका बन्धक है; अबन्धक नहीं है । ४ गति, ५ जाति, २ शरीर,

छस्संठा० चदुआणु० तसादिणवयुग० दोगोदं च । दो अंगो० छस्संघ० दो विहा०
दो सरी० (सरं) सिया बं० सिया अबं० । दोणं छणं दोणं दोणं पि एकदरं
बं० । अथवा एदेसिं चैव अबं० । एवं अरदिसोग-अथिर-असुभ-अज्जसगितीणं ।

१०६. मिच्छत्तं बंधंतो—पंचणा० णवदंसं० सोलसकं० भयदुगुं० तेजाकं० वण्ण०४
अगुं० उप० णिमिं० पंचंतं० णियमा बंधं० । सादं सिया बं० असादं सिया बं० ।
दोणं पगदीणं एकदरं बं० । ण चैव अबं० । एवं तिणं वेदाणं हस्सरदिं० अरदिसो०
दोयुगं० चदुगं० पंचजादि-दोसरी०-छस्संठा० चदुआणु० तसथावरादि-णवयुगल-दो-
गोदाणं च । चदुआयुं० परघा०-उस्सा० आदावुज्जो० सिया बं० । दोणं अंगो०
छस्संघं० दो विहा० दो सरं० सिया बं०, सिया अबं० । दोणं छणं दोणं दोणं पि
एकदरं बं०, अथवा दोणं दोणं पि अबंधगो ।

११०. अपच्चवखाणं० कोधं बं०—पंचणा० छदंसणा० एकारसकं०-भयदुं०
तेजाकं० वण्ण०४ अगुं० उप० णिमिं०-पंचंतं० णियमा बं० । सेसं मिच्छत्तभंगो ।

६ संस्थान, ४ आनुपूर्वी, त्रसादि ६ युगल तथा २ गोत्रका भी इसी प्रकार वर्णन जानना चाहिए । दो अंगोपांग, ६ संहनन, २ विहायोगति, दो स्वरका स्यात् बन्धक है, स्यात् अबन्धक है । इन २, ६, २, २ में से एकतरका बन्धक है अथवा इनका भी अबन्धक है ।

अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ, अयशःकीर्तिका इसी प्रकार जानना चाहिए ।

विशेष—असाताके समान अरति शोकादिकी बन्धव्युच्छित्ति प्रमत्तसंयत गुणस्थानमें होती है । इस कारण असाताके बन्ध करनेवालेके समान इनका भी वर्णन कहा है ।

१०६. मिथ्यात्वका बन्ध करनेवाला—५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजस, कर्मण-शरीर, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण, ५ अन्तरायका नियमसे बन्धक है । सातावेदनीयका स्यात् बन्धक है । असाताका स्यात् बन्धक है । दोनोंमें-से अन्यतरका बन्धक है, अबन्धक नहीं है ।

२ वेद, हास्य, रति, अरति, शोक, ४ गति, ५ जाति, दो शरीर, ६ संस्थान, ४ आनु-पूर्वी, त्रस-स्थावरादि ९ युगल तथा दो गोत्रका इसी प्रकार जानना चाहिए अर्थात् इनमें-से एकतरका बन्धक है; अबन्धक नहीं है । चार •आयु, परघात, उच्छ्वास, आताप, उद्योतका स्यात् बन्धक है । दो अंगोपांग, ६ संहनन, २ विहायोगति तथा २ स्वरका स्यात् बन्धक है, स्यात् अबन्धक है । इन २, ६, २, २ में-से एकतरका बन्धक है अथवा २, ६, २, २ का भी अबन्धक है ।

विशेष—एकेन्द्रियके अंगोपांग, संहनन, विहायोगति तथा स्वरका अभाव है । इससे एकेन्द्रियको अपेक्षा इन प्रकृतियोंका अबन्धक कहा है ।

११०. अप्रत्याख्यानावरण क्रोधका बन्ध करनेवाला—५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, ११ कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजस-कर्मण, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात; निर्माण तथा ५ अन्त-रायोंका नियमसे बन्धक है । शेष प्रकृतियोंका मिथ्यात्वके बन्धकके समान भंग जानना

१. "छट्ठे अथिरं असुहं असादमजसं च अरदि सोगं च ।"—गो क०, गा० ६८ ।

णवरि धीणगिद्धितगं मिच्छत्तं अणंताणुवं०४ चदुआयु० पर०-उस्सा० आदाबुज्जो०
 तित्थय० सिया बं० सिया अबं० । एवं तिण्णं कसाया० । पच्चक्खाणावरणी० क्रोध
 बं०-पंचणा० छदंसं० सत्तक० भयदु० तेजाक० वण्ण०४ अगु० उप० णिमि०
 पंचंत० णियमा बंधगो । धीणगिद्धि०३ मिच्छत्तं अट्ठकसा० पर० उस्सा० चदु आयु०
 आदाबुज्जो० तित्थय० सिया बं०, सिया अबं० । सेसं मिच्छत्तभंगो । एवं तिण्णं
 कसायाणं । क्रोधसंज० बंधंतो-पंचणा० चदुदंसं० तिण्णं संज० पंचंतरा० णियमा
 [बंधगो] । पंचदंसं० मिच्छत्तं बारसक० भयदु० चदुआयु० आहारदुगं तेजाक०
 वण्ण०४ अगु०४ आदाबुज्जो० णिमि० तित्थय० सिया बं० सिया अबं० ।
 दोवेदणी० सिया बं० । दोण्णं एकदं० [बंधगो] । ण चेव अबं० । एवं जस० अज्जसं०
 दोभोदाणं । इत्थिवे० सिया०, पुरिस० सिया० णपुंस० सिया बं० । तिण्णं वेदाणं
 एकदरं [बंधगो] । अथवा तिण्णंपि अबं० । एवं हस्सरदि-अरदिसोग-दोयुगला० चदुग०-

चाहिए । विशेष, स्त्यानगृद्धि ३, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी ४, आयु ४, परघात, उच्छ्वास,
 आताप, उद्योत, तीर्थकरका स्यात् बन्धक है, स्यात् अबन्धक है । अप्रत्याख्यानावरण मान,
 माया, लोभका अप्रत्याख्यानावरण क्रोधके समान वर्णन जानना चाहिए ।

प्रत्याख्यानावरण क्रोधका बन्ध करनेवाला—५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, ७ कषाय,
 भय, जुगुप्सा, तैजस-कार्मण, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण तथा ५ अन्तरायोंका
 नियमसे बन्धक है । स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, ८ कषाय (अनन्तानुबन्धी ४, अप्रत्याख्याना-
 वरण ४), परघात, उच्छ्वास, ४ आयु, आताप, उद्योत, तीर्थकरका स्यात् बन्धक है, स्यात्
 अबन्धक है । शेष प्रकृतियोंके विषयमें मिथ्यात्वके बन्धकके समान वर्णन जानना चाहिए ।
 प्रत्याख्यानावरण मान, माया तथा लोभका बन्ध करनेवालेके प्रत्याख्यानावरण क्रोधके
 समान जानना चाहिए ।

संज्वलन क्रोधका बन्ध करनेवाला—५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, ३ संज्वलन,
 ५ अन्तरायोंका नियमसे बन्धक है । ५ दर्शनावरण (निद्रापचक), मिथ्यात्व, १२ कषाय,
 भय, जुगुप्सा, ४ आयु, आहारकट्टिक, तैजस, कार्मण, वर्ण ४, अगुरुलघु ४, आताप, उद्योत,
 निर्माण, तीर्थकरका स्यात् बन्धक है, स्यात् अबन्धक है । दो वेदनीयका स्यात् बन्धक है ।
 दोमें-से अन्यतरका बन्धक है; अबन्धक नहीं है । यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति तथा २ गोत्रोंका
 इसी प्रकार जानना चाहिए । अर्थात् इनमें-से अन्यतरके बन्धक है; अबन्धक नहीं है ।

विशेष—संज्वलन क्रोधका अनिवृत्तिकरण गुणस्थान पर्यन्त बन्ध पाया जाता है तथा
 यशःकीर्ति, उन्नगोत्रका सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थान पर्यन्त बन्ध होता है । इस कारण यहाँ
 इनका अबन्धक नहीं कहा गया है ।

स्त्रीवेदका स्यात् बन्धक है । पुरुषवेदका स्यात् बन्धक है । नपुंसकवेदका स्यात् बन्धक
 है । तीनमें-से एकतरका बन्धक है; तीनोंका भी अबन्धक है ।

विशेष—वेदका बन्ध ६वें गुणस्थानके प्रथम भाग पर्यन्त होता है तथा संज्वलन
 क्रोधका बन्ध ९वें गुणस्थानके दूसरे भाग पर्यन्त होता है । इस कारण यहाँ वेदोंका अबन्धक
 भी कहा है ।

पंचजादि-दो-सरी-छस्संठा० दोअंगो० छस्संध० चदुआणु० दो-विहा० तसादिणव-
युगलाणं । एवं माणसंज० । णवरि दोसंज० णियमा बं० । एवं चेव मायासंज० ।
णवरि लोभसंज० णियमा बंध० । लोभसंजलणं बंधंतो-पंचणा० चदुदंस० पंचंत०
णियमा बं० । मिच्छत्तं पण्णारसकसा० सिया बं० । सेसं कोधसंजलण० भंगो ।

१११. इत्थिवेदं बंधंतो पंचणा० णवदंसणा० सोलसक० भयदुगुं० पंचिं०
तेजाक० वण्ण०४ अगुरु०४ तस०४ णिमि० पंचंत० णियमा बंध० । सादासादं
सिया बं० । दोण्णं वेदणीयाणं एकदरं बं० । ण चेव अबं० । एवं हस्सरदि-अरदिसो-
गाणं दोयुग० तिण्णि-गदि-दो-सरीर-छस्संठाणं दोअंगो० तिण्णिआणु० दोविहा०
थिरादिछयुग० दोगोदाणं । मिच्छत्तं तिण्णि आयु० उज्जोच० सिया बं०, सिया अबं० ।
छस्संध० सिया बं० । छण्णं एकदरं बं० । अथवा छण्णंपि अबं० ।

११२. पुरिसवेदं बंधंतो पंचणा० चदुदंस० चदुसंज० पंचंत० णियमा बं० ।
पंचदंस० मिच्छत्तं बारसक० भयदुगु० तिण्णि आयु० पंचिदि-आहारदु० तेजाक०

हास्य-रति, अरति-शोक इन युगलों, ४ गति, ५ जाति, २ शरीर, ६ संस्थान, २ अंगोपांग, ६ संहनन, ४ आनुपूर्वी, २ विहायोगति, त्रसादि नवयुगलका इसी प्रकार है अर्थात् एकतरका बन्धक है तथा अबन्धक भी है ।

संज्वलन मानका बन्ध करनेवालेके संज्वलन क्रोधके समान भंग है । विशेष, संज्वलन माया तथा लोभका नियमसे बन्धक है । संज्वलन मायाका बन्ध करनेवालेके इसी प्रकार भंग है । विशेष, संज्वलन लोभका नियमसे बन्धक है । संज्वलन लोभका बन्ध करनेवाला—५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, ५ अन्तरायका नियमसे बन्धक है । मिथ्यात्व, १५ कषायोंका स्यात् बन्धक है । शेष प्रकृतियोंका संज्वलन क्रोधके समान भंग है ।

१११. स्त्रीवेदका बन्ध करनेवाला—५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, पंचेन्द्रिय, तैजस, कार्मणशरीर, वर्ण ४, अगुरुलघु ४, त्रस ४, निर्माण तथा ५ अन्तरायोंका नियमसे बन्धक है । साता, असाताका स्यात् बन्धक है । दोमें-से अन्यतरका बन्धक है; अबन्धक नहीं है । हास्य, रति, अरति, शोक, नरकगतिको छोड़कर शेष ३ गति, २ शरीर, ६ संस्थान, २ अंगोपांग, ३ आनुपूर्वी, २ विहायोगति, स्थिरादि ६ युगल, २ गोत्रोंमें एकतरका बन्धक है; अबन्धक नहीं है । मिथ्यात्व, मनुष्य-तिर्यच-देवायु, उद्योतका स्यात् बन्धक है, स्यात् अबन्धक है । ६ संहननका स्यात् बन्धक है । इनमें-से अन्यतमका बन्धक है अथवा ६ का भी अबन्धक है ।

११२. पुरुषवेदका बन्ध करनेवाला—५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, ४ संज्वलन तथा ५ अन्तरायोंका नियमसे बन्धक है ।

विशेष—पुरुषवेदका बन्ध नवमे गुणस्थानके प्रथम भाग पर्यन्त होता है और ज्ञानावरणादिका इसके आगे तक बन्ध होता है अतः पुरुषवेदके बन्धकको ज्ञानावरणादिका नियमसे बन्धक कहा है ।

५ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १२ कषाय, भय, जुगुप्सा, नरकायु बिना ३ आयु, पंचेन्द्रिय,

वण्ण०४ अगु०४ उज्जोव-तस०४ णिमि० तिथ्य० सिया बं० । सिया अबं० । सादं सिया बं० । असादं सिया बंध० । दोण्णं वेदणी० एकदरं बं० । ण चेव अबं० । एवं जस० अज्जस० दोगोदाणं । हस्सरदि सिया० । अरदिसो० सिया बं० । दोण्णं युगलाणं एकद० । अथवा दोण्णं पि अबं० । एवं तिण्णिगदि-दोसरीर-छस्संठाणं दोअंगो० छस्संध० तिण्णि आणु० दोविहा० थिरादिपंचयु० ।

११३. णपुंस० बंधंतो पंचणाणा० णवदंस० मिच्छत्त-सोलस० भयदुगु० तेजाक० वण्ण०४ अगु० उप० णिमि० पंचंत० णियमा बं० । सादं सिया० बं । असादं सिया० । दोण्णं एकदरं बं० । ण चेव० [अबंधगो] । एवं हस्सरदि० अरदिसोगाणं दोयु० तिण्णिगदि-पंचजादि-दोसरी०-छस्संठाण० तिण्णि आणु० तसथावरादि-णवयुगलाणं दोगोदाणं । तिण्णिआणु० [आयु०] परघादुस्सा० आदावुज्जो० सिया बं० सिया अबं० । दोअंगो० छस्संध० दोविहा० दोसर० सिया बं० सिया अबं० । दोण्णं छण्णं दोण्णं दोण्णं पि एकदरं बं० । अथवा एदेसि अबं० ।

आहारकद्विक, तैजस-कार्मण, वर्ण ४, अगुरुलघु ४, उद्योत, त्रस ४, निर्माण तथा तीर्थकरका स्यात् बन्धक है, स्यात् अबन्धक है । साताका स्यात् बन्धक है । असाताका स्यात् बन्धक है । दोनोंमें-से अन्यतरका बन्धक है ; अबन्धक नहीं है । यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति तथा दो गोत्रोंका वेदनीयके समान भंग है । हास्य, रतिका स्यात् बन्धक है । अरति, शैकिका स्यात् बन्धक है । दो युगलोंमें-से अन्यतरका बन्धक है, अथवा दोनों युगलोंका भी अबन्धक है । नरकगतिको छोड़ शेष ३ गति, २ शरीर, ६ संस्थान, २ अंगोपांग, ६ संहनन, ३ आनुपूर्वी, २ विहायोगति, स्थिरादि पंच युगलका इसी प्रकार है अर्थात् इनमें-से एकतरका बन्धक है अथवा सबका भी अबन्धक है ।

११३. नपुंसकवेदका बन्ध करनेवाला—५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजस-कार्मण शरीर, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और ५ अन्तरायोंका नियमसे बन्धक है ।

विशेष—नपुंसकवेदका बन्ध मिथ्यात्व गुणस्थानमें होता है, इस कारण यहाँ मिथ्यात्वका भी नियमसे बन्ध कहा है ।

साताका स्यात् बन्धक है, असाताका स्यात् बन्धक है । दोनोंमें-से अन्यतरका बन्धक है ; अबन्धक नहीं है । हास्यरति, अरतिशोक ये दो युगल, देवगतिको छोड़कर ३ गति, ५ जाति, २ शरीर, ६ संस्थान, ३ आनुपूर्वी, त्रस-स्थावरादि ९ युगल, दो गोत्रोंका इसी प्रकार भंग है । देवायुको छोड़कर शेष ३ आयु, परघात, उच्छ्वास, आताप, उद्योतका स्यात् बन्धक है, स्यात् अबन्धक है । दो अंगोपांग, ६ संहनन, २ विहायोगति, २ स्वरका स्यात् बन्धक है, स्यात् अबन्धक है । २, ६, २, २ में-से अन्यतर बन्धक है अथवा २, ६, २, २ का अबन्धक है ।

विशेष—यहाँ तीन आनुपूर्वीका पहले कथन आ चुका है, अतः पुनः आगत 'तिण्णि आणु' के स्थानमें तीन आयुका द्योतक 'तिण्णि आयु' पाठ उपयुक्त जँचता है ।

११४. हस्सं बंधं० पंचणा० चदुदंस० चदुसंज० रदिभयदु० पंचंत० णियमा [बंधगो] । पंचदंस० मिच्छत्त-चारसक० तिण्णिआयु० आहारदु० तेजाक० वण्ण०४ अगु० ४ आदावुज्जो० [णिमि०] तित्थय० सिया बं०, सिया अबंधगो । सादं सिया बं०, असादं सिया बं० । दोण्णं एकदरं० । ण चेव अबं० । एवं तिण्णि वेद० जस० अजस० दोगोदाणं । तिण्णिगदि सिया०, सिया अबं० । तिण्णं एकदरं बं० अथवा अबं० । एवं गदिभंगो पंचजादि-दोसरी०-हस्संठा० दोअंगो० हस्संघ० तिण्णि आयु० दो विहा० तसादिणवयुम० । एवं रदीए० ।

११५. भयं बंधंतो पंचणा० चदुदंस० चदुसंज० दुगुं० पंचंत० णियमा बं० । पंचदं० मिच्छत्त-चारसक० चदुआयु० आहारदुगं तेजाकम्म० वण्ण०४ अगु०४ आदावुज्जो० णिमि० तित्थय० सिया बं० सिया अबं० । सादं सिया० । असादं सिया० । दोण्णं एकदरं बंधगो, ण चेव अबं० । एवं तिण्णिवे०-जस-अज०-दोगोदं० । चदुगदि सिया बं० । चदुण्णं गदीणं एक० । अथवा चदुण्णंभि अबंध० । एवं गदिभंगो

११४. हास्यका बन्ध करनेवाला—५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, ४ संज्वलन, रति, भय, जुगुप्सा, ५ अन्तरायका नियमसे बन्धक है । ५ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १२ कषाय, नरकायुको छोड़कर तीन आयु, आहारकद्विक, तैजस-कर्मण, वर्ण ४, आताप, उद्योत [निर्माण] तथा तीर्थंकरका स्यात् बन्धक है, स्यात् अबन्धक है । साता वेदनीयका स्यात् बन्धक है, असाता वेदनीयका स्यात् बन्धक है, दो में-से अन्यतरका बन्धक है; अबन्धक नहीं है । ३ वेद, यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति और दो गोत्रोंमें वेदनीयके समान भंग है । ३ गति (नरक बिना) का स्यात् बन्धक है, स्यात् अबन्धक है । तीनमें-से अन्यतमका बन्धक है अथवा तीनोंका भी अबन्धक है ।

विशेष—अपूर्वकरणके अन्तिम भाग तक हास्यका बन्ध होता है, किन्तु गतिका बन्ध अपूर्वकरणके छठवें भाग पर्यन्त होता है । इस कारण हास्यके बन्धकको गतित्रयका अबन्धक भी कहा है ।

५ जाति, २ शरीर, ६ संस्थान, २ अंगोपांग, ६ संहनन, ३ आनुपूर्वी, २ विहायोगति, त्रसादि ९ युगलका गतिके समान भंग है अर्थात् एकतरके बन्धक है अथवा सबके भी अबन्धक है ।

रतिका बन्ध करनेवालेके हास्यके समान भंग है ।

११५. भयका बन्ध करनेवालेके—५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, ४ संज्वलन, जुगुप्सा, ५ अन्तरायका नियमसे बन्धक है । ५ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १२ कषाय, ४ आयु, आहारकद्विक, तैजस-कर्मण, वर्ण ४, अगुरुलघु ४, आताप, उद्योत, निर्माण तथा तीर्थंकरका स्यात् बन्धक है, स्यात् अबन्धक है । साताका स्यात् बन्धक है, असाताका स्यात् बन्धक है । दोनोंमें-से अन्यतरका बन्धक है; अबन्धक नहीं है । ३ वेद, यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति तथा दो गोत्रोंका वेदनीयके समान जानना चाहिए । चार गतिका स्यात् बन्धक है । चारमें-से एकतरका बन्धक है अथवा चारोंका भी अबन्धक है ।

पंचजादि-दोसररीर छस्संठां दोअंगो-छस्संधं चदुआणुं दोविहां तसादिणवयुगलं । एवं दुगुंछ्छाए ।

११६. गिरयायुं बंधंतो पंचणां णवदंसं असादावे म्मिच्छं सोलसकं णपुंसकं अरदिसोगभयदुं गिरयगदि-पंचिं वेगुव्वियं तेजाकम्मं हुंडसंठां वेगुव्वियं अंगो वण्णं ४ गिरयाणुं अगुरुं ४ अप्पसन्थं तसं ४ अथिरादिछक्कं णिमिणं णीचागोदं पंचंतं णियमा बं ।

११७. तिरिक्खायुं बंधंतो पंचणां णवदंसं सोलसकं भयदुगुं तिरिक्खगदि-तिणिसरीं-वण्णं ४ तिरिक्खाणुं अगुं उपं णिमिणं णीचागो पंचंतं णियमा बंधं । सार्दं सिया बं, असार्दं सिया बंधं । दोण्णं एकदरं बं । ण चेव अबं । एस भंगो तिणिवेद-हस्सादिदोयुगं पंचजां छस्संठां तस-थावरादिणव-युगलार्णं । मिच्छत्तं ओरालिं अंगो परघाउस्सां आदावुज्जो सिया बं । छस्संधं दोविहां दोसरं सिया बंधं । एदेसिं एकदरं बं अथवा अबं ।

११८. मणुसायुगं बंधंतो पंचणां छदंसणां चारसकं भय-दुगुंछ्छां-मणुसगं

विशेष—गतिका बन्ध अपूर्वकरणके छठे भाग पर्यन्त होता है तथा भयका अपूर्वकरणके अन्तिम भाग तक बन्ध होता है । इस कारण भयके बन्धकको गतिचतुष्टयका अबन्धक भी कहा है ।

५ जाति, २ शरीर, ६ संस्थान, २ अंगोपांग, ६ संहनन, ४ आनुपूर्वी, २ विहायोगति, त्रसादि ९ युगलका गतिके समान भंग जानना चाहिए । जुगुप्साका बन्ध करनेवालेके भयके समान भंग जानना चाहिए ।

११६. नरकायुका बन्ध करनेवाला—५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, १६ कषाय, नपुंसकवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, नरकगति, पंचेन्द्रियजाति, वैक्रियिक-तैजस-कर्मण शरीर, हुंडकसंस्थान, वैक्रियिक अंगोपांग, वर्ण ४, नरकानुपूर्वी, अगुरुलघु ४, अप्रशस्त विहायोगति, त्रस ४, अस्थिरादिषट्क, निर्माण, नीचगोत्र, तथा ५ अन्तरायिका नियमसे बन्धक है ।

११७. तिर्यचायुका बन्ध करनेवाला—५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, तिर्यचगति, २ शरीर (औदारिक-तैजस-कर्मण), वर्ण ४, तिर्यचानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण, नीचगोत्र और ५ अन्तरायिका नियमसे बन्धक है । साता वेदनीयका स्यात् बन्धक है, असाताका स्यात् बन्धक है । दोमें-से अन्यतरका बन्धक है; अबन्धक नहीं है । तीन वेद, हास्यादि दो युगल, ५ जाति, ६ संस्थान, त्रस-स्थावरादि ६ युगलमें वेदनीयके समान जानना चाहिए । अर्थात् एकतरका बन्धक है; अबन्धक नहीं है । मिथ्यात्व, औदारिक अंगोपांग, परघात, उच्छ्वास, आताप, उद्योतका स्यात् बन्धक है । ६ संहनन, २ विहायोगति, २ स्वरका स्यात् बन्धक है । इनमें-से एकतरका बन्धक है अथवा किसीका भी बन्धक नहीं है ।

११८. मनुष्यायुका बन्ध करनेवाला—५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, १२ कषाय, भय,

पंचिदि० तिणिसरी० ओरालि० अंगो० वण्ण०४ मणुसाणु० अगु० उपघा० तस-
बादर-पत्तेय०-णिमिण-पंचंत० णियमा बंध० । थीणगिद्धित्तग-मिच्छत्तं अणंताणुबंधि०४
परघाउत्सा० तित्थय० सिया बंध०, सिया अबं० । सादं सिया० । असादं सिया० ।
दोण्णं एकदं बं० । ण चेव अबं० । एवं तिणिवे० हस्सादि-दो युग० छस्संठा०
छस्संधं० पज्जापज्ज० थिरादि-पंचयुग० दोगोदाणं० । दोविहाय० दोसरं सिया० ।
दोण्णं दोण्णं एकदरं बंध० । अथवा दोण्णं दोण्णापि अबं० ।

११६. देवायुगं बंधंतो० पंचणा० छदंसणा० सादावे० चदुसंज० हस्सरदि-
भयदुगु० देवगदि० पंचिदि० तिणिसरीर०-समचदु० वेउत्वि० अंगो० वण्ण०४
देवाणु० अगु०४ पसत्थवि० तस०४ थिरादिच्छकं णिमि० उच्चागो० पंचंत०
णियमा बं० । थीणगिद्धि०३ मिच्छत्त-बारसक० आहारदु० तित्थय० सिया० ।
इत्थि० सिया० । पुरिस० सिया० । दोण्णं वेदाणं एकदरं० । ण चेव अबं० ।

१२०. णिरयगदि बंधंतो णिरयायुभंगो । णवरि णिरयायुं सिया बंधदि । एवं

जुगुप्सा, मनुष्यगति, पंचेन्द्रियजाति, औदारिक-तैजस-कर्मण शरीर, औदारिक अंगोपांग,
वर्ण ४, मनुष्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, त्रस, बादर, प्रत्येक, निर्माण तथा ५ अन्तरायका
नियमसे बन्धक है । स्थानगुद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी ४, परघात, उच्छ्वास,
तीर्थकरका स्यात् बन्धक है, स्यात् अबन्धक है । सातावेदनीयका स्यात् बन्धक है, असाताका
स्यात् बन्धक है । दोनोंमें-से अन्यतरका बन्धक है ; अबन्धक नहीं है । ३ वेद, हास्यादि दो
युगल, ६ संस्थान, ६ संहतन, पर्याप्तक, अपर्याप्तक, स्थिरादि पाँच युगल तथा २ गोत्रोंका
इसी प्रकार वर्णन है । अर्थात् एकतरके बन्धक हैं ; अबन्धक नहीं है । दो विहायोगति, दो
स्वरका स्यात् बन्धक है । दोनोंमें-से अन्यतरका बन्धक है अथवा २, २ का भी
अबन्धक है ।

११९. देवायुका बन्ध करनेवाला—५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, साता, ४ संञ्चलन,
हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, देवगति, पंचेन्द्रिय जाति, ३ शरीर (वैक्रियिक-तैजस-कर्मण),
समचतुरस्र-संस्थान, वैक्रियिक अंगोपांग, वर्ण ४, देवानुपूर्वी, अगुरुलघु ४, प्रशस्तविहायोगति,
त्रस ४, स्थिरादिषट्क, निर्माण, उच्चगोत्र तथा ५ अन्तरायका नियमसे बन्धक है । स्थान-
गुद्धित्रिक, मिथ्यात्व, बारह कपाय, आहारकद्विक, तीर्थकरका स्यात् बन्धक है । स्त्रीवेदका
स्यात् बन्धक है, पुरुषवेदका स्यात् बन्धक है । दो वेदोंमें-से अन्यतरका बन्धक है;
अबन्धक नहीं है ।

१२०. नरकगतिका बन्ध करनेवालेके नरकायुके समान भंग जानना चाहिए । विशेष,
नरकायुका स्यात् बन्ध करता है ।

विशेष—नरकायुके बन्धकके नियमसे नरकगतिका बन्ध होता है, किन्तु नरकगतिके
बन्धकके नरकायुके बन्धका ऐसा कोई नियम नहीं है । नरकायुका बन्ध हो अथवा बन्ध
न भी हो । गति बन्ध तो सदा होता रहता है, किन्तु आयुका बन्ध तो सदा नहीं
होता है ।

गिरयाणुपु० । तिरिक्खगदि तिरिक्खायुभंगो । णवरि तिरिक्खायुं सिया० । एवं तिरिक्खाणु० । मणुसगदि मणुसायुभंगो । णवरि मणुसायुं सिया बं० । एवं मणुसाणुपु० । देवगदि बंधंतो पंचणाणा० चदुदंस० चदुसंज० भयदु० उच्चा० पंचंत० णियमा बं० । सादं सिया० । असादं सिया० । दोण्णं वेदणी० एकदरं० । ण चेव अबं० । एवं हस्सरदि-अरदिसोगाणं दोण्णं युगलाणं । देवायु सिया०, सिया अबं० । हेट्ठा उवरि देवायुभंगो० । णामं सत्थाण०भंगो । एवं देवाणु० ।

१२१. एहंदियं बंधंतो पंचणा० णवदंस० मिच्छत्त० सोलसक० णपुंस० भयदुगुं० णीचा० पंचंत० णियमा बं० । सादासादं चदुणोकसाय० तिरिक्खगदिभंगो० । तिरिक्खायुं० सिया० । णामाणं सत्थाणभंगो । एवं आदाव-धावराणं । विगल्लिदिय-सुहुम-अपज्ज० साधारणा हेट्ठा उवरि एहंदियभंगो । णामं (णामाणं) अप्पणो

नरकानुपूर्विका बन्ध करनेवालेके नरकगतिके समान भंग जानना चाहिए ।

तिर्य्यचगतिका बन्ध करनेवालेके तिर्य्यचायुके समान भंग जानना चाहिए । विशेष, तिर्य्यचायुका स्यात् बन्धक है । तिर्य्यचानुपूर्विके भी इसी प्रकार जानना चाहिए ।

विशेष—तिर्य्यचायुके बन्धकके नियमसे तिर्य्यचगतिका बन्ध होता है, किन्तु तिर्य्यचगतिके बन्धकके तिर्य्यचायुके बंधनेका कोई निश्चित नियम नहीं है । ऐसा ही मनुष्यगतिके भी है ।

मनुष्यगतिका बन्ध करनेवालेके मनुष्यायुके समान भंग है । विशेष, मनुष्यायुका स्यात् बन्धक है । मनुष्यानुपूर्विके भी इसी प्रकार है ।

देवगतिका बन्ध करनेवाला—५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, ४ संज्वलन, भय, जुगुप्सा, उच्चगोत्र तथा ५ अन्तरायोंका नियमसे बन्धक है । साताका स्यात् बन्धक है, असाताका स्यात् बन्धक है । दो वेदनीयमेंसे अन्यतरका बन्धक है ; अबन्धक नहीं है । हास्य-रति, अरति-शोक इन दो युगलोंमेंसे अन्यतर युगलका बन्धक है ; अबन्धक नहीं है । देवायुका स्यात् बन्धक है, स्यात् अबन्धक है । अधस्तन उपरितन बंधनेवाली प्रकृतियोंमें देवायुका भंग जानना चाहिए । नाम-कर्मकी प्रकृतियोंमें स्वस्थान-सन्निकर्षके समान भंग है ।

विशेषार्थ—देवायुके बन्धकके तो देवगतिके बन्ध-सन्निकर्षका नियम है; किन्तु देवगतिके बन्धकके साथ देवायुके बन्धका ऐसा नियम नहीं है । दूसरी बात यह है कि देवायुका बन्ध अप्रमत्त संयत पर्यन्त है; जब कि देवगतिका अपूर्वकरण गुणस्थान पर्यन्त बन्ध होता है । इस कारण देवगतिके बन्धकके देवायुका अबन्ध भी कहा है ।

देवानुपूर्विके देवगतिके समान भंग जानना चाहिए ।

१२१. एकेन्द्रियका बन्ध करनेवाला—५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, नपुंसकवेद, भय, जुगुप्सा, नीचगोत्र, ५ अन्तरायका नियमसे बन्धक है । साता, असाता, ४ लोकपायमें तिर्य्यचगतिके समान भंग है । तिर्य्यचायुका स्यात् बन्धक है । नाम-कर्मकी प्रकृतिके बन्धके विषयमें स्वस्थान सन्निकर्षके समान भंग जानना चाहिए । आताप तथा स्थावरके बन्धकके इसी प्रकार भंग है । विकलेन्द्रिय, सूक्ष्म, अपर्याप्तक, साधारणमें—अधस्तन,

सत्थाणभंगो कादव्वो । पंविदियं बंधंतो पंचणा० चदुदंस० चदुसंज० भयदु० पंचंत०
णियमा वं० । पंचदंस० मिच्छत्त-वारसक० चदुआयु० सिया वं० । सिया अवं० ।
दोवेद० सत्तणोक० दोगोदा० सिया वं०, सिया अवं० । एदेसिं एकदरं वं०, ण चेव
अवं० । णामाणं सत्थाण०भंगो ।

१२२. ओरालियं वं० पंचणा० छदंस० वारसक० भयदु० पंचतरा० णियमा
वं० । दोवेदणी०-तिण्णि वे० हस्सरदि-दोयुग० दोगोदाणं सिया वं० सिया अवं० ।
एदेसिं एकदरं० । ण चेव० । थीणगिद्विति० मिच्छ० अणंताणुवं०४ दो आयु०
सिया० । णामाणं सत्थाण०भंगो ।

१२३. वेगुब्बिय बंधंतो हेट्ठा उवरि देवगदिभंगो । णवरि तिण्णि वेदं दोगोदं
सिया०, सिया अवं० । एदेसि०एकदरं० । ण चेव अवं० । णिरय-देवायु० सिया० ।

उपरितन बंधनेवाली प्रकृतियोंका एकेन्द्रियके समान भंग है । विशेष, नामकर्मकी प्रकृतियोंके
विषयमें स्वस्थान सन्निकर्षवत् भंग जानना चाहिए ।

पंचेन्द्रियका बन्ध करनेवाला—५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, ४ संज्वलन, भय,
जुगुप्सा, ५ अन्तरायका नियमसे बन्धक है । ५ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १२ कषाय, ४ आयुका
स्यात् बन्धक है, स्यात् अबन्धक है ।

विशेष—पंचेन्द्रिय जातिका बन्ध आठवें गुणस्थान तक होता है तथा निद्रादि दर्शना-
वरण ५ आदिका उसके नीचे तक होता है । इस कारण यहाँ स्यात् अबन्धक कहा है ।

दो वेदनीय, सात नोकषाय, तथा २ गोत्रका स्यात् बन्धक है, स्यात् अबन्धक है ।
इनमें-से एकतरका बन्धक है, अबन्धक नहीं है । नामकर्मकी प्रकृतियोंके बन्धके विषयमें
स्वस्थान सन्निकर्षके समान जानना चाहिए ।

१२२. औदारिक शरीरका बन्ध करनेवाला—५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण (स्यान-
गुद्धित्रिक रहित) १२ कषाय, भय, जुगुप्सा, ५ अन्तरायका नियमसे बन्धक है ।

विशेष—औदारिक शरीरका बन्ध असंयत गुणस्थान पर्यन्त है । इससे उसके बन्धकके
६ दर्शनावरण, १२ कषायादिका नियमसे बन्ध कहा गया है ।

दो वेदनीय, ३ वेद, हास्य-रति, अरति-शोक दो युगल, २ गोत्रका स्यात् बन्धक है,
स्यात् अबन्धक है । इनमें एकतरका बन्धक है, अबन्धक नहीं है । स्यानगुद्धित्रिक, मिथ्यात्व,
अनन्तानुबन्धी ४, दो आयु (मनुष्य-तिर्यचायु) का स्यात् बन्धक है । नाम कर्मकी प्रकृतियों-
के बन्धके विषयमें स्वस्थान सन्निकर्षवत् भंग जानना चाहिए ।

१२३. वैक्रियिक शरीरका बन्ध करनेवालेके उपरितन तथा अधस्तन बंधनेवाली
प्रकृतियोंमें देवगतिके समान भंग है । विशेष, ३ वेद, २ गोत्रका स्यात् बन्धक है, स्यात्
अबन्धक है । इनमें-से एकतरका बन्धक है, अबन्धक नहीं है ।

विशेषार्थ—देवगतिमें पुरुषवेद, स्त्रीवेद, एवं उच्चगोत्रका ही सद्भाव है, किन्तु यहाँ
वैक्रियिकशरीरके बन्धकोंके वेदत्रय, तथा गोत्रद्वयका वर्णन किया है, कारण वैक्रियिकशरीरके
साथ देवगति या नरकगतिका बन्ध होता है । इसी दृष्टिसे नपुंसकवेद, और नीचगोत्रका भी
बन्ध कहा है ।

णामं (णामाणं) सत्थाण०भंगो । एवं वेगुविय० अंगो० ।

१२४. आहारसरीरं बंधंतो पंचणा० छदंस० सादावे० चदुसंज० पुरिसवे० हस्सरदिअरदि (?) भयदु० उच्चा० पंचंत० नियमा बं० । देवायु० सिया बं० । णामाणं सत्थाणभंगो । एवं आहारस० अंगो० । पंचिदियं० जादिभंगो तेजाक० समचदु० वण्ण०४ अगु०४ तस०४ थिमादि पंचणं गदीणं । हेट्ठा उवरि० । णामाणं अप्पवणो सत्थाण०भंगो । णवरि समचदु० पसत्थवि० थिरादिपंचणं पगदीणं णिरयायुगं णत्थि ।

१२५. णग्गोदं बंधंतो पंचणा० णवदंस० सोलसक० भयदु० पंचंतरा० नियमा बं० । दोवेदणीय० सत्तणोक० दोगोदं सिया बं० । एदेसि एकदरं बं०, ण चेव अबं० । मिच्छत्त-तिरिक्खमणुसायुगं सिया बं० । णामं (णामाणं) सत्थाण०भंगो । एसभंगो सादियसंठा० कुज्जसं० वामणसं० चदुसंघडणणं ।

नरकायु-देवायुका स्यात् बन्धक है । नामकर्मकी प्रकृतियोंका स्वस्थानसन्निकर्षवत् भंग है ।

वैक्रियिक अंगोपांगमें वैक्रियिक शरीरवत् भंग जानना चाहिए ।

१२४. आहारकशरीरका बन्ध करनेवाला—५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, साता वेदनीय, ४ संज्वलन, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, उच्चगोत्र, ५ अन्तरायका नियमसे बन्धक है । देवायुका स्यात् बन्धक है । नामकर्मकी प्रकृतियोंके विषयमें स्वस्थान सन्निकर्षमें वर्णित भंग है ।

विशेष—आहारकशरीरका बन्ध अप्रमत्त दशामें होता है । अरति प्रकृतिकी बन्ध-व्युच्छित्ति प्रमत्तसंयत गुणस्थानमें होती है, अतः आहारक शरीरके बन्धके साथ अरतिकी सन्निकर्ष नहीं होगा । इस कारण मूल पाठमें 'अरदि' अयुक्त प्रतीत होती है ।

आहारकशरीर-अंगोपांगके बन्ध करनेवालेके आहारक शरीरवत् भंग है ।

तैजस-कामण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वर्ण ४, अगुरुलघु ४, त्रस ४, स्थिरादि ५ प्रकृतियोंके बन्धकोंका उपरितन अधस्तन प्रकृतियोंके विषयमें पंचेन्द्रिय जातिके समान भंग है । नामकर्मकी प्रकृतियोंका स्वस्थान सन्निकर्षवत् भंग जानना चाहिए । विशेष, समचतुरस्र-संस्थान, प्रशस्तविहायोगति, स्थिरादि ५ प्रकृतियोंके बन्धकोंके नरकायुका बन्ध नहीं है ।

१२५. न्यग्रोधपरिमण्डलसंस्थानका बन्ध करनेवाला—५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, ५ अन्तरायोंका नियमसे बन्धक है । २ वेदनीय, ७ नोकषाय, दो गोत्रका स्यात् बन्धक है । इनमेंसे अन्यतरका बन्धक है, अबन्धक नहीं है । मिथ्यात्व, तिर्यचायु, मनुष्यायुका स्यात् बन्धक है । नामकर्मकी प्रकृतियोंका स्वस्थान सन्निकर्षवत् भंग है ।

स्वातिसंस्थान, कुज्जक संस्थान, वामनसंस्थान, बज्रवृषभनाराच तथा असम्प्राप्ता-सृपाटिका संहननको छोड़कर शेष ४ संहननके बन्धकके इसी प्रकार भंग जानना चाहिए ।

विशेष—संस्थान ४ और संहनन ४ सासादन गुणस्थान पर्यन्त बंधते हैं । अतः इनका समान रूपसे वर्णन किया है ।

हुंडसंठाणं वं० पंचणा० णवदंस० मिच्छत्त-सोलसक० भयदु० पंचंत० णियमा० ।
दोवेद० सत्तणोक० दोगोद० सिया० । सिया अबं० । एदेसिं एकदरं० ण चैव अबं० ।
तिणिण आयु सिया० । णामाणं सत्थाणं०भंगो । एवं [असंपत्त०] दूभग० अणादे० ।
ओरालि० अंगो० वज्जरिसह० ओरालियसरीरभंगो । णामाणं सत्थाणं०भंगो ।

१२६. उज्जोवं बंधतो हेट्ठा उवरि तिरिक्खगदिभंगो । णामाणं सत्थाणभंगो ।
अप्पसत्थविहाय० बंधतो हेट्ठा उवरि णग्गोध्रभंगो । णवरि णिरयायु० सिया वं० ।
णामाणं सत्थाणभंगो । एवं दुस्सरं । जसगित्ति बंधतो पंचणा० च्चदुदंस० पंचंत० णियमा
वं० । पंचदंसणा० मिच्छत्तं० सोलसक० भय-दुगुंच्छा०-तिणिणआयु० सिया वं० ।
सिया अबं० । सादं सिया वं०, सिया अबं० । असादं सिया वं० [सिया अबं०]

हुण्डक संस्थानका बन्ध करनेवाला—५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा तथा १ अन्तरायका नियमसे बन्धक है। दो वेदनीय, ७ नोकपाय, दो गोत्रका स्यात् बन्धक है, स्यात् अबन्धक है। इनमें-से एकतरका बन्धक है, अबन्धक नहीं है। नरक-मनुष्य तिर्यचायुका स्यात् बन्धक है। नामकर्मकी प्रकृतियोंका स्वस्थान सन्निकर्षके समान भंग है।

[असम्प्राप्तासृपाटिका संहनन] दुर्भंग, अनादेयके बन्ध करनेवालोंके हुंडक संस्थानवत् भंग जानना चाहिए। औदारिक अंगोपांग, वज्रवृषभनाराच संहननके बन्ध करनेवाले औदारिक शरीरके समान भंग है। नामकर्मकी प्रकृतियोंका स्वस्थान सन्निकर्षवत् भंग जानना चाहिए।

१२६. उद्योतका बन्ध करनेवालेके—उपरितन अधस्तन प्रकृतियोंका तिर्यचगतिके समान भंग है। नामकर्मकी प्रकृतियोंका स्वस्थान सन्निकर्षवत् भंग जानना चाहिए। अप्रशस्त विहायोगतिके बन्ध करनेवालेके उपरितन अधस्तन बंधनेवाली प्रकृतियोंका न्यग्रोधपरिमण्डलसंस्थानके समान भंग जानना चाहिए। विशेष, नरकायुका स्यात् बन्धक है। नामकर्मकी प्रकृतियोंमें स्वस्थान सन्निकर्षवत् भंग जानना चाहिए।

विशेषार्थ—अप्रशस्तविहायोगति तथा न्यग्रोधपरिमण्डलसंस्थानका बन्ध सासादन गुणस्थान पर्यन्त होता है। इस कारण न्यग्रोधसंस्थानके समान अप्रशस्तविहायोगतिका वर्णन बताया है। इतना विशेष है कि नारकियोंमें न्यग्रोधसंस्थान नहीं है, किन्तु वहाँ दुर्गमनका सद्भाव पाया जाता है। इस कारण दुर्गमनके बन्धकके नरकायुका भी बन्ध कहा है।

दुस्वर प्रकृतिका बन्ध करनेवालेके इसी प्रकार भंग है। यशःकीर्तिका बन्ध करनेवाला ५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, ५ अन्तरायका नियमसे बन्धक है।

विशेषार्थ—यद्यपि कषायोंका उदय सूक्ष्मसाम्परायगुणस्थान पर्यन्त होता है, किन्तु उनका बन्ध अनिवृत्तिकरण पर्यन्त होता है। अतः सूक्ष्मसाम्पराय पर्यन्त बंधनेवाले यशः-कीर्तिके बन्धकके कषायोंके बन्धका नियम नहीं है। इससे यहाँ ज्ञानावरणादिके साथ कषायोंका वर्णन नहीं हुआ है।

दर्शनावरण ५ (निद्रापंचक), मिथ्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, नरकको छोड़ तीन आयुका स्यात् बन्धक है, स्यात् अबन्धक है। साताका स्यात् बन्धक है, स्यात् अबन्धक है।

दोष्णं एकदरं० । ण चेव अबं० । एवं दोगोद० । तिण्णि वेदाणं सिया वं० । तिण्णं वेदाणं एकदरं वं० । अथवा अबं० । एवं चदुणोक० । णामाणं सत्थाणभंगो । तित्थयरं बंधंतो पंचणा० चदुदंस० चदुसंज० पुरिस० भयदु० उच्चा० पंचंत० णियमा वं० । णिहा-पचला-अट्ठक० दो आयु सिया वं० सिया अबं० । सादं सिया वं०, असादं सिया वं० । दोष्णं एकदरं वं० । ण चेव अबं० । एवं चदुणोक० । णामाणं सत्थाणभंगो ।

१२७. उच्चागोदं बंधंतो पंचणा० चदुदंस० पंचंत० णियमा वं० । पंचदंस० मिच्छ० सोलसक० भयदु० दोआयु० पंचिदि० तिण्णिसरी-आहार० अंगो० वण्ण० ४ [अगु०४] तस०४ णिमिणं तित्थयरं सिया वं० सिया अबं० । दो वेदणी० जस० अजस० सिया वं० । एदेसि एकदरं वं० । ण चेव अबं० । तिण्णि वेदं सिया वं० सिया अबं० । तिण्णं वेदाणं एकदरं वं० । अथवा अबं० । एस भंगो चदुणोक० दोगदि० दोसरीरं छस्संठा० दो अंगो० छस्संध० दो आणु० दो विहा० थिरादिपंचयुगलाणं । णीचागोदं बंधंतो थिणगिद्धिभंगो । देवायु-देवगदिदुगं उच्चागोदं वज्जं० ।

असाताका स्यात् बन्धक है [स्यात् अबन्धक है], दोमें-से अन्यतरका बन्धक है, अबन्धक नहीं है । दो गोत्रका वेदनीयके समान भंग है । तीन वेदका स्यात् बन्धक है । इनमें-से अन्यतमका बन्धक है । अथवा तीनोंका भी अबन्धक है । हास्य, रति, अरति, शोकका भी इसी प्रकार जानना चाहिए । नामकर्मकी प्रकृतियोंका स्वस्थान सन्निकर्षवत् भंग है ।

तीर्थकरका बन्ध करनेवाला—५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, ४ संज्वलन, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, उच्चगोत्र, ५ अन्तरायोंका नियमसे बन्धक है । निद्रा, प्रचला, अप्रत्याख्यानावरण तथा प्रत्याख्यानावरण रूप कषायाष्टक, देव-मनुष्यायुका स्यात् बन्धक है, स्यात् अबन्धक है । सातावेदनीयका स्यात् बन्धक है, असाताका स्यात् बन्धक है । दोमें-से अन्यतरका बन्धक है, अबन्धक नहीं है । हास्यादि ४ नोकषायोंका वेदनीयके समान भंग है । नामकर्मकी प्रकृतियोंका स्वस्थान सन्निकर्षवत् भंग है ।

१२७. उच्चगोत्रका बन्ध करनेवाला—५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, ५ अन्तरायका नियमसे बन्धक है । ५ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, दो आयु (मनुष्य-देवायु), पंचेन्द्रिय जाति, तीन शरीर, आहारक अंगोपांग, वर्ण ४, [अगुरुलघु ४], त्रस ४, निर्माण, तीर्थकरका स्यात् बन्धक, स्यात् अबन्धक है । दो वेदनीय, यशःकीर्ति, अयशःकीर्तिके स्यात् बन्धक है । इनमें-से अन्यतरका बन्धक है; अबन्धक नहीं है । तीन वेदका स्यात् बन्धक है, स्यात् अबन्धक है । तीन वेदोंमें-से अन्यतमका बन्धक है अथवा तीनोंका अबन्धक है । हास्यादि ४ नोकषाय, २ गति, २ शरीर, ६ संस्थान, २ अंगोपांग, ६ संहनन, २ आनुपूर्वी, २ विहायोगति, स्थिरादि पांच युगलोंका इसी प्रकार भंग है ।

नीचगोत्रका बन्ध करनेवालेके स्त्यानगृह्णित् भंग है । विशेष, यहाँ देवायु, देवगति-त्रिक तथा उच्चगोत्रको छोड़ देना चाहिए ।

१२८. एवं ओघभंगो मणुस०३ पंचिदिय तस०२ पंचमण० पंचवचि० काजोगि-ओरालियकाजो० लोभ० चक्खु० अचक्खु० सुक्क० भवसि० सण्णि-आहारगत्ति । ओरालियमिस्स० सादं बंधंतो पंचणा० णवदंस० मिच्छत्त-सोलसक० भयदु० दो आयु० देवगदि-चदुत्तरीर० दो अंगो० वण्ण०४ देवाणु० अगुरु०४ आदावुज्जोव० णिमिणं तिस्थय० पंचंत० सिया बं०, सिया अबं० । सेसाणं वेदादीणं सन्वाणं सिया बं० । एदाणं एककदरं बं० । अथवा अबं० । एवं कम्म०-अणाहारगेसु । णवरि आयुवज्ज० इत्थिवेद० । आभिणिबोधि० बंधंतो चदुणाणा० चदुदंस० चदुसंज० पंचंत० णियमा बं० । सेसाणं ओघभंगो । एवं पुरि० णपुंस० कोध-माणमाया० । णवरि माणे तिण्णि संजल० । मायाए दो संज० । सेसाणं ओघो । अवगदवेदे ओघं ।

१२८. आदेशसे—मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य तथा मनुष्यनी, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्तक, त्रस, त्रस-पर्याप्तक, ५ मनोयोग, ५ वचनयोग, काययोग, औदारिककाययोग, लोभकषाय, चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन, शुक्ललेश्या, भवसिद्धिक, संज्ञी, आहारक तक ओघवत् जानना चाहिए ।

औदारिकमिश्रकाययोगमें भी इसी प्रकार जानना चाहिए । विशेष, साताका बन्ध करनेवाला—५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, मनुष्य-तिर्यचायु, देवगति, औदारिक-वैक्रियिक, तैजस-कर्मण शरीर, २ अंगोपांग, वर्ण ४, देवानु-पूर्वी, अगुरुलघु ४, आताप, उद्योत, निर्माण, तीर्थकर तथा ५ अन्तरायका स्यात् बन्धक है, स्यात् अबन्धक है ।

विशेष—साताका सयोगीजिन पर्यन्त बन्ध है । ज्ञानावरणादिकां सूक्ष्मसाम्पराय पर्यन्त बन्ध है । इस कारण साताके बन्धकके ज्ञानावरणादिके बन्धका विकल्प रूपसे वर्णन किया गया है ।

वेदादि शेष सर्व प्रकृतियोंका स्यात् बन्धक है । इनमें-से एकतरका बन्धक है अथवा सबका अबन्धक है ।

कामाण काययोग तथा अनाहारकोंमें औदारिकमिश्रकाययोगके समान जानना चाहिए । विशेष—यहाँ आयुको छोड़ देना चाहिए । स्त्री वेदमें इसी प्रकार जानना चाहिए । विशेष, आभिनिबोधिक ज्ञानावरणका बन्ध करनेवाला—४ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, ४ संस्वलन तथा ५ अन्तरायका नियमसे बन्धक है । शेष प्रकृतियोंका ओघके समान भंग जानना चाहिए ।

पुरुषवेद, नपुंसकवेद, क्रोध, मान, माया कषायोंमें इसी प्रकार भंग जानना चाहिए । विशेष, मानमें, तीन संस्वलन और मायामें दो संस्वलन हैं । शेषका ओघवत् भंग जानना चाहिए ।

अपगत वेदमें—ओघके समान भंग जानना चाहिए ।

१. "ओराले वा मिस्से ण हि सुरणिरमायुहारणिरथदुगं ॥"—गो० क०, गा० ११६ ।

२. "कम्मे उसलमिस्सं वा णाउदुगं णव छिदो अयदे ।"—गो० क०, गा० ११९ ।

१२६. आभिणि० सुद० ओधिणा० मणपज्ज० संजद० समाह० छेदो० परिहार० सुहुम० संजदासंजद० ओधिदं० सम्मादि० खइग० वेदग० उवसम० ओघ-भंगो । णवरि मिच्छत्त-असंजदपगदीओ वज्जं । ओरालिय० ओरालियमिस्स० इत्थिवे० क्किण्णणीलासु तित्थयरं देवगदिसंयुतं कादव्वं । पम्मसुक्क-लेस्सा० इत्थिवेदं बंधंतो ओरालियसरीरं धुवं बंधदि । सेसं गिरयादि याव असण्णित्ति ओघेण अप्पण्णो सामित्तेण च साधूण भाण्णिदव्वं ।

एवं परस्थानसण्णियासो समत्तो ।

१२९. आभिनिबोधिक, श्रुत, अवधि, मनःपर्ययज्ञान, संयम, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्मसाम्पराय, संयतासंयत, अवधिदर्शन, सम्यक्त्वी, क्षायिक सम्यक्त्व, वेदक सम्यक्त्व, उपशम सम्यक्त्वमें ओघवत् भंग जानना चाहिए। विशेष, यहाँ मिथ्यात्व तथा असंयत सम्बन्धी प्रकृतियोंको छोड़ देना चाहिए। औदारिक, औदारिकमिश्र, स्त्रीवेद, कृष्ण और नील लेश्याओंमें—तीर्थंकरका बन्ध देवगति संयुक्त करना चाहिए।

पद्म, शुक्ल लेश्यामें—स्त्रीवेदका बन्ध करनेवाला औदारिक शरीरका नियमसे बन्ध करता है। नरक गतिसे लेकर असंज्ञी पर्यन्त ओघसे अपने-अपने स्वामित्वको जानकर शेष प्रकृतियोंका कथन करना चाहिए।

इस प्रकार परस्थानसन्निकर्ष समाप्त हुआ ।

[भंगविचयाणुगम-परुवणा]

१३०. णाणाज्जीवेहि भंगविचयाणुगमो दुविधो णिदेसो ओघेण आदेसेण य । ओघे० पंचणा० णवदंस० मिच्छ० सोलसक० भयदु० तेजाकम्म० आहारदुगं वण्ण०४ अगुरु०४ आदावुज्जो० णिमिणं तित्थयरं पंचंत० अत्थि बंधगा अबंधगा च । सादं अत्थि बंधगा य अबंधगा य । असादं अत्थि बंधगा य अबंधगा य । दोणं पगदीणं अत्थि बंधगा य अबंधगा य । एवं वेदणीयभंगो सत्तणोक० चदुग० पंचजादि-दोसरीर-छस्संठोदोअंगो० छस्संघ० चदुआणु० दोविहाय० तसादिदसयुगलं दोगोदाणं । दो अंगो० छस्संघ-दोविहा० दोसर० अत्थि बंधगा य अबंध० । अथवा दोणं छुणं दोणं दोणं पि अत्थि बंधगा य अबंधगा य । णिरय-मणुस-देवायुणं सिया सव्वे अबंधगा, सिया अबंधगा य बंधगे (गो) य, सिया अबंधगा य बंधगा य । तिरिक्खायु अत्थि बंधगा य अबंधगा य । चदुणं आयुमाणं अत्थि बंधगा य अबंधगा य ।

१३१. एवं ओघभंगो कायजोगि-ओरालियकायजोगि-भवसिद्धि० आहारगत्ति० ।

[भंगविचयानुगम]

१३०. नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचयानुगमका ओघ और आदेशकी अपेक्षा दो प्रकारका निर्देश है ।

विशेषार्थ—भंगविचयका अर्थ है अस्ति नास्ति रूप भंगोंका विचार । यहाँ कर्म-प्रकृतियोंके सद्भाव, असद्भावका विचार किया गया है ।

ओघसे—५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजस, कार्माण, आहारकद्विक, वर्ण ४, अगुरुलघु ४, आताप, उद्योत, निर्माण, तीर्थंकर और ५ अन्तरायके अनेक बन्धक और अनेक अबन्धक हैं ।

साताके अनेक बन्धक और अनेक अबन्धक हैं । असाताके अनेक बन्धक और अबन्धक हैं । दोनों प्रकृतियोंके अनेक बन्धक और अनेक अबन्धक हैं । ७ नोकषाय (भय जुगुप्साको छोड़कर), ४ गति, ५ जाति, २ शरीर, ६ संस्थान, २ अंगोपांग, ६ संहनन, ४ आनुपूर्वी, २ विहायोगति, त्रसादि १० युगल, २ गोत्रमें वेदनीयके समान भंग है । २ अंगोपांग, ६ संहनन, २ विहायोगति, २ स्वरके नाना जीवोंकी अपेक्षा अनेक बन्धक और अनेक अबन्धक हैं । अथवा २, ६, २, २ के अनेक बन्धक हैं, अनेक अबन्धक हैं । नरक, मनुष्य, देवायुके किसी अपेक्षा सब अबन्धक हैं, स्यात् अनेक अबन्धक, एक बन्धक है । स्यात् अनेक अबन्धक तथा अनेक बन्धक हैं । तिर्यचायुके अनेक बन्धक और अनेक अबन्धक हैं । चारों आयुके अनेक बन्धक और अनेक अबन्धक हैं ।

१३१. काययोगी, औदारिक काययोगी, भवसिद्धिक, आहारकमार्गणामें इसी प्रकार

१. विचयो विचारणा । केसि ? अत्थि णत्थि ति भंगणं । — खुदाबंध, पृ० २३७, सूत्र १ की टीका ।

णवरि भवसिद्धिय-सादं अत्थि बंधगा य अबंधगा य । असादं अत्थि बंधगा य अबंधगा य । दोष्णं वेदणी० सिया सव्वे सिं० बंधगा य । सिया बंधगा य अबंधगा य । सिया बंधगा य अबंधगा य । सेसाणं सादं अत्थि बंधगा य अबंधगा य । असादं अत्थि बंधगा य अबंधगा य । दोष्णं वेदणीयाणं सव्वे बंधगा ; अबंधगा णत्थि (?)

१३२. आदेसेण णेर० पंचणा० छदंसणा० बारसक० भयदुग्गुं० पंचिदि० ओरालिय० तेजाकम्म० ओरालि० अंगो० वण्ण०४ अगु०४ तस०४ णिमि० पंचंत० सव्वे बंधगा । अबंधगा णत्थि । थीणगिद्धि०३ मिच्छ० अणंताणुबंधि०४ उज्जोवं तित्थय० अत्थि बंधगा य अबंधगा य । सादस्स अत्थि बंधगा य अबंधगा य । असादस्स अत्थि बंधगा य अबंधगा य । दोष्णं वेदणीयाणं सव्वे बंधगा अबंधगा णत्थि । एवं वेदणीयभंगो सत्तणोक० दोगदि-छस्संटा० छस्संब० दोआणु० दोविहा० थिरादिछयुग० दोगोदाणं । दो-आयुगाणं सिया सव्वे अबंधगा । सिया अबंधगा य बंधगो य । सिया अबंधगा य बंधगो य । एवं सव्व-णिरयाणं सणक्कुमारादि उवरिमदेवाणं ।

ओषके समान भंग समझना चाहिए । विशेष, भव्यसिद्धिकमें—साताके अनेक बन्धक और अनेक अबन्धक हैं । असाताके अनेक बन्धक और अनेक अबन्धक हैं । दोनों वेदनीयोंके कदाचित् सर्व बन्धक हैं । कदाचित् अनेक बन्धक हैं । स्यात् अनेक अबन्धक हैं, स्यात् अनेक बन्धक और अनेक अबन्धक हैं । शेषमें साताके अनेक बन्धक और अनेक अबन्धक हैं । असाताके अनेक बन्धक और अनेक अबन्धक हैं । दोनों वेदनीयोंके सब बन्धक हैं ; अबन्धक नहीं हैं । (?)

विशेषार्थ—अयोगी जिनके बन्धके कारण योगका अभाव हो जानेसे बन्धका अभाव है । अतः यहाँ साता असाताके अबन्धक नहीं हैं यह कथन विचारणीय है ।

१३२. आदेशकी अपेक्षा—नारकियोंमें—५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, १२ कषाय, भय, जुगुप्सा, पंचेन्द्रिय जाति, औदारिक-तैजस-कर्मण शरीर, औदारिक अंगोपांग, वर्ण ४, अगुरुलघु ४, त्रस ४, निर्माण और ५ अन्तरायके सब बन्धक हैं ; अबन्धक नहीं हैं । स्त्यान-गृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, ४ अनन्तानुबन्धी, उद्योत और तीर्थकरके अनेक बन्धक और अनेक अबन्धक हैं । साताके अनेक बन्धक और अनेक अबन्धक हैं । असाताके अनेक बन्धक और अनेक अबन्धक हैं । दोनों वेदनीयोंके सब बन्धक हैं ; अबन्धक नहीं हैं ।

विशेष—नरकगतिमें आदिके ४ गुणस्थान होनेसे दोनों वेदनीयके अबन्धक नहीं पाये जाते हैं ।

७ नोकषाय, २ गति, ६ संस्थान, ६ संहनन २ आनुपूर्वी, २ विहायोगति, स्थिरादि ६ युगल तथा २ गोत्रोंमें वेदनीयका भंग जानना चाहिए । २ आयु (मनुष्य-तियचायु) के स्यात् (कदाचित्) सब अबन्धक हैं । कदाचित् अनेक अबन्धक और एक जीव बन्धक है । स्यात् अनेक अबन्धक और अनेक बन्धक हैं । इसी तरह सम्पूर्ण नरकोंमें जानना चाहिए । सनत्कुमारादि ऊपरके देवोंमें भी इसी प्रकार समझना चाहिए ।

१३३. तिरिक्खेसु गिरयभंगो । णवरि चदुआयु-दोअंगो० छस्संघ० दोविहा० दोसर० ओघं । एवं पंचिंदिय-तिरिक्ख०३ । णवरि चदुण्हं आउगाणं सिया सव्वे अबंधगा । सिया अबंधगा य, बंधगो य । सिया अबंधगा य ।

१३४. पंचिंदिय-तिरिक्ख-अपज्जत्तेसु-पंचणा० णवदंस० मिच्छ० सोलसक० भयदु० ओरालियतेजाक० वण्ण०४ अगु० उप० णिमि० पंचंत० सव्वे बंधगा, अबंधगा णत्थि । ओरालिय० अंगो० परघादुस्सा० आदाउज्जो० अत्थि बंधगा य, अबंधगा य । छस्संघ० दोविहा० दोसर० ओघभंगो । सेसं गिरयभंगो ।

१३५. एवं सव्व-अपज्जत्ताणं, सव्व-एइंदिय-विगलेंदिय-पंचकायाणं च । णवरि एइंदिय-पंचकायाणं आयूण दूण (साधेदूण) भाणिदव्वं ।

१३६. मणुस०३ ओघं । णवरि सादं अत्थि बंधगा य अबंधगाय । असादं अत्थि बंधगा य अबंधगा य । दोण्णं वेदणीयाणं सिया सव्वे बंधगा । सिया बंधगा य, अबंधगो य । सिया बंधगो य अबंधगा य । चदुण्णं आयुगाणं सिया सव्वे अबंधगा । सिया अबंधगा य, बंधगो य । सिया अबंधगा य बंधगा य । एवं पंचिंदि० तस०२-

१३३. तिर्यचोमें-नरकके भंग समान समझना चाहिए । विशेष ४ आयु, २ अंगोपांग, ६ संहनन, २ विहायोगति, २ स्वरका ओघके समान समझना चाहिए ।

पंचेन्द्रिय तिर्यच, पंचेन्द्रिय-पर्याप्तक-तिर्यच और पंचेन्द्रिय तिर्यच योनिमतीमें भी इसी प्रकार समझना चाहिए । विशेषता यह है कि ४ आयुके स्यात् सब अबन्धक हैं । स्यात् अनेक अबन्धक हैं, एक जीव बन्धक है; स्यात् अनेक अबन्धक हैं ।

१३४. पंचेन्द्रिय-तिर्यच-लब्ध्यपर्याप्तकोमें—ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, औदारिक-तैजस-कार्मण शरीर, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और ५ अन्तरायके सब बन्धक हैं; अबन्धक नहीं हैं । औदारिक अंगोपांग, परघात, उच्छ्वास, आताप, उद्योतके अनेक बन्धक हैं और अनेक अबन्धक हैं । ६ संहनन, २ विहायोगति, २ स्वरका ओघके समान भंग समझना चाहिए । शेषका नरकवत् भंग समझना चाहिए ।

१३५. इस तरह सम्पूर्ण लब्ध्यपर्याप्तक, सम्पूर्ण एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और पंचकायोंके भंग समझना चाहिए । विशेष, एकेन्द्रिय और पंचकायोंमें आयुको जानकर कहना चाहिए, अर्थात् इनमें मनुष्य और तिर्यच आयुका ही बन्ध होता है ।

१३६. मनुष्यत्रिक अर्थात् सामान्यमनुष्य, पर्याप्तमनुष्य और मनुष्यनीमें-ओघके समान है । विशेष, साताके अनेक बन्धक हैं, अनेक अबन्धक हैं । असाताके अनेक बन्धक हैं, अनेक अबन्धक हैं । दोनों वेदनीयोंके स्यात् सर्व बन्धक हैं । स्यात् अनेक बन्धक हैं और एक अबन्धक हैं । स्यात् एक जीव बन्धक और अनेक जीव अबन्धक हैं । चारों आयुके स्यात् सर्व अबन्धक हैं । स्यात् अनेक अबन्धक हैं तथा एक जीव बन्धक है । स्यात् अनेक अबन्धक और अनेक बन्धक हैं ।

तिष्णिमण० तिष्णिवचि० संजद-सुककलेस्सियाणं । णवरि योमलेस्सासु दोण्णं वेदणी-
याणं सत्त्वे बंधगा । अबंधगा णत्थि ।

१३७. मणुस-अपज्जत्ते-पंचणा० णवदंस० मिच्छ० सोलसक० भयदु०
ओरालिय-तेजाक० वण्ण०४ अगु० उप० णिमि० पंचंत० सिया बंधगो य, सिया
बंधगा य । अबंधगा णत्थि । सादं सिया अबंधगो । सिया बंधगो । सिया अबंधगा ।
सिया बंधगा । सिया अबंधगो य, बंधगो य । सिया अबंधगो य बंधगा य । सिया
अबंधगा य, बंधगो य । सिया अबंधगा य बंधगा य । असादं सिया बंधगो ।
सिया अबंधगो । सिया बंधगा । सिया अबंधगा । सिया बंधगो य अबंधगो य ।
सिया बंधगो य अबंधगा य । सिया बंधगा य, अबंधगो य । सिया बंधगो (गा)
य अबंधगा य । दोण्णं वेदणीयाणं सिया बंधगो । सिया बंधगा य । अबंधगा णत्थि ।
सादभंगो इत्थि० पुरिस० हस्सरदि-दोआयु० मणुसगदि-चदुजादि-पंचसंठा० ओरालिय-
अंगो० छस्संघ० मणुसाणु० परघादुस्सा० आदाबुज्जो० दोविहा० तस०४ थिरादिच्छक-

णी

विशेष—शंका-भंगविचयमें नानाजीवोंकी प्रधानतासे कथन करनेपर एक जीवकी
अपेक्षा भंग कैसे बन सकते हैं ?

समाधान—एक जीवके बिना नानाजीव नहीं बन सकते हैं । इससे भंगविचयमें नाना
जीवोंकी प्रधानता रहनेपर भी एक जीवकी अपेक्षा भी भंग बन जाते हैं ।

इसी तरह पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय-पर्याप्तक, त्रस, त्रस-पर्याप्तक, ३ मनोयोग, ३ वचनयोग,
संयत और शुक्त लेश्यावालोंके भी जानना चाहिए । विशेषता यह है कि योग और लेश्यामें-
दोनों वेदनीयके सर्व बन्धक हैं; अवन्धक नहीं हैं ।

१३७. मनुष्यलक्ष्यपर्याप्तकोंमें—५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय,
भय, जुगुप्सा, औदारिक, तैजस, कूर्मण शरीर, ४ वर्ण, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण, और ५
अन्तरायका स्यात् एक बन्धक है, स्यात् अनेक बन्धक है; अवन्धक नहीं हैं । साताका स्यात्
एक अवन्धक है, स्यात् एक जीव बन्धक है; स्यात् अनेक अवन्धक है । स्यात् अनेक बन्धक
हैं । स्यात् एक अवन्धक, एक बन्धक है । स्यात् एक अवन्धक, अनेक बन्धक हैं । स्यात् अनेक
अवन्धक, एक बन्धक है । स्यात् अनेक अवन्धक, अनेक बन्धक हैं । असाताके-स्यात् एक
बन्धक है, स्यात् एक अवन्धक है । स्यात् अनेक बन्धक हैं, स्यात् अनेक अवन्धक हैं ।
स्यात् एक बन्धक तथा एक अवन्धक है । स्यात् एक बन्धक, अनेक अवन्धक हैं । स्यात्
अनेक बन्धक, एक अवन्धक है; स्यात् अनेक बन्धक, अनेक अवन्धक हैं । दोनों वेदनीयों-
का स्यात् एक बन्धक है, स्यात् अनेक बन्धक हैं; अवन्धक नहीं हैं । ऋग्वेद, पुरुषवेद,
हास्य, रति, दो आयु, मनुष्यगति, ४ जाति, ५ संस्थान, औदारिक अंगोपांग, ६ संहनन,
मनुष्यगत्यानुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, आताप, उद्योत, २ विहायोगति, ४ त्रस, स्थिरादिषट्क,

१. “जाणाजीवप्पणाए कथमेकभंगुप्पत्ती ? ण एगजीवेण विणा जाणाजीवानुप्पत्तीदी ।” -जयध०,
पृ० ३२१ ।

दुस्सर उच्चागोदाणि । असादभंगो णपुंसकवे० अरदिसो० तिरिक्खगदि० एइंदिय०
हुंडसंठाण-तिरिक्खाणुपु० थावरादि०४ अथिरादिपंच-णीचागोदाणं । तिण्णिवेद-हस्सादि-
दोयुग० दोगदि० पंचजादि-हस्संठा० दोआणुपुव्वि-तसथावरादिणवयुगला० दोगोदाणं
सिया बंधगो । सिया बंधगा । अबंधगा णत्थि । दोआयु-हस्संघ० दोविहा० दोसर०
सादभंगो कादव्वो पत्तेगेण साधारणेण वि । एवं मणुस-अप्पज्जत्तभंगो वेउव्वियमिस्स०
आहारकाय० आहारमिस्स० सासण० सम्मामिच्छ० । णवरि अप्पप्पणो धुविगाओ
णादव्वाओ भवति । वेउव्वियमिस्स मिच्छत्त असादभंगो । तित्थयरं सादभंगो ।
आहार० आहारमिस्स तित्थयरं सादभंगो । सासणे तिरिक्खगदि-संयुता असादभंगो ।
सेसाणं सादभंगो । सम्मामि० मणुसगदि-संयुताओ असादभंगो । सेसाणं सादभंगो ।

१३८. देवेषु-भवणवासिय याव ईसाणत्ति णिरयभंगो । णवरि ओरालि० अंगो०
आदावुज्जोवं अत्थि बंधगा य अबंधगा य । हस्संघड० दो विहाय० दोसर० ओध-
भंगो । दोमण० दोवचि० पंचणा० छदंस० चदुसंज० भयदु० तेजाक० वण्ण०४ अगु०
उप० णिमि० पंचंत० सिया सव्वे बंधगा । सिया बंधगा य अबंधगो य । सिया
बंधगा य, अबंधगा य । थीणगिद्वितिय मिच्छत्त० वारसक० आहारदु० परघाउस्सा-

दुस्वर, उच्चगोत्रका साताके समान भंग जानना चाहिए । नपुंसकवेद अरति, शोक, तिर्यचगति, एकेन्द्रिय, हुंडक संस्थान, तिर्यचानुपूर्वी, ४ स्थावरादि, अस्थिरादि पंचक, नीच गोत्रका असाताके समान भंग है । ३ वेद, हास्यादि दो युगल, २ गति, ५ जाति, ६ संस्थान, २ आनुपूर्वी, त्रस-स्थावरादि नवयुगल और २ गोत्रके स्यात् एक बन्धक है । स्यात् अनेक बन्धक हैं ; अबन्धक नहीं है । २ आयु, ६ संहनन, २ विहायोगति और २ स्वरके प्रत्येकसे और सामान्यसे साताके समान भंग करना चाहिए ।

वैक्रियिकमिश्र, आहारककाययोग, आहारकमिश्रकाययोग, सासादनसम्यक्त्व, तथा सम्यक्त्वमिथ्यात्वगुणस्थानमें लब्ध्यपर्याप्रक मनुष्यकी तरह भंग है । विशेष, यहाँ अपनी-अपनी मार्गणामें सम्भवनीय ध्रुव प्रकृतियोंको जानना चाहिए । वैक्रियिक मिश्रमें—मिथ्यात्वका असाताके समान भंग होता है । तीर्थकरका साताके समान भंग होता है । आहारक, आहारकमिश्रमें—तीर्थकरका साताके समान भंग है । सासादनमें—तिर्यचगति मिलाकर असाताके समान भंग है । शेषमें साताके समान भंग है । सम्यक्त्वमिथ्यात्वमें—मनुष्यगति मिलाकर असाताके समान भंग जानना चाहिए । शेषमें साताके समान भंग है ।

१३८. देवोंमें—भवनवासियोंसे ईशान स्वर्ग पर्यन्त नरकगतिके समान भंग है । विशेष यह है कि औदारिक अंगोपांग, आतप, उद्योतके अनेक बन्धक तथा अनेक अबन्धक हैं । छह संहनन, २ विहायोगति, २ स्वरके ओषके समान भंग हैं ।

दो मन-दो वचनयोगमें—५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, ४ संव्रलन, भय, जुगुप्सा, तैजस, कामण ; ४ वर्ण, अगुरुलधु, उपघात, निर्माण और ५ अन्तरायके स्यात् सब बन्धक हैं । स्यात् अनेक बन्धक, एक अबन्धक है । स्यात् अनेक बन्धक हैं, अनेक अबन्धक हैं । स्त्यान-

सआदावुज्जोव-तिथ्यपरं अत्थि बंधगा अवंधगा य । सादं अत्थि बंधगा य अवंधगा य । असादं अत्थि बंधगा य अवंधगा य । दोणं वेदणीयाणं सव्वे बंधगा । अवंधगा गत्थि । इत्थि० पुरिस० णपुंस० अत्थि बंधगा य अवंधगा य । तिण्णं वेदाणं सिया सव्वे बंधगा । सिया बंधगा य अवंधगो य । सिया बंधगा य अवंधगा य । एवं तिण्णं-वेदाणं भंगो णिरयगदि-तिरिक्खगदि-मणुसगदि-देवगदि-पंचजादि-दोसरी०-छस्संठा० चदु-आणुपु० तस-थावरादि-णवयुगलं दोगोदाणं । सेसाणं अत्थि बंधगा य अवंधगा य । एवं आभिणि० सुद० ओधि० मणपज्जव० चक्खुदं० अचक्खुदं० ओधिदं० त्ति ।

१३६. ओरालियमिस्स-पंचणा० णवदंसणा० मिच्छत्त० सोलसक० भयदु० तिण्णिसरी०-वण्ण०४ अगु० उप० णिमि० पंचंत० सिया सव्वे बंधगा । सिया बंधगा य अवंधगो य । सिया बंधगा य अवंधगा य । सादं अत्थि बंधगा य अवंधगा य । असादं अत्थि बंधगा य अवंधगा य । दोणं वेदणीयाणं सव्वे बंधगा । अवंधगा गत्थि । इत्थि० पुरिस० णपुंस० अत्थि बंधगा य अवंधगा य । तिण्णं-वेदाणं सिया सव्वे बंधगा । सिया बंधगा य अवंधगो य । सिया बंधगा य अवंधगा य । एवं वेदाणं भंगो [हस्सादि] दोगुगल-तिण्णिगदि-पंचजादि छस्संठा० । दोआयु ओघं । देवगदि०४

गृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, १२ कषाय, आहारकट्टिक, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत तथा तीर्थकर प्रकृतिके अनेक बन्धक और अनेक अबन्धक हैं। साताके अनेक बन्धक, अनेक अबन्धक हैं। असाताके अनेक बन्धक अनेक अबन्धक हैं। दोनों वेदनीयके सर्व बन्धक हैं, अबन्धक नहीं हैं। स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेदके अनेक बन्धक, अनेक अबन्धक हैं। तीनों वेदोंके स्यात् सर्व बन्धक हैं। स्यात् अनेक बन्धक हैं और एक अबन्धक हैं। स्यात् अनेक बन्धक हैं और अनेक अबन्धक हैं। नरकगति, तिर्यचगति, मनुष्यगति, देवगति, ५ जाति, २ शरीर, ६ संस्थान, ४ आनुपूर्वी, त्रस-स्थावरादि ६ युगल, २ गोत्रोंके तीनों वेदोंके समान भंग हैं। शेष प्रकृतियोंके अनेक बन्धक, अनेक अबन्धक हैं।

आभिनिबोधिकज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान, चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन, और अवधिदर्शन, तथा संज्ञी मार्गणामें इसी प्रकार जानना चाहिए।

१३६. औदारिक मिश्रकाययोगमें—५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, ३ शरीर, ४ वर्ण, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और ५ अन्तरायके स्यात् सब बन्धक हैं। स्यात् अनेक बन्धक और एक अबन्धक हैं। स्यात् अनेक बन्धक और अनेक अबन्धक हैं। साताके अनेक बन्धक और अनेक अबन्धक हैं। असाताके अनेक बन्धक और अनेक अबन्धक हैं। दोनों वेदनीयके सब बन्धक हैं; अबन्धक नहीं है। स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेदके अनेक बन्धक और अनेक अबन्धक हैं। तीनों वेदोंके स्यात् सब बन्धक हैं। स्यात् अनेक बन्धक और एक अबन्धक है। स्यात् अनेक बन्धक हैं और अनेक अबन्धक हैं। हास्य-रति, अरति-शोक ये दो युगल, ३ गति, ५ जाति, ६ संस्थानमें वेदके समान भंग हैं। दो आयु

तिथ्य० सिया सव्वे अबंधगा । सिया अबंधगा य बंधगो य । सिया अबंधगा य बंधगा य । छस्संघ० दोविहा० दोसर० ओघभंगो ।

१४०. एवं कम्मइणे । णवरि आयुगं णत्थि ।

१४१. इत्थि० पुरिस० णवुंस० कोधादि०४ सामाइ० छेदो० धुवपगदीओ मोत्तूण सेसाणं दोणं मणभंगो ।

१४२. अवगद०-पंचणा० च्चदुदंस० च्चदुसंज० जसगित्ति उच्चा० पंचंत० सिया सव्वे अबंधगा । सिया अबंधगा य बंधगो य । सिया अबंधगा य बंधगो (गा) य । सादं अत्थि बंधगा य अबंधगा य ।

१४३. अकसा०-सादं अत्थि बंधगा य अबंधगा य । एवं केवलिणा० केवलदं० ।

१४४. मदि-सुद० विभंग० असंज० किण्ण-णील-काउ०-अब्भव० मिच्छादि० असण्णित्ति तिरिक्खभंगो । णवरि किंचि विसेसो जाणिदव्वाओ । परिहार-संजदासंज-देसु अप्पणो पगदीओ णिरयभंगो ।

(मनुष्य तिर्यचायु) का ओघके समान भंग है । देवगतिचतुष्क और तीर्थंकरके स्यात् सर्व अबन्धक हैं । स्यात् अनेक अबन्धक तथा एक बन्धक है । स्यात् अनेक अबन्धक है और अनेक बन्धक हैं । ६ संहनन, २ विहायोगति, २ स्वरमें ओघवत् भंग जानना चाहिए ।

१४०. इसी प्रकार कर्मणक़ाययोगमें जानना चाहिए । इतना विशेष है कि यहाँ आयुका बन्ध नहीं है ।

१४१. स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, क्रोधादि ४, सामायिक, छेदोपस्थापनासंयममें ध्रुव-प्रकृतियोंको छोड़कर शेष प्रकृतियोंका दो मनोयोगके समान भंग जानना चाहिए ।

१४२. अपगतवेदमें—५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, ४ संज्वलन, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र और ५ अन्तरायोंके स्यात् सर्व अबन्धक हैं । स्यत् अनेक अबन्धक और एकजीव बन्धक है । स्यात् अनेक अबन्धक हैं, और एक जीव बन्धक है (?) विशेषार्थ—यहाँ अनेक अबन्धक तथा एक जीव बन्धक है, यह कथन हो चुका है, अतः पुनः आगत इस पाठमें यह संशोधन सम्यक् प्रतीत होता है कि अनेक बन्धक हैं और अनेक अबन्धक हैं ।

सादाके नाना जीव बन्धक हैं और अनेक अबन्धक हैं ।

१४३. अकषायियोंमें—साताके अनेक बन्धक और अनेक अबन्धक हैं । केवलज्ञान और केवलदर्शनमें—इसी प्रकार जानना चाहिए ।

१४४. मत्यज्ञान, श्रुताज्ञान, विभंगावधि, असंयत, कृष्ण, नील, कापोतलेस्या, अभय-सिद्धिक मिथ्यादृष्टि तथा असंज्ञी जीवोंमें तिर्यचोंके समान भंग जानना चाहिए । और इनकी जो कुछ विशेषता है वह भी जाननी चाहिए । परिहारविशुद्धि संयम और संयतासंयतोंमें—अपनी-अपनी प्रकृतियोंका नरकवत् भंग जानना चाहिए ।

१४५. सुहुमसं० पंचणा० चदुदंसं० सादं० जसं० उच्चागो० पंचंतं० सिया बंधगो । सिया बंधगा य । अबंधगा णत्थि । यथाक्खादे-सादं सिया सव्वे बंधगा । सिया बंधगा य अबंधगो य । सिया बंधगा य अबंधगा य । तेउ० सोधम्मभंगो । पम्म० सणक्कुमारभंगो । णवरि किंचि त्रिसेसो णादव्वो । सम्मादि० खइगसं० अप्पप्पणो पगदीओ ओघेण सावे(धे)दव्वा । वेदगसं० परिहारभंगो । णवरि असंजद-संजदासंजद-पगदीओ णादव्वो । उवसमस्स-पंचणा० छदंसणा० बारसक० पुरिसं० भयदु० पंचिदि० तेजाक० समचदु० वज्जरिसं० वण्ण०४ अगु०४ पसत्थवि० तसं०४ सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-णिमिणं तित्थयं० उच्चा०-पंचंतं०-अट्ठभंगो । सादासादादीणं परियत्तीणं सव्व्वाणं पत्तेणेण साधारणेण वि अट्ठभंगो । णवरि वेदणीयाणं साधारणेण सिया बंधगो य । सिया बंधगा । अबंधगा णत्थि ।

१४५. सूक्ष्मसाम्परायमें—५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, सातावेदनीय, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र, ५ अन्तरायोंका स्यात् एक जीव बन्धक है । स्यात् अनेक जीव बन्धक हैं । अबन्धक नहीं हैं । यथाख्यातमें—सातावेदनीयके स्यात् सर्व बन्धक हैं । स्यात् अनेक बन्धक तथा एक अबन्धक हैं । स्यात् अनेक बन्धक हैं और स्यात् अनेक अबन्धक हैं । तेजोलेश्यामें—सौधर्म स्वर्गके समान भंग जानना चाहिए । पद्मलेश्यामें—सनत्कुमारवत् भंग जानना चाहिए । इनका किंचित् विशेष भी जान लेना चाहिए ।

विशेष—इस लेश्यामें एकेन्द्रिय, आताप, तथा स्थावरका बन्धनही होता ।

सम्यक्कृष्टि, क्षाधिकसम्यक्कृष्टिमें—अपनी-अपनी प्रकृतियोंको ओघके समान जानना चाहिए ।

वेदकसम्यक्त्वमें—परिहारविशुद्धिके समान भंग जानना चाहिए । विशेष यह है कि यहाँ असंयत और संयतासंयतकी प्रकृतियोंको भी जानना चाहिए ।

उपशम सम्यक्त्वमें—५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, १२ कषाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, पंचेन्द्रियजाति, तैजस, कार्माण, समचतुरस्रसंस्थान, वज्रवृषभसंहनन, वर्ण ४, अगुरुलघु ४, प्रशस्तविहायोगति, त्रस ४, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थकर, उच्चगोत्र, और ५ अन्तरायोंके आठ भंग जानना चाहिए । साता असातादिक सम्पूर्ण परिवर्तमान प्रकृतियोंके अलग-अलग और सम्मिलित रूपमें आठ भंग होते हैं । विशेष यह है कि वेदनीययुगलके सामान्यसे स्यात् एक बन्धक है । स्यात् अनेक बन्धक हैं । अबन्धक नहीं हैं ।

१. “णाणाजीवहि भंगविचयानुपमेण दुविहो णिदेसो ओघेण, आदेसेण य । तत्थ ओघेण पेज्जं दोसो च णियमा अत्थि । सुगममेदं । एवं जाव अणाहारए त्ति वत्तब्धं । णवरि मणुसअपज्जत्तएसु णाणेनजीवं पेज्ज-दोसे अस्सिऊण अट्ठभगा । तं जहा—सिया पेज्जं । सिया णोपेज्जं । सिया पेज्जाणि । सिया णोपेज्जाणि । सिया पेज्जं च णोपेज्जं च । सिया पेज्जं च णोपेज्जाणि च । सिया पेज्जाणि च णोपेज्जं च । सिया पेज्जाणि च णोपेज्जाणि च ।” —जयध०, पृ० ३६०-३६१ ।

यहाँ आठ भंग इस प्रकार होंगे—१ एक बन्धक, २ एक अबन्धक, ३ अनेक बन्धक, ४ अनेक अबन्धक, ५ एक बन्धक एक अबन्धक, ६ अनेक बन्धक अनेक अबन्धक, ७ एक बन्धक अनेक अबन्धक, ८ अनेक बन्धक एक अबन्धक ।

१४६. अणाहारनेसु-पंचणा० णवदंस० मिच्छन्त० सोलसक० भयदु० ओरालि० तेजाक० वण्ण०४ अगु०४ आदावुज्जो० णिमि० तिथय० पंचंत० अत्थि बंधगा य अबंधगा य । सादं अत्थि बंधगा य अबंधगा य । असादं अत्थि बंधगा य अबंधगा य । दोण्णं वेदणीयाणं अत्थि बंधगा य अबंधगा य । एवं सेसाणं पगदीणं एदेण बीजेण साधेदूण भाणिदव्वं ।

एवं णाणाजीवेहि भंगविचयं समत्तं ।

विशेषार्थ—वेदनीयके अबन्धक अयोगकेवली गुणस्थानमें पाये जाते हैं और उपशम सम्यक्त्व ११वें गुणस्थान पर्यन्त पाया जाता है इस कारण उपशमसम्यक्त्वमें साता असाता युगलके अबन्धकोंका अभाव कहा है ।

१४६. अनाहारकोंमें—५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, औदारिक, तैजस, कार्मण, चर्ण ४, अगुरुलघु ४, आतप, उद्योत, निर्माण, तीर्थकर ५ अन्तरायोंके अनेक बन्धक हैं और अनेक अबन्धक हैं ।

विशेष—सयोगकेवली और अयोगकेवली गुणस्थानोंमें भी अनाहारक जीव होते हैं उन गुणस्थानोंकी अपेक्षा ज्ञानावरणादिके अबन्धक कहे गये हैं ।

सातावेदनीयके भी अनेक बन्धक तथा अनेक अबन्धक हैं । असातावेदनीयके भी अनेक बन्धक हैं तथा अनेक अबन्धक हैं । दोनों वेदनीयके भी अनेक बन्धक तथा अनेक अबन्धक हैं । इसी बीजसे अर्थात् इस दृष्टिसे शेष प्रकृतियोंके भी भंग जानना चाहिए ।

इस प्रकार नानार्जवोंकी अपेक्षा भंगविचय समाप्त हुआ ।

[भागाभागानुगम परूवणा]

१४७. भागाभागानुगम० दु०, ओ० आ० । त ओघे० पंचणा० णवदंसणा० मिच्छत्त० सोलसक० भयदु० तेजाकम्म० वण्ण०४ अगु० उप० णिमि० पंचंतराइमाणं बंधगा सव्वजीवाणं केवडियो भागो ? अणंता भागा । अबंधगा सव्वजीवाणं केव० ? अणंतभा० । सादबंधगा सव्वजी० केव० ? संखेज्ज० भागो० । अबंध० सव्व० संखेज्जा भागा । असाद० [बंधगा] सव्वजी० केव० ? संखेज्जा० भागा । अबंधगा सव्व० केव० ? संखेज्ज० [भा] गो० (?) दोण्णं वेदणीयाणं बंध० सव्वजी० केव० ? अणंता भागा । अबंध० सव्व० केव० ? अणंतभागो । एवं सादभंगो इत्थि० पुरिस० हस्सरदि-चदु-जाति-पंचसंठा० तस०४ थिरादिपंचगं उच्चागोदं च । असादभंगो णपुंस० अरदिसोग-एइंदि०-हुंडसंठा० थावरादिचदु०४ अथिरादिपंचगं णीचामोदाणं च । सत्तणोक०

[भागाभागानुगम प्ररूपणा]

१४७. भागाभागानुगमका ओत्र और आदेशसे दो प्रकारका निर्देश करते हैं ।

विशेषार्थ—भागाभागानुगमके शब्दार्थपर धवलाटीकामें इस प्रकार प्रकाश डाला गया है—“अनन्तवाँ भाग, असंख्यातवाँ भाग और संख्यातवाँ भाग इनकी भाग संज्ञा है । अनन्त बहुभाग, असंख्यात बहुभाग, संख्यात बहुभाग इनकी अभाग संज्ञा है । ‘भाग और अभाग’ इस प्रकार द्वन्द्व समास होकर भागाभाग पद निष्पन्न हुआ । उन भागाभागोंका जो ज्ञान है, वह भागाभागानुगम है ।”

ओघसे—५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजस, कार्मण, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण तथा ५ अन्तरायके बन्धक सब जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्त बहुभाग हैं । अबन्धक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । साता वेदनीयके बन्धक सब जीवोंके कितने भाग हैं ? संख्यातवें भाग हैं । अबन्धक सर्व जीवोंके संख्यात बहुभाग हैं । असाताके बन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? संख्यात बहुभाग हैं । अबन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? संख्यातवें भाग हैं । दोनों वेदनीयके बन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्त बहुभाग हैं । अबन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं ?

स्त्रीवेद, पुरुषवेद, हास्य, रति, ४ जाति, ५ संस्थान, त्रस ४, स्थिरादि ५ तथा उच्चगोत्रका साताके समान भंग है । नपुंसकवेद, अरति, शोक, एकेन्द्रिय जाति, हुंडक संस्थान, स्थावरादि ४, अस्थिरादि ५, नीचगोत्रका असाताके समान भंग है । सात नोकषाय, ५ जाति,

१. अणंतभाग-असंखेज्जिभाग-संखेज्जिभागानं भागसण्णा, अणंतभागा, असंखेज्जाभागा, संखेज्जा-भागा एवेसिमण्णसण्णा । भागो च अभागो च भागाभागा, तेषिमण्णमो भागाभागानुगमो ॥ — खु० बं०, टीका, पृ० ४९५ ॥

सव्वजादि छस्संठा० तसथावरादि-णवयुग० दोगोदाणं एदेसिं साधारणेण बंध० सव्व० केव० ? अणंता भागा । अबंधगा सव्व० केव० ? अणंतभागो । णिरयमणु-सदेवायुगाणं बंधगा सव्व० केव० भागो ? अणं० भागो । अबंधगा सव्वजी० केव० ? अणंतभागो (?) । तिरिक्खायुबंध० सव्वजीवाणं केव० ? संखेज्जभागो । अबंधगा सव्वजी० केव० ? संखेज्जा भागा । चदु-आयु-बंधगा० सव्वजीवाणं केवडियो केव० ? संखेज्जदिभागो । अबंधगा सव्व० केव० ? संखेज्जा भागा । णिरयगदिदेवगदिवंध० सव्वजीवाण० केव० ? अणंतभागो । अबंधगा सव्व० केव० ? अणंता भागा । तिरिक्खगदिवंध० सव्व० केव० ? संखेज्जा भागा । अबंध० सव्व० केव० ? संखेज्जदि-भागो । मणुसगदिवंध० सव्वजी० केव० ? संखेज्जदिभागो । अबंध० सव्व० केव० ? संखेज्जा भागा । चदुण्णं मदीणं बंध० सव्व० केव० ? अणंता भागा । अबंध० सव्व० केव० ? अणंतभागो । एवं चदुण्णं आणुपुत्रीणं । ओरालिय० बंधगा सव्व० केव० ? अणंता भागा । अबंधगा सव्व० केव० ? अणंतो भागो । वेउव्विय-आहारसरी० बंधगा सव्व० केव० ? अणंतभागो । अबंध० सव्व० केव० ? अणंता भागा । तिणिसरीराणं बंध० सव्व० केव० ? अणंता भागा । अबंध० सव्व० केव० ? अणंतभागो । ओरालिय०-अं० बंध० सव्व० केव० ? संखेज्ज० । अबंध० सव्व० केव० ? संखेज्ज० ।

६ संस्थान, त्रस-स्थावरादि ९ युगल, तथा दो गोत्र इनके सामान्यसे बन्धक सर्व जीवोंके कितने-भाग हैं ? अनन्त बहुभाग हैं । अबन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । नरकायु, मनुष्यायु तथा देवायुके बन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । अबन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्त बहु भाग हैं । तिर्यचायुके बन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? संख्यातवें भाग हैं । अबन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? संख्यात बहुभाग हैं । चार आयुके बन्धक सब जीवोंके कितने भाग हैं । संख्यातवें भाग हैं । अबन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? संख्यात बहुभाग हैं । नरकगति-देवगतिके बन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । अबन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्त बहुभाग हैं । तिर्यचगतिके बन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? संख्यात बहुभाग हैं । अबन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? संख्यातवें भाग हैं । मनुष्यगतिके बन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? संख्यातवें भाग हैं । अबन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? संख्यात बहुभाग हैं । चारों गतिके बन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्त बहुभाग हैं । अबन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । इसी प्रकार चारों आनुपूर्वीका जानना चाहिए । औदारिक शरीरके बन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्त बहुभाग हैं । अबन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । वैक्रियिक आहारक शरीरके बन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । अबन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्त बहुभाग हैं । तीन शरीरके बन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्त बहुभाग हैं । अबन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । औदारिक अंगोपांगके बन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? संख्यातवें भाग हैं । अबन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? संख्यात बहुभाग हैं ।

वेउच्चिय-आहारसरी० अंगो० बंध० सव्व० केव० ? अणंतभागो । अबंध० सव्व० केवडि० ? अणंता भागा । तिण्णि अंगो० बंध० सव्वजीवा० केव० ? संखेज्जदि-भागो । अबंध० सव्व० केव० ? संखेज्जा भा० । छस्संध० परघादुस्सा० आदावुज्जो० दोविहा० दोसर० बंध० सव्व० केव० ? संखेज्जदिभागो । अबंध० सव्व० केव० ? संखेज्जा भागा । छस्संध० दोविहा० दोसर० साधारणेण वि सादभंगो । तित्थपरं बंध० सव्व० केव० ? अणंतभागो । अबंधगा सव्व० केव० ? अणंता भागा ।

१४८. आदेसेण णेरह्गेषु० पंचणा० छदंसणा० वारसक० भयदु० पंचिदि०— तिण्णिसरी०-ओरालि० अंगो० वण्ण०४ अगु०४ तस०४ णिमि० पंचंत० बंध० सव्व० केव० ? अणंतभागो । अबंधगा णत्थि । सादबंध० सव्व० केव० ? अणंतभागो । सव्वणेरह्गणं केव० ? संखेज्जदिभागो । अबंध० सव्व० केव० ? अणंतभागा (?) सव्वणेरह्गणं केव० ? संखेज्जा भागा । असाद० सव्व० केव० ? अणं० भागो । सव्व-

विशेषार्थ—शंका - जब औदारिक शरीरके बन्धक सम्पूर्ण जीवोंके अनन्त बहुभाग हैं, तब औदारिक अंगोपांगके बन्धक सम्पूर्ण जीवोंके संख्यातवें भाग क्यों हैं ? समाधान - औदारिक शरीरके बन्धक अधिक हैं, तथा औदारिक अंगोपांगके बन्धक कम हैं । अंगोपांगका बन्ध केषल त्रसोंके साथ पाया जाता है तथा औदारिक शरीरका बन्ध त्रस-स्थावर दोनोंके साथ पाया जाता है ।

वैक्रियिक-आहारक शरीरांगोपांगके बन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । अबन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्त बहुभाग हैं । तीनों अंगोपांगके बन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? संख्यातवें भाग हैं । अबन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? संख्यात बहुभाग हैं । छह संहनन परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, २ विहायोगति तथा २ स्वरके बन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? संख्यातवें भाग हैं । अबन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? संख्यात बहुभाग हैं । सामान्यसे छह संहनन, २ विहायोगति, २ स्वरके बन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? तथा अबन्धक कितने भाग हैं ? इनका सातावेदनीयके समान भंग जानना चाहिए । अर्थात् बन्धक संख्यातवें भाग हैं और अबन्धक संख्यात बहुभाग हैं । तीर्थंकर प्रकृतिके बन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । अबन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्त बहुभाग हैं ।

१४८. आदेशसे-नरकगतिमें-५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, १२ कषाय, भय, जुगुप्सा, पंचेन्द्रिय जाति, औदारिक-तैजस-कार्मण शरीर, औदारिक अंगोपांग, वर्ण ४, अगुरुलघु ४, त्रस ४, निर्माण, ५ अन्तरायके बन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । अबन्धक नहीं हैं ।

साताके बन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । सम्पूर्ण नारकियोंके कितने भाग हैं ? संख्यातवें भाग हैं । अबन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्त बहुभाग हैं (?) सम्पूर्ण नारकियोंके कितने भाग हैं ? संख्यात बहुभाग हैं ।

विशेष—असाताके बन्धक सर्व जीवोंके अनन्तवें भाग कहे गये हैं, तब साताके अबन्धक भी सर्व जीवोंके अनन्तवें भाग होना चाहिए। अतः साताके अबन्धकोंमें अनन्तवें भाग पाठ उचित प्रतीत होता है ।

णेरइगाणं केव० ? संखेज्जा भागा । अबंधगा सव्वजी० केवडि० ? अणंतभागो । सव्वणेरइगाणं केवडि० ? संखेज्जदिभागो । दोणं वेदणीयाणं बंध० केव० ? अणंतभा० । अबंधगा णत्थि । सादभंगो इत्थि० पुरिसं० हस्स-रदि-मणुसगदि-पंचसंठा० पंचसंघ० मणुसाणु० उज्जोव० पसत्थ० थिरादिछक्कं उच्चागोदं च । असादभंगो णपुंसं अरदि-सोग० तिरिक्खग० हुंडसं० असंपत्तसेव० तिरिक्खाणु० अप्पस० अथिरादिछक्कं णीचा-गोदं च । सत्तणोक० दोगदि० छस्संठा० छस्संघ० दोआणु० दोविहा० थिरादिछक्क-युगलं दोगो० बंध० सव्व० केव० ? अणंतभागो । अबंधगा णत्थि । थोणगिद्धि०३ मिच्छत्त० अणंताणुबं०४ बंधगा सव्व० केव० ? अणंतभागो । सव्वणेरइगा० केव० ? असंखेजा भागा । अबंध० सव्वजी० केव० ? अणंतभागो । सव्वणेरइगा० केवडि० ? असंखेज्जदिभा० । तिरिक्खायुबंधगा सव्वजीवाणं केवडियो भागो ? अणंतभा० । सव्वणेरइ० केव० ? संखेज्जदिभा० । अबंध० सव्व० केव० ? अणंतभा० । सव्वणेरइगाणं केवडिओ० ? संखेजा भागा । मणुसायु-तित्थय० बंध० सव्व० केवडि० ? अणंतभा० । सव्वणेरइगा० केव० ? असंखेज्जदिभागो । अबंध० सव्व० केव० ? अणंतभा० । सव्व-

असाताके बन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । सर्वनारकियोंके कितने भाग हैं ? संख्यात बहुभाग हैं । अबन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । सर्वनारकियोंके कितने भाग हैं ? संख्यातवें भाग हैं ।

विशेषार्थ—असाताके बन्धक भी सर्व जीवोंके अनन्तवें भाग हैं तथा अबन्धक भी अनन्तवें भाग हैं । इसका कारण नारकी जीवोंकी संख्या है, वह इतनी है कि बन्धक भी बृहत् जीवराशिके अनन्तवें भाग होते हैं तथा अबन्धक भी इतने ही होते हैं ।

दोनों वेदनीयोंके बन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । अबन्धक नहीं हैं । स्त्रीवेद, पुरुषवेद, हास्य, रति, मनुष्यगति, ५ संस्थान, ५ संहनन, मनुष्यानुपूर्वी, उद्योत, प्रशस्तविहायोगति, स्थिरादि षट्क तथा उच्चगोत्रमें साताके समान भंग जानना चाहिए । नपुंसकवेद, अरति, शोक, तिर्यचगति, हुण्डकसंस्थान, असम्प्राप्तासृपाटिका संहनन, तिर्यचानुपूर्वी, अप्रशस्त विहायोगति, अस्थिरादि षट्क, तथा नीचगोत्रका असाताके समान भंग जानना चाहिए । सात नोकषाय, दो गति, ६ संस्थान, ६ संहनन, दो आनुपूर्वी, दो विहायोगति, स्थिरादि छह युगल तथा दो गोत्रोंके बन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं, अबन्धक नहीं हैं ।

स्थानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी ४ के बन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । सर्वनारकियोंके कितने भाग हैं ? असंख्यात बहुभाग हैं । अबन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । सर्वनारकियोंके कितने भाग हैं ? असंख्यातवें भाग हैं । तिर्यचायुके बन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । सर्व नारकियोंके कितने भाग हैं ? संख्यातवें भाग हैं । अबन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । सर्व नारकियोंके कितने भाग हैं ? संख्यात बहुभाग हैं । मनुष्यायु, तीर्थकर प्रकृतिके बन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । सर्व नारकियोंके कितने भाग हैं ? असंख्यातवें भाग हैं । अबन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं ।

णेरङ्गाणं केव० ? असंखेज्जा भागा । दोण्णं आयुगाणं बंध० केव० ? अणंतभा० । सच्चणेरङ्गाणं केव० ? संखेज्जदिभागो । अबंधगा सच्च० केव० ? अणंतभा० । सच्चणेर-
इगाणं केव० ? संखेज्जा भागा । एवं पढमाए पुढवीए । विदियादि याव छट्ठित्ति
णिरयोधो । णवरि आयु मणुसायुभंगो । एवं सत्तमाए । णवरि तिरिक्खगदि-तिरि-
क्खाणु० णीचागोदं थीणगिद्धित्तिगभंगो । मणुसगदि-मणुसाणु०-उच्चागोदं मणुसायुभंगो ।
दोगदि-दोआणुपुब्बि-दोगोदा० बंधगा सच्च० केव० ? अणंतभागो । अबंधगा णत्थि ।

१४६. तिरिक्खेसु—पंचणा० छदंसणा० अट्ठक० भयदु० तेजाक० वण्ण०४
अगु० उप० णिमि० पंचंत० बंधगा सच्चजीवाणं केवडियो ? अणंतभागो । अबंधगा
णत्थि । थीणगिद्धित्तिगं मिच्छत्त० अट्ठक० बंध० सच्च० केव० ? अणंतभागो । सच्च-
तिरिक्खाणं केवडि० ? अणंतभागो । अबंधगा सच्चजी० केवडि० ? अणंतभागो ।
सच्चतिरिक्खाणं केवडि० ? अणंतभागो । सादबंध० सच्च० केवडि० ? संखेज्जदिभागो ।

सर्व नारकियोंके कितने भाग हैं ? असंख्यात बहुभाग हैं ।

दो आयु (मनुष्य-तिर्यचायु) के बन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग
हैं । सर्व नारकियोंके कितने भाग हैं ? संख्यातवें भाग हैं । अबन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग
हैं ? अनन्तवें भाग हैं । सर्व नारकियोंके कितने भाग हैं ? संख्यात बहुभाग हैं ।

इस प्रकार पहली पृथ्वीमें जानना चाहिए । दूसरी-पृथ्वीसे छठी पृथ्वी पर्यन्त नार-
कियोंके सामान्यवत् जानना चाहिए । विशेष, आयुके विषयमें मनुष्यायुके समान भंग हैं ।
अर्थात् बन्धक सर्व जीवोंके अनन्तवें भाग हैं । सर्व नारकियोंके असंख्यातवें भाग हैं ।
अबन्धक सर्व जीवोंके अनन्तवें भाग हैं । सर्व नारकियोंके असंख्यात बहुभाग हैं । सातवीं
पृथ्वीमें इसी प्रकार है । विशेष, तिर्यचगति, तिर्यचानुपूर्वी, नीच गोत्रके विषयमें स्त्यान-
गुद्धित्रिकवत् भंग है ।

विशेषार्थ—बन्धक सर्व जीवोंके अनन्तवें भाग हैं । सर्व नारकियोंके असंख्यात
बहुभाग हैं । अबन्धक सर्व जीवोंके अनन्तवें भाग हैं तथा सर्व नारकियोंके असंख्यातवें
भाग हैं ।

मनुष्यगति, मनुष्यानुपूर्वी, उच्चगोत्रका मनुष्यायुके समान भंग है । मनुष्य-तिर्यचगति,
२ आनुपूर्वी तथा दो गोत्रके बन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं ।
अबन्धक नहीं हैं ।

१४९. तिर्यचगतिमें—५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, (स्त्यानगुद्धित्रिक त्रिना) प्रत्या-
ख्यानावरण ४ तथा संस्वलन चार रूप कपायाष्टक, भय, जुगुप्सा, तैजस, कार्माण, वर्ण ४,
अगुरुलघु, उपधात, निर्माण तथा ५ अन्तरायके बन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्त
बहुभाग हैं ; अबन्धक नहीं हैं । स्त्यानगुद्धि ३, मिध्यात्व, ८ कषाय (अनन्तानुबन्धी, अप्रत्या-
ख्यानावरण) के बन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्त बहु भाग हैं । सर्व तिर्यचोंके
कितने भाग हैं ? अनन्त बहुभाग हैं । अबन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें
भाग हैं ? सर्व तिर्यचोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । साता वेदनीयके बन्धक सर्व
जीवोंके कितने भाग हैं ? संख्यातवें भाग हैं । सर्व तिर्यचोंके कितने भाग हैं ? संख्यातवें

सव्वतिरिक्खाणं केवडि० ? संखेज्जदि० । अबंधगा सव्व० केव० ? संखेज्जा भागा । सव्वतिरिक्खाणं केवडिओ भागो ? संखेज्जा भागा । असादवं० सव्व० केव० ? संखेज्जा भागा । सव्वतिरिक्खाणं केव० ? संखेज्जा भागा । अबंधगा सव्व० केव० ? संखेज्जदि-भागो । सव्वतिरिक्खाणं केव० ? संखेज्जदिभा० । दोण्णं वेदणीयाणं बंध० सव्व० केव० ? अणंता भागा । अबंधगा णत्थि । सादभंगो इत्थि० पुरिस० हस्सरदि-चदुजादि-पंचस्संठा० छस्संध० पर०उस्सा० आदावुज्जो० तस०४ थिरादिपंच-उच्चागोदं च । असादभंगो णपुंस० अरदिसो० एइदि० हुंडसं० थावरादि०४ अथिरादिपंच-णीचागोदं च । सत्तणोक० पंचजादि छस्संठा० तसथावरादि-णवयुगल-दोगोदानं बंध० सव्व० केव० ? अणंता भागा । अबंधगा णत्थि । चदुआयु-चदुगदि-दोसरी० दोअंगो०छस्संध० चदुआणु० दोविहा० दोसर० ओर्ध० । णवरि गदि-सरी० आणुपु० सव्वे बंधा । अबंधगा णत्थि । पंचिदिय-तिरिक्खेसु-पंचणा० छइंस० अट्टक० भयदु० तेजाक० वण्ण०४ अगु० उप० णिमि० पंचंत० बंध० सव्व० केव० ? अणंतभागो । अबंधगा णत्थि । थीणगिद्धि०३ मिच्छत्त-अट्टकसा० बंध० सव्व० केव० ? अणंतभागो । सव्व-पंचिदियतिरिक्खाणं केवडि० ? असंखेज्जाभा० । अबंध० सव्व० केव० ? अणंतभागो । सव्व-पंचिदियतिरिक्खाणं केवडि० ? असंखेज्जदिभागो । सादावेद० बंध० सव्व० केव० ?

भाग हैं ? अबन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? संख्यात बहुभाग हैं । सर्व तिर्यचोंके कितने भाग हैं ? संख्यात बहुभाग हैं । असाता वेदनीयके बन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? संख्यात बहुभाग हैं । सर्व तिर्यचोंके कितने भाग हैं ? संख्यात बहुभाग हैं । अबन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? संख्यातवें भाग हैं । सर्व तिर्यचोंके कितने भाग हैं ? संख्यातवें भाग हैं । दोनों वेदनीयोंके बन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्त बहुभाग हैं । अबन्धक नहीं हैं ।

स्त्रीवेद, पुरुषवेद, हास्य, रति, ४ जाति, ५ संस्थान, ६ संहनन, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योन, त्रस ४, स्थिरादि ५ तथा उच्चगोत्रका साता वेदनीयके समान भंग है । नपुंसक-वेद, अरति, शोक, एकेन्द्रिय जाति, हुण्डकसंस्थान, स्थावरादि ४, अस्थिरादि ५ तथा नीच गोत्रका असाता वेदनीयके समान भंग है । ७ नोकषाय, ५ जाति, ६ संस्थान, त्रस-स्थावरादि ९ युगल, दो गोत्रके बन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्त बहुभाग हैं । अबन्धक नहीं हैं ।

चार आयु, ४ गति, औदारिक, वैक्रियिक शरीर, दो अंगोपांग, ६ संहनन, ४ आनुपूर्वी, दो विहायोगति, दो स्वरका ओववत् भंग है । विशेष; गति, शरीर तथा आनुपूर्वीके सब बन्धक हैं । अबन्धक नहीं हैं ।

पंचेन्द्रिय तिर्यचोमें-५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, ८ कषाय, भय-जुगुप्सा, तैजस-कार्मण शरीर, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण, ५ अन्तरायके बन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं ; अबन्धक नहीं हैं । स्थानगुद्धित्रिक, मिथ्यात्व, ८ कषायके बन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । सर्व पंचेन्द्रिय तिर्यचोंके कितने भाग हैं ? असंख्यात बहुभाग हैं ।

अणंतभागो । सव्वपंचिदियतिरिक्खाणं केव० ? संखेज्जदिभागो । अबंधगा सव्व० केव० ? अणंतभागो । सव्वपंचिदिय-तिरिक्खाणं केवडि० ? संखेज्जा भागो (गा) । असादं बंध० केव० ? अणंतभा० । सव्वपंचिदियतिरिक्खाणं केवडिया भागा ? संखेज्जा भागा । अबंध० सव्वजी० केव० ? अणंतभा० । सव्वपंचिदियतिरिक्खाणं केवडि० ? संखेज्जदिभागो । दोवेदणीयं बंध० सव्व० केवडि० ? अणंता (त) भागो । अबंधगा णत्थि । सादभंगो इत्थि० पुरिस० हस्सरदि-चदुजादि-पंचसंठा० छस्संघ० पर० उस्सा०-आदावुज्जो० तस०४, थिरादिपंच-उच्चागोदं च । असादभंगो णपुंस० अरदिसोगं० एडंदि० हुंडसं० थावरादि०४ अधिरादिपंचणीचागोदं च । सत्तणोक० पंचजादि-छस्संठा० तसथावरादिणवयुगल० दोगोदाणं बंध० सव्वजी० केव० ? अणंतभागो । अबंधगा णत्थि । तिण्णि आयुबंधगा सव्व० केव० ? अणंतभागो । सव्वपंचिदिय-तिरिक्खा० केव० ? असंखेज्जदिभा० । अबंधगा सव्व० केव० ? अणंतभागो । सव्वपंचिदिय-तिरिक्खाणं केव० ? असंखेज्जा भागा । तिरिक्खायुबंध० सव्व० केव० ? अणंतभागो । सव्वपंचिदियतिरिक्खाणं केवडि० ? संखेज्जदिभागो । अबंध० सव्व० केवडि० ? अणंतभागो । सव्वपंचिदिय-तिरिक्खाणं केवडि० ? संखेज्जा भागा ।

अबन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । सर्व पंचेन्द्रिय तिर्यचोंके कितने भाग हैं ? असंख्यातवें भाग हैं । सातावेदनीयके बन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । सर्व पंचेन्द्रिय तिर्यचोंके कितने भाग हैं ? संख्यातवें भाग हैं । अबन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । सर्व पंचेन्द्रिय तिर्यचोंके कितने भाग हैं ? संख्यात बहुभाग हैं ।

असाताके बन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । सर्व पंचेन्द्रिय तिर्यचोंके कितने भाग हैं ? संख्यात बहुभाग हैं । अबन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । सर्व पंचेन्द्रिय तिर्यचोंके कितने भाग हैं ? संख्यातवें भाग हैं । दो वेदनीयके बन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं ; अबन्धक नहीं हैं ।

स्त्रीवेद, पुरुषवेद, हास्य-रत्ति, ४ जाति, ५ संस्थान, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, त्रस ४, स्थिरादि ५ तथा उच्चगोत्रका साता वेदनीयके समान भंग है । नपुंसकवेद, अरति, शोक, एकेन्द्रिय जाति, हुण्डकसंस्थान, स्थावरादि ४, अस्थिरादि ५, नीचगोत्रका असाताके समान भंग है । ७ नोकपाय, ५ जाति, ६ संस्थान, त्रस-स्थावरादि ९ युगल तथा २ गोत्रके बन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं ; अबन्धक नहीं हैं ।

मनुष्य-देव-नरकायुके बन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । सर्व पंचेन्द्रिय तिर्यचोंके कितने भाग हैं ? असंख्यातवें भाग हैं । अबन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । सर्व पंचेन्द्रिय तिर्यचोंके कितने भाग हैं ? असंख्यात बहुभाग हैं । तिर्यचायुके बन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । सर्व पंचेन्द्रिय तिर्यचोंके कितने भाग हैं ? संख्यातवें भाग हैं । अबन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । सर्व पंचेन्द्रिय तिर्यचोंके कितने भाग हैं ? संख्यात बहुभाग हैं ।

चदुण्णं आयुगा० वं० सव्व० केव० ? अणंतभागो । सव्वपंचिंदियतिरिक्खाणं केव० ? संखेज्जदिभागो । अबंधगा सव्व० केव० ? अणंतभागो । सव्वपंचिंदिय-तिरिक्खाणं केव० ? संखेज्जा भागा । णिरयगदिदेवगदिबंध० सव्व० केव० ? अणंतभागो । सव्वपंचिंदिय-तिरिक्खाणं केव० ? असंखेज्जदिभागो । अबंधगा सव्वजी० केव० ? अणंतभागो । सव्वपंचिंदिय-तिरिक्खाणं केव० ? असंखेज्जा भागा । तिरिक्खगदि० असादभंगो । मणुसगदि० सादभंगो । चदुण्णं गदीणं बंधगा सव्व० केवडि० ? अणंत-भागो । अबंधगा णत्थि । ओरालियस० बंधगा सव्वजी० केवडि० ? अणंतभागो । सव्वपंचिंदिय-तिरिक्खाणं केवडि० ? असंखेज्जा भागा । अबंधगा सव्वजीव० केव० ? अणंतभागो । सव्वपंचिंदियतिरिक्खाणं केवडि० ? असंखेज्जदिभागो । वेगुच्चियस० देवगदिभंगो । दोण्णं सरीराणं बंधगा सव्व० के० ? अणंतभागा (गो) । अबंधगा णत्थि । ओरालियअंगो० सादभंगो । वेगुच्चियअंगो० देवगदिभंगो । दोण्णं अंगो० सादभंगो । छस्संध० दोविहाय० दोसर० पत्तेगेण साधारणेण सादभंगो ।

१५०. एवं पंचिंदिय-तिरिक्ख-पज्जत-पंचिंदियतिरिक्खजोणिणीसु । णवरि णिरय-

चार आयुके बन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं । अनन्तवें भाग हैं । सर्व पंचेन्द्रिय तिर्यचोंके कितने भाग हैं ? संख्यातवें भाग हैं । अबन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । सर्व पंचेन्द्रिय तिर्यचोंके कितने भाग हैं ? संख्यात बहुभाग हैं । नरकगति, देवगतिके बन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । सर्व पंचेन्द्रिय तिर्यचोंके कितने भाग हैं ? असंख्यातवें भाग हैं । अबन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । सर्व पंचेन्द्रिय तिर्यचोंके कितने भाग हैं ? असंख्यात बहुभाग हैं । तिर्यचगतिका असाताके समान भंग है । मनुष्य गतिका साताके समान भंग है । चार गतियोंके बन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं ; अबन्धक नहीं हैं । औदारिक शरीरके बन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । सर्व पंचेन्द्रिय तिर्यचोंके कितने भाग हैं ? असंख्यात बहुभाग हैं । अबन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । सर्व पंचेन्द्रिय तिर्यचोंके कितने भाग हैं ? असंख्यातवें भाग हैं । वैक्रियिक शरीरका देवगतिके समान भंग है । औदारिक-वैक्रियिक शरीरोंके बन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्त बहुभाग हैं (?) । अबन्धक नहीं हैं ।

विशेष—यहाँ बन्धक सर्व जीवोंके अनन्तवें भाग होना उचित जँचता है । पंचेन्द्रिय तिर्यच राशि ही जय सम्पूर्ण जीव राशिके अनन्त बहुभाग प्रमाण नहीं है, तब शरीरद्वयके बन्धक अनन्त बहुभाग कैसे होंगे ? अतः अनन्तवें भाग पाठ उचित प्रतीत होता है ।

औदारिक-शरीर-अंगोपांगके विषयमें साताके समान भंग है । वैक्रियिक अंगोपांगका देवगतिके समान भंग है । औदारिक-वैक्रियिक अंगोपांगोंका साताके समान भंग है । छह संहनन, २ विहायोगति तथा स्वरयुगलका प्रत्येक तथा सामान्य रूपसे साताके समान भंग हैं ।

१५०. पंचेन्द्रिय-तिर्यच-पर्याप्तक, पंचेन्द्रिय-तिर्यच-योनिमतियोंमें, इसी प्रकार है । विशेष,

मणुसायुबंधगा सव्वजी० केव० ? अणंतभागो । सव्वपंचिंदिय-तिरिक्ख-पज्जत्तजोणिणीणं केवडिं ? असंखेज्जदिभागो । अवंधगा सव्वजी० केव० ? अणंतभागो । सव्वपंचिंदिय-तिरिक्खपज्जत्तजोणिणीणं केव० ? असंखेज्जदि० (?) । तिरिक्खदेवायूणं सादभंगो । चटुण्णांपि आयुगाणं सादभंगो । गिरयमदि असादभंगो । तिण्णां दिण्णां सादभंगो । चटुण्णं गदीणं बंधगा सव्व० केव० ? अणंतभा० । अवंधगा णत्थि । एवं आणुपुब्बी० चटुजादि सादभंगो । पंचिंदियजादीणं असादभंगो । पंचणं जादीणं बंधगा सव्व० केव० ? अणंतभागो । अवंधगा णत्थि । वेगुच्चिय० वेगुच्चियअंगो० सादभंगो । दोण्णांपि असादभंगो । छस्संध० आदावुज्जो० सादभंगो । परघादुस्सा० अप्पसत्थ० तस०४ अथिरादिछक्कणीचागोदं च असादभंगो । तप्पडिपक्खाणं सादभंगो । दोविहा० दोसर० असादभंगो । तसादिणवयुगलं दोगोदं च वेदणीयभंगो । पंचिंदिय-तिरिक्खअयज्जत्तेसु-पंचणा० णवदंसणा० मिच्छत्त० सोलसक० भयदु० तिण्णिसरी० वण्ण०४ अगुरु० उप० णिमि० पंचंत० बंधगा सव्व० केव० ? अणंतभा० । अवंधगा णत्थि । सेसाणं गिरयोघं । णवरि चटुजादि-ओरालि० अंगो० छस्संध० परघादुस्सा०

यहाँ नरकायु-मनुष्यायुके बन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । सम्पूर्ण पंचेन्द्रिय तिर्यच पर्याप्तक-योनिमतियोंके कितने भाग हैं ? असंख्यातवें भाग हैं । अबन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । सर्व पंचेन्द्रिय पर्याप्त तिर्यच पंचेन्द्रिय तिर्यच-योनिमतियोंके कितने भाग हैं ? असंख्यातवें भाग हैं ।

विशेष—यहाँ 'असंख्यात बहुभाग' पाठ उपयुक्त प्रतीत होता है ।

तिर्यच-देवायुका साताके समान भंग जानना चाहिए । चारों आयुका साताके समान भंग जानना चाहिए । नरकगतिका असाताके समान भंग है । शेष तीन गतियोंका साताके समान भंग है । चारों गतियोंके बन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । अबन्धक नहीं हैं । आनुपूर्वीका इसी प्रकार भंग जानना चाहिए । ४ जातियोंका साताके समान भंग है । पंचेन्द्रिय जातिका असाताके समान भंग है । पाँच जातियोंके बन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । अबन्धक नहीं हैं । वैक्रियिक शरीर तथा वैक्रियिक अंगोपांगका साताके समान भंग है । दोनोंका सामान्यसे असाताके समान भंग है । ६ संहनन, आतप, उद्योतका सातावत् भंग है । परघात, उच्छ्वास, अप्रशस्त विहायोगति, त्रस ४, अस्थिरादि ६ तथा नीच-गोत्रका असाताके समान भंग है । इनकी प्रतिपक्षी प्रकृतियोंका जैसे प्रशस्त-विहायोगति, स्थावरादि ४, स्थिरादि ६, उच्चगोत्रका साताके समान भंग है । दो विहायो-गति, दो स्वरका असाताके समान भंग है । त्रसादि ९ युगल तथा २ गोत्रका वेदनीयके समान भंग है ।

पंचेन्द्रिय-तिर्यच-लब्धपर्याप्तकोंमें—५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, भय-जुगुप्सा, औदारिक-तैजस-कार्माण शरीर, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण, ५ अन्त-रायके बन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं ; अबन्धक नहीं हैं । शेष प्रकृतियोंका नारकियोंके ओघवत् जानना चाहिए । विशेष, ४ जाति, औदारिक-अंगोपांग,

आदाबुजो० दोविहा० तस०४ थिरादि-छक-दुस्सर-उचागोदं० सादभंगो । एइदियजादि-हुंडसंठा० थावरादि०४ अथिरादिपंचगं णीचागोदं च असादभंगो । पंचजादि-बंधगा सव्वजी० केव० ? अणंतभा० । अबंधगा णत्थि । एवं तसथावरादिणवधुमलं दोगोदाणं । छस्संघ० दोविहा० दोसर० साधारणेण वि सादभंगो । एवं मणुस-अपज्जत्त-सव्वविगल्लिदिय-पंचिदिय-तस-अपज्जत्त-सव्वपुटवि-आउ० तेउ० वाउ० बादरवणफदिपत्तेय० । णवरि तेउ० वाउ० मणुसगदिचदुक्कं णत्थि ।

१५१. मणुसेसु-पंचिदिय-तिरिक्खभंगो । णवरि धुविगण अबंध० अत्थि । दोवेदणीयाणं बंधगा सव्वजीव० केव० ? अणंतभागो । सव्वमणुसाणं केव० ? असंखेज्जा भागा । अबंधगा सव्व० केव ? अणंतभागो । सव्वमणुयाणं केव० ? असंखेज्जदिभागो । सादभंगो इत्थि० पुरिस० हस्सरदि-तिरिक्खायु-मणुसगदि-चदुजादि-पंचसंठा० ओरालि० अंगो० छस्संघ मणुसाणु० परघादुस्सा० आदाबुजोव० दोविहा० तस०४ थिरादिछ०-दुस्सर उच्चागोदं च । असादभंगो णपुंस० अरदिसोग० तिरिक्खगदि-एइदि० हुंडसंठा० तिरिक्खाणु० थावरादि०४ अथिरादिपंच णीचागोदं च । तिण्णिवेद-हस्सरदिदोयुग० पंचजादिछस्संठा० तसथावरा-

६ संहनन, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, दो विहायोगति, त्रस ४, स्थिरादि ६, दुस्वर तथा उच्चगोत्रका साताके समान भंग है । एकेन्द्रिय जाति, हुण्डक संस्थान, स्थावरादि ४, अस्थिरादि ५ तथा नीच गोत्रका असाताके समान भंग है । ५ जातिके बन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं ; अबन्धक नहीं हैं । त्रस, स्थावरादि ९ युगल तथा दो गोत्रोंमें इसी प्रकार भंग जानना चाहिए । छह संहनन, दो विहायोगति, २ स्वरका प्रत्येक तथा सामान्य रूपसे साताके समान भंग है ।

मनुष्यलब्ध्यपर्याप्तक, सर्व विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय-त्रस-अपर्याप्तक, सम्पूर्ण पृथ्वी, अप, तेज, वायु, बादर वनस्पति, प्रत्येकमें-इसी प्रकार अर्थात् पंचेन्द्रिय-तिर्यच लब्ध्यपर्याप्तकके समान जानना चाहिए । विशेष, तेजकाय, वायुकायमें मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, मनुष्यायु तथा उच्चगोत्र नहीं हैं ।

१५१. मनुष्योंमें-पंचेन्द्रिय तिर्यचोंका भंग है । विशेष, यहाँ ध्रुव प्रकृतियोंके अबन्धक भी पाये जाते हैं । दो वेदनीयोंके बन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । सम्पूर्ण मनुष्योंके कितने भाग हैं ? असंख्यात बहुभाग हैं । अबन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । सर्व मनुष्योंके कितने भाग हैं ? असंख्यातवें भाग हैं ।

स्त्रीवेद, पुरुषवेद, हास्य, रति, तिर्यचायु, मनुष्यगति, ४ जाति, ५ संस्थान, औदारिक अंगोपांग, ६ संहनन, मनुष्यानुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, दो विहायोगति, त्रस ४, स्थिरादि-षट्क, दुस्वर तथा उच्चगोत्रका साताके समान भंग है । नपुंसकवेद, अरति-श्लोक, तिर्यचगति, एकेन्द्रिय जाति, हुण्डकसंस्थान, तिर्यचानुपूर्वी, स्थावरादि ४, अस्थिरादि ५ तथा नीचगोत्रका असाताके समान भंग है । तीन वेद, हास्यरति, अरतिश्लोक, पंच जाति,

दिणत्रयुग०-दोगोदाणं च वेदणीयभंगो । तिण्णिआयु-आहारदु० वेउन्विपद्धकं तित्थय०
सव्वजी० केव० ? अणंतभागो । मणुसाणं केव० ? असंखेज्जदिभागो । अबंधगा
सव्वजी० केव० ? अणंतभागो । सव्वमणुसाणं केवडि० ? असंखेजा भागा । ओरा-
लिस० पत्तेयेण धुविगाणं भंगो । चदुगदि-दोसरी० चदुआणु० वेदणीयभंगो । दोअंगो०
छस्संध० दोविहा० दोसर० साधारणाणं सादभंगो ।

१५२. मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु - एसेव भंगो । णवरि ये असंखेजा भागा ते
संखेजा कादव्वा । सादभंगो इत्थि० पुरिस० हस्सरदि-तिण्णिगदि-चदुजादि-दोसरीर-
पंचसंठा० दोअंगो० तिण्णिआणु० आदावुजो० पसत्थ० थावरादि०४ धिरा-
दिद्धक उच्चगोदं च । असादभंगो णपुंस० अरदिसोग० णिरयगदि० पंचिदि० वेगुव्वि०
हुंडसं० वेगुव्वि० अंगो० णिरयाणु० पर० उस्सा० अप्पसत्थ० तस०४ अधिरादि-
द्धक० णीचागोदं च । सत्तणोक० चदुगदि-पंचजादि तिण्णिसरीर छस्संठा० तिण्णि
अंगो० चदुआणु० दोविहा० तसथावरादि-दसयुगलं दोगोदाणं वेदणीयभंगो । चदु-
आयु० छस्संध० पत्तेयेण साधारणेण वि सादभंगो ।

१५३. देवेषु णिरयोधं । णवरि विसेसो । सादभंगो इत्थि० पुरिस० हस्सरदि-

६ संस्थान, त्रस-स्थावरादि ९ युगल तथा २ गोत्रोंका वेदनीयके समान भंग है । ३ आयु, आहा-
रकट्टिक, वैक्रियिकषट्क तथा तीर्थकर प्रकृतिके बन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें
भाग हैं । सर्व मनुष्योंके कितने भाग हैं ? असंख्यातवें भाग हैं ? अबन्धक सर्व जीवोंके
कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । सर्व मनुष्योंके कितने भाग हैं ? असंख्यात बहुभाग हैं ।

औदारिक शरीरका प्रत्येकसे ध्रुवप्रकृतिसदृश भंग है । चार गति, २ शरीर, ४ आनु-
पूर्वोंका वेदनीयके समान भंग है । दो अंगोपांग, ६ संहनन, २ विहायोगति, २ स्वरका साधार-
रणसे साताके समान भंग है ।

१५२. मनुष्य-पर्याप्तक मनुष्यनियोंमें मनुष्यके समान भंग है । विशेष, पूर्वमें जो असं-
ख्यात बहुभाग कहे गये हैं, उनके स्थानमें 'संख्यात बहुभाग' कर लेना चाहिए । स्त्रीवेद,
पुरुषवेद, हास्थ, रति, मनुष्य-तिर्यच-देवगति, ४ जाति, दो शरीर, ५ संस्थान, दो अंगोपांग,
नरकानुपूर्वोंके बिना शेष तीन आनुपूर्वों, आतप, उद्योत, प्रशस्तविहायोगति, स्थावरादि ४,
स्थिरादि ६ तथा उच्चगोत्रका साताके समान भंग है । नपुंसकवेद, अरति-श्लोक, नरकगति,
पंचेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, हुण्डकसंस्थान, वैक्रियिक अंगोपांग, नरकानुपूर्वों, परघात,
उच्छ्वास, अप्रशस्तविहायोगति, त्रस ४, अस्थिरादिषट्क तथा नीच गोत्रका असाताके समान
भंग है । ७ नोकषाय, ४ गति, ५ जाति, ३ शरीर, ६ संस्थान, ३ अंगोपांग, ४ आनुपूर्वों, दो
विहायोगति, त्रस-स्थावरादि १० युगल और दो गोत्रोंका वेदनीयके समान भंग है । चार
आयु, ६ संहननका प्रत्येक तथा सामान्यसे साताके समान भंग है ।

१५३. देवगतिमें - नरकगतिके ओघवत् जानना चाहिए । विशेष - स्त्रीवेद, पुरुषवेद,

तिरक्खायु-मणुसगदि-पंचिदियजादि-पंचसंठा० ओरालि०-अंगो० छस्संव० मणुसाणु० आदाबुज्जो० दोविहा० तस-थिरादिछक-दुस्सर-उचागोदं च । असादभंगो णपुंस० अरदिसोगो तिरक्खग०-एहंदि०-हुंडसंठा० तिरिक्खाणु० थावर-अथिरादिपंच-णीचागोदं च । वेदणीय भंगो सत्तणोक० दोगदि-दोजादि०-छस्संठा० दोआणु० तसथाव०-थिरादिपंच-युगला०दोगोदाणं च । छस्संव० दोविहा० दोसरं० साधारणेण वि सादभंगो । एवं भवण-त्रा०-वें०-जोदिसिं० । णवरि तित्थय० णत्थि । जोदिसिय-तिरिक्खायु-मणुसायुभंगो । सोधम्मीसाण जोदिसिधभंगो, णवरि तित्थयरं अत्थि । सणक्कुमार याव सहस्सार ति विदियपुठविभंगो । आणद याव णवके(गे)वजात्ति धुविगाणं बंधगा सव्वजी० केव० ? अणंतभागा (गो) । अबंधगा णत्थि । थीणगिद्धि३ मिच्छत्त० अणंताणुवं०४ तित्थयरं बंधा० सव्व० केव० ? अणंतभागे । सव्वदेवाणं केव० ? संखेज्जदिभागे । अबंधा सव्वजी० केव० ? अणंतभागे । सव्वदेवाणं केव० ? संखेजा भागे (गा) । सादभंगो इत्थि० णपुंस० हस्सरदि-पंचसंठा० पंचसंव० अप्प-सत्थवि० थिर-सुभग-(सुभ) दूभगदुस्सर-अणादेज्ज-जसगिति णीचागोदं च । असाद-

हास्य, रति, तिर्यचायु, मनुष्यगति, पंचेन्द्रिय जाति, ५ संस्थान, औदारिक अंगोपांग, ६ संहनन, मनुष्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत, दो विहायोगति, त्रस, स्थिरादि ६, दुस्वर तथा उच्चगोत्रका साताके समान भंग है । नपुंसकवेद, अरति, शोक, तिर्यचगति, एकेन्द्रिय जाति, हुण्डकसंस्थान, तिर्यचानुपूर्वी, स्थावर, अस्थिरादि ५ तथा नीच गोत्रका असाताके समान जानना चाहिए । ७ नोकषाय, २ गति, २ जाति, ६ संस्थान, २ आनुपूर्वी, त्रस-स्थावर, स्थिरादि ५ युगल तथा २ गोत्रका वेदनीयके समान भंग है । ६ संहनन, २ विहायोगति, २ स्वरका साधारणसे भी साताके समान भंग है । भवनवासी, व्यन्तर तथा ज्योतिषी देवोंमें इसी प्रकार जानना चाहिए । विशेष, यहाँ तीर्थकर प्रकृति नहीं है । ज्योतिषी देवोंमें तिर्यचायुका मनुष्यायुके समान भंग है । सौधर्म और ईशानमें—ज्योतिषियोंके समान भंग है । विशेष, यहाँ तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध होता है । सानत्कुमारसे सहस्रार स्वर्गपर्यन्त—दूसरे नरकके समान भंग है । आन्त-प्राणतसे नव ग्रैवेयक पर्यन्त—ध्रुव प्रकृतियोंके बन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्त बहुभाग हैं (?) ; अबन्धक नहीं हैं ।

विशेषार्थ—खुदाबन्धमें देवोंकी संख्या सर्व जीवोंके अनन्तवें भाग कहीं है—देवग-द्वीप देवा सव्वजीव्याणं केवडियो भागे ? अणंतभागे (भागाभा० ८, ६) । अतः यहाँ अनन्त बहुभागके स्थानमें अनन्तवें भाग पाठ उचित प्रतीत होता है ।

स्त्यानगुद्धिद्विक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी ४ तथा तीर्थकरके बन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । सर्व देवोंके कितने भाग हैं ? संख्यातवें भाग हैं । अबन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । सर्व देवोंके कितने भाग हैं ? संख्या-तवें भाग हैं (?) ।

विशेष—यहाँ 'संख्यात बहुभाग' पाठ उचित प्रतीत होता है ।

स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, ५ संस्थान, ५ संहनन, अप्रशस्तविहायोगति, स्थिर,
२२

भंगो पुरिस० अरदिसोग० चमचदु [समचदु०] वज्ररिसभ० पसत्थ० अथिर-असुभ-
सुभग-सुस्सर-आदेज्ज० अज्जस० उच्चागोदाणं च । दोणं वेदणीयाणं बंधगा सव्व० केव० ?
अणंतभागो । अवंधगा णत्थि । एवं सेसं (साणं) परियत्तमाणयाणं । आयु जोदि-
सियभंगो । अणुदिस याव सव्वट्ठत्ति अणाद् (आणद्) भंगो । णवरि सव्वट्ठे आयु
माणुसिभंगो ।

१५४. एइंदिएसु-पंचणा० णवदंसणा० मिच्छत्त० सोलसक० भयदु० ओरालि०
तेजाक० वण्ण४ अगु० उप० णिमि० पंचंत० बंध० सव्वजी० केव० ? अणंता भागो
(भागा) । अवंधगा णत्थि । सेसं तिरिक्खोघं । बादरएइंदियपज्जत्तापज्जत्तेसु-दुविमाणं
बंध० सव्व० केव० ? असंखेज्जदिभागो । अवंधगा णत्थि । सादबंध० सव्व० केव० ? असंखे-
ज्ज-दिभागो । सव्वबादर-एइंदिय-पज्जत्तापज्जत्ताणं केव० ? संखेज्जदिभागो । अवंधगा
सव्व० केव० ? असंखेज्जदिभागो । सव्वबादर-एइंदिय-पज्जत्तापज्जत्ताणं केव० ?
संखेज्जा भाग । एवं असादं पडिलोमेण भाणिद्वं । दोणं वेदणीयाणं बंध० सव्व०

सुभग, (शुभ) दुर्भग, दुस्वर, अनादेय, युशःकीर्ति, नीच गोत्रका साताके समान भंग है ।
पुरुषवेद, अरति, शोक, समचतुरस्रसंस्थान, वज्रवृषभसंहनन, प्रशस्तविहायोगति, अस्थिर,
अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, अयशःकीर्ति तथा उच्चगोत्रका असाताके समान भंग हैं ।
दोनों वेदनीयके बन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । अबन्धक नहीं हैं ।
इस प्रकार परिवर्तमान शेष प्रकृतियोंमें जानना चाहिए । आयुओंमें ज्योतिषी देवोंका भंग
है । अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि पर्यन्त आनतके समान भंग जानना चाहिए । विशेष,
सर्वार्थसिद्धिमें आयुका भंग मनुष्यनीके समान हैं ।

१५४. एकेन्द्रियोंमें—५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, भय-जुगुप्सा,
औदारिक-तैजस-कामिणं शरीर, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण, ५ अन्तरायके बन्धक
सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं (?) ; अबन्धक नहीं हैं ।

विशेष—यहाँ 'अनन्तवें भाग' के स्थानमें 'अनन्त बहुभाग' पाठ जँचता है; क्योंकि
एकेन्द्रिय सर्व जीवोंके अनन्त बहुभाग हैं ।

शेष प्रकृतियोंका तिर्यचोंके ओघवत् वर्णन जानना चाहिए ।

वाद्दर, एकेन्द्रिय पर्याप्त तथा अपर्याप्तोंमें—ध्रुव प्रकृतियोंके [बन्धक] सर्व जीवोंके
कितने भाग हैं ? असंख्यातवें भाग हैं ; अबन्धक नहीं हैं । साता वेदनीयके बन्धक सर्व
जीवोंके कितने भाग हैं ? असंख्यातवें भाग हैं । सर्व वाद्दर एकेन्द्रिय पर्याप्त-अपर्याप्तोंके
कितने भाग हैं ? संख्यातवें भाग हैं । अबन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? असंख्यातवें
भाग हैं । सर्व वाद्दर एकेन्द्रिय पर्याप्त अपर्याप्त जीवोंके कितने भाग हैं ? संख्यात बहुभाग हैं ।
असाताके विषयमें इसी प्रकार प्रतिलोमक्रमसे जानना चाहिए । दोनों वेदनीयोंके बन्धक सर्व

१ यहाँ 'धुभ' पाठ उचित प्रतीत होता है । सुभगकी पुनः गणना आगे की गयी है ।

२ इंदियाणुवादेण एइंदिया सव्वजीवाणं केवडियो भागो ? अणंता भागा । -खु० वं०, भागाभा०,

११, १२, पृ. ४६६

केव० ? असंखेज्जदिभागो । अबंधगा णत्थि । सादभंगो इत्थि० पुरि० हस्सरदि-तिरि-
क्खायु-मणुसगदि-चदुजादि-पंचसंठा० ओरालि० अंगो० छस्संध० मणुसाणु० परघा-
दुस्सा० आदावुज्जो० दोविहा० तस०४ थिरादिछकं दुस्सर-उच्चागोदं च । असादभंगो
णपुंस० अरदिसोग-तिरिक्खग०-एइंदियजा०-हुंडसं०-तिरिक्खाणु० थावरादि०४ अथि-
रादिपंच-णीचागोदं च । मणुसायु-बंधगा सच्च० केव० ? अणंतभागो । सच्चबादर-
एइंदिय-पज्जत्ताअपज्जत्ताणं केव० ? अणंतभागो । अबंधगा सच्च० केव० ? असंखेज्जदि-
भाग्गे । सच्चबादर-एइंदिय-पज्जत्ताअपज्जत्ताणं केव० ? अणंतभागो । दोआयु०
छस्संध० दोविहा० दोसर० साधारणेण सादभंगो । सेसाणं परियत्ताणं युगलाणं
वेदणीयभंगो ।

१५५. सुहुमे०—धुविगाणं बंधगाण-सच्च० केव० ? असंखेज्ज भागा० । अबंधगा
णत्थि । सादाबंध० सच्च० केव० ? संखेज्जदिभागो । सच्चसुहुमे-इंदियाणं केव० ?
संखेज्जदिभागो । अबंधगा सच्च० केव० ? संखेज्ज भा० । सच्चसुहुमाणं केव० ?
संखेज्ज भा० । असादं पडिलोमे० भाणिदव्वं । दोवेदणीयाणं बंध० सच्च० केव० ?
असंखेज्ज भागा । अबंधगा णत्थि । एवं सच्चो परियत्तीओ वेदणीयभंगो । छण्णं

जीवोंके कितने भाग हैं ? असंख्यातवें भाग हैं ; अबन्धक नहीं हैं । स्त्रीवेद, पुरुषवेद, हास्य,
रति, तिर्यंचायु, मनुष्यगति, ४ जाति, ५ संस्थान, औदारिक अंगोपांग, ६ संहनन, मनुष्यानु-
पूर्वी, परघात, उच्छ्वास, आनप, उद्योत, २ विहायोगति, त्रस ४, स्थिरादि ६, दुस्वर, उच्च-
गोत्रका साताके समान भंग जानना चाहिए । नपुंसकवेद, अरति, शोक, तिर्यंचगति, एके-
न्द्रियजाति, हुण्डकसंस्थान, तिर्यंचानुपूर्वी, स्थावरादि ४, अस्थिरादि ५, नीचगोत्रका असाता-
के समान भंग है । मनुष्यायुके बन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । सर्व
बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त अपर्याप्तकोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । अबन्धक सर्व जीवों-
के कितने भाग हैं ? असंख्यातवें भाग हैं । सर्व बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त-अपर्याप्त जीवोंके
कितने भाग हैं ? अनन्त बहुभाग हैं । दो आयु, छह संहनन, २ विहायोगति, २ स्वरके
सामान्यसे साताके समान भंग है ? शेष परिवर्तमान युगलरूप प्रकृतियोंका वेदनीयके समान
भंग जानना चाहिए ।

१५५. सूक्ष्म-एकेन्द्रियमें—धुव प्रकृतियोंके बन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ।
असंख्यात बहुभाग हैं ; अबन्धक नहीं हैं । साता वेदनीयके बन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग
हैं ? संख्यातवें भाग हैं । सर्व सूक्ष्मएकेन्द्रियजीवोंके कितने भाग हैं ? संख्यातवें भाग हैं ।
अबन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? संख्यात बहुभाग हैं । सर्व सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीवोंके
कितने भाग हैं ? संख्यात बहुभाग हैं । असाता वेदनीयका प्रतिलोम क्रमसे भंग है ।

विशेषार्थ—असाताके बन्धक सर्व जीवोंके संख्यात बहुभाग हैं । सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीवों-
के संख्यात बहुभाग हैं । अबन्धक सर्व जीवोंके संख्यातवें भाग हैं । सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीवोंके
संख्यातवें भाग हैं ।

दो वेदनीयके बन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? असंख्यात बहुभाग हैं । अबन्धक
नहीं हैं । इस प्रकार सम्पूर्ण परिवर्तमान प्रकृतियोंमें वेदनीयके समान भंग जानना चाहिए ।

दोष्णं दोष्णं पि पत्तगेण साधारणेण वि सादभंगो । तिरिक्खायु-सादभंगो । मणुसायु-
बंधगा सव्व० केव० ? अणंतभागो । सव्वसुहुमएइंदिया० केव० ? अणंतभागो । अबंध०
सव्वजी० केव० ? असखेज्जा भा० । सव्वसुहुमेइंदि० केव० ? अणंता भागा । दोआयु०
तिरिक्खायुभंगो । सुहुमएइंदिय-पज्जत्तेसु-धुविगाणं बंधगा सव्व० केव० ? संखेज्जा-
भा० । अबंधा णत्थि । सादासादं पत्तगेण सुहुमोर्धं । साधारणेण दोवेदणीया० बंध०
सव्व० केव० ? संखेज्जा भागा । अबंधगा णत्थि । एदेण कमेण णेदव्वं ।

१५६. सुहुमअपज्जता० धुविगाणं बंध० सव्व० केवडि० ? संखेज्जदिभागो ।
अबंधगा णत्थि । सादबंधगा सव्वजी० केव० ? संखेज्जदिभागो । सव्वसुहुमएइंदियअ
पज्जत्ताणं केव० ? संखेज्जदिभागो । अबंधगा सव्व० केव० ? संखेज्जदिभागो । सव्वसुहुमए-
इंदियअपज्जत्ताणं केव० ? संखेज्जभा० । असादं बंधगा सव्व० केव० ? संखेज्जदि-
भागो । सव्वसुहुमअपज्जत्ताणं केव० ? संखेज्जा भागा । अबंधगा सव्व० केव० ? संखे-
ज्जदिभा० । सव्वसुहुमअपज्जत्ताणं केव० ? संखेज्जदिभा० । दोष्णं वेदणीयाणं बंधगा सव्व०
केव० ? संखेज्जदिभागो । अबंधगा णत्थि । एवं सव्वाओ णादव्वाओ । णवरि तिरिक्खायु-

छह संहनन, २ विहायोगति, २ स्वरका प्रत्येक तथा सामान्य रूपसे साताके समान भंग है ।
तिर्यंचायुका साताके समान भंग है । मनुष्यायुके बन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अन-
न्तर्वे भाग हैं । सर्व सूक्ष्म एकेन्द्रियोंके कितने भाग हैं ? अनन्तर्वे भाग हैं । अबन्धक सर्व
जीवोंके कितने भाग हैं ? असंख्यात बहुभाग हैं । सर्वा सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीवोंके कितने भाग
हैं ? अनन्त बहुभाग हैं । (?)

मनुष्य-तिर्यंचायुके बन्धकोंका तिर्यंचायुके समान अर्थात् साताके समान भंग है ।

सूक्ष्म-एकेन्द्रिय-पर्याप्तकोंमें—ध्रुव प्रकृतियोंके बन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ?
संख्यातबहु भाग हैं ; अबन्धक नहीं हैं । साता असाता वेदनीयके पृथक्-पृथक् रूपसे
सूक्ष्म जीवोंके ओषवत् भंग हैं । सामान्यसे दो वेदनीयके बन्धक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ?
संख्यात बहुभाग हैं । अबन्धक नहीं हैं । शेष प्रकृतियोंमें यही क्रम जानना चाहिए ।

१५६. सूक्ष्म-अपर्याप्तकोंमें—ध्रुव प्रकृतियोंके बन्धक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ?
संख्यातर्वे भाग हैं ; अबन्धक नहीं हैं । सातावेदनीयके बन्धक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ?
संख्यातर्वे भाग हैं । सर्वसूक्ष्म-एकेन्द्रिय-अपर्याप्तकोंके कितने भाग हैं ? संख्यातर्वे भाग हैं ।
अबन्धक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? संख्यातर्वे भाग हैं ? सर्वासूक्ष्म-एकेन्द्रिय-अपर्याप्तकोंके
कितने भाग हैं ? संख्यात बहुभाग हैं ।

असाताके बन्धक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? संख्यातर्वे भाग हैं । सर्व सूक्ष्मअपर्या-
प्तकोंके कितने भाग हैं ? संख्यात बहुभाग हैं । अबन्धक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? संख्या-
तर्वे भाग हैं । सर्वासूक्ष्म-अपर्याप्तकोंके कितने भाग हैं ? संख्यातर्वे भाग हैं । दोनों वेदनीयोंके
बन्धक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? संख्यातर्वे भाग हैं ; अबन्धक नहीं हैं । इस प्रकार सब

१. सुहुमेइंदियपज्जता सव्वजीवाणं केवडिओ भागो ? संखेज्जा भागा ॥ -सु० वं०, सू० १७, १८ ।

२. सुहुमेइंदिय-अपज्जता सव्वजीवाणं केवडिओ भागो ? संखेज्जदिभागो । १६, २० ।

सादभंगो । मणुसायुबंध० सव्व० केव० ? अणंता(त)भागो । सव्वसुहुमअपज्जत्ता० केव० ? अणंतभागो । अबंध० सव्व० केव० ? संखेज्जदिभागो । सव्वसुहुम-अपज्जत्ता० केव० ? अणंता भागा । दोआयु-तिरिक्खायुभंगो । एवं वणप्फति(दि)णियोदाणं ।

१५७. पंचिदिया मणुसोघं । पंचिदियपज्जत्तेसु-पंचिदिय-तिरिक्खपज्जत्तभंगो । णवरि धुविमाणं मणुसोघं । साधारणेण दोवेदणीयबंधा सव्व० केव० ? अणंतभागो । सव्वपंचिदियपज्जत्त० केव० ? असंखेज्जा भागा । अबंधा सव्व० केव० ? अणंतभागो । सव्वपंचिदिय-पज्जत्ता० केव० ? असंखेज्जदिभागो । एवं सादभंगो इत्थि० पुरिस० हस्सरदि-तिरिक्खायु-देवायु-तिणिगदि-चदुजादि-ओरालि० पंचसंठा० ओरालि० अंगो० छस्संध तिणिआणु० पसत्थवि० थावरादि४ थिरादिक्क उच्चगोदं च । असाद-भंगो णपुंस० अरदिसोग० गिरयगदि-पंचजा०-वेउव्वि० हुंडसंठा०-वेउव्वि० अंगो० गिरयाणु० पर० उस्सा० अपसत्थवि० तस०४ अथिरादिक्कं णीचागोदं । गिरयमणु-सायुआहारदुग० तित्थयरं बंधा सव्व० केव० ? अणंता भागा । सव्वपंचिदि-

प्रकृतियोंके विषयमें भी जानना चाहिए । विशेष, तिर्यचायुका साताके समान भंग है । मनुष्यायुके बंधक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? अनंतवें भाग हैं । सर्वसूक्ष्म अपर्याप्तकोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । अबन्धक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? संख्यातवें भाग हैं । सर्वसूक्ष्म-अपर्याप्तकोंके कितने भाग हैं ? अनन्त बहुभाग हैं । मनुष्य-तिर्यचायुका तिर्यचायुके समान भंग है । वनस्पति कायिकों तथा निगोदोंमें—इसी प्रकार जानना चाहिए ।

१५७. पंचेन्द्रियोंका-मनुष्योंके ओघवत् भंग है । पंचेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें-पंचेन्द्रिय तिर्यच-पर्याप्तकोंके समान भंग है । विशेष, ध्रुव प्रकृतियोंमें मनुष्योंके ओघवत् जानना चाहिए । सामान्यसे दो वेदनीयके बंधक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । सर्वपंचेन्द्रिय पर्याप्तकोंके कितने भाग हैं ? असंख्यात बहुभाग हैं । अबन्धक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । सर्वपंचेन्द्रिय पर्याप्तकोंके कितने भाग हैं ? असंख्यातवें भाग हैं । खीवेद, पुरुषवेद, हास्य, रति, तिर्यचायु, देवायु, तिर्यच-मनुष्य-देवगति, ४ जाति, औदारिक शरीर, ५ संस्थान, औदारिक अंगोपांग, ६ संहनन, ३ आनुपूर्वी, प्रशस्तविहायोगति, स्थावरादि ४, स्थिरादि ६ और उच्चगोत्रमें साताके समान भंग है । नपुंसकवेद, अरति, शोक, नरकगति, पंचजाति, वैक्रियिक शरीर, हुंडक संस्थान, वैक्रियिक अंगोपांग, नरकानुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, अप्रशस्तविहायोगति, त्रस ४, अस्थिरादि ६, नीचगोत्रमें असाताके समान भंग है । नरक-मनुष्यायु, आहारकट्टिक तथा तीर्थकरके बन्धक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं । अनन्त बहुभाग हैं (?) ।

१. वणफदिकाइया णिगोदजीवा सव्वजीवाणं केवडिओ भागो ? अणंता भागा ॥-खु० बं०, २५, २६ ।

२. पंचिदिय-तिरिक्खा पंचिदिय-तिरिक्खपज्जत्ता पंचिदिय-तिरिक्ख-ओणिणी पंचिदिय-तिरिक्खअपज्जत्ता मणुसगदोए मणुसा, मणुस-पज्जत्ता, मणुसिणी मणुस-अपज्जत्ता, सव्वजीवाणं केवडिओ भागो ? अणंतभागो ॥

-खु० बं०, ६, ७, पृ. ४६७ ।

यपञ्जत्त० केव० ? असंखेज्जदिभागो । अबंधगा सव्व० केव० ? अणंतभा० । सव्व-
पंचिंदियपञ्जत्ता० केव ? असंखेज्जा भागा । साधारणेण सव्व-परियत्तीणं वेदणीयभंगो ।
णवरि चदुआयु-छस्संघ० सादभंगो । अंगो० विहाय० सरणामाणं सादभंगो । आदा-
बुज्जो० सादभंगो ।

१५८. तस० पंचिंदियभंगो । तसपञ्जत्तेसु-धुविगाणं थीणगिद्धि-दण्डओ
दोवेदणी० सत्तणोक० चदुआ० पंचिंदिय-पञ्जत्तभंगो । सादभंगो तिण्णिगदि-चदुजादि-
वेगुव्वियस०-पंचसंठा० दोअंगो० छस्संघ० तिण्णि०-आणु० पर०-उस्सा० आदाबुज्जोव-
दोविहाय० तस४ थिरादिक्क० दुस्सर-उच्चागोदाणं च । असादभंगो तिरिक्खगदि-
एइंदियजा० ओरालि० हुंडसं० तिरिक्खाणु० थावरादि०४ अथिरादिपंच-णीचागोदाणं
च । साधारणेण दोवेदणीयभंगो । णवरि अंगो० संघडं० विहाय० सरणामाणं सादभंगो ।
आहारदुगं तित्थयरं बंधगा सव्व० केव० ? अणंतभागो । सव्वतस०-पञ्जत्ता० केव० ?
असंखेज्जदिभा० । अबंधगा सव्व० केव० ? अणंतभागो । सव्वतसपञ्जत्ता० केव० ?
असंखेज्जभा० ।

१५९. पंचमण० तिण्णि-वचि०-पंचणा० णवदंस० मिच्छ० सोलसक० भयदु०

विशेष—यहाँ तीर्थंकर आदिके बन्धक सर्व जीवोंके 'अनन्तर्वे भाग' पाठ सम्यक्
प्रतीत होता है ।

सम्पूर्ण पंचेन्द्रिय पर्याप्तकोंके कितने भाग हैं ? असंख्यातवें भाग हैं । अबन्धक सर्व-
जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तर्वे भाग हैं । सर्वपंचेन्द्रिय पर्याप्तकोंके कितने भाग हैं ?
असंख्यात बहुभाग हैं । सामान्यसे सम्पूर्ण परिवर्तमान प्रकृतियोंका वेदनीयके समान भंग
है । विशेष—४ आयु, ६ संहननका साताके समान भंग है । अंगोपांग, विहायोगति तथा
स्वरनामकी प्रकृतियोंका साताके समान भंग है । आतप, उद्योतका साताके समान भंग है ।

१५८. त्रसोंमें-पंचेन्द्रियके समान भंग हैं । त्रस-पर्याप्तकोंमें-ध्रुव प्रकृतिका स्थानेगुद्धि,
दण्डक, दो वेदनीय, ७ नोकषाय, ४ आयुका पंचेन्द्रिय-पर्याप्तकोंके समान भंग है । तीन गति,
४ जाति, वैक्रियिक शरीर, ५ संस्थान, २ अंगोपांग, ६ संहनन, ३ आनुपूर्वी, परघात,
उच्छ्वास, आतप, उद्योत, २ विहायोगति, त्रस ४, स्थिरादिषट्क, दुस्वर तथा उच्चगोत्रका
सातावेदनीयके समान भंग है । तिर्यच्चगति, एकेन्द्रियजाति, औदारिक शरीर, हुंडकसंस्थान,
तिर्यचानुपूर्वी, स्थावरादि ४, अस्थिरादि ५ तथा नीचगोत्रका असाताके समान भंग जानना
चाहिए । सामान्यसे दोनों वेदनीयके समान भंग है । विशेष, अंगोपांग, संहनन, विहायोगति
तथा स्वर नामकी प्रकृतियोंका साताके समान भंग है । आहारकद्विक, तीर्थंकरके बन्धक
सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तर्वे भाग हैं । सम्पूर्ण त्रस-पर्याप्तकोंके कितने भाग हैं ?
असंख्यातवें भाग हैं । अबन्धक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तर्वे भाग हैं । सम्पूर्ण
त्रस-पर्याप्तकोंके कितने भाग हैं ? असंख्यात बहुभाग हैं ।

१५९. पाँच मनोयोग, ३ वचनयोगमें-५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १६

१. जोगाणुवादेण पंचमणजोगि-पंचवचिजोगि-वेउव्वियकायजोगि-वेउव्वियमिस्सकायजोगि-आहारकाय-
जोगि-आहारमिस्सकायजोगी सव्वजीवाणं केवडिओ भागो ? अणंतो भागो ॥-खु० वं, ३५, ३६ ।

तेजाक० वण्ण०४ अगु०४ णिमि० पंचंत० बंध० सव्व० केव० ? अणंतभा० । पंचमण० तिण्णिवचि० केव० ? असंखेज्जा भागा । अबंध० सव्व० केव० ? अणंतभागो० । पंचमण० तिण्णिवचि० केव० ? असंखेज्जदि० । दोवेदणीय-सत्तणोक० मणुसोघं । णवरि वेदणीयअबंधगा णत्थि । तिण्णियायुबंधगा सव्व० केव० ? अणंतभागो । सव्वपंचमण० तिण्णिवचि० केव० । असंखेज्जदि० । अबंधगा सव्व० केव० ? अणंतभागो । सव्वपंचमण० तिण्णिवचि० केव० ? असंखेज्जा भागा । तिरिक्खायु सादभंगो । चटुआयु० साधारणेण सादभंगो । णिरयगदिवंधगा सव्व० केवडि० ? अणंतभागो । सव्वपंचमण० तिण्णिवचि० केव० ? असंखेज्ज० । अबंधगा सव्व० केव० ? अणंतभागो । सव्वपंचमण० तिण्णिवचि० केव० ? असंखेज्जा भागा । तिरिक्खगदि असादभंगो । मणुसदेवगदि सादभंगो । चटुण्णं गदीणं बंध० सव्व० केव० ? अणंतभागो । सव्वपंचमण० तिण्णिवचि० केव० ? असंखेज्जा भा० । अबंधगा सव्व० केव० ? अणंतभागो । सव्वपंचमण० तिण्णिवचि० केव० ? असंखेज्जदिभागो । णिरयगदिभंगो तिण्णिजादि-आहारदुर्गं णिरयाणुपु० सुहुमअप० साधारण० तित्थयरं च । तिरिक्खगदिभंगो एइदि० ओरालि० हुंडसंठा० तिरिक्खाणु० थावर-अथिरादिपंचणीचागोदाणं च । देवगदिभंगो पंचिदिय० वेगुव्विय० पंचसंठाणं ओरालियअंगो०

कषाय, भय-जुगुप्सा, तैजस-कर्मण, घर्ण ४, अगुरुलघु ४, निर्माण तथा ५ अन्तरायके बन्धक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । पाँच मनोयोगियों और तीन वचनयोगियोंके कितने भाग हैं ? असंख्यात बहुभाग हैं । अबन्धक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । पाँच मनोयोगी और तीन वचनयोगियोंके कितने भाग हैं ? असंख्यातवें भाग हैं । दो वेदनीय, ७ नोकषाय (भय-जुगुप्साको छोड़कर) का मनुष्योंके ओघवत् जानना चाहिए । विशेष, यहाँ वेदनीयके अबन्धक नहीं हैं । नरक-मनुष्य-देवायुके बन्धक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । सम्पूर्ण पाँच मनोयोगी और तीन वचनयोगियोंके कितने भाग हैं ? असंख्यातवें भाग हैं । अबन्धक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं ? सर्व पंच मनोयोगी और तीन वचनयोगियोंके कितने भाग हैं ? असंख्यात बहुभाग हैं । तिर्यचायुका साताके समान भंग जानना चाहिए । चार आयुका सामान्यसे साताके समान भंग है । नरकगतिके बन्धक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । सर्व पंच मनोयोगी और तीन वचनयोगियोंके कितने भाग हैं ? असंख्यातवें भाग हैं । अबन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । सर्व पंच मनोयोगी और तीन वचनयोगियोंके कितने भाग हैं ? असंख्यात बहुभाग हैं । तिर्यचगतिका असाताके समान भंग है । मनुष्यगति, देवगतिका साताके समान भंग है । चारों गतिके बन्धक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । सर्वपंच मनोयोगी और तीन वचनयोगियोंके कितने भाग हैं ? असंख्यात बहुभाग हैं । अबन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । सर्व पंचमनोयोगी और ३ वचनयोगियोंके कितने भाग हैं ? असंख्यातवें भाग हैं । तीन जाति, आहारकट्टिक, नरकानुपूर्वी, सूक्ष्म, अपर्याप्तक, साधारण, तीर्थकरका नरकगतिके समान भंग हैं । एकेन्द्रिय, औदारिक शरीर, हुण्डकसंस्थान, तिर्यचानुपूर्वी, स्थावर, अस्थिरादि ५ तथा नीचगोत्रका तिर्यचगतिके समान भंग हैं । पंचेन्द्रिय

वेगुन्वि० अंगो० छस्संध० दोआणु० आदाउजो० दोविहाय-तस-थिरादिल्लक-दुस्सर-
उच्चागोटं च । बादरपज्जत्तपत्तेयसरीरं बंधगा सव्व० केव० ? अणंतभागो । सव्व-पंचमण-
तिण्णवचि० केव० ? असंखेज्जा भागा । अवंधगा सव्व० केव० ? अणंतभागो । सव्व-
पंचमण-तिण्णवचि० केव० ? असंखेज्जदिभागो । साधारणेण पंचजादि-दोसरीर-छसंठा०
चदुआणु० तस-थावरादि-णवयुगल-दोगोदानं च गदीणं भंगो । दोअंगो० छसंध-
दोविहाय० दोसर० साधारणेण सादभंगो ।

१६०. वचिजोगि-असच्चमोसवचिजोगीणं तसपज्जत्तभंगो । णवरि साधारणेण
वि वेदणीयभंगो । अवंधगा णत्थि । कायजोगि ओवं । किंचि विसेसो । वेदणीयाणं
बंधगा सव्वजी० केव० ? अणंतभागो (गा) । अवंधगा णत्थि । ओरालियकायजोगि-
धुविगाणं बंधगा सव्वजी० के० ? संखेज्जा भागा । सव्वजी० ओरालि० ? अणंतभागो ।
अबंधगा सव्वजी० केव० ? अणंतभागो । सव्वजी० ओरालि० केव० ? अणंतभागो ।
वेदणीयं एइंदियभंगो । इत्थि० पुरिस० पत्तेगेण सादभंगो । णयुंस० असादभंगो ।
तिण्णि वेदाणं बंधगा सव्वजी० केव० ? संखेज्जदि(ज्जा)भागो । सव्वजी० ओरालि

जाति, वैक्रियिक शरीर, ५ संस्थान, औदारिक अंगोपांग, वैक्रियिक अंगोपांग, ६ संहनन, २
आनुपूर्वा, आतप, उद्योत, २ विहायोगति, त्रस, स्थिरादिपट्क, दुस्वर तथा उच्चगोत्रका देव-
गतिके समान भंग है । बादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीरके बन्धक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ?
अनन्तवें भाग हैं । सर्व पंच मनोयोगी और ३ वचनयोगियोंके कितने भाग हैं ? असंख्यात
बहुभाग हैं । अवन्धक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । सर्व पंचमनोयोगी, तीन
वचनयोगियोंके कितने भाग हैं ? असंख्यातवें भाग हैं । सामान्यसे ५ जाति, २ शरीर, ६
संस्थान, ४ आनुपूर्वा, त्रस-स्थावरादि ६ युगल, और दो गोत्रोंका गतिके समान भंग है । दो
अंगोपांग, ६ संहनन, २ विहायोगति, २ स्वरका सामान्यसे साताके समान भंग है ।

१६०. वचनयोगियोंमें - असत्यमृपावचनयोगियोंमें - त्रस पर्याप्तकोंके समान भंग है ।
विशेष, साधारणसे भी वेदनीयके समान भंग हैं ; अवन्धक नहीं है । काययोगियोंमें -
ओषवन्त जानना चाहिए । कुछ विशेषता है । वेदनीयोंके बन्धक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ?
अनन्तवें भाग हैं ; अवन्धक नहीं हैं ।

विशेषार्थ—'अनन्त बहुभाग' पाठ उचित प्रतीत होता है, क्योंकि कामयोगी सर्वजीवों-
के अनन्त बहुभाग कहे गये हैं ।

औदारिक काययोगियोंमें ध्रुव प्रकृतियोंके बन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ?
संख्यात बहुभाग हैं । सर्व औदारिक काययोगियोंके कितने भाग हैं ? अनन्त बहुभाग हैं ।
अवन्धक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । सर्व औदारिक काययोगियोंके
कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । वेदनीयका एकेन्द्रियके समान भंग जानना चाहिए ।
प्रत्येकसे स्त्रीवेद, पुरुषवेदका साताके समान भंग है । ननुंसकवेदका असाताके समान
भंग है । तीनों वेदोंके बन्धक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? संख्यात बहुभाग हैं । सर्व

१. कायजोगी सव्वजीवाणं केवडिओभागो ? अणंता भागा ॥ -सु० वं०, भागाभा०, ३७, ३८ ।

२. ओरालियकायजोगी सव्वजीवाणं केवडिओ भागो ? संखेज्जा भागा । ३९, ४० ।

सरीरं० केव० ? अणंतभागा । अबंधगा सव्वजी० केव० ? अणंतभागो । सव्व० ओरालि० केव० ? अणंतभागो । एवं सव्वानं पत्तेगेण तिरिक्खोघं भाणिदूण साधारणेण वेदभंगो कादव्वो ।

१६१. ओरालियमिस्सं—धुविगाणं बंधगा सव्वजी० केव० ? संखेज्जदिभागो । सव्वओरालियमिस्स केव० ? अणंतभागा । अबंधगा सव्वजी० केव० ? अणंतभागो । सव्वओरालिमिस्स केव० ? अणंतभागा (अणंतभागो) । वेदणीयं पत्तेगेण साधारणेण वि सुहुम-अपज्जत्तभंगो । इत्थि० पुरिस० पत्तेगेण सादभंगो । णवुंस० असादभंगो । साधारणेण धुविगाणं भंगो कादव्वो । देवगदि०४ तित्थयरं बंधगा सव्वजी० केव० ? अणंतभागो । सव्व ओरालियमिस्साणं केव० ? अणंतभागो । अबंधा सव्वजी० केव० ? संखेज्जदिभागो । सव्वओरालियमिस्साणं केव० ? अणंतभागो (गा) । एवं पत्तेगेण साधारणेण वि वेदभंगो । दोआयुछस्संघ-दोविहा० पत्तेगेण साधारणेण वि सादभंगो । णवरि मणुसायु सुहुम-अपज्जत्तभंगो । वेउच्चि० वेउच्चियमि० देवोघं । आहार०

औदारिक काययोगियोंके कितने भाग हैं ? अनन्त बहुभाग हैं । अबन्धक सर्वाजीवोंके कितने भाग हैं । अनन्तवें भाग हैं । सर्वा औदारिक काययोगियोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । इस प्रकार सम्पूर्ण प्रकृतियोंका प्रत्येकसे तिर्यकोंके ओघवत् कहकर वेदके समान सामान्यसे भंग करना चाहिए ।

१६१. औदारिकमिश्र काययोगियोंमें—ध्रुव प्रकृतियोंके बन्धक सर्वाजीवोंके कितने भाग हैं ? संख्यातवें भाग हैं (?) सर्वा औदारिकमिश्र काययोगियोंके कितने भाग हैं ? अनन्त बहुभाग हैं । अबन्धक सर्वाजीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । सर्वा औदारिक-मिश्र काययोगियोंके कितने भाग हैं ? अनन्त बहुभाग (?) हैं ।

विशेष-यहाँ 'अनन्तवें भाग' पाठ प्रतीत होता है ।

प्रत्येक तथा सामान्यसे वेदनीयका सूक्ष्म-अपर्याप्तकोंके समान भंग है । स्त्रीवेद, पुरुषवेदका प्रत्येकसे साताके समान भंग है । नपुंसकवेदका असाताके समान भंग है । सामान्यसे वेदोंका ध्रुव प्रकृतियोंके समान भंग है । देवगति ४ तथा तीर्थकरके बन्धक सर्वाजीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । सर्वा औदारिकमिश्र काययोगियोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । अबन्धक सर्वाजीवोंके कितने भाग हैं ? संख्यातवें भाग हैं । सम्पूर्ण औदारिकमिश्र काययोगियोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं (?) ।

विशेष-यहाँ 'अनन्तबहुभाग' पाठ उपयुक्त प्रतीत होता है । कारण देवगति ४, तीर्थकरके अबन्धक जीव बन्धकोंकी अपेक्षा अधिक होंगे । इनके बन्धक जीव जब कि औदारिकमिश्र काययोगियोंके अनन्तवें भाग हैं, तब अबन्धकोंकी गणना इनसे अधिक अवश्य होनी चाहिए ।

इस प्रकार प्रत्येक तथा सामान्यसे वेदोंके समान भंग जानना चाहिए । दो आयु, ६ संहनन, दो विहायोगतिका प्रत्येक तथा साधारणसे भी सातावेदनीयके समान भंग है । विशेष, मनुष्यायुका सूक्ष्म अपर्याप्तकोंके समान भंग है ।

१. ओरालियमिस्सकाययोगी सव्वजीवानं केवडिओ भागो? संखेज्जदिभागो ॥ -४१, ४२ सु० बं० ।

आहारमि० सव्वद्वभंगो । णवरि असंजदपगदीओ णत्थि ।

१६२. कम्मइ०—धुविगाणं वंधगा सव्वजी० केव० ? असंखेज्जदिभागो । सव्व-
कम्मइ० केव० ? अणंतभागा । अवंधगा सव्वजी० केव० ? अणंतभागी । सव्वकम्मइ०
केव० ? अणंतभागो । सादबंधगा सव्वजी० केव० ? असंखेज्जदिभागो । सव्वकम्मइ०
केव० ? संखेज्जदिभागो । अवंधगा सव्वजी० केव० ? असंखेज्जदिभागो । सव्वकम्मइ०
केव० ? संखेज्जदिभागो (संखेज्जा भागा) । असादं पडिलोमेण भाणिदव्वं । दोणं
वेदणीयाणं वंधगा सव्वजी० केव० ? असंखेज्जा भागो (असंखेज्जदिभागो) । अवंधगा
णत्थि । इत्थि० पुरिस० सादभंगो पत्तेगेण । णवुंस० असादभंगो । साधारणेण
धुविगाणं भंगो । देवगदि०४ तित्थय० वंधगा सव्वजी० केव० ? अणंतभागो ।
सव्वकम्मइ० केव० ? अणंतभागो । अवंधगा सव्वजी० केव० ? असंखेज्जदिभागो ।
सव्वकम्मइ० केव० ? अणंतभागा । साधारणेण धुविगाणं भंगो कादव्वो । ओरालिय-

वैक्रियिक-वैक्रियिकमिश्रकाययोगमें-देवोंके ओघवत् है । आहारक, आहारकमिश्र-
काययोगमें-सर्वार्थसिद्धिके समान भंग जानना चाहिए । विशेष, यहाँ असंयत अवस्थावाली
प्रकृतियाँ नहीं हैं ।

१६२. कार्मण काययोगियोंमें-ध्रुव प्रकृतियोंके बन्धक सर्वा जीवोंके कितने भाग हैं ?
असंख्यातवें भाग हैं । सम्पूर्ण कार्मण काययोगियोंके कितने भाग हैं ? अनन्त बहुभाग हैं ।
अबन्धक सर्वाजीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । सर्वा कार्मण काययोगियोंके कितने
भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । साता वेदनीयके बन्धक सर्वाजीवोंके कितने भाग हैं ? असंख्या-
तवें भाग हैं । सर्वाकार्मण काययोगियोंके कितने भाग हैं ? संख्यातवें भाग हैं । अबन्धक
सर्वा जीवोंके कितने भाग हैं ? असंख्यातवें भाग हैं । सर्वाकार्मण काययोगियोंके कितने भाग
हैं ? संख्यातवें भाग हैं (?)

विशेष—यहाँ अबन्धक सर्वा कार्मण काययोगियोंकी संख्या 'संख्यात बहुभाग' उचिन
प्रतीत होती है ।

असाता वेदनीयका सातासे विपरीत क्रम जानना चाहिए । दोनों वेदनीयोंके बन्धक
सर्वाजीवोंके कितने भाग हैं ? असंख्यातवें भाग हैं ; अबन्धक नहीं हैं ।

विशेष—यहाँ कार्मण काययोगमें दोनों वेदनीयके बन्धक सम्पूर्ण जीवोंके 'असंख्यातवें
'भाग' उपयुक्त प्रतीत होते हैं । क्योंकि इस योगवालोंकी संख्या सर्वाजीव राशिकी असंख्यातवें
भाग कही गयी है ।

स्त्रीवेद, पुरुषवेदमें प्रत्येकसे साताके समान भंग है । नपुंसकवेदमें असाताका भंग
है । सामान्यसे वेदोंका ध्रुव प्रकृतियोंके समान भंग जानना चाहिए । देवगति ४, तीर्थकरके
बन्धक सर्वाजीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । सर्वा कार्मण काययोगियोंके कितने
भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । अबन्धक सर्वाजीवोंके कितने भाग हैं ? असंख्यातवें भाग हैं ।
सर्वाकार्मण काययोगियोंके कितने भाग हैं ? अनन्त बहुभाग हैं । सामान्यसे ध्रुव प्रकृतियोंके

१. कम्मइयकायजोगी सव्वजीवाणं केवडिओ भागो ? असंखेज्जदिभागो । -खु० ब०, भा० ४३, ४४ ।

अंगो० छसंब० दोविहा० दोसर० पत्तेगेण साधारणेण वि सादभंगो । सेसाणं परियत्तियाणं वेदभंगो ।

१६३. इत्थिवेदेसु—पंचणा० चदुदंसणा० चदुसंज० पंचंत० बंधगा सव्वजी० केव० ? अणंतभागो । अवंधगा णत्थि । पंचदंस० मिच्छत्त-वारसक० भयदु० तेजाक० वण०४ अगु० उप० णिमि० बंधगा सव्वजी० केव० ? अणंतभागो । सव्व-इत्थिवेद० केव० ? असंखेज्जदि (जा) भागा । अवंधगा सव्वजी० केव० ? अणंतभागो । सव्व-इत्थिवेद० केव० ? असंखेज्जदिभागो । दोवेदणी० तिण्णिवेद-जस-अजस० दोगोदाणं पत्तेगेण साधारणेण वि पंचिदिय-तिरिक्खिणांभंगो । आयुगाणं जोणिणींभंगो । हस्सरदि-तिण्णिगदि-चदुजादि-वेगुव्विय० पंचसंठा० दोअंगो० छसंब० तिण्णि-आणु० आदाउज्जो० दोविहा० तस-सुहुम-अपज्जत्त-साधारण-थिरादि-पंच-दुस्सर-उच्चगागोदं च पत्तेगेण साद-भंगो । अरदि-सोग-तिरिक्खिगदि-एइंदिय-ओरालिय-हुंडसंठा०-तिरिक्खाणु० परघादुस्सा० थावर वादर-पज्जत्त-पत्तेय-सरीर-अथिरादि०४ णीचागोदं च असादभंगो । एवं पत्तेगेण साधारणेण पंचिदियभंगो । आहारदुगं तित्थयरं च पंचिदियभंगो । तिण्णिअंगो० छसंब० दोविहा० सुस्सर-दुस्सर-साधारणेण सादभंगो । एवं पुरिसवेदस्स वि ।

भंग है । औदारिक अंगोपांग, छह संहनन, दो विहायोगति, दो स्वरके बन्धकोंका प्रत्येक तथा सामान्यसे साता वेदनीयके समान भंग जानना चाहिए । शेष परिवर्तमान प्रकृतियोंका वेदके समान भंग है ।

१६३. स्त्रीवेदमें—५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, ४ संज्वलन, ५ अंतरायके बन्धक सर्व-जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं; अबन्धक नहीं हैं । ५ दर्शनावरण, मिध्यात्व, १२ कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजस-कार्मण शरीर, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माणके बन्धक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं ? सर्वस्त्रीवेदियोंके कितने भाग हैं ? असंख्यात बहुभाग हैं । अबन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । सर्वस्त्रीवेदियोंके कितने भाग हैं ? असंख्यातवें भाग हैं । दो वेदनीय, ३ वेद, यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति तथा २ गोत्रके प्रत्येक तथा सामान्यसे पंचेन्द्रिय तिर्यचिनीके समान भंग है । आयुओंमें योनिमतीके समान भंग है । हास्य, रति, तीन गति, चार जाति, वैक्रियिक शरीर, ५ संस्थान, दो अंगोपांग, ६ संहनन, तीन आनुपूर्वी, आतप, उद्योत, दो विहायोगति, त्रस, सूक्ष्म, अपर्याप्तक, साधारण, स्थिरादि पाँच, दुस्वर तथा उच्चगोत्रका प्रत्येकसे साताके समान भंग है । अरति, शोक, तिर्यचगति, एकेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, हुंडक संस्थान, तिर्यचानुपूर्वी, परघात उच्छ्वास, स्थावर, वादर, पर्याप्तक, प्रत्येक, शरीर, अस्थिरादि ४ तथा नीच गोत्रके बन्धकके असाता वेदनीयके समान भंग है । प्रत्येक तथा सामान्यसे पंचेन्द्रियके समान भंग है । आहारकद्रिक तथा तीर्थकरका पंचेन्द्रियके समान भंग है । तीन अंगोपांग, ६ संहनन, दो विहायोगति, सुस्वर, दुस्वरका सामान्यसे साताके समान भंग है ।

पुरुषवेदमें—स्त्रीवेदके समान भंग है ।

१. वेदाणुवादेण इत्थिवेदा पुरिसवेदा अवगदवेदा सव्वजीवाणं केवडिओभागो ? अणंतो भागो—॥-खु० बं०, भा० सू० ४५, ४६ ।

१६४. णवुंसगवेदस्स-पंचणा० चदुदंसणा० चदुसंज० पंचंत० बंधगा सव्व० केव० ? अणंतभागा । अबंधगा णत्थि । पंचदंस० मिच्छत्त० वारसक० भयदु० तेजाक० वण्ण०४ अगु० उप० णिमि० बंधगा सव्वजी० केव० ? अणंतभागा । सव्वणवुंसग-वेदाणं केव० ? अणंतभागा । अबंधगा सव्वजी० केव० ? अणंतभागो । सव्वणवुंसग० केव० ? अणंतभागो । दो-वेयणी० तिण्णिवेद० जस० अजस० दोगोदं च पत्तेगेण साधारणेण च तिरिक्खोर्धं । हस्सरदि-अरदिमोगाणं पत्तेगेण तिरिक्खोर्धं । साधारणेण थीणगिद्धिभंगो । आयुचत्तारि वि तिरिक्खोर्धं । एवं णाम-पगडीणं परिचत्तमाणीणं पत्तेगेण तिरिक्खोर्धं । साधारणेण थीणगिद्धिभंगो । णवरि अंगोवं० संघड० विहाय० सरणामाणं सादभंगो ।

१६५. अवगदवेदसु-पंचणा० चदुदंसणा० सादावे० चदुसंज० जसगि० उच्चागो० पंचंत० बंधगा सव्वजी० केव० ? अणंतभागो । सव्वअवगदवे० केव० ? अणंतभागो । अबंधगा सव्वजी० केव० ? अणंतभागो । सव्व-अवगदवे० केव० ? अणंतभागा ।

१६६. कोधे-पंचणा० चदुदंसणा० चदुसंज० पंचंत० बंधगा सव्वजी० केव० ? चदुभागो देसुणो । अबंधगा णत्थि । पंचदंस० मिच्छ० वारसक० भयदुगुं० तेजाक०

१६४. नपुंसकवेदमें—५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, ४ संज्वलन, ५ अन्तरायके बन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्त बहुभाग हैं । अबन्धक नहीं हैं । ५ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १२ कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजस-कर्मण शरीर, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माणके बन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्त बहुभाग हैं । सम्पूर्ण नपुंसकवेदियोंके कितने भाग हैं ? अनन्त बहुभाग हैं । अबन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । सर्व नपुंसकवेदियोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । दो वेदनीय, तीन वेद, यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति, २ गोत्रका प्रत्येक तथा सामान्यसे तिर्यचोंके ओघवत् जानना चाहिए । हास्य-रति, अरति-शोकमें प्रत्येकसे तिर्यचोंके ओघवत् भंग है । सामान्यसे स्त्यानगृद्धिके समान भंग है । चार आयुका तिर्यचोंके ओघ-समान भंग है । परिवर्तमान नामकर्मकी प्रकृतियोंका प्रत्येक-से तिर्यचोंके ओघवत् भंग है । सामान्यसे स्त्यानगृद्धिके समान भंग है । विशेष, अंगोपांग, संहनन, विहायोगति तथा स्वरका सातावेदनीयके समान भंग है ।

१६५. अपगतवेदमें—५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, सातावेदनीय, ४ संज्वलन, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र, ५ अन्तरायके बन्धक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । सर्व अपगत-वेदियोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । अबन्धक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । सर्व अपगतवेदियोंके कितने भाग हैं ? अनन्त बहुभाग हैं ।

१६६. क्रोधकषायमें—५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, ४ संज्वलन, ५ अन्तरायके बन्धक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? कुछ कम चार भाग हैं । अबन्धक नहीं हैं । ५ दर्शनावरण,

१. णवुंसगवेदा सव्वजीवाणं केवडिओ भागो ? अणंत भागा । ४७,४८ खु० वं० । २. कसायाणुवादेण कोधकसाई माणकसाई मायकसाई सव्वजीवाणं केवडिओ भागो ? चदुभागो देसुणा । -सू० ४९-५० ।

वण्ण०४ अगु० उप० णिमि० बंधगा सव्वजी० केव० ? चदुभागो देसूणो । सव्वकोधेसु केव० ? अणंतभागा । अबंधगा सव्वजी० केव० ? अणंतभागो । सव्वकोधेसु केव० ? अणंतभागो । सादबंधगा सव्वजी० केव० ? संखेज्जदिभागो । सव्वकोधेसु केव० ? संखेज्जदिभागो । अबंधगा सव्वजी० केव० ? संखेज्जदिभागो । सव्वकोधेसु केव० ? संखेज्जा भागा । असादबंधगा सव्वजी० केव० ? संखेज्जदिभागो । सव्वकोधेसु केव० ? संखेज्जा भागा । अबंधगा सव्वजी० केव० ? संखेज्जदिभागो । सव्वकोधेसु केव० ? संखेज्जदिभागो । दोण्णं वेदणीयाणं बंधगा सव्वजी० केव० ? चदुभागो देसूणो । अबंधगा णत्थि । एवं जस० अज्जस० दोगोदं च । इत्थि० पुरिस० पत्तेगेण सादभंगो । णवुंस० असादभंगो । साधारणेण तिण्णिवेदाणं बंधगा सव्वजी० केव० ? चदुभागा देसूणा । सव्वकोधेसु केव० ? अणंतभागा । अबंधगा सव्वजी० केव० ? अणंतभागो । सव्वकोधेसु केव० ? अणंतभागो । एवं हस्सरदि-दोयुगलं पंचजादि-उत्संठा-तसथावरादि-अट्टयुगल० । तिण्णियायु-बंधगा सव्वजी० केव० ? अणंतभागो । सव्वकोधेसु केव० ? अणंतभागो । अबंधगा सव्वजी० केव० ? चदुभागो देसूणो । सव्वकोधेसु केव० ? अणंतभागो (गा) । एवं दोगदि-दोसरर-दोअंगो-दोआणु० । तित्थय०-तिरिक्खाउ० सादभंगो । चदुण्णं

मिथ्यात्व, १२ कषाय, भय, जुगुप्सा, वैजसनकर्मण, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माणके बन्धक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? कुछ कम चार भाग हैं । सर्वक्रोधियोंके कितने भाग हैं ? अनन्त बहुभाग हैं । अबन्धक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं ? सर्वक्रोधियोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । सातावेदनीयके बन्धक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? संख्यातवें भाग हैं । सर्व क्रोधियोंके कितने भाग हैं ? संख्यातवें भाग हैं । अबन्धक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? संख्यातवें भाग हैं । सर्वक्रोधियोंके कितने भाग हैं ? संख्यात बहुभाग हैं । असातावेदनीयके बन्धक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? संख्यातवें भाग हैं । सर्व क्रोधियोंके कितने भाग हैं ? संख्यात बहुभाग हैं । अबन्धक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? संख्यातवें भाग हैं । सर्वक्रोधियोंके कितने भाग हैं ? संख्यातवें भाग हैं । दोनों वेदनीयोंके बन्धक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? कुछ कम चार भाग हैं ; अबन्धक नहीं हैं । यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति, दो गोत्रोंका इसी प्रकार भंग है । स्त्रीवेद, पुरुषवेदके प्रत्येककी अपेक्षा साताके समान भंग जानना चाहिए । नपुंसकवेदका असाताके समान भंग है । सामान्यसे तीन वेदोंके बन्धक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? कुछ कम चार भाग हैं । सर्वक्रोधियोंके कितने भाग हैं ? अनन्त बहुभाग हैं । अबन्धक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । सर्वक्रोधियोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । हास्य-रति, अरति-शोकमें ५ जाति, ६ संस्थान, त्रस-स्थावरादि आठ युगलमें वेदोंके समान भंग है । तीन आयुके बन्धक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । सर्वक्रोधियोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । अबन्धक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? कुछ कम चार भाग हैं । सम्पूर्ण क्रोधियोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । विशेष— यहाँ अनन्त बहुभाग पाठ उचित प्रतीत होता है । दो गति, २ शरीर, दो अंगोपांग, दो आनु-पूर्वीमें इसी प्रकार जानना चाहिए । तीर्थकर तथा त्रियंचायुका साताके समान भंग है । चारों

आयुगाणं तिरिक्खायुभंगो । तिरिक्खगदि-तिरिक्खगदिपाओ० असादभंगो । मणुस-
गदि-ओरालि० अंगो छस्संवड० मणुसाणु० परघादुस्सा० आदाउज्जो० दोविहा०
दोसर० पत्तेमेण वि साधारणेण वि सादभंगो । चदुगदि-चदुआणु० साधारणेण वेदभंगो ।
ओरालिय० बंधगा सव्वजी० केव० ? चदुभागो देसूणो । सव्वकोधेसु केव० ?
अणंता भागा । अबंधगा सव्वजी० केव० ? अणंतभागो । सव्वकोधेसु केव० ?
अणंतभागो । तिणिसरीराणं साधारणेण वेदभंगो । एवं माणमायावि । लोभेसु-
पंचणा० चदुदंसणा० पंचंतरा० बंधगा० सव्वजी० केव० ? चदुभागो सादिरेयो ।
अबंधगा णत्थि । पंचदंस० मिच्छ० सोलसक० भयदु० तेजाक० वण्ण०४ अगु०
उप० णिभि० बंधगा सव्वजी० केव० ? चदुभागो सादिरेयो । सव्वलोभाणं
केव० ? अणंता भागा । अबंधगा सव्वजी० केव० ? अणंतभागो । सव्वलोभाणं
केव० ? अणंतभागो । सादासादं पत्तेणेण कोधभंगो । साधारणेण दोणं वेदणीयाणं
बंधगा सव्वजी० केव० ? चदुभागो सादिरेयो । अबंधा (धगा) णत्थि । अथवा साद-
बंधगा सव्वजी० केव० ? संखेज्जदिभागो । सव्वलोभे केवडिओ भागो ? संखेज्जदिभागो ।
अबंधगा सव्वजी० केव० ? चदुभागो सादिरेयो । सव्वलोभे केव० ? संखेज्जदिभागो

आयुओंका तिर्यचायुके समान भंग है । तिर्यचगति, तिर्यचानुपूर्वीका असाताके समान भंग
है । मनुष्यगति, औदारिक अंगोपांग, ६ संहनन, मनुष्यानुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, आतप,
उद्योत, २ विहायोगति, दो स्वरका प्रत्येक तथा सामान्यसे साताके समान भंग है ।
चार गति, चार आनुपूर्वीका सामान्यसे वेदके समान भंग है । औदारिक शरीरके बन्धक
सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? कुछ कम चार भाग हैं । सम्पूर्ण क्रोधियोंके कितने भाग हैं ?
अनन्त बहुभाग हैं । अबन्धक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । सम्पूर्ण
क्रोधियोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । तीनों शरीरका साधारणसे वेदके समान
भंग है ? मान तथा मायाकपायमें - क्रोधके समान भंग है । लोभकपायमें - ५ ज्ञानावरण,
४ दर्शनावरण, ५ अन्तरायके बन्धक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? साधिक चार भाग हैं ;
अबन्धक नहीं हैं । पाँच दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १६ कपाय, भय-जुगुप्सा, तैजस-कार्मण,
वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माणके बन्धक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? साधिक चार
भाग हैं । सम्पूर्ण लोभियोंके कितने भाग हैं ? अनन्त बहुभाग हैं । अबन्धक सर्वजीवोंके
कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । सर्वलोभियोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं ।
साता-असाताका प्रत्येकसे क्रोधके समान भंग है । सामान्यसे दोनों वेदनीयोंके बन्धक
सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? साधिक चार भाग हैं ; अबन्धक नहीं हैं । अथवा साताके
बन्धक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? संख्यातवें भाग हैं । सर्वलोभियोंके कितने भाग हैं ?
संख्यातवें भाग हैं । अबन्धक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? साधिक चार भाग हैं । सर्व-
लोभियोंके कितने भाग हैं ? संख्यातवें भाग हैं (?) ।

विशेष - यहाँ अबन्धक सर्वलोभियोंकी संख्यामें 'संख्यात बहुभाग' उपयुक्त प्रतीत
होती है ।

१. लोभकसाई सव्वजीवाणं केवडिओ भागो ? चदुभागो सादिरेयो । - खु० बं०, ५१, ५२ ।

(जाभागा) । असादबंधगा सव्वजी० केव० ? संखेज्जदिभागो । सव्वलोमे केव० ? संखेज्जा भागा । अबंधगा सव्वजी० केव० ? संखेज्जदिभागो । सव्वलोमे केव० ? संखेज्जदिभागो । एवं जस० अजस० दोगोदं च । तिण्णिवे० [हस्तादि] दोयुगल० चदुआयु० चदुगदि-पंचजादि-सव्वसरीर-छस्संठा तिण्णिअंगो० छस्संध० चदुआणु० परघादुस्सा० आदाउज्जो० दोविहाय० तसथावरादिणवयुगलानं कोधभंगो । णवरि यं हि चदुभागे देसुणे तं हि चदुभागो सादिरेयो कादव्वो । एवं णाणत्तं कोधादू० । अकसाई-केवल(ल)णा० केवलदंसणा० सादावे० अवगदवेदभंगो ।

१६७. मदि० सुद०—धुविगाणं मिच्छत्तं वज्ज एइंदियभंगो । मिच्छत्तं सेसाणं च तिरिक्खोघं ।

१६८. विभंगे—धुविगाणं बंधगा सव्वजी० केव० ? अणंतभागो । अबंधगा णत्थि । मिच्छत्त-परघादुस्सा-बादरपज्जत्त-पत्तेयाणं बंधगा सव्वजी० केव० ? अणंत-भागो । सव्वविभंगो केव० ? असंखेज्जा भागा । अबंधगा सव्वजी० केव० ? अणंतभागो । सव्वविभंगे केव० ? असंखेज्जदिभागो । दोवेदणीय-तिण्णिवेदणीय (वेद) सव्वयुगलानं

असाताके बन्धक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? संख्यातवें भाग हैं । सर्वलोभियोंके कितने भाग हैं ? संख्यात बहुभाग हैं । अबन्धक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? संख्यातवें भाग हैं । सर्वलोभियोंके कितने भाग हैं ? संख्यातवें भाग हैं । यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति तथा दो गोत्रोंमें इसी प्रकार भंग हैं । तीन वेद, हास्य, रति, अरति, शोक, चार आयु, चार गति, ५ जाति, सर्व शरीर, ६ संस्थान, तीन अंगोपांग, ६ सहनन, ४ आनुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, दो विहायोगति, त्रस-स्थावरादि ६ युगलका क्रोधके समान भंग जानना चाहिए । विशेष, जहाँ पर देशोन चार भाग हो, वहाँ इसमें साधिक चार भाग कर लेना चाहिए । यही क्रोधसे यहाँ विशेषता है । अकषायी, केवलज्ञानी, केवलदर्शनीमें साता वेदनीयका अपगतवेदके समान भंग है ।

१६७. मत्त्यज्ञान, श्रुताज्ञानमें—मिथ्यात्वको छोड़कर शेषध्रुव प्रकृतियोंका एकेन्द्रियके समान भंग हैं । मिथ्यात्व तथा शेष प्रकृतियोंका तिर्यचोंके ओषवत् भंग हैं ।

१६८. विभंगज्ञानमें^३ ध्रुव प्रकृतियोंके बन्धक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं ; अबन्धक नहीं हैं । मिथ्यात्व, परघात, उच्छ्वास, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकके बन्धक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । सर्वविभंग ज्ञानियोंके कितने भाग हैं ? असंख्यात बहुभाग हैं । अबन्धक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । सर्व विभंगज्ञानियोंके कितने भाग हैं ? असंख्यातवें भाग हैं । दो वेदनीय, तीन वेदनीय (वेद) तथा सम्पूर्ण युगल प्रकृतियोंके प्रत्येक तथा सामान्यसे देवगतिके ओषवत् जानना चाहिए ।

१. अकसाई सव्वजीवाणं केवडिओ भागो ? अणंतो भागो ॥ ५३,४४ - खु० वं० । २. णाणाणुवादेण मदिअण्णाणी-सुदअण्णाणी सव्वजीवाणं केवडिओ भागो ? अणंतो भागो ॥ ५५,५६ खु० वं० । ३. विभंग-णाणी-आभिणिवोहियणाणी-सुदणाणी-ओहिणाणी-मणपज्जवणाणी-केवलणाणी सव्वजीवाणं केवडिओ भागो ? अणंतभागो ॥ सू० ५७,५८ खु० वं० ।

पक्षेण साधारणेण वि देवोर्धं । तिण्णिआयु-दोगदि-तिण्णिजादि-वेगुव्वियअंगोवंगदो-
आणुपुव्वि० सुहुम-अपज्जत्त-साधारण० मणजोगीणं पिरयगदिभंगो । तिरिक्खगदि-
एहंदिय-हुंडसंठाण-तिरिक्खाणुपुव्वि-थावर-अधिरादिपंच-णीचागोदाणं च असादभंगो ।
पंचिदियजादि-ओरालिय० अंगो० छस्संघ० मणुसगदि० मणुसगदि-पाओग्गाणुपु०
आदाउज्जो० दोविहाय० दोसर० पक्षेण साधारणेण वि सादभंगो । ओरालियसरीरस्स
बादरभंगो । केण कारणेण देवगदि-बंधगाणं असंखेज्जदिभागो ? असंखेज्जवासायुगेह
विभंगणाणिवा(रा)सिस्स असंखेज्जदिभागो विभंगे वड्ढि । तदो असंखेज्जवासायुगादो
देवा असंखेज्जगुणा ति ।

१६६. आभि० सुद० ओधिणा०-पंचणा० छदंस० वारसक० पुरिस० भयदु०
पंचिदि० तेजाक० समचदु० वज्जरिस० वण्ण०४ अगु०४ पसत्थवि० तस०४ सुभग-
सुस्सर-आदेज्ज-णिमिण-उच्चागोद पंचंतराहगाणं बंधगा सव्वजी० केव० ? अणंतभागो ।
सव्वबंधगा आभि० सुद०-ओधि० केव० ? असंखेज्जा भागा । अबंधगा सव्वजी०
केव० ? अणंतभागो । सव्वआभिणि०-सुद०-ओधिणा० केव० ? असंखेज्जदिभागो ।
दोवेदणीयं हस्सरदि-दोयुगलं थिरादि तिण्णियुगलं मणजोगिभंगो । दोआयु गदिचदुक्कं ?

विशेष - यहाँ तीन वेदनीयके स्थानमें 'तीन वेद' पाठ संगत प्रतीत होता है ।

३ आयु, २ गति, तीन जाति, वैक्रियिक अंगोपांग, दो आनुपूर्वी, सूक्ष्म, अपर्याप्तक,
साधारणका मनोयोगियोंके नरकगतिके समान भंग है । तिर्यचगति, एकेन्द्रिय जाति, हुंडक-
संस्थान, तिर्यचानुपूर्वी, स्थावर, अस्थिरादि पंचक तथा नीच गोत्रका असाताके समान भंग
है । पंचेन्द्रिय जाति, औदारिक अंगोपांग, ६ संहनन, मनुष्यगति, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी,
आतप, उद्योत, दो विहायोगति तथा दो स्वरका प्रत्येक तथा सामान्यसे भी साताके समान
भंग है । औदारिक शरीरका बादरभंग है ।

शंका - औदारिक शरीरका बादर भंग किस कारणसे देवगतिके बन्धकोंके असंख्यातवें
भाग है ?

समाधान - असंख्यात वर्षकी आयुवालोंमें विभंगज्ञानियोंकी राशिका असंख्यातवें
भाग विभंग ज्ञानमें रहता है, इस कारण असंख्यात वर्षकी आयुवालोंसे देव असंख्यात-
गुणे हैं ।

१६९ आभिनिबोधिक - श्रुत - अवधिज्ञानमें - ५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, १२
कषाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, पंचेन्द्रिय जाति, तैजस-कर्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान,
वज्रवृषभसंहनन, वर्ण ४, अगुरुलघु ४, प्रशस्तविहायोगति, त्रस ४, सुभग, सुस्वर, आदेय,
निर्माण, उरुचगोत्र तथा ५ अन्तरायके बन्धक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग
हैं । सम्पूर्ण आभिनिबोधिक-श्रुत-अवधिज्ञानियोंके कितने भाग हैं ? असंख्यात बहुभाग हैं ।
अबन्धक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । सम्पूर्ण आभिनिबोधिक-श्रुत-
अवधिज्ञानियोंके कितने भाग हैं ? असंख्यातवें भाग हैं । दो वेदनीय हास्य-रति,
अरति-शोक, स्थिरादि तीन युगलोंका मनोयोगियोंके समान भंग है । दो आयु, ४ गति,

आहारदुर्गं तित्थयरं विभंगणानं च देवगदिभंगो । मणुसगदि-पंचगं ध्रुविगणं भंगो ।
पत्तेगेण साधारणेण वि गदिध्रुविगणं भंगो । एवं दोसरीरदोअंगो० दोआणु० ।
एवं ओधिदं० । मणपञ्जव०-मणुसिभंगो । णवरि वेदणीयस्स अबंधगा णत्थि ।
एवं संजदेपि । वेदणीयस्स अबंधगा अत्थि । सामाइ० छेदो०-पंचणा० चदुदंस०
लोभसंजलण-उच्चागोद-पंचंतराइगणं केवडिओ भागो ? अणंतभागो । अबंधगा णत्थि ।
सेसं मणपञ्जवभंगो । परिहार०-आहारकाजोगिभंगो । सुहुमसंप०-पंचणा० चदुदं०
साद० जस० उच्चामो० पंचंत० बंधगा सव्वजी० केव० ? अणंतभागो । अबंधगा णत्थि ।
यथाक्खाद०-सादेबंधगा सव्वजी० केव० ? अणंतभागो । सव्वयथाक्खाद० केव ?
संखेज्जा भागा । अबंधगा सव्वजी० केव० ? अणंतभागो । सव्वयथाक्खाद० केव० ?

आहारकद्विक, तीर्थकरके विभंगज्ञानियोंमें देवगतिके समान भंग हैं । मनुष्यगति ५ के ध्रुव प्रकृतियोंके समान भंग है । प्रत्येक तथा साधारणसे गतिका ध्रुव प्रकृतियोंके समान भंग है । दो शरीर, दो अंगोपांग, दो आनुपूर्विका भी इसी प्रकार जानना चाहिए । अवधिदर्शनमें उपरोक्त ज्ञानत्रयके समान है ।

मनःपर्ययज्ञानमें - मनुष्यनियोंके समान भंग है । विशेष, यहाँ वेदनीयके अबन्धक नहीं हैं । संयतोंमें इसी प्रकार है । विशेष, यहाँ भी वेदनीयके अबन्धक भी हैं ।

सामायिक-छेदोपस्थापना संयममें - ५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, लोभ-संचलन, उच्चगोत्र तथा ५ अन्तरायके बन्धक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । अबन्धक नहीं हैं । शेष प्रकृतियोंका मनःपर्ययज्ञानके समान भंग है ।

परिहारविशुद्धिसंयममें - आहारककाययोगीके समान भंग हैं ।

सूक्ष्म-साम्पराय-संयममें - ५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, सातावेदनीय, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र, ५ अन्तरायके बन्धक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । अबन्धक नहीं हैं ।

यथाख्यात संयममें - साता वेदनीयके बन्धक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । सर्व यथाख्यात संयमियोंके कितने भाग हैं ? संख्यात बहुभाग हैं । अबन्धक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । सर्व यथाख्यात संयमियोंके कितने भाग हैं ? संख्यात बहुभाग हैं (?)

विशेष - यहाँ सर्व यथाख्यात संयमियोंमें अबन्धकोंकी गणना संख्यातवें भाग सम्यक् प्रतीत होती है ।

१. दंसणानुवादेण चक्खुदंसणी - ओहिदंसणी केवलदंसणी सव्वजीवाणं केवडिओ भागो ? अणंत-
भागो । अबक्खुदंसणी सव्वजीवाणं केवडिओ भागो ? अणता भागा ॥ —६३-६६ खु० वं० सू० ।

२. संजमाणुवादेण संजदा सामाइय-छेदोवट्ठावणमुद्धिसंजदा परिहारमुद्धिसंजदा सुहुमसांपरायइयसुद्धि-
संजदा जहाक्खादविहारसुद्धिसंजदासंजदासंजदा सव्वजीवाणं केवडिओ भागो ? अणंतभागो । असंजदा सव्व-
जीवाणं केवडिओ भागो ? अणता भागा ॥ —५९-६२ खु० वं० सू०, पृ. ५१२-१३ ।

संखेज्जा भागा (संखेज्जादिभागो) । संजदासंजदस्स अणुत्तरभंगो । णवरि देवायुतित्थयरं च ओधिभंगो । असंजदा तिरिक्खोघं । तित्थयरं मूलोघं । चक्खुदंसं तसपज्जत्तभंगो । अचक्खुदंसं काजोगिभंगो ।

१७०. किण्णाए-पंचणा० छदंसणा० बारसक० भयदु० तेजाक० वण्ण०४ अगु० उप० णिमि० पंचंतराइगाणं बंधगा सव्वजी० केव० ? तिभागो सादिरेयो । अवंधगा णत्थि । थीणगिद्धि०३ मिच्छत्त० अणंताणु०४ बंधगा सव्वजी० केव० ? तिभागा सादिरेया । सव्वकिण्णाए केव० ? अणंता भागा । अवंधगा सव्वजी० केव० ? अणंतभागो । सव्वकिण्णाए केव० ? अणंतभागो । एवं लोभभंगो पत्तेगेण साधारणेण वि । णवरि दुषगदीणं बंधगा सव्वजी० केव० ? तिभागो सादिरेयो । अवंधा (धगा) णत्थि । एवं परियत्तमाणीणं सव्वाणं । आयुगाणं अंगोवंग-संधडण-विहायगदिसरवज्जाणं पि । एदासिं पत्तेगेण साधारणेण वि सांदभंगो । एवं णीलकाऊणं । णवरि तिभागो देसुणो । तेऊए-पंचणा० छदंसणा० चदुसंज० भयदु० तेजाक० वण्ण०४ अगु०४ बादरपज्जत्ते (?) णिमि० पंचंत० बंधगा सव्वर्जा० केव० ? अणंतभागो । अवंधगा

संयमासंयममें - अनुत्तरवासी देवोंके समान भंग जानना चाहिए । विशेष, देवायु और तीर्थकरप्रकृतिका अवधिज्ञानके समान भंग है । असंयतोंमें - तिर्यचोंके ओघवत् जानना चाहिए । तीर्थकरका मूलके ओघवत् भंग जानना चाहिए ।

चक्षुदर्शनमें—त्रस-पर्याप्तकका भंग है । अचक्षुदर्शनमें काययोगियोंके समान भंग है ।

१७०. कृष्णलेइयामें—५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, १२ कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजस-कर्मण, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण, ५ अन्तरायके बन्धक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? साधिक तीन भाग प्रमाण हैं ; अबन्धक नहीं हैं । स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानु-बन्धी ४ के बन्धक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? साधिक त्रिभाग हैं । सर्व कृष्णलेइयावालोंके कितने भाग हैं ? अनन्त बहुभाग हैं । अबन्धक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । सर्व कृष्णलेइयावालोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । साता-असाताका प्रत्येक तथा सामान्यसे लोभकषायके समान भंग जानना चाहिए । विशेष, साता-असातारूप दो प्रकृतियोंके बन्धक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? साधिक त्रिभाग हैं ; अबन्धक नहीं हैं । इस प्रकार परिवर्तमान सर्व प्रकृतियोंमें जानना चाहिए, किन्तु आयु, अंगोपांग, संहनन तथा विहायोगति तथा स्वरको छोड़ देना चाहिए । इनका प्रत्येक तथा सामान्यसे सातावेदनीयके समान भंग है । नील तथा कापोतलेइयामें - ऐसा ही जानना चाहिए । विशेष, यहाँ देशोन त्रिभाग जानना चाहिए ।

२३६. तेजोलेइयामें—५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, ४ संज्वलन, भय, जुगुप्सा, तैजस-कर्मण शरीर, वर्ण ४, अगुरुलघु ४, बादर, पर्याप्त (प्रत्येक), निर्माण, ५ अन्तरायके

१. लेस्साणुवादेण किण्हलेस्सिया सव्वजीवाणं केवडिओ भागो ? तिभागो सादिरेयो । २. णीललेस्सिया काउलेस्सिया सव्वजीवाणं केवडिओ भागो ? तिभागो देसुणो ॥ ३. तेउलेस्सिया पम्मलेस्सिया सुक्कलेस्सिया सव्वजीवाणं केवडिओ भागो ? अणंतभागो । —सु० बं०, सू० ६७-७२ ।

णत्थि । दोआयु आहारदुगं० तित्थयरं च ओधिभंगो । बारसकसायाणं थीणगिद्धिभंगो । देवगदिचदुक्कं सादभंगो । सेसाणं देवोघं । पम्माए-पंचणाणावरणीय-द्धंसणा० चदुसंजलण० भयदु० पंचिदि० तेजाक० वण्ण०४ अगु०४ तस०४ णिमि० पंचंत० बंधगा सव्वजी० केव० ? अणंतभागो । अवंधगा णत्थि । थीणगिद्धितयं मिच्छत्तं बारसक० सव्वजी० केव० ? अणंतभागो । सव्वपम्माए केव० ? असंखेज्जा भागा । अवंधगा सव्वजी० केव० ? अणंतभागो । सव्वपम्माए केव० ? असंखेज्जदिभागो । दोवेदणी० हस्सादिदोयुगलाणं थिरादितिण्णियुगलाणं तेउभंगो । इत्थि० णवुंस० बंधगा सव्वजी० केव० ? अणंतभागो । सव्वपम्माए केव० ? असंखेज्जदिभागो । अवंधगा सव्वजी० केव० ? अणंतभागो । सव्वपम्माए केव० ? असंखेज्जा भागा । पुरिस० बंधगा सव्वजी० केव० ? अणंतभागो । सव्वपम्माए केव० ? असंखेज्जा भागा । अवंधगा सव्वजी० केव० ? अणंतभागो । सव्वपम्माए केव० ? असंखेज्जदिभागो । तिण्णिवेदाणं सव्व० केव० ? अणंतभागो । अवंधगा णत्थि । एवं णवुंसगभंगो तिण्णि आयु-दोगदि-ओरालि०-पंचसंठा०-ओरालि० अंगो० छस्संध०-दोआणु० उज्जोव० अप्पसत्थ० दूभग-दुस्सर-अणादे० णीचागो० । पुरिस० वेदभंगो देवगदि० वेगुव्वियस० समचदु०

बन्धक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं ; अबन्धक नहीं हैं । दो आयु, आहारकद्विक, तीर्थकरका अवधिज्ञानके समान भंग हैं । बारह कपायोंका स्थानगृद्धिके समान भंग जानना चाहिए । देवगतिचतुष्कका साता वेदनीयके समान भंग हैं । शेष प्रकृतियोंका देवोंके ओघवत् है ।

पद्मालेश्यामें—५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, ४ संज्वलन, भय-जुगुप्सा, पंचेन्द्रिय जाति, तैजस-कर्मण, वर्ण ४, अगुरुलघु ४, त्रस ४, निर्माण, ५ अन्तरायके बन्धक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं ; अबन्धक नहीं हैं । स्थानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, १२ कषायके बन्धक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । सर्वपद्मालेश्यावालोंके कितने भाग हैं ? असंख्यात बहुभाग हैं । अबन्धक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । अबन्धक सर्वपद्मालेश्यावालोंके कितने भाग हैं ? असंख्यातवें भाग हैं । दो वेदनीय, हास्य, रति, अरति, शोक, स्थिरादि तीन युगलोंका तेजोलेश्याके समान भंग हैं । स्त्रीवेद, नपुंसकवेदके बन्धक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । सर्वपद्मालेश्यावालोंके कितने भाग हैं ? असंख्यातवें भाग हैं । अबन्धक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । अबन्धक सर्वपद्मालेश्यावालोंके कितने भाग हैं ? असंख्यात बहुभाग हैं । पुरुषवेदके बन्धक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । सर्वपद्मालेश्यावालोंके कितने भाग हैं ? असंख्यात बहुभाग हैं । अबन्धक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । अबन्धक सर्वपद्मालेश्यावालोंके कितने भाग हैं ? असंख्यातवें भाग हैं । तीन त्रेदोंके बन्धक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं ; अबन्धक नहीं हैं । तीन आयु, २ गति, औदारिक शरीर, ५ संस्थान, औदारिक अंगोपांग, ६ संहनन, २ आनुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्तविहायोगति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय, तीच गोत्रका नपुंसक वेदके समान भंग हैं । देवगति, वैक्रियिक शरीर,

वेउच्चि० अंगो० देवाणुपु० पसत्थ० सुभग-सुस्वर-आदेज-उच्चागोदं च । आहारदुर्ग
 तिस्थयरं देवायुभंगो । साधारणेण वि तिण्णिवेदानं भंगो तिण्णिगदि-दोसरीर-छस्संठा०
 दोअंगो० तिण्णिआणु० दोविहाय० थिरादिद्धयुगलं दोगोदं च । तिण्णिआयु-छस्संघ०
 साधारणेण वि इत्थिभंगो । सुक्काए-पंचणा० छदंसणा० वारसक० भयदु० पंचिदि०
 तेजाक० वण्ण०४ अगु०४ तस०४ णिमि० पंचंत० बंधगा सव्वजी० केव० ? अणंत-
 भागो । सव्वसुक्काए केव० ? असंखेज्जा भागा । अबंधगा सव्वजी० केव० ? अणंतभागो ।
 सव्वसुक्काए केव० ? असंखेज्जदिभागो । थीणगिद्धि०३ मिच्छत्त अणंताणुबंधि०४
 तिस्थयरं बंधगा केव० ? अणंतभागो (अणंतभागो) । सव्वसुक्काए केव० ? संखेज्जदि-
 भागा (गो) । अबंधगा सव्वजी० केव० ? अणंतभागो । सव्वसुक्काए केव० ? संखेज्जा
 भागा । दोवेदणी० हस्सादिदोयुगलं-थिरादितिण्णियुगलं च मणजोगिभंगो । इत्थि०
 णवुंस० पंचसंठा० पंचसंव० अप्पसत्थ० दूभग-दुस्सर अणादेज णीचागोदं च थीणगिद्धि-
 भंगो । पुरिस० पसत्थवि० सुभग सुस्वर-आदेज-उच्चागोदं असादभंगो । दोआयु-
 दोगदि-आहारदु० ओधिभंगो । मणुसगदि०४ बंधगा सव्वजी० केव० ? अणंतभागो ।
 सव्वसुक्काए केव० ? असंखेज्जा भागा । अबंधगा सव्वजी० केव० ? अणंतभागो ।
 सव्वसुक्काए केव० ? असंखेज्जदिभागो । एवं पत्तेणेण साधारणेण वि तिण्णिवेद-दोगदि-

समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिक अंगोपांग, देवानुपूर्वी, प्रशस्तविहायोगति, सुभग, सुस्वर,
 आदेय, उच्चगोत्रका पुरुष वेदके समान भंग है । आहारकद्विक, तीर्थकरका देवायुके समान
 भंग है । तीन गति, दो शरीर, ६ संस्थान, दो अंगोपांग, तीन आनुपूर्वी, २ विहायोगति,
 स्थिरादि छह युगल, दो गोत्रका सामान्यसे वेदत्रयके समान भंग जानना चाहिए । तीन
 आयु, छह संहननका सामान्यसे स्त्रीवेदके समान भंग है ।

शुक्ल लेश्यामें—५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, १२ कषाय, भय, जुगुप्सा,
 पंचेन्द्रिय, तैजस-कार्मणा, वर्ण ४, अगुरुलघु ४, त्रस ४, निर्माण, ५ अन्तरायोंके बन्धक सर्व
 जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । सर्व शुक्ललेश्यावालोंके कितने भाग हैं ?
 असंख्यात बहुभाग हैं । अबन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । सर्व शुक्ल
 लेश्यावालोंके कितने भाग हैं ? असंख्यातवें भाग हैं । स्थानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी
 ४ तथा तीर्थकरके बन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । सर्व शुक्ल लेश्या-
 वालोंके कितने भाग हैं ? संख्यातवें भाग हैं । अबन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अन-
 न्तवें भाग हैं । सर्व शुक्ल लेश्यावालोंके कितने भाग हैं ? संख्यात बहुभाग हैं । दो वेदनीय,
 हास्य-रति, अरति-शोक, स्थिरादि तीन युगलका मनोयोगियोंके समान भंग जानना चाहिए ।
 स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, ५ संस्थान, ५ संहनन, अप्रशस्तविहायोगति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय, नीच
 गोत्रका स्थानगृद्धिके समान भंग है । पुरुष वेद, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय
 तथा उच्चगोत्रका असाताके समान भंग है । दो आयु, दो गति, आहारकद्विकका अवधिज्ञान-
 के समान भंग है । मनुष्य गति ४ के बन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं ।
 सर्व शुक्ल लेश्यावालोंके कितने भाग हैं ? असंख्यात बहुभाग हैं । अबन्धक सर्व जीवोंके कितने
 भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । सर्व शुक्ल लेश्यावालोंके कितने भाग हैं ? असंख्यातवें भाग हैं ।

तिष्णिशरीरछस्संठाणदोअंगो छस्संध ० दोआणुपु ० दोविहाय ० सुभगादि-तिष्णि-युगल-
दोगोदं आभिणि ० भंगो । अट्टपदं तेउ-लेस्सिग-तिरिक्ख-मणुसा ० णवुंसगवेदं ण बंधंति ।
पम्माए ० सुक्के ० इत्थि-णवुंसकवेदं ण बंधंति । भवसिद्धिया ओषभंगो ।

१७१. अब्भवसि-तिष्णिआयु ० वेउन्विद्यल्लक ० बंधगा सव्वजी ० केव ० ?
अणंतभागो । सव्व-अब्भवसिद्धिया केव ० ? अणंतभागो । अबंधगा सव्वजी ० केव ० ?
अणंतभागो । सव्वअब्भवसिद्धिया केव ० ? अणंतभागो (गा) । तिरिक्खायु सादभंगो ।
आयुचत्तारि तिरिक्खायुभंगो । ध्रुवबंधगा सव्वजी ० केव ० ? अणंतभागो । अबंधगा
णत्थि । सेसाणं पगदीणं पत्तेणेण साधारणेण वि पंचिदियतिरिक्खभंगो ।

१७२. सम्मादिट्ठि-खइगसम्मादिट्ठीसु-पंचणा ० छदंसणा ० वारसक ० पुरिस ०
भयदु ० पंचिदि ० तेजाक ० समचदु ० वजरिसह ० वण्ण ० ४ अगु ० ४ पसस्थवि ० तस ० ४
सुभग-सुस्सर-आदेज-णिमिण-तित्थयर-उच्चागोद-पंचंतराइगाणं बंधगा सव्वजी ० केव ० ?

तीन वेद, २ गति, ३ शरीर, ६ संस्थान, २ अंगोपांग, ६ संहनन, २ आनुपूर्वी, दो विहायोगति,
सुभगादि तीन युगल, दो गोट्रका सामान्य तथा पृथक्से आभिनिबोधक ज्ञानके समान भंग है।
अर्थ पद यह है कि तेजोलेइयावाले तिर्यच तथा मनुष्य नपुंसकवेदका बन्ध नहीं करते हैं।
पद्म तथा शुक्ल लेश्यामें स्त्रीवेद तथा नपुंसकवेदका बन्ध नहीं करते हैं।

भव्यसिद्धिकोमें ओषवत् भंग है।

१७१. अबव्यसिद्धिकोमें—३ आयु, वैक्रियिकषट्कके बन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग
हैं ? अनन्तवें भाग हैं। सर्व अबव्यसिद्धिकोके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं। अबन्धक
सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं। सर्व अबव्यसिद्धिकोके कितने भाग हैं ?
अनन्तवें भाग हैं (?)।

विशेष—यहाँ अबन्धक अबव्योंके 'अनन्त बहुभाग' होना उचित प्रतीत होता है।

तिर्यचायुका साता वेदनीयके समान भंग है। ४ आयुका तिर्यचायुके समान भंग
जानना चाहिए। ध्रुव प्रकृतियोंके बन्धक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं ;
अबन्धक नहीं हैं। शेष प्रकृतियोंका प्रत्येक तथा सामान्यसे पंचेन्द्रिय तिर्यचोंके समान
भंग हैं।

विशेषार्थ—भूतबलि श्यामीने भव्यजीवोंको सम्पूर्ण जीवराशिके अनन्तबहुभाग प्रमाण
बताया है तथा अबव्य जीवोंके सम्पूर्ण जीवराशिके अनन्तवें भाग कहा है। इससे अबव्य
जीवोंकी न्यूनता स्पष्ट प्रमाणित होती है।

१७२. सम्यग्दृष्टि-क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंमें—५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, १२ कषाय,
पुरुषवेद, भय-जुगुप्सा, पंचेन्द्रिय जाति, तैजस-कार्मण, समचतुरस्रसंस्थान, वज्रवृषभसंहनन,
वर्ण ४, अगुरुलघु ४, प्रशस्त विहायोगति, त्रस ४, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थकर,

१. भविष्यपुराणवेद भवसिद्धिया सव्वजीवाणं केवडिओ भागो ? अणंतभागो । २. अबवसिद्धिया
सव्वजीवाणं केवडिओ भागो ? अणंतभागो ॥ —सु० बं०, ७३-७६ ।

अणंतभागो । सव्वसम्मादिट्ठि-खइगसम्मादिट्ठि केव० ? अणंतभागो । अबंधगा सव्वजी० केव० ? अणंतभागो । सव्वसम्मादिट्ठि-खइगसम्मादिट्ठि केव० ? अणंतभागो(गा) । एवं सव्वपगदीणं पत्तेणेण साधारणेण वि एस भंगो कादव्वो । वेदगसम्मादिट्ठि-धुविगाणं बंधगा सव्वजी० के० ? अणंतभागो । अबंधगा णत्थि । सेसाणं पत्तेणेण-ओधिभंगो । साधारणेण धुविगाणं भंगो कादव्वो । उवसम०-ओधिभंगो । गवरि विसैसो जाणिदव्व्वा । सासणसम्मा०-धुविगाणं बंधगा सव्वजी० केव० ? अणंतभागो । अबंधगा णत्थि । तिण्णि आयु० देवगदि०४ पत्तेणेण सुक्काए भंगो । सेसाणं पत्तेणेण ओधिभंगो । साधारणेण देवोर्षं । सम्मामिच्छा०-धुविगाणं बंधगा सव्वजी० केव० ? अणंतभागो । अबंधगा णत्थि । दोवेदणीयं हस्सादिदोयुगलं थिरादितिण्णियुगलं देवभंगो । मणुसगदिपंचगं देवगदि०४ सुक्काए भंगो । पत्तेणेण साधारणेण वेदणीयभंगो । मिच्छादिट्ठि मदिभंगो ।

उष्णगोत्र, ५ अन्तरायके बन्धक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । सर्वसम्यग्दृष्टि-क्षायिक सम्यग्दृष्टियोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । अबन्धक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । अबन्धक सर्व सम्यग्दृष्टि क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं (?) ।

विशेष—अबन्धक सर्व सम्यग्दृष्टि-क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंके 'अनन्त बहुभाग' पाठ उचित प्रतीत होता है ।

सामान्य तथा प्रत्येकसे सर्व प्रकृतियोंका इसी प्रकार भंग है ।

वेदकसम्यक्त्वीमें - ध्रुव प्रकृतियोंके बन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं ; अबन्धक नहीं हैं । शेष प्रकृतियोंका प्रत्येकसे अवधिज्ञानके समान भंग है । सामान्यसे ध्रुव प्रकृतियोंका भंग जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—सब सम्यक्त्वियोंकी संख्या समस्त जीवोंके अनन्तवें भाग कही गयी है ।

उपशमसम्यक्त्वीमें—अवधिज्ञानके समान भंग है । इसमें जो विशेषता है, वह जान लेनी चाहिए ।

विशेष—जैसे मनुष्यायु तथा देवायुका बन्ध उपशमसम्यक्त्वमें नहीं होता है । तिर्यचायु तथा नरकायुका बन्ध तो सम्यक्त्वी मात्रके नहीं होगा, कारण नरकायुको बन्ध-व्युच्छिन्ति मिथ्यात्वमें और तिर्यचायुकी सासादनमें ही जाती है ।

सासादनसम्यक्त्वीमें—ध्रुव प्रकृतियोंके बन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं ; अबन्धक नहीं हैं । नरकायुको छोड़कर शेष ३ आयु, देवगति ४ का पृथक् रूपसे शुक्लेश्याके समान भंग है । शेष प्रकृतियोंका प्रत्येकसे अवधिज्ञानवत् भंग है । सामान्यसे देवोंके ओषवत् है ।

सम्यक्त्वमिथ्यात्वीमें—ध्रुव प्रकृतियोंके बन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं ; अबन्धक नहीं हैं । दो वेदनीय, हास्य, रति, अरति, शोक, स्थिरादि तीन युगलका देवके समान भंग है । मनुष्यगतिपंचक, देवगति ४ का शुक्लेश्याके समान भंग है ।

१. सम्मत्ताणुवादेण सम्माइट्ठी खइयसम्माइट्ठी वेदगसम्माइट्ठी उवसमसम्माइट्ठी सासण-सम्माइट्ठी सम्मा-मिच्छाइट्ठी सव्वजीवाणं केवडिओ भागो ? अणंतो भागो । — वही, ७७-७८, पृ. ५१६

णवरि मिच्छत्त-अबंधगा णत्थि । सण्णिमणजोगिभंगो । असण्णिधुविगाणं बंधगा सव्वजी० केव०? अणंता भागा । अबंधगा णत्थि । सेसाणं पगदीणं तिरिक्खोघं ।

१७३. आहारगे-पंचणा० णवदंस० मिच्छत्त० सोलसक० भयदु० तेजाक० वण्ण०४ अगु० उप० णिमि० पंचंत० बंधगा सव्वजी० केव०? असंखेज्जा भागा । सव्वआहारगेषु केव०? अणंता भागा । अबंधगा सव्वजी० केव०? अणंतभागो । सव्वआहारगेषु केव०? अणंतभागो । साद-बंधगा सव्वजी० केव०? संखेज्जदिभागो । सव्व-आहारगेषु केव०? संखेज्जदिभागो । अबंधगा सव्वजी० केव०? संखेज्जा भागा । सव्वआहारगेषु केव०? संखेज्जा भागा । एवं असादं पडिलोमं भाणिदव्वं । दोवेदणीय-बंधगा सव्वजी० केव०? असंखेज्जा भागा । अबंधगा णत्थि । इत्थि० पुरिस० सादभंगो । णवुंस० असादभंगो । तिण्णि वेदाणं बंधगा सव्वजी० केव०? असंखेज्जा भागा । उवरि

प्रत्येक तथा सामान्यसे वेदनीयके समान भंग है । मिथ्यादृष्टिमें-मत्यज्ञानके समान भंग है । विशेष, यहाँ मिथ्यात्वके अबन्धक नहीं हैं ।

विशेषार्थ—मिथ्यात्वी जीवोंकी संख्या सम्पूर्ण जीवराशिके अनन्त बहुभाग कही गयी है । संज्ञीमें-मनोयोगीके समान भंग है । असंज्ञीमें-ध्रुव प्रकृतियोंके बन्धक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं? अनन्त बहुभाग हैं; अबन्धक नहीं हैं । शेष प्रकृतियोंका तिर्यंचोंके ओघवत् भंग है ।

विशेषार्थ—सभी जीवराशि सम्पूर्ण जीवोंके अनन्तवें भाग है तथा असंज्ञी जीव सम्पूर्ण जीवराशिके अनन्तबहुभाग हैं ।

१७३. आहारकमें-५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, भय-जुगुप्सा-तैजस-कर्मणं, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण तथा ५ अन्तरायके बन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं? असंख्यात बहुभाग हैं । सर्व आहारकोंके कितने भाग हैं? अनन्त बहुभाग हैं । अबन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं? अनन्तवें भाग हैं? सर्व आहारकोंके कितने भाग हैं । अनन्तवें भाग हैं । साताके बन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं? संख्यातवें भाग हैं । सर्व आहारकोंके कितने भाग हैं? संख्यातवें भाग हैं । अबन्धक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं? संख्यात बहुभाग हैं । सर्व आहारकोंके कितने भाग हैं? संख्यात बहुभाग हैं । असाताके विषयमें प्रतिलोम क्रम है ।

विशेषार्थ—असाताके बन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं? संख्यात बहुभाग हैं । सर्व आहारकोंके कितने भाग हैं? संख्यात बहुभाग हैं । अबन्धक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं? संख्यातवें भाग हैं । सर्व आहारकोंके कितने भाग हैं? संख्यातवें भाग हैं ।

दो वेदनीयके बन्धक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं? असंख्यात बहुभाग हैं; अबन्धक नहीं हैं । स्त्री, पुरुषवेदमें साता वेदनीयके समान भंग है । नपुंसकवेदमें असाता वेदनीयके समान भंग है । तीन वेदोंके बन्धक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं? असंख्यात बहुभाग हैं ।

१. मिच्छादृष्टी सव्वजीवाणं केवडिओ भागो? अणंता भागा ॥ — ७६, ८०, खु० बं० भा० ।

२. सण्णियाणवादेण सण्णी सव्वजीवाणं केवडिओ भागो? अणंतभागो ॥ — ८१, ८२ । असण्णी सव्वजीवाणं केवडिओ भागो? अणंता भागा १ — ८३, ८४ खु० बं० । ३. आहाराणुवादेण आहार सव्वजीवाणं केवडिओ भागो? असंखेज्जा भागा । — ८५-८६ ।

णाणावरणीयभंगो । तिण्णि-आयु-वेउच्चियच्छकं आहारदुगं तित्थयरं बंधगा सव्वजी० केव० ? अणंतभागो । सव्व-आहार० केव० ? अणंतभागो । अवंधगा सव्वजी० केव० ? असंखेज्जा भागा । सव्व० आहार० केव० ? अणंतभागो (गा) । एवं हस्सादीणं पत्तेगेण साधारणेण वेदभंगो काद्वो । सव्व आयु० अंगोवंगं संघडणं आहार-गदि-सरं मोत्तूण । एदाणं पि सादभंगो पत्तेगेण साधारणेण वि । अणाहारगेषु—पंचणा० णवदंस० मिच्छत्त० सोलसक० भयदु० तेजाक० वण्ण०४ अगु० उप० णिमि० पंचंतराङ्गाणं बंधगा सव्वजी० केव० ? असंखेज्जदिभागो । सव्व-अणाहारका० केव० ? अणंतभागो । अवंधगा सव्वजी० केव० ? अणंतभागो । सव्वअणाहार० केव० ? अणंतभागो । साद-बंधगा सव्वजी० केव० ? असंखेज्जदिभागो । सव्वअणाहारगाणं केव० ? संखेज्जदिभागो । अवंधगा सव्वजी० केव० ? असंखेज्जदिभागो । सव्वअणाहारगेषु केव० ? संखेज्जा

आगे ज्ञानावरणके समान भंग है । तीन आयु, वैक्रियिकषट्क, आहारकद्विक, तीर्थकरके बन्धक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । सर्व आहारकोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । अबन्धक सयजीवोंके कितने भाग हैं ? असंख्यात बहुभाग हैं । सर्व आहारकोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं (?)

विशेष—यहाँ अबन्धकोंका सर्व आहारकोंके 'अनन्त बहुभाग' पाठ उपयुक्त प्रतीत होता है ।

हास्यादि प्रकृतियोंका प्रत्येक तथा साधारणसे वेदके समान भंग है । सर्व आयु, अंगो-पांग, संहनन, आहारकद्विक, विहायोगति तथा स्वरके विषयमें वेदका पूर्वोक्त वर्णन नहीं लगाना चाहिए । इनका प्रत्येक तथा सामान्यसे साताके समान भंग है ।

अनाहारकोंमें—५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १६ कपाय, भय, जुगुप्सा, तैजस-कार्मण, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण तथा ५ अन्तरायके बन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? असंख्यातवें भाग हैं । सर्व अनाहारकोंके कितने भाग हैं ? अनन्त बहुभाग हैं । अबन्धक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । सर्व अनाहारकोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । साताके बन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? असंख्यातवें भाग हैं । सर्व अनाहारकोंके कितने भाग हैं ? संख्यातवें भाग हैं । अबन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? असंख्यातवें भाग हैं । सर्व अनाहारकोंके कितने भाग हैं ? संख्यात बहुभाग हैं । असाताका प्रतिलोम क्रम जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—असाताके बन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? असंख्यातवें भाग हैं । सर्व अनाहारकोंके कितने भाग हैं ? संख्यात बहुभाग हैं । अबन्धक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? असंख्यातवें भाग हैं । सर्व अनाहारकोंके कितने भाग हैं ? संख्यातवें भाग हैं ।

१. अणाहारा सव्वजीवाणं केवडिओ, भागो ? असंखेज्जदिभागो । —८७, ८८—खु० बं०, भागाभा० ।

भागा । असाद-पडिलोमं भाणिद्वं । दोष्णं बंधगाणं णाणावरणीयभंगो । देवगदि०४
तित्थयराणं आहारभंगो । सेसाणि कम्माणि पत्तेणेण साधारणेण य कम्मइगभंगो ।

एवं भागाभागं समत्तं ।

असाता-साताके बंधकोंका ज्ञानावरणके समान भंग है । देवगति ४, तीर्थकरका आहारके समान भंग है । शेष प्रकृतियोंका प्रत्येक तथा साधारणसे कार्मण काययोगीके समान भंग है ।

इस प्रकार भागाभाग-प्ररूपणा समाप्त हुई ।

[परिमाणानुगम-परूवरण]

१७४. परिमाणानुगमेण दुविहो णिदेसो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण-
पंचणाणावरण-णवदंसणावरण-मिच्छत्त-सोलसकसाय-भय-दुगच्छा-तेजाकम्मइश-वण्ण०४
अगु०४ आदा-उज्जोव-णिमिण-पंचंतराइमाणं बंधगा अबंधगा केवडिया ? अणंता ।
सादबंधगाबंधगा केव० ? अणंता । असादबंधा(धगा) अबंधगा केव० ? अणंता ।
दोष्णं वेदणीयाणं बंधा(धगा) अबंधगा अणंता । एवं सत्तणोक० पंचजादि-छसंठाणं
छस्संघ दोविहाय० तसथावरादि-दसयुगलं दोगोदं च । तिण्णि-आयु-वेउच्चियल्लक-
तित्थयरं बंधगा केव० ? असंखेज्जा । अबंधगा केत्तिया ? अणंता । तिरिक्खायु-दोगदि-

[परिमाणानुगम]

१७४. परिमाणानुगमका ओघ और आदेशसे दो प्रकार वर्णन करते हैं ।

विविध मार्गणाओंमें स्थित जीवोंके किस प्रकृतिके बन्धकोंकी कितनी संख्या है, इस बातका ज्ञान परिमाणानुगम प्ररूपणा-द्वारा होता है । 'खुहाबन्धकी धवलाटीकामें वीरसेना-चायेने लिखा है—“पदाओ मग्गणाओ सव्वकालमत्थि, पदाओ च सव्वकालं णत्थित्ति णाणा-जीवभंगविचयाणुगमेण जाणाविथ संपहि मग्गणासु द्विद्वानं पमाणपरूवट्टं दव्वाणिओगहार-मागदं (पृ० २४४)” ये मार्गणाएँ सर्वकाल हैं, ये मार्गणाएँ सर्वकाल नहीं हैं— इस प्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचयाणुगमसे कहकर अब उन मार्गणाओंमें स्थित जीवोंके प्रमाणके निरूपणार्थ द्रव्यानुयोग-द्वारा प्राप्त होता है ।

शंका—क्षेत्रानुगम-प्ररूपणाके पूर्व परिमाणानुगम-प्ररूपणाका कथन क्यों किया गया ?

समाधान—“दव्वपमाणे अणवगदे खेत्तादिअणियोगहारणमधिगमोवाओ णत्थित्ति दव्वाणिओगहारस्स पुव्वणिदेसो कदो ।” (खु० बं०, टीका पृ० २७) द्रव्य प्रमाणके जाने बिना क्षेत्रादि अनुयोग द्वारोंके जाननेका उपाय नहीं है, इससे द्रव्यानुयोगद्वाराका पहले कथन किया है, क्षेत्रादिका कथन बादमें किया गया है ।

ओघसे—५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १६ कपाय, भय, जुगुप्सा, तैजस-कार्मण शरीर, वर्ण ४, अगुरुलघु ४, आतप, उद्योत, निर्माण तथा ५ अन्तरायोंके बन्धक और अबन्धक कितने हैं ? अनन्त हैं । साता वेदनीयके बन्धक और अबन्धक कितने हैं ? अनन्त हैं । असाताके बन्धक-अबन्धक कितने हैं ? अनन्त हैं । दोनों वेदनीयोंके बन्धक-अबन्धक अनन्त हैं । ७ नोकपाय (भय-जुगुप्साको छोड़कर), ५ जाति, ६ संस्थान, ६ संहतन, दो विहायोगति, त्रस स्थावरादिदस युगल और दो गोत्रके बन्धकों-अबन्धकोंका भी इसी प्रकार समझना चाहिए ।

नरक-देव-मनुष्यायु, वैक्रियिकषट्क तथा तीर्थंकर प्रकृतिके बन्धक कितने हैं ? असं-

१. “ओघेण मिच्छाड्ढी दव्वपमाणेण केवडिया ? अणंता ॥”-षट्खं०, २० सू० २ ।

ओरालिय० ओरालि० अंगो० दोआणुपुव्वीणं बंधगा अबंधगा केत्तिया ? अणंता ।
चदुआयु-चदुगदि-दोसरीर-दोअंगो० चदुआणुपुव्वीणं बंधगा अबंधगा केत्तिया ? अणंता ।
आहारदुगस्स बंधगा केत्तिया ? संखेज्जा । अबंधगा केत्तिया ? अणंता ।

१७५. आदेसेण-णिरयेसु-धुविगाणं बंधगा केत्तिया ? असंखेज्जा । अबंधगा
णत्थि । थोणगिद्वि तिग-मिच्छत्त-अणंताणुबंधि०४ तिरिक्खायु-उज्जोव-तित्थयरारणं (?)
बंधगा अबंधगा असंखेज्जा । सादासादबंधगा असंखेज्जा । दोण्णं वेदणीयाणं बंधगा
केत्तिया ? असंखेज्जा । अबंधगा णत्थि । मणुसायुबंधगा केत्तिया ? संखेज्जा । अबंधगा
केत्तिया ? असंखेज्जा । सेसाणं परियत्तमाणियाणं वेदणीयभंगो कादव्वो । एवं
सच्चणेरइगाणं ।

१७६. तिरिक्खेसु-धुविगाणं बंधगा केत्तिया ? अणंता । अबंधगा णत्थि ।
थोणगिद्वि तिग-मिच्छत्त-अट्टकसाय-ओरालियसरीराणं बंधगा केत्तिया ? अणंता ।
अबंधगा असंखेज्जा । सादासादबंधगा-अबंधगा केत्तिया ? अणंता । दोण्णं वेदणीयाणं

ख्यात हैं । अबन्धक कितने हैं ? अनन्त हैं । तिर्यचायु, दो गति (तिर्यच-मनुष्यगति), औदा-
रिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, २ आनुपूर्वी (तिर्यच-मनुष्यानुपूर्वी) के बन्धक-अबन्धक
कितने हैं ? अनन्त हैं । चार आयु, ४ गति, दो शरीर (औदारिक, वैक्रियिक), दो अंगोपांग
(औदारिक-वैक्रियिक अंगोपांग), ४ आनुपूर्विके बन्धक-अबन्धक कितने हैं ? अनन्त हैं ।
आहारकद्विकके बन्धक कितने हैं ? संख्यात हैं । अबन्धक कितने हैं ? अनन्त हैं ।

विशेष—आहारकद्विकके बन्धक अप्रमत्त संयत होते हैं । उनकी संख्या संख्यात है ।

१७५. आदेशसे—नरकगतिमें, ध्रुव प्रकृतियोंके बन्धक कितने हैं ? असंख्यात हैं ।
अबन्धक नहीं है । स्थानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी ४, तिर्यचायु, उद्योत तथा तीर्थ-
करके बन्धक-अबन्धक कितने हैं ? असंख्यात हैं । साता-असाताके बन्धक असंख्यात हैं ।
दोनों वेदनीयके बन्धक कितने हैं ? असंख्यात हैं । अबन्धक नहीं हैं । मनुष्यायुके बन्धक
कितने हैं ? संख्यात हैं । अबन्धक कितने हैं ? असंख्यात हैं । शेष परिवर्तमान प्रकृतियोंमें
वेदनीयके समान भंग जानना चाहिए । सम्पूर्ण नारकियोंमें इसी प्रकार जानना चाहिए ।

१७६. तिर्यचगतिमें—ध्रुव प्रकृतियोंके बन्धक कितने हैं ? अनन्त हैं । अबन्धक नहीं
हैं । स्थानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी ४, अप्रत्याख्यानावरण ४, तथा औदारिक
शरीरके बन्धक कितने हैं ? अनन्त हैं । अबन्धक असंख्यात हैं । साता-असाताके बन्धक-

१. "अपमत्त-संजदा दव्वपमाणेण केवडिया ? संखेज्जा ॥" — षट्खं०, द० सू० ८ ।

२. "घादितिमिच्छकसाया भयतेजमुद्धुगणिमिणवणचओ । सत्तेतालधुवाणं चदुधा सेमाण्यं च दुधा ॥"
—गो० क०, गा० १२४ । ३. "णिरयगईए णेरइएंसु मिच्छाइट्टो दव्वपमाणेण केवडिया ? असंखेज्जा ।"—
षट्खं०, द० सू० १५ । ४. दव्वपमाणानुगमेण गदियाणुवादेण णिरयगदीए णेरइया दव्वपमाणेण केवडिया ?
असंखेज्जा — खु० वं०, टीका, पृ० २४४, सूत्र १, २ । ५. तिरिक्खगदीए तिरिक्खा दव्वपमाणेण
केवडिया ? अणंता — खु० वं०, सू० १४, १५ ।

बंधगा केत्तिया ? अणंता । अबंधगा णत्थि । तिण्णि-आयु० वेउव्वियद्धकं बंधगा केत्तिया ? असंखेज्जा । अबंधगा अणंता । एवं वेदणीय-भंगो सव्वाणं परियत्तमाणियाणं । णवरि चदुआयु-दो अंगो० छस्संध० परघादुस्सा० दोविहा० दोसर०-बंधगा अबंधगा केत्तिया ? अणंता । एवं पंचिंदिय-तिरिक्ख०३ । णवरि असंखेज्जं कादव्वं ।

१७७. पंचिंदिय-तिरिक्ख-अपज्जत्तेसु-धुविगाणं बंधगा असंखेज्जा । अबंधगा णत्थि । सेसाणं पंचिंदिय-तिरिक्खभंगो । एवं सव्वविगल्लिंदिय-सव्वपुट्ठवि० आउ० तेउ० वाउ० बादरवणप्फदिपत्तेय । एइंदिय-वणप्फदि-णियोदाणं एवं चेव । णवरि अणंतं कादव्वं । णवरि मणुसायुबंधगा अबंधगा असंखेज्जा ।

१७८. मणुसेसु-पंचणा० णवदंस० मिच्छत्त० सोलसक० भयदु० तेजाक०

अबन्धक कितने हैं ? अनन्त हैं । दोनों वेदनीयके बन्धक कितने हैं ? अनन्त हैं ; अबन्धक नहीं है । तीन आयु (निर्यंचायुको छोड़कर), वैक्रियिकषट्क (देवगति, देवानुपूर्वी, नरकगति, नरकानुपूर्वी, वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक अंगोपांग) के बन्धक कितने हैं ? असंख्यात हैं ; अबन्धक अनन्त हैं ।

विशेष—आयुत्रिकमें यदि तिर्यंचायु सम्मिलित की जाती, तो बन्धक असंख्यात न होकर अनन्त हो जाते, अतः आयुत्रिकको तिर्यंचायु विरहित समझना चाहिए ।

इस प्रकार सर्व परिवर्तमान प्रकृतियोंमें वेदनीयके समान भंग समझना चाहिए । विशेष यह है कि चार आयु, दो अंगोपांग, ६ संहनन, परघात, उच्छ्वास, दो विहायोगति, दो स्वरके बन्धक-अबन्धक कितने हैं ? अनन्त हैं ।

पंचेन्द्रिय तिर्यंच, पंचेन्द्रिय पर्याप्तक तिर्यंच तथा पंचेन्द्रिय योनिमती तिर्यंचमें इसी प्रकार समझना चाहिए । इतना विशेष है कि यहाँ अनन्तके स्थानमें 'असंख्यात' को ग्रहण करना चाहिए ।

१७७. पंचेन्द्रिय-तिर्यंच-लक्ष्यपर्याप्तकोंमें—ध्रुव प्रकृतियोंके बन्धक असंख्यात हैं अबन्धक नहीं हैं । शेष प्रकृतियोंमें पंचेन्द्रिय-तिर्यंचोंके समान भंग समझना चाहिए । सम्पूर्ण विकलेन्द्रिय, सम्पूर्ण पृथ्वीकायिक, अपृकायिक, तेजकायिक, वायुकायिक, बादर वनस्पति-कायिक प्रत्येकमें ऐसा ही जानना चाहिए । एकेन्द्रिय, वनस्पति निगोदमें भी इसी प्रकार है । विशेष यह है कि असंख्यातके स्थानमें यहाँ 'अनन्त' कहना चाहिए । विशेष, मनुष्यायुके बन्धक, अबन्धक असंख्यात हैं ।

विशेष—यह कथन सामान्यकी अपेक्षा है । तेजकाय, वायुकायमें मनुष्यायुके बन्धा-भावका विशेष नियम यहाँ भी लागू रहेगा ।

१७८. मनुष्योमें—५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय-

१. पंचिंदियतिरिक्ख - पंचिंदियतिरिक्खपज्जत्त - पंचिंदियतिरिक्खजोणणी - पंचिंदियतिरिक्ख - अपज्जत्ता दव्वपमाणेण केवडिया ? असंखेज्जा - खु० बं०, सू० १८, १६ । २. "मणुसगईए मणुस्सेसु मिच्छादिट्ठी दव्वपमाणेण केवडिया ? असंखेज्जा ।" - षट्खं०, द० सू० ४० । "मणुसिणीसु मिच्छादिट्ठी दव्वपमाणेण

वण्ण०४अगु० उप० णिमि० पंचंतरा० बंधगा असंखेज्जा । अबंधगा संखेज्जा सादासाद-
बंधगा अबंधगा असंखेज्जा । दोण्णं पगदीणं बंधगा असंखेज्जा । अबंधगा संखेज्जा । एवं
परियत्तमाणियाणं सव्वाणं । णवरि दोआयु वेउन्वियल्लक्क० । आहारंदुग-तित्थयराणं
बंधगा संखेज्जा । अबंधगा असंखेज्जा । साधारणेण वेदणीयभंगो । छसंघ० दोविहा०
दोसरणं बंधगा अबंधगा पत्तेगेण साधारणेण वि असंखेज्जा । परघादुस्सास-आदाउज्जोवाणं
बंधगा अबंधगा असंखेज्जा । मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु सव्वे भंगा संखेज्जा ।

१७६. देवेसु णिरयोधं । णवरि भवणवासि याध सोधम्मीसाणा त्ति । एइदि०

जुगुप्सा, तैजस-कर्मण शरीर, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपधात, निर्माण तथा ५ अन्तरायोंके
बन्धक असंख्यात, अबन्धक संख्यात हैं। साता-असाताके बन्धक, अबन्धक असंख्यात हैं।
दोनों प्रकृतियोंके बन्धक असंख्यात हैं, अबन्धक संख्यात हैं। सम्पूर्ण परिवर्तमान प्रकृतियोंमें
इसी प्रकार है। दो आयु तथा वैक्रियिकषट्कके विषयमें विशेष है। आहारकद्विक तथा तीर्थ-
कर प्रकृतिके बन्धक संख्यात हैं, अबन्धक असंख्यात हैं। सामान्यकी अपेक्षा वेदनीयके
समान भंग है। ६ संहनन, दो विहायोगति, २ स्वरांके बन्धक, अबन्धक प्रत्येक तथा सामान्य-
से असंख्यात हैं। परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योतके बन्धक, अबन्धक असंख्यात हैं।

मनुष्यपर्याप्तक, मनुष्यनियोंमें—सम्पूर्ण भंग संख्यात हैं।

विशेषार्थ—सुहाबन्धमें मनुष्य पर्याप्त तथा मनुष्यनीके प्रमाणपर इस प्रकार प्रकाश
डाला गया है—मणुस्सपज्जत्ता मणुसिणीओ दव्वपमाणेण केवडिया ? कोडाकोडाकोडोए उवरि
कोडाकोडा-कोडाकोडीए हेट्टुदो छण्हं वग्गाणमुवरि सत्तण्हं वग्गाणं हेट्टुदो” (सूत्र २८, २६)—
मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियाँ द्रव्यप्रमाणसे कितनी हैं ? कोडा-कोडाकोडीसे ऊपर और
कोडाकोडा-कोडाकोडीके नीचे छह वर्गोंके ऊपर व सात वर्गोंके नीचे अर्थात् छठे और सातवें
वर्गके बीचकी संख्या प्रमाण मनुष्य पर्याप्त व मनुष्यनियाँ हैं।

‘धवलाटीकामें लिखा है—यद्यपि इस प्रकार सूत्रमें सामान्य रूपसे ही कहा है, तथापि
आचार्य परम्परागत अतिरुद्ध गुरूपदेशसे पंचम वर्गके घन प्रमाण मनुष्य-पर्याप्त राशि है। इस
प्रकार ग्रहण करना चाहिए। उसका प्रमाण इस प्रकार है—७९२२८१६२५१४२६४३३७५६३५४
३९५०३३६। यह उनतीस अंक प्रमाण मनुष्य पर्याप्तकोंकी संख्या कही गयी है। (खु० बं०
टीका, पृ. २५८।

विशेष—यहाँ लक्ष्यपर्याप्तक मनुष्योंका वर्णन नहीं हुआ है, अतः प्रतीत होता है कि
उस विषयमें पंचेन्द्रियलक्ष्यपर्याप्तक तिर्यचोंके समान भंग होंगे।

१७९. देवगतिमें—नारकियोंके ओघवत् जानना चाहिए। भवतवासियोंसे लेकर

केवडिया ? कोडाकोडोए हेट्टुदो छण्हं वग्गाणमुवरि सत्तण्हं वग्गाणं हेट्टुदो । मणुसिणीसु सासनसम्माइट्टिपहुडि
जाव अजोगिकेवलित्ति दव्वपमाणेण केवडिया ? संखेज्जा ।” - षट्खं०, द० सू० ४८-४९ । १. मणुसगदीए
मणुस्सा मणुसअपज्जत्ता दव्वपमाणेण केवडिया ? असंखेज्जा । खु० बं०, सूत्र २२, २३ । २. “भवणवासिय-
देवेसु मिच्छाइट्टो दव्वपमाणेण केवडिया ? असंखेज्जा ।” - षट्खं०, द० सू० ५७, पृ. २७० ।

पंचिदि० ओरालि० अंगो० छस्संघ० आदा-उज्जोव-दोविहाय० तसथावर-दोसराणं बंधगा
अबंधगा असंखेज्जा । सेसाणं णिरयभंगो । सव्वट्ठे सव्वभंग्गा संखेज्जा ।

१८०. पंचिदि०-तस०२-पंचणा० छदंसणा० अट्टकसाय० भयदु० तेजाक०
वण्ण०४ अगु० उप० णिमि० पंचंतराइगाणं बंधगा केत्तिया ? असंखेज्जा । अबंधगा
केत्तिया ? संखेज्जा । थीणगिद्वितिय-मिच्छत्त-अट्टकसायाणं बंधगा अबंधगा केत्तिया ?
असंखेज्जा । एवं परघादुस्सास-आदाउज्जोव-तित्थयराणं । सादासाद-बंधगा अबंधगा
केत्तिया ? असंखेज्जा । दोण्णं वेदणीयाणं बंधगा केत्तिया ? असंखेज्जा । अबंधगा
संखेज्जा । एवं सेसाणं पगदीणं पत्तेगेण साधारणेण वि वेदणीयभंगो । णवरि चदुआपु
दो अंगो० छस्संघ० दोविहाय० दोसराणं पत्तेगेण साधारणेण वि बंधगा अबंधगा
केत्तिया ? असंखेज्जा । आहारदुगं मणुसोघं ।

सौधर्म ईशान स्वर्ग तक विशेष जानना चाहिए। एकेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय जाति, औदारिक अंगो-
पांग, ६ संहनन, आतप, उद्योत, दोविहायोगति, त्रस, स्थावर तथा दो स्वरके बन्धक अबन्धक
असंख्यात हैं। शेष प्रकृतियोंमें नारकियोंके समान भंग है। 'सर्वार्थसिद्धिमें सम्पूर्ण भंग
संख्यात' है।

विशेषार्थ—'धवलाटीकामें मनुष्यनियोंसे तिगुनी संख्या सर्वार्थसिद्धिके देवांकी कही
गयी है। 'जीवट्टाण'सूत्रमें यह संख्या संख्यात कही है। 'खुदाबन्धकी मुद्रित प्रतिके हिन्दी
अनुवाद (पृ० २६७) में यह संख्या 'असंखेज्जा' कही है। प्रतीत होता है कि 'संखेज्जा' पाठ
सम्यक् होगा। महाबन्धमें संख्या 'संख्यात' कही है।

१८०. पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्तक, त्रस, त्रसपर्याप्तकोंमें—५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण,
८ कषाय अर्थात् प्रत्याख्यानावरण तथा संज्वलन, भय, जुगुप्सा, तैजस, कामण, वर्ण ४,
अगुरुलघु, उपघात, निर्माण तथा ५ अन्तरायोंके बन्धक कितने हैं ? असंख्यात हैं। अबन्धक
कितने हैं ? संख्यात हैं। स्थानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, आठ कषायके बन्धक-अबन्धक कितने
हैं ? असंख्यात हैं। इसी प्रकार परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत तथा तीर्थकरमें भी हैं।
साता-असाताके बन्धक अबन्धक कितने हैं ? असंख्यात हैं। दोनों वेदनीयके बन्धक कितने

१. "सव्वट्ठु सिद्धिमाणवासियदेवा दव्वपमाणेण केवडिया ? संखेज्जा ।"—पट्खं०, ८० सू० ७३ ।
२. देवगदीए देवादव्वपमाणेण केवडिया ? असंखेज्जा । भवणवासियदेवा दव्वपमाणेण केवडिया ?
असंखेज्जा । वाणवेंतरदेवा दव्वपमाणेण केवडिया ? असंखेज्जा । जोदिसिया देवा देवगदिभंगो । सोहम्मीसाण-
कप्पवासियदेवा दव्वपमाणेण केवडिया ? असंखेज्जा । सणक्कुमार जाव सदर-सहस्सारकप्पवासियदेवा ससमपुड-
वीभंगो । आणद जाव अबराइदविमाणवासियदेवा दव्वपमाणेण केवडिया ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ।
सव्वट्ठुसिद्धिमाणवासियदेवा दव्वपमाणेण केवडिया ? असंखेज्जा । —खुदाबन्ध। सव्वट्ठुसिद्धिमाणवासियदेवा
दव्वपमाणेण केवडिया ? संखेज्जा । मणुसिणिरासीदो तिउणमेत्ता हवति ॥ — जीवट्टाण, ताम्रपत्रप्रति पृ०
२८६ । ३. "पंचिदिय-पंचिदियपज्जत्तएमु मिच्छादिट्ठी दव्वपमाणेण केवडिया ? असंखेज्जा ।"—पट्खं०, ८०
सू० ८० । "तसकाइय-तसकाइयपज्जत्तएमु मिच्छादिट्ठी दव्वपमाणेण केवडिया ? असंखेज्जा ।"—पट्खं०,
८० सू० ६८, पु. ३, पृ. ३६०

१८१. एवं पंचमण० पंचवचि० चक्खुदंस० सण्णित्ति । गवरि दोवेदणीएसु अबंधगा णत्थि । काजोगीसु—पंचणा० छदंसणा० अट्ठकसा० भयदु० तेजाक० वण्ण०४ अगु० उप० णिमि० पंचंतराइमाणं बंधगा अणंता, अबंधगा संखेज्जा । थोणमिद्वितिय-मिच्छत्त-अट्ठकसाय-ओरालियसरीराणं बंधगा अणंता, अबंधगा असंखेज्जा । सादासाद-बंधगा अबंधगा अणंता । दोणं वेदणीयाणं बंधगा अणंता । अबंधगा णत्थि । तिण्णिआयु-वेगुन्वियल्लक-आहारदुग-तित्थयरं च ओघं । सेसाणं पत्तेगेण बंधगा अबंधगा अणंता । साधारणेण बंधगा अणंता । अबंधगा संखेज्जा । चटुआयु-दोअंगोवंग-ल्लस्संध० परघा-

हैं? बन्धक असंख्यात हैं, अबन्धक संख्यात हैं ।

विशेष—अयोगकेवली गुणस्थानमें वेदनीययुगलके अबन्धकको अपेक्षा 'संख्यात' प्रमाण कहा है ।

शेष प्रकृतियोंका प्रत्येक तथा सामान्यसे वेदनीयके समान पूर्ववत् भंग जानना चाहिए । विशेष, ४ आयु, दो अंगोपांग, ६ संहनन, २ विहायोगति, २ स्वरके प्रत्येक तथा साधारणसे बन्धक, अबन्धक कितने हैं? असंख्यात हैं । आहारकद्विकके मनुष्योंके ओघवत् हैं अर्थात् बन्धक संख्यात, अबन्धक असंख्यात हैं ।

१८१. पाँच मन, ५ वचनयोग, चक्षुदर्शन और संज्ञीमें इसी प्रकार है । विशेष, यहाँ दो वेदनीयोंमें अबन्धक नहीं होते हैं ।

विशेष—वेदनीय युगलके अबन्धक अयोगकेवली होते हैं, यहाँ इन मार्गणाओंका अभाव है ।

काययोगियोंमें - ५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, ८ कषाय (प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन) भय, जुगुप्सा, तैजस-कार्मण, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण तथा ५ अन्तरायोंके बन्धक अनन्त हैं, अबन्धक संख्यात हैं । स्त्यानगुद्वित्रिक, मिथ्यात्व, ८ कषाय (अनन्तानुबन्धी तथा अप्रत्याख्यानावरण) तथा औदारिक शरीरके बन्धक अनन्त हैं, अबन्धक असंख्यात हैं । साता-असाताके बन्धक और अबन्धक अनन्त हैं । दोनों वेदनीयोंके बन्धक अनन्त हैं, अबन्धक नहीं हैं ।

विशेष—साता और असाता प्रतिपक्षी प्रकृतियाँ हैं । अतः एकके बन्धमें दूसरीका अबन्ध होगा इससे पृथक्-पृथक्के अबन्धक भी अनन्त बताये गये हैं । उभयके यहाँ अबन्धक नहीं होते हैं ।

तीन आयु, वैक्रियिकषट्क, आहारकद्विक तथा तीर्थंकरके बन्धक अबन्धक ओघवत् जानने चाहिए । अर्थात् बन्धक असंख्यात हैं, आहारकद्विकके बन्धक संख्यात हैं, किन्तु अबन्धक अनन्त हैं । शेष प्रकृतियोंके प्रत्येकसे बन्धक, अबन्धक अनन्त हैं । सामान्यसे बन्धक

१. कायजोगि-ओरालियकायजोगि-ओरालियमिस्सकायजोगि-कम्मइकायजोगी दव्वपमाणेण केवडिया ? अणंता ॥ - खु० बं०सु० ६०-६१ । २. इंदियाणुवादेण ईंदिया वादरा मुदुमा पज्जत्ता अपज्जत्ता दव्वपमाणेण केवडिया ? अणंता । बीइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदिय-पिचिंदिय । तस्सेव पज्जत्ता अपज्जत्ता दव्वपमाणेण केवडिया ? असंखेज्जा ॥ - खुदाबन्ध, दव्वपमाणानुगम । वही, पृ. २६७-६६

दुस्सास-आदा।उजोव-दोविहा० दोसराणं बंधगा अबंधगा अणंता । एवं ओरालियकाय-जोगि-अत्रकखुदंसणी-आहारगति । ओरालियमिस्सका०-पंचणा० णवदंस० मिच्छत्त-सोलसक० भयदु० ओरालिय० तेजाक० वण्ण०४ तित्थयराणं (?) [पंचंतराइगाणं] बंधगा अणंता । अबंधगा संखेजा । णवरि मिच्छत्त-अबंधगा असंखेजा । देवगदि०४ तित्थय० बंधगा संखेजा । अबंधगा अणंता । सेसं ओरालिय-काजोगिभंगो । एवं कम्मइगे । णवरि थीणगिद्धि३ मिच्छत्त-अणंताणु०४ अबंधगा असंखेजा । वेउच्चिय-काजोगि-वेउच्चियमिस्स० देवोषं । णवरि वेउच्चियमिस्स० तित्थय० बंधगा संखेजा, अबंधगा असंखेजा । आहार० आहारमिस्स० मणुसभंगो । एवं मणपञ्जव० संजद-

अनन्त हैं, अबन्धक संख्यात हैं । चार आयु, दो अंगोपांग, छह संहनन, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, दो विहायोगति, दो स्वरके बन्धक, अबन्धक अनन्त हैं ।

औदारिक काययोगी, अचक्षुदर्शनी तथा आहारक पर्यन्त इसी प्रकार है ।

औदारिकमिश्र काययोगियोंमें - ५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, औदारिक-तैजस-कार्मण शरीर, वर्ण ४ [तथा पंच अन्तराय] के बन्धक अनन्त, अबन्धक संख्यात हैं ।

विशेष—यहाँ मूलमें आगत 'तित्थयराणं' पाठके स्थानमें '५ अन्तराय' का पाठ उपयुक्त प्रतीत होता है । कारण इसके बाद ही देवगति ४ के साथ तीर्थंकर प्रकृतिका पृथक् रूपसे वर्णन किया गया है । वहाँ तीर्थंकरके बन्धक संख्यात कहे हैं ।

इतना विशेष है कि मिथ्यात्वके अबन्धक असंख्यात हैं । देवगति ४ (देवगति, देवानु-पूर्वा, वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक अंगोपांग) तथा तीर्थंकर प्रकृतिके बन्धक संख्यात हैं, अबन्धक 'अनन्त' हैं । शेष प्रकृतियोंका औदारिक काययोगीके समान भंग है ।

कार्मण काययोगियोंमें इसी प्रकार है । इतना विशेष है कि स्त्यानगृद्धि ३, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी ४ के अबन्धक असंख्यात हैं ।

वैक्रियिक काययोगी तथा वैक्रियिकमिश्र काययोगियोंमें—देवोंके ओघवत् भंग जानना चाहिए । विशेष, वैक्रियिकमिश्र काययोगियोंमें तीर्थंकरके बन्धक संख्यात, अबन्धक असंख्यात हैं ।

आहारक, आहारकमिश्र काययोगमें—मनुष्यके समान भंग जानना चाहिए ।

विशेषाद्ये—आहारक काययोगी ५४ कहे गये हैं । आहारक मिश्रकाययोगी संख्यात कहे गये हैं । धवलाटीकामें लिखा है : "आइरिय-परंपरागद्-उव्वदेसेण पुण सत्ताधीसा जीवा होंति"—आचार्य परम्परासे प्राप्त उपदेश सत्ताईस जीव होते हैं ॥ (सु० बं०, पृ० २८१)

१. "ओरालियमिस्सकायजोगीसु असंजदसम्माइटी-सजोगिकेवली दव्वपमाणेण केवडिया ? संखेज्जा ।" -पट्खं०, ६० सू०-११२-१४। २. "आहारकायजोगीसु पमत्तसंजदा दव्वपमाणेण केवडिया ? चटुवण्णं । आहारमिस्सकायजोगीसु पमत्तसंजदा दव्वपमाणेण केवडिया ? संखेज्जा ।" -पट्खं०, ६० सू० ११६-२०। ३. "आहारकायजोगीसु पमत्तसंजदा दव्वपमाणेण केवडिया ? चटुवण्णं । आहारमिस्सकायजोगीसु पमत्तसंजदा दव्वपमाणेण केवडिया ? संखेज्जा ।" -पट्खं०, ६० सू० ११९-२० ।

सामाह्य० छेदो० परिहार० सुहुमसंप० यथाक्खाद० ।

१८२. इत्थिवेदेसु—पंचणा० चदुदंस० चदुसंज० पंचंतरा० बंधगा असंखेजा । अवंधगा णत्थि । सेसं पंचिदियभंगो । णवरि दोवेदणीय-जस० अजस० दोगोदाणं बंधगा असंखेजा । अवंधगा णत्थि । तित्थयरक्म्मस्स बंधगा संखेज्जा, अवंधगा असंखेजा । एवं पुरिसवेदे । णवरि तित्थयरस्स बंधगा अवंधगा असंखेजा । णवुंस०—पंचणा० चदुदंस० [चदुसंज०] पंचंतराइगाणं० अणंता । अवंधगा णत्थि । सेसं काजोगिभंगो । णवरि जस-अजस० दोगोदाणं अवंधगा णत्थि । एवं कोधादि०४ । णवरि अप्पप्पणो धुविगाणं णादव्वाओ ।

१८३. मदि० सुद०—धुविगाणं बंधगा अणंता ! अवंधगा णत्थि । मिच्छत्तस्स बंधगा अणंता । अवंधगा असंखेजा । सेसं निरिक्खोघं । एवं अज्ज० सिद्धि० मिच्छादि० असणि ति । णवरि मिच्छत्तस्स अवंधगा णत्थि । अवगदवेदेसु—पंचणा०

मनःपर्ययज्ञान, संयत, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्मसाम्पराय, यथाख्यातसंयतमें इसी प्रकार जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—संयत सामायिक छेदोपस्थापन-शुद्धिसंयत कोटि पृथक्त्व प्रमाण हैं । परिहारविशुद्धिसंयत सहस्रपृथक्त्व है । सूक्ष्मसाम्पराय शुद्धिसंयत शतपृथक्त्व है । यथाख्यात-विहारशुद्धिसंयत शत सहस्र पृथक्त्व प्रमाण है ।

१८२. स्त्रीवेदमें—५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, ४ संञ्चलन और ५ अन्तरायके बन्धक असंख्यात हैं, अबन्धक नहीं हैं । शेष प्रकृतियोंका पंचेन्द्रियके समान वर्णन है । विशेष, दो वेदनीय, यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति, दो गोत्रोंके बन्धक असंख्यात हैं; अबन्धक नहीं हैं । तीर्थकर कर्मके बन्धक संख्यात हैं, अबन्धक असंख्यात हैं । पुरुषवेदमें इसी प्रकार है । विशेष, तीर्थकरके बन्धक, अबन्धक असंख्यात हैं । ननुसकवेदमें—५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण [४ संञ्चलन] ५ अन्तरायके बन्धक अनन्त हैं; अबन्धक नहीं हैं । शेष प्रकृतियोंमें काययोगीके समान भंग है । विशेष यह है कि यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति तथा दो गोत्रोंके अबन्धक नहीं हैं । क्रोधादि ४ में इसी प्रकार है । विशेष, अपनी ध्रुव प्रकृतियोंकी विशेषताको यहाँ जान लेना चाहिए ।

१८३. मत्तज्ञान, श्रुताज्ञानमें—ध्रुवप्रकृतियोंके बन्धक अनन्त हैं; अबन्धक नहीं हैं । मिथ्यात्वके बन्धक अनन्त हैं, अबन्धक असंख्यात हैं ।

विशेष—अबन्धक सासादन सम्यक्त्वो जीवोंकी अपेक्षा यह गणना की गयी है ।

शेष प्रकृतियोंका निर्यंचांके ओघवन् भंग जानना चाहिए ।

अभयसिद्धिक, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञीमें इसी प्रकार जानना चाहिए । विशेष, यहाँ

१. मणपज्जवणाणी दव्वपमाणेण केवडिया ? संखेज्जा । केवलणाणी दव्वपमाणेण केवडिया ? अणंता ॥ -खु० वं० । २. मंजमाणवादेण मंजदा सामाह्यच्छेदोवट्ठावण सुद्धि-संजदा दव्वमाणेण केवडिया ? कोटिपुधत्तं । परिहारमुद्धिमंजदा दव्वपमाणेण केवडिया ? सहस्सपुधत्तं । सुहुमसांगइयमुद्धिमंजदा दव्वमाणेण केवडिया ? सइपुधत्तं । जहाक्खादविहारमुद्धिमंजदा दव्वमाणेण केवडिया ? सदसहस्सपुधत्तं । संजदामंजदा दव्वमाणेण केवडिया ? पल्लोवमस्स अमंवेज्जदिमाणो ॥ -खु० वं०, सू० १२८-१३७ ।

चदुदंस० चदुसंज० साद० जस० उच्चागोद० पंचतराङ्गाणं बंधगा संखेजा, अबंधगा अणंता । अकसाइ-सादबंधगा संखेजा, अबंधगा अणंता [एवं] केवलणा० केवलदंस० विभंग० पंचिदिय-तिरिख-भंगो । णवरि किंचि विसेसो जाणिदन्वो । आभिणि० सुद० ओधि०-पंचणा० छदंस० अडुकसाय-पुरिस० भयदु० पंचिदि० तेजाक० समचदु० वण्ण०४ अगुरु०४ पसत्थ० तस०४ सुभग० सुस्सर-आदेज्ज० णिमि० उच्चा० पंचंत० बंधगा० केत्तिया ? असंखेजा । अबंधगा संखेजा । सादासादबंधगा अबंधगा असंखेज्जा । दोणं वेदणीयाणं बंधगा असंखेजा, अबंधगा णत्थि । चदुणोकसायाणं बंधगा अबंधगा असंखेजा । दोणं युगलाणं बंधगा असंखेजा । अबंधगा संखेज्जा । एवं दोगदि-दोसरीर-दोअंगोवंग-दोआणुणुच्चि० थिरादितिणियुग-लाणं । मणुसायु-आहारदुगं बंधगा संखेजा, अबंधगा असंखेजा । अपच्चक्खाणावरण०४ देवायु० वज्जरिसभ० तित्थयराणं बंधगा अबंधगा असंखेज्जा । एवं ओधिदं० उवसम० । णवरि उवसम० तित्थयराणं बंधगा संखेजा, अबंधगा असंखेज्जा ।

मिथ्यात्वके अबन्धक नहीं हैं । अपगतवेदमें—५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, ४ संज्वलन, साता वेदनीय, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र, ५ अन्तरायोंके बन्धक संख्यात हैं । अबन्धक अनन्त हैं । अकषाय जीवोंमें - साताके बन्धक संख्यात हैं, अबन्धक अनन्त हैं । केवलज्ञान, केवल-दर्शनमें इसी प्रकार है । विभंगावधिमें - पंचेन्द्रिय तिर्यचोंका भंग है । इसमें जो किंचित् विशेषता है, उसे जान लेना चाहिए ।

आभिनिबोधक, श्रुतज्ञान, अबधिज्ञानमें—५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, ८ कषाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, पंचेन्द्रिय जाति, तैजस-कर्मण, समचतुरस्र संस्थान, वर्ण ४, अगुरुलघु ४, प्रशस्तविहायोगति, त्रस ४, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, उच्चगोत्र तथा ५ अन्तरायोंके बन्धक कितने हैं ? असंख्यात हैं । अबन्धक संख्यात हैं । साता तथा असाताके बन्धक, अबन्धक असंख्यात हैं । दोनों वेदनीयोंके बन्धक असंख्यात हैं ; अबन्धक नहीं हैं । चार नोकषायों (हास्य-रति, अरति-शोक) के बन्धक, अबन्धक असंख्यात हैं । इन दोनों युगलोंके बन्धक असंख्यात हैं, अबन्धक संख्यात हैं । इस प्रकार दोगति, २ शरीर, २ अंगोपांग, २ आनुपूर्वी तथा स्थिरादि तीन युगलोंमें जानना चाहिए । मनुष्यायु तथा आहारक-द्विकके बन्धक संख्यात, अबन्धक असंख्यात हैं । अपत्याख्यानावरण ४, देवायु, वज्रवृषभ-संहनन तथा तीर्थकर प्रकृतिके बन्धक, अबन्धक असंख्यात हैं । अबधिदर्शन और उपशम सम्यक्त्वमें इसी प्रकार जानना चाहिए । विशेष, उपशम सम्यक्त्वमें तीर्थकरके बन्धक संख्यात, अबन्धक असंख्यात हैं ।

विशेषार्थ—कुछ आचार्योंका मत है कि प्रथमोपशम सम्यक्त्वका काल अह्न होनेसे उसमें तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध नहीं होता है, किन्तु द्वितीयोपशममें तीर्थकर प्रकृतिके बन्धके विषयमें मतभेद नहीं है ।

१. "पहमुवसमिये सम्मे सेसतिमे अवरिदादिचत्तारि । तित्थयरबंधपारंभया णरा केवलिट्ठुगंते ॥"

—गो० क०, गा० ९३ । —प्रथमोपशमसम्यक्त्वे शेष-द्वितीयोपशम-धायोपशमिक-क्षाधिक-सम्यक्त्वेपु च असंयता-द्यप्रमत्तान्तमनुष्या एवं तीर्थकरबंधं प्रारम्भन्ते तेषु प्रत्यक्षकेवलिश्रुतकेवलित्थोपादोपान्त एवं । अत्र प्रथमोपशम-

१८४. संजदासंजद-तित्थयराणं बंधगा संखेज्जा, अबंधगा असंखेज्जा । सेसं बंधा० आयु दो ५० असंखेज्जा (?) । असंजदेसु-धुविगणं बंधगा अणंता, अबंधगा णत्थि । थीणगिद्धितियं मिच्छत्तं अणंताणुवं०४ ओरालियसरीरं बंधगा अणंता । अबंधगा संखेज्जा । तित्थयरं बंधगा असंखेज्जा, अबंधगा अणंता । सेसं तिरिक्खोधं । एवं किण्ण-णील-काऊणं । णवरि किण्ण० णील० तित्थयराणं बंधगा संखेज्जा, अबंधगा अणंता । तेऊए-मणुसायु-आहारदुगं बंधगा संखेज्जा, अबंधगा असंखेज्जा । पच्चक्खाणावरणीय०४ अबंधगा संखेज्जा । सेसाणं असंखेज्जा । एवं पम्माए । णवरि किंचि विसेसो जाणिदब्बो । सुक्काए-मणजोगिभंगो । णवरि दोआयु-आहारदुगं बंधगा संखेज्जा, अबंधगा असंखेज्जा ।

१८५. भवसिद्धिया०-काजोगिभंगो । णवरि वेदणीयस्स अबंधगा संखेज्जा ।

बन्धसामित्तविचयखण्डमें लिखा है कि तीर्थंकर प्रकृतिके बन्धके भवको मिलाकर तासरे भवमें तीर्थंकर प्रकृतिकी सत्तावाला जीव मोक्ष जाता है, ऐसा नियम है । अर्थात् इससे अधिक वह संसारमें भवधारण नहीं करता है ।

१८४. संयतासंयतोमें—तीर्थंकर प्रकृतिके बन्धक संख्यात हैं, अबन्धक असंख्यात हैं ।

विशेष—‘सेसं बंधा० आयु दो० ५० असंखेज्जा’—इस पंक्तिका स्पष्ट भाव समझमें नहीं आया, अतः नहीं लिखा ।

असंयतोमें—ध्रुव प्रकृतियोंके बन्धक अनन्त हैं, अबन्धक नहीं हैं । स्थानगुद्धितिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी ४, औदारिक शरीरके बन्धक अनन्त हैं, अबन्धक संख्यात हैं । तीर्थंकरके बन्धक असंख्यात हैं, अबन्धक अनन्त हैं । शेष प्रकृतियोंमें तिर्यंचोंके ओघवत् जानना चाहिए । कृष्ण, नील, कापोत लेश्यामें इसी प्रकार हैं । विशेष, कृष्ण, नील लेश्यामें तीर्थंकरके बन्धक संख्यात तथा अबन्धक अनन्त हैं । तेजोलेइयामें—‘मनुष्यायु, आहारकद्विकके बन्धक संख्यात, अबन्धक असंख्यात हैं । प्रत्याख्यानावरण ४ के अबन्धक संख्यात हैं । शेष प्रकृतियोंके बन्धक, अबन्धक असंख्यात हैं । पद्मलेइयामें—इसी प्रकार है । इसमें जो कुछ विशेषता है उसे जान लेना चाहिए ।

विशेष—इस लेइयामें तेजोलेइयाकी अपेक्षा एकेन्द्रिय, स्थावर तथा आतपका बन्ध नहीं होता है ।

शुक्ललेइयामें—मनोयोगीके समान भंग है । विशेष, दो आयु, आहारकद्विकके बन्धक संख्यात, अबन्धक असंख्यात हैं ।

१८५. भवसिद्धिकोंमें—काययोगीके समान भंग है । विशेष, यहाँ वेदनीयके अबन्धक संख्यात हैं ।

विशेष—भव्यजीवोंमें अयोगकेवली गुणस्थान भी पाया जाता है, इस अपेक्षा वेदनीयके अबन्धक यहाँ कहे गये हैं ।

सम्पक्त्वे इति भिन्नविभक्तिकरणं तत्सम्पक्त्वे स्तोकांतर्मुहूर्तकालत्वात् षोडशभावना-समूह्यभावात् तद्बन्ध प्रारम्भो न इति केपांचित् पक्षं ज्ञापयति ॥ -संस्कृतटीका, पृ० ७८ । पारद्वित्थयबंधभवादो तदियभवे । तित्थयर संतकम्मियजीवाणं मोक्खगमणनिषमादो ॥ -बंधसामित्तविचय, ताम्रपत्र प्रति पृ० ७५ ।

१. मिच्छस्मंतिमणवयं वारं णहि तेउपम्मेसु ।” -गो० क०, गा० १२०।

सम्मादिष्टि ध्रुविमाणं बंधगा असंखेज्जा, अबंधगा अणता । सेसाणं ध्रुविमाणं भंगो । पत्तेगेण साधारणेण वि मणुसायुआहारदुगं बंधगा संखेज्जा । एवं खइगसम्मादिष्टीणं । णवरि देवायुबंधगा संखेज्जा, अबंधगा अणता । वेदग०—ध्रुविमाणं बंधगा असंखेज्जा ।

विशेषार्थ—भव्यसिद्धिक जीव द्रव्य प्रमाणसे कितने हैं ? इसके उत्तरमें 'खुदाबन्ध' सूत्रमें आचार्य कहते हैं "अणता" (१५६) । अभव्यसिद्धिक जीव भी 'अणता' अनंत कहे गये हैं । 'धवल' टीकामें यह शंका-समाधान दिया गया है:—

शंका - व्ययके न होनेसे व्युच्छित्तिको प्राप्त न होनेवाली अभव्यराशिके 'अनन्त' यह संज्ञा कैसे सम्भव है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि अनन्तरूपके केवलज्ञानके ही विषयमें अवस्थित संख्याके उपचारसे अनन्तपना माननेमें कोई विरोध नहीं आता ।

यद्यपि अभव्य जीवराशि भव्य राशिके समान अनन्त कही गयी है, किन्तु उनमें बहुत अन्तर है । 'गोम्मतसार' जीवकाण्डमें लिखा है :

अवरो जुत्ताणंतो अभव्वरासिस्स होदि परिमाणं ।

तेण विहीणो सव्वो संसारी भव्वरासिस्स ॥५६०॥

अभव्यराशिका परिमाण जघन्य मुक्तानन्त है । उससे रहित संसारी जीवोंकी संख्या प्रमाण भव्य जीवराशि कही है ।

अभव्यराशिको अनन्तगुणा किया जाये, तो सिद्ध राशिके अनन्तवें भाग प्रमाण संख्या आती है । उतना समय प्रबद्धका प्रमाण कहा गया है । कहा भी है:—

'सिद्धाणंतिमभागं अभव्वसिद्धाणंतगुणमेव ।

समयपबद्धं बंधदि जोगविसादो तु विसरित्थं ॥ गो० क०४ ॥

'धवल' टीकामें लिखा है— "सिद्धि-पुरककदा भविया णाम" सिद्धि पुरस्कृत जीवोंको भव्य कहते हैं । 'तत्त्विदीया अभविया णाम' - इसके विपरीत जीवोंको अभव्य कहते हैं । "सिद्धा पुण न भविया, ण च अभविया तत्त्विवरीद-सरुत्तादो" (खु० बं०, पु० २४२) सिद्ध जीव न तो भव्य हैं और न अभव्य हैं, क्योंकि उनका स्वरूप भव्य तथा अभव्यसे विपरीत है । भव्योंकी राशि अक्षय अनन्त कही गयी है । भूतबलि स्वामी कहते हैं: "अणताणंता हि ओसपिणी-उत्सपिणीहि ण अबहिरंति कालेण" (खु० बं०, सू० १५७) भव्यसिद्धिक जीव अनन्तानन्त अवसर्पिणी-उत्सर्पिणी प्रमाणकालसे अपहृत नहीं होते ।

सम्यग्दृष्टियोंमें— ध्रुवप्रकृतियोंके बन्धक असंख्यात हैं ; अबन्धक अनन्त हैं । शेष प्रकृतियोंका ध्रुव प्रकृतिवत् भंग है । प्रत्येक तथा सामान्यसे मनुष्यायु तथा आहारकद्विकके बन्धक संख्यात हैं ।

ध्यायिक सम्यक्त्वियोंमें— इसी प्रकार जानना चाहिए । विशेष, देवायुके बन्धक संख्यात, अबन्धक अनन्त हैं । वेदकसम्यक्त्वमें— ध्रुव प्रकृतियोंके बन्धक असंख्यात हैं,

२. सिद्धराश्यनन्तकभागं, अभव्यसिद्धेभ्योजन्तगुणं तु पुनः योगवशाद् विसदृशं समयप्रबद्धं बध्नाति । समये समये प्रबध्यते इति समयप्रबद्धः ।

ण य जे भव्वाभव्वा मुत्तिमुहातीदणंतसंसारा ।

ते जीवा णायव्वा णेव य भव्वा अभव्वा य ॥ -गो० जी०, ५५६॥

अबंधगा णत्थि । सेसं पत्तेगेण ओधिभंगो । साधारणे अबंधगा णत्थि । आयुवज्ज-
रिसहाणं ओधिभंगो । सासणे-मणुसायुबंधगा संखेज्जा । सेसभंगा असंखेज्जा । सम्मा-
मिच्छे-सव्वभंगा असंखेज्जा । अणाहारगेषु-पंचणा० णवदंस० मिच्छत्त-सोलसक०
भयदु० तेजाक० वण्ण०४ अगुरु०४ आदाउज्जो० णिमि० पंचंतराइगाणं बंधगा अबंधगा
अणंता । सादासादबंधगा अबंधगा अणंता । एवं सेसाणं पि । णवरि देवगदिपंचगं बंधगा
संखेज्जा, अबंधगा अणंता ।

एवं परिमाणं समत्तं

अबन्धक नहीं हैं । शेष प्रकृतियोंका प्रत्येक रूपसे अबधिज्ञानके समान भंग है । सामान्यसे अबन्धक नहीं है । आयु तथा वंशवृषभसंहननका अबधिज्ञानके समान भंग जानना चाहिए । सासादनमें - मनुष्यायुके बन्धक संख्यात हैं । शेष प्रकृतियोंके भंग असंख्यात हैं । सम्यग्मिथ्या-
दृष्टियोंमें - सर्व भंग असंख्यात जानना चाहिए । अनाहारकोंमें - ५ ज्ञानावरण, ६ दर्शना-
वरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजस-कार्मण, वर्ण ४, अगुरुलघु ४, आतप,
उद्योत, निर्माण तथा ५ अन्तरायोंके बन्धक अबन्धक अनन्त हैं । साता-असाताके बन्धक-
अबन्धक अनन्त हैं । इसी प्रकार शेष प्रकृतियोंमें भी जानना चाहिए । विशेष यह है कि
देवगति ५ के बन्धक संख्यात हैं, अबन्धक अनन्त हैं ।

इस प्रकार परिमाणानुगम समाप्त हुआ ।

१. आहारानुवादेण आहारा अणाहारा दव्वपमाणेण केवडिया ? अणंता । अणंताणंताहि ओसप्पिणि
उत्सप्पिणोहि न अबहिरंति कालेण ।

[खेत्ताणुगम-परुवणा]

१८६. खेत्ताणुगमेण दुविहो णिहेसो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण पंचणा० णवदंस० भिच्छत्त-सोलसक० भयदु० तेजाक० वण्ण०४ अगु० उप० णिमि० पेचतराड्ढमाणं वंधा (वंधगा) केवडिखेत्ते ? सब्वलोगे । अबंधगा केवडिखेत्ते ? लोगस्स

[क्षेत्रानुगम]

क्षेत्रानुगम ओघ तथा आदेशसे दो प्रकारसे निर्देश करते हैं ।

विशेषार्थ—जीवादि द्रव्योंका वर्तमान आवासस्थल क्षेत्र हैं । यह नामक्षेत्र, स्थापना-क्षेत्र, द्रव्यक्षेत्र तथा भावक्षेत्रके भेदसे चार प्रकारका है । यहाँ द्रव्यक्षेत्रसे प्रयोजन है । इसके भेद तद्द्रव्यतिरिक्त नोआगमका दूसरा भेद जो नोकर्मद्रव्य है, वह औपचारिक तथा पारमार्थिक भेदयुक्त है । धान्यादिक्षेत्र औपचारिक क्षेत्र हैं, आकाशद्रव्य पारमार्थिक नोकर्म तद्द्रव्यतिरिक्त तो आगम द्रव्य-क्षेत्र है । वीरसेन स्वामीने धवलाढीका (जीवट्टाण भाग ३ पृ० ७) में कहा है, “तत्थ ओवयारियं णोकम्मदव्वखेत्तं लोगपसिद्धं सालिखेत्तं वीहिखेत्तमेवमादि । पारमत्थियं णोकम्मदव्वखेत्तं आगासदव्वं” एवेसु खेत्तेसु केणं खेत्तेण पयदं णोआगमदो दव्वखेत्तेण पयदं ।”

जिस प्रकारसे द्रव्य अवस्थित है, उस प्रकारसे उनको जानना अनुगम कहलाता है । क्षेत्रके अनुगमको क्षेत्रानुगम कहते हैं, “जथा दव्वाणि टिठ्ठाणि तधावबोधो अणुगमो । खेत्तस्स अणुगमो खेत्ताणुगमो ।” निर्देशका अर्थ है प्रतिपादन करना अथवा कथन करना, “णिहेसो पटुप्पायणं कहणमिदि पयट्ठी” (पृ०६) । जीवादि द्रव्य आकाशके जितने भागमें पाये जाते हैं, उसे लोक कहते हैं । उसके सिवाय अवशिष्ट आकाशको अलोकाकाश कहते हैं । इस क्षेत्रानुगमका लोकाकाशसे सम्बन्ध है । अलोकाकाशमें आकाशके सिवाय अन्य द्रव्योंका अभाव होनेसे प्रस्तुत परूपणामें उससे प्रयोजन नहीं है । “पंचास्तिकार्यमें कुन्दकुन्द स्वामीने इस अलोकाकाशको “अंतवदिरिक्तं” अन्तरहित (अनन्त) कहा है । लोकाकाश तीन सौ तेतालीस घन राजू प्रमाण कहा गया है ।

ओघसे - ५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजस-कार्मण, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण तथा ५ अन्तरायोंके बन्धक जीव कितने क्षेत्रमें हैं ? सर्वलोकमें ।

विशेषार्थ—लोक शब्दका अर्थ है—“लोक्यन्ते उपलभ्यन्ते यस्मिन् जीवादि द्रव्याणि स लोकः तद्विपरोतो लोकः ।” देशके भेदसे क्षेत्रके तीन भेद कहे हैं । वीरसेन स्वामीने लिखा है—“मंदरचूलियादो उवरिमुड्डलोगो, मंदरमूलादो हेट्ठा अधोलोगो मंदर-परिच्छिण्णो मञ्जुलोगो त्ति” (जी० खे०, पृ० ६)—मंदराचल अर्थात् सुमेरु पर्वतकी चूलिकासे ऊपर ऊर्ध्वलोक है । मंदरगिरिके मूलसे नीचेका क्षेत्र अधोलोक है । मंदराचलसे परिच्छिन्न मध्य-लोक है । इस लोक-विभाजनमें सुमेरु गिरिकी प्रधानताको लक्ष्यमें रखकर आचार्य अकलंक-देव उसे लोकका मानदण्ड कहते हैं, “मेरुरयं त्रयाणां लोकानां मानदण्डः (त० रा०)” खुदा-

बन्ध'सूत्रकी टीकामें लोकको पंचविध कहा है—“पृथ लोको पंचविहो उड्डल्लोको अधोलोको तिरियलोको मणुसलोको सामणल्लोको चेदि । पदेसि पंचणहं पि लोगाणं लोकागहणेण गहणं काद्वं” (पृ० ३०१) - यहाँ लोक ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, तिर्यग्लोक, मनुष्यलोक, सामान्य लोक इस प्रकार पंचभेदसहित है। लोकके ग्रहण करनेसे पाँचों लोकोंका ग्रहण करना चाहिए। मनुष्य लोकका तिर्यग्लोकमें अन्तर्भाव होनेसे लोकत्रयकी मान्यताका सर्वत्र प्रचार है। धवल-टीकाकारने पंचविध लोकोंको लक्ष्यमें रखकर तत्त्व-प्रतिपादन किया है। तीनसौ तेतालीस घनराजू प्रमाण सामान्य लोक है। एकसौ छयानवे घनराजू प्रमाण अधोलोक है, एकसौ सैंतालीस घनराजू प्रमाण ऊर्ध्वलोक है। एक लाख योजन ऊँचा, पूर्व पश्चिममें एक राजू चौड़ा तथा उत्तर दक्षिणमें सात राजू लम्बा तिर्यग्लोक है। पैतालीस लाख योजन लम्बे तथा चौड़े और एक लाख योजन ऊँचे क्षेत्रको मनुष्यलोक कहा गया है।

इस पंचविधलोकमें जीवका संचार होता है। 'खुदाबन्ध'क्षेत्रानुगम प्ररूपणामें स्वस्थान, समुद्घात तथा उपपादकी अपेक्षा क्षेत्रका कथन किया है। 'धवलटीकामें यह महत्त्वपूर्ण तथा उपयोगी कथन किया गया है। स्वस्थान पद स्वस्थान-स्वस्थान तथा विहारवत्स्वस्थानके भेदसे दो प्रकार है। अपने-अपने उत्पन्न होनेके ग्रामादिकोंकी सीमाके भीतर परिभ्रमण करनेको स्वस्थान-स्वस्थान कहते हैं। इससे बाह्य प्रदेशमें घूमनेको विहारवत्स्वस्थान कहते हैं।

नेत्रवेदना, शिरोवेदना आदिके द्वारा जीवोंके प्रदेशोंका उत्कृष्टतः शरीरसे तिगुने प्रमाण विसर्पणको वेदना समुद्घात कहते हैं। क्रोध, भय आदिके द्वारा जीवके प्रदेशोंका शरीरसे तिगुने प्रमाण (शरीर-तिगुण) प्रसर्पणको कषाय समुद्घात कहा है। वैक्रियिक शरीरके उदयवाले देव और नारकी जीवोंका अपने स्वाभाविक आकारको छोड़कर अन्य आकारसे रहनेका नाम वैक्रियिक समुद्घात है। अपने वर्तमान शरीरको नहीं छोड़कर ऋजुगति-द्वारा या विग्रहगति-द्वारा आगे जिसमें उत्पन्न होना है ऐसे क्षेत्र तक जाकर शरीरसे तिगुने विस्तार-से अथवा अन्य प्रकारसे (शरीरतिगुण-बाह्यल्लेण अण्णहा वा) अन्तर्मुहूर्त तक रहनेको मारणान्तिक समुद्घात कहा है। मारणान्तिक समुद्घात निश्चयसे आगामी जहाँ उत्पन्न होना है, ऐसे क्षेत्रकी दिशाके अभिमुख होता है। अन्य समुद्घातोंमें दशों दिशाओंमें गमन पाया जाता है। जिसने आगामी भवकी आयु बाँध ली है, ऐसे बद्धायुष्क जीवके ही मारणान्तिक समुद्घात होता है। इस समुद्घातका आयाम अर्थात् विस्तार उत्कृष्टतः अपने उत्पद्यमान क्षेत्रके अन्त तक है, इतर समुद्घातोंमें यह नियम नहीं है।

तैजस शरीरके विसर्पणको तैजस समुद्घात कहते हैं। यह निस्सरणात्मक तथा अनिस्सरणात्मक भेदसे दो प्रकारका है। निस्सरणात्मक तैजसके प्रशस्त तैजस, अप्रशस्त तैजस ये दो भेद हैं। अप्रशस्त-निस्सरणात्मक तैजसशरीर समुद्घात बारह योजन लम्बा, नौ योजन विस्तारवाला सूक्ष्मगुल संख्यातवें भाग मोटाईवाला, जपापुष्पके समान लालवर्णवाला, भूमि और पर्वतादिके दहन करनेमें समर्थ, प्रतिपक्षरहित, रोषरूप इन्धनवाला, बायें कन्धेसे उत्पन्न होनेवाला और इच्छित क्षेत्र प्रमाण विसर्पण करनेवाला होता है। जो प्रशस्त निस्सरणात्मक तैजसशरीर समुद्घात है, वह भी विस्तार आदिमें अप्रशस्त तैजसके ही समान है, किन्तु इतनी विशेषता है कि वह हंसके समान धवलवर्णवाला है। सीधे कन्धेसे उत्पन्न होता है। प्राणियों-पर अनुकम्पाके निमित्तसे उत्पन्न होता है। मारी रोग आदिके प्रशमन करनेमें समर्थ होता है। अप्रशस्त तैजसके विषयोंमें 'राजवार्तिक'में लिखा है कि वह उग्र चारित्रवाले तथा अत्यन्त क्रुद्ध मुनिके निकलता है (यतेहप्रचारित्रस्यातिक्रुद्धस्य)।

एक हस्तप्रमाण, सर्वांग सुन्दर, समचतुरस्र संस्थानयुक्त, हंसके समान धवल, रुधिर मांसादि सप्त धातुओंसे रहित, विष, अग्नि एवं शस्त्रादि समस्त वाधाओंसे मुक्त; वज्र, शिला, स्तम्भ, जल, व पर्वतमें-से गमन करनेमें दृश तथा मस्तकसे उत्पन्न हुए शरीरसे तीर्थ-करके पाद मूलमें जानेका नाम आहारक समुद्घात है। 'गोमटसार' जीवकाण्डमें आहारक शरीरको असंहणं - संहननरहित कहा है, क्योंकि इस देहमें अस्थिवन्धन विशेषका असद्भाव है। जीवकाण्डमें यह भी कहा है कि निजक्षेत्रमें केवली श्रुतकेवलीका अभाव हो और सुदूर क्षेत्रमें केवलद्वय विद्यमान हों तथा तीर्थकर भगवान्के तपादि कल्याणकत्रय हो तब असंयम परिहार हेतु, श्रुतज्ञानावरण तथा वीर्यान्तरायके क्षयोपशमकी मंदता होनेपर धर्मध्यानका विरार्थी श्रुत (शाम्भ्र) के अर्थमें सन्देह उत्पन्न हो, उस सन्देह निवारणार्थ तथा 'जिण-जिणधर-वंदणट्टं' जिन तथा जिन-मन्दिरकी वन्दनार्थ आहारक शरीर उत्पन्न होता है। यह शरीर अव्याघाती होता है। कदाचित् पर्याप्ति पूर्ण होनेपर आयु क्षय होनेसे इस शरीरधारी मुनिका मरण भी होना सम्भव है। आहारक तथा तैजस समुद्घात मनुष्यनीके नहीं होते (मणुसिणीसु तेजाहारं णस्थि-सु० ब०)

वेदनीय कर्मके निषेकोंकी बहुलता ही तथा आयुकी स्थिति अल्प हो, तब आयु कर्मके समान शेष कर्मोंकी स्थिति करनेके लिए दण्ड, कपाट, प्रतर तथा लोकपूरणरूप केवलिसमुद्घात होता है।

जिसकी अपने विष्कम्भसे कुछ अधिक तिगुनी परिधि है ऐसे पूर्व शरीरके बाह्यरूप अथवा पूर्व शरीरसे तिगुने बाह्यरूप दण्डाकारसे केवलीके जीव प्रदेशोंका कुछ कम चौदह राजू फैलनेका नाम दण्डसमुद्घात है। दण्डसमुद्घातमें कथित बाह्य और आयामके द्वारा वात-बल्यसे रहित सम्पूर्ण क्षेत्रके व्याप्त करनेका नाम कपाटसमुद्घात है। केवली भगवान्के जीव प्रदेशोंका वातबल्यसे रुके हुए क्षेत्रको छोड़कर सम्पूर्ण लोकमें व्याप्त होनेका नाम प्रतर-समुद्घात है। घनलोक प्रमाण केवली भगवान्के जीव प्रदेशोंका सर्वलोकमें व्याप्त करनेको केवलिसमुद्घात कहते हैं।

उपपाद एक प्रकारका है। वह भी उत्पन्न होनेके पहले समयमें ही होता है। उपपादमें ऋजुगतिसे उत्पन्न हुए जीवोंका क्षेत्र बहुत नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसमें जीवके समस्त प्रदेशोंका संकोच होता है (संकोचिदासे सर्जावपदेसादो)।

इस प्रकार स्वस्थानके दो भेद, समुद्घातके सात भेद तथा एक उपपाद इन दश विशेषणोंसे यथासम्भव विशेषताको प्राप्त क्षेत्रका निरूपण किया गया है।

अवन्धक कितने क्षेत्रमें हैं? लोकके असंख्यातवें भागमें अथवा असंख्यात भागोंमें वा सर्वलोकमें रहते हैं।

विशेषार्थ—ज्ञानावरणादिके अवन्धक उपशान्तकषायादि गुणस्थानवर्ती जीवोंका क्षेत्र लोकका असंख्यातवाँ भाग है। सयोगी जिनके प्रतर-समुद्घातकी अपेक्षा लोकके असंख्यात बहुभाग हैं। क्योंकि यहाँ वातबलयोंमें जीव प्रदेश नहीं पाये जाते। लोकपूरण समुद्घातकी

१. आहारसमुदण य पमत्तविरदस्स होदि आहारं ।

असंजमपरिहरणट्टं संदेहविणासणट्टं च ॥२३५॥

णियखेत्ते केवलिसुगविरहे णिवकमणपहुदिकल्लाणे ।

परखेत्ते संवित्ते जिण-जिणधर वंदणट्टं च ॥२३६॥ —गो० जी०

असंखेज्जदिभागे, असंखेज्जेसु वा भागेषु वा सच्चलोगे वा । सादासाद्-बंधगा अबंधगा केवडिखेत्ते ? सच्चलोगे । दोणं वेदणीयाणं बंधगा केवडिखेत्ते ? सच्चलोगे । अबंधगा केवडिखेत्ते ? लोगस्स असंखेज्जदिभागे । एवं सेसाणं पत्तमेणं वेदणीय-भंगो । साधारणेण धुविगाणं भंगो । णवरि तिण्णि-आयु-वेउच्चियलक्क-आहारदुगं तित्थयरं बंधगा केवडिखेत्ते ? लोगस्स असंखेज्जदिभागे । अबंधगा सच्चलोगे । चदु-आयु-दो-अंगोवंग-छस्संघ-दोविहायगदि-दोसराणं बंधगा अबंधगा केवडिखेत्ते ? सच्चलोगे । एवं परघादुस्साणं । एवं काजोगि-कम्मइग्ग-भवसिद्धिया-अणाहारगाणं । णवरि कम्मइ-गस्स यं हि केवलभंगो तं हि लोगस्स असंखेज्जेसु वा भागेषु सच्चलोगे वा । एवं

अपेक्षा सर्वलोक क्षेत्र कहा है ।

साता-असाताके बन्धक अबन्धक जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? सर्व लोकमें रहते हैं । दोनों वेदनीयके बन्धक कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? सर्वलोकमें । अबन्धक कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके असंख्यातवें भागमें रहते हैं ।

विशेष—दोनोंके अबन्धक अयोगी जिन हैं । उनकी अपेक्षा लोकका असंख्यातवाँ भाग कहा है ।

इसी प्रकार शेष प्रकृतियोंका पृथक्-पृथक् रूपसे वेदनीयके समान भंग जानना चाहिए । सामान्य रूपसे शेष प्रकृतियोंका ध्रुव प्रकृतिवत् भंग जानना चाहिए । विशेष, ३ आयु, वैक्रियिकषट्क, आहारकद्विक तथा तीर्थकर प्रकृतिके बन्धक कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके असंख्यातवें भागमें रहते हैं । अबन्धक सर्वलोकमें रहते हैं ।

४ आयु, २ अंगापांग, ६ संहनन, २ विहायोगति और २ स्वरोके बन्धक, अबन्धक कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? सर्वलोकमें रहते हैं । इसी प्रकार परघात तथा उच्छ्वास प्रकृतिमें भी लगा लेना चाहिए ।

इसी प्रकार काययोगी, कर्मण^३ काययोगी, भव्यसिद्धिकों तथा अनाहारकोंमें जानना चाहिए । विशेष यह है कि कर्मण काययोगीमें जो केवलीका भंग है, उसमें लोकका असंख्यात बहुभाग अथवा सर्वलोकप्रमाण क्षेत्र जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—कर्मण-काययोग चारों गतिसम्बन्धी विग्रहगतिमें, प्रतर-लोक-समुद्रात मुक्त केवलिके होना है, “कर्मणकाययोगः स्यात् स चतुर्गतिविग्रहकाले सयोगस्य प्रतरलोक-पूरणकाले च भवति” [गो० जी०, टी० पृ० ११२५, गा० ६२४] प्रतर समुद्रातमें लोकका असंख्यात बहुभाग, लोकपूरण समुद्रातमें नामानुसार लौकपूर्णता होनेसे सर्वलोक क्षेत्र कहा है ।

१. पदरसमुग्घादे लोयस्स असंखेज्जेसु भागेषु अवट्ठणं होदि । वादवत्तएसु जीवपदेसाणामभावादो । लोगपूरणसमुग्घादे सच्चलोगे अवट्ठणं होदि ।—खु० ३११ । २. “कम्मइयकायजोगिसु सुजोगिकेवल्लो केवडिखेत्ते लोगस्स असंखेज्जेसु भागेषु, सच्चलोगे वा ।”—घट्खं०-खु० बं० ४०, ४२ । भंविगाणुवादेण भवसिद्धिया अभवसिद्धिया-साधारणेण उववादेण केवडिखेत्ते ? सच्चलोगे । अणाहाराकेवडिखेत्ते ? सच्चलोए ॥ १०७, १०८; १२३, १२४ ।

ओरालियसरीर-ओरालियमिस्स-अचक्खुदंसण-आहारग ति । णवरि केवलिभंगो णत्थि ।

१८७. आदेसेण णेरइएसु—सव्वे भंगा लोगस्स असंखेज्जदिभागे । एवं सव्वणेरइ-एसु, सव्वर्षचिदिय-तिरिक्ख-मणुस-अपज्जत्त-सव्वदेव-सव्वविगालिदिय-तस-अपज्जत्त-वादर-पुढवि० आउ० तेउ० वादरवणप्फदि-पत्तेय० पज्जत्ता-पंचमण० पंचवचि० [वेउव्विय] वेउव्वियमिस्स० आहार० आहारमिस्स० इत्थि० पुरिस० विभंग० आभिणि० सुद० ओधि० मणपज्जव० सामाइय० छेदोव० परिहार० सुहुमसंप० संजदांसंज० चक्खुदं० ओधिदंसण-तेउलेस्सा-पम्मलेस्सा-वेदगसम्मा० उवसमसम्मा० सासण० सम्मामिच्छाइट्ठि सण्णि ति । तिरिक्खेसु—धुविगाणं बंधगा केवडिखेत्ते ? सव्वलोगे । अबंधगा

इसी प्रकार औदारिक काययोगी, औदारिक मिश्र काययोगी, अचक्षुदर्शनी तथा आहारकमें जानना चाहिए । विशेष यह है कि इसमें केवलीका भंग नहीं है ।

विशेषार्थ—औदारिककाययोगी स्वस्थान, वेदनासमुद्घात, कषाय तथा मारणान्तिक समुद्घातकी अपेक्षा सर्वलोकमें रहते हैं । विहारवत्स्वस्थानकी अपेक्षा तीन लोकोंके असंख्यातवें भागमें, तिर्यग्लोकके संख्यातवें भागमें और मनुष्यलोकसे असंख्यातगुणे क्षेत्रमें रहते हैं । वैक्रियिक समुद्घात, तैजससमुद्घात और दण्डसमुद्घातको प्राप्त उक्त जीव चार लोकोंके असंख्यातवें भागमें और अढ़ाई द्वीपसे असंख्यात गुणे क्षेत्रमें रहते हैं । इतना विशेष है कि तैजससमुद्घातको प्राप्त उक्त जीव मानुषक्षेत्रके संख्यातवें भागमें रहते हैं । यहाँ कपाटप्रतर तथा लोकपूरण और आहारक समुद्घात पद नहीं हैं । औदारिककाययोगीके उपपाद नहीं है ।

१८७. आदेशसे — नारकियोंमें सर्व भंग लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं । इसी प्रकार सर्व नारकी जीवोंमें जानना चाहिए । सर्व पंचेन्द्रिय-तिर्यच-मनुष्यके अपर्याप्तक, संपूर्ण देव, सर्व विकलेन्द्रिय, त्रस, इनके अपर्याप्त, वादर-पृथ्वी-जल-अग्नि, वादर वनस्पति प्रत्येक, इनके पर्याप्तक, ५ मनयोगी, ५ वचनयोगी, [वैक्रियिक] वैक्रियिकमिश्र, आहारक, आहारकमिश्र योगी, स्त्री-पुरुषवेद, विभंगज्ञान सुमति, सुश्रुत, अवधि-मन-पर्ययज्ञान, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्मसाम्पराय, संयतासंयत, चक्षुदर्शन, अवधिदर्शन, तेज-पद्मलेश्या, वेदक-सम्यक्त्वो, उपशमसम्यक्त्वो, सासादन सम्यक्त्वो, मिश्रसम्यक्त्वो तथा संज्ञीपर्यन्त इसी प्रकार है । अर्थान् यहाँ क्षेत्र लोकका असंख्यातवाँ भाग है ।^१

१. कायजोगी—ओरालियमिस्सकायजोगी सत्थाणेण समुग्घादेण केवडिखेत्ते ? सव्वलोए । ओरालियकाय-जोगी सत्थाणेण समुग्घादेण केवडिखेत्ते ? सव्वलोए । उववादेण णत्थि । अचक्खुदंसणो असंजदभंगो । असंजदा णवुंसयभंगो । णवुंसयवेदा सत्थाणेण समुग्घादेण उववादेण केवडिखेत्ते ? सव्वलोए । आहाराणुवादेण आहारा सत्थाणेण समुग्घादेण उववादेण केवडिखेत्ते सव्वलोगे ॥ —खुद्दाबंध, खेत्ताणुगम । २. “आदेशेण गदियाणु-वादेण गिरयगदीए णेरइएसु मिच्छाइट्ठिप्पट्ठि जाव असंजदसम्माइट्ठि केवडिखेत्ते ? लोगस्स असंखेज्जदि-भागे । एवं सत्तसु पुढवीसु णेरइया ।” —ध० टी०, खे० सू० ५, ६, । ३. पंचिदियतिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्ख-पज्जत्ता-पंचिदियतिरिक्ख-जोणिणी पंचिदियतिरिक्ख-अपज्जत्ता सत्थाणेण समुग्घादेण उववादेण केवडिखेत्ते ? (६) लोगस्स असंखेज्जदिभागे (७) । मणुसगदीए मणुसा मणुसपज्जत्ता मणुसिणी सत्थाणेण उववादेण केवडिखेत्ते ? लोगस्स असंखेज्जदिभागे । समुग्घादेण केवडिखेत्ते ? लोगस्स असंखेज्जदिभागे । असंखेज्जेसु वा भाएसु सव्वलोगे वा । मणुस-अपज्जत्ता सत्थाणेण समुग्घादेण उववादेण केवडिखेत्ते ? लोगस्स

णत्थि । सादासादबंधगा अबंधगा केवडिखेत्ते ? सब्वलोमे । दोण्हं वेदणीयाण्हं

विशेषार्थ—धवलटीकामें लिखा है—“णेरइया सव्वपदेहि चदुण्हं लोगाणमसंखेज्जदि-
भागे हौति माणुसलोगादो असंखेज्जगुणे” [खु० बं०, पृ० ३०१] नारकी जीव सर्वपदोंसे ऊर्ध्व-
लोक, मध्यलोक, अधोलोक, सामान्यलोक रूप चार लोकोंके असंख्यातवें भागमें तथा मनुष्य-
लोकसे असंख्यातगुणे क्षेत्रमें रहते हैं । इनमें वेदना, कषाय, वैक्रियिक तथा मारणान्तिक समु-
द्घात होते हैं । तैजस, आहारक तथा केवलसमुद्घात नहीं होते, क्योंकि उनका असंयभियोंमें
असद्भाव है ।

तिर्यचोमें—ध्रुव प्रकृतियोंके बन्धक कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? सर्वलोकमें । अबन्धक
नहीं हैं । साता और असाताके बन्धक, अबन्धक कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? सर्वलोकमें ।

असंखेज्जदिभागे । (८-१४) । देवगदीए देवा सत्थाणेण समुग्घादेण उववादेण केवडिखेत्ते ? लोगस्स
असंखेज्जदिभागे । (१५, १६) वेडदिय-तेइदिय-चउरिदिय तस्सेव पज्जत्ता-अपज्जत्त सत्थाणेण समुग्घादेण
उववादेण केवडिखेत्ते ? लोगस्स असंखेज्जदिभागे (२४, २५) । तसकाइय-तसकाइयपज्जत्त-अपज्जत्ता पंचिदिय-
पज्जत्त-अपज्जत्ताणं भंगो (५१) । पंचिदिय-पंचिदियपज्जत्ता सत्थाणेण केवडिखेत्ते ? लोगस्स असंखेज्जदिभागे ।
समुग्घादेण केवडिखेत्ते ? लोगस्स असंखेज्जदिभागे, असंखेज्जेसु वा भागेषु, सब्वलोमे वा । पंचिदिय-अपज्जत्ता
सत्थाणेण, समुग्घादेण, उववादेण केवडिखेत्ते ? लोगस्स असंखेज्जदिभागे (२६-३१) । वादरपुद्दविकाइय-
वादरआउकाइय-वादरतेउकाइय-वादरवणप्फदिकाइय-पत्तेयसरीरा, तस्सेव अपज्जत्ता सत्थाणेण केवडिखेत्ते ?
लोगस्स असंखेज्जदिभागे । समुग्घादेण उववादेण केवडिखेत्ते ? सब्वलोमे (३४-३७) । जोगाणुवादेण पंचमणजोगि
पंचवच्चिजोगी सत्थाणेण समुग्घादेण केवडिखेत्ते ? लोगस्स असंखेज्जदिभागे (५२, ५३) उववादं णत्थि,
मणजोग-वच्चिजोगाणं विवक्खादो — खु० बं०, ध० टी०, पृ० ३४१ । वेउव्विमिस्सकायजोगी सत्थाणेण
केवडिखेत्ते ? लोगस्स असंखेज्जदिभागे । समुग्घात-उववादा णत्थि (६२, ६३, ६४) । आहारकायजोगी
वेउव्वियकायजोगिसत्थाणेण केवडिखेत्ते ? लोगस्स असंखेज्जदिभागे । उववादो
णत्थि (६५, ५९—६१) आहारमिस्सकायजोगी वेउव्वियमिस्सभोगो (६६) । वेदाणुवादेण इत्थिवेदा
पुरिसवेदा सत्थाणेण समुग्घादेण उववादेण केवडिखेत्ते ? लोगस्स असंखेज्जदिभागे (७०, ७१) विभंगणाणि-
मणपज्जवणाणी सत्थाणेण समुग्घादेण केवडिखेत्ते ? लोगस्स असंखेज्जदिभागे । उपवादं णत्थि (८२, ८३)
एदेसि दोण्हं णाणायामपज्जत्तकाले संभवाभावादो । आभिणिबोहिमसुद-ओघिणाणो सत्थाणेण समुग्घादेण
उववादेण केवडिखेत्ते ? लोगस्स असंखेज्जदिभागे । (८४, ८५) सामाइयच्छेदोवट्टावण-सुद्धिसंजदा परिहार-
सुद्धिसंजदा सुट्टमसांपराइय सुद्धिसंजदा संजदासंजदा मणपज्जवणाणिभंगो (९२) । दंसणाणुवादेण चक्खु-
दंसणी सत्थाणेण समुग्घादेण केवडिखेत्ते ? लोगस्स असंखेज्जदिभागे । (९४, ९५) उववादं सिया अत्थि,
सिया णत्थि । लद्धि पडुच्च अत्थि, णिव्वत्तिपडुच्च णत्थि । जदि लद्धि पडुच्च णत्थि केवडिखेत्ते ? लोगस्स
असंखेज्जदिभागे । (९६, ९७) । ओघिदंसणी ओघिणाणिभंगो ॥९९॥ तेउ-पम्मलेस्सिया सत्थाणेण समुग्घादेण
उववादेण केवडिखेत्ते ? लोगस्स असंखेज्जदिभागे (१०२, १०३) । वेदगसम्मईट्टि-उववसम्ममाइट्टि-सासण-
सम्ममाइट्टी सत्थाणेण समुग्घादेण उववादेण केवडिखेत्ते ? लोगस्स असंखेज्जदिभागे । सम्मामिच्छाइट्टी सत्थाणेण
केवडिखेत्ते ? लोगस्स असंखेज्जदिभागे (११२-११५) सण्णिणाणुवादेण सण्णी सत्थाणेण समुग्घादेण
उववादेण केवडिखेत्ते ? लोगस्स असंखेज्जदिभागे । (११७, ११८) — खुद्दाबन्धसूत्राणि ।
१. तिरिक्खगदीए तिरिक्खा सत्थाणेण समुग्घादेण उववादेण केवडिखेत्ते ? सब्वलोए ।

बंधगा सव्वलोगे । अबंधगा णत्थि । एवं सव्व्वाणं पगदीणं । णवरि तिण्णि आयु वेउच्चि-
यत्तकस्स बंधगा केवडिखेत्ते ? लोगस्स असंखेज्जदिभागे । अबंधगा सव्वलोगे । चहु-
आयु० दोअंगो० छस्संघ-परघादुस्सा० आदाउज्जो० दोविहा० दोसरणं बंधगा अबंधगा
केवडिखेत्ते ? सव्वलोगे । थीणगिद्वितियं मिच्छत्तं अट्टकसा० ओरालि० बंधगा
केवडिखेत्ते ? सव्वलोगे । अबंधगा लोगस्स असंखेज्जदिभागे । एवं मदि० सुद० असंज०
तिण्णिलेस्सा-अभवसिद्धि० मिच्छादि० असण्णि त्ति ।

१८८. मणुस०३-पंचणा० णवदंस० मिच्छ० सोलसक० भयदु० तेजाक०

दोनों वेदनीयोंके बन्धक सर्वलोकमें रहते हैं ; अबन्धक नहीं हैं। इसी प्रकार सर्व
प्रकृतियोंमें जानना चाहिए। विशेष यह है कि ३ आयु, वैक्रियिकघट्टके बन्धक कितने क्षेत्रमें
रहते हैं ? लोकके असंख्यातवें भागमें रहते हैं ; अबन्धक सर्वलोकमें रहते हैं। ४ आयु,
२ अंगोपांग, ६ संहनन, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, २ विहायोगति, २ स्वरके बन्धक,
अबन्धक कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? सर्वलोकमें। स्थानगृद्धि ३, मिथ्यात्व, ८ कषाय तथा
औद्यारिक शरीरके बन्धक कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? सर्वलोकमें रहते हैं। अबन्धक लोकके
असंख्यातवें भागमें रहते हैं।

विशेष—इनके अबन्धक देशसंयमी होंगे; उनका क्षेत्र यहाँ कहा है।

विशेषार्थ—तिर्यंचोंमें स्वस्थान-स्वस्थान, विहारवत् स्वस्थान, वेदना-कषाय-वैक्रियिक-
मारणान्तिक समुद्घात और उपपाद ये पद होते हैं; शेष नहीं होते हैं। तिर्यंचोंका क्षेत्र सर्व-
लोक कहा है, इसपर धवलाटीकाकार कहते हैं, सर्वलोकमें तिर्यंच रहते हैं, क्योंकि वे अनन्त
हैं। अनन्त होनेसे वे लोकमें नहीं समाते। ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोका-
काशमें अनन्त अवगाहन शक्ति संभव है। विहारवत्स्वस्थान क्षेत्र तीन लोकोंके असंख्यातवें
भाग, तिर्यंचलोकके संख्यातवें भाग और अदाई द्वीपसे असंख्यातगुणा है, क्योंकि त्रस पर्याप्त
तिर्यंचोंका लोकके संख्यातवें भागमें विहार पाया जाता है।

वैक्रियिक समुद्घातका क्षेत्र चार लोकोंके असंख्यातवें भाग और मनुष्यक्षेत्रसे असं-
ख्यातगुणा है, क्योंकि तिर्यंचोंमें विक्रिया करनेवाली राशि पत्थोपमके असंख्यातवें भाग मात्र
घनांगुलोंसे गुणित जगश्रेणी प्रमाण है, 'गुरुवदेसादो' क्योंकि ऐसा गुरुका उपदेश है। (सु०
ध० पृ० ३०५)

मन्यज्ञान, श्रुताज्ञान, असंयम, कृष्णादि तीन लेश्या, अभव्यसिद्धिक, मिथ्यादृष्टि तथा
असंज्ञी पर्यन्त इसी प्रकार जानना चाहिए।

१८८. मनुष्यत्रिक (मनुष्यसामान्य, मनुष्यपर्याप्त, मनुष्यनियों) में - ५ ज्ञानावरण,

१. पट्खं०, खे० सू० ८ । २. णाणाणुवादेण मदिअण्णाणी सुदअण्णाणी णवुंसयवेदभंगो (सूत्र ८०)
णवुंसयवेदा सत्याणेण समुग्घादेण उववादेण केवडिखेत्ते ? सव्वलोए (७१, ७२) । असंजदा णवुंसयभंगो
(९३) । लेस्साणुवादेण किण्हलेस्सिया णीललेस्सिया काउलेस्सिया असंजदभंगो (१०१) । भवियाणुवादेण
भवसिद्धिया-अभवसिद्धिया सत्याणेण समुग्घादेण उववादेण केवडिखेत्ते ? सव्वलोगे (१०६, १०७) ।
मिच्छाडट्टो असंजदभंगो (११६) । असण्णी सत्याणेण समुग्घादेण उववादेण केवडिखेत्ते ? सव्वलोगे ।
—सू० ११६, १२०, सु० वं०, पृ. ३६५ ।

आहारदुग् ० वण्ण ० ४ वगु ० ४ आदाउज्जो ० णिमिणतित्थयर-पंचंतराइमाणं बंधगा केवडिखेत्ते ? लोगस्स असंखेज्जदिभागे । अबंधगा केवलिभंगो कादव्वो । सादबंधगा केवलिभंगो । अबंधगा लोगस्स असंखेज्जदिभागे । असादबंधगा लोगस्स असंखेज्जदिभागे । अबंधगा केवलिभंगो । दोण्णं पगदीणं बंधगा. केवलिभंगो । अबंधगा लोगस्स असंखेज्जदिभागो (गे) । इत्थि ० पुरिस ० णवुंसग-बंधगा लोगस्स असंखेज्जदिभागे । अबंधगा केवलिभंगो । एवं सब्वपगदीणं वेदभंगो कादव्वो । एवं पंचिंदिय-तस ० तेसि

९ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, भयद्विक, तैजस, कामर्ण, आहारकद्विक, वर्ण ४, अगुरु-लघु ४, आतप, उद्योत, निर्माण, तीर्थकर तथा पाँच अन्तरायोंके बन्धक कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके असंख्यातवें भागमें रहते हैं । अबन्धकोंमें केवलीके समान भंग जानना चाहिए अर्थात् लोकका असंख्यातवाँ भाग, असंख्यात बहुभाग अथवा सर्वलोक है ।

विशेष—केवलीभंगमें लोकका असंख्यातवाँ भाग क्षेत्र दंड तथा कपाटसमुद्घातकी अपेक्षा है । असंख्यात बहुभाग क्षेत्र प्रतरसमुद्घातकी तथा सर्वलोक लोकपूरणसमुद्घातकी अपेक्षा है ।

साता वेदनीयके बन्धकोंमें केवलीके समान भंग है । अबन्धकलोकके असंख्यातवें भागमें रहते हैं ।

असाताके बन्धक लोकके असंख्यातवें भागमें रहते हैं । अबन्धकोंमें केवलीके समान भंग है । दोनों प्रकृतियोंके बन्धकोंमें केवलीके समान भंग है । अबन्धकोंमें लोकका असंख्यातवाँ भाग भंग है । स्त्री, पुरुष, नपुंसक वेदके बंधक लोकके असंख्यातवें भागमें पाये जाते हैं । अबंधकोंमें केवलीके समान भंग जानना चाहिए । इस प्रकार सर्व प्रकृतियोंमें वेदके समान भंग है ।

विशेषार्थ—वेदना, कषाय, वैक्रियिक, तैजस, और आहारक समुद्घातको प्राप्त मनुष्य, मनुष्य-पर्याप्त तथा मनुष्यनी चार लोकोंके असंख्यातवें भागमें रहते हैं । इतना विशेष है कि मनुष्यनियोंमें तैजस तथा आहारक समुद्घात नहीं होते । मारणान्तिक समुद्घातको प्राप्त उक्त तीन प्रकारके मनुष्य तीन लोकोंके असंख्यातवें भागमें तथा मनुष्यलोक और तिर्यग्लोकके असंख्यातगुणे क्षेत्रमें रहते हैं, क्योंकि यहाँ मनुष्य-अपर्याप्तकोंका क्षेत्र प्रधान है । इतना विशेष है कि मनुष्य-पर्याप्त और मनुष्यनियोंका मारणांतिक क्षेत्र चार लोकोंके असंख्यातवें भाग तथा मानुष क्षेत्रसे असंख्यातगुणा है । इसी प्रकार दण्ड और कपाट क्षेत्रोंका भी प्रमाण कहना चाहिए । इतना विशेष है कि कपाट क्षेत्र तिर्यग्लोकके संख्यातवें भाग प्रमाण है । प्रतरसमुद्घातकी अपेक्षा लोकके असंख्यात बहुभागोंमें अवस्थान होता है, क्योंकि “वाद्दलपसु जीव-पदेसाणमभावाद्दो” वातबलयोंमें जीवप्रदेशोंका अभाव रहता है । लोकपूरण समुद्घातकी अपेक्षा सर्वलोकमें अवस्थान होता है, क्योंकि इस अवस्थामें जीवप्रदेशोंसे रहित लोकाकाशके प्रदेशोंका अभाव है (जीवपदेस-विरहिद-लोगागास-पदेसा भावाद्दो) । (खुदाबंधु, टीका, पृ० ३१०) ।

१. मणुसगदीए मणुमा मणुसपज्जत्ता मणुसिणी सत्थाणेण उववादेण केवडिखेत्ते ? लोगस्स असंखेज्जदिभागे । समुग्घादेण केवडिखेत्ते ? लोगस्स असंखेज्जदिभागे । असंखेज्जेसु वा भाएसु सब्वलोगे वा —सू० ८-१२, खु० बं० । २. ध० टी०, क्षेत्र, पृ० ४८ ।

चेव पञ्जत्ता । एवं चेव अवगदवेद-अकसाइ० केवलणा० संजदा-यथाक्खाद० केवल-
दंसण० सुक्कलेस्सा-सम्मादिट्ठि-खइगसम्मदिट्ठि ति ।

१८६. एइंदिय-सव्वसुहुम० पुढवि० आउ० तेउ० वाउ० वणप्फदिणिगोद-
तेसिं च सव्वसुहुम० मणुसा० बंधगा केवडिखेत्ते ? लोगस्स असंखेज्जदिभागे । अबंधगा
केवडिखेत्ते ? सव्वलोगे । सेसाणं सव्वे भंगा सव्वलोगे । बादर-एइंदिय-पञ्जत्ता-
अपञ्जत्ता-पंचणा० णवदंस० मिच्छ० सोलसक० भयदु० तिग्णिणसरीर-वण्ण०४ अगु०
उप० णिमि० पंचंत० बंधगा सव्वलोगे । अबंधा (धगा) णत्थि । सादासाद-बंधगा
अबंधगा केव० खेत्ते ? सव्वलोगे । दोणं पगदीणं बंधगा सव्वलोगे । अबंधगा णत्थि ।

पंचेन्द्रिय-त्रस तथा उन दोनोंके पर्याप्तकोंमें इसी प्रकार जानना चाहिए । अपगतवेद,
अकषाय, केवलज्ञान, संयम, यथाख्यात, केवलदर्शन, शुक्ललेश्या, सम्यक्दृष्टि, क्षायिक-
सम्यग्दृष्टि पर्यंत इसी प्रकार जानना चाहिए ।

१८६. एकेन्द्रिय, सर्वसूक्ष्म, पृथ्वी, जल, तेज, वायु (?) वनस्पति-निगोद तथा उनके
सर्वसूक्ष्म जीवोंमें मनुष्यायुके बंधक कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके असंख्यातवें भागमें रहते
हैं । अबंधक कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? सर्वलोकमें रहते हैं^३ । शेष प्रकृतियोंके संपूर्ण भंगोंमें
सर्वलोक प्रमाण क्षेत्र जानना चाहिए । बादर-एकेन्द्रिय-पर्याप्तक तथा बादर-एकेन्द्रिय अपर्याप्त-
कोंमें—५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, ७ मिथ्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, ३ शरीर, वर्ण ४,
अगुरुलघु, उपघात, निर्माण तथा ५ अन्तरायोंके बंधकोंका सर्वलोक क्षेत्र है । अबंधक नहीं हैं ।
साता-असाताके बंधक-अबंधक कितने क्षेत्रमें पाये जाते हैं ? सर्वलोकमें । दोनोंके बंधक सर्व-

१. पंचिन्द्रिय पंचिन्द्रियपञ्जत्ता सत्थाणेण केवडिखेत्ते ? लोगस्स असंखेज्जदिभागे । समुग्घादेण केवडि-
खेत्ते ? लोगस्स असंखेज्जदिभागे, असंखेज्जेसु वा भागेसु सव्वलोगे वा (सू० २६-२९) तसकाइय-तसकाइय-
पञ्जत्त-अपञ्जत्ता पंचिन्द्रिय-पञ्जत्त-अपञ्जत्ताणं भंगो (सू० ५१) । अवगदवेदा सत्थाणेण केवडिखेत्ते ? लोगस्स
असंखेज्जदिभागे । समुग्घादेण केवडिखेत्ते ? लोगस्स असंखेज्जदिभागे, असंखेज्जेसु वा भागेसु, सव्वलोगे वा ।
उववादं णत्थि (सू० ७३-७७) । अकसाई अवगदवेदभंगो (७९) । केवलणाणो सत्थाणेण केवडिखेत्ते ? लोगस्स
असंखेज्जदिभागे । समुग्घादेण केवडिखेत्ते ? लोगस्स असंखेज्जदिभागे असंखेज्जेसु वा भागेसु सव्वलोगे वा । उव-
वादं णत्थि (सू० ८६-९०) । संजमाणुवादेण संजदा जहाक्खादविहार सुट्ठिसंजदा अकसाईभंगो । (९१)
केवलदंसणी केवलणाणिभंगो । (सू० १००) । सुक्कलेस्सिण्णा सत्थाणेण उववादेण केवडिखेत्ते ? लोगस्स असं-
खेज्जदिभागे समुग्घादेण लोगस्स असंखेज्जदिभागे असंखेज्जेसु वा भागेसु सव्वलोगे वा । (सू० १०४-१०६)
सम्मत्ताणुवादेण सम्मादिट्ठि खइयसम्मादिट्ठो सत्थाणेण उववादेण केवडिखेत्ते ? लोगस्स असंखेज्जदिभागे । समु-
ग्घादेण लोगस्स असंखेज्जदिभागे असंखेज्जेसु वा भागेसु, सव्वलोगे वा (सू० १०९-१११) । २. "तेजकाय,
वायुकायमें मनुष्यायुका बंध नहीं होता ।"—गो० क०, गा० ११४ । ३. इंदियाणुवादेण एइंदिया सुहुमेइंदिया
पञ्जत्ता अपञ्जत्ता सत्थाणेण समुग्घादेण उववादेण केवडिखेत्ते ? सव्वलोगे । —खु० बं०, सू० १८, १६ ।
४. बादरेइंदिया पञ्जत्ता अपञ्जत्ता सत्थाणेण केवडिखेत्ते ? लोगस्स संखेज्जदिभागे समुग्घादेण उववादेण
केवडिखेत्ते ? सव्वलोए । —सू० २२, २३ ।

इत्थि-पुरिस० बंधगा केवडिखेत्ते ? लोगस्स संखेज्जदिभागे । अबंधगा सव्वलोगे । णवुंस० बंधगा केवडिखेत्ते ? सव्वलोगे । अबंधगा लोगस्स संखेज्जदिभागे । तिण्णि-वेदानं बंधगा सव्वलोगे । अबंधगा णत्थि । एवं इत्थिभंगो चदुजादि-पंचसंठा० ओरालि० अंगो० छस्संघ० आदाउज्जो० दोविहा० तस-बादर-दोसर-सुभग-आदेज्ज-जसगित्ति । णवुंसगभंगो ईइदि० हुंडसंठा० थावर-दूभग-अणादेज्ज-अजसगित्ति । हस्सादि४ बंधगा अबंधगा सव्वलोगे । हस्सादिदोयुगलं बंधगा सव्वलोगे, अबंधगा णत्थि । एवं परघा-दुस्सास-पज्जत्ता-अपज्जत्त-पत्तेय-साधारण-थिराथिरसुभासुभा त्ति । तिरिक्खायु-बंधगा केवडिखेत्ते ? लोगस्स संखेज्जदिभागे । अबंधगा सव्वलोगे । मणुसायु-बंधगा केवडि-खेत्ते ? लोगस्स असंखेज्जदिभागे । अबंधगा सव्वलोगे । दोआयु तिरिक्खायु-भंगो । तिरिक्खगदितियं बंधगा सव्वलोगे । अबंधगा लोगस्स असंखेज्जदिभागे । मणुसगदितियं मणुसायुभंगो । दोगदि-दोआणुपुण्वि-दोगोदं बंधगा के० खेत्ते ? सव्वलोगे । अबंधगा णत्थि । सुहुमबंधगा सव्वलोगे । अबंधगा लोगस्स असंखेज्जदिभागे । एवं पत्तेणेण साधारणेण वि वेदणीयभंगो । एवं बादरवाउ० बादरवाउ० अपज्जत्ताणं । एवं चेव बादर-

लोकमें पाये जाते हैं ; अबंधक नहीं है । स्त्रीवेद, पुरुषवेदके बंधक कितने क्षेत्रमें है । लोकके संख्यातवें भागमें । अबंधक सर्वलोकमें है । नपुंसकवेदके बंधक कितने क्षेत्रमें है ? सर्वलोकमें । अबंधक लोकके संख्यातवें भागमें पाये जाते हैं । तीनों वेदोंके बंधक सर्वलोकमें पाये जाते हैं । अबंधक नहीं है । ४ जाति, ५ संस्थान, औदारिक अंगोपांग, ६ संहनन, आतप, उद्योत, दो विहायोगति, त्रस, बादर, दो स्वर, सुभग, आदेय, यशःकीर्ति पर्यन्त स्त्रीवेदके समान भंग जानना चाहिए । एकेन्द्रिय जाति, हुंडक संस्थान, स्थावर, दुर्भग, अनादेय, अयशःकीर्तिमें नपुंसकवेदका भंग जानना चाहिए । हास्यादि चारके बंधक-अबंधक सर्वलोकमें पाये जाते हैं । हास्यादि दो युगल्लोके बंधक सर्वलोकमें पाये जाते हैं ; अबंधक नहीं है । इस प्रकार परघात, उच्छ्वास, पर्याप्तक, अपर्याप्तक, प्रत्येक, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ पर्यन्त जानना चाहिए । तिर्यच आयुके बंधक कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके संख्यातवें भागमें । अबंधक सर्वलोकमें पाये जाते हैं । मनुष्य आयुके बंधक कितने क्षेत्रमें पाये जाते हैं ? लोकके असंख्यातवें भागमें ; अबंधक सर्वलोकमें पाये जाते हैं । दो आयुमें तिर्यच आयुका भंग जानना चाहिए । तिर्यचगतित्रिकके बंधक सर्वलोकमें और अबंधक लोकके असंख्यातवें भागमें पाये जाते हैं । मनुष्यगतित्रिकमें मनुष्य आयुके समान भंग जानना चाहिए । २ गति, २ आनुपूर्वी, २ गोत्रके बंधक कितने क्षेत्रमें हैं ? सर्वलोकमें हैं ; अबंधक नहीं है । सूक्ष्मके बंधक सर्वलोकमें और अबंधक लोकके असंख्यातवें भागमें पाये जाते हैं । इस प्रकार प्रत्येक और साधारणसे वेदनीयके समान भंग जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तक, अपर्याप्तक जीवोंका क्षेत्र लोकका संख्यात भाग कहा है, उसका स्पष्टीकरण धवला टीकामें इस प्रकार किया गया है :—

मन्दर पर्वतके मूल भागसे ऊपर शतार-सहस्रार कल्प पर्यन्त पाँच रोजू उँची सम-चतुष्कोण लोकवाली वायुसे परिपूर्ण है । उसमें उनचास प्रतर राजुओंका यदि एक जगप्रतर प्राप्त होता है, तो पाँच प्रतर राजुओंका कितना जगत् प्रतर प्राप्त होगा ? इस प्रकार फलराशिसे

पुढवि० आउ० तेउ० बादरवणप्फदि पत्तेयाणं तेसिं चैव अपज्जत्ता, बादरवणप्फदिणि-
गोद-पज्जत्ता-अपज्जत्ता । णवरिं यं हि लोगस्स संखेज्जदिभागो तं हि लोगस्स असंखेज्जदि-
भागो कादब्बो । बादरवाउकाइय-पज्जत्ते सव्वे भंगा लोगस्स संखेज्जदिभागे ।

एवं खेतं समत्तं ।

मुंजित इच्छाराशिको प्रमाणराशिसे अपवर्तित करनेपर दो बटे पाँच भाग कम उनहत्तर रूपों-
से धनलोकके भाजित करनेपर लब्ध एक भाग प्रमाण प्राप्त होता है । पुनः उसमें संख्यात
योजन बाह्य रूप जग-प्रतर प्रमाण लोक पर्यन्त स्थित वात-क्षेत्रको, संख्यात योजन बाह्य-
रूप जग-प्रतर प्रमाण-पेसे बादर जीवोंके आधारभूत आठ पृथिवी क्षेत्रको और आठ पृथि-
वियोंके नीचे स्थिति संख्यात योजन बाह्य रूप जग-प्रतर प्रमाण वातक्षेत्रको लाकर मिला
देनेपर लोकके संख्यातवें भाग मात्र अनन्तानन्त बादर एकेन्द्रिय-पर्याप्त व बादर एकेन्द्रिय-
अपर्याप्त जीवोंसे परिपूर्ण क्षेत्र होता है । इस कारण ये तीनों ही बादर एकेन्द्रिय स्वस्थानसे
तीन लोकोंके संख्यात भागमें एवं मनुष्यलोक व तिर्यग्लोकसे असंख्यात गुणे क्षेत्रमें रहते हैं,
ऐसा कहा है । —खु० बं०, पु० ३२२, ३२३ ।

बादर वायुकायिक (पर्याप्तकों) और बादर वायुकायिक अपर्याप्तकोंमें इसी प्रकार
जानना चाहिए । बादर पृथ्वीकायिक, बादर अप्कायिक, बादर तेजकायिक, बादर वनस्पति-
कायिक, प्रत्येक तथा इनके अपर्याप्तकोंमें एवं बादर वनस्पतिकायिक-निगोदके पर्याप्त-अपर्याप्त
भेदोंमें इसी प्रकार जानना चाहिए । इतना विशेष है कि जहाँ लोकका संख्यातवाँ भाग कहा
है, वहाँ लोकका असंख्यातवाँ भाग करना चाहिये । बादर वायुकायिक पर्याप्तकोंमें सम्पूर्ण
भंग लोकसे संख्यातवें भाग जानना चाहिए ।

इस प्रकार क्षेत्र-प्ररूपणा समाप्त हुई ।

१. बादरपुढविकाइय-बादरआउकाइय-बादरतेउकाइय-बादरवणप्फदिकाइय-पत्तेयसरीरा तस्सेव अप-
ज्जत्ता सत्थाणेण केवडिल्लेत्ते ? लोगस्स असंखेज्जदिभागे । समुग्घादेण उववादेण केवडिल्लेत्ते ? सव्वलोगे ।
२. बादरपुढविकाइया बादरआउकाइया बादरतेउकाइया बादरवणप्फदिकाइय-पत्तेयसरीरपज्जत्ता सत्थाणेण
समुग्घादेण उववादेण केवडिल्लेत्ते ? लोगस्स असंखेज्जदिभागे । बादरवाउकाइया तस्सेव अपज्जत्ता सत्थाणेण
केवडिल्लेत्ते । लोगस्स असंखेज्जदिभागे । समुग्घादेण उववादेण केवडिल्लेत्ते ? सव्वलोगे ।
३. बादरवणप्फदिकाइय-णिगोदजीवा तस्सेव पज्जत्त-अपज्जत्ता सत्थाणेण समुग्घादेण उववादेण केवडिल्लेत्ते ?
सव्वलोए । बादर-वणप्फदिकाइया बादर-णिगोदजीवा तस्सेव पज्जत्ता अपज्जत्ता सत्थाणेण केवडिल्लेत्ते ?
लोगस्स असंखेज्जदिभागे । समुग्घादेण उववादेण केवडिल्लेत्ते ? सव्वलोए ।—३४-४६ सूत्र, खु० बं० ।
४. बादरवाउपज्जत्ता सत्थाणेण समुग्घादेण उववादेण केवडिल्लेत्ते ? लोगस्स संखेज्जदिभागे ।

[फोसणाणुगमपरुवणा]

१६०. फोसणाणुगमेण दुविहो णिहेसो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण-

[स्पर्शनानुगम]

१६०. ओघ तथा आदेशसे स्पर्शानुगमका दो प्रकार निर्देश करते हैं ।

विशेषार्थ—स्पर्शनके छह भेद कहे हैं— णामफोसणं, ठवणफोसणं, दश्वफोसणं, खेत्त-फोसणं, कालफोसणं, भावफोसणं चेदि छुव्विहं फोसणं— नाम स्पर्शन, स्थापना स्पर्शन, क्षेत्र स्पर्शन, काल स्पर्शन, भाव स्पर्शन ये स्पर्शनके छह प्रकार हैं । इन छह स्पर्शनोंमें-से यहाँ किस स्पर्शनसे प्रयोजन है ?

समाधान—“पदेसु फोसणेसु जीवखेत्तफोसणं पयदं”—इन स्पर्शनोंमें-से यहाँ जीव द्रव्य सम्बन्धी क्षेत्र स्पर्शन प्रकृत है । शेष द्रव्योंका आकाशके साथ जो संयोग है वह क्षेत्र स्पर्शन है ।

शंका—अमूर्त आकाशके साथ शेष अमूर्त और मूर्त द्रव्योंका स्पर्श कैसे संभव है ?

समाधान—वह कोई दोष नहीं है, क्योंकि अवगाह्य-अवगाहक भावको ही उपचारसे स्पर्श संज्ञा प्राप्त है । अथवा सत्त्व, प्रमेयत्व आदिके द्वारा मूर्त द्रव्यके साथ अमूर्त द्रव्योंकी परस्पर समानता होनेसे भी स्पर्शका व्यवहार बन जाता है । (जी० फो० टी०)

पूज्यपाद स्वामीने स्पर्शनको त्रिकाल गोचर कहा है, किन्तु ‘धवला’-टीकाकारने लिखा है—जो भूतकालमें स्पर्श किया गया और वर्तमानमें स्पर्श किया जा रहा है, वह स्पर्शन कह-लाता है । (अस्पर्शि, स्पृश्यत इति स्पर्शनम्)

सब द्रव्योंको निवासभूमि प्रदान करनेकी क्षमता आकाश द्रव्यमें है । यद्यपि एवंभूत-नयकी अपेक्षा सर्व द्रव्य स्वप्रतिष्ठ हैं; किन्तु धर्मादिका अधिकरण आकाश है यह कथन व्यव-हार नयसे किया गया है । जैसे कहा जाता है “क भवानास्ते ?” आप कहाँ रहते हैं ? ‘आत्मनि’— मैं अपनी आत्मामें रहता हूँ, क्योंकि एक वस्तुकी अन्य वस्तुमें वृत्ति नहीं प्राप्ती जाती है । यदि एक वस्तुकी अन्य पदार्थमें वृत्ति हो, तो आकाशमें ज्ञानादिक तथा रूपादिककी वृत्ति हो जाये (स० सि० ५८)

जो व्यक्ति एकान्त नयका पक्ष पकड़ता है, वह तत्त्वको नहीं समझ पाता है । पूज्यपाद स्वामी इन सप्त नयोंपर विवेचन करते हुए कहते हैं “पते गुणप्रधानतया परस्परतन्नाः सम्यग्-दर्शनहेतवः स्वतन्त्राश्चासमर्थाः” (स० सि० पृ० ५९) ये नय मुख्य तथा गौणरूपता धारण करते हुए सम्यग्दर्शनके हेतु हैं । स्वतन्त्रता धारण करनेपर ये असमर्थ हो जाते हैं । इसीसे सर्व द्रव्योंको अवकाश देनेवाले आकाश द्रव्यके विषयमें कुन्दकुन्द स्वामी कहते हैं :

१. धर्मादीनां पुनरधिकरणमाकाशमित्युच्यते व्यवहारनयवशात् । एवंभूतनयापेक्षया तु सर्वाणि द्रव्याणि स्वप्रतिष्ठान्येव तथा चोक्तं क्व भवानास्ते ? आत्मनीति धर्मादीनि लोकाकाशात् बहिः सन्तीत्येतावदत्राधाराधेय-कल्पना साष्णं कलम् । -स० सि०, पृ० १२९, अध्याय ५, सूत्र १२ । यथा क्व भवानास्ते ? आत्मनीतिं कुतः ? वस्तुन्तरे वृत्त्यभावात् । यद्यन्यस्यान्यत्र वृत्तिः स्यात्, ज्ञानादीनां रूपादीनां चाकाशे वृत्तिः स्यात्—(पृ० ५८, स० सि०, अ० १, सू० ३३) ।

पंचणा० छदंसणा० अट्टक० भयदु० तेजाक० वण्ण०४ अगु० उप० णिमि० पंचतराह-
गाणं बंधगेहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? सच्चलोगो । अबंधगा लोगस्स असंखेज्जदि-
भागो, असंखेज्जा वा भागा वा, सच्चलोगो वा । सादबंधगा अबंधगा केवडि[यं]खेत्तं
फोसिदं ? सच्चलोगो । असादबंधगा अबंधगा केवडि खेत्तं फोसिदं ? सच्चलोगो ।

सर्वेसि जीवाणं सेसाणं तह य पोग्गलणं च ।

जं देदि चिवरमखिलं तं लोणं हवदि आयासं ॥६०॥ पंचास्तिकाय ।

जो सर्व जीवोंको, पुद्गल आदि शेष द्रव्योंको स्थान देता है, वह समस्त आकाश इस लोकमें होता है ।

इस स्पर्शनानुयोगद्वारको लक्ष्य कर ध्वलाकार यह शंका-समाधान करते हैं :

शंका—यहाँ स्पर्शनानुयोग द्वारमें वर्तमानकाल सम्बन्धी क्षेत्रकी प्ररूपणा भी सूत्रनि-
बद्ध ही देखी जाती है, इसलिए स्पर्शन अतीत काल विशिष्ट क्षेत्रका प्रतिपादन करनेवाला
नहीं है ? किन्तु वर्तमान और अतीतकालसे विशिष्ट क्षेत्रका प्रतिपादन करनेवाला है ।

समाधान—यहाँ स्पर्शनानुयोगद्वारमें वर्तमानक्षेत्रकी प्ररूपणा नहीं की जा रही है,
किन्तु पहले क्षेत्रानुयोगद्वारमें प्ररूपित उस उस वर्तमान क्षेत्रको स्मरण कराकर अतीतकाल विशिष्ट
क्षेत्रके प्रतिपादनार्थ उसका ग्रहण किया गया है । अतएव स्पर्शनानुयोग द्वार अतीतकालसे
विशिष्ट क्षेत्रका ही प्रतिपादन करनेवाला है यह सिद्ध हुआ । (जी० फो० टीका पृ० १४६)

ओघसे—५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, प्रत्याख्यानारवणादि ८ कषाय, भय-
जुगुप्सा, तैजस-कार्माण, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण, ५ अन्तरायके बन्धकोंने कितना
क्षेत्र स्पर्शन किया है ? सर्वलोक स्पर्शन किया है । अबन्धकोंने लोकका असंख्यातवाँ भाग,
असंख्यात बहुभाग वा सर्वलोक स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—ज्ञानावरणादिके अबन्धक उपशान्तकषाय, क्षीणकषाय तथा अयोगकेबली-
की अपेक्षा लोकका असंख्यातवाँ भाग स्पर्शन कहा है । सयोगकेबलीकी अपेक्षा लोकका
असंख्यातवाँ भाग है । प्रतरसमुद्घातगत सयोगकेबलीकी अपेक्षा लोकका असंख्यात बहुभाग
तथा लोकपूरण समुद्घातकी अपेक्षा सर्वलोक स्पर्शन है ।

साताके बन्धकों-अबन्धकोंने कितना क्षेत्र स्पर्शन किया है ? सर्वलोक । असाताके

१. त्रिकालविषयार्थोपश्लेषणं स्पर्शनं मतम् । क्षेत्रान्यस्त्वभाभ्वर्तमानार्थश्लेषलक्षणात् ॥४१॥”

—त० श्लो०, पृ० १६० । “एदेसु फोसणेसु जीवखेत्तफोसणेण पयदं । अस्पर्शं स्पृश्यत इति स्पर्शनम् ।
फोसणस्स अणुगमो फोसणाणुगमो, तेण फोसणाणुगमेण । णिद्देसो कहुणं ववख्खणमिदि एयट्ठो । सो दुविहो
जहा पयई । ओघेण पिडेण भभेदेणेत्ति एयट्ठो । आदेसेण भेदेण विसेसेणेत्ति समाणट्ठो ।” — ध० टी०, फो०, पृ०
१४४, १४५ । क्षेत्रं निवासो वर्तमानकालविषयः । तदेव स्पर्शनं त्रिकालगोचरम् स० सि०, पृ० १० ।
निर्जातसंख्यस्य निवासविप्रतिपत्तेः क्षेत्राभिधानम् । अवस्थाविशेषस्य वैचित्र्यात् त्रिकालविषयोपश्लेष
निश्चयार्थं स्पर्शनम् । अवस्थाविशेषो विचित्रस्त्रयस्य — चतुरस्रादिस्तस्य त्रिकालविषयमुपश्लेषणं स्पर्शनम् ।
कस्यचित् क्षेत्रमेव स्पर्शनं कस्यचित् द्रव्यमेव, कस्यचिद्ब्रज्जवः षडष्टौ वेत्ति । एक-सर्वजीवसन्निधौ तद्विश्वचयार्थं
तदुच्यते—त० रा०, पृ० ३० । २. “पमत्तसंजदप्पहुडि जाव अजोगिकेवली हि केवडियं खेत्तं फोसिदं ?
लोगस्स असंखेज्जदिभागो सजोगिकेवली हि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जा
वा भागा, सच्चलोगो वा ।” — पट्खं०, फो०, सू० १७०, १७२ । “पदरगदो केवली केवडिखेत्ते ? लोगस्स
असंखेज्जेसु भागेषु । लोगपूरणगदो केवली केवडिखेत्ते ? सच्चलोगे ।” — ध० टी०, फो०, पृ० ५०, ५४ ।

दोणं पगदीणं बंधगा सव्वलोगो, अबंधगा लोगस्स असंखेअदिभागो । थीणगिद्धितिय-
अणंताणु०४ बंधगा सव्वलोगो । अबंधगा अट्टचोदसभागा वा केवलिभंगो । मिच्छत्त-
बंधगा सव्वलोगो, अबंधगा अट्टवारस-चोदसभागा वा केवलिभंगो वा । अपच्चस्खाणा०
४ बंधगा सव्वलोगो, अबंधगा छचोदसभागा वा केवलिभंगं च । इत्थि० पुरिस०

बन्धकों, अबन्धकोंने कितना क्षेत्र स्पर्शन किया है ? सर्वलोक । दोनों प्रकृतियोंके बन्धकोंने सर्वलोक स्पर्श किया है । अबन्धकोंने लोकका असंख्यातवाँ भाग स्पर्श किया है ।

विशेष—दोनोंके अबन्धक अयोगकेवलियोंकी अपेक्षा लोकका असंख्यातवाँ भाग है ।

स्यानगृद्धित्रिक, अनन्तानुबन्धी ४ के बन्धकोंके सर्वलोक, अबन्धकोंके अष्ट चतुर्दश भाग अर्थात् ६ अथवा केवली भंग है । अर्थात् लोकका असंख्यातवाँ भाग, असंख्यात बहु-भाग अथवा सर्वलोक है ।

विशेषार्थ—स्यानगृद्धित्रिक तथा अनन्तानुबन्धी ४ के अबन्धक सम्यग्मिथ्यादृष्टि असंयत-सम्यग्दृष्टि जीवोंकी अपेक्षा ६ भाग कहा है । विहारवत्-स्वस्थान, वेदना, कषाय, वैक्रियिक समुद्घातकी अपेक्षा मिश्र गुणस्थानवर्ती जीवोंने देशोन् ६ भाग स्पर्श किया है । विहारवत् स्वस्थान, वेदना, कषाय, वैक्रियिक, मारणान्तिक समुद्घातकी अपेक्षा असंयतसम्यग्दृष्टियोंने ऊपर ६ राजू तथा नीचे दो, इस प्रकार देशोन् ६ भाग स्पर्श किया है । मिश्रगुण-स्थानमें मरणका अभाव होनेसे मारणान्तिक समुद्घातका वर्णन नहीं किया गया है । (ध० टी० पृ० १६६, १६७) ।

मिथ्यात्वके बन्धकोंने सर्वलोक स्पर्शन किया है । अबन्धकोंमें ६ अथवा केवली-भंग अर्थात् लोकका असंख्यातवाँ भाग, असंख्यात बहुभाग अथवा सर्व लोक है ।^१

विशेषार्थ—मिथ्यात्वके अबन्धक सासादन सम्यक्त्वी जीवोंने विहारवत् स्वस्थान, वेदना, कषाय, वैक्रियिक समुद्घातकी अपेक्षा देशोन् ६ भाग स्पर्श किया है । मारणान्तिक समुद्घातकी अपेक्षा ३ भाग स्पर्श किया है । यह इस प्रकार है कि सुमेरु पर्वतके मूलभागसे लेकर ऊपर ईषत्प्राग्भार पृथ्वी तक सात राजू होते हैं और नीचे छठी पृथ्वी तक ५ राजू होते हैं । इस प्रकार ३ भाग है । सातवाँ पृथ्वीमें मिथ्यात्व गुणस्थानमें ही मरण होनेसे छठवी पृथ्वी तकका ही उल्लेख किया गया है । (ध० टी०, पृ० १६२)

अप्रत्याख्यानावरण ४ के बन्धकोंने सर्वलोक, अबन्धकोंने ६ भाग वा केवलीभंग प्रमाण क्षेत्र स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—अप्रत्याख्यानावरण ४ के अबन्धक देशसंयमी जीवोंने अतीत कालकी अपेक्षा मारणान्तिक समुद्घातकी दृष्टिसे देशोन् ६ भाग स्पर्श किया । यहाँ सुमेरुसे नीचेके एक हजार योजनसे और आरण-अन्युत विमानोंके उपरिम भागसे कम करना चाहिए । (पृ० १७०)

पूर्वमें वर्तमानकाल विशिष्ट क्षेत्रका प्ररूपण किया जा चुका है, इसलिए यह सूत्र (८) अतीत काल सम्बन्धी है, यह बात जानी जानी है, किन्तु यह अनागत अर्थात् भविष्यकाल सम्बन्धी नहीं है; क्योंकि उसके साथ व्यवहारका अभाव है । अथवा पीछेके सभी सूत्र अतीत

१. ओषेण मिच्छादिट्टीहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? सव्वलोगो । सासणसम्मादिट्टीहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेअदिभागो । अट्ट-वारह चोदसभागा वा देसूणा । सम्मामिच्छादिट्टि-असंजदसम्मादिट्टीहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेअदिभागो । अट्टचोदसभागा वा देसूणा - जी०, फो०, सू० २-६ ।

णवुंसग० बंधगा अबंधगा सव्वलोगो । तिण्णं वेदानं बंधगा सव्वलोगो, अबंधगा केवलभंगो । वेदानं भंगो हस्मादिदोयुगलं पंचजादि छस्संठा० तसथावरादिणवयुगलं दोगोदं च । वेदणीयायु (?) आहारदुग-बंधगा लोगस्स असंखेज्जदिभागो, अबंधगा सव्वलोगो । तिरिक्खायुबंधगा अबंधगा सव्वलोगो । मणुसायुबंधगा लोगस्स असंखेज्जदिभागो, अट्टचोद्दसभागा वा सव्वलोगो वा । अबंधगा सव्वलोगो । चट्टुआयुबंधगा अबंधगा केव० खेत्तं फोसिदं ? सव्वलोगो । णिरयदेवगदिवंधगा के० खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो, छचोद्दसभागा वा । अबंधगा सव्वलोगो । तिरिक्खमणुसगदिवंधगा अबंधगा सव्वलोगो । चट्टुगदिवंधगा सव्वलोगो । अबंधगे केवलभंगो ।

और अनागतकाल विशिष्ट क्षेत्रोंकी प्ररूपणा करनेवाले हैं, ऐसा निश्चय करना चाहिए, क्योंकि भूतकाल और भविष्यकालमें स्पर्शनकी अपेक्षा कोई भेद नहीं है। धबलाटीकाके ये शब्द महत्त्वपूर्ण हैं—“अधवा अदीदाणागद् काल विसिट्टुखेत्ताणं परूवणाणि पच्छिमसव्वसुत्ताणि त्ति णिच्छुभो कायव्वो उभयत्थ विसेसाभावादो” ध० टी०, पृ० १६८। इस कथनने सर्वार्थसिद्धि आदिके आर्ष वाक्योंका समर्थन कर दिया है, जिनमें “स्पर्शनं त्रिकालगोचरम्” स्पर्शनको त्रिकालगोचर कहा गया है।

स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेदके बन्धकों, अबन्धकोंने सर्वलोक स्पर्शन किया है। तीनों वेदोंके बन्धकोंने सर्वलोक स्पर्श किया है। इनके अबन्धकोंमें केवलीके समान भंग है।

विशेषार्थ—स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेदके अबन्धकोंका प्रत्येक वेदकी अपेक्षा अबन्धकोंके सर्वलोक स्पर्शन कहा है, कारण यहाँ एक वेदका अबन्ध होते हुए अन्य वेदका बन्ध हो जाता है। वेदत्रयके अबन्धक अनिवृत्तिकरण गुणस्थानसे अयोगकवली पर्यन्त हैं। उनकी अपेक्षा केवली भंग अर्थात् लोकका असंख्यातवाँ भाग, असंख्यात बहुभाग अथवा सर्वलोक स्पर्श कहा है।

हास्य, रति, अरति, शोक, एकेन्द्रियादि पंच जाति, ६ संस्थान, त्रस-स्थावरादि नव-युगल तथा २ गोत्रमें वेदके समान भंग है। वेदनीय, आयु, आहारकद्विकके बन्धकोंके लोकका असंख्यातवाँ भाग है; अबन्धकोंके सर्वलोक है। तिर्यचायुके बन्धकों-अबन्धकोंके सर्वलोक है। मनुष्यायुके बन्धकोंके लोकका असंख्यातवाँ भाग, १/४ वाँ सर्वलोक है। अबन्धकोंके सर्वलोक है।

विशेष—यहाँ ऊपरके ६ राजू तथा नीचेके २ राजू; इस प्रकार १/४ राजू स्पर्शन हैं।

चार आयुके बन्धकों, अबन्धकोंने कितना क्षेत्र स्पर्शन किया है? सर्वलोक। नरकगति, देवगतिके बन्धकोंने कितना क्षेत्र स्पर्शन किया है? लोकका असंख्यातवाँ भाग वा १/४ भाग है। अबन्धकोंके सर्वलोक है।

विशेष—यहाँ सप्तम नरकके स्पर्शनकी अपेक्षा नरकगतिका स्पर्शन १/४ है तथा सोलहवें स्वर्गके स्पर्शनकी अपेक्षा देवगतिका स्पर्शन १/४ कहा है।

तिर्यचगति-मनुष्यगतिके बन्धकों, अबन्धकोंका सर्वलोक है। चारों गतियोंके बन्धकोंका

१. “असंजदसम्माइट्ठीहि विह्वारंवेदसंस्थान-वेदणकसाय-वेउब्बिय मारणतियसमुग्घादगदेहि अट्टचोद्द-सभागा देसूणा फोसिदा उवरि छ रज्जू, हेट्टा दो रज्जू त्ति ।”—ध० टी०, फो०, पृ० १६७।

एवं चतुःआणुपुत्रि० । ओरालि० बन्धगा सव्वलोगो । अबन्धगा बारहचोदसभागो वा, केवलिभंगं च । वेउव्वियस० बन्धगा बारह० । अबन्धगा सव्वलोगो । दोष्णं बन्धगा सव्वलोगो । अबन्धगा केवलिभंगो । ओरालिय० अंगो० बन्धगा अबन्धगा सव्वलोगो । वेउव्विय० अंगो० बन्धगा बारहभागो वा । अबन्धगा सव्वलोगो । दोअंगो० बन्धगा अबन्धगा सव्वलोगो । छस्सं० परघादुस्सा० आदाउज्जो० दोविहा० दोसरबन्धगा अबन्धगा सव्वलोगो । तित्थय० बन्धगा अट्टचोदसभागो वा । अबन्धगा सव्वलोगो ।

१६१. आदेशेण—णेरहएसु धुविगाणं बन्धगा छचोदसभागो, अबन्धगा णत्थि ।

सर्वलोक है । अबन्धकोंका केवली भंग है । चार आनुपूर्वामें इसी प्रकार जानना चाहिए । औदारिक शरीरके बन्धकोंका सर्वलोक है । अबन्धकोंके ३३ भाग, वा केवली भंग है । वैक्रियिक शरीरके बन्धकोंका ३३ भाग, अबन्धकोंका सर्वलोक है । दोनों शरीरोंके बन्धकोंका सर्वलोक है, अबन्धकोंका केवली भंग है ।

विशेष—औदारिक शरीरका बन्ध चतुर्थ गुणस्थान पर्यन्त, वैक्रियिक शरीरका अपूर्वकरण छठे भाग पर्यन्त बन्ध होता है । दोनोंके अबन्धकोंके अयोगिकेवली पर्यन्त लोकका असंख्यातवां भाग है, सयोगी जिनकी अपेक्षा लोकका असंख्यात बहुभाग तथा सर्वलोक भी भंग है ।

औदारिक अंगोपांगके बन्धकों, अबन्धकोंका सर्वलोक है । वैक्रियिक अंगोपांगके बन्धकोंका ३३ है, अबन्धकोंके सर्वलोक है । दोनों अंगोपांगोंके बन्धकों, अबन्धकोंका सर्वलोक है ।

विशेष—वैक्रियिक शरीरके बन्धकों तथा औदारिक शरीरके अबन्धकोंका स्पर्शन ३३ कहा है, किन्तु उसी प्रकार वैक्रियिक अंगोपांगके बन्धकों तथा औदारिक अंगोपांगके अबन्धकोंका ३३ नहीं कहा है । इसका कारण यह है कि जिस प्रकार औदारिक शरीरका अबन्धक वैक्रियिक शरीरका बन्धक होता है अथवा वैक्रियिक शरीरका अबन्धक औदारिकका बन्धक होता है, वैसा नियम औदारिक अंगोपांग और वैक्रियिक अंगोपांगका नहीं है । ऐकेन्द्रियमें अंगोपांगका अभाव होनेसे शरीरके समान यहाँ व्याप्ति नहीं है ।

छह संहनन, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, दो विहायोगति, दो स्वरके बन्धकों, अबन्धकोंका सर्वलोक स्पर्शन है । तीर्थकर प्रकृतिके बन्धकोंका ३३ है । अबन्धकोंका सर्वलोक है ।

विशेष—तीर्थकर प्रकृतिके बन्धक अविरतसम्यक्त्वकी अपेक्षा ३३ कहा है । विहार^१-वत् स्वस्थान, वेदना-कषाय वैक्रियिक-मारणान्तिक समुद्रात गत असंयतसम्यक्त्व जीवोंमें मेरुके मूलसे ऊपर छह राजू तथा नीचे दो राजू प्रमाण स्पर्शन किया है (ध. टी., पृ. १६७) ।

१६१. आदेशसे—नारकियोंमें—ध्रुव प्रकृतियोंके बन्धकोंके ३३ है; अबन्धक नहीं है ।

विशेष—मारणान्तिक समुद्रात तथा उपपाद पदवाले मिथ्यादृष्टि नारकियोंने अतीत कालमें ३३ स्पर्श किया है । (पृ० १७५) सातवीं पृथ्वीके नारकीकी मारणान्तिक समुद्रात अथवा उपपादकी अपेक्षा कर्मभूमिया संज्ञी मनुष्य या तिर्यचपर्याप्तपर्याय प्राप्तिकी दृष्टिसे छ राजू

१. असंजदसम्माइट्टीहि विहारवदिसत्थाण—वेदण-कसाय-वेउव्वियमारणंतिय समुष्पादगदेहि अट्टचोदसभागो देसुणा फोसिदा । उवरि छ रज्जू हेट्ठा दोरज्जु ति—ध० टी०, पृ० १६७ ।

धीणगिद्धितिय-अणंताणु०४ बंधगा छच्चोद्दसभागो, अवंधगा खेत्तभंगो । सादासाद-
बंधगा-अबंधगा छच्चोद्दसभागो । दोण्णं पगदीणं बंधगा छच्चोद्दसभागो, अवंधगा णत्थि ।
एवं सत्तणोक० छत्संठाः छत्संघं० दोविहा० थिरादिछयुगलं । मिच्छत्तबंधगा छच्चोद्दस-
भागो, अवंधगा पंचचोद्दसभागो । दोआयु० खेत्तभंगो । अवंधगा छच्चोद्दसभागा । एवं
तित्थयरं । तिरिक्खगदिवंधगा छच्चोद्दस०, अवंधगा खेत्तभंगो । मणुसगदिवंधगा खेत्त-
भंगो । अवंधगा छच्चोद्दस० । दोण्णं पगदिवंधगा छच्चोद्दस० । अवंधगा णत्थि । एवं
दोआणुपुन्वि दोगोदं च । उज्जोव० बंधगा अवंधगा छच्चोद्दस० । एवं सच्चणेरह्यणं ।

स्पर्शन है । ध्रुव प्रकृतियोंका सभी नारकी बन्ध करते हैं, अतः $\frac{1}{4}$ ध्रुव प्रकृतिके बन्धकोंका स्पर्श कहा है ।

स्थानगृद्धित्रिक तथा अनन्तानुबन्धी ४ के बन्धकोंके $\frac{1}{4}$ भाग हैं, अबन्धकोंके क्षेत्रके समान भंग हैं । अर्थात् लोकका असंख्यातवाँ भाग है^२ । साता, असाताके बन्धकों, अबन्धकोंके $\frac{1}{4}$ हैं । दोनों प्रकृतियोंके बन्धकोंके $\frac{1}{4}$ हैं; अबन्धक नहीं हैं ।

विशेष—नरकगतिमें साता अथवा असाताके पृथक्-पृथक् रूपसे अबन्धककी अपेक्षा $\frac{1}{4}$ भाग कहा है । इसका अर्थ यह है कि साताके अबन्धक, किन्तु असाताके बन्धक अथवा असाताके अबन्धक, किन्तु साताके बन्धक जीवोंका सप्तम पृथ्वीकी अपेक्षा $\frac{1}{4}$ भाग है ।

भयद्विक बिना सात नोकषाय, छह संस्थान, छह संहनन, दो विहायोगति, स्थिरादि छह युगलमें इसी प्रकार है । मिध्यात्वके बन्धकोंके $\frac{1}{4}$ भाग हैं । अबन्धकोंके $\frac{1}{4}$ भाग है ।^३

विशेष—मिध्यात्वके अबन्धक सासादन सम्यक्त्वी जीवोंकी अपेक्षा छठी पृथ्वीकी वृष्टिसे मारणान्तिक समुद्रघातमें $\frac{1}{4}$ भाग है । सातवीं पृथ्वीमें मिध्यात्व गुणस्थानमें ही मरण करता है, अतः उसकी यहाँ अपेक्षा नहीं की गयी है ।

दो आयु (मनुष्य-तिर्यंचायु) के बन्धकोंके क्षेत्रवत् भंग है अर्थात् लोकका असंख्यातवाँ भाग है ।^४ अबन्धकोंके $\frac{1}{4}$ भाग है । तीर्थकर प्रकृतिके बन्धकोंके लोकका असंख्यातवाँ भाग, अबन्धकोंके $\frac{1}{4}$ भाग है ।

तिर्यंचगतिके बन्धकोंके $\frac{1}{4}$ भाग है । अबन्धकोंके क्षेत्रवत् भंग है । मनुष्यगतिके बन्धकोंके क्षेत्रसमान भंग है । अबन्धकोंके $\frac{1}{4}$ भाग है । दोनोंके बन्धकोंके $\frac{1}{4}$ भाग है । अबन्धक नहीं है । दो आनुपूर्वी (मनुष्य-तिर्यंचानुपूर्वी) तथा २ गोत्रोंमें भी इसी प्रकार भंग है । उद्योतके बन्धकों, अबन्धकोंका $\frac{1}{4}$ भाग है ।

इस प्रकार सर्व नारकियोंमें जानना चाहिए । विशेष, अपना-अपना स्पर्शन निकाल लेना चाहिए ।

१. 'गिरयगदीए णेरइएसु मिच्छादिट्ठीहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो, छ चोद्दसभागा वा देसुणा ।'—षट्खं०, फो०, सू० ११, १२ । २. 'सम्मामिच्छादिट्ठि-असंजदसम्मदिट्ठीहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदि भागो ।'—षट्खं०, फो०, सू० १३, १४, १५ । ३. 'विदिवादि जाव छट्ठीए पुडवीए णेरइएसु मिच्छादिट्ठिसाणसम्मदिट्ठीहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो । एमं वे तिण्णि चत्तारि पंच चोद्दसभागा वा देसुणा ।'—षट्खं०, फो०, सू० १७, १८ । ४. णेरइएसु सच्चभंगा लोगस्स असंखेज्जदिभागो ।—खेत्ताणुगम०, पृ० १८७ ।

णवरि अप्पणो फोसणं कादव्वं । सत्तमीए मिच्छन्नं अबंधगा खेत्तभंगो ।

१६२. तिरिक्खाणं धुविगणं बंधगा सव्वलोगे । अबंधगा णत्थि । [थीण-गिद्धितिय] अट्टकसा० बंधगा सव्वलोगे, अबंधगा छच्चोइस० । सादासाद-बंधगा अबंधगा सव्वलोगे । दोणं पगदीणं बंधगा सव्वलोगे । अबंधगा णत्थि । एवं तिण्णिवे० दोयुग० पंचजादिहसंठाणं तसथावरादिणवयुगल-दोगोदं । मिच्छन्न-बंधगा

विशेष—छठी पृथ्वीमें देशोन ३/४, पाँचवीं पृथ्वीमें देशोन ३/४, चौथीमें देशोन ३/४, तीसरीमें देशोन ३/४, दूसरीमें देशोन ३/४ तथा पहली पृथ्वीमें लोकका असंख्यातवाँ भाग मिध्यात्व, सासादन गुणस्थानमें स्पर्शन कहा है। मिश्र तथा अविरत सम्यग्दृष्टियोंके लोकका असंख्यातवाँ भाग बताया है। इस स्पर्शनको ध्यानमें रखकर भिन्न-भिन्न प्रकृतियोंके बन्धकों-अबन्धकोंके विषयमें यथायोग्य योजना करनी चाहिए।

सातवीं पृथ्वीमें—मिध्यात्वके अबन्धकोंका क्षेत्रके समान भंग है। अर्थात् लोकका असंख्यातवाँ भाग है।

विशेषार्थ—मिध्यात्वके बन्धकोंका स्पर्शन सातों पृथ्वीयोंमें लोकका असंख्यातवाँ भाग भी कहा है। सातवीं पृथ्वीमें ३/४ भाग देशोन भी स्पर्श है।

१६२. तिर्यचोमें—ध्रुव प्रकृतियोंके बन्धक सर्वलोकमें हैं; अबन्धक नहीं हैं। [स्त्यान-गृद्धित्रिक] अनन्तानुबन्धी ४ तथा अप्रत्याख्यानावरण ४ के बन्धकोंका सर्वलोक स्पर्शन है। अबन्धकोंका ३/४ भाग है।

विशेषार्थ—कषायाष्टकके अबन्धक देशसंयत तिर्यचोंके मारणान्तिक समुद्रातकी अपेक्षा अच्युत स्वर्गके स्पर्शनकी दृष्टिसे ३/४ भाग कहा है।

स्वस्थान-स्वस्थान, वेदना समुद्रात, कषाय, मारणान्तिक समुद्रात तथा उपपाद पदोंसे अतीत कालमें तिर्यच जीवों-द्वारा सर्वलोक स्पृष्ट है। क्योंकि वर्तमान कालके समान अतीत कालमें भी तिर्यच जीवोंका सर्वलोकमें अवस्थान पाया जाता है। विहारकी अपेक्षा अतीत कालमें तीन लोकोंका असंख्यातवाँ भाग, तिर्यग्लोकका संख्यातवाँ भाग और मनुष्य क्षेत्रसे असंख्यात गुणा क्षेत्र स्पृष्ट है।

शंका—असंख्यात समुद्रोंके त्रसजीवोंसे रहित होनेपर वहाँ विहार करनेवाले त्रस-जीवोंकी सम्भावना कैसे हो सकती है?

समाधान—नहीं, क्योंकि वहाँ पूर्व वैरी देवोंके प्रयोगसे विहार होनेमें कोई विरोध नहीं है। तत्थ पुव्व-वसरिय-देवाणं पओएण विहारे विरोहाभावादो (सु० बं०, टी० पृ० ३७५)

साता, असाताके बन्धकोंके सर्वलोक है। दोनोंके बन्धकोंके सर्वलोक है; अबन्धक नहीं है। तीन वेद, हास्य-रति, अरति-शोक, ५ जाति, ६ संस्थान, त्रस-स्थावरादि ६ युगल

१. "सत्तमाए पुढवीए णेरइएसु...सासणसम्मदिट्ठि-सम्मामिच्छादिट्ठि-असंजदसम्मदिट्ठिहि केवडियं खेत्तं फोसिदं? लोमस्स असंखेज्जदिभागो।" -षट्खं०, फो०, सू० २२ । २. फोसणाणुगमेण गदियाणु-वादेण णिरयगदीए णेरइएहि सत्थाणेहि केवडियं खेत्तं फोसिदं? लोमस्स असंखेज्जदिभागो! मनुष्याद-उववादेहि...लोमस्स असंखेज्जदिभागो छच्चोइसभागा वा देसूणा । पढमाए पुढवीए णेरइया सत्थाणसमुषाद-उववादपदेहि...लोमस्स असंखेज्जदिभागो विदियाए जाव सत्तमाए पुढवीए णेरइया सत्थाणेहि...लोमस्स असंखेज्जदिभागो । मनुष्याद-उववादेहि य केवडियं खेत्तं फोसिदं? लोमस्स असंखेज्जदिभागो । एग वे तिण्णि चत्तारि पंच छ चोइसभागा वा देसूणा । -सु० बं०, सू० १-११ । ३ "असंजदसम्मदिट्ठि-संजदासंजदेहि केव-डियं खेत्तं फोसिदं? लोमस्स असंखेज्जदिभागो, छच्चोइसभागा वा देसूणा।" -षट्खं०, फो०, सू० २७, २८ ।

सव्वलोगो । अबंधगा सत्तचोदसभागो वा । तिण्णि आयुखेतभंगो । मणुसायुबंधगा लोगस्स असंखेज्जिभागो सव्वलोगो वा । अबंधगा सव्वलोगो । चटुण्णं आयुबंधगा अबंधगा सव्वलोगो । णिरयगदिदेवगदिबंधगा छ्चोदसभागो । अबंधगा सव्वलोगो । तिरिक्ख-मणुसगदिबंधगा अबंधगा सव्वलोगो । चटुण्णं पगदीणं बंधगा सव्वलोगो । अबंधगा णत्थि । ओरालियं बंधगा सव्वलोगो । अबंधगा बारहचोदसं । वेउच्चिं बंधगा बारह-चोदसभागो वा । अबंधगा सव्वलोगो । दोण्णं पगदीणं बंधगा सव्वलोगो । अबंधगा णत्थि । ओरालिं अंगो बंधगा अबंधगा सव्वलोगो । वेउच्चिय-अंगो बंधगा बारहचोदसभागो । अबंधगा सव्वलोगो । दोण्णं पगदीणं बंधगा अबंधगा सव्वलोगो । छस्संघं दोविहां दोसरं पत्तेणेण साधारणेण वि खेतभंगो ।

तथा दो गोत्रोंमें इसी प्रकार है ।^१ मिथ्यात्वके बन्धकोंका सर्वलोक है । अबन्धकोंका १४ भाग है ।^२

विशेष—मारणान्तिक समुद्रातकी अपेक्षा मिथ्यात्वके अबन्धक सासादन सम्यक्त्वी जीवोंके १४ भाग स्पर्शन है ।

नरक-तिर्यच-देवायुका क्षेत्रके समान भंग है । मनुष्यायुके बन्धकोंका लोकका असंख्यातवाँ भाग, वा सर्वलोक भंग है । अबन्धकोंका सर्वलोक है । चारों आयुके बन्धकों-अबन्धकोंका सर्वलोक है । नरकगति, देवगतिके बन्धकोंका १४ है । अबन्धकोंका सर्वलोक है । तिर्यचगति मनुष्यगतिके बन्धकों, अबन्धकोंका सर्वलोक है । चारों गतियोंके बन्धकोंका सर्वलोक है । अबन्धक नहीं हैं । औदारिक शरीरके बन्धकोंका सर्वलोक है, अबन्धकोंका १३ भाग है । वैक्रियिक शरीरके बन्धकोंका १३ है, अबन्धकोंका सर्वलोक है ।

विशेष—वैक्रियिक शरीरके बन्धक तिर्यचोंका अच्युत स्वर्ग तथा सप्तम नरकके स्पर्शनकी अपेक्षा १३ भाग कहा है ।

औदारिक-वैक्रियिक शरीरके बन्धकोंका सर्वलोक है ; अबन्धक नहीं है । औदारिक अंगोपांगके बन्धकों-अबन्धकोंका सर्वलोक है । वैक्रियिक अंगोपांगके बन्धकोंका १३ भाग है । अबन्धकोंका सर्वलोक है । दोनों प्रकृतियोंके बन्धकों-अबन्धकोंका सर्वलोक है ।

विशेष—जिस प्रकार वैक्रियिक शरीरके बन्धकोंका १३ है, उसी प्रकार वैक्रियिक अंगोपांगका भी वर्णन है, किन्तु औदारिक शरीरके समान औदारिक अंगोपांगका वर्णन नहीं है । कारण, एकेन्द्रियोंमें औदारिक अंगोपांगके अभावमें भी औदारिक शरीर पाया जाता है, किन्तु वैक्रियिक शरीरके साथ वैक्रियिक अंगोपांगका सदा सम्बन्ध पाया जाता है । इस कारण इनका स्पर्शन तुल्य है तथा औदारिक शरीर एवं औदारिक अंगोपांगका स्पर्शन समान नहीं कहा गया है ।

उह संहनन, दो विहायोगति, दो स्वरका प्रत्येक तथा सामान्यसे क्षेत्रवत् भंग है

१. तिरिक्खगदीए तिरिक्खा सत्थाण-समुग्घाद-उबवादेहि केवडियं खेतं फोसिदं ? सव्वलोगो —सुं बं, सू० १२, १३ । २. "तिरिक्खेसु" सासणसम्माविट्ठीहि केवडियं खेतं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जि-दिभागो, सत्तचोदसभागो वा देसूणा ।" -षट्खं, फो०, सू० २३, २५ ।

आणुषुन्वि-गदिभंगो । परघादुस्सा० आदाउज्जो० बंधगा अवंधगा सव्वलोगो । पंचि-
दिय तिरिक्ख०३-धुविगणं बंधगा तेरह-चोदसभागा वा सव्वलोगो वा । अवंधगा
णत्थि । थीणगिद्धि-तिर्यं अट्टकसा० बंधगा तेरहचोदस०, सव्वलोगो वा । अवंधगा
छ्चोदसभागा वा । मिच्छ० बंधगा तेरहचोदस० सव्वलोगो वा । अवंधगा सत्तचोदस-
भागा वा देसूणा । सादबंधगा सत्तचोदसभागा वा सव्वलोगो वा । अवंधगा तेरह-

अर्थात् बन्धकों तथा अबन्धकोंका सर्वलोक स्पर्शन है । आनुपूर्वमें गतिके समान भंगा है ।

विशेष—नरक देवानुपूर्विके बन्धकोंके ३/४ है । अबन्धकोंके सर्वलोक हैं ।

परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योतके बन्धकों-अबन्धकोंका सर्वलोक है ।

पंचेन्द्रियतिर्यंच, पंचेन्द्रियतिर्यंच-पर्याप्तक, पंचेन्द्रिय-तिर्यंच-योनिमर्तामें—ध्रुवप्रकृतियोंके बन्धकोंका ३/४ भाग वा सर्वलोक है; अबन्धक नहीं है ।

विशेष—सातवीं पृथ्वीके नारकीने उपपाद्-द्वारा पंचेन्द्रियतिर्यंचोंकी भूमि मध्यलोकका स्पर्श किया, पश्चात् तिर्यंचरूपसे काल व्यतीत कर लोकाम्रमें जाकर बादर, पृथ्वी, जल, वनस्पतिकायिकोंमें जन्म धारण किया, इस प्रकार ३/४ राजू हुए । सप्तम नरकके नारकी जीवने जब तिर्यंच पंचेन्द्रिय पर्यायके निमित्त प्रस्थान किया, तब तिर्यंचायुका उदय आ जानेसे वह जीव तिर्यंचसंज्ञाका पात्र हो गया ।

स्त्यानगृद्धित्रिक तथा अनन्तानुबन्धो आदि ८ कषायके बन्धकोंके ३/४ भाग, वा सर्व-
लोक है; अबन्धकोंके ३/४ भाग है ।

विशेष—यहाँ अबन्धक देशव्रती तिर्यंचोंका अच्युत स्वर्ग पर्यन्त उत्पादकी अपेक्षा ३/४ कहा है ।

मिथ्यात्वके बन्धकोंका ३/४ वा सर्वलोक है, अबन्धकोंका देशोन ३/४ है^२ ।

विशेषार्थ—मिथ्यात्वके अबन्धक सासादन गुणस्थानवर्ती तिर्यंच ३/४ भाग स्पर्श करते हैं।^३ धबलाकार सासादन सम्यक्स्वीका एकेन्द्रियमें उत्पाद न मानकर मारणान्तिक समुद्घात स्वीकार करते हैं । अतः लोकाम्रके एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घातकी अपेक्षा ३/४ भाग कहा है ।

शंका—ये सासादन गुणस्थानवर्ती तिर्यंच सुमेरुगिरिके मूलभागसे नीचे मारणान्तिक समुद्घात क्यों नहीं करते ?

समाधान—सभावदो—स्वभावसे वे ऐसा नहीं करते हैं । पर्यायार्थिक नयकी विवक्षासे वे नारकियोंमें अथवा मेरुतलसे अधोभागवर्ती एकेन्द्रिय जीवोंमें मारणान्तिकसमुद्घात नहीं करते हैं । (धबलाटीका पृ० २०५)

साताके बन्धकोंका ३/४ भाग वा सर्वलोक है, अबन्धकोंका ३/४ वा सर्वलोक है ।

१. "तिरिक्खेमु असंजदसम्मादिट्ठि-वज्जदासंजदेहि केवडियं खेतं फोसिदं ? लोमस्स असंखेज्जदिभागो, छ्चोदसभागा वा देसूणा ।"—पट्खं०, फो०, सू० २७-२८ । २. "सासणसम्मादिट्ठीहि केवडियं खेतं फोसिदं ? लोमस्स असंखेज्जदिभागो, सत्तचोदसभागा वा देसूणा"—पट्खं०, फो०, सू० २४-२५ । ३. मारणतिथ-समुग्घा-
दगदेहि सत्त-चोदसभागा देसूणा फोसिदा—२०४ ध० टीका, जीव० फो० ।

चोद्दसभागा स्रव्वलोगो । असाद्वंधगा तेरहभागो वा, स्रव्वलोगो । अवंधगा सत्तभागा वा स्रव्वलोगो वा । दोण्णं बंधगा तेरस० स्रव्वलोगो वा । अवंधगा णत्थि । एवं चदुणोक० थिराथिर-सुभासुभ० । इत्थिवे० बंधगा दिवड्ढुचोद्दसभागा । अवंधगा तेरह० स्रव्वलोगो वा । पुरिस० बंधगा छचोद्दस० । अवंधगा तेरह० स्रव्वलोगो वा । णवुंस० बंधगा तेरह० स्रव्वलोगो वा । अवंधगा छचोद्दस० । तिण्णिवेद० बंधगा तेरस० स्रव्वलोगो वा । अवंधगा णत्थि । चदुण्णं आयु० बंधगा खेत्तभंगो । अवंधगा तेरह० स्रव्वलोगो वा । णिरयगदि-देवगदिवंधगा छचोद्दसभागा । अवंधगा तेरह० स्रव्वलोगो वा । तिरिक्खगदिवंधगा सत्तचोद्दसभागो, स्रव्वलोगो वा अवंधगा बारहचोद्दस० । मणुसगदि-बंधगा खेत्तभंगो । अवंधगा तेरहचोद्दस० स्रव्वलोगो । चदुण्णं गदीणं बंधगा तेरहचोद्दस० स्रव्वलोगो । अवंधगा णत्थि । एवं आणुपुत्वि० । एइदि० बंधगा सत्तचोद्दस० स्रव्वलोगो । अवंधगा बारह० । तिण्णिजादीणं बंधगा खेत्तभंगो । अवंधगा

असाताके बन्धकोंका $\frac{1}{3}$ वा सर्वलोक है, अबन्धकोंका $\frac{2}{3}$ वा सर्वलोक है । दोनोंके बन्धकोंका $\frac{1}{3}$ वा सर्वलोक है, अबन्धक नहीं हैं । हास्य-रति, अरति-शोक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभमें इसी प्रकार भंग जानना चाहिए । स्त्रीवेदके बन्धकोंके $\frac{1}{3}$ भाग है । अबन्धकोंके $\frac{2}{3}$ वा सर्वलोक है ।

विशेष—सौधर्मद्विक पर्यन्त देवियोंका उत्पाद होता है, अतः जिस तिर्यंचने मारणान्तिक समुद्रात-द्वारा सौधर्म, ईशानके प्रदेशका स्पर्शन किया, उसकी अपेक्षा $\frac{1}{3}$ भाग कहा है ।

पुरुषवेदके बन्धकोंका $\frac{1}{3}$, अबन्धकोंका $\frac{2}{3}$ वा सर्वलोक है ।

विशेष—तिर्यंचोंका अच्युत स्वर्गपर्यन्त उत्पाद होता है । इस दृष्टिसे पुरुषवेदके बन्धकके $\frac{1}{3}$ कहा है ।

नपुंसकवेदके बन्धकोंका $\frac{1}{3}$ वा सर्वलोक है, अबन्धकोंके $\frac{2}{3}$ भाग है । तीनों वेदोंके बन्धकोंका $\frac{1}{3}$ वा सर्वलोक है; अबन्धक नहीं हैं । चार आयुके बन्धकोंका क्षेत्रके समान सर्वलोक भंग है । अबन्धकोंका $\frac{2}{3}$ वा सर्वलोक है । नरकगति, देवगतिके बन्धकोंका $\frac{1}{3}$ भाग है, अबन्धकोंका $\frac{2}{3}$ वा सर्वलोक है ।

विशेष—नरकगतिके बन्धक तिर्यंचका सप्तमपृथ्वीके स्पर्शनकी अपेक्षा $\frac{1}{3}$ है, इसी प्रकार देवगतिके बन्धकके अच्युत स्वर्गकी अपेक्षा भी $\frac{1}{3}$ भाग है ।

तिर्यंचगतिके बन्धकोंके $\frac{1}{3}$ भाग वा सर्वलोक है, अबन्धकोंके $\frac{2}{3}$ है ।

विशेष—तिर्यंचगतिके अबन्धकके अच्युत स्वर्ग तथा सप्तम नरक पर्यन्त, स्पर्शकी अपेक्षा $\frac{1}{3}$ भाग है । तिर्यंचगतिके बन्धक पंचेन्द्रिय तिर्यंचके मध्यलोकसे लोकान्तके एकेन्द्रियोंके क्षेत्रके स्पर्शनकी अपेक्षा $\frac{1}{3}$ है ।

मनुष्यगतिके बन्धकोंका क्षेत्रके समान भंग है । अबन्धकोंके $\frac{2}{3}$ वा सर्वलोक है । चारों गतियोंके बन्धकोंके $\frac{1}{3}$ वा सर्वलोक है; अबन्धक नहीं हैं । आनुपूर्वमें गतिके समान भंग है । एकेन्द्रियके बन्धकोंके $\frac{1}{3}$, सर्वलोक है; अबन्धकोंके $\frac{2}{3}$ भाग है ।

१. सोहम्मीसाणकप्पवत्सियदेवा सत्थाणसमुग्घादगदं देवगदिभंगो । उववादेहि केवडियं खेतं फोसिदं ? लोगसस असंखेज्जदिभागो दिवड्ढुचोद्दसभागा वा देसूणा । —सु० बं०, सू० ३७-३८ ।

तेरह० सव्वलोगो । पंचिदि० बंधगा बारह० । अबंधगा सत्तचोइस० सव्वलोगो । पंचजा० तेरह० सव्वलोगो । अबंधगा णत्थि । ओरालिय० बंधगा सत्तचोइस०, सव्वलोगो । अबंधगा बारह० । वेउव्विय० बंधगा बारह०, अबंधगा सत्तचोइस०, सव्वलोगो । दोण्णं पग्गदीणं बंधगा तेरह०, सव्वलोगो । अबंधगा णत्थि । समचदु० बंधगा छचोइ० । अबंधगा तेरह० सव्वलोगो । चहुण्णं संठाणाणं बंधगा खेत्तभंगो । अबंधगा तेरह० सव्वलोगो । हुंडसंठाणस्स तेरह० सव्वलोगो । अबंधगा छचोइसभागो वा । छस्संठाणं बंधगा तेरह० सव्वलोगो । अबंधगा णत्थि । ओरालिय-अंगो० बंधगा खेत्तभंगो । अबंधगा तेरह० सव्वलोगो । वेउव्विय-अंगो० बंधगा बारह० । अबंधगा सत्तचोइस०, सव्वलोगो । दोण्णं अंगो० बंधगा बारह० । अबंधगा सत्तचो०, सव्व-

विशेष—लोकाग्र भागमें विद्यमान एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होनेकी अपेक्षा $\frac{१}{४}$ स्पर्शन है । एकेन्द्रियके अबन्धकोंका स्पर्शन सप्तम पृथ्वी पर्यन्त ६ राजू तथा अच्युत स्वर्ग पर्यन्त ६ राजू प्रमाण होनेसे $\frac{१}{४}$ कहा है ।

दोइन्द्रिय, त्रौन्द्रिय, चौइन्द्रिय जातिके बन्धकोंका क्षेत्रके समान भंग है । अबन्धकोंका $\frac{१}{४}$ वा सर्वलोक है ।

विशेष—विकलेन्द्रियके अबन्धकोंका लोकाग्रमें स्थित एकेन्द्रियका स्पर्शन तथा अधोलोकमें सप्तम पृथ्वी पर्यन्त स्पर्शनकी अपेक्षा $\frac{१}{४}$ कहा है ।

पंचेन्द्रिय जातिके बन्धकोंके $\frac{१}{४}$ है । अबन्धकोंके $\frac{१}{४}$ वा सर्वलोक है । पंच जातियोंके बन्धकोंके $\frac{१}{४}$ वा सर्वलोक है ; अबन्धक नहीं हैं । औदारिक शरीरके बन्धकोंके $\frac{१}{४}$ है । वा सर्वलोक है । अबन्धकोंके $\frac{१}{४}$ है ।

विशेष—लोकाग्रके एकेन्द्रियोंके स्पर्शनकी अपेक्षा बन्धकोंके $\frac{१}{४}$ है । अबन्धकोंके वैक्रियिक शरीरकी अपेक्षा ऊपर ६ राजू तथा नीचे ६ राजू इस प्रकार $\frac{१}{४}$ है ।

वैक्रियिक शरीरके बन्धकोंके $\frac{१}{४}$ है । अबन्धकोंके $\frac{१}{४}$ वा सर्वलोक है । दोनों शरीरोंके बन्धकोंके $\frac{१}{४}$ भाग वा सर्वलोक है ; अबन्धक नहीं हैं । समचतुरस्र संस्थानके बन्धकोंके $\frac{१}{४}$ तथा अबन्धकोंके $\frac{१}{४}$ वा सर्वलोक है ।

विशेष—इस संस्थानके बन्धकोंके अच्युत स्वर्गके स्पर्शनकी अपेक्षा $\frac{१}{४}$ है । अबन्धकोंके अधोलोकके ६ तथा ऊर्ध्वके ७ राजू मिलाकर $\frac{१}{४}$ भाग कहा है ।

चार संस्थान अर्थात् समचतुरस्र तथा हुण्डकको छोड़कर शेषके बन्धकोंका क्षेत्रवत् भंग है ; अबन्धकोंका $\frac{१}{४}$ वा सर्वलोक है । हुण्डक संस्थानके बन्धकोंका $\frac{१}{४}$ वा सर्वलोक है । अबन्धकोंके $\frac{१}{४}$ भाग है । छह संस्थानोंके बन्धकोंके $\frac{१}{४}$ वा सर्वलोक है ; अबन्धक नहीं हैं । औदारिक अंगोपांगके बन्धकोंका क्षेत्रके समान भंग है । अबन्धकोंके $\frac{१}{४}$ वा सर्वलोक है । वैक्रियिक अंगोपांगके बन्धकोंका $\frac{१}{४}$ है, अबन्धकोंका $\frac{१}{४}$ वा सर्वलोक भंग है ।

विशेष—इसके बन्धकोंके ऊपर ६ राजू तथा नीचे ६ राजू, इस प्रकार $\frac{१}{४}$ भंग है । यह वैक्रियिक अंगोपांगके अबन्धकोंके लोकाग्रके एकेन्द्रिय जीवोंकी अपेक्षा $\frac{१}{४}$ कहा है ।

दोनों अंगोपांगोंके बन्धकोंका $\frac{१}{४}$ तथा अबन्धकोंका $\frac{१}{४}$ वा सर्वलोक है ।

लोगो । छस्संघं० पत्तेगेण साधारणेण वि खेत्तमंगो । अबंधगा तेरह० सव्वलोगो । परघादुस्सा० बंधगा तेरह० सव्वलोगो वा । अबंधगा लोगस्स असंखेज्जदिभागो, सव्वलोगो वा । आदावस्स बंधगा खेत्तमंगो । अबंधगा तेरह० सव्वलोगो । उज्जोवस्स बंधगा सत्तचोदस० । अबंधगा तेरह० सव्वलोगो वा । पसत्थवि० बंधगा छ्चोदस० । अबंधगा तेरह० सव्वलो० अप्पसत्थवि० बंधगा छ्चोदस० । अबंध० सत्तचोद० सव्वलो० । दोण्णापि बारह० । अबंधगा सत्तचोदस० सव्वलो० । एवं दूसरं० । तसबंधगा बारह० । अबंधगा सत्तचो० सव्वलो० । थावरबंधगा सत्तचोदस० सव्वलोगो । अबंधगा बारहचोदस० । दोण्णापि बंधगा तेरहचोदस० सव्वलोगो । अबंधगा णत्थि । बादरं बंधगा तेरह० । अबंधगा लोगस्स असंखेज्जदिभागो, सव्वलोगो वा । सुहुमबंधगा लोगस्स असंखे०, सव्वलोगो वा । अबंधगा तेरह० चोदस० । दोण्णं पगदीणं बंधगा तेरह० सव्वलो० । अबंधगा णत्थि । पज्जत्त-पत्तेगं० बंधगा तेरह० सव्वलो० । अबंधगा लोगस्स असंखे० सव्वलो० । अपज्जत्त साधारण-बंधगा लोग० असंखे०, सव्वलो० । अबंधगा तेरह० सव्वलो० । दोण्णं पगदीणं बंधगा तेरह० सव्वलोगो । अबंधगा णत्थि ।

छह संहननोंका पृथक्-पृथक् अथवा समुदाय रूपसे क्षेत्रके समान भंग है । अबन्धकोंका ३३ वा सर्वलोक है । परघात, उच्छ्वासके बन्धकोंके ३३ वा सर्वलोक है । अबन्धकोंके लोकका असंख्यातवाँ भाग है अथवा सर्वलोक है । आतपके बन्धकोंके क्षेत्रके समान है । अबन्धकोंके ३३ अथवा सर्वलोक भंग है । उद्योतके बन्धकोंका ३३, अबन्धकोंका ३३ वा सर्वलोक भंग है । प्रशस्त विहायोगतिके बन्धकोंके ३३, अबन्धकोंके ३३ वा सर्वलोक है ।

विशेष—अच्युत स्वर्गके स्पर्शनकी अपेक्षा ३३ कहा है, कारण देवोंके प्रशस्त विहायोगति पायी जाती है । प्रशस्तविहायोगतिके अबन्धक अर्थात् अप्रशस्तविहायोगतिके बन्धक अथवा दोनोंके अबन्धककी अपेक्षा अधोलोकके ६ राजू तथा ऊर्ध्वके ७ इस प्रकार ३३ है ।

अप्रशस्तविहायोगतिके बन्धकोंका ३३, अबन्धकोंका ३३ वा सर्वलोक है ।

विशेष—सप्तम पृथ्वीके स्पर्शनकी अपेक्षा अप्रशस्तविहायोगतिके बन्धकोंके ३३ है । विहायोगतिके अबन्धककी अपेक्षा लोकाग्रके तिर्यचोंके स्पर्शनकी दृष्टिसे ३३ भाग है, कारण एकेन्द्रियके साथ विहायोगतिके बन्धका सन्निकर्षपना नहीं पाया जाता है ।

दोनों विहायोगतिके बन्धकोंके ३३, अबन्धकोंके ३३ वा सर्वलोक है । दो स्वरोमें भी इसी प्रकार है । त्रसके बन्धकोंके ३३, अबन्धकोंके ३३ वा सर्वलोक है । स्थावरके बन्धकोंके ३३ वा सर्वलोक है । अबन्धकोंके ३३ है । दोनोंके बन्धकोंके ३३ वा सर्वलोक है । अबन्धक नहीं हैं । बादरके बन्धकोंके ३३ है, अबन्धकोंके लोकका असंख्यातवाँ भाग वा सर्वलोक है । सूक्ष्मके बन्धकोंके लोकका असंख्यातवाँ भाग वा सर्वलोक है । अबन्धकोंके ३३ भाग है । दोनों प्रकृतियोंके बन्धकोंके ३३ वा सर्वलोक है; अबन्धक नहीं है । पर्याप्तक तथा प्रत्येकके बन्धकोंका ३३ भाग वा सर्वलोक है । अबन्धकोंके लोकका असंख्यातवाँ भाग वा सर्वलोक है । अपर्याप्त, साधारणके बन्धकोंके लोकका असंख्यातवाँ भाग, सर्वलोक है । अबन्धकोंके ३३ वा सर्वलोक है । पर्याप्त अपर्याप्त तथा प्रत्येक साधारणके बन्धकोंका ३३ वा सर्वलोक है; अबन्धक नहीं

सुभग-आदेज-समचदु० भंगो । दुभग-अणादेजहुंडसंठाणभंगो । दोण्णं पगदीणं बंधगा तेरह० सव्वलो० । अबंधगा णत्थि । जसगित्तिस्स बंधगा सत्तचोइस० । अबंधगा तेरह० सव्वलोगो । अजस० बंध० तेरह० सव्वलो० । अबंधगा सत्तचोइस० । दोण्णं पगदीणं बंधगा तेरह० सव्वलोगो । अबंधगा णत्थि । दो गोदाणं संठाण-भंगो ।

१६३. पंचिदियतिरिक्ख-अपज्जत्ता-पंचणा० णवदंस० मिच्छ० सोलसक० भयदु० तिण्णिसरीर-वण्ण०४ अगु० उप० णिमिण-पंचंतराइमाणं बंधगा लोगस्स असंखेज्जदिभागो सव्वलोगो वा । अबंधगा णत्थि । दोवेदणी० हस्सादि० दोगुगल-थिरादि०४ बंधगा अबंधगा लोगस्स असंखेज्जदिभागो सव्वलोगो वा । दोण्हं पगदीणं बंधगा लोगस्स असंखेज्जदिभागो, सव्वलोगो वा । अबंधगा णत्थि । इत्थि० पुरिस० बंधगा खेत्तभंगो । अबंधगा लोगस्स असंखेज्जदिभागो सव्वलोगो वा । णवुंस० बंधगा पडिलोमं भाणिदव्वं । तिण्णि वेदाणं बंधगा लोगस्स असंखे०, सव्वलोगो वा । अबंधगा णत्थि । इत्थिवेदभंगो दोआयु-मणुसगादि-चदुजादि-पंचसंठा० ओरालि०

है । सुभग तथा आदेयका समचतुरस्र संस्थानके समान भंग है । दुर्भग, अनादेयका हुण्डक-संस्थानके समान भंग है । सुभग, दुर्भग, आदेय, अनादेयके बन्धकोंका $\frac{1}{2}$ वा सर्वलोक है; अबन्धक नहीं है । यशःकीर्तिके बन्धकोंके $\frac{1}{3}$ है, अबन्धकोंके $\frac{2}{3}$ वा सर्वलोक है । अयशः-कीर्तिके बन्धकोंके $\frac{1}{3}$, सर्वलोक है; अबन्धकोंके $\frac{2}{3}$ है । यशःकीर्ति-अयशःकीर्तिके बन्धकोंके $\frac{1}{3}$ वा सर्वलोक है; अबन्धक नहीं है ।

विशेष—तिर्यचोंमें तीर्थकरका बन्ध न होनेसे यहाँ उसका वर्णन नहीं किया गया है । दो गोत्रोंके विषयमें संस्थानके समान भंग है ।

१६३. पंचेन्द्रिय-तिर्यच-लब्धयपर्याप्तकोमें—५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा-औदारिक-तैजस-कार्माण शरीर, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण तथा ५ अन्तरायके बन्धकोंके लोकका असंख्यातवाँ भाग वा सर्वलोक है । अबन्धक नहीं है । दो वेदनीय, हास्यादि दो युगल, स्थिरादि ४ के बन्धकों-अबन्धकोंका लोकके असंख्यातवाँ भाग वा सर्वलोक है । दोनों प्रकृतियोंके बन्धकोंका लोकका असंख्यातवाँ भाग वा सर्वलोक है; अबन्धक नहीं है । स्त्री-पुरुष वेदके बन्धकोंका क्षेत्र-भंग है अर्थात् लोकका असंख्यातवाँ भाग है । अबन्धकोंका लोकके असंख्यातवाँ भाग वा सर्वलोक भंग है । नपुंसकवेदका प्रैतिलोम क्रम है अर्थात् नपुंसकवेदके बन्धकोंका लोकका असंख्यातवाँ भाग वा सर्वलोक भंग है । अबन्धकोंका लोकका असंख्यातवाँ भाग है । तीनों वेदोंके बन्धकोंका लोकका असंख्यातवाँ भाग वा सर्वलोक है; अबन्धक नहीं है । दो आयु (मनुष्य-तिर्यचायु), मनुष्यगति, दोइन्द्रियादि

“पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्ताएहि केवडियं खेतं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो, सव्वलोगो वा ।” षट्खं०, फो०, सू० ३२, ३३ । पंचिदियतिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्ता-पंचिदियतिरिक्खजोणिण-पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्ता सत्याण्ण केवडियं खेतं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो । समुघाद-उववावेहि केवडियं खेतं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो, सव्वलोगो वा —खु० बं०, सू० १४-१७ ।

अंगो० छस्संघ० मणुसाणु० आदाउजो० (?) दोविहा० [तस] सुभग-सुस्सर-आदेज० उच्चागोदं च । णवुंसगवेद-भंगो तिरिक्खगदि-एइंदियजादि-हुंडसंठाण-तिरिक्खाणु-पुब्बि-थावर-पज्जत्तापज्ज० पत्तेग-साधारण-दुभग-दूसर-अणादेज्ज-णीचागोदं च । दोआयु० छस्संघ० दोविहा० दोसर० बंधगा खेतभंगो । अवंधगा लोगस्स असंखेज्जदिभागो, सव्वलोगो वा । गदि-जादि-संठाण-आणुपुब्बि-तसथावरादिसत्तयुगलदोगोदाणं बंधगा लोगस्स असंखेज्जदिभागो, सव्वलोगो वा । अवंधगा णत्थि । परघादुस्साणं बंधगा अवंधगा लोगस्स असंखेज्जदिभागो, सव्वलोगो वा । उज्जोवस्स बंधगा सत्तचोइस-भागो वा । अवंधगा लोगस्स असंखेज्जदिभागो सव्वलोगो वा । एवं बादरजसगित्ति । तप्पडिपक्खं सुहुमं अज्जसगित्ति ।

१६४. एवं मणुसापज्जत्त० सव्वविगल्लिंदिय-पंचिंदिय-तस-अपज्जत्त-बादरपुढवि० आउ० तेउ० वाउ० बादरवणप्फदि-पत्तेय-पज्जत्ता । णवरि बादरवाउपज्जत्ते जं हि लोगस्स असंखेज्जदिभागो तं हि लोगस्स संखेज्जदिभागो कादव्वो । मणुस०३-पंचणा०

चार जाति, हुण्डक विना ५ संस्थान, औदारिक अंगोपांग, ६ संहनन, मनुष्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत, (?) २ विहायोगति, [त्रस] सुभग, सुस्वर, आदेय, उच्चगोत्रका स्त्रीवेदके समान भंग है ।

विशेष—उद्योतका वर्णन आगे आया है, अतः यहाँ आतापके साथ उद्योतका पाठ अधिक प्रतीत होता है ।

तिर्यचगति, एकेन्द्रिय जाति, हुण्डक संस्थान, तिर्यचानुपूर्वी, स्थावर, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय, नीचगोत्रका नपुंसकवेदके समान भंग है । दो आयु, ६ संहनन, २ विहायोगति, दो स्वरके बन्धकोंका क्षेत्रके समान भंग है अर्थात् सर्वलोक है ।

विशेषार्थ—दो आयु, छह संहनन तथा दोविहायोगतिका पहले वर्णन आ चुका है कि उनमें स्त्रीवेदके समान भंग है । उनका फिरसे उल्लेख होना चिन्तनीय है ।

अबन्धकोंके लोकका असंख्यातवाँ भाग वा सर्वलोक भंग है । गति, जाति, संस्थान, आनुपूर्वी, त्रस-स्थावरादि सप्त युगल, २ गोत्रके बन्धकोंका लोकका असंख्यातवाँ भाग वा सर्वलोक है; अबन्धक नहीं है । परघात, उच्छ्वासके बन्धकों-अबन्धकोंका लोकका असंख्यातवाँ भाग वा सर्वलोक भंग है । उद्योतके बन्धकोंका ३३, अबन्धकोंका लोकका असंख्यातवाँ भाग वा सर्वलोक है । बादर, यशःकीर्ति इसी प्रकार है । सूक्ष्म और अयशःकीर्तिमें इनका प्रतिपक्षी अर्थात् बन्धकोंका लोकका असंख्यातवाँ भाग वा सर्वलोक है, अबन्धकोंका ३३ है ।

१९४. लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्य, सर्व विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय अपर्याप्तक, त्रस-अपर्याप्तक, बादर-पृथ्वी-जल-तेज-वायु-बादरवनस्पति प्रत्येक-पर्याप्तकोंमें इसी प्रकार भंग है । विशेष, बादर-वायुकायिक पर्याप्तकोंमें जहाँ लोकका असंख्यातवाँ भाग है, वहाँ लोकका संख्यातवाँ भाग जानना चाहिए ।

णवदंस० सोलसक० भयदु० तैजाक० वण्ण०४ अगु० उप० णिमि० पंचतराइगाणं
बंधगा लोगस्स असंखेज्जदिभागो सव्वलोगो वा । अबंधगा केवलिंगो । मिच्छत्तस्स
बंधगा लोगस्स असंखेज्जदिभागो सव्वलोगो वा । अबंधगा लोगस्स असंखेज्जदिभागो
सत्तचोदसभागो वा केवलिंगो । सादबंधगा लोगस्स असंखेज्जदिभागो केवलिंगो ।
अबंधगा लोगस्स असंखेज्जदिभागो सव्वलोगो वा । असादबंधगा लोगस्स असंखेज्जदि-
भागो सव्वलोगो वा । अबंधगा लोगस्स असंखे० भागो केवलिंगो, दोण्णं पगदीणं

मनुष्यत्रिक अर्थात् मनुष्य, मनुष्य-पर्याप्त मनुष्यनीमें-५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण,
१६ कषाय, भय-जुगुप्सा, तैजस-कर्मण, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण, ५ अन्तरायके
बन्धकोंका लोकका असंख्यातवाँ भाग वा सर्वलोक स्पर्शन है । अबन्धकोंका केवली-भंग
है । मिथ्यात्वके बन्धकोंका लोकका असंख्यातवाँ भाग वा सर्वलोक है । अबन्धकोंका
लोकका असंख्यातवाँ भाग वा अथवा केवली-भंग है ।

विशेष - मिथ्यात्वके बन्धकोंके मारणान्तिक समुद्रात तथा उपपाद पदकी अपेक्षा
सर्वलोक स्पर्शन कहा है । (ध० टी०, फो० पृ० २१७)

साताके बन्धकोंके लोकका असंख्यातवाँ भाग वा केवली-भंग है । अबन्धकोंके लोकका
असंख्यातवाँ भाग वा सर्वलोक है । असाताके बन्धकोंके लोकका असंख्यातवाँ भाग वा सर्व-
लोक है । अबन्धकोंके लोकका असंख्यातवाँ भाग वा केवली-भंग है । दोनों प्रकृतियोंके

१. "मणुसगदीए मणुस-मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु मिच्छादिट्ठीहि केवडियं खेतं फोसिदं ? लोगस्स
असंखेज्जदिभागो, सव्वलोगो वा । साणसम्मादिट्ठीहि केवडियं खेतं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो
सत्तचोदसभागो वा देसुणा । सम्मामिच्छादिट्ठिप्पहुडि जाव अजोगिकेवलीहि केवडियं खेतं फोसिदं ? लोगस्स
असंखेज्जदिभागो । सजोगिकेवलीहि केवडियं खेतं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो असंखेज्जा वा भागा,
सव्वलोगो वा ।" -पट्खं०, फो०, सू० ३४-४१ । २. मणुसगदीए मणुसा मणुसपज्जत्ता मणुसिणीओ सत्था-
णेहि केवडियं खेतं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो । समुग्घादेण केवडियं खेतं फोसिदं ? लोगस्स
असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जा वा भागा, सव्वलोगो वा । उववादेहि केवडियं खेतं फोसिदं ? लोगस्स
असंखेज्जदिभागो सव्वलोगो वा—खु० बं०, सू० १८-२३ । मणुस-अपज्जत्ताणं पंचिदिय-तिरिक्ख-अपज्जत्ताण-
भंगो पंचिदियतिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्ख-उज्जत्त-पंचिदियतिरिक्ख-जोगिणि-पंचिदियतिरिक्ख-अपज्जत्ता सत्थाणेण
केवडियं खेतं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो । समुग्घादउववादेहि केवडियं खेतं फोसिदं ?
लोगस्स असंखेज्जदिभागो, सव्वलोगो वा—सू० १४-१७ । बीइदिय-तीइदिय-चउरिदिय-पज्जत्तापज्जत्ताणं
सत्थाणेहि केवडियं खेतं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो । समुग्घादउववादेहि केवडियं खेतं फोसिदं ?
लोगस्स असंखेज्जदिभागो सव्वलोगो वा (५५-५८) । पंचिदिय-अपज्जत्ता सत्थाणेण केवडियं खेतं फोसिदं ?
लोगस्स असंखेज्जदिभागो । समुग्घादेहि-उववादेहि केवडियं खेतं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो,
सव्वलोगो वा । (६५ ६९) । तसकाइय-तसकाइय पज्जत्ता-अपज्जत्ता पंचिदिय-पंचिदियपज्जत्त अपज्जत्तभंगो
(९८) । बादरपुडि-बादरआउ-बादरतेउ-बादरवणफकिकाइयपत्तेयसरीरपज्जत्ता सत्थाणेहि केवडियं खेतं
फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो । समुग्घादउववादेहि केवडियं खेतं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो,
सव्वलोगो वा (७७-८१) । बादरवाउपज्जत्ता सत्थाणेहि केवडियं खेतं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो ।
समुग्घाद उववादेहि केवडियं खेतं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो (८७-९०, पृ. ३८२-४९९)

बंधगा केवलभंगो । अबंधगा लोगस्स असंखेज्जदिभागो । इत्थि० पुरिस० बंधगा खेतभंगो । अबंधगा केवलभंगो । णवुंस० असादभंगो । तिण्णं वेदाणं बंधगा लोगस्स असंखे० भागो सव्वलोगो वा । अबंधगा केवलभंगो । इत्थिभंगो चदुअस्यु-तिण्णिगदि-चदुजादि-वेउव्वि०-आहार० पंचसंठा० तिण्णिअंगो० छस्संघ० तिण्णि-आणु० आदाव० दोविहा० तस-सुभग० दोसर (?) [सुस्सर] आदे० उच्चागोदं च । णवुंसकवेदभंगो हस्सरदि-अरदिसोग-तिरिक्खगदि-एइंदियजादि-ओरालि० हुडसंठा० तिरिक्खाणु० थावर-पज्जत्त-अपज्जत्त० पत्तेय साधारण० थिराथिर-सुभासुभ-दूभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदं च । एवं पत्तेगेण साधारणेण वि वेदभंगो । परघादुस्साणं हस्सभंगो । उज्जोवस्स बंधगा सत्तचोहसभागो । अबंधगा केवलभंगो । एवं वादरजसगिति । सुहुम बंधगो लोगस्स असंखेज्जदिभागो, सव्वलोगो वा । अबंधगा केवलभंगो । अज्जसगितिस्स बंधगा लोगस्स असंखेज्जदिभागो, सव्वलोगो वा । अबंधगा सत्तचोहसभागो केवलभंगो । दोणं पगदीणं बंधगा लोगस्स असंखेज्जदिभागो सव्वलोगो वा । अबंधगा केवलभंगो । तित्थयरस्स बंधगा खेतभंगो । अबंधगा लोगस्स असंखेज्जदिभागो केवलभंगो ।

बन्धकोंका केवली-भंग है । अबन्धकोंका लोकका असंख्यातवाँ भाग है ।

विशेष - दोनोंके अबन्धक अयोराकेवलीकी अपेक्षा असंख्यातवाँ भाग कहा है ।

स्त्रीवेद, पुरुषवेदके बन्धकोंका क्षेत्रके समान भंग है अर्थात् लोकका असंख्यातवाँ भाग है । अबन्धकोंका केवली-भंग है । नपुंसकवेदका असाताके समान भंग है । तीनों वेदोंके बन्धकोंका लोकका असंख्यातवाँ भाग वा सर्वलोक भंग है । अबन्धकोंका केवली-भंग है । चार आयु, तीन गति, ४ जाति, वैक्रियिक, आहारक शरीर, ५ संस्थान, तीन अंगोपांग, छह संहनन, तीन आनुपूर्वी, आतप, दो विहायोगति, त्रस, सुभग, दो स्वर (?) [सुस्वर], आदेय तथा उच्चगोत्रका स्त्रीवेदके समान भंग है ।

विशेषार्थ - यहाँ 'दोसर' (दो स्वर) के स्थान में सुस्वर पाठ सम्यक् प्रतीत होता है, कारण आगे दुस्वरका उल्लेख किया है । सुस्वर में स्त्रीवेदके समान भंग है । दुस्वर में नपुंसकवेद के समान भंग है ।

हास्य, रति, अरति, शोक, तिर्यचगति, एकेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, हुण्डक संस्थान, तिर्यचानुपूर्वी, स्थावर, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भंग, दुस्वर, अनादेय, नीचगोत्रका नपुंसकवेदके समान भंग है । प्रत्येक तथा सामान्यसे भी वेदके समान भंग है ।

परघात, उच्छ्वासका हास्यके समान भंग है । अर्थात् लोकका असंख्यातवाँ भाग वा सर्वलोक है । अबन्धकोंका लोकका असंख्यातवाँ भाग वा केवली-भंग है । उद्योतके बन्धकोंका ३४ है । अबन्धकोंका केवली-भंग है । वादर तथा यशःकीर्तिमें इसी प्रकार है । सूक्ष्मके बन्धकोंका लोकका असंख्यातवाँ भाग वा सर्वलोक स्पर्शन है । अबन्धकोंका केवली-भंग है । अयशः-कीर्तिके बन्धकोंका लोकका असंख्यातवाँ भाग वा सर्वलोक है । अबन्धकोंका ३५ वा केवली-भंग है । वादर, सूक्ष्म तथा यशःकीर्ति-अयशःकीर्तिके बन्धकोंका लोकका असंख्यातवाँ भाग वा सर्वलोक है । अबन्धकोंका केवली-भंग है । तीर्थकरके बन्धकोंका क्षेत्रवत् भंग है अर्थात् लोकका असंख्यातवाँ भाग स्पर्शन है । अबन्धकोंका लोकका असंख्यातवाँ भाग वा केवलीभंग है ।

१६५. देवेषु—ध्रुविगणं बंधगा अट्टणव-चोदसभागो वा । अबंधगा णत्थि ।
थीणगिद्धितिय-अणंताणु०४ बंधगा अट्टणव-चोदसभागो वा । अबंधगा अट्ट-चोदसभागो

१६५. देवोंमें—ध्रुव प्रकृतियोंके बन्धकोंके १/४, १/४ भाग है, अबन्धक नहीं हैं ।

विशेषार्थ—विहारवत् स्वस्थान, वेदना, कषाय तथा वैक्रियिक समुद्घातसे परिणत मिथ्यात्व तथा सासादन गुणस्थानवर्ती देवोंने अतीतमें देशोन १/४ भाग स्पर्श किया है । मारणान्तिक समुद्घातगत मिथ्यात्वी तथा सासादन सम्यक्त्वी देवोंने १/४ भाग स्पर्श किया है (१ ध० टी०, फो० पृ० २२५) ।

‘खुदाबंध’ टीकामें देवोंका सामान्य रूपसे स्पर्शन इस प्रकार कहा है। देवोंका वर्तमानकालिक स्पर्शन क्षेत्रप्ररूपणाके समान है । देवों-द्वारा स्वस्थानकी अपेक्षा तीन लोकोंका असंख्यातवाँ भाग, तिर्यग्लोकका संख्यातवाँ भाग तथा अढ़ाई द्वीपसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पष्ट है ।

शंका—तिर्यग्लोकका संख्यातवाँ भाग कैसे घटित होता है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है । क्योंकि चन्द्र, सूर्य, बुध, बृहस्पति, शनि, शुक्र, मंगल, नक्षत्र, तारागण और आठ प्रकारके ज्यन्तर विमानोंसे हृद् क्षेत्र तिर्यग्लोकके संख्यातवें भाग प्रमाण पाये जाते हैं । विहारकी अपेक्षा कुछ कम आठ बटे चौदह भाग स्पष्ट है । मेरु मूलसे ऊपर छह राजूमात्र और नीचे दो राजूमात्र क्षेत्रमें देवोंका विहार है, इससे १/४ भाग कहा है ।

शंका—ये आठ बटे चौदह भाग किससे कम हैं “केण ते ऊणा” ?

समाधान—तृतीय पृथ्वीके नीचे एक सहस्र योजनसे कम हैं ।

प्रश्न—देवों-द्वारा समुद्रातकी अपेक्षा कितना क्षेत्र स्पष्ट है ?

उत्तर—समुद्घातकी अपेक्षा लोकका असंख्यातवाँ भाग अथवा कुछ कम आठ बटे चौदह वा नौ बटे चौदह भाग (१/४, १/४ भाग) स्पष्ट है । लोकका असंख्यातवाँ भाग यह कथन वर्तमान क्षेत्र प्ररूपणाकी अपेक्षासे है । अतीतकालकी अपेक्षा वेदना, कषाय तथा वैक्रियिक समुद्घातकी अपेक्षा १/४ भाग स्पष्ट है । क्योंकि विहार करनेवाले देवोंके अपने विहार क्षेत्रके भीतर वेदना, कषाय, और वैक्रियिक समुद्घात रूप पद पाये जाते हैं । मारणान्तिककी अपेक्षा १/४ भाग स्पष्ट है, क्योंकि मेरुमूलसे ऊपर सात और नीचे दो राजूमात्र क्षेत्रके भीतर सर्वत्र अतीत कालमें मारणान्तिक समुद्घातको प्राप्त देव पाये जाते हैं ।

प्रश्न—उपपादकी अपेक्षा देवों-द्वारा कितना क्षेत्र स्पष्ट है ?

उत्तर—वर्तमान क्षेत्रकी अपेक्षा लोकका असंख्यातवाँ भाग तथा अतीत काल सम्बन्धी उपपादकी अपेक्षा देशोन १/४ भाग स्पष्ट है । कारण “आरणच्युतदक्पोत्ति तिरिक्ख-मणुस-असंजदसम्मादिट्ठीणं संजदासंजदाणं च उववाहुवलंभादो”—आरण अच्युत कल्प पर्यन्त तिर्यंच व मनुष्य असंयत सम्यग्दृष्टियों और संयतासंयतोंका उपपाद पाया जाता है (खु० बं०, टीका पृ० ३२२-३२४)

स्त्यानगुद्धितिक, अनन्तानुबन्धी ४ के बन्धकोंका १/४, वा १/४ भाग है, अबन्धकोंका १/४ भाग है ।

१. “देवगदीए देवेषु मिच्छादिट्ठि-सासणसम्मादिट्ठीहि केवडियं खेतं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदि-भागो, अट्टणवचोदसभागा वा देसूणा ।”—षट्खं०, फो०, सू० ४२, ४३ । २. “सम्मामिच्छादिट्ठि-असंजद सम्मादिट्ठीहि केवडियं खेतं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो, अट्ट चोदसभागा वा देसूणा ।”—षट्खं०, फो०, सू० ४४, ४५ ।

वा । एवं णवुंस० तिरिक्खगदि० एहंदि० हुंडसंठा० तिरिक्खाणु० थावर० द्भग-
अणादेज्ज-णीचागोदं च । मिच्छत्तस्स लंधगा अबंधगा अट्टणव-चोहसभागो वा । एवं
उच्चागो० (?) सादासादबंधगा अबंधगा अट्टणवचोहसभागो वा । दोण्णं पगदीणं
बंधगा अट्टणव-चोहसभागो वा । अबंधगा गत्थि । एवं हस्सादिदोयुगलं थिरादि-तिण्णि-
युगलं च । इत्थि० पुरिस० बंधगा अट्टचोहसभागा । अबंधगा अट्टणव-चोहसभागो वा ।
तिण्णं वेदानं अट्टणव-चोहस० । अबंधगा गत्थि । इत्थिभंगो दोआयुमणुसगदि-पंविदि०
पंचसंठा० ओरालि० अंगो० छस्संध० मणुसाणु० आदाव० दाविहाय० तस-
सुभग-आदेज्ज० दोसर० तित्थपर० उच्चागोदं च (?) एवं पत्तेगेण साधारणेण वि
वेदभंगो । णवरि आयुभंगो छस्संध० दोविहाय० दोसर० पत्तेगेण साधारणेण वि । एवं
सव्वदेवाणं अप्पण्णो फोसणं कादव्वं ।

विशेष—यहाँ स्त्यानगृद्धि आदिके अबन्धक सम्बन्धिभ्यात्वी, अविरतसम्यक्त्वी
जीवोंके विहारवत् स्वस्थान, वेदना, कषाय तथा वैक्रियिक समुद्घातकी अपेक्षा ६४ भाग
स्पर्शन है । यह विशेष है कि अविरत सम्यक्त्वी देवोंमें मारणान्तिक समुद्घातकी अपेक्षा
भी ६४ भाग है ।

नपुंसकवेद, तिर्यचगति, एकेन्द्रिय जाति, हुण्डकसंस्थान, तिर्यचानुपूर्वी, स्थावर, दुर्भग,
अनादेय तथा नीचगोत्रका इसी प्रकार है । मिथ्यात्वके बन्धकों, अबन्धकोंका ६४ वा ६४ है ।
इसी प्रकार उच्चगोत्रमें भी है । साता तथा असाताके बन्धकों, अबन्धकोंका ६४ वा ६४ भाग
है । साता-असाता इन दोनों प्रकृतियोंके बन्धकोंका ६४ वा ६४ भाग है; अबन्धक नहीं हैं ।

विशेष—देवोंमें आदिके चार गुणस्थान ही होते हैं, अतः अयोगकेवलीमें अबन्ध
होनेवाले इन साता-असाता युग्मका अबन्धक यहाँ नहीं कहा है । असाताका प्रमत्तसंयत तक
तथा साताका सयोगी जिन पर्यन्त बन्ध होता है, इसी कारण देवोंमें इनके अबन्धक नहीं हैं ।

हास्यादि दो युगल तथा स्थिरादि तीन युगलमें इसी प्रकार है । स्त्रीवेद, पुरुषवेदके
बन्धकोंके ६४ है; अबन्धकोंके ६४ वा ६४ है । तीनों वेदोंके बन्धकोंका ६४ वा ६४ है;
अबन्धक नहीं हैं ।

विशेष—जब देवोंमें वेदोंके अबन्धक नहीं है, तब स्त्रीवेद, पुरुषवेदके अबन्धकोंका
तात्पर्य नपुंसकवेदके बन्धकोंसे है । नपुंसकवेदका बन्ध मिथ्यात्वी जीवोंके ही होगा, अतः
उनके ६४ वा ६४ कहा है ।

तिर्यच-मनुष्यायु, मनुष्यगति, पंचेन्द्रियजाति, ५ संस्थान, औदारिक अंगोपांग, ६ संह-
नन, मनुष्यानुपूर्वी, आतप, दो विहायोगति, त्रस, सुभग, आदेय, दो स्वर, तीर्थकर और
उच्चगोत्रका स्त्रीवेदके समान भंग है । अर्थात् बन्धकोंके ६४ तथा अबन्धकोंके ६४ वा ६४ है ।

विशेष—उच्चगोत्रका पहले कथन आया है । यहाँ पुनः उसका वर्णन किया गया है ।
इनमें-से एक पाठ अशुद्ध होना चाहिए । यह विषय चिन्तनीय है ।

इस प्रकार प्रत्येक तथा साधारणसे भी वेदोंके समान भंग जानना चाहिए । विशेष,
छह संहनन, दो विहायोगति, दो स्वरका प्रत्येक तथा साधारणसे दो आयु (तिर्यच-मनुष्यायु)
के समान भंग जानना चाहिए ।

विशेष—छह संहनन, दो विहायोगति तथा दो स्वरका पहले स्त्रीवेदके समान भंग

बताया है। पश्चात् उनका आयुके समान भंग कहा है। यह विषय चिन्तनीय है।

इस प्रकार सर्वदेवोंमें अपना-अपना स्पर्शन निकाल लेना चाहिए।

विशेष—भवनत्रिकमें मिथ्यात्व तथा सासादन गुणस्थानकी अपेक्षा लोकका असंख्यातवाँ भाग, ३/४, ३/४ वा ३/४ भाग है। ये विहारवत् स्वस्थान, वेदना, कषाय, विक्रिया-पदके द्वारा उपरोक्त लोकका स्पर्शन करते हैं। मेरुतलसे दो राजू नीचे तथा सौधर्मस्वर्गके विमान-ध्वजदण्ड पर्यन्त ऊपर डेढ़ राजू इस प्रकार ३/४ स्वयमेव विहार करते हैं। ऊपरके देवोंके प्रयोगसे ३/४ भाग स्पर्शन है, कारण उपरिम देवोंके द्वारा ले जाये गये वे ४/४ राजू तथा स्वनिमित्तसे ३/४ जाते हैं। इस प्रकार ३/४ है। मारणान्तिक समुद्रातकी अपेक्षा ३/४ स्पर्शन करते हैं, क्योंकि मेरुमूलसे नीचे दो राजूमात्र मार्ग जाकर स्थित भवनवासी आदि देवोंका घनोदधि वातश्लयमें स्थित जलकायिक जीवोंमें मारणान्तिक समुद्रात करते समय ३/४ भाग स्पर्शन पाया जाता है (खु० बं०, टीका पृ० ३८७)। सम्यग्मिथ्यादृष्टि, असंयत सम्यग्दृष्टि देवोंमें अतीत-अनागत कालकी अपेक्षा ३/४ वा ३/४ भाग स्पर्शन है। उपपादकी अपेक्षा लोकका असंख्यातवाँ भाग भवनत्रिकका स्पर्शन है। सौधर्मद्विकके देवोंका विहारवत् स्वस्थान, वेदना, कषाय, वैक्रियिकपदकी दृष्टिसे आदिके दो गुणस्थानोंमें ३/४ है। मारणान्तिकपदसे परिणत उक्त गुणस्थानोंमें ३/४ भाग है। अतीत उपपादकी अपेक्षा ३/४ है। मिश्र तथा अविरत गुणस्थानमें ३/४ है। अविरत सम्यक्त्वकी मारणान्तिककी अपेक्षा देशोन ३/४ तथा अतीत उपपादकी अपेक्षा ३/४ है। वर्तमानकालकी अपेक्षा उपपाद पद लोकका असंख्यातवाँ भाग कहा है (खु० बं०)।

सनत्कुमारादि पाँच कलमें स्वस्थान स्वस्थानपदपरिणत देवोंने अतीतकालमें लोकका असंख्यातवाँ भाग स्पर्श किया है। वर्तमानकालकी अपेक्षा भी लोकका असंख्यातवाँ भाग स्पर्श किया है। विहारवत् स्वस्थान, वेदना, कषाय, वैक्रियिक तथा मारणान्तिक समुद्रातकी अपेक्षा ३/४ है। उपपाद परिणत सनत्कुमार, माहेन्द्र कलवासी देवोंने देशोन ३/४, ब्रह्म-ब्रह्मोत्तरवासी देवोंने देशोन ३/४, लातव-कापिष्ठवासी देवोंने ३/४, शुक्र-महाशुक्रवासी देवोंने ३/४, शतारसहस्रारवासी देवोंने ३/४ भाग स्पर्श किया है। विशेष, मिश्रगुणस्थानवर्ती देवोंके मारणान्तिक तथा उपपाद पद नहीं होते हैं। आनत, प्राणत, आह्वण, अच्युतवासी देवोंका विहारवत् स्वस्थान, वेदना, कषाय, वैक्रियिक तथा मारणान्तिक समुद्रातकी अपेक्षा देशोन ३/४ भाग स्पर्शन है। मिश्रगुणस्थानमें मारणान्तिक तथा उपपादपद नहीं होते हैं। आनत-प्राणत-कल्पके

१. "भवणवासिय-वाणवेंतर-जोदिसियदेवेसु मिच्छादिट्टि-सासणसम्मादिट्टीहि केवडियं खेतं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो, अद्धुट्ठा वा अट्टणवचोद्दसभागा वा देसूणा।"—घट्खं०, फो०, सू० ४६-४७।
२. "सम्मामिच्छादिट्टि-असंजदसम्मादिट्टीहि केवडियं खेतं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो, अद्धुट्ठा वा अट्टचोद्दसभागा वा देसूणा।"—घट्खं०, फो०, सू० ४८-४९।
३. "सोधम्मोसाणकप्पवासियदेवेसु मिच्छादिट्टिप्पहुडि जाव असंजदसम्मादिट्टित्ति देवोषं।"—सू० ५०।
४. "सणक्कुमारप्पहुडि जाव सदारसहस्रारकप्पवासियदेवेसु मिच्छादिट्टिप्पहुडि जाव असंजदसम्मादिट्टीहि केवडियं खेतं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो अट्टचोद्दसभागा वा देसूणा।"—सू० ५१-५२।
५. "आणद जावं आरणच्चुदकप्पवासियदेवेसु मिच्छादिट्टिप्पहुडि जाव असंजदसम्मादिट्टीहि केवडियं खेतं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो। छचोद्दसभागा वा देसूणा फोसिदा। णवगेजेज्जविमाणवासियदेवेसु मिच्छादिट्टिप्पहुडि जाव असंजदसम्मादिट्टीहि केवडियं खेतं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो। अणुद्दिस जाव सव्वट्टिसिद्धिमाणवासियदेवेसु असंजदसम्मादिट्टीहि केवडियं खेतं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो।"—सू० ५३-५६।

१६६. एइंदिएसु-धुविगाणं बंधगा सव्वलोगो । अबंधगा णत्थि । सादा-सादबंधगा अबंधगा सव्वलोगो । दोण्णं पगदीणं बंधगा सव्वलोगो । अबंधगा णत्थि । एवं सव्वाणं वेदणीयभंगो । णवरि मणुसायुबंधगा लोगस्स असंखेज्जदिभागो, सव्वलोगो वा । अबंधगा सव्वलोगो । तिरिक्खायुबंधगा अबंधगा सव्वलोगो । दोण्णं आयुगाणं बंधगा अबंधगा सव्वलोगो । एवं छस्संघंओरालिं अंगो परघादुस्सासआदाउज्जीव-दोविहाय-दोसरं ।

१६७. एवं सव्वसुहुम-एइंदिय-पुढविं आउं तेउं वाउं वणफ्फदि-णिगोद एदेसिं सव्वसुहुमाणं च ।

उपपाद परिणत असंयत सम्यग्दृष्टि देवोंने देशोनं ५/३ भाग स्पर्श क्रिये हैं । आरण-अच्युतवाले देवोंने उपपादसे ५/३ भाग स्पर्श किया है, कारण वैरी देवोंके सम्बन्धसे सर्व द्वीपसागरोंमें विद्यमान असंयतसम्यग्दृष्टि तथा संयतासंयत तिर्यचोंका आरण-अच्युतकल्ममें उपपाद पाया जाता है । नव प्रैवेयकवासी देवोंका मिथ्यादृष्टिसे लेकर असंयत सम्यग्दृष्टि गुणस्थान पर्यन्त लोकका असंख्यातवाँ भाग स्पर्शन है । अनुदिशसे सर्वार्थसिद्धि पर्यन्त असंयत सम्यक्त्वी देवोंके स्वस्थान-स्वस्थान, विहारवत् स्वस्थान, वेदना, कषाय, वैक्रियिक, मारणान्तिक तथा उपपाद-रूप परिणमनकी अपेक्षा लोकका असंख्यातवाँ भाग स्पर्शन है । सर्वार्थसिद्धिमें मारणान्तिक तथा उपपादपदोंको छोड़ शेष पदोंकी अपेक्षा मानुषक्षेत्रका संख्यातवाँ भाग स्पर्शन है (सु० बं०, पृ० ३६२) ।

१६६. एकेन्द्रियोंमें—^३ ध्रुव प्रकृतियोंके बन्धकोंका सर्वलोक है, अबन्धक नहीं हैं । विशेषार्थ—स्वस्थान-स्वस्थान, वेदना, कषाय, मारणान्तिक तथा उपपादकी अपेक्षा एकेन्द्रिय जीवोंने अतीत-अनागत कालमें सर्वलोक स्पर्श किया है । 'सुहाबंधटोका'में लिखा है वैक्रियिक समुद्घात पदसे लोकका संख्यातवाँ भाग स्पृष्ट है । इतना विशेष है कि सूक्ष्म जीवोंके वैक्रियिक समुद्घात नहीं होता । "णवरि सुहुमाणं वेज्जिवियं णत्थि ।" (३६३ पृ०) ।

साता-असाताके बन्धकों-अबन्धकोंका स्पर्शन सर्वलोक है । दोनों प्रकृतियोंके बन्धकोंका सर्वलोक स्पर्शन है, अबन्धक नहीं है । इस प्रकार सर्व प्रकृतियोंका वेदनीयके समान भंग है । विशेष, मनुष्यायुके बन्धकोंका लोकका असंख्यातवाँ भाग वा सर्वलोक स्पर्शन है । अबन्धकोंका सर्वलोक है । तिर्यचायुके बन्धकों-अबन्धकोंका सर्वलोक है । दोनों आयुके बन्धकों-अबन्धकोंका सर्वलोक है । छह संहनन, औदारिक अंगोपांग, परघात, उच्छ्वास, भातप, उद्योत, दो विहायोगति तथा दो स्वरमें इसी प्रकार भंग है ।

१६७. सर्वसूक्ष्म एकेन्द्रियोंमें इसी प्रकार है । पृथ्वीकायिक, जलकायिक, तेजकायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक, निगोद, इनके सर्वसूक्ष्म भेदोंमें भी इसी प्रकार है ।^१

१. "णवगेवज्ज जाव सव्वट्टुसिद्धिविमाणवासिपदेवा सत्थाणसमुग्घाद-उत्रवादेहि केवडियं खेतं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो"— सु० बं०, सू० ४७-४८ । २. "इंदियाणुवादेण एइंदिय बादर-सुहुम-पज्जत्ता-पज्जत्तएहि केवडियं खेतं फोसिदं ? सव्वलोगो ।"—षट्खं०, फो०, सू० ५७ । ३. "बादरपुढविकाइय-बादरआउकाइय-बादरतेउकाइय-बादरवणफ्फदिकाइयपत्तेयसरीरपज्जत्तएहि केवडियं खेतं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो सव्वलोगो वा ।"—सू० ६७-६८ ।

१६८. बादरेइंदिय-पज्जतापज्जत्त-धुविगाणं बंधगा सव्वलोगो । अवंधगा णत्थि । सादासाद-बंधगा अवंधगा सव्वलोगो । दोण्णं पगदीणं बंधगा सव्वलोगो । अवंधगा णत्थि । एवं चदुणोकसा० परघादुस्सा० थिराथिरसुभासुभाणं । इत्थि० पुरिस० बंधगा लोगस्स असंखेज्जदिभागो । अवंधगा सव्वलोगो । णवुंस० बंधगा सव्वलोगो । अवंधगा लोगस्स संखेज्जदिभागो । एवं इत्थिभंगो निरिक्खायु-चदुजादि-पंचसंठा० ओरालि० अंगो० छस्संध० आदा० दोविहाय० तस-सुभग-दोसर-आदेज्ज० । णवुंसक-भंगो एइंदिय हुंडसंठा० थावर-दुभग-अणादेज्ज० । मणुसायु-बंधगा लोगस्स असंखेज्जदिभागो । अवंधगा लोगस्स संखेज्जदिभागो सव्वलोगो वा । दो-आयु-बंधगा लोगस्स संखेज्जदिभागो । अवंधगा लोगस्स संखेज्जदिभागो, सव्वलोगो वा । एवं छस्संध० दोविहा० दोसर० । तिरिक्खगदिबंधगा सव्वलोगो । अवंधगा लोगस्स असंखेज्जदिभागो । मणुसगदिबंधगा [लोगस्स] असंखेज्जदिभागो । अवंधगा सव्वलोगो । दोण्णं पगदीणं बंधगा सव्वलोगो । अवंधगा णत्थि । एवं दो-आणु० दो-गोदाणं । उज्जोवस्स बंधगा लोगस्स संखेज्जदिभागो, सत्तचोइसभागो वा । अवंधगा सव्वलोगो । एवं बादर-जस० । पज्जत्ता-अपज्जत्त-पत्तेरं

१६८. बादर एकेंद्रिय पर्याप्त, बादर एकेंद्रिय अपर्याप्तकोमें—ध्रुव प्रकृतियोंके बन्धकोंके सर्वलोक है; अबन्धक नहीं हैं। साता-असाताके बन्धकों-अबन्धकोंके सर्व लोक स्पर्शन है। दोनों प्रकृतियोंके बन्धकोंके सर्वलोक है; अबन्धक नहीं हैं। हास्यादि चार नोकषाय, परघात, उच्छ्वास, स्थिर-अस्थिर, शुभ-अशुभमें इसी प्रकार जानना चाहिए। स्त्रीवेद, पुरुष-वेदके बन्धकोंके लोकका असंख्यातवाँ भाग, अबन्धकोंके सर्वलोक है। नपुंसकवेदके बन्धकोंके सर्वलोक है तथा अबन्धकोंके लोकका संख्यातवाँ भाग है। तिर्यंचायु, चार जाति, पाँच संस्थान, औदारिक अंगोपांग, छह संहनन, आतप, दो विहायोगति, त्रस, सुभग, दो स्वर तथा आदेशमें स्त्रीवेदका भंग जानना चाहिए। एकेंद्रिय, हुण्डकसंस्थान, स्थावर, दुर्भग तथा अनादेयमें नपुंसकवेदका भंग जानना चाहिए। मनुष्यायुके बन्धकोंका लोकका असंख्यातवाँ भाग स्पर्शन है। अबन्धकोंका लोकका संख्यातवाँ भाग वा सर्वलोक है। मनुष्य-तिर्यंचायुके बन्धकोंका लोकका संख्यातवाँ भाग है। अबन्धकोंका लोकका संख्यातवाँ भाग वा सर्वलोक है। छह संहनन, दो विहायोगति तथा दो स्वरमें इसी प्रकार है। तिर्यंचगतिके बन्धकोंके सर्वलोक है। अबन्धकोंके लोकका असंख्यातवाँ भाग है। मनुष्यगतिके बन्धकोंके [लोकका] असंख्यातवाँ भाग है, अबन्धकोंके सर्वलोक है। मनुष्यगति तिर्यंचगतिरूप दोनों प्रकृतियोंके बन्धकोंके सर्वलोक है; अबन्धक नहीं हैं। मनुष्य-तिर्यंचानुपूर्वी तथा दो गोत्रोंमें इसी प्रकार है। उद्योत-के बन्धकोंका लोकका संख्यातवाँ भाग वा ३४ भाग है। अबन्धकोंके सर्वलोक है। बादर तथा

१. बादरेइंदिया पज्जत्ता अपज्जत्ता सत्थाणेहि केवडियं खेतं फोसिदं ? लोगस्स संखेज्जदिभागो । समुघादउववादेहि केवडियं खेतं फोसिदं ? सव्वलोगो ।—(५१-५४ सू०, खु० बंध) । २. “बादरवाउपज्जत्तएहि केवडियं खेतं फोसिदं ? लोगस्स संबेज्जदिभागो सव्वलोगो वा ।”—पट्खं०, फो०, सू० ६६, ७२ । ३. “मारणंतियउववादपरिणदेहि सव्वलोगो फोसिदो । एवं बादरतेउकाइयपज्जत्ताणं पि वत्तव्वं । णवरि वेउव्वियस्स तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागो वत्तव्वो ।”—ध० टी०, फो०, पृ० २५२ ।

साधारण वेदणीय-भंगो । सुहृम अजस० बंधगा सच्चलोगो । अबंधगा लोगस्स संखे-
ज्जदिभागो, सत्तचोद्दसभागो वा । दोण्णं पगदीणं बंधगा सच्चलोगो । अबंधगा णत्थि ।
एवं बादर-वाउ० अपज्जत्तात्ति । बादर पुढ्वि-आउ० तेउ०-तेसिं च अपज्जत्ता बादर-वण-
प्फदि णिगोद-पज्जत्ता-अपज्जत्ता बादर-वणप्फदि० पत्तेय तस्सेव अपज्जत्ता बादरएइंदिय-
भंगो । णवरि यं हि लोगस्स संखेज्जदिभागो तं हि लोगस्स असंखेज्जदिभागो कायव्वो ।

१६६. पंचिंदिय-तस-तेसिं पज्जत्ता-पंचणा० छदंस० अट्ठक० भयदु० तेजाक०
वण्ण०४ अगु० उप० णिमि० पंचंत बंधगा लोगस्स असंखेज्जदिभागो, अट्ठ-तेरह-
चोद्दसभागो वा सच्चलोगो वा । अबंधगा केवलभंगो । थीणगिद्धि०३ अणताणु०४
बंधगा अट्ठतेरह०, सच्चलोगो वा । अबंधगा अट्ठ-चोद्दसभागो केवलभंगो । [साद०

यशःकीर्तिमें इसी प्रकार जानना चाहिए । पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारणमें वेदनीयके
समान भंग हैं । सूक्ष्म तथा अयशःकीर्तिके बन्धकोंका सर्वलोक है । अबन्धकोंका लोकका
संख्यातवाँ भाग वा ३/४ है । बादर-सूक्ष्म तथा यशःकीर्ति-अयशःकीर्तिके बन्धकोंका सर्वलोक है ।
अबन्धक नहीं हैं । बादरवायुकायिक, बादरवायुकायिक अपर्याप्तकोंमें इसी प्रकार है । बादर-
पृथ्वीकायिक, बादर अप्कायिक, बादर तेजकायिक, बादर-पृथ्वीकायिक-अपर्याप्तक, बादर-
अप्कायिक अपर्याप्तक, बादर-तेजकायिक-अपर्याप्तक, बादर वनस्पतिकायिक, बादर निगोद,
बादर वनस्पतिकायिक पर्याप्तक, बादर वनस्पतिकायिक-अपर्याप्तक, बादर निगोद पर्याप्तक,
बादर-निगोद-अपर्याप्तक, बादर वनस्पति प्रत्येक, बादर वनस्पति प्रत्येक अपर्याप्तमें बादर
एकेन्द्रियके समान भंग है । विशेष, जहाँ लोकका संख्यातवाँ भाग है, वहाँ लोकका असंख्या-
तवाँ भाग करना चाहिए ।

विशेषार्थ—स्वस्थान पदों द्वारा लोकके संख्यात भाग स्पर्शके विषयमें 'खुहाबन्ध' टीकामें
कहा है । वायुकायिक जीवोंसे परिपूर्ण पाँच राजू बाह्यरूप राजूप्रतर बादर एकेन्द्रिय जीवोंसे
परिपूर्ण सात पृथिवियों, उन पृथिवियोंके नीचे स्थित बीस-बीस हजार योजन बाह्यरूप तीन-
तीन वातत्रलय क्षेत्रों तथा लोकान्तमें स्थित वायुकायिक क्षेत्रको एकत्रित करनेपर तीनों लोकों-
का संख्यातवाँ भाग और मनुष्यलोक व तिर्यग्लोकसे असंख्यातगुणा क्षेत्र विशेष उत्पन्न होता
है । इसलिए अतीत व वर्तमान कालोंमें लोकका संख्यातवाँ भाग प्राप्त होता है । (खु० बं०
पृ० ३६३) ।

१६६. पंचेन्द्रिय, त्रस, पंचेन्द्रिय-पर्याप्तक, त्रस-पर्याप्तकोंमें-५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण,
आठ कषाय, भय-जुगुप्सा, तैजस-कार्मण, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपधात, निर्माण तथा ५ अन्त-
रायके बन्धक लोकके असंख्यातवें भाग, ३/४, ३/४ वा सर्वलोकका स्पर्शन करते हैं । अबन्धकों-
का केवली-भंग है । स्थानगृह्णिक, अनन्तानुबन्धी ४ के बन्धकोंका ३/४, ३/४ वा सर्वलोक है ।
अबन्धकोंके ३/४ भाग वा केवलीके समान भंग जानना चाहिए ।

१. "पंचिंदिय-पंचिंदियपज्जत्तएमु मिच्छादिट्ठोहि केवडियं खेत्तां फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो ।
अट्ठचोद्दसभागा देसूणा, सच्चलोगो वा । तासणसम्मादिट्ठिप्पहुडि जाव अजोगिकेवल ति ओधं ।" -पट्खं०,
फो०, सू० ६०-६२ । "तसकाइय-तसकाइयपज्जत्तएमु मिच्छादिट्ठिप्पहुडि जाव अजोगिकेवल ति ओधं ।"
-सू० ७२ ।

बंधगा अट्ठ-तेरह-चोइस० केवलि-भंगो] अबंधगा अट्ठ-तेरह० सव्वलोगो वा । असाद-
बंधगा अट्ठ-तेरह० सव्वलोगो वा । अबंधगा अट्ठतेरह-चोइस० केवलिभंगो । दोण्णं
बंधगा अट्ठतेरह० चोइसभागो केवलिभंगो । दोण्णं अबंधगा लोगस्स असंखेज्जदिभागो ।
मिच्छत्तस्स बंधगा अट्ठतेरह०, सव्वलोगो वा । अबंधगा अट्ठतेरह० केवलिभंगो ।

विशेषार्थ—पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीव स्वस्थान पदकी अपेक्षा लोकका असं-
ख्यातवाँ भाग वर्तमान कालकी अपेक्षा स्पर्श करते हैं । देवोंके विहारका आश्रय कर कुछ कम
वर्द्ध भाग स्पर्शन है । समुद्घातोंकी अपेक्षा लोकका असंख्यातवाँ भाग, देशोन वर्द्ध, संख्यात बहु-
भाग अथवा सर्वलोक स्पृष्ट होता है । वेदना, कषाय और वैक्रियिक समुद्घातोंकी अपेक्षा वर्द्ध
भाग स्पर्शन है, क्योंकि विहार करनेवाले देवोंके उक्त समुद्घातोंके विरोधका अभाव है ।
तैजस और आहारक समुद्घात पदोंसे चार लोकोंका असंख्यातवाँ भाग और मानुष लोकोंका
संख्यातवाँ भाग स्पृष्ट है । दण्ड तथा कपाट समुद्घातोंको प्राप्त जीवों-द्वारा चार लोकोंका
असंख्यातवाँ भाग और मानुष क्षेत्रसे असंख्यात गुणा क्षेत्र स्पृष्ट है । इतना विशेष है कि
कपाट समुद्घातमें तिर्यग्लोकसे संख्यातगुणा क्षेत्र स्पृष्ट है । प्रतर समुद्घातकी अपेक्षा लोकका
असंख्यात बहुभाग क्षेत्र स्पृष्ट है । क्योंकि इस अवस्थामें वातत्रलयोंको छोड़कर सम्पूर्णलोकमें
जीवोंके प्रदेश व्याप्त होते हैं । मारणान्तिक तथा लोक पूरण समुद्घात पदोंसे सर्वलोक
स्पृष्ट है ।

उपपादकी अपेक्षा लोकका असंख्यातवाँ भाग अथवा सर्वलोक स्पृष्ट है । सर्वलोकमें
स्थित सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीवोंमें-से पंचेन्द्रिय जीवोंमें आकर उत्पन्न होनेवाले प्रथम समयवर्ती
जीवोंके सर्वलोकमें व्याप्त देखे जानेसे उपपादकी अपेक्षा सर्वलोक स्पृष्ट कहा गया है । (सुदा
बंध, टीका पृ० ३६६—३६६) ।

सप्तम पृथ्वीके नारकी मारणान्तिक कर मध्य लोकको स्पर्श करते हैं । मध्य लोकसे जीव
लोकाममें जाकर बादर पृथ्वीकायिकों आदिमें उत्पन्न होते हैं । इस प्रकार छह और सात राजू
मिलकर तेरह राजू स्पर्शन कहा है । 'जीवद्वाराणकी धवला टीकामें लिखा है— मारणान्तिक
समुद्घात पद परिणत वैक्रियिक काययोगी मिथ्यादृष्टि जीवोंने देशोन ३/३ भाग स्पर्श किये हैं
जो मेरुतलसे नीचे छह राजू और ऊपर सात राजू जानना चाहिए ।

[साता वेदनीयके बन्धकोंका १/६, १/३ वा केवली-भंग है ।] अबन्धकोंका १/६, १/३ वा
सर्वलोक है । असाताके बन्धकोंका १/६, १/३ वा सर्व लोक है । अबन्धकोंका १/६, १/३ वा केवली-
भंग है । दोनोंके बन्धकोंका १/६, १/३ वा केवली-भंग है । दोनोंके अबन्धकोंका लोकके असंख्यात-
तवें भाग है ।

विशेष—^३दोनोंके अबन्धक अयोगकेवलीका स्पर्शन लोकका असंख्यातवाँ भाग
कहा है ।

मिथ्यात्वके बन्धकोंका १/६, १/३ वा सर्वलोक है । अबन्धकोंका १/६, १/३ वा केवली-भंग

१. विवक्षितभक्तप्रथमसमयपर्याप्तप्राप्तिः उपपादः—गो० जी०, १६६ पृ० ४४४ । २. मारणतियपरिगदेहि
तेरह चोइसभागो फोसिदा । हेत्ता छ, उवरि सत्त रज्जू ।—जीव०, फो०, पृ० २६६ । ३. पमत्तमजदप्पहुडि
जाव अजोगिकेवलीहि केवडिधं खत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो ।—सू० ९ ।

अपचक्षणाणा०४ बंधगा अट्टतेरह०, सव्वलोगो वा । अबंधगा छचोद्दसभागो केवलि-
भंगो । इत्थि० पुरिस० बंधगा अट्ट-बारह० । अबंधगा अट्टतेरह० केवलिभंगो । णवुंस०
बंधगा अट्ट-तेरह० सव्वलोगो वा । अबंधगा अट्टबारह० केवलि-भंगो । तिण्णि वेदानं
बंधगा अट्ट-तेरह० सव्वलोगो वा । अबंधगा केवलिभंगो । इत्थिभंगो पंचसंठा० छस्संध०
सुभग-दोसर-आदे० । णवुंसकभंगो हुंडसंठा० दूभग० अणादे० । साधारणेण वेदभंगो ।
णवरि संघलणसरणामाणं बंधगा अट्ट-बारह-चोद्दसभागो वा । अबंधगा अट्टणव-चोद्दस०
सव्वलोगो वा । हस्सरदि-अरदि-सोग-बंधगा अट्ट-तेरह० सव्वलोगो वा । अबंधगा अट्ट-
तेरह० भागो, केवलिभंगो । चदुणं बंधगा अट्ट-तेरह० सव्वलोगो वा । अबंधगा केवलि-
भंगो । एवं थिराथिरसुभासुभ० । दो-आयु तिण्णिजादि । आहारदुगं खेतभंगो । अबं-
धगा अट्टतेरह० केवलिभंगो । दो-आयु० मणुसगदि-आदाव-तित्थय० बंधगा अट्ट-
चोद्दसभागो । अबंधगा अट्ट-तेरह० केवलिभंगो । चदु-आयुबंधगा अट्ट-चोद्दसभागो ।

है । अप्रत्याख्यानावरण ४ के बन्धकोंका १/४, ३/४ वा सर्वलोक है । अबन्धकोंका १/४ वा केवली-
भंग है ।

विशेष— १ अप्रत्याख्यानावरण ४ के अबन्धक देशसंयमीके अच्युत स्वर्गपर्यन्त मारणा-
न्तिककी अपेक्षा १/४ कहा है । (ध० टी०, को० पृ० १७०)

स्त्रीवेद, पुरुषवेदके बन्धकोंका १/४, ३/४ है, अबन्धकोंका १/४, ३/४ वा केवलीभंग है ।

विशेष— मेरुतलसे ऊपर ६ राजू तथा नीचे २ राजू इस प्रकार १/४ है । ७वीं पृथ्वीके
नारकी मारणान्तिक कर मध्यलोकका स्पर्श करते हैं । अच्युत स्वर्गके देवोंने मध्यलोकका
स्पर्शन किया, इस प्रकार ३/४ राजू स्त्री-पुरुषवेदके बन्धकोंके हुए ।

नपुंसकवेदके बन्धकोंका १/४, ३/४ वा सर्वलोक है; अबन्धकोंका १/४, ३/४ वा केवली-
भंग है । तीनों वेदोंके बन्धकोंका १/४, ३/४ वा सर्वलोक है; अबन्धकोंका केवली-भंग है । ५ संस्थान,
६ संहनन, सुभग, दो स्वर, आदेयका स्त्रीवेदके समान भंग है । हुंडक संस्थान, दुर्भंग, अनादेय-
का नपुंसक वेदके समान भंग है । इनका सामान्यसे वेदके समान भंग है । विशेष, संहनन,
स्वर नामक प्रकृतियोंके बन्धकोंका १/४, ३/४ भाग है, अबन्धकोंके १/४, ३/४ वा सर्वलोक भंग है ।

विशेष— तीसरी पृथ्वीमें विक्रिया-द्वारा पहुँचा हुआ देव मारणान्तिक-द्वारा
लोकाप्रका स्पर्श करता है, इस प्रकार १/४ भाग होता है ।

हास्य-रति, अरति-शोकके बन्धकोंका १/४, ३/४ वा सर्वलोक स्पर्श है । अबन्धकोंका १/४,
३/४ वा केवली-भंग है । सामान्यसे हास्यादि ४ के बन्धकोंका १/४, ३/४ वा सर्वलोक है । अब-
न्धकोंका केवली भंग है । स्थिर-अस्थिर, शुभ-अशुभ, में इसी प्रकार जानना चाहिए ।

दो आयु, ३ जाति तथा आहारकद्विकमें क्षेत्रके समान भंग है अर्थात् लोकका असं-
ख्यातवाँ भाग है, अबन्धकोंका १/४, ३/४ वा केवली-भंग है । दो आयु, मनुष्यगति, आतप तथा
तीर्थकरके बन्धकोंका १/४ है; अबन्धकोंका १/४, ३/४ वा केवलीभंग है । चार आयुके बन्धकोंका

१. "संजदासंजदेहि केवडियं खेतं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो । छचोद्दसभाग वा
देसुणा"—सू० ७, ८ ।

अबंधगा अट्टेतरह० सव्वलोगो वा । दोगदि बंधगा लच्चोइस० । अबंधगा अट्टेतरह० केवलभंगो । तिरिक्खमादि बंधगा अट्टेतरह० सव्वलोगो वा । अबंधगा अट्टे-बारह० केवलभंगो । चटुण्णं गदीणं बंधगा अट्टे-तेरह० सव्वलोगो वा । अबंधगा केवल-भंगो । एवं आणुपुव्वीणं । एइंदिय० बंधगा अट्टे-णव-चोइस० सव्वलोगो वा अबंधगा । अट्टे-बारह० केवलभंगो । पंचिदि० बंधगा अट्टे-बारह० । अबंधगा अट्टे-णव-चोइस० केवलभंगो । पंचण्णं जादीणं बंधगा अट्टेतरह० सव्वलोगो वा । अबंधगा केवलभंगो । ओरालि० बंधगा अट्टे-तेरह०, सव्वलोगो वा । अबंधगा बारस० केवलभंगो । वेउव्विय० बंधगा बारह० । अबंधगा अट्टेतरह० केवल-भंगो । दोण्णं बंधगा धुविगाणं भंगो । ओरालि० अंगो० अट्टेबारह-चोइस० । अबंधगा अट्टेतरह० केवलभंगो । वेउव्वि० अंगो० बंधगा बारह० । अबंधगा अट्टेतरह० केवलभंगो । दोण्णं बंधगाणं अट्टेबारह-भागो । अबंधगा अट्टेणव-चोइसभागो केवलभंगो । परघादुस्सा० बंधगा अट्टे-तेरहभागो, सव्वलोगो वा । अबंधगा केवलभंगो । उज्जावस्स बंधगा अट्टेतरह० । अबंधगा अट्टेतरह-भागो केवलभंगो । पसत्थ-अप्पसत्थविहायगदिवंधगा अट्टेबारहभागो । अबंधगा० अट्टे-तेरह० केवलभंगो । दोण्णं बंधगा अट्टेचारहभागो । अबंधगा अट्टे-णव-चोइस० केवलभंगो । तंसबंधगा अट्टेबारह० । अबंधगा अट्टेणवचोइस० केवलभंगो । थावर-

५३ है, अबन्धकोंका ५३, ५३ वा सर्वलोक है । नरकगति-देवगतिके बन्धकोंका ५३ है; अबन्धकोंके ५३, ५३ वा केवली भंग है । तिर्यचगतिके बन्धकोंका ५३, ५३ वा सर्वलोक है; अबन्धकोंका ५३, ५३ वा केवली-भंग है । चारों गतिके बन्धकोंका ५३, ५३ वा सर्वलोक है; अबन्धकोंमें केवली-भंग है । आनुपूर्वियोंमें इसी प्रकार जानना चाहिए ।

एकेन्द्रियके बन्धकोंका ५३, ५३ वा सर्वलोक है; अबन्धकोंके ५३, ५३ वा केवली-भंग है । पंचेन्द्रियके बन्धकोंका ५३, ५३ है; अबन्धकोंका ५३, ५३ वा केवली-भंग है । पंचजातियोंके बन्धकोंके ५३, ५३ वा सर्वलोक है, अबन्धकोंके केवली-भंग है । औदारिक शरीरके बन्धकोंके ५३, ५३ वा सर्वलोक है; अबन्धकोंके ५३ वा केवली-भंग है ।

विशेष—औदारिक शरीरके अबन्धकों अर्थात् वैक्रियिक शरीरके बन्धकोंके मेरुतलसे ऊपर अच्युत पर्यन्त ६ राजू तथा सप्तम पृथ्वी पर्यन्त ६ राजू, इसी प्रकार ५३ हैं ।

वैक्रियिक शरीरके बन्धकोंके ५३, अबन्धकोंके ५३, ५३ वा केवली-भंग है । दोनोंके बन्धकोंके ५३, ५३, लोकका असंख्यातवाँ भाग वा सर्वलोक स्पर्शन ध्रुव प्रकृतियोंके बन्धकोंके समान है; अबन्धकोंके केवली-भंग है । औदारिक अंगोपांगके बन्धकोंका ५३, ५३ है । अबन्धकोंका ५३, ५३ वा केवली-भंग है । वैक्रियिक अंगोपांगके बन्धकोंका ५३ है । अबन्धकोंका ५३, ५३ वा केवली-भंग है । दोनोंके बन्धकोंका ५३, ५३ है । अबन्धकोंका ५३, ५३ वा केवली-भंग है । परघात, उच्छ्वासके बन्धकोंका ५३, ५३ वा सर्वलोक है । अबन्धकोंके केवली-भंग जानना चाहिए । उद्योतके बन्धकोंका ५३, ५३ है; अबन्धकोंका ५३, ५३ वा केवली-भंग है । प्रशस्त विहायोगति, अप्रशस्तविहायोगतिके बन्धकोंका ५३, ५३ है । अबन्धकोंका ५३, ५३ वा केवली-भंग है । दोनोंके बन्धकोंका ५३, ५३ है । अबन्धकोंका ५३, ५३ वा केवली-भंग है ।

विशेष—एकेन्द्रिय जातिके साथ विहायोगतिका सन्निकर्ष नहीं पाया जाता है, अतः

बंधगा अट्ट-णव-चोदस० सव्वलोगो वा । अवंधगा अट्ट-वारह० केवलिभंगो । दोण्णं बंधगा अट्ट-तेरह० सव्वलोगो वा । अवंधगा केवलिभंगो । बादर-बंधगा अट्ट-तेरह० । अवंधगा केवलिभंगो । पज्जत्तपत्तेय० बंधगा अट्ट-तेरह० सव्वलोगो वा । अवंधगा केवलिभंगो । सुहुम-अपज्जत्त-साधारणबंधगा लोगस्स असंखेज्जदिभागो सव्वलोगो वा । अवंधगा अट्टतेरह० केवलिभंगो । बादर-सुहुम-बंधगा अट्ट-तेरह० सव्वलोगो वा । अवंधगा केवलिभंगो । जसगित्ति उज्जोव (?) बंधगा, अज्जस० बंधगा अट्ट-तेरह० सव्वलोगो वा । अवंधगा अट्ट-तेरह० केवलिभंगो । दोण्णं बंधगा अट्ट-तेरह० सव्वलोगो वा । अवंधगा केवलिभंगो । उरुचागोदं मणुसायुभंगो । णीचागोदं बंधगा अट्टतेरह० सव्वलोगो वा । अवंधगा अट्टचोदस० केवलिभंगो ।

२००. एवं पंचमण० पंचवच्चि० । णवरि केवलिभंगो णत्थि । वेदणीयस्स अवंधगा णत्थि । काजोगि-ओघो । णवरि वेदणी० अवंधगा णत्थि ।

विहायोगतिद्विकके अबन्धकोंके मेरुतलसे ऊपर ६ राजू तथा नीचे २ राजूकी अपेक्षा ६३ तथा मेरुतलसे ऊपर सात राजू तथा नीचे दो राजू, इस प्रकार ६३ भाग जानना चाहिए ।

त्रसके बन्धकोंका ६३, ६३ है; अबन्धकोंके ६३, ६३ वा केवली-भंग है । स्थावरके बन्धकोंका ६३, ६३ वा सर्वलोक है; अबन्धकोंका ६३, ६३ वा केवली-भंग है । दोनोंके बन्धकोंका ६३, ६३ अथवा सर्वलोक है; अबन्धकोंका केवली-भंग है । बादरके बन्धकोंका ६३ वा ६३ है । अबन्धकोंके केवली-भंग है । पर्याप्त, प्रत्येकके बन्धकोंका ६३, ६३ वा सर्वलोक है; अबन्धकोंका केवली-भंग है । सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारणके बन्धकोंका लोकका असंख्यातवाँ भाग वा सर्वलोक है । अबन्धकोंके ६३, ६३ वा केवली-भंग है । बादर, सूक्ष्मके बन्धकोंके ६३, ६३ वा सर्वलोक है; अबन्धकोंके केवली-भंग है । यशःकीर्ति, उद्योत (?) के बन्धकों, अयशःकीर्तिके बन्धकोंके ६३, ६३ वा सर्वलोक है; अबन्धकोंके ६३, ६३ वा केवली-भंग है । दोनोंके बन्धकोंके ६३, ६३ वा सर्वलोक भंग है; अबन्धकोंके केवली-भंग है ।

विशेष—यहाँ यशःकीर्तिके साथ उद्योतका पाठ अधिक है, कारण परघात, उच्छ्वासेके बन्धकोंके अनन्तर उद्योतका वर्णन किया जा चुका है ।

उच्चगोत्रका मनुष्यायुके समान भंग है अर्थात् लोकका असंख्यातवाँ भाग, ६३ वा सर्वलोक है, अबन्धकोंका सर्वलोक है । नीच गोत्रके बन्धकोंका ६३, ६३ वा सर्वलोक है; अबन्धकोंके ६३ वा केवली-भंग है ।

२००. पंच मन, पंच वचनयोगियोंमें—इसी प्रकार जानना चाहिए । विशेष, यहाँ केवली-भंग नहीं है । वेदनीयके अवंधक नहीं है ।

विशेषार्थ—पंच मनयोगी, पंच वचनयोगियोंमें स्वस्थान पदोंसे वर्तमानकालकी अपेक्षा लोकका असंख्यातवाँ भाग स्पर्शन है । विहारवत् स्वस्थानकी अपेक्षा कुछ कम ६३ भाग स्पृष्ट हैं, क्योंकि मनयोगी और वचनयोगी और जीवोंका विहार आठ राजू बाह्य युक्त लोक नालीमें पाया जाता है ।

१. "पंचदिय-पंचदियपज्जत्तएसु मिच्छादिद्वीहि केवडियं खत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो । अट्टचोदसभागा देसूणा, सव्वलोगो वा ।"—पट्खं०, फी०, सू० ६०, ६१ ।

२०१. ओरालियकाजोगीसु-पंचणा० छदंसणा० अट्टकसा० भयदु० तेजाक० वण्ण०४ अगु० उप० णिमि० पंचंतराइगाणं बंधगा सव्वलोगो । अबंधगा लोगस्स असंखेज्जदिभागो । सेसाणं तिरिक्खोषो कादव्वो । णवरि अबंधा धुविगाणं भंगो आयु-संघडण-विहायगदिसरं मोत्तूण ।

२०२. ओरालियमिस्स-वेगुव्वियमिस्सआहार० आहारमिस्स खेत्तभंगो । णवरि ओरालियमिस्स-मणुसायुबंधगा लोगस्स असंखेज्जदिभागो, सव्वलोगो वा । अबंधगा सव्वलोगो ।

२०३. वेगुव्विय-काजोगीसु-पंचणा० छदंस० चारसक० भयदु० ओरालि० तेजाक० वण्ण०४ अगु०४ वादर-पज्जत्त० पत्तेय-णिमिण-पंचंतराइगाणं बंधगा अट्ट-

समुद्घातकी अपेक्षा वर्तमानकालकी प्रधानतामें लोकका असंख्यातवाँ भाग स्पष्ट है । आहारक और तैजस समुद्घात पदोंकी अपेक्षा चार लोकोंका असंख्यातवाँ भाग और मानुष क्षेत्रका संख्यातवाँ भाग स्पष्ट है । वेदना, कषाय और वैक्रियिक समुद्घात पदोंसे कुल कम ३६ भाग स्पष्ट हैं, क्योंकि आठ राजू आयत लोक नालीमें सर्वत्र अतीत कालकी अपेक्षा वेदना कषाय तथा वैक्रियिक समुद्घात पाये जाते हैं । मारणान्तिक समुद्घातकी अपेक्षा सर्व लोक स्पष्ट है । इन योगोंमें उपपाद् पद नहीं होता, क्योंकि उपपाद् पदमें मन-योग व वचन-योगका अभाव है । (खुदाबंध, टीका पृ० ४११-४१३) ।

काययोगीमें—ओषके समान हैं । यहाँ वेदनीयके अबन्धक नहीं हैं ।

२०१. औदारिक काययोगियोंमें—५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, प्रत्याख्यानावरण ४ तथा संज्वलन ४ रूप कषयाष्टक, भय-जुगुप्सा, तैजस-कर्मण, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण तथा ५ अन्तरायके बन्धकोंके सर्वलोक हैं । अबन्धकोंके लोकका असंख्यातवाँ भाग है । शेष प्रकृतियोंका तिर्यचोंके ओषवत् जानना चाहिए । विशेष, आयु, संहनन, विहायोगति तथा स्वरको छोड़कर अबन्धकोंमें ध्रुव प्रकृतियोंका भंग जानना चाहिए ।

२०२. औदारिक मिश्र, वैक्रियिक मिश्र, आहारक, आहारकमिश्रमें क्षेत्रके समान लोकका असंख्यातवाँ भाग जानना चाहिए । विशेष, औदारिक मिश्र काययोगीमें—मनुष्यायुके बन्धकोंका लोकका असंख्यातवाँ भाग वा सर्वलोक स्पर्शन है ; अबन्धकोंके सर्वलोक हैं ।

२०३. वैक्रियिक काययोगियोंमें—५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, अप्रत्याख्यानावरणादि १२ कषाय, भय, जुगुप्सा, औदारिक-तैजस-कर्मण शरीर, वर्ण ४, अगुरुलघु ४, वादर, पर्याप्त,

१. कायजोगी-ओरालियमिस्सकायजोगी सत्याण-समुद्घाद-उववादेहि केवडियं खेत्तं फोसिदं १ सव्व-लोगो - (खु०वं० पृ. १५३) । २. "ओरालियकायजोगीसु मिच्छादिट्ठी ओषं (सव्वलोगो) । पमत्तसंज-दण्हडि जाव सजोगिकेवलीहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो ।-पट्खं०, फो०, सू० ८१-८७ । ३. "वेउव्वियमिस्सकायजोगीसु मिच्छादिट्ठी-सासणसम्मादिट्ठी-असंजदसम्मादिट्ठीहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो ।"-सू० ९४ । "आहारकायजोगि-आहारमिस्सकायजोगीसु पमत्तसंजदेहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो ।"-सू० ६५ । "ओरालिमिस्सकायजोगीसु मिच्छादिट्ठी ओषं ।"-सू० ८८ । "सासणसम्माइट्ठि-असंजदसम्माइट्ठि-सजोगिकेवलीहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो ।"-सू० ८९ । ४. "वेउव्वियकायजोगीसु मिच्छादिट्ठीहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो । अट्टतेरहचोहसभागा वा देसूणा ।"-सू०-९० ।

तेरहभागो । अबंधगा गत्थि । थीणगिद्धि०३ मिच्छत्त० अणंताणु०४ बंधगा अडु-
तेरह० । अबंधगा अडु-चोहसभागो । णवरि मिच्छत्तस्स बंधगा अडुवारहभागो । सादा-

प्रत्येक निर्माण तथा ५ अन्तरायके बन्धकोंका ६४, ६३ है ॥ अबन्धक नहीं हैं ।

विशेषार्थ—काययोगी और औदारिक मिश्रकाययोगी जीव स्वस्थान, समुद्धात और उपपाद पदोंसे सर्वलोकका स्पर्शन करते हैं । वर्तमान तथा अतीत कालोंमें उन जीवोंके सर्वत्र गमनागमन और अवस्थानमें कोई विरोध नहीं है । औदारिक मिश्रकाय योगमें विहारवत् स्वस्थान, वैक्रियिक समुद्धात, तैजस समुद्धात और आहारक समुद्धात नहीं होते ।

औदारिक काययोगी जीव स्वस्थान और समुद्धातकी अपेक्षा सर्वलोक स्पर्शन करते हैं । यहाँ उपपाद पद नहीं होता ।

वैक्रियिक काययोगी जीव स्वस्थान पदोंसे लोकका असंख्यातवाँ भाग स्पर्श करते हैं । अतीत कालकी अपेक्षा कुछ कम १६ भाग स्पर्श करते हैं । समुद्धातकी अपेक्षा लोकका असंख्यातवाँ भाग स्पर्श करते हैं । अतीत कालकी अपेक्षा वेदना, कषाय और वैक्रियिक समुद्धात पदोंसे उक्त वैक्रियिक काययोगी जीवोंने १६ भाग स्पर्श किया है । मारणान्तिक समुद्धातसे कुछ कम १३ भाग स्पर्श किये हैं, क्योंकि मेरु मूलसे ऊपर सात और नीचे छह राजू आयामवाली लोक नालीको पूर्ण कर वैक्रियिक काययोगके साथ अतीत कालमें मारणान्तिक समुद्धातको प्राप्त जीव पाये जाते हैं । इस योगमें उपपाद नहीं है ।

वैक्रियिक मिश्र काययोगी जीव स्वस्थान पदोंसे लोकका असंख्यातवाँ भाग स्पर्श करते हैं । इनके विहारवत् स्वस्थान नहीं होता । इस योगमें समुद्धात और उपपाद पद नहीं होते ।

आहारक काययोगी जीव स्वस्थान और समुद्धात पदोंसे लोकका असंख्यातवाँ भाग स्पर्श करते हैं । अतीत कालकी अपेक्षा स्वस्थान-स्वस्थान, विहारवत् स्वस्थान, वेदनासमुद्धात और कषायसमुद्धात पदोंसे आहारक काययोगी जीवोंने चार लोकोंके असंख्यातवें भाग और मानुष क्षेत्रके संख्यातवें भागका स्पर्श किया है । मारणान्तिक समुद्धातसे चार लोकोंके असंख्यातवें भाग और मानुष क्षेत्रसे असंख्यात क्षेत्रका स्पर्श किया है । यहाँ उपपाद पदका अभाव है ।

आहारक मिश्रकाययोगी जीव स्वस्थान पदोंसे लोकका असंख्यातवाँ भाग स्पर्श करते हैं । उनके विहारवत् स्वस्थान पद नहीं होता है । समुद्धात और उपपाद पद भी नहीं होते हैं । (खुदाबंध, टीका, पृष्ठ ४१३-४१९) ।

विशेष—मिथ्यादृष्टि वैक्रियिक काययोगियोंने विहारवत् स्वस्थान, वेदना, कषाय तथा वैक्रियिकसमुद्धात पद परिणत जीवोंने ऊपर ६ राजू तथा मेरुतलसे नीचे २ राजू इस प्रकार १६ भाग स्पर्श किया है । मारणान्तिक समुद्धातकी अपेक्षा ऊपर ७ तथा नीचे ६ राजू, इस प्रकार १३ भाग स्पर्श किया है । (ध० टी०, फो०, टी०, २६६) ।

स्त्यानगुद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी ४ के बन्धकोंका ३६, ३३ है, अबन्धकोंका ३६ है । विशेष, मिथ्यात्वके बन्धकोंका ३६, ३३ है ।

विशेष—स्त्यानगुद्धित्रिकादिके अबन्धक सम्यग्मिथ्यादृष्टि तथा अविरत सम्यक्त्वी विहारवत् स्वस्थान, वेदना, कषाय, वैक्रियिक, मारणान्तिक परिणत जीवोंके ३६ स्पर्शन किया है । मिश्र गुणस्थानमें मारणान्तिक नहीं है । (ध० टी०, फो०, पृ० २६७) ।

सादस्स बंधगा अबंधगा अट्टतेरहभागो । दोण्णं बंधगा अट्टतेरह० । अबंधगा णत्थि । एवं हस्सादि-दोयुगलं, थिरादि-तिण्णियुगलं । इत्थि० पुरिसवेदाणं बंधगा अट्टवारह-भागो । अबंधगा अट्टतेरहभागो । णवुंसग-वेदस्स बंधगा अट्टतेरहभागो । अबंधगा अट्ट-वारहभागो । तिण्णि वेदाणं अट्टतेरहभागो । अबंधगा णत्थि । इत्थिभंगो पंचसंठा० ओरालि० अंगो० छस्संध० सुभग० आदेज्ज० । णवुंसगवेदभंगो हुंडसंठा० दूभग० अणादे० । साधारणेण वेदभंगो । दोआयु० मणुसग० मणुसाणु० आदावं तिन्थयरं उच्चागोदं बंधगा अट्ट-चोदसभागो । अबंधगा अट्टतेरहभागो । तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु० णीचा-गोदं बंधगा अट्ट-तेरहभागो । अबंधगा अट्टचोदसभागो । दोण्णं बंधगा अट्टतेरह० भागो । अबंधगा णत्थि । एवं दोण्णं आउ० (णु०) (?) दोगोद० । ईदि० बंधगा अट्टणव-चोदसभागो । अबंधगा अट्टवारहभागो । पंचिदियबंधगा अट्टवारह० । अबंधगा अट्टणव-चोदसभागो । दोण्णं बंधगा अट्टतेरहभागो । अबंधगा णत्थि । एवं तस-थावर० । उज्जोव-बंधगा-अबंधगा अट्टतेरह-चोदसभागो वा । पसत्थवि० बंधगा अट्टवारह० । अबंधगा अट्ट-तेरहभागो अप्पसत्थवि० बंधगा अट्टवारहभागो । अबंधगा अट्टतेरह-

साता, असाताके बन्धकों, अबन्धकोंके १/४, ३/४ है । दोनोंके बन्धकोंके १/४, ३/४ है ; अबन्धक नहीं हैं । हास्य-रति, अरति-शोक, स्थिरादि तीन युगलमें इसी प्रकार जानना चाहिए । स्त्रीवेद, पुरुषवेदके बन्धकोंके १/४, ३/४ है ; अबन्धकोंके १/४, ३/४ है । नपुंसकवेदके बन्धकोंके १/४, ३/४ है ; अबन्धकोंके १/४, ३/४ है । तीनों वेदोंके बन्धकोंके १/४, ३/४ है ; अबन्धक नहीं हैं । ५ संस्थान, औदारिक अंगोपांग, ६ संहनन, सुभग, आदेयमें स्त्रीवेदका भंग है । हुंडक संस्थान, दुर्भग, अनादेयमें नपुंसकवेदके समान भंग है । सामान्यसे वेदके समान भंग है । मनुष्य-तिर्यचायु, मनुष्यगति, मनुष्यानुपूर्वी, आतप, तीर्थकर तथा उज्जोत्रके बन्धकोंका १/४ है ; अबन्धकोंका १/४, ३/४ भाग है ।

विशेष—वैक्रियिक काययोगी अविरतसम्यक्त्वी विहारवत् स्वस्थान, वेदना, कषाय, वैक्रियिक तथा मारणान्तिक समुद्रात-द्वारा ऊपर ६ राजू तथा नीचे २ राजू, इस प्रकार १/४ स्पर्शन करता है । तीर्थकर आदि प्रकृतियोंके अबन्धक मिथ्यात्वी जीवने मेरुतलसे नीचे ६ राजू तथा ऊपर ७ राजू, इस प्रकार ३/४ भाग स्पर्श किया है ।

तिर्यचगति, तिर्यचानुपूर्वी तथा नीचगोत्रके बन्धकोंके १/४, ३/४ भाग हैं, अबन्धकोंके १/४ भाग हैं । दोनों गतियोंके बन्धकोंके १/४, ३/४ है ; अबन्धक नहीं हैं । दोनों आनुपूर्वी तथा दोनों गोत्रोंका इसी प्रकार वर्णन जानना चाहिए । एकेन्द्रियके बन्धकोंके १/४, ३/४ है । अबन्धकोंके १/४, ३/४ है । पंचेन्द्रिय जातिके बन्धकोंके १/४, ३/४ है, अबन्धकोंके १/४, ३/४ है । दोनोंके बन्धकोंके १/४, ३/४ भाग है, अबन्धक नहीं है ।

विशेष—वैक्रियिक काययोगियोंके विकलत्रयका बन्ध नहीं होनेसे दोइन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चौइन्द्रिय जातिका वर्णन नहीं किया गया है ।

त्रस, स्थावरोंका इसी प्रकार जानना चाहिए । उद्योतके बन्धकों, अबन्धकोंका १/४, ३/४ है । प्रशस्तविहायोगतिके बन्धकोंका १/४, ३/४ है, अबन्धकोंके १/४, ३/४ है । अप्रशस्तविहायो-

भागो । दोषणं बंधगा अट्टुवारहभागो । अबंधगा अट्टुचोद्दसभागो । एवं ओरालियं अंगो० छस्संघं(?) दोसर० ।

२०४. कम्मइगस्स—पंचणा० छदंसं० बारसक० भयदु० तेजाक० वण्ण०४ अगु० उप० णिमि० पंचंतराइमाणं बंधगा सव्वलोगो । अबंधगा लोगस्स असं० असंखेज्जा वा भागा वा सव्वलोगो वा । थोणगिद्धि०३ अणंताणु०४ बंधगा सव्वलोगो । अबंधगा छुच्चोद्दसभागो, केवल्लिभंगो । सादासाद-बंधगा अबंधगा सव्वलोगो । दोषणं बंधगा सव्वलोगो । अबंधगा णत्थि । मिच्छत्तस्स बंधगा सव्वलोगो । अबंधगा

गतिके बन्धकोंके ५६, १३ है, अबन्धकोंके ५६, १३ है । दोनों बन्धकोंके ५६, १३ भाग है, अबन्धकोंके ५६ भाग है । औदारिक अंगोपांग (?), ६ संहनन (?), दोस्वरमें इसी प्रकार जानना चाहिए ।

विशेष—औदारिक अंगोपांग तथा ६ संहननका ५ संस्थान, सुभगादिके साथ वर्णन पूर्वमें हो चुका है । यहाँ पुनः उसका वर्णन किस दृष्टिसे किया गया, यह चिन्तनीय है ।

२०४. कार्मण काययोगीमें—५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, १२ कषाय, भय-जुगुप्सा, तैजस-कार्मण, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण तथा ५ अन्तरायके बन्धकोंका सर्वलोक स्पर्शन है । अबन्धकोंका लोकका असंख्यातवाँ भाग, असंख्यात बहुभाग वा सर्वलोक है ।

विशेष— कार्मण काययोगमें ज्ञानावरणादिके अबन्धक सयोगकेवलीके लोकका असंख्यातवाँ भाग स्पर्श'धवला'टीकामें नहीं कहा है, किन्तु यहाँ ज्ञानावरणादिके अबन्धकोंके लोकका असंख्यात भाग कहा है । प्रतर समुद्रातगत केवलीके कार्मण काययोगमें लोकके असंख्यात बहुभाग स्पर्श कहा है । कारण लोक पर्यन्त स्थित वातचलयोंमें केवली भगवान्के आत्मप्रदेश प्रतर समुद्रातमें प्रवेश नहीं करते थे । लोकपूरण समुद्रातमें सर्वलोक स्पर्श है । कारण चारों ओरसे व्याप्त वातचलयोंमें भी केवलीके आत्म-प्रदेश प्रविष्ट हो जाते हैं । (ध० टी०, फो० पृ० २७१) ।

स्त्यानगृद्धित्रिक, अनन्तानुबन्धी ४ के बन्धकोंके सर्वलोक है, अबन्धकोंके ५६ वा केवली-भंग है ।

विशेष—इस योगमें एक उपपाद पद होता है । यहाँ स्त्यानगृद्धि अङ्गिके अबन्धक असंयतसम्यक्त्वी तिर्यक मेरुतलसे ऊपर छह राजू जा करके उत्पन्न होते हैं । मेरुतलसे नीचे ५ राजू प्रमाण स्पर्शन क्षेत्र नहीं पाया जाता है, कारण नारकी असंयतसम्यक्त्वी जीवोंका तिर्यचोंमें उपपाद नहीं होता है । (पृ० २७१) ।

साता-असाता वेदनीयके बन्धकों-अबन्धकोंका सर्वलोक है । दोनोंके बन्धकोंका सर्वलोक है ; अबन्धक नहीं है । मिथ्यात्वके बन्धकोंका सर्वलोक है, अबन्धकोंका

१ "कम्मइयक्यजोगोमु मिच्छादिट्ठी ओधं (सव्वलोगो) । सजोगिकेवलीहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जा भागा सव्वलोगो वा ।" पदर-गद-केवलीहि लोगस्स असंखेज्जा भागा फोसिदा । लोग पेरे-तट्टिदवाद बलएसु अपविट्टुजीवपदे सत्तादो । लोगपूरणे सव्वलोगो फोसिदो, वादवलयेसु विपविट्टुजीवपदे सत्तादो । —ध० टी०, फो०, पृ० २७१, सू० ९६, १०१ । २ एत्थ वि उववादपदमेक्कं चेव । —ध० टी०, फो०, पृ० २७१ ।

एकारहभागो, केवलिभंगो । इत्थि० पुरिस० णवुंस० बंधगा अबंधगा सव्वलोगो । तिण्णं बंधगा सव्वलोगो । अबंधगा केवलिभंगो । एवं तिण्णं वेदाणं भंगो चटुणोक्क० पंचजादि-छस्संठ० तसथावरादिणवयुगलं दोगोदं च । तिरिक्खगदि-मणुसगदिबंधगा अबंधगा सव्वलोगो । देवगदिबंधगा खेत्तभंगो । अबंधगा सव्वलोगो । तिण्णं गदीणं बंधगा सव्वलोगो । अबंधगा केवलिभंगो । एवं तिण्णि आपु० । ओरालि० बंधगा सव्वलोगो । अबंधगा लोगस्स असंखेज्जदि० वा भागा वा सव्वलोगो वा । वेउव्वियबंधगा खेत्तभंगो । अबंधगा सव्वलोगो । दोण्णं बंधगा सव्वलोगो । अबंधगा केवलिभंगो । ओरालि० अंगोवंगस्स बंधगा अबंधगा सव्वलोगो । वेउव्विय० अंगो खेत्तभंगो । दो-अंगोवंगणं बंधगा अबंधगा सव्वलोगो । एवं छसंध० परघादुस्सास-आदाउज्जो० दोविहा० दोसर० । तित्थय० बंधगा खेत्तभंगो । अबंधगा सव्वलोगो ।

२०५. इत्थिवेदे-पंचणा० चदुदंस० चदुसंज० पंचंतराइगाणं बंधगा अट्टेतरह०

३३ अथवा केवली-भंग है ।

विशेष—उपपाद पदमें वर्तमान मिथ्यात्वके अबन्धक सासादन सम्यक्त्वी जीव मेरुके मूल भागसे नीचे पाँच राजू और ऊपर अच्युत कल्प तक छह राजू प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन करते हैं, इससे ३३ भाग प्रमाण स्पर्श किया हुआ क्षेत्र हो जाता है । (ध० टी०, फो० पृ० २७०) ।

स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेदके बन्धकोंका सर्वलोक स्पर्शन है । तीनों वेदोंके बन्धकोंका सर्वलोक है ; अबन्धकोंका केवली-भंग है । हास्यादि ४ नोकषाय, ५ जाति, ६ संस्थान, त्रस-स्थावरादि नवयुगल तथा २गोत्रका वेदत्रयके समान भंग है । तिर्यचगति मनुष्यगतिके बन्धकों, अबन्धकोंका सर्वलोक स्पर्श है । देवगतिके बन्धकोंका क्षेत्रके समान अर्थात् लोकका असंख्यातवाँ भाग भंग है ; अबन्धकोंका सर्वलोक है । तीन गतिके बन्धकोंका सर्वलोक है । अबन्धकोंका केवली-भंग है । तीन आनुपूर्वियोंमें इसी प्रकार जानना चाहिए ।

विशेष—कामर्ण काययोगमें नरकगति तथा नरकगत्यानुपूर्वीका बन्ध न होनेसे यहाँ तीन ही गतियोंका उल्लेख किया है ।

औदारिक शरीरके बन्धकोंका सर्वलोक है ; अबन्धकोंका लोकके असंख्यात बहुभाग वा सर्वलोक है । वैक्रियिक शरीरके बन्धकोंका क्षेत्र समान भंग है अर्थात् लोकका असंख्यातवाँ भाग है ; अबन्धकोंका सर्वलोक है । दोनों शरीरोंके बन्धकोंका सर्वलोक है । अबन्धकोंके केवली-भंग है । औदारिक अंगोपांगके बन्धकों, अबन्धकोंका सर्वलोक है । वैक्रियिक अंगोपांगका क्षेत्रके समान भंग है अर्थात् बन्धकोंका लोकका असंख्यातवाँ भाग, अबन्धकोंका सर्वलोक है । दोनों अंगोपांगोंके बन्धकों, अबन्धकोंका सर्वलोक है । छह संहनन, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, दो विहायोगति, दो स्वरमें ऐसा ही है । तीर्थकरके बन्धकोंका क्षेत्रके समान लोकका असंख्यातवाँ भंग है । अबन्धकोंके सर्वलोक है ।

२०५. स्त्रीवेदमें-५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, ४ संज्वलन, ५ अन्तरायके बन्धकोंका

१ “कम्मे उरालमिस्सं वा ।” —गो० क०, गा० ११६ । “ओराले वा मिस्से ण्हि मुरणिरयाउहा-रणिरयदुगं ।” — गो० क०, गा० ११६ ।

सव्वलोगो । अबंधगा णत्थि । थीणगिद्धि०३ अणताणु०४ बंधगा अट्टतेरह० सव्व-
लोगो वा । अबंधगा अट्टचोद्दसभागो । णिहापयला [पच्चक्खाणावरण४] भयदु०
तेजाक० वण्ण०४ अगु० उप० णिमिणं बंधगा अट्टतेरह० सव्वलोगो वा । अबंधगा
खेत्तभंगो । सादबंधगा अट्टणवचोद्दस० सव्वलोगो वा । अबंधगा अट्टतेरह० सव्वलोगो
वा । असादबंधगा अट्टतेरह० सव्वलोगो वा । अबंधगा अट्टणवचोद्दस० सव्वलोगो वा ।
दोण्णं बंधगा अट्टतेरह० सव्वलोगो वा । अबंधगा णत्थि । मिच्छत्तस्स बंधगा अट्टतेरह-
चोद्दस० सव्वलोगो वा । अबंधगा अट्टणव-चोद्दसभागो । अपच्चक्खाणा०४ बंधगा

६४, ६३ भाग वा सर्वलोक है ; अबन्धक नहीं हैं ।^१

विशेष—विहारवत्स्वस्थान, वेदना, कषाय और वैक्रियिक समुद्घात परिणत देवोंमें
आठ राजू बाहुल्यवाले राजू प्रतर प्रमाण क्षेत्रमें भ्रमण करनेकी शक्ति होनेसे ६४ स्पर्शन कहा
है। मारणान्तिक तथा उपपाद परिणत उक्त जीव सर्वलोकको स्पर्श करते हैं, कारण मारणान्तिक
और उपपाद परिणत मिथ्यात्वी स्त्री, पुरुषवेदी जीवोंके अगम्य प्रदेशका अभाव है। ऊपर
सात राजू तथा नीचे छह राजू प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शनकी अपेक्षा अतीत-अनागत कालकी
दृष्टिसे ६३ भाग है। (२७२) स्त्रीवेदमें तैजस तथा आहारक समुद्घात नहीं होते ।^२

स्थानगृद्धित्रिक, अनन्तानुबन्धी ४ के बन्धकोंके ६४, ६३ वा सर्वलोक है ;^३ अबन्धकों-
के ६४ है ।

विशेष—स्थानगृद्धि ३ तथा अनन्तानुबन्धी ४ के अबन्धक सम्यग्मिथ्यात्वी वा
अविरत-सम्यक्त्वी जीवोंने अतीत-अनागत कालकी अपेक्षा विहारवत्स्वस्थान, वेदना, कषाय
वैक्रियिक, मारणान्तिक समुद्घातकी अपेक्षा ऊपर छह और नीचे दो इस प्रकार ६४ स्पर्शन
किया है। मिश्र गुणस्थानमें उपपाद पद तथा मारणान्तिक समुद्घात नहीं होते हैं। स्त्रीवेदी
जीवोंमें असंयत सम्यक्त्वीका उपपाद नहीं होता है ।^४ (२७४)

निद्रा-प्रचला, प्रत्याख्यानावरण^५, भय-जुगुप्सा, तैजस-कार्मण वर्ण ४, अगुरुलघु,
उपघात, निर्माणके बन्धकोंका ६४, ६३ वा सर्वलोक है ; अबन्धकोंका क्षेत्रके समान है अर्थात्
लोकके असंख्यातवें भाग हैं^६ । साता वेदनीयके बन्धकोंका ६४, ६३ वा सर्वलोक है ; अब-
न्धकोंका ६४, ६३ वा सर्वलोक है । असाताके बन्धकोंका ६४, ६३ वा सर्वलोक है ; अबन्धकों-
का ६४, ६३ वा सर्वलोक है । दोनोंके बन्धकोंका ६५, ६३ वा सर्वलोक है ; अबन्धक
नहीं है । मिथ्यात्वके बन्धकोंका ६४, ६३ वा सर्वलोक है ; अबन्धकोंका ६४, ६३ है ।^७

१. “वेदानुवादेण इत्थिवेदपुरिसवेदणसु मिच्छादिट्ठीहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदि-
भागो । अट्टचोद्दसभागो देसूणा सव्वलोगो वा ।” —षट्खं०, फो०, सू० १०२, १०३ । २. इत्थिवेदे तदुपर्यं
(तेजाहारसमुधादा) णत्थि —खु० बं०, टी० पृ० ४२१ । ३. “सम्मादिच्छादिट्ठि-असंजदसम्मादिट्ठीहि
केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो । अट्टचोद्दसभागो वा देसूणा फोसिदा ।” —सू० १०६ ।
४. इत्थिवेदेषु असंजदसम्मादिट्ठीणं उववादो णत्थि—ध० टी०, पृ० २७४ । ५. “सासणसम्मादिट्ठीहि
केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो । अट्टणचोद्दसभागो देसूणा ।” —षट्खं०, फो०,
सू० १०४, १०५ । ६. “संजदासंजदेहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो । छचोद्दसभागो
देसूणा ।” —सू० १०८ ।

अद्दु-तेरह०, सव्वलोगो वा । अबंधगा छच्चोदसभागो । इत्थि० पुरिस० बंधगा अद्दु-
चोदसभागो । अबंधगा अद्दुतेरह० सव्वलोगो । णवुंस० बंधगा अद्दुतेरह० सव्वलोगो
वा । अबंधगा अद्दुचोदसभागो । तिण्णं वेदाणं बंधगा अद्दुतेरह० सव्वलोगो वा । अचं-
धगा णत्थि । हस्सरदि सादभंगो । अरदिसोगं असादभंगो । दोण्णं युगलाणं बंधगा
अद्दु-तेरहभागो, सव्वलोगो वा । अबंधगा खेत्तभंगो । एवं थिराथिर-सुभासुभ० । णिरय-
देवायु-तिण्णिजादि० (गदि) आहारदुगं तित्थयरं बंधगा खेत्तभंगो । अबंधगा अद्दु-तेरह-
भागो सव्वलोगो वा । दोआयु-मणुसगदि-मणुसाणुपुव्वि-आदाउज्जोवं दोगोदं (?) बंधगा
अद्दु-चोदसभागो । अबंधगा अद्दुतेरहभागो, सव्वलोगो वा । दोगदि-दोआणुपुव्वि-बंधगा
छच्चोदसभागो । अबंधगा अद्दुतेरहभागो, सव्वलोगो वा । तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु-

विशेष—मिथ्यात्वके अबन्धक सासादन सम्यक्त्वी जीवोंने विहारवत्स्वरथान, वेदना,
कषाय तथा वैक्रियिक समुद्रातकी अपेक्षा १/४ भाग स्पर्श किया है, कारण ८ राजू बाहल्यवाले
राजू प्रतरके भीतर देव, स्त्री, सासादन सम्यग्दृष्टि जीवोंके गमनागमनके प्रति प्रतिषेधका अभाव
है । मारणान्तिक समुद्रात परिणत उक्त जीवोंने नीचे दो और ऊपर ७ राजू अर्थात् १/४ भाग
स्पर्श किये हैं । (२७२)

अप्रत्याख्यानावरण ४ के बन्धकोंके १/४, ३/४ वा सर्वलोक स्पर्श है, अबन्धकोंके १/४ है ।

विशेष—अप्रत्याख्यानावरणके अबन्धक देशत्रती स्त्रीवेदीने मारणान्तिकद्वारा १/४
भाग स्पर्श किये, कारण अच्युत कल्पके ऊपर संयतासंयत तिर्यंचोंका उत्पाद नहीं होता
है । (२७५)

स्त्रीवेद-पुरुषवेदके बन्धकोंका १/४, अबन्धकोंका १/४, ३/४ वा सर्वलोक है । नपुंसकवेदके
बन्धकोंका १/४, ३/४ वा सर्वलोक है; अबन्धकोंका १/४ है । तीनों वेदोंके बन्धकोंका १/४, ३/४ वा
सर्वलोक है; अबन्धक नहीं है । हास्य-रतिमें साता वेदनीयके समान है अर्थात् १/४, ३/४ वा
सर्वलोक है; अबन्धकोंका १/४, ३/४ वा सर्वलोक है । अरति-शोकमें असाता वेदनीयके समान
भंग है । अर्थात् बन्धकोंके १/४, ३/४ वा सर्वलोक है; अबन्धकोंके १/४, ३/४ वा सर्वलोक है ।
हास्य-रति, अरति-शोक इन दो युगलोंके बन्धकोंके १/४, ३/४ वा सर्वलोक हैं । अबन्धकोंके
क्षेत्रके समान भंग है । अर्थात् लोकके असंख्यातवें भाग है । स्थिर-अस्थिर, शुभ-अशुभमें
इसी प्रकार है । नरकायु, देवायु, तीन जाति (?) (गति) आहारकद्विक और तीर्थकरके
बन्धकोंका क्षेत्रके समान भंग है । विशेष, यहाँ जातिके स्थानमें गतिका पाठ उपयुक्त प्रतीत
होता है । जातिका वर्णन आगे किया गया है । अबन्धकोंका १/४, ३/४ वा सर्वलोक है ।
मनुष्यायु, तिर्यंचायु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत तथा दो गोत्र (?) के
बन्धकोंका १/४ है; अबन्धकोंका ३/४, ३/४ वा सर्वलोक है ।

विशेष—गोत्रका कथन आगे आया है । अतः यहाँ 'दोगोदं' पाठ अधिक प्रतीत होता है ।

नरकगति, देवगति, नरकानुपूर्वी, देवानुपूर्वीके बन्धकोंका १/४ है । अबन्धकोंका ३/४,

१. "पमत्तमवत्पयडि जाव अणियट्टिउवसामग-ववण्णि केवडिधं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्ज-
दिभागो ।" —सू० ११० ।

पुण्विबंधगा अट्टणवचोदसभागो, सव्वलोगो वा । अबंधगा अट्टवारहभागो । चटुण्णं गदीणं बंधगा अट्टतेरहभागो सव्वलोगो वा । अबंधगा खेत्तभंगो । एवं आणुपुव्वीणं । एइंदियबंधगा अट्टणवचोदसभागो सव्वलोगो वा । अबंधगा अट्टवारहभागो । पंचिदियं बंधगा अट्टवारहभागो । अबंधगा अट्टणवचोदसभागो, सव्वलोगो वा । पंचण्णं जादीणं बंधगा अट्टतेरहभागो, सव्वलोगो वा । अबंधगा खेत्तभंगो । ओरालियसरीरं बंधगा अट्टणवचोदसभागो, सव्वलोगो वा । [अबंधगा] अट्टवाहभागो । वेउव्वियं बंधगा बारहभागो । अबंधगा अट्टणवचोदसभागो सव्वलोगो वा । दोण्णं बंधगा अट्टतेरहभागो सव्वलोगो वा । अबंधगा खेत्तभंगो । पंचसंठाणं इत्थिभंगो । हुंडसंठाणं णवुंसगवेदं साधारणेण वि वेदभंगो । णवरि अबंधगाणं खेत्तभंगो । ओरालिय-अंगोवंगबंधगा अट्टचोदसभागो, अबंधगा अट्टतेरहभागो, सव्वलोगो वा । वेउव्वियसरीर-अंगोवंगबंधगा बारहभागो । अबंधगा अट्टणवचोदसभागो, सव्वलोगो वा । दोण्णं बंधगा अट्टवारहभागो । अबंधगा अट्टणवचोदसभागो, सव्वलोगो वा । छस्संघट्ठणं बंधगा अट्टचोदसभागो । अबंधगा अट्टतेरहभागो सव्वलोगो वा । एवं साधारणेण वि । परघादुस्सासं बंधगा अट्टवारहभागो सव्वलोगो वा । अबंधगा लौगरस असंखेअदिभागो, सव्वलोगो वा । उच्चागोदं (?) बंधगा अट्टणवचोदसभागो वा । अबंधगा अट्टतेरह० सव्वलोगो वा ।

१३ वा सर्वलोक है । तिर्यचगति, तिर्यचानुपूर्वीके बन्धकोंका ६४, १३ वा सर्वलोक है ; अबन्धकोंका ६४, १३ है । चार गतियोंके बन्धकोंका ६४, १३ वा सर्वलोक है ; अबन्धकोंका क्षेत्रके समान भंग है । चारों आनुपूर्वीमें इसी प्रकार जानना चाहिए । एकेन्द्रियके बन्धकोंका ६४, १३ वा सर्वलोक है । अबन्धकोंका ६४, १३ है । पंचेन्द्रियके बन्धकोंका ६४, १३ है, अबन्धकोंका ६४, १३ वा सर्वलोक है । पाँचों जातियोंके बन्धकोंका ६४, १३ वा सर्वलोक है । अबन्धकोंके क्षेत्रके समान भंग है । औदारिक शरीरके बन्धकोंका ६४, १३ वा सर्वलोक है । [अबन्धकोंका] ६४, १३ है । वैक्रियिक शरीरके बन्धकोंका १३ है । अबन्धकोंका ६४, १३ वा सर्वलोक है । दोनों शरीरोंके बन्धकोंका ६४, १३ वा सर्वलोक है । अबन्धकोंका क्षेत्रके समान भंग है । ५ संस्थानोंमें स्त्रीवेदके समान भंग है । हुंडक संस्थानका नपुंसकवेदके समान भंग है । ६ संस्थानोंका सामान्यसे वेदके समान भंग है । विशेष, अबन्धकोंका क्षेत्रके समान भंग है । औदारिक अंगोपांगके बन्धकोंका ६४ है । अबन्धकोंका ६४, १३ वा सर्वलोक है । वैक्रियिक अंगोपांगके बन्धकोंका १३ है । अबन्धकोंका ६४, १३ वा सर्वलोक है । दोनों अंगोपांगोंके बन्धकोंका ६४, १३ है । अबन्धकोंका ६४, १३ वा सर्वलोक है । छह संहननके बन्धकोंका ६४ है । अबन्धकोंका ६४, १३ वा सर्वलोक है । सामान्यसे भी छह संहननका इसी प्रकार जानना चाहिए । परघात, उच्छ्वासके बन्धकोंका ६४, १३ अथवा सर्वलोक है । अबन्धकोंका लोकके असंख्यातवें भाग वा सर्वलोक है । उच्चगोत्रके बन्धकोंका ६४, १३ है । अबन्धकोंका ६४, १३ वा सर्वलोक है ।

विशेष—यहाँ उच्चगोत्रका पाठ असंगत प्रतीत होता है, कारण इसका कथन आगे किया गया है ।

पसत्थविहायगदि बंधगा अट्टुचोद्दसभागो । अबंधगा अट्टुतेरह० सव्वलोगो वा । अप्पसत्थविहायगदि बंधगा अट्टुवारहभागो । अबंधगा अट्टुणवचोद्दसभागो सव्वलोगो वा । दोण्णं बंधगा अट्टुवारहभागो । अबंधगा अट्टुणवचोद्दसभागो सव्वलोगो वा । एवं दोसरणं । तस-बंधगा अट्टुवारहभागो । अबंधगा अट्टुणवचोद्दसभागो, सव्वलोगो वा । थावर-बंधगा अट्टुणव-चोद्दसभागो सव्वलोगो वा । अबंधगा अट्टुवारहभागो । दोण्णं पगदीणं बंधगा अट्टुतेरहभागो सव्वलोगो वा । अबंधगा खेत्तभंगो । बादर-बंधगा अट्टुतेरहभागो । अबंधगा लोगस्स असंखेज्जदिभागो, सव्वलोगो वा । सुहुम-बंधगा लोगस्स असंखेज्जदिभागो, सव्वलोगो वा । अबंधगा अट्टुतेरहभागो । दोण्णं पगदीणं बंधगा अट्टुतेरहभागो सव्वलोगो वा । अबंधगा खेत्तभंगो । एवं पज्जत्तापज्जत्तपत्तेय-साधारणं च । सुभग-आदेजाणं बंधगा अट्टुचोद्दसभागो, [अबंधगा] अट्टुतेरहभागो, सव्वलोगो वा । दुभग-अणादेज्जाणं बंधगा अट्टुतेरहभागो, सव्वलोगो वा । अबंधगा अट्टुचोद्दसभागो । दोण्णं पगदीणं बंधगा अट्टुतेरहभागो, सव्वलोगो वा । अबंधगा खेत्तभंगो । जसगित्तिस्स बंधगा अट्टुणव-चोद्दसभागो । अबंधगा अट्टुतेरहचोद्दस-भागो, सव्वलोगो वा । अज्जसगित्तिस्स बंधगा अट्टुतेरहभागो, सव्वलोगो वा । अबंधगा अट्टुणवचोद्दसभागो । दोण्णं बंधगा अट्टुतेरहभागो सव्वलोगो वा । अबंधगा गत्थि । उच्चागोदं बंधगा अट्टुभागो, अबंधगा अट्टुतेरहभागो सव्वलोगो वा । णीचागोदं बंधगा

प्रशस्तविहायोगतिके वन्धकोंका ५४, ५३ है । अवन्धकोंका ५६, ५३ वा सर्वलोक है । अप्रशस्त विहायोगतिके वन्धकोंका ५४, ५३ है । अवन्धकोंका ५६, ५३ वा सर्वलोक है । दोनों-के वन्धकोंका ५६, ५३ है । अवन्धकोंका ५६, ५३ वा सर्वलोक है । दो स्वरोमें विहायोगतिके समान है । तस प्रकृतिके वन्धकोंका ५६, ५३ है । अवन्धकोंका ५६, ५३ वा सर्वलोक है । स्थावरके वन्धकोंका ५६, ५३ वा सर्वलोक है । अवन्धकोंका ५६, ५३ है । दोनोंके वन्धकोंका ५६, ५३ वा सर्वलोक है । अवन्धकोंका क्षेत्रके समान है । बादरके वन्धकोंका ५६, ५३ है । अवन्धकोंका लोकका असंख्यातवाँ भाग वा सर्वलोक है । सूक्ष्मके वन्धकोंका लोकका असंख्या-तवाँ भाग वा सर्वलोक है । अवन्धकोंका ५६, ५३ है । दोनोंके वन्धकोंका ५६, ५३ वा सर्व-लोक है । अवन्धकोंका क्षेत्रके समान रक्षण है । पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारणमें भी इसी प्रकार जानना चाहिए ।

सुभग, आदेयके वन्धकोंका ५६ है । [अवन्धकोंका] ५६, ५३ वा सर्वलोक है । दुर्भग, अनादेयके वन्धकोंका ५६, ५३ वा सर्वलोक है । अवन्धकोंका ५६ है । सुभग, दुर्भग, आदेय, अनादेयके वन्धकोंका ५६, ५३ वा सर्वलोक है । अवन्धकोंका क्षेत्रवत् भंग है । यशःकीतिके वन्धकोंका ५६, ५३ है । अवन्धकोंका ५६, ५३ वा सर्वलोक है । अयशःकीतिके वन्धकोंका ५६, ५३ वा सर्वलोक है । अवन्धकोंका ५६, ५३ है । दोनोंके वन्धकोंका ५६, ५३ वा सर्वलोक है । अवन्धक नहीं है ।

विशेष—दोनोंके अवन्धक उपशान्त कषयादिमें होते हैं अतएव स्त्रीवेदमें अवन्धकोंका अभाव बताया है ।

उच्चगोत्रके वन्धकोंका ५६ है । अवन्धकोंका ५६, ५३ वा सर्वलोक है । नीच गोत्रके

अद्वितीयभागो, सव्वलोगो वा । अवंधगा अद्वितीयभागो । दोणं गोदाणं बंधगा अद्वितीयभागो सव्वलोगो वा । अवंधगा णत्थि ।

२०६. एवं पुरिसवेदस्स । णवरि तित्थयरं बंधगा अद्वितीयभागो । अवंधगा अद्वितीयभागो, सव्वलोगो वा ।

२०७. णवुंसगवेदं—धुविगाणं बंधगा सव्वलोगो । अवंधगा णत्थि । धीणगिद्धि-
तिर्यं अणंताणुबंधिचदुक्कं बंधगा सव्वलोगो । अवंधगा छच्चोदसभागो । णिहा-पयला-
पच्चकखाणाव०४ भयदु० तेजाक० वण्ण०४ अगु० उप० णिमिणं बंधगा सव्वलोगो ।
अवंधगा खेत्तभंगो । सादासाद-बंधगा अवंधगा सव्वलोगो । दोणं बंधगा सव्वलोगो ।
अवंधगा णत्थि । एवं जस-अजसगित्ति-दोगोदाणि (?) मिच्छत्तं बंधगा सव्वलोगो ।
अवंधगा बारहभागो । अपच्चकखाणावरण-चउक्कं बंधगा सव्वलोगो । अवंधगा

बन्धकोंका ३४, ३३ वा सर्वलोक है । अबन्धकोंका ३४ है । दोनों गोत्रोंके बन्धकोंका ३४, ३३ वा सर्वलोक है । अबन्धक नहीं है ।

२०६. पुरुषवेदमें इसी प्रकार है । विशेष, तीर्थंकर प्रकृतिके बन्धकोंका ३४ है । अबन्धकोंका ३४, ३३ वा सर्वलोक है ।

२०७. नपुंसकवेदमें—ध्रुव प्रकृतियोंके बन्धकोंका सर्वलोक है ; अबन्धक नहीं हैं । स्त्यानगृद्धित्रिक, अनन्तानुबन्धी ४ के बन्धकोंका सर्वलोक है, अबन्धकोंका ३४ है ।

विशेष—मारणान्तिक पद परिणत असंयत सम्यक्त्वो नपुंसकवेदीका अच्युत कल्पके स्पर्शनकी अपेक्षा ३४ भाग कहा है (पृ० २७८) ।

निद्रा, प्रचला, प्रत्याख्यानावरण ४, भय-जुगुप्सा, तैजस-कार्मण, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माणके बन्धकोंका सर्वलोक है । अबन्धकोंका क्षेत्रके समान लोकका असंख्यातवाँ भाग है । साता-असाताके बन्धकों, अबन्धकोंका सर्वलोक स्पर्शन है । दोनोंके बन्धकोंका सर्वलोक है ; अबन्धक नहीं है । यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति, दोनों गोत्रोंमें (?) इसी प्रकार जानना चाहिए ।

विशेष—दो गोत्रोंका वर्णन आगे आया है । इससे यहाँ उनके उल्लेखका पाठ अधिक प्रतीत होता है ।

मिथ्यात्वके बन्धकोंका सर्वलोक है ।

विशेषार्थ—‘खुहाबन्ध’ टीकामें लिखा है, नपुंसकवेदी जीवोंने स्वस्थान समुद्घात और उपपाद पदोंसे सर्वलोक स्पर्श किया है । इसका भाव यह है कि स्वस्थान, वेदना-कषाय-मारणान्तिक समुद्घातों और उपपाद पदोंसे अतीत व वर्तमानकालकी अपेक्षा नपुंसकवेदियोंने सर्वलोक स्पर्श किया है । तैजस व आहारक समुद्घात नपुंसकवेदियोंके नहीं होते । विहार-वस्वस्थान और वैक्रियिक समुद्घात पदोंसे वर्तमान कालकी अपेक्षा स्पर्शनका निरूपण क्षेत्र प्ररूपणके समान है । अतीतकालकी अपेक्षा तीन लोकोंके असंख्यातवें भाग, तिर्यग्लोकके संख्यातवें भाग, और अढ़ाई द्वीपसे असंख्यातगुणे क्षेत्रका स्पर्श किया है । इतनी विशेषता है

१. “सम्मामिच्छादिद्वि-असंजदसम्मादिद्वीहि केवडियं खेतं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागा । अद्वितीयभागो वा देसूणा फोसिदा ।” — षट्खं०, फो०, सू० १०६ । २. णवुंसयवेदा सत्थाण-समुग्घाद-उववादेहि केवडियं खेतं फोसिदं ? सव्वलोगो । — खु० वं०, सू० १३८, १३९ ।

छचोद्दसभागो । इत्थि० पुरिस० णउंसग-वेदाणं बंधगा अबंधगा सव्वलोगो । तिण्णं बंधगा सव्वलोगो । अबंधगा णत्थि । हस्सादि०४ बंधगा अबंधगा । [एवं] दोण्णं युगलाणं बंधगा अबंधगा खेत्तभंगो । एवं पंचजादि-छस्संठात्तसथावरादि-अट्टयुगलं दो-आयु० आहारदुगं तित्थयरं खेत्तभंगो । अबंधगा सव्वलोगो । तिरिक्खायु-बंधगा अबंधगा सव्वलोगो । मणुसायुबंधगा लोगस्स असंखेज्जदिभागो, सव्वलोगो वा । अबंधगा सव्वलोगो । चदुण्णं आयुगाणं बंधगा अबंधगा सव्वलोगो । एवं छस्संघ० दोविहा० दोसर० । दोगदि० दोआणु० बंधगा छचोद्दसभागो । अबं० सव्वलोगो । दोगदि० दोआणु० बंधगा अबंधगा सव्वलोगो । चदुगदि-चदुआणु० बंधगा सव्वलोगो । अबंधगा खेत्तभंगो । ओरालियसरीरस्स बंधगा सव्वलोगो । अबंधगा बारह० । वेउव्विय० बंधगा बारह० । अबंधगा सव्वलोगो । दोण्णं बंधगा सव्वलोगो । अबंधगा

कि वैक्रियिक पदसे तीन लोकोंके संख्यातवें भाग तथा मनुष्य लोक और तिर्यग्लोकसे असंख्यातगुणे क्षेत्रका स्पर्श किया है क्योंकि विक्रिया करनेवाले वायुकायिक जीवोंके १/३ भाग स्पर्शन पाया जाता है (खु० बं०, टी० पृ० ४२२) ।

अबन्धकोंका १/३ भाग है ।

विशेष—मारणान्तिक पद परिणत मिथ्यात्वके अबन्धक सासादन सम्यक्त्वी जीवोंने १/३ भाग स्पर्श किया, कारण नारकियोंके ५ राजू तथा तिर्यचोंके ७ राजू इस प्रकार १२ राजू बाह्यवाला राजू प्रतर प्रमाण स्पर्शन क्षेत्र है (२७७) ।

अप्रत्याख्यानावरण ४ के बन्धकोंका सर्वलोक है ; अबन्धकोंका १/३ है ।

विशेष—मारणान्तिक पद परिणत संयतासंयतोंने १/३ स्पर्श किया है, कारण अच्युत कल्पके ऊपर संयतासंयत तिर्यचोंके गमनका अभाव है (२७८) ।

ऋग्वेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेदके पृथक्-पृथक् रूपसे बन्धकों और अबन्धकोंका सर्वलोक स्पर्शन है । तीनों वेदोंके बन्धकोंका सर्वलोक है ; अबन्धक नहीं है । हास्यादि चारके पृथक्-पृथक् रूपसे बन्धकों, अबन्धकोंका इसी प्रकार है । दोनों युगल्लोक बन्धकों, अबन्धकोंका क्षेत्रके समान भंग है । इसी प्रकार पाँच जाति, ६ संस्थान, त्रस-स्थावरादि ८ युगल तथा २ आयुमें जानना चाहिए । आहारकद्विक तथा तीर्थकरका क्षेत्रवत् भंग है ; अबन्धकोंके सर्वलोक है । तिर्यचायुके बन्धकों, अबन्धकोंका सर्वलोक है । मनुष्यायुके बन्धकोंका लोकका असंख्यातवाँ भाग है वा सर्वलोक है । अबन्धकोंका सर्वलोक है । चारों आयुके बन्धकों, अबन्धकोंका सर्वलोक है । छह संहनन, दो विहायोगति, दो स्वर, इसी प्रकार है । दो गति, दो आनुपूर्वीके बन्धकोंका १/३ भाग है ; अबन्धकोंका सर्वलोक है । दो गति, २ आनुपूर्वीके बन्धकों, अबन्धकोंका सर्वलोक है । चार गति, चार आनुपूर्वीके बन्धकोंका सर्वलोक है ; अबन्धकोंका क्षेत्रके समान भंग है । औदारिक शरीरके बन्धकोंका सर्वलोक है । अबन्धकोंका १/३ है । वैक्रियिक शरीरके बन्धकोंका १/३ है । अबन्धकोंका सर्वलोक है । दोनोंके बन्धकोंका सर्वलोक है । अब-

१. "सासणसम्मादिट्ठीहे केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो । बारह चोद्दसभागा वा देसुणा ।" — षट्खं०, फो० सू० ११२, ११३ । २. "णउंसयवेसेसु असंजदसम्मादिट्ठि-संजदासंजदेहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो, छचोद्दसभागा देसुणा ।" — सू० ११५ ।

खेत्तभंगो । ओरालिय-अंगोवंगं बंधगा, अबंधगा सब्वलोगो । वेउच्चिय-अंगोवंगं, बंधगा वारहभागो, अबंधगा सब्वलोगो । दोण्णं बंधगा अबंधगा सब्वलोगो । परधादुस्सासं आदावुज्जोवं बंधगा अबंधगा सब्वलोगो । एवं णीचुच्चागोदारणं । अवगदवेदे खेत्त-भंगो । एवं अकसाइ० केवल्लिणा० संज० सामाइ० छेदो० परिहा० सुहुमं प० (सुहुम-संप०) यथाक्खाद० केवल्लदंसण ति । कोधादि०४ ओघभंगो । णवरि धुविगाणं बंधगा सब्वलोगो । अबंधगा णत्थि । यं हि अबंधगा अत्थि तं हि लोगस्स असंखेज्जदिभागो ।

बन्धकोंका क्षेत्रके समान है । औदारिक अंगोपांगके बन्धकों और अबन्धकोंका सर्वलोक है । वैक्रियिक अंगोपांगके बन्धकोंका ३ है ; अबन्धकोंका सर्वलोक है । दोनोंके बन्धकों, अबन्धकोंका सर्वलोक है । परधात, उच्छ्वास, आतप, उद्योतके बन्धकों, अबन्धकोंका सर्वलोक है । इसी प्रकार नीच गोत्र, उच्च गोत्रका है ।

अपगतवेदमें क्षेत्रके समान भंग है ।

विशेषार्थ—अपगतवेदी जीवोंने स्वस्थान पदोंसे लोकका असंख्यातवाँ भाग स्पर्श किया है । दण्ड, कपाट वा मारणान्तिक समुद्घातोंको प्राप्त अपगत वेदियों-द्वारा चार लोकोंका असंख्यातवाँ भाग, अढ़ाई द्वीपसे असंख्यातगुणा क्षेत्र अतीत और वर्तमानकालकी अपेक्षा स्पृष्ट है । विशेष, कपाट समुद्रातगत अपगतवेदियों-द्वारा तिर्यग्लोकका संख्यातवाँ भाग अथवा संख्यातगुणा (तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागो संखेज्जगुणो वा फोसिदो) क्षेत्र स्पृष्ट है । प्रतर समुद्घातकी अपेक्षा लोकका असंख्यात बहुभाग तथा लोकपूरण समुद्घात अपगत वेदियोंकी अपेक्षा सर्वलोक स्पृष्ट है । इनमें उपपाद पदका अभाव है । (खु० बं०, टीका, पृ० ४२३-४२५) ।

अकषाय, केवलज्ञान, संयम, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्म-साम्पराय, यथाख्यात, केवलदर्शनमें इसी प्रकार है ।

विशेषार्थ—पर्यायार्थिकनयका अवलम्बन करनेपर संयत जीव अकषायी जीवोंके तुल्य नहीं है । क्योंकि अकषायी जीवोंमें अविद्यमान वैक्रियिक-तैजस और आहारक समुद्घात पद संयतोंमें पाये जाते हैं ।

पर्यायार्थिकनयका अवलम्बन करनेपर सामायिक-छेदोपस्थापना शुद्धिसंयत जीव मनःपर्ययज्ञानियोंके तुल्य होते हैं, क्योंकि मनःपर्ययज्ञानियोंमें तैजस तथा आहारक समुद्घातपदोंका अभाव है, किन्तु सूक्ष्मसाम्परायी मनःपर्ययज्ञानियोंके तुल्य नहीं होते । सूक्ष्म साम्पराय संयमियोंमें वैक्रियिक पदका अभाव है । (खु० बं०, टीका, पृ० ४३१-४३२) ।

क्रोधादि ४ कषायमें-ओघके समान भंग है । विशेष, ध्रुव प्रकृतियोंके बन्धकोंका सर्वलोक है; अबन्धक नहीं है । जहाँ अबन्धक है वहाँ लोकका असंख्यातवाँ भाग स्पर्शन है ।

१. "अपगतवेदएसु अणियट्टिप्पहुडि जाव अजोगिकेत्थिल्लिं ओघं । सजोगिकेवली ओघं ।"—पट्ठ०, फो०, सू० ११८, ११९ । अवगदवेदा सत्थाणेहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो । समुग्घाद-गदेहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो । असंखेज्जा वा भागा । सब्वलोगो वा । उववादे णत्थि । अकसाई अवगदवेदभंगो । केवलणाणो अवगदवेदभंगो । संजमाणुवादेण संजदा जहाक्खादविहारमुद्धि-संजदा अकसाइभंगो । सामाइयच्छेदोवट्टावणमुद्धिसंजद-मुहुमसांपराइयसंजदाणं मणपज्जवणाणिभंगो । केवल-दंसणो केवलणाणिभंगो —खु० बं०, सू० ।

२०८. मदि० सुद०—धुविगाणं बंधगा सव्वलोगो । अबंधगा णत्थि । सादा-साद-बंधगा अबंधगा सव्वलोगो । दोण्णं बंधगा सव्वलोगो । अबंधगा णत्थि । एवं तिण्णिवे० हस्सादि-दोयुगलं पंचजादि-छस्संठा० तसथावरादिणवयुगलं दोमोदाणं च । मिच्छत्तं बंधगा सव्वलोगो । अबं० अट्टवारह० । दो-आयुबंधगा खेत्तभंगो । अबंधगा सव्वलोगो तिरिक्खायुबंधगा अबं० सव्वलोगो । मणुसायु-बंधगा अट्टवारह० सव्वलोगो । अबंधगा सव्वलोगो । चदुआयुबंधं० अबं० सव्वलोगो । एवं छस्संघ० दोविहा० दोसर० । णिरयगदि-णिरयाणु० बंधगा छच्चोदस० । अबं० सव्वलोगो । दोमदि० दोआणु० बंधं० अबं० सव्वलोगो । देवगदि-देवगदिपाओ० बंधगा पंच-चोदस० । अबं० सव्व-लोगो । चदुगदि-चदुआणु० बंधगा सव्वलोगो । अबंधगा णत्थि । ओरालि० बंधगा सव्वलोगो । अबंधगा एक्कारहभागो । वेउव्वियाणु० (?) (वेउच्चिय) बंधगा एक्कार-हभागो । अबंधगा सव्वलोगो । दोण्णं बंधगा सव्वलोगो । अबंधगा णत्थि । ओरालिय०

२०८. मत्यज्ञानी श्रुताज्ञानीमें—ध्रुव प्रकृतियोंके बन्धकोंका सर्वलोक है; अबन्धक नहीं हैं। साता, असाताके^१ बन्धकों, अबन्धकोंका सर्वलोक है। दोनोंके बन्धकोंका सर्वलोक है; अबन्धक नहीं हैं। तीन वेद, हास्यादि दो युगल, ५ जाति, ६ संस्थान, त्रस-स्थावरादि नव युगल तथा २ गोत्रोंमें इसी प्रकार है। मिथ्यात्वके बन्धकोंका सर्वलोक है; अबन्धकोंका १/३, १/३ है।

विशेष—मिथ्यात्वके अबन्धक सासादन सम्यक्त्वी जीवोंकी अपेक्षा विहारवत्-स्वस्थान, वेदना, कषाय, वैक्रियिक पदोंमें १/३ भाग है। मारणान्तिककी अपेक्षा १/३ भाग है। (पृ० २८२)।

देव-नरकायुके बन्धकोंका क्षेत्रके समान भंग है; अबन्धकोंका सर्वलोक है। तिर्यचायुके बन्धकों, अबन्धकोंका सर्वलोक है। मनुष्यायुके बन्धकोंका १/३, १/३ वा सर्वलोक है; अब-बन्धकोंका सर्वलोक है। चार आयुके बन्धकों, अबन्धकोंका सर्वलोक है। छह संहनन, दो विहायोगति, दो स्वरमें इसी प्रकार है। नरकगति, नरकानुपूर्वोंके बन्धकोंके १/३ है। अब-न्धकोंके सर्वलोक है। मनुष्यगति-तिर्यवगति, मनुष्यानुपूर्वी, तिर्यचानुपूर्वोंके बन्धकों, अब-न्धकोंका सर्वलोक है।

विशेषार्थ—खुदाबन्धकी टीकामें लिखा है—स्वस्थान-स्वस्थान वेदना, कषाय, मार-णान्तिक समुद्रात तथा उपपाद पदोंसे अतीत व वर्तमानकालकी अपेक्षा मति-श्रुत-अज्ञानी जीवोंने सर्वलोक स्पर्श किया है; क्योंकि ऐसा स्वभावसे है। विहारवत् स्वस्थानपदसे अतीत व वर्तमानकालकी अपेक्षा यथाक्रमसे १/३ भाग व तिर्यग्लोकके संख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। वैक्रियिक पदकी अपेक्षा वर्तमानकी प्ररूपणा क्षेत्रके समान है। अतीतकालकी अपेक्षा १/३ भाग स्पृष्ट है (पृ० ४२६)।

देवगति, देवगत्यानुपूर्वोंके बन्धकोंका १/३, अबन्धकोंके सर्वलोक है। ४ गति, ४ आनु-पूर्वोंके बन्धकोंका सर्वलोक है; अबन्धक नहीं हैं।

१. णाणाणुवादेण मदिअणाणी सुदअणाणी सथाण-समुग्घादउक्वादेहि केवडियं खेतं फोसिदं? सव्वलोगो वा ।
-खु. बं.०, सू० १४६-१५०

अंगोवंगं बंधगा, अबंधगा सव्वलोगो । वेगुव्वियं अंगोवंगं बंधगा [अबंधगा] वेगुव्वियं भंगो । दोण्णं बंधगा अवं सव्वलोगो ।

२०६. एवं अब्भवसिद्धिं मिच्छादिट्ठिम्हि [वि] भंगे धुविगाणं बंधगा अट्टतेरहभागो, सव्वलोगो वा । अबंधगा णत्थि । सादासादं बंधगा अबंधगा अट्टतेरहभागो, सव्वलोगो वा । दोण्णं बंधगा अट्टतेरहभागो, सव्वलोगो वा । अबंधगा णत्थि । एवं चदुणो ०४ (?) थिराथिर-सुभासुभाणं । मिच्छत्त-बंधगा अट्टतेरहं सव्वलोगो वा । अबंधगा अट्टवारहभागो । इत्थिं पुरिसं बंधगा अट्टवारह-चोदसं । अवं अट्टतेरहं सव्वलोगो वा । णवुंसं बंधगा अट्टतेरहं सव्वलो । अबंधगा अट्टवारहं । तिण्णं वेदाणं बंधगा अट्टतेरहं सव्वलोगो वा । अबंधगा णत्थि । इत्थिवेदभंगो पविंदिय-जादि पंचसंठां छस्संघं तससुभगं आदेज्जं । णवुंसगभंगो एइंदिय-हुंडसंठां थावरदुभग-अणादेज्जाणं । णवरि एइंदिय-थावर-बंधगा अट्टणवं सव्वलोगो वा । अबंधगा अट्टवारहभागो । पत्तेगेण साधारणेण वेदभंगो । दोआयुं तिण्णिजादि-बंधगा खेत्तभंगो । अबंधगा अट्टतेरहं सव्वलोगो वा । दोआयुं मणुसगदिं मणुसाणुं आदावं उच्चा-

औदारिक शरीरके बन्धकोंका सर्वलोक है; अबन्धकोंका $\frac{1}{3}$ है । वैक्रियिक शरीरके बन्धकोंका $\frac{2}{3}$ है; अबन्धकोंका सर्वलोक है ।

विशेष—उपपादकी अपेक्षा नीचेके ५ राजू तथा ऊपरके छह राजू इस प्रकार $\frac{1}{3}$ भाग स्पर्शन है । (२८२) ।

दोनों शरीरके बन्धकोंका सर्वलोक है; अबन्धक नहीं हैं । औदारिक अंगोपांगके बन्धकों, अबन्धकोंका सर्वलोक है । वैक्रियिक अंगोपांगके बन्धकों [अबन्धकों] का वैक्रियिक शरीरके समान है अर्थात् बन्धकोंका $\frac{1}{3}$, अबन्धकोंका सर्वलोक भंग है । दोनों के बन्धकों, अबन्धकोंका सर्वलोक है ।

२०६. अभव्यसिद्धिको में और मिथ्यादृष्टियों में इसी प्रकार है ।

विभंगज्ञानमें—ध्रुव प्रकृतियों के बन्धकोंका $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{3}$ वा सर्वलोक है; अबन्धक नहीं है ।

विशेष—मेरुतलसे ऊपर ६ राजू तथा नीचे २ राजू इस प्रकार $\frac{1}{3}$ है तथा मेरुतलसे ऊपर ७ राजू तथा नीचे ६ राजू इस प्रकार $\frac{2}{3}$ भाग है ।

साता-असाताके बन्धकों, अबन्धकोंका $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{3}$ वा सर्वलोक है । दोनों के बन्धकोंका $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{3}$ वा सर्वलोक है; अबन्धक नहीं हैं । हास्य, रति, अरति, शोक ये ४ नोकपाय, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभमें इसी प्रकार है । मिथ्यात्वके बन्धकोंका $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{3}$ वा सर्वलोक है; अबन्धकोंका $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{3}$ है । स्त्रीवेद-पुरुषवेदके बन्धकोंका $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{3}$ है; अबन्धकोंका $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{3}$ वा सर्वलोक है । नपुंसकवेदके बन्धकोंका $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{3}$ वा सर्वलोक है; अबन्धकोंका $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{3}$ है । तीनों वेदों के बन्धकोंका $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{3}$ वा सर्वलोक है; अबन्धक नहीं हैं । पंचेन्द्रिय जाति, ५ संस्थान, ६ संहनन, त्रस, सुभग, आदेयमें स्त्रीवेदका भंग है । एकेन्द्रिय हुंडक संस्थान, स्थावर, दुर्भग तथा अनादेयमें नपुंसकवेदका भंग है । विशेष, एकेन्द्रिय, स्थावरके बन्धकोंके $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{3}$ वा सर्वलोक है; अबन्धकोंके $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{3}$ है । प्रत्येक तथा सामान्यसे वेदके समान भंग है । दो आयु, तीन जातिके बन्धकोंका क्षेत्रके समान भंग है; अबन्धकोंका $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{3}$ वा सर्वलोक है ।

गोदं बंधगा अडुचोदसभागो । अबंधगा अडुतेरह० सव्वलोगो वा । णिरयगदिबंधगा छचोदसभागो । अबंधगा अडुतेरह० सव्वलोगो वा । तिरिक्खगदि० णीच० बंधगा अडुतेरह० सव्वलोगो वा । अबंधगा अडुकारस० । णवरि णीचा० अडुभागो । देवगदि-बंधगा पंचचोदस० । अबंधगा अडुतेरह० सव्वलोगो वा । चदुण्णं गदीणं बंधगा अडु-तेरहभागो, सव्वलोगो वा । अबंधगा णत्थि । एवं चेव आणुपुट्ठि-णीचुच्चागो० । ओरालिय-सरीरं बंधगा अडुतेरहभागो सव्वलोगो वा । अबंधगा एकारहभागो । वेउत्ठिय-बंधगा एकारह० । अबंधगा अडुतेरहभागो [सव्वलोगो वा] । दोण्णं वे० (वं०) अडुतेरह० सव्वलो० । अबंधगा णत्थि । ओरालि० अंगो० बंधगा अडुवारह० । अबंधगा अडुतेरह० सव्वलो० । वेउत्ठिय० अंगो० बंधगा एकारह० । अबंधगा अडुतेरह० सव्वलो० । दोण्णं बंधगा अडुवारह० । अबंधगा अडुणवचो० सव्वलोगो वा । परघादुस्सा० बंधगा अडुतेरह० सव्वलोगो वा । अबंधगा लोगस्स असंखेज्जदिभागो, सव्वलोगो वा । उज्जोव-बंधगा अडुतेरहभागो, अबंधगा अडुतेरहभागो सव्वलोगो वा । एवं जसगिति० पसत्थविहायगदिं बंधगा अडुवारहभागो । अबंधगा अडुतेरह० सव्वलो० । अप्पसत्थवि० बंधगा अडुवारह० । अबंधगा अडुतेरह० सव्वलोगो वा । दोण्णं बंधगा अडुवारह० । अबं० अडुणवचोदसभागो, सव्वलोगो वा । एवं दोसर० वादरबंधगा अडुतेरह० । अबंधगा लोगस्स असंखेज्जदिभागो, सव्वलोगो वा । तत्ठिवरीदं सुहुमं । दोण्णं बंध०

दो आयु, मनुष्यगति, मनुष्यानुपूर्वी, आतप तथा उच्चगोत्रके बन्धकोंके ५३ है; अबन्धकोंके ५३, ५३ वा सर्वलोक है । नरकगतिके बन्धकोंके ५३ है; अबन्धकोंके ५३, ५३ वा सर्वलोक है । तिर्यच गति, नीच गोत्रके बन्धकोंके ५३, ५३ वा सर्वलोक है; अबन्धकोंके ५३, ५३ है । विशेष, नीच गोत्रका ५३ है । देवगतिके बन्धकोंके ५३ है; अबन्धकोंके ५३, ५३ वा सर्वलोक है । चारों गतियोंके बन्धकोंके ५३, ५३ वा सर्वलोक है; अबन्धक नहीं हैं । इसी प्रकार आनु-पूर्वियों तथा नीच, उच्च गोत्रोंमें जानना चाहिए ।

औदारिक शरीरके बन्धकोंका ५३, ५३ वा सर्वलोक है; अबन्धकोंका ५३ है । वैक्रियिक शरीरके बन्धकोंका ५३ है; अबन्धकोंके ५३, ५३ वा सर्वलोक है । दोनोंके बन्धकोंके ५३, ५३ वा सर्वलोक है; अबन्धक नहीं है । औदारिक अंगोपांगके बन्धकोंका ५३, ५३ है; अबन्धकोंके ५३, ५३ वा सर्वलोक है । वैक्रियिक अंगोपांगके बन्धकोंका ५३; अबन्धकोंके ५३, ५३ वा सर्वलोक है । दोनों अंगोपांगोंके बन्धकोंका ५३, ५३ है; अबन्धकोंके ५३, ५३ वा सर्वलोक है । परघात, उच्छ्वासके बन्धकोंका ५३, ५३ वा सर्वलोक है; अबन्धकोंके लोकका असंख्यातवाँ भाग वा सर्वलोक है । उद्योतके बन्धकोंका ५३, ५३ है; अबन्धकोंके ५३, ५३ वा सर्वलोक है । यशःकीर्तिमें इसी प्रकार जानना चाहिए ।

प्रशस्त विहायोगतिके बन्धकोंके ५३, ५३ है; अबन्धकोंके ५३, ५३ वा सर्वलोक है । अप्रशस्त-विहायोगतिके बन्धकोंके ५३, ५३ है; अबन्धकोंके ५३, ५३ वा सर्वलोक है । दोनोंके बन्धकोंके ५३, ५३ है; अबन्धकोंके ५३, ५३ वा सर्वलोक है । इसी प्रकार दो स्वरके विषयमें जानना चाहिए । वादरके बन्धकोंके ५३, ५३ है; अबन्धकोंके लोकका असंख्यातवाँ भाग वा

अद्वुतेरह० सव्वलोगो वा । अवं० णत्थि । पज्जत० पत्तेग० बंधगा अद्वुतेरह० सव्वलोगो वा । अवं० लोगस्स असंखेज्जदिभागो सव्वलोगो वा । तव्विवरीदं अपज्ज० साधारण० । दोण्णं बंधगा अद्वुतेरह० सव्वलोगो वा । अवंधगा णत्थि । अज्जस० बंधगा अद्वुतेरह० सव्वलो० । अवं० अद्वुतेरह० । दोण्णं बंधगा अद्वुतेरह० सव्वलोगो वा । अवंधगा णत्थि ।

२१०. आभि० सुद० ओधि०—पंचणा० ल्दंस० अट्टकसा० पुरिस० भयदु० पंचिदि० तेजाक० समचदु० वण्ण०४ अगु०४ पसत्थ० तस०४ सुभगादि-तिण्णि णिभिण-उच्चागोदं पंचंतराइगाणं बंधगा अट्टचो० । अवं० खेत्तभंगो ।

सर्वलोक है । सूक्ष्मके विषयमें विपरीत क्रम है अर्थात् बन्धकोंके लोकका असंख्यातवाँ भाग वा सर्वलोक है; अबन्धकोंका $\frac{1}{4}$, वा $\frac{1}{3}$ है । दोनोंके बन्धकोंका $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{3}$ वा सर्वलोक है; अबन्धक नहीं हैं । पर्याप्त प्रत्येकके बन्धकोंका $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{3}$ वा सर्वलोक है; अबन्धकोंमें लोकका असंख्यातवाँ भाग वा सर्वलोक है । अपर्याप्त तथा साधारणमें इसके विपरीत क्रम है अर्थात् बन्धकोंके लोकका असंख्यातवाँ भाग वा सर्वलोक है; अबन्धकोंके $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{3}$ वा सर्वलोक है । दोनोंके बन्धकोंका $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{3}$ वा सर्वलोक है । अबन्धक नहीं है । अयशःकीर्तिके बन्धकोंका $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{3}$ वा सर्वलोक है; अबन्धकोंका $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{3}$ है । दोनोंके बन्धकोंका $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{3}$ वा सर्वलोक है । अबन्धक नहीं हैं ।

विशेषार्थ—खुदाबन्धमें विभंगज्ञानीके सम्बन्धमें इस प्रकार लिखा है — विभंगज्ञानी जीवोंने स्वस्थान पदोंसे-लोकका असंख्यातवाँ भाग स्पर्श किया है । अतीत कालकी अपेक्षा उनने देशोन $\frac{1}{4}$ भाग स्पर्श किया है । स्वस्थान पदोंसे विभंगज्ञानी जीवोंने तीन लोकोंका असंख्यातवाँ भाग, तिर्यग्लोकका संख्यातवाँ भाग और अढ़ाई द्वीपसे असंख्यातवाँ गुणा क्षेत्र स्पर्श किया है । विहारवत् स्वस्थानकी अपेक्षा देशोन $\frac{1}{4}$ भाग स्पर्श किया है । समुद्रघातकी अपेक्षा विभंगज्ञानी जीवोंने लोकका असंख्यातवाँ भाग स्पर्श किया है । अतीत कालकी अपेक्षा उनने देशोन $\frac{1}{4}$ भाग स्पर्श किया है । विहार करनेवाले विभंगज्ञानियोंने वेदना कषाय और वैक्रियिक समुद्रघात पदोंसे देशोन $\frac{1}{4}$ भाग स्पर्श किया है । मारणान्तिक पदका आश्रय कर सर्वलोक स्पर्श किया है, क्योंकि विभंगज्ञानी तिर्यच और मनुष्योंके मारणान्तिक समुद्रघातकी अपेक्षा अतीत कालमें सर्वलोक स्पर्श पाया जाता है । देव तथा नारकियोंके मारणान्तिक समुद्रघातका आश्रय कर $\frac{1}{3}$ भाग होते हैं । इनके उपपाद पदका अभाव है ।

२१०. आभिनिबोधिक-श्रुत-अवधिज्ञानियोंमें—५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, ८ कषाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, पंचेन्द्रिय, तैजस-कर्मण, समचतुरस्रसंस्थान, वर्ण ४, अगुरुलघु ४, प्रशस्त-विहायोगति, त्रस ४, सुभगादि ३, निर्माण, उच्चगोत्र, ५ अन्तरायके बन्धकोंके $\frac{1}{4}$, अबन्धकोंमें क्षेत्रके समान भंग है । अर्थात् लोकका असंख्यातवाँ भाग है ।

विशेष—अतीत कालकी अपेक्षा विहारवत् स्वस्थान, वेदना, कषाय, वैक्रियिक तथा मारणान्तिक समुद्रघातगत सम्यक्जीवोंने $\frac{1}{4}$ भाग स्पर्शन किया, जो कि मेरुके मूलसे ६ राजू ऊपर तथा नीचे दो राजू प्रमाण है । (१६७)

१. विभंगणाणी सत्याणेहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो । अट्टचोदसभागा देसुणा । समुद्रादेण केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो । अट्टचोदसभागा देसुणा फोसिदा । सर्वलोगो वा । उववादं णत्थि । — खुदा बंधू, सू० १५१-१५८ । २. संजदासंजदेहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो । — षट्खं०, फो०, सू० ७ ।

सादासाद-बंधगा अबंधगा अट्टचोद्दस० । दोण्णं बंधगा अट्टचोद्दस० । अबं० णत्थि । अप्पच्चक्खाणा०४ वज्जरिसह० बंधगा अट्टचो० । अबं० छचोद्दस० । हस्सरदि-अरदि-सोगाणं बंधगा अबंधगा अट्टचोद्दस० । दोण्णं युगलानं बंधगा अट्टचो० । अबं० खेत्तभंगो । एवं थिराथिर-सुभासुभ-जसअजसगित्तीणं । मणुसायुतित्थयरं बंधा अबंधगा अट्टचोद्दसभागो । देवायु० आहारदुग० बंधगा खेत्तभंगो । अबं० अट्टचो० । दोण्णं आयुगाणं बंधा अबंधगा अट्टचोद्दस० । मणुसगदि०४ बंधगा अट्टचोद्दस० । अबं० छचोद्दस० । देवगदि०४ बंधगा छचोद्दस० । अबं० अट्टचोद्दस० । दोण्णं बं० अट्टचोद्दसभागो । अबंधगा खेत्तभंगो । एवं दोसरी० दोअंगो० आणु० । एवं ओधिदं० ।

साता-असाताके बन्धकों, अबन्धकोंका षष्ठ है। दोनोंके बन्धकोंका षष्ठ है; अबन्धक नहीं हैं। अप्रत्याख्यानावरण ४, ब्रह्मवृषभसंहननके बन्धकोंका षष्ठ, अबन्धकोंका षष्ठ है।

विशेष—मारणान्तिकसमुद्घातगतसंयतासंयतोंने अच्युतकल्प पर्यन्त षष्ठ भाग स्पर्श किया है।

हास्य-रति, अरति-शोकके बन्धकों, अबन्धकोंका षष्ठ है। दोनों युगलोंने बन्धकोंका षष्ठ है। अबन्धकोंका क्षेत्रके समान भंग है अर्थात् लोकका असंख्यातवाँ भाग है। इस प्रकार स्थिर-अस्थिर, शुभ-अशुभ, यशःकीर्ति-अयशःकीर्तिमें भी जानना चाहिए। मनुष्यायु तथा तीर्थंकरके बन्धकों, अबन्धकोंके षष्ठ है।^२ देवायु तथा आहारकद्विकके बन्धकोंका क्षेत्रवत् भंग है अर्थात् लोकके असंख्यातवाँ भाग है; अबन्धकोंके षष्ठ है।

दो आयुके बन्धकों, अबन्धकोंका षष्ठ है। मनुष्यगति ४ के बन्धकोंका षष्ठ है। अबन्धकोंका षष्ठ है। देवगति ४ के बन्धकोंका षष्ठ है; अबन्धकोंका षष्ठ है।

विशेष—मनुष्यगति, मनुष्यानुपूर्वी, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांगके अबन्धक देशव्रतीकी अपेक्षा षष्ठ कहा है।

मनुष्यगति, देवगतिके बन्धकोंका षष्ठ है। अबन्धकोंका क्षेत्रके समान लोकका असंख्यातवाँ भाग है। दो शरीर, दो अंगोपांग तथा दो आनुपूर्वीमें इसी प्रकार जानना चाहिए।

अवधिदर्शनमें - ऐसा ही जानना चाहिए।

विशेषार्थ—आभिनिबोधक ज्ञानी, श्रुतज्ञानी तथा अवधिज्ञानी जीवोंने स्वस्थान और समुद्घात पदोंसे वर्तमान कालकी अपेक्षा लोकका असंख्यातवाँ भाग स्पर्श किया है। अतीत कालकी अपेक्षा देशोन षष्ठ भाग स्पर्श किया है। उक्त तीन ज्ञानवाले जीवोंने स्वस्थान पदोंसे तीन लोकोंका असंख्यातवाँ भाग, तिर्यग्लोकका संख्यातवाँ भाग तथा अट्टाई द्वीपसे असंख्यात गुणे क्षेत्रका स्पर्श किया है। तैजस और आहारक समुद्घातकी अपेक्षा क्षेत्रके समान निरूपण है। विहारवत् स्वस्थान, वेदना, कषाय, वैक्रियिक और मारणान्तिक समुद्घात पदोंसे देशोन षष्ठ भाग स्पर्श किया है।

१. पमत्तसंजदपहुडि जाव अजोगिकेवलीहि केवडियं खेतं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो ।
-षट्खं०, फो०, सू० ९ । २. असंजदसम्माइट्ठीहि केवडियं खेतं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो ।
अट्टचोद्दसभागो वा देसुणा -सू० ५-६ ।

मणयज्ञ० संजद० साता० छेरो० परिहार० सुहुमसंप० खेत्तभंगो ।

२११. संजदासंजद—ध्रुविगणं बंधगा छच्चोद्दस० । अबंधगा णत्थि । सादासाद-बंधा अबंधगा छच्चोद्दस० । दोष्णं पगदीणं बंधगा छच्चोद्दसभागो । अबंधगा णत्थि । एवं चटुणोको० थिरादि-तिष्णियुगल० । देवायु-तिथयरं बंधगा खेत्तभंगो । अबं० छच्चोद्दसभागो । असंजदेसु—ध्रुविगणं बंधगा सव्वलोगो । अबंधगा णत्थि । थोणगिद्धितियं अगंताणुबंधं० बंधगा सव्वलो० । अबंधगा अट्टचोद्दस० । मिच्छत्त-

उपपाद पदसे लोकका असंख्यातवाँ भाग तथा अतीत कालकी अपेक्षा कुछ कम ऋई भाग स्पर्श किया है । आरण, अच्युत आदिके देवोंमें उत्पन्न होनेवाले तिर्यंच असंयत सम्यग्दृष्टि और संयतासंयत जीवोंका उपपाद क्षेत्र देशोंन ऋई भाग है ।

शंका—मीचे दो राजू मात्र मार्ग जाकर स्थित अवस्थामें आयुके क्षीण होनेपर मनुष्यमें उत्पन्न होनेवाले देवोंका उपपाद क्षेत्र क्यों नहीं ग्रहण किया ?

समाधान—नहीं, क्योंकि प्रथम दण्डसे कम उसका $\frac{1}{4}$ भागमें ही अन्तर्भाव हो जाता है तथा मूल शरीरमें जीव प्रदेशोंके प्रवेश बिना उस अवस्थामें उनके मरणका अभाव भी है । (खु० बं०, टी० पृ० ४२८-४३०)^१

^३मनःपर्ययज्ञानी, संयम, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्मसाम्परायमें-क्षेत्रके समान लोकका असंख्यातवाँ भाग है ।

विशेष—संयम, सामायिक छेदोपस्थापना तथा सूक्ष्मसाम्परायका वर्णन पहले अपगत-वेदके साथ आ चुका है । यहाँ पुनः उनका कथन चिन्तनीय है ।

२११. संयतासंयतोमें - ध्रुव प्रकृतियोंके बन्धकोंका $\frac{1}{4}$ है; अवन्धक नहीं है । साता-असाताके बन्धकों, अवन्धकोंका $\frac{1}{4}$ है । दोनों प्रकृतियोंके बन्धकोंका $\frac{1}{4}$ है; अवन्धक नहीं है । हास्य-रति, अरति-शोक तथा स्थिरादि तीन युगलोंमें इसी प्रकार जानना चाहिए । देवायु तथा तीर्थंकर प्रकृतिके बन्धकोंका क्षेत्रके समान है; अवन्धकोंका $\frac{1}{4}$ है ।

विशेषार्थ—संयतासंयत जीवोंने स्वस्थान पदोंसे लोकका असंख्यातवाँ भाग स्पर्श किया है । धवला टीकामें लिखा है कि वर्तमान कालकी अपेक्षा स्पर्शनका निरूपण क्षेत्र प्ररूपणाके समान है । अतीत कालमें तीन लोकोंके असंख्यातवें भाग, तिर्यंग्लोकके संख्यातवें भाग, और अढ़ाई द्वीपसे असंख्यात गुणे क्षेत्रका स्पर्श किया है ।

शंका—त्रिहारवन् स्वस्थान पदकी अपेक्षा उपर्युक्त स्पर्शनका प्रमाण भले ही ठीक हो, क्योंकि वैरी देवोंके सम्बन्धसे अतीत कालमें सर्वद्वीप, समुद्रोंमें संयतासंयत जीवोंकी सम्भावना है, किन्तु स्वस्थान पदकी अपेक्षा उक्त स्पर्शन नहीं बनता । कारण स्वस्थानमें स्थित संयतासंयत जीवोंका सर्वद्वीप समुद्रोंमें अभाव है ।

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि यद्यपि सर्वत्र संयतासंयत जीव नहीं हैं, तथापि तिर्यंग्लोकके संख्यातवें भाग प्रमाण स्वयंप्रभ पर्वतके पर भागमें स्वस्थान स्थित

१. आभिणित्रोद्दिह्य - सुद ओद्दिणाणी सत्याणसमुग्गादेहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्ज-दिभागो । अट्टचोद्दसभागा देसूणा । उववादेहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो । छच्चोद्दस-भागा देसूणा । -खु० बं०, सूत्र १५६-१६४ । २. मणयज्ञवणाणी सत्याणसमुग्गादेहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो । उववादं णत्थि । -खु० बं०, १६५-१६६ । ३. पमत्तसंजदप्पहृडि जाव अजोगिकेवलीहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो । -पट्खं०, फो०, सू० ८ ।

बंधगा सव्वलोगो । अवं० अट्ठवारह० । वेउव्विय-छक्कं आयुचदुक्कं तिस्थयरं च ओषं । सेसं मदि-अण्णाणिभंगो । चक्खुदं० तस-पज्जत्त-भंगो । णवरि केवल्लिभंगो णत्थि । अचक्खुदं० ओषं । णवरि केवल्लिभंगो णत्थि ।

संयतासंयत पाये जाते हैं ।

समुद्घातोंकी अपेक्षा संयतासंयतोने लोकका असंख्यातवाँ भाग स्पर्श किया है । अतीत कालकी अपेक्षा देशोन् ६४ भाग स्पर्श किया है । वेदना, कषाय और वैक्रियिक समुद्घात पदोंसे तीन लोकोंके असंख्यातवें भाग, तिर्यग्लोकके संख्यातवें भाग और अढ़ाई द्वीपसे असंख्यात गुणे क्षेत्रको स्पर्श किया है । मारणान्तिक समुद्घातसे देशोन् ६४ भागोंका स्पर्श किया है, क्योंकि तिर्यग्घोमेंसे अच्युत कल्प तक मारणान्तिक समुद्घातको करनेवाले संयता-संयत जीवोंके उपर्युक्त स्पर्शन पाया जाता है । संयतासंयत गुणस्थानके साथ उपपादका विरोध होनेसे यहाँ उपपाद पद नहीं होता ।

असंयतोमें—ध्रुव प्रकृतियोंके बन्धकोंका सर्वलोक है; अचन्द्रक नहीं है । स्थानगुद्धि-त्रिक, अनन्तानुबन्धी ४ के बन्धकोंका सर्वलोक है । अचन्द्रकोंका ६४ है । मिथ्यात्वके बन्धकोंका सर्वलोक है; अचन्द्रकोंका ६४, १३ है । वैक्रियिकषट्क, आयु ४ तथा तीर्थकरका ओषवत् भंग है । शेष प्रकृतियोंका मत्स्यज्ञानके समान भंग है । चक्षुदर्शनमें — त्रस-पर्याप्तके समान भंग है । विशेष, केवली भंग नहीं है । अचक्षुदर्शनमें ओषवत् जानना चाहिए । विशेष, केवली-भंग नहीं है ।

विशेषार्थ—चक्षुदर्शनी जीवोंने स्वस्थान पदोंसे लोकका असंख्यातवाँ भाग स्पर्श किया है । अतीत कालकी अपेक्षा देशोन् ६४ भाग स्पर्श किया है । इन जीवोंने स्वस्थानसे तीन लोकोंके असंख्यातवें भाग, तिर्यग्लोकके संख्यातवें भाग, और अढ़ाई द्वीपसे असंख्यात गुणे क्षेत्रका स्पर्श किया है । विहारवन्स्वस्थानकी अपेक्षा चक्षुदर्शनी जीवोंद्वारा देशोन् ६४ भाग स्पृष्ट है । क्योंकि आठ राजू बाहल्यसे युक्त राजूप्रतरके भीतर चक्षुदर्शनी जीवोंके विहारका कोई विरोध नहीं है ।

चक्षुदर्शनी जीवोंद्वारा समुद्घात पदोंसे लोकका असंख्यातवाँ भाग स्पृष्ट है । अतीत कालकी अपेक्षा देशोन् ६४ भाग स्पृष्ट है, क्योंकि विहार करनेवाले देवोंमें उत्पन्न वेदना कषाय और वैक्रियिक समुद्घातोंसे स्पर्श किया जानेवाला ६४ भाग प्रमाण क्षेत्र देखा जाता है । मारणान्तिक-समुद्घातकी अपेक्षा स्पर्शन सर्वलोक प्रमाण है, देव व नारकियोंद्वारा मारणान्तिक समुद्घातकी अपेक्षा १३ भाग स्पृष्ट है; क्योंकि लोकनालीके बाहर इनके उत्पादका अभाव होनेसे मारणान्तिक समुद्घातके द्वारा गमन नहीं होता । तिर्यग् व मनुष्योंके द्वारा सर्वलोक स्पृष्ट है; क्योंकि लोकनालीके बाहर और भीतर मारणान्तिक समुद्घातसे उनका गमन पाया जाता है ।

इन चक्षुदर्शनी जीवोंमें उपपाद कथंचित् पाया जाता है, कथंचित् नहीं भी पाया जाता है (उववाद् सिया अत्थि, सिया णत्थि)। चक्षु-इन्द्रियावरणके क्षयोपशम रूप लब्धिकी अपेक्षा उपपाद है, वह अपर्याप्त कालमें भी पाया जाता है । गोलकरूप चक्षुकी निष्पत्तिका

१. संजदासंजदा सत्थाणेहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागे । समुग्घावेहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागे । छचोद्दसभागा वा देसुणा । उववाद् णत्थि । -सु० वं०, सू० १७१-१७६ ।

२१२. किण्व-णील-काउ - ध्रुविगाणं बंधगा सव्वलोगो । अवंधगा णत्थि ।
थीणग्गिद्धिअ अणंताणु०४ बंधगा अवंधगा खेत्तभंगो । मिच्छत्तबंधगा सव्वलोगो ।
अवंधगा पंच-चत्तारि-त्रे-चोद्दसभागो वा । दो आयु-देवगदि-देवाणु० तित्थयर-बंधगा
खेत्तभंगो । अवंधगा सव्वलोगो ।

नाम निवृत्ति है। वह अपर्याप्त कालमें नहीं है। इसलिए - “लद्धि पडुच्च अत्थि, णिव्वत्ति पडुच्च
णत्थि ।” (सू० १८६ खु० बं०) । लद्धि की अपेक्षा उपपाद पदसे लोकका असंख्यातवाँ भाग
स्पष्ट है। यह वर्तमान कालकी अपेक्षासे है। अतीत कालकी अपेक्षा सर्वलोक स्पष्ट है।

चक्षुदर्शनी तिर्यच और मनुष्योंमेंसे चक्षुदर्शनियोंमें उत्पन्न हुए देव व नारकियोंद्वारा
३३ भाग स्पष्ट हैं, क्योंकि लोकनालीके बाहर चक्षुदर्शनी जीवोंका अभाव है, तथा आनतादि
उपरिम देवोंका तिर्यचोंमें उत्पाद भी नहीं है। यह वा शब्दसे सूचित अर्थ है। एकेन्द्रिय
जीवोंमेंसे चक्षु-इन्द्रिय सहित जीवोंमें उत्पन्न हुए जीवोंद्वारा प्रथम समयमें सर्वलोक स्पष्ट है;
क्योंकि वे अनन्त हैं तथा सर्व प्रदेशोंसे उनके आगमनकी सम्भावना भी है। (खु० बं० ५३४-४३७) ।

अचक्षुदर्शनीमें असंयतके समान भंग है। पर्यायार्थिक नयका अवलम्बन करनेपर
अचक्षुदर्शनी जीवोंकी प्ररूपणा असंयत जीवोंके तुल्य नहीं है, क्योंकि अचक्षुदर्शनियोंमें तैजस
तथा आहारक समुद्घात पद पाये जाते हैं।

विशेषार्थ—कृष्णादि लेश्यात्रयमें असंयतोंके समान भंग है। असंयतोंमें नपुंसक वेदके
समान भंग है। नपुंसक वेदमें स्वस्थान, समुद्घात तथा उपपादसे सर्वलोकस्पष्ट है।

२१२. कृष्ण-नील-कापोत लेश्यामें - ध्रुव प्रकृतियोंके बन्धकोंके सर्वलोक है; अबन्धक
नहीं है। स्थानगृद्धित्रिक, अनन्तानुबन्धी ४ के बन्धकों, अबन्धकोंका क्षेत्रके समान भंग है।
मिथ्यात्वके बन्धकोंका सर्वलोक है ३ अबन्धकोंका ३३, ३३, ३३ है।^३

विशेष—मारणान्तिक समुद्घात तथा उपपाद-पद-परिणत छठे नरकके नारकी सासा-
दन गुणस्थानीने कृष्णलेश्यायुक्त हो ३३, नील लेश्यावाले ५वीं पृथ्वीवालोंने ३३ तथा कापोत
लेश्यावाले तीसरी पृथ्वीके नारकी सासादनसम्यक्त्वी जीवोंने ३३ भाग स्पर्श किया है
(पृ० २६१) ।

देवायु, नरकायु, देवगति, देवानुपूर्वी तथा तीर्थकरके बन्धकोंका क्षेत्रके समान लोक-

१. दानाणुवादेण चक्खुदंसणी सत्थाणेहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो । अट्ट-
चोद्दसभागा वा देसूणा । समुग्गादेहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो अट्टचोद्दसभागा
देसूणा । सव्वलोगो वा उववादां सिया अत्थि सिया णत्थि । लद्धि पडुच्च अत्थि, णिव्वत्ति पडुच्च णत्थि ।
जदि लद्धि पडुच्च अत्थि, केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो । सव्वलोगो वा ।
-सू० बं०, सू० १७८-१८६ । अचक्खुदंसणी असंजदभंगो । सू० १६० । असंजदाणं णवुंसयभंगो १७७ ।
णवुंसयवेदा सत्थाण-समुग्गाद-उववादेहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? सव्वलोगो -सू० १३८, १३९ ।
२. लेस्साणुवादेण किण्हलेस्सिय-णीललेस्सिय-काउलेस्सियाणं असंजदभंगो -सू० १६३, खु० बं० ।
३. सासणसम्मादिट्ठीहि केवडियं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो । अट्टन्नारहचोद्दसभागा वा देसूणा ।
सू० ३-४ । सासणसम्मादिट्ठीहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो । पंचचत्तारिचोद्दस-
भागा वा देसूणा । सू० - १४७, १४८ ।

तिरिक्ख-मणुसायु० णवुंसगभंगो । चदुआयु-बंधगा अबंधगा सव्वलोगो । णिरयगदिदुगं वेगुव्वियदुगं बंधगा छच्चोइस-चत्तारिबे० । अबंधगा सव्वलोगो । ओरालि० बंधगा सव्वलोगो । अबंधगा छुत्तारि-बेचोइस० । दोण्णं सरीरणं बंधगा सव्वलोगो । अबंधगा णत्थि । सेसाणं असंजदभंगो । तेउलेस्साए-पंचणा० छदंस० चदुसंज० भयदुगुं० तेजाक० वण्ण०४ अगु०४ बादर-पज्जत्त-पत्तेय० णिमि० पंचंत० बंधगा अट्टणवचो० । अबंधगा णत्थि । थीणगिद्वितियं अणंताणुबंधि०४ बंधगा अट्टणवचो० । अबंधगा अट्ट-चोइसभागो । सादासाद-बंधगा अट्टणवचो० । दोण्णं बंधगा अट्टणवचो० । अबंधगा

का असंख्यातवाँ भाग है १. अबन्धकोंका सर्वलोक है । तिर्यंचायु, मनुष्यायुका नपुंसकवेदके समान भंग है । चारों आयुके बन्धकों, अबन्धकोंका सर्वलोक जानना चाहिए ।

नरकगति, नरकानुपूर्वा, वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक अंगोपांगके बन्धकोंके १/४, १/४, १/४ है १. अबन्धकोंके सर्वलोक है ।

विशेष—इन प्रकृतियोंके बन्धक मनुष्य तथा तिर्यंच ही होंगे । देव तथा नारकी इन प्रकृतियोंका बन्ध नहीं करते हैं । सातवें नरकमें मारणान्तिककी अपेक्षा कृष्ण लेश्यामें १/४ है । नील लेश्यामें ५वीं पृथ्वीकी अपेक्षा उपपाद वा मारणान्तिकके द्वारा १/४ है । कापोत लेश्यामें तीसरी पृथ्वीकी अपेक्षा १/४ है ।

औदारिक शरीरके बन्धकोंके सर्वलोक है । अबन्धकोंके १/४, १/४, १/४ है । दोनों शरीरोंके बन्धकोंके सर्वलोक है, अबन्धक नहीं है । शेष प्रकृतियोंका असंयतोंके समान भंग है ।

विशेष—औदारिक शरीरके अबन्धक नारकियोंमें मारणान्तिककी अपेक्षा सातवीं, पाँचवीं तथा तीसरी पृथ्वीकी दृष्टिसे १/४, १/४, १/४ भाग कहा है ।

तेजोलेश्यामें—५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, ४ संज्वलन, भय-जुगुप्सा, तैजस-कार्मण, वर्ण ४, अगुरुलघु ४, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, निर्माण तथा ५ अन्तरायके बन्धकोंका १/४, १/४ है १. अबन्धक नहीं है ।

विशेषार्थ—विहारवत्स्वस्थान, वेदना, कषाय और वैक्रियिक पद परिणत मिथ्यात्वो जीवोंने १/४ भाग, मारणान्तिक समुद्घात परिणत जीवोंने १/४ भाग स्पर्श किया है । (२६५)

‘खुदाबन्ध’टीकामें लिखा है—तेजो लेश्यावाले जीवोंद्वारा स्वस्थान पदोंसे लोकका असंख्यातवाँ भाग स्पृष्ट है । अतीत कालकी अपेक्षा कुछ कम आठ बटे चौदह (१/४) भाग स्पृष्ट है । विहारवत्स्वस्थानकी अपेक्षा कुछ कम १/४ भाग स्पृष्ट है, क्योंकि विहार करते हुए तेजोलेश्यावाले देवोंके इतना स्पर्शन पाया जाता है ।

समुद्घातकी अपेक्षा इस लेश्यावाले जीवोंके द्वारा लोकका असंख्यातवाँ भाग स्पृष्ट है । अतीत कालकी अपेक्षा वेदना, कषाय और वैक्रियिक पदोंसे परिणत तेजोलेश्यावाले जीवोंद्वारा १/४ भाग स्पृष्ट है, क्योंकि विहार करते हुए देवोंके ये तीनों पद सर्वत्र पाये जाते हैं । मारणान्तिक समुद्घातकी अपेक्षा १/४ भाग स्पृष्ट है, क्योंकि मेरु मूलसे दो राजुओंके साथ ऊपर सात राजु स्पर्शन पाया जाता है ।

१. ‘तेउलेस्सिएसु मिच्छादिट्ठि-सासणसम्मदिट्ठीहि केवडियं खेतं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदि-भागो । अट्टणवचोइसभागो वा देसूणा ।’—षट्खं०, फो०, सू० १५१-१५२ ।

णस्थि । एवं चटुणोक० थिरादि-तिण्णि-युगलं । मिच्छत्त-उज्जोव-बंधगा अट्टणवचोदस० । अपक्खखाणावरण०४ बंधगा अट्टणवचो० । अबंधगा दिवड्ढचोदसभागो । पक्खखाणा-वरण०४ बंधगा अट्टणवचो० । अबंधगा खेत्तभंगो । इत्थि० पुरिस० बंधगा अट्टचोदस० ।

उपपादकी अपेक्षा वर्तमान कालकी दृष्टिसे लोकका असंख्यत भाग स्पर्शन है । अतीत-कालकी अपेक्षा कुछ कम डेढ़ बटे चौदह $\frac{१३}{१४}$ भाग स्पृष्ट हैं; क्योंकि मेरु मूलसे डेढ़ राजू मात्र ऊपर चढ़कर प्रभा षटलका अवस्थान है ।

शंका—सानत्कुमार-माहेन्द्र कल्पोंके प्रथम इन्द्रक विमानमें स्थित तेजोलेख्यावाले देवोंमें उत्पन्न करानेपर $\frac{१३}{१४}$ राजूसे अधिक क्षेत्र क्यों नहीं पाया जाता ?

समाधान—नहीं, क्योंकि सौधर्म कल्पसे थोड़ा ही ऊपर जाकर सानत्कुमार कल्पका प्रथम पटल अवस्थित है । ऐसा न माननेपर उपर्युक्त $\frac{१३}{१४}$ राजू क्षेत्रमें जो कुछ न्यूनता बतलायी है, वह बन नहीं सकती । (खु० बं०, टीका पृ० ४३८-४४०)

स्त्यानगृद्धित्रिक, अनन्तानुबन्धी ४ के बन्धकोंका $\frac{६४}{६४}$, $\frac{६४}{६४}$ है । अबन्धकोंका $\frac{६४}{६४}$ है ।^१

विशेष—विहारवत्स्वस्थान, वेदना, कषाय, वैक्रियिक तथा मारणान्तिक पद परिणत मिश्र तथा अविरत सम्यक्त्वी जीवोंने पीत लेख्यामें $\frac{६४}{६४}$ स्पर्शन किया है । विशेष, मिश्र गुण-स्थानमें मारणान्तिक नहीं होता है । उपपादपरिणत अविरत सम्यक्त्वी जीवोंके $\frac{१३}{१४}$ भाग होता है ।^३ (२६६)

साता, असाताके बन्धकोंका $\frac{६४}{६४}$, $\frac{६४}{६४}$ है । दोनोंके बन्धकोंका $\frac{६४}{६४}$, $\frac{६४}{६४}$ है; अबन्धक नहीं है । हास्यरति, अरतिशोक, स्थिरादि तीन युगलमें इसी प्रकार जानना चाहिए । मिथ्यात्व तथा उद्योतके बन्धकोंके $\frac{६४}{६४}$, $\frac{६४}{६४}$ है; अबन्धकोंके $\frac{१३}{१४}$ है । अपत्याख्यानावरण ४ के बन्धकोंके $\frac{६४}{६४}$, $\frac{६४}{६४}$ है; अबन्धकोंके $\frac{१३}{१४}$ है ।

विशेष—विहारवत्स्वस्थान, वेदना, कषाय, वैक्रियिक पदसे परिणत मिथ्यात्वी तथा सासादन गुणस्थानवर्ती जीवोंने $\frac{६४}{६४}$, मारणान्तिक समुद्घात परिणत उक्त जीवोंने $\frac{६४}{६४}$ तथा उपपाद परिणत उन जीवोंने $\frac{१३}{१४}$ स्पर्श किया है । मिश्र तथा अविरत गुणस्थानमें भी $\frac{६४}{६४}$, $\frac{६४}{६४}$ भाग है । विशेष, मिश्रमें मारणान्तिक नहीं होता है । उपपाद परिणत अविरत सम्यक्त्वी जीवोंने $\frac{१३}{१४}$ स्पर्श किया है ।

प्रत्याख्यानावरण ४ के बन्धकोंका $\frac{६४}{६४}$, $\frac{६४}{६४}$ है । अबन्धकोंका क्षेत्रके समान लोकका

१. त्तेउलेस्सिद्याणं सत्याणेहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो । अट्टचोदसभागा वा देसूणा । समुग्घादग्देहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो । अट्टचोदसभागा वा देसूणा । उववादेहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो । दिवड्ढचोदसभागा वा देसूणा -खु० बं०, सू० १९४-२०२ । २. सम्मामिच्छादिट्ठि-असंजदम्ममादिट्ठीहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो । अट्टचोदसभागा वा देसूणा । -षट्खं०, फो०, सू० १५२-१५३ । ३. संजदासंजदेहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो । दिवड्ढचोदसभागा वा देसूणा । -सू० १५४-१५५ ।

अबंधगा अट्टणवचो० । णवुंस० बंधगा अट्टणवचो० । अबंधगा अट्टचोद्दस० । तिण्णि वेदाणं बंधगा अट्टणवचो० । अबंधगा णत्थि । इत्थिभंगो दोआयु-मणुसगदिदुगं पंचिदि० पंचसंठा० ओरालि० अंगो० छस्संध० आदा० दोविद्दा० तस-सुभग-आदे० तित्थयरं उच्चागोदं च । णवुंसगभंगो तिरिक्खगदिदुगं एहंदि० हुंडसंठा० थावर-दूभग-अणादे० णीचागोदं च । देवायु-आहारदुगं बंधगा खेत्तभंगो । अबंधगा अट्टणवचोद्दस० । देवगदि०४ बंधगा दिवड्ढ-चोद्दसभागो । अबंधगा अट्टणवचो० । ओरालियसरीरं बंधगा अट्टणवचो० । अबंधगा दिवड्ढचोद्दसभागो । एवं पत्ते० साधारणेण वि । सच्चपगदीणं बंधगा अट्टणवचोद्दसभागो । अबंधगा णत्थि । आयु० अंगोवंग-संघट्टण-विहाय० [एवं] । पम्माए-पंचणा० छदंसणा० चदुसंजल० भयदु० पंचिदि० तेजाक० वण्ण०४ अगु०४ तस०४ णिमिण-पंचंतराइयाणं बंधगा अट्ट० । अबंधगा णत्थि ।

असंख्यातवाँ भाग है । स्त्रीवेद, पुरुषवेदके बन्धकोंका ६४, अबन्धकोंके ६४, ६४ है । नपुंसक-वेदके बन्धकोंके ६४, ६४ है; अबन्धकोंके ६४ है । तीनों वेदोंके बन्धकोंके ६४, ६४ है; अबन्धक नहीं हैं । मनुष्य-तिर्यचायु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, पंचेन्द्रिय, पंच संस्थान, औदारिक अंगोपांग, ६ संहनन, आतप, दो विहायोगति, त्रस, सुभग, आदेय, तीर्थकर तथा उच्चगोत्रका स्त्रीवेदके समान जानना चाहिए । तिर्यचगति, तिर्यचगत्यानुपूर्वी, एकेन्द्रिय, हुण्डकसंस्थान, स्थावर, दुर्भन, अनादेय तथा नीचगोत्रका नपुंसकवेदके समान भंग है । देवायु, आहारकट्टिकके बन्धकोंके क्षेत्रके समान लोकका असंख्यातवाँ भाग है । अबन्धकोंका ६४, ६४ है । देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक अंगोपांगके बन्धकोंके १३, अबन्धकोंके ६४, ६४ है । औदारिक शरीरके बन्धकोंके ६४, ६४ है, अबन्धकोंके १३ है । प्रत्येक तथा सामान्यसे भी इसी प्रकार है । शेष सर्व प्रकृतियोंके बन्धकोंके ६४, ६४ है; अबन्धक नहीं हैं । आयु, अंगोपांग, संहनन तथा विहायोगतिमें (इसी प्रकार जानना चाहिए) ।

पद्मालेश्यामें - ५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, ४ संज्वलन, भय-जुगुप्सा, पंचेन्द्रिय जाति, तैजस, कर्मण, वर्ण ४, अगुरुलघु ४, त्रस ४, निर्माण तथा ५ अन्तरायके बन्धकोंके ६४ है; अबन्धक नहीं हैं ।

विशेष—पद्मालेश्यावाले मिथ्यात्वसे अविरत सम्यक्त्वो पर्यन्त जीवोंने विहारवत्-स्वस्थान, वेदना, कषाय, वैक्रियिक तथा मारणान्तिककी अपेक्षा ६ राजू ऊपर तथा नीचे दो राजू, ६४ भाग स्पर्श किया है । उपपादं परिणत उक्त जीवोंने ६४ स्पर्श किया है । विशेष, मिश्र गुणस्थानमें उपपाद मारणान्तिकपनेका अभाव है । (पृ० १९८) ।

सुहाबन्धटीकामें लिखा है, पद्मालेश्यावाले जीवोंने स्वस्थान और समुद्घात पदोंसे लोकका असंख्यातवाँ भाग स्पर्श किया है । अतीत कालकी अपेक्षा कुछ कम ६४ भाग स्पर्श किये हैं । स्वस्थान पदकी अपेक्षा तीन लोकोंके असंख्यातवें भाग, तिर्यग्लोकके संख्यातवें भाग और अदाई द्वीपसे असंख्यात गुणे क्षेत्रका स्पर्श किया है । विहारवत्स्वस्थान, वेदना, कषाय, वैक्रियिक और मारणान्तिक समुद्घात पदोंसे परिणत इन जीवोंद्वारा कुछ कम ६४

१. "पम्मलेस्सिपसु मिच्छादिट्ठिपट्ठि जाव असंजदसम्मादिट्ठीहि केवडियं खेतं फोसिदं ? लोपस्स असंजोत्तविभागो । अट्टचोद्दसभागो वा देसूणा ।" -पट्ठखं०, फो०, सू० १५४-१५५ ।

धीणगिद्धितियं मिच्छत्त० अर्णताणु०४ बंधा अबंधगा अट्ठचोद्दसभागो। एवं दोआयु० उज्जोवं तित्थयरं च। सादासादानं बंधा अबंधगा अट्ठचोद्दसभागो। दोण्णं बंधगा अट्ठचोद्दसभागो। अबंधगा णत्थि। एवं बंधगा (?) वेदणीयभंगो। सेसाणं पत्तेणेण साधारणेण। णवरि देवायु-बंधगा खेत्तभंगो। अबंधगा अट्ठचोद्दसभागो। तिण्णं आयु० बंधा अबंधगा अट्ठचोद्दसभागो। देवगदि०४ बंधगा पंचचोद्दस०। अबंधगा अट्ठचोद्दसभागो। अपच्चक्खाणा०४ ओरालियस० ओरालिय० अंगो० बंधगा (?) छस्संघ० साधारणेण अबंधगा पंचचोद्दस०। पच्चक्खाणा०४ बंधगा अट्ठचोद्दस०। अबंधगा खेत्तभंगो। आहारदुगं देवायुभंगो। सुकाए—पंचणा० छदंस० अट्ठकसा०

भाग स्पष्ट है, क्योंकि पद्मलेख्यावाले देवोंके एकैन्द्रिय जीवोंमें मारणान्तिक समुद्घातका अभाव है। उपपादकी अपेक्षा लोकका असंख्यातवाँ भाग स्पष्ट है। अतीत कालकी अपेक्षा कुछ कम देव भाग स्पष्ट है। क्योंकि मेरु मूलसे पाँच राजू मात्र मार्ग जाकर सहस्रार कल्पका अवस्थान है।

सत्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी ४ के बन्धकों, अबन्धकोंका ६४ है। मनुष्य त्रियंचायु, उद्योत तथा तीर्थकरका इसी प्रकार है। साता, असाताके बन्धकों, अबन्धकोंका ६४ है। दोनोंके बन्धकोंका ६४ है; अबन्धक नहीं है। शेष प्रकृतियोंका प्रत्येक तथा सामान्यसे इसी प्रकार वेदनीयका भंग है। विशेष, देवायुके बन्धकोंका क्षेत्रके समान भंग है अर्थात् लोकका असंख्यातवाँ भाग है; अबन्धकोंका ६४ है। तीन आयु (नरकायु बिना) के बन्धकों, अबन्धकोंका ६४ है। देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक अंगोपांगके बन्धकोंका ६४ है; अबन्धकोंका ६४ है। अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, ६ संहननके बन्धकों, अबन्धकोंका सामान्यसे ६४ है।

विशेष—देशसंयमो पद्मलेख्यावाले जीवोंके मारणान्तिक समुद्घातकी अपेक्षा शतार, सहस्रार कल्पके स्पर्शनकी दृष्टिसे ६४ कहा है।

प्रत्याख्यानावरण ४ के बन्धकोंका ६४ है। अबन्धकोंका क्षेत्रके समान लोकका असंख्यातवाँ भाग भंग है।

विशेष—प्रत्याख्यानावरण ४ के अबन्धक प्रमत्तसंयतोंकी अपेक्षा लोकका असंख्यातवाँ भाग कहा है।

आहारकद्विकका देवायुके समान भंग है अर्थात् बन्धकोंके लोकका असंख्यातवाँ भाग है; अबन्धकोंके ६४ है।

शुक्ल लेख्यामें—५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, प्रत्याख्यानावरणादि ८ कषाय, भय-

१. पम्मलेस्सिया सत्याण-समुत्पादेहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो। अट्ठचोद्दस-भागो वा देसूणा। उववादेहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो। पंचचोद्दसभागो वा देसूणा। खु० बं०, सू० २०३-२०८। २. “संजदासंजदेहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो। पंचचोद्दसभागो वा देसूणा।” -पट्खं०, फो०, सू० १५६-१६०। ३. “प्रमत्ताप्रमत्तलोकस्यासंख्ये-यभागः।” -स० सि० १।८।

भयदु० पंचिदि० तेजाक० वण्ण०४ अगु०४ तस०४ गिमिण-पंचंतराइयाणं बंधगा छच्चोद्दसभागो । अवंधगा केवलिभंगो । थीणगिद्धि०३ मिच्छत्त-अट्ठकसा० मणु-सायु-तित्थयरं बंधगा छच्चोद्दसभागो । अवंधगा छच्चोद्दसभागो, केवलिभंगो । साद-बंधगा छच्चोद्दसभागो केवलिभंगो । अवंधगा छच्चोद्दसभागो । असाद-बंधगा छच्चो-द्दसभागो । अवंधगा छच्चोद्दस० केवलिभंगो । दोण्णं बंधगा छच्चोद्दसभागो केवलि-भंगो । अवंधगा णत्थि । देवगदि०४ बंधगा छच्चोद्दस० । अवंधगा छच्चोद्दस० केवलिभंगो० । एवं णेदच्चं । भवसिद्धि ओषं ।

जुगुप्सा, पंचेन्द्रिय, तैजस-कार्मण, वर्ण ४, अगुरुलघु ४, त्रस ४, निर्माण तथा ५ अन्तरायके बन्धकोंका $\frac{१}{४}$ है । अबन्धकोंके केवली-भंग है ।

विशेष—मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र तथा असंयत सम्यक्त्वी शुक्ललेश्यावालोंने विहारवत्स्वस्थान, वेदना, कषाय, वैक्रियिक तथा मारणान्तिक पद परिणत जीवोंने $\frac{१}{४}$ स्पर्श किया है । स्वस्थान स्वस्थान, विहारवत्स्वस्थान, वेदना, कषाय, वैक्रियिक पद परिणत संयतासंयतोंने लोकका असंख्यातवाँ भाग स्पर्श किया है । मारणान्तिक पद परिणत शुक्ल-लेश्यावालोंने $\frac{१}{४}$ भाग स्पर्श किया है । कारण तिर्यच संयतासंयतोंका शुक्ललेश्याके साथ अच्युत कल्पमें उपपाद पाया जाता है । मिश्रगुणस्थानमें उपपाद तथा मारणान्तिक पद नहीं होते हैं । (पृ० ३००)

स्थानगृद्धि ३, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी आदि ८ कषाय, मनुष्यायु, तीर्थकरके बन्धकोंके $\frac{१}{४}$ भाग है; अबन्धकोंके $\frac{१}{४}$ वा केवली-भंग है । साताके बन्धकोंके $\frac{१}{४}$ भाग तथा केवली-भंग है; अबन्धकोंके $\frac{१}{४}$ है । असाताके बन्धकोंके $\frac{१}{४}$ है । अबन्धकोंके $\frac{१}{४}$ वा केवली-भंग है । दोनोंके बन्धकोंके $\frac{१}{४}$ वा केवली-भंग है; अबन्धक नहीं हैं । देवगति ४ के बन्धकोंके $\frac{१}{४}$ है; अबन्धकोंके $\frac{१}{४}$ तथा केवली-भंग है । शेष प्रकृतियोंका इसी प्रकार निकालना चाहिए ।

भव्यसिद्धिकोंमें^३ ओषवत् भंग है ।

विशेषार्थ—भव्यसिद्धिक और अभव्यसिद्धिक जीवों-द्वारा स्वस्थान, समुद्घात एवं उपपाद पदोंसे सर्वलोक स्पृष्ट है । स्वस्थान, वेदना, कषाय, मारणान्तिक और उपपाद पदोंसे अतीत व वर्तमान कालमें भव्यसिद्धिक एवं अभव्यसिद्धिक जीवों-द्वारा सर्वलोक स्पृष्ट है । विहारवत्स्वस्थानकी अपेक्षा वर्तमानकालमें क्षेत्रके समान प्ररूपणा है । अतीत कालमें $\frac{१}{४}$ भाग स्पृष्ट है । वैक्रियिक समुद्घातकी अपेक्षा तीन लोकोंका असंख्यातवाँ भाग और मनुष्य लोक व तिर्यग्लोकसे असंख्यात गुणा क्षेत्र स्पृष्ट है । भव्यसिद्धिक जीवोंमें शेष पदोंकी अपेक्षा स्पर्शनका निरूपण ओषके समान है । (खु० बं०टी० पृ० ४४५) ।

१. “शुक्ललेश्यायु मिच्छादिट्ठिप्पहुडि जाव संजदामंजदेहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखे-ज्जदिभागे । छच्चोद्दसभागा वा देसूणा ।” —सू० १६२-१६३ । २. शुक्ललेश्या सत्याण-उववादेहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागे । छच्चोद्दसभागा वा देसूणा । समुग्वादेहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागे । छच्चोद्दसभागा वा देसूणा । असंखेज्जा वा भागा । सब्बलोगो वा । —खु० बं० सू० २०९-२१६ । ३. “भवियाणुवादेण भवसिद्धिणु मिच्छादिट्ठिप्पहुडि जाव अजोगिकेवलित्ति ओषं ।” —पट्खं०, फो०, सू० १६५ । भवियाणुवादेण भवसिद्धिणु अभवसिद्धिणु सत्याण-समुग्वा-उववादेहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? सब्बलोगो —खु० बं०, सू० २१७-२१८, पृ. ४४४-४५

२१३. सम्मादिद्धि ओधिभंगो । णवरि केवलिभंगो कादवो । खइग-सम्मा-दिद्धि० पंचगा० छदंस० बारसक० पुरिस० भयदु० पंचिदि० तेजाक० वण्ण०४ अगु०४ पसत्थवि० तस०४ सुभग-सुस्सर-आदेज-णिमिण-उच्चागोद-पंचंतराइगाणं वंधगा अट्टचोद्दस० । अबंधगा केवलिभंगो । एवं सेसाणं पगदीणं सम्मादिद्धि-भंगो । णवरि मणुसगदिपंचगं अबंधगा, देवगदि०४ बंधगा खेत्तभंगो ।

२१३. सम्यक्त्वियोंमें^१ अवधिज्ञानके समान भंग है । विशेष, यहाँ केवली-भंग करना चाहिए ।

विशेष—सम्यक्त्वमार्गणामें चतुर्थसे लेकर चौदहवें गुणस्थानका सद्भाव है । इस कारण यहाँ केवली-भंग भी कहा है ।

क्षायिक सम्यक्त्वोंमें—५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, १२ कषाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, पंचेन्द्रिय, तैजस-कर्मण, वर्ण ४, अगुरुलघु ४, प्रशस्तविहायोगति, त्रस ४, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, उच्चगोत्र, ५ अन्तरायके बन्धकोंका षड् है; अबन्धकोंका केवली-भंग है ।

विशेषार्थ—विहारवत्स्वस्थान, वेदना, कषाय, वैक्रियिक तथा मारणान्तिक समुद्घातकी अपेक्षा अविरत गुणस्थानवर्ती क्षायिक सम्यक्त्वोंने षड् भाग स्पर्श किया है । (घ० टी०, फो० पृ० ३०२) ।

विशेषार्थ—क्षायिक सम्यक्त्वों जीवोंमें स्वस्थानपदोंसे लोकका असंख्यातवाँ भाग स्पर्श किया है । अतीत कालकी अपेक्षा कुछ कम षड् भाग स्पर्श किया है (यह कथन विहार-वत् स्वस्थानकी अपेक्षा है) ।

समुद्घात पदोंसे क्षायिक सम्यक्त्वदृष्टियों-द्वारा लोकका असंख्यातवाँ भाग स्पृष्ट है । अतीतकालकी अपेक्षा कुछ कम षड् भाग स्पृष्ट है । इनके द्वारा वेदना, कषाय, वैक्रियिक और मारणान्तिक समुद्घात पदोंसे देशोन् षड् भाग स्पृष्ट है । प्रतर समुद्घातगत केवलीकी अपेक्षा वातचलयको छोड़कर शेष समस्त लोकमें व्याप्त जीव प्रदेश पाये जाते हैं । दण्डसमुद्घातगत केवलियोंके द्वारा चार लोकोंका असंख्यातवाँ भाग, और अढ़ाई द्वीपसे असंख्यात-गुणा क्षेत्र स्पृष्ट है । कपाट समुद्घातगत केवलियोंके द्वारा तीन लोकोंका असंख्यातवाँ भाग, तिर्यग्लोकका संख्यातवाँ भाग और अढ़ाई द्वीपसे असंख्यात गुणा क्षेत्र स्पृष्ट है । लोकपूरण समुद्घातकी अपेक्षा सर्वलोक स्पर्शन है ।

उपपादकी अपेक्षा लोकका असंख्यातवाँ भाग स्पृष्ट है (खु० बं० टीका पृ० ४४६-४५१) ।

इस प्रकार शेष प्रकृतियोंका सम्यक्त्वदृष्टिके समान भंग है । मनुष्यगति ५ के अबन्धकोंमें तथा देवगति ४ के बन्धकोंमें क्षेत्रके समान भंग है ।

१. "सम्मत्ताणुवादेण सम्मादिट्ठीसु असंखदसम्मादिट्ठिप्पट्ठि जाख सजोगिकेवलित्ति ।" —सू० १६७ ।

२. खइयसम्मादिट्ठी सत्थाणेहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो अट्टचोद्दसभागा वा देसूणा । समुग्घादेहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो । अट्टचोद्दसभागा वा देसूणा । असंखेज्जा वा भागा । सव्वलोगो वा । उववादेहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो । —खु० बं०, सू० २३०-२३९ ।

२१४. वेदने ओधिभंगो पत्तेणेण साधारणेण । अबंधगा णत्थि । उवसमसं
खइगसम्मादिट्ठिभंगो । णवरि केवल्लिभंगो णत्थि । तित्थयरं बंधगा खेत्तभंगो । सासणे
धुविणारणं बंधगा अट्टवारहं । अबंधगा णत्थि । सादासादबंधगा अबंधगा अट्टवारहं ।
दोण्णं बंधगा अट्टवारहं । अबंधगा णत्थि । एवं चट्टणोकं । थिरादि-तिण्णि-युगलं ।
इत्थिं । पुरिसं बंधगा अबंधगा अट्टएकारसभागो । दोण्णं बंधगा अट्टएकारसं ।
अबंधगा णत्थि । एवं पंचसंठां पंचसंघं (?) दो विहायं दोसरं । दो आयु-

२१४. वेदकसम्यक्त्वमें—अबधिज्ञानके समान प्रत्येक तथा सामान्यसे भंग है । यहाँ
अबन्धक नहीं हैं ।

विशेषार्थ—वेदक सम्यक्त्वयोने स्वस्थान तथा समुद्घात पदोंसे लोकका असंख्यातवाँ
भाग स्पर्श किया है । अतीतकालकी अपेक्षा देशोन $\frac{१}{४}$ भाग स्पर्श किया है । विहारवत्स्वस्थान,
वेदना, कषाय, वैक्रियिक और मारणान्तिक पदोंसे देशोन $\frac{१}{४}$ भाग स्पृष्ट है ।

उपपादकी अपेक्षा लोकका असंख्यातवाँ भाग अथवा देशोन $\frac{१}{४}$ भाग स्पृष्ट है । तिर्यंच
और मनुष्योंमेंसे देवोंमें उत्पन्न होनेवाले वेदक सम्यग्दृष्टियों-द्वारा $\frac{१}{४}$ स्पृष्ट है ।

उपशमसम्यक्त्वमें—क्षायिकसम्यक्त्वकी समान भंग है । विशेष, यहाँ केवली-भंग
नहीं है । तीर्थकरके बन्धकोंका क्षेत्रके समान भंग है ।

विशेषार्थ—उपशम सम्यक्त्वयों-द्वारा स्वस्थान पदोंसे लोकका असंख्यातवाँ भाग
स्पृष्ट है । अतीतकालकी अपेक्षा देशोन $\frac{१}{४}$ भाग स्पृष्ट है । उपपाद तथा समुद्घात पदोंसे
लोकका असंख्यातवाँ भाग स्पर्शन है । मारणान्तिक समुद्घात व उपपाद पदोंसे परिणत उपशम
सम्यक्त्वयों-द्वारा चार लोकोंका असंख्यातवाँ भाग और अढ़ाई द्वीपसे असंख्यातगुणा
क्षेत्र स्पृष्ट है, क्योंकि मानुष क्षेत्रमें ही मरणको प्राप्त होनेवाले उपशम सम्यग्दृष्टि पाये जाते हैं
(माणुसखेत्तम्मि चैव मरंताणं उवसमसम्माइट्ठीणमुचलंभादो) ।

शंका—वेदना, कषाय और वैक्रियिक समुद्घातकी अपेक्षा उपशम सम्यग्दृष्टि देवोंमें
 $\frac{१}{४}$ भाग यहाँ क्यों नहीं कहा ?

समाधान—ऐसा निरूपण करनेपर सासादन सम्यग्दृष्टिके मारणान्तिक समुद्घातकी
अपेक्षा भी $\frac{१}{४}$ भाग होते हैं, ऐसा सन्देह न हो अतः उसके निराकरणके लिए यह निरूपण नहीं
किया गया है । (पृ० ४५४, ख० बं०)

सासादनमें—ध्रुव प्रकृतियोंके बन्धकोंका $\frac{१}{४}$, $\frac{१}{४}$ है ; अबन्धक नहीं है । साता,
असाताके बन्धकों, अबन्धकोंका $\frac{१}{४}$, $\frac{१}{४}$ है । दोनोंके बन्धकोंका $\frac{१}{४}$, $\frac{१}{४}$ है ; अबन्धक नहीं है ।
इस प्रकार हास्यादि चार नोकषाय तथा थिरादि तीन युगलमें जानना चाहिए । स्त्रीवेद,
पुरुषवेदके बन्धकों, अबन्धकोंके $\frac{१}{४}$, $\frac{१}{४}$ है । दोनोंके बन्धकोंके $\frac{१}{४}$, $\frac{१}{४}$ है ; अबन्धक नहीं है ।
५ संस्थान (हुण्डक बिना), ५ संहनन (असम्प्राप्तासृपाटिका बिना), दो विहायोगति तथा दो

१. वेदगसम्मादिट्ठी सत्याणसमुग्घादेहि केवडियं खेतं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो । अट्टचोइस-
भागा वा देसूणा । उववादेहि केवडियं खेतं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो । छन्वोइसभागा वा देसूणा
—ख० बं०, सू० २४०-२४५ । २. उवसमसम्माइट्ठी सत्याणेहि केवडियं खेतं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्ज-
दिभागो । अट्टचोइसभागा वा देसूणा । समुग्घादेहि उववादेहि केवडियं खेतं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदि-
भागो । —ख० बं०, सू० २४६-२५० ।

मणुसगदिदुगं उरुचागोदं बंधगा अट्टचोद्दस० । अबंधगा अट्टवारह० । देवायुबंधगा स्वेत्तभंगो । अबंधगा अट्टवारह० । तिण्णि आयु-बंधगा अट्टचोद्दस० । अबंधगा अट्ट-वारहभागो । तिग्गिक्खगदिदुगं गीचागोदं च बंधगा अट्टवारह० । अबंधगा अट्टचोद्दस-भागो । देवगदि०४ बंधगा पंचचोद्दस० । अबंधगा अट्टवारहभागो । तिण्णं गदीणं बंधगा अट्टवारह० । अबंधगा गत्थि । ओरालि० ओरालि० अंगो पंचसंध० (?) बंधगा अट्टवारह० । अबंधगा पंचचोद्दसभागो । उज्जोवं बंधगा अबंधगा अट्टवारह-भागो । सुभग-आदे० बंधगा अट्टचोद्दस० । अबंधगा अट्टवारहभागो । दुभग-अणादे० बंधगा अट्टवारह० । अबंधगा अट्टचोद्दस० दोण्णं बंधगा वेदणीयभंगो ।

स्वरमें इसी प्रकार है ।

विशेष—पंच संहननका कथन आगे भी आया है, अतः यह पाठ अधिक प्रतीत होता है। तिर्यच-मनुष्यायु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वा, उच्चगोत्रके बन्धकोंके ६४ है; अबन्धकोंके ६४ तथा ३३ है। देवायुके बन्धकोंमें क्षेत्रवत् भंग है। अबन्धकोंमें ६४, ३३ है। तीन आयु (नरक बिना) के बन्धकोंके ६४, अबन्धकोंके ६४, ३३ है। तिर्यचगति, तिर्यचानुपूर्वा नीचगोत्रके बन्धकोंके ६४, ३३ है; अबन्धकोंके ६४ है। देवगति ४ के बन्धकोंके ६४ है; अबन्धकोंके ६४, ३३ है। तीनों गतियोंके (नरक बिना) बन्धकोंके ६४, ३३ है; अबन्धक नहीं है। औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, ५ संहननके बन्धकोंके ६४, ३३ है; अबन्धकोंके ६४ है। उद्योतके बन्धकों, अबन्धकोंके ६४, ३३ है। सुभग, आदेयके बन्धकोंके ६४ है; अबन्धकोंके ६४, ३३ है। दुर्भग, अनादेयके बन्धकोंके ६४, ३३ है; अबन्धकोंके ६४ है। सुभग, दुर्भग तथा आदेय-अनादेयके बन्धकोंमें वेदनीयके समान भंग है।

विशेषार्थ—सासादन सम्यग्दृष्टि जीवोंने स्वस्थान पदोंसे लोकका असंख्यातवाँ भाग स्पर्श किया है। अतीतकालमें विहारवत्स्वस्थान पदसे परिणत सासादन गुणस्थानी जीवोंने देशोन ६४ भाग स्पर्श किया है। उसने समुद्घात पदोंसे लोकका असंख्यातवाँ भाग स्पर्श किया है। अतीत कालकी अपेक्षा वेदना, कषाय और वैक्रियिक समुद्घातोंसे देशोन ६४ भाग स्पष्ट है। मारणान्तिक समुद्घातसे देशोन ३३ भाग स्पष्ट है, क्योंकि मेरु मूलसे नीचे पाँच राजू और ऊपर सात राजू आयामसे मारणान्तिक समुद्घात पाया जाता है।

उपपादकी अपेक्षा लोकका असंख्यातवाँ भाग स्पष्ट है। अतीतकालकी अपेक्षा देशोन ३३ भाग स्पष्ट है, क्योंकि सासादन गुणस्थानके साथ पंचेन्द्रिय तिर्यचोंमें उत्पन्न होनेवाले छठी पृथ्वीके नारकियोंके ६४ भाग उपपादसे प्राप्त होते हैं तथा देवोंसे तिर्यचोंमें उत्पन्न होनेवाले जीवोंके ३३ भाग प्राप्त होते हैं। इन दोनोंके जोड़ रूप ३३ भाग प्रमाण स्पर्शन होता है।

प्रश्न—ऊपर ६४ भाग क्यों नहीं प्राप्त होते हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि सासादन सम्यक्त्वियोंकी एकेन्द्रियोंमें उत्पत्ति नहीं है।

प्रश्न—एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घातको प्राप्त हुए सासादन सम्यग्दृष्टि जीव उनमें क्यों नहीं उत्पन्न होते ?

समाधान—नहीं, क्योंकि आयुके तट्ट होनेपर उक्त जीव मिथ्यात्व गुणस्थानमें आ जाते

२१५. सम्मामिच्छादिद्वि ध्रुविगाणं बंधगा अट्ठ-चोद्दस० । अवंधगा णत्थि । देवगदि०४ बंधगा खेत्त-भंगो । अवंधगा अट्ठ-चोद्दसमागो । मणुसगदिपंचगं बंधगा अट्ठ-चोद्दस० । अवंधगा खेत्त-भंगो । सेमाणं पत्तेणेण बंधगा अवंधगा अट्ठ-चोद्दस-मागो । साधारणेण ध्रुविगाणं भंगो । सण्णी मणजोगिभंगो । असण्णी खेत्त-भंगो । णवरि है । अतः मिथ्यात्वमे आकर सासादन गुणस्थानके साथ उत्पत्तिका विरोध है (खु० बं०, टीका पृ० ४५५-४५७)।

२१५. सम्यग्मिथ्यादृष्टिमें—ध्रुव प्रकृतियोंके बन्धकोंका बंध है; अवन्धक नहीं है ।

विशेषार्थ—सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव स्वस्थान पदोंसे लोकका असंख्यातवाँ भाग वर्तमानकी अपेक्षा स्पर्श करते हैं । अतीतकी अपेक्षा मिश्रगुणस्थानवाले जीवोंने विहारवन्-स्वस्थानसे देशोन बंध भाग स्पर्श किया है । इनके समुद्घात तथा उपपादपद नहीं होते । क्योंकि इस गुणस्थानमें मरणका अभाव है ।

शंका—वेदना, कषाय और वैक्रियिक समुद्घातोंकी यहाँ प्ररूपणा क्यों नहीं की गयी ?

समाधान—नहीं, क्योंकि उनकी प्रधानता नहीं है ।

विशेष—विहारवत्स्वस्थान, वेदना, कषाय तथा वैक्रियिक समुद्घातकी अपेक्षा मेरु-तलसे ऊपर ६ राजू तथा नीचे दो राजू, बंध भाग है । (ध० टी०, फो० पृ० १६७)

देवगति ४ के बन्धकोंके क्षेत्रके समान भंग है; अवन्धकोंके बंध है । मनुष्यगति ५ के बन्धकोंके बंध है; अवन्धकोंके क्षेत्रके समान है । शेष प्रकृतियोंके प्रत्येकसे बन्धकों, अवन्धकों-का बंध है । सामान्यसे ध्रुव प्रकृतियोंका भंग है ।

संज्ञीमें—मन्त्रजोगियोंका भंग है ।

विशेषार्थ—संज्ञी जीवोंने स्वस्थानकी अपेक्षा लोकका असंख्यातवाँ भाग, विहारवन्-स्वस्थानसे देशोन बंध भाग स्पर्श किया है । समुद्घातकी अपेक्षा लोकका असंख्यातवाँ भाग स्पर्श किया है । अतीत कालमें वेदना, कषाय तथा वैक्रियिक समुद्घातोंकी अपेक्षा देशोन बंध भाग स्पष्ट है । सर्वलोक स्पष्ट है । यह कथन मारणान्तिककी अपेक्षा है । त्रसकायिक संज्ञी जीवोंमें मारणान्तिक करनेवाले संज्ञी जीवोंकी अपेक्षा देशोन बंध भाग स्पष्ट है ।

उपपादकी अपेक्षा लोकका असंख्यातवाँ भाग अथवा अतीतकालकी दृष्टिसे सर्वलोक स्पष्ट है । संज्ञी जीवोंमें उत्पन्न हुए असंज्ञी जीवोंके सर्वलोक स्पर्श पाया जाता है । किन्तु संज्ञियोंमें उत्पन्न हुए असंज्ञी जीवोंका स्पर्शन बंध भाग है । सम्यक्त्वी-संज्ञियोंका उपपाद क्षेत्र बंध भाग है ।

१. सासणसम्माइट्ठी सत्थाणेहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो । अट्टचोद्दसभागा वा देसूणा । समुग्घादेहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो । अट्ट-वारह-चोद्दसभागा वा देसूणा । उववादेहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो । एक्कारहचोद्दसभागा वा देसूणा -खु० बं०, सू० २५१-२५६ । २. सम्मामिच्छाइट्ठीहि सत्थाणेहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो । अट्टचोद्दसभागा वा देसूणा । समुग्घाद उववादं णत्थि । कुदो ? सम्मामिच्छत्त-गुणेण मरणाभावादो वेयण-कसाय-वेउम्बियसमुग्घादाणमेंथ परूवणं किण्ण कदं ? ण, तसि पहणत्ताभावादो । -खु० बं०, टी० पृ० ४५८ । ३. सण्णियाणुवादेण सण्णी सत्थाणेहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो । अट्टचोद्दसभागा वा देसूणा फोसिदा । समुग्घादेहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो, अट्टचोद्दसभागा वा देसूणा सव्वलोगो वा । उववादेहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो, सव्वलोगो वा । -खु० बं०, सू० २६५-२७४ ।

एहंदियपगदीणं एहंदियभंगो । आहारादि (१) (आहार०) ओषं । णवरि केवल्लि-
भंगो णत्थि । अणाहार० कम्मइयभंगो । णवरि वेदणीयं साधारणेण ओषं ।

एवं फोसणं समत्तं

असंज्ञीमें—क्षेत्रके समान भंग है । विशेष, एकेन्द्रियादि प्रकृतियोंका एकेन्द्रियके समान भंग है ।

आहारकोंमें^३ ओघवत् भंग है ; किन्तु केवल्लिभंग नहीं है ।

विशेषार्थ—यहाँ स्वस्थान उपपाद समुद्घात पदोंसे सर्वलोक स्पर्शन है । विहारवत्-
स्वस्थानसे ६६ भाग है । वैक्रियिक समुद्घातसे तीनों लोकोंका संख्यातवाँ भाग है । (सु०
बं०, टी० पृ० ४६१)

विशेष—मिथ्यादृष्टि जीवके सर्वलोक है, सासादनके लोकका असंख्यातवाँ भाग, ६६,
३३ भाग है । मिश्र तथा अविद्वृत सम्यक्त्वके लोकका असंख्यातवाँ भाग, ६६ है । देशसंयतके
असंख्यातवाँ भाग वा ६६ है । प्रमत्तसंयतसे सयोगि जिनपर्यन्त लोकका असंख्यातवाँ भाग
है । विशेष, सयोगकेवलीके प्रतर तथा लोकपूरण समुद्घात आहारक अवस्थामें नहीं होते ।

अनाहारकोंमें—कामण काययोगवत् है । विशेष, वेदनीयका सामान्यसे ओघवत्
भंग है^३ ।

इस प्रकार स्पर्शनानुगम समाप्त हुआ ।

१. असंज्ञी मिच्छादृष्टिभंगो । -सु० बं०, सू० २७५ । २. "आहाराणुवादेण आहारएसु मिच्छादिद्वि
ओषं । सासणसम्मादिद्विप्पहुडि जाव संजदासंजदा ओषं । पमत्तसंजदप्पहुडि जाव सजोगिकेवलीहि
केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोणस्स असंखेज्जदिभागो ।" -घट्खं०, फो०, सू० १८१-१८३ । ३. "अनाहारकेपु
मिथ्यादृष्टिभिः सर्वलोकः स्पृष्टः । सासादनसम्यग्दृष्टिभिलोकस्यासंख्येयभागः, एकादश चतुर्दशभागा वा
देशोनाः । सयोगकेवल्लिनां लोकस्यासंख्येयभागः सर्वलोको वा । अयोगकेवल्लिनां लोकस्यासंख्येयभागः ।"
-स० सि० १-८ । "अणाहारएसु कम्मइयकायजोगिभंगो । णवरि विससो । अजोगिकेवलीहि केवडियं खेत्तं
फोसिदं ? लोणस्स असंखेज्जदिभागो ।" -सू० १८४-१८५ । अणाहारा केवडियं खेत्तं फोसिदं ? सम्भजोगो
वा -सु० बं०, सू० २७८-२७९ ।

[कालाणुगम-परूवणा]

२१६. कालाणुगमेण दुविहो णिहेसो, ओघेण आदेसेण य ।

२१७. तत्थ ओघेण पंचणा० णवदंस० मिच्छत्त सोलसक० भयदु० तेजाक०
आहारदुगं वण्ण०४ अगु०४ आदाउज्जो० णिमिण० तित्थयर-पंचंतराइमाणं बंधगा
अबंधगा केवचिरं कालादो होति ? सव्वद्धा । सादासादाणं बंधा-अबंधगा० सव्वद्धा ।
दोण्णं बंधगा-अबंधगा केवचिरं कालादो होति ? सव्वद्धा । एवं सेसाणं पगदोणं

[कालानुगम]

२१६. कालानुगमका (नानाजीवोंकी अपेक्षा) ओघ तथा आदेशसे दो प्रकार निर्देश करते हैं ।

विशेषार्थ—यहाँ 'केवचिरं कालादो होति' कितने काल तक रहते हैं; इसका अर्थ 'धवला' टीकाकार इस प्रकार करते हैं—'क्या नरकगतिमें नारकी जीव अनादि अपर्यवसित हैं ? क्या अनादि सपर्यवसित हैं ? क्या सादि अपर्यवसित हैं ? क्या सादि सपर्यवसित हैं ?' इस शंकाका यहाँ उद्दीपन किया गया है । इसके उत्तरमें कहा है—नाना जीवोंकी अपेक्षा नरक-गतिमें नारकी जीव सर्वकाल रहते हैं अर्थात् नारकी जीव अनादि—अपर्यवसित हैं, शेष तीन विकल्पोंमें नहीं है । जिस प्रकार नारकियोंका सामान्यसे अनादि—अपर्यवसित संतान काल कहा है, उसी प्रकार सातों पृथिवियोंमें ही नारकियोंका सन्तानकाल अनादि-अपर्यवसित है । "पादेवकं संताणस्स वोच्छेदो ण होदि त्ति वुत्तं होदि"—इस सूत्रका यह अभिप्राय है कि प्रत्येक सन्तानका व्युच्छेद नहीं होता ।

२१७. ओघसे—५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १६ कपाय, भय-जुगुप्सा, तैजस, कामिण, आहारकद्विक, वर्ण ४, अगुरुलघु ४, आतप, उद्योत, निर्माण, तीर्थकर, ५ अन्तरायोंके बन्धक, अबन्धक कितने काल तक होते हैं ? नानाजीवोंकी अपेक्षा सर्वकाल होते हैं । साता असाताके बन्धक अबन्धक कितने काल तक होते हैं ? सर्वकाल होते हैं । दोनोंके बन्धक, अबन्धक कितने काल तक होते हैं ? सर्वकाल होते हैं ।

विशेषार्थ—यहाँ मूलमें 'आगतं बन्धा' का अर्थ बन्धक है । 'बन्धसामित्तविचय'

१. केवचिरं कालादो होति त्ति एदस्सत्थो—णिरयगदीए णेरइया किमणादि-अपज्जवसिदा, किमणादि-सपज्जवसिदा, कि सादि-अपज्जवसिदा कि सादि-सपज्जवसिदा त्ति सिस्सस्स आसंकुद्दीवणमेदेण कयं । अणादि-अपज्जवसिदा होति सेस तिसु वियप्पेसु णत्थि...जहा णेरइयाणं सामण्णेण अणादिओ अपज्जवसिदो संताणकालो वुत्तो तथा सत्तसु पुढ्धीसु णेरइयाणं पि । पादेवकं संताणस्स वोच्छेदो ण होदि त्ति वुत्तं होदि । —खुदाबन्ध, टीका, पृ० ४६२, ४६३, सूत्र १, २ । २. "ओघेण मिच्छादिद्वी केवचिरं कालादो होति ? णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । सव्वकालं णाणाजीवं पडुच्च मिच्छादिद्वीणं वोच्छेदो णत्थि त्ति भण्णिदं होदि ॥"—ध० टी०, का० पृ० ३२३ । "सासणसम्मादिद्वी केवचिरं कालादो होति ? णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमभो, उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ।"—घट्खं०, का० सू० ५, ६ ।

वेदणीय-भंगो । णवरि तिण्णिआयु-बंधगा केवचिरं कालादो होंति ? जहण्णेण अंतो-मुहुत्तं, उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । अबंधगा सव्वद्धा । तिरिक्खायु-बंधाबंधगा केवचिरं कालादो होंति ? सव्वद्धा । एवं चदुआयुगाणं । एवं ओघभंगो काजोगीसु ओरालियकाजोगी० भवसिद्धि० आहारगत्ति । णवरि भवसिद्धिये दोवेदणीयस्स अबंधगा केव० कालादो होंति ? साधारणेण जहण्णुक्कस्सेण अंतो-मुहुत्तं । सेसाणं मग्गणाणं वेदणीयस्स साधारणेण अबंधगा णत्थि । णवरि काजोगि-ओरालियका० तिण्णं आयुगाणं जहण्णेण एगसमओ ।

२१८. आदेसेण णेरइयेसु धुविगाणं बंधगा केवचिरं कालादो होंति ? सव्वद्धा । अबंधगा णत्थि । थीणगिद्धि-तिर्यं मिच्छत्त-अणंताणु०४ उज्जोव-तित्थयरारणं ओघं । तिरिक्खायु-बंधगा केव० कालादो होंति ? जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । अबंधगा सव्वद्धा । मणुसायु-बंधगा केव० जहण्णुक्कसेण अंतोमुहुत्तं ।

तृतीय खण्डमें पंचम सूत्रमें आगत शब्द “को बन्धो को अबन्धो ?” की टीकामें वीरसेन आचार्य कहते हैं “बंधो बंधगोत्ति भणिदं होवि ।” (पृ० ७)—बन्धका भाव बन्धक है ।

शेष प्रकृतियोंका वेदनीयके समान भंग है । विशेष, ३ आयुके बन्धक कितने काल तक होते हैं ? जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्टसे पल्योपमके असंख्यातवें भाग तक है । अबन्धकोंका सर्वकाल है । तिर्यचायुके बन्धक, अबन्धक कितने काल तक होते हैं ? सर्वकाल होते हैं । इसी प्रकार चार आयुका जानना चाहिए ।

काययोगी, औदारिककाययोगी, भव्यसिद्धिक तथा आहारक मार्गणामें ओघवत् जानना चाहिए । इतना विशेष है कि भव्यसिद्धिकोंमें दो वेदनीयके^३ अबन्धक कितने काल तक होते हैं ? सामान्यकी अपेक्षा जघन्य तथा उत्कृष्टसे अन्तर्मुहूर्त है ।

विशेष—दोनों वेदनीयके अबन्धक अयोगी जिनकी अपेक्षा अन्तर्मुहूर्त काल कहा है ।

शेष मार्गणाओंमें सामान्यसे वेदनीयके अबन्धक नहीं हैं । विशेष, काययोगियों, औदारिक काययोगियोंमें तीन आयुके बन्धक कितने काल तक होते हैं ? जघन्यसे एक समय पयन्त होते हैं ।

२१८. आदेशसे—नारकियोंमें ध्रुवप्रकृतियोंके बन्ध कितने काल तक होते हैं ? सर्वकाल होते हैं ; अबन्धक नहीं हैं ।^१ स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी ४, उद्योत और तीर्थकरके बन्धकोंमें ओघके समान सर्वकाल जानना चाहिए । तिर्यचायुके बन्धक कितने काल तक होते हैं ? जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्टसे पल्यके असंख्यातवें भाग होते हैं । अबन्धक सर्वकाल होते हैं । मनुष्यायुके बन्धक कितने काल तक होते हैं ? जघन्य तथा उत्कृष्टसे

१. जोगाणुवादेण-कायजोगी ओरालियकायजोगी-केवचिरं कालादो होंति ? सव्वद्धा -खु० बं० सू० १६, १७ । भवियाणुवादेण भवसिद्धिया अभवसिद्धिया केवचिरं कालादो होंति ? सव्वद्धा (४२, ४३) आहारा अणाहारा केवचिरं कालादो होंति ? सव्वद्धा (५४, ५५) । २. “चदुहं खवगा अजोगिकेवलो केवचिरं कालादो होंति ? णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ।”—घट्खं०, का०, सू० २६ । ३. “णेरइएसु मिच्छादिट्ठी केवचिरं कालादो होंति ? णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा ।—घट्खं०, का०, ३३ ।

अबंधगा सव्वद्धा । दो-आयु बंधगा केवचिरं ? जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्खस्सेण पलिदोव-
मस्स असंखेज्जदिभागो । अबंधगा सव्वद्धा । सेसाणं पत्तेगेण सव्वे विगप्पा सव्वद्धा ।
साधारणेण अबंधगा णत्थि । एवं सव्वणेरइमाणं ।

२१६. तिरिक्खेसु-चदुआयु ओधं । सेसाणं सव्वे विगप्पा सव्वद्धा । एवं एइदि०
पुढवि० आउ० तेउ० वाउ० वणप्फदि-पत्तेय० तेसिं बादर-बादर-अपज्जत्त-सव्वसुहुम०
वणप्फदि-णिगोद-मदि० सुद० असंजद० तिण्णि लेस्सा० अबभवसि० मिच्छादिट्ठि-
असण्णित्ति ।

२२०. पंचिदिय-तिरिक्खेसु चदुआयु जहण्णेण अंतोमुहुत्तं उक्खस्सेण पलिदोव-
मस्स असंखेज्जदिभागो । अबंधगा सव्वद्धा । सेसाणं सव्वे भंगा सव्वद्धा ।

अन्तर्मुहूर्त होते हैं । अबन्धक सर्वकाल होते हैं । दो आयु अर्थात् मनुष्य-तिर्यचायुके बन्धक
कितने काल तक होते हैं ? जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्टसे पत्यके असंख्यातवें भाग होते हैं ।
अबन्धक सर्वकाल होते हैं । शेष प्रकृतियोंमें सर्व विकल्प पृथक्-पृथक् रूपसे सर्वकालरूप
होते हैं । साधारणसे अबन्धक नहीं हैं । इसी प्रकार सर्व नारकियोंमें जानना चाहिए ।

२१६. 'तिर्यचगतिमें चार आयुके बन्धक, अबन्धक कितने काल तक होते हैं ? ओषके
समान जानना चाहिए । शेष सर्व विकल्प सर्वकाल प्रमाण हैं ।' एकेन्द्रिय, पृथ्वी-
कायिक, जलकायिक, तेजकायिक, वायुकायिक, वनस्पति, प्रत्येक तथा इनके बादर तथा बादर
अपर्याप्तकोंमें, सर्व सूक्ष्मोंमें, वनस्पतिनिगोदोंमें, मत्स्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, कृष्णादि-
लेश्यात्रय, अभव्यसिद्धिक, मिथ्यादृष्टि असंज्ञी पर्यन्तमें पूर्ववत् जानना चाहिए ।

२२०. पंचेन्द्रिय तिर्यचोंमें-चार आयुके बन्धक जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्टसे पत्यके
असंख्यातवें भाग पर्यन्त होते हैं ; अबन्धक सर्वकाल होते हैं । शेष प्रकृतियोंके सर्व विकल्प
सर्वकाल जानना चाहिए ।^३

१. "तिरिक्खगदोए तिरिक्खेसु मिच्छादिट्ठो केवचिरं कालादो होति ? णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा ।"
-षट्खं०, का० ४७ । २. "एइदिया केवचिरं कालादो होति ? णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा ।" -सू० १०७ ।
"पुढविकाइया-आउकाइया-तेउकाइया-वाउकाइया केवचिरं कालादो होति ? णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा ।"
-सू० १३९ । 'बादरपुढविकाइय-बादरआउकाइय-बादरतेउकाइय-बादरवणप्फदिकाइय-पत्तेयसरीर-अपज्जत्ता
केवचिरं कालादो होति ? णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा ।' (१४८) "सुहुमपुढविकाइया सुहुमआउकाइया सुहुमतेउ-
काइया सुहुमवाउकाइया सुहुमवणप्फदिकाइया सुहुमणिपोदजीवा सुहुमेइदिय पज्जत्तअपज्जत्ताणं भंगो ।"
-सू० १५१ । "णाणाणुवादेण मदि अण्णाणि-सुदअण्णाणीसु मिच्छादिट्ठो ओधं ।" (२६०) "असंजदेषु मिच्छा-
दिट्ठुपहुडि जाव असंजदसम्मादिट्ठि ओधं ।" (२७५) । "किण्हलेस्सिय-णीललेस्सिय-काउलेस्सिएसु मिच्छादिट्ठो
केवचिरं कालादो होति ? णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा ।" (२८३) । "अभवसिद्धिया केवचिरं कालादो होति ?
णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा ।" (३१५) । "मिच्छादिट्ठो ओधं ।" (३२९) । "असण्णो केवचिरं कालादो होति ?
णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा ।" (३३४) । ३. तिरिक्खगदोए तिरिक्खा पंचिदिय, तिरिक्खा पंचिदियतिरि-
क्खपज्जत्ता पंचिदिय तिरिक्खजोणणी पंचिदिय तिरिक्ख अपज्जत्ता...केवचिरं कालादो होति ?
सव्वद्धा । (४,५)

२२१. एवं पंचिन्द्रिय-तिरिक्ख-पञ्जत्तजोणिणीसु । पंचिन्द्रिय-तिरिक्ख-अपञ्ज-दो आयुबंधगा जहण्णेण अंतोमुहुत्तं । उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । अबंधगा सव्वद्धा । एवं सव्वविगलिन्द्रिय-पंचिन्द्रिय-तस० अपञ्जत्त-बादर-पुद्वि० आउ० तेउ० वाउ-बादरवणप्फदिपत्तेय-पञ्जत्ताणं ।

२२२. मणुसेसु सादासादबंधगा सव्वद्धा । दोण्णं वेदणीयाणं बंधगा सव्वद्धा । अबंधगा जहण्णुक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । दोआयु० बंधगा जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । अबंधगा सव्वद्धा । दोआयु० बंधगा जहण्णुक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । अबंधगा सव्वद्धा । चदुआयुबंधगा जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण पलिदोव-मस्स असंखेज्जदिभागो । अबंधगा सव्वद्धा । सेसाणं सव्वे भंगा सव्वद्धा ।

२२३. एवं मणुसपञ्जत्त-मणुसिणीसु । णवरि चदुआयु पत्तेगेण साधारणेण य बंधगा जहण्णुक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । अबंधगा केवचिरं कालादो होति ? सव्वद्धा ।

२२१. पंचेन्द्रिय तिर्यंच, पंचेन्द्रिय तिर्यंचपर्याप्तक, पंचेन्द्रिय तिर्यंचयोनिमतियोंमें इसी प्रकार जानना चाहिए। पंचेन्द्रिय तिर्यंचलब्धपर्याप्तकोंमें दो आयु (नर-तिर्यंचायु) के बन्धक जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्टसे पल्यके असंख्यातवें भाग होते हैं। अबन्धक सर्वकाल होते हैं। सर्वविकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय त्रस इनके अपर्याप्तकोंमें बादर-पृथ्वी-जल-अग्नि-वायुकायिक, बादर बनस्पति प्रत्येक तथा इनके पर्याप्तकोंमें इसी प्रकार जानना चाहिए।

२२२. मनुष्योंमें—साता-असाता वेदनीयके बन्धकोंका सर्वकाल है।^२ दोनों वेदनीयके बन्धकोंका सर्वकाल है। अबन्धकोंका जघन्य-उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है।^३

विशेष—दोनों वेदनीयके अबन्धक अयोगिजिनोंकी अपेक्षा अन्तर्मुहूर्त कहा गया है।

दो आयुके बन्धक जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्टसे पल्यके असंख्यातवें भाग होते हैं; अबन्धक सर्वकाल होते हैं। दो आयुके बन्धक जघन्य-उत्कृष्टसे अन्तर्मुहूर्त होते हैं; अबन्धकोंका सर्वकाल है। चारों आयुके बन्धकोंका जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्टसे पल्यके असंख्यातवें भाग होते हैं; अबन्धक सर्वकाल होते हैं। शेष प्रकृतियोंके सर्वभंग सर्वकाल जानना चाहिए।

२२३. मनुष्य पर्याप्तकों, मनुष्यनियोंमें इसी प्रकार जानना चाहिए। विशेष यह है कि चार आयुके प्रत्येक तथा सामान्यसे बन्धक जघन्य और उत्कृष्टसे अन्तर्मुहूर्त पर्यन्त होते हैं। अबन्धक कितने काल तक होते हैं? सर्वकाल होते हैं।

१. इन्द्रियाणुवादेण एइन्द्रिया बादरा सुहुमा पञ्जत्ता अपञ्जत्ता बीइन्द्रिया तीइन्द्रिया चउरिन्द्रिया पंचिन्द्रिया । तस्सेव पञ्जत्ता अपञ्जत्ता केवचिरं कालादो होति ? सव्वद्धा । १२, १३। कायाणुवादेण पुढविकाइया आउकाइया तेउकाइया वाउकाइया वणप्फदिकाइया णिगोदजीवा बादरा सुहुमा पञ्जत्ता अपञ्जत्ता बादर वणप्फ-दिकाइयपत्तेयसरोरपञ्जत्ता तसकाइय-पञ्जत्ता अपञ्जत्ता केवचिरं कालादो होति ? सव्वद्धा -१४, १५, खु० बं० । २. मणुसगदीए मणुसा मणुस-पञ्जत्ता मणुसिणी केवचिरं कालादो होति ? सव्वद्धा (४, ५) । ३. “चदुहं खवगा अजोगिकेवली केवचिरं कालादो होति ? णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ।”-पटखं०, का०, २६ ।

२२४. मणुस-अपज्जत्तेसु-धुविगानं बंधगा केव० कालादो होंति ? जहण्णेण खुदाभवग्गहणं, उक्क० पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । अबंधगा णत्थि । सादासाद-बंधगा अबंधगा जहण्णेण एगसमओ, उक्क० पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । दोणं बंधगा जहण्णेण खुदाभवग्गहणं, उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । अबंधगा णत्थि । दो-आयु० पत्तेगेण साधारणेण य बंधगा-अबंधगा जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । ओरालि० अंगो० छस्संघड० परघादुस्सा० आदाउज्जो० दोविहाय० दोसरं बंधगा-अबंधगा जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । एवं पत्तेगेण साधारणेण वि । सेसाणं वेदणीयभंगो ।

२२५. देवाणं णिरयभंगो । णवरि एइंदियपयडि जाणिदूण भाणिदव्वं ।

२२६. पंचिदिय-तस० तेसिं पज्जत्ता वेदणीयं साधारणेण अबंधगा जहण्णुक-

२२४. मनुष्य लब्धपर्याप्तकों^१में-ध्रुव प्रकृतियोंके बन्धक कितने काल तक होते हैं ? जघन्यसे क्षुद्रभवग्रहण काल, उत्कृष्टसे पल्यके असंख्यातवें भाग पर्यन्त होते हैं; अबन्धक नहीं हैं। साता-असाता वेदनीयके बन्धक, अबन्धक जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे पल्यके असंख्यातवें भाग होते हैं। दोनोंके बन्धक जघन्यसे क्षुद्रभवग्रहण पर्यन्त, उत्कृष्टसे पल्यके असंख्यातवें भाग होते हैं; अबन्धक नहीं हैं। दो आयु (मनुष्य-तिर्यंचायु) के बन्धक-अबन्धक प्रत्येक साधारणसे जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्टसे पल्योपमके असंख्यातवें भाग हैं। औदारिक अंगोपांग, छह संहनन, परघात-उच्छ्वास-आतप, उद्योत, दो विहायोगति, दो स्वरके बन्धक, अबन्धक जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे पल्योपमके असंख्यातवें भाग हैं। सामान्य तथा प्रत्येकसे इसी प्रकार जानना चाहिए। शेषका वेदनीयके समान भंग जानना चाहिए। अर्थात् जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे पल्योपमका असंख्यातवाँ भाग है।

२२५. देवोंमें-नारकियोंके समान भंग है। विशेष यह है कि यहाँ एकेन्द्रिय प्रकृतिको भी जानकर कहना चाहिए।

विशेष—नारकी जीव मरणकर संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तक मनुष्य या तिर्यंच होते हैं, किन्तु देवोंकी उत्पत्ति एकेन्द्रियोंमें भी होती है। अतः देवगतिमें एकेन्द्रिय जातिके बन्धका भी बल्लेख है।

२२६. पंचेन्द्रिय त्रस तथा इनके पर्याप्तकोंमें-साधारणसे वेदनीयके अबन्धकोंका

१. "मणुस-अपज्जत्ता केवचिरं कालादो होंति ? णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण खुदाभवग्गहणं, उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ।" -षट्खं०, का०, ८३-८४ । खुदाबंध, सू० ६, ७, ८ ।
 २. "णेरइएसु मिच्छादिट्ठी केवचिरं कालादो होंति ? णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । सासणसम्मादिट्ठी-सम्मामिच्छादिट्ठी ओषं ।" -षट्खं०, का०, ३६ । देवगदीए देवा केवचिरं कालादो होंति ? सव्वद्धा । -खु० बं०, सू० ६, १० । "सासण-सम्मादिट्ठी केवचिरं कालादो होंति ? णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ।" (५, ६) । "सम्मामिच्छादिट्ठी केवचिरं कालादो होंति ? णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ।" (९, १०) असंजदसम्मादिट्ठी केवचिरं कालादो होंति ? णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा ।" -षट्खं०, का०, १३ ।

स्सेण अंतोमुहुत्तं, चदुष्णं आयुगाणं बंधगा जहण्णेण अंतोमुहुत्तं उक्कं पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । सेस-भंगा सव्वद्धा ।

२२७. एवं तिण्णि-मण० तिण्णि-वचि० । णवरि वेदणीयस्स साधारणेण अबंधगा णत्थि । चदुआयु० बंधगा जहण्णेण एगस०, उक्कं पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । दोमण० दोवचि० पंचणा० छदंसणा० चदुसंज० भयदु० तेजाक० वण्ण०४ अगु० उप० णिमिण० पंचंतराइगाणं बंधगा सव्वद्धा । अबंधगा जह० एगसमओ, उक्कं अंतोमुहुत्तं । सादासादाणं बंधगा-अबंधगा सव्वद्धा । दोष्णं बंधगा सव्वद्धा, अबंधगा णत्थि । इत्थि० पुरिस० णवुंसगवेदाणं बंधगा-अबंधगा सव्वद्धा । तिण्णं वेदाणं बंधगा सव्वद्धा । अबंधगा जह० एगसमओ, उक्कं अंतोमुहुत्तं । एवं दोयुगलचदुग्दि-पंचजादि-दोसररीरछस्संठाण-चदुआणुपुत्वि० तस-थावरादि-णवयुगलं दोगोदं च । आहारदुगं दो-अंगो० छस्संघ० परघादुस्मास-आदाउज्जो० दो विहाय० दोसर० तित्थय० पत्तेणेण साधारणेण बंधगा-अबंधगा सव्वद्धा । चदुष्णं आयुगाणं बंधगा जह० एगस०, उक्कं, पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । अबंधगा सव्वद्धा ।

२२८. एवं चक्खुदं० अचक्खुदं० सण्णि ति । णवरि चक्खुदं० सण्णि० आयु०

जघन्य, उत्कृष्टकाल अन्तमुहूर्त है । चार आयुके बन्धकोंका जघन्यसे अन्तमुहूर्त, उत्कृष्टसे पल्योपमका असंख्यातवाँ भाग है । शेष भंग सर्वकाल है ।

२२७. तीन मनोयोग, तीन वचनयोगमें इसी प्रकार है । इतना विशेष है कि वेदनीयके सामान्यसे अबन्धक नहीं है । चार आयुके बन्धकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्ट पल्योपमका असंख्यातवाँ भाग काल है । दो मन तथा दो वचनयोगमें-पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, ४ संज्वलन, भय, जुगुप्सा, तैजस-कार्माण, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण तथा पाँच अन्तरायोंके बन्धकोंका सर्वकाल है । अबन्धकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे अन्तमुहूर्त है । साता-असाताके बन्धकों-अबन्धकोंका काल सर्वकाल है । दोनोंके बन्धकोंका सर्वकाल है, अबन्धक नहीं हैं । स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेदके बन्धकों, अबन्धकोंका सर्वकाल है । तीनों वेदोंके बन्धकोंका सर्वकाल है । अबन्धकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे अन्तमुहूर्त है । हास्यादि दो युगल, चार गति, पाँच जाति, दो शरीर, छह संस्थान, ४ आनुपूर्वी, त्रस-स्था-वरादि नव युगल तथा दो गोत्रोंमें भी इसी प्रकार जानना, अर्थात् अबन्धकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे अन्तमुहूर्त है तथा बन्धकोंका सर्वकाल है । आहारकद्विक, २ अंगोपांग, ६ संहनन, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, दो विहायोगति, २ स्वर तथा तीर्थंकर प्रकृतिके बन्धकों, अबन्धकोंका प्रत्येक तथा सामान्यसे सर्वकाल है । चार आयुके बन्धकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे पल्योपमका असंख्यातवाँ भाग है; अबन्धकोंका सर्वकाल है ।^१

२२८. चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन तथा संज्ञी जीवोंमें इसी प्रकार जानना चाहिए । विशेष,

१. जोगाणुवादेण पंचमणजोगी पंचवचिजोगी कायजोगी ओरालियकायजोगी ओरालियमिस्सकायजोगी वेउवियकायजोगी कम्मइयकायजोगी केवचिरं कालादो होति ? सव्वद्धा -स्व० वं०, १६, १७ ।

तस-भंगो । अचक्खुदं आयु० ओघं ।

२२६. ओरालिमि०-धुविगणं बंधगा सच्चद्धा । अबंधगा जह० एगसमओ । उक्कस्सेण संखेज्जसमया । सादासाद-बंधगा-अबंधगा सच्चद्धा । दोण्णं बंधगा सच्चद्धा, अबंधगा णत्थि । इत्थि० पुरिस० णवुंसगवेदाणं बंधगा-अबंधगा सच्चद्धा । तिण्णं वेदाणं बंधगा सच्चद्धा । अबंधगा जह० एगस० । उक्क० संखेज्जसमया । एवं दोण्णं युगत्ताणं । दोआयु ओघं । देवगदि०४ तित्थय० बंधगा जहण्णुक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । अबंधगा सच्चद्धा । दोगदिबंधगा-अबंधगा सच्चद्धा । तिण्णं गदीणं बंधगा सच्चद्धा । अबंधगा जह० एगसमओ । उक्क० संखेज्जसमया । मिच्छत्तबंधगा सच्चद्धा । अबंधगा जह० एगस०, उक्क० पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । थीणगिद्धि-तियं अणंताणुबंधि० ४ ओरालि० बंधगा सच्चद्धा । अबंधगा जह० एगसमओ । उक्क० अंतोमुहुत्तं । एवं

चक्षुदर्शन, एवं संज्ञी जीवोंमें आयुका त्रसके समान भंग है । आयुका अचक्षुदर्शनमें ओघवत् जानना चाहिए ।

२२६. औदारिकमिश्र काययोगमें—ध्रुव प्रकृतियोंके बन्धकोंका सर्वकाल है, अबन्धकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे संख्यात समय प्रमाण है^१ । साता-असाताके बन्धकों-अबन्धकोंका सर्वकाल है । दोनोंके बन्धकोंका सर्वकाल है, अबन्धक नहीं है । स्त्रीवेद, पुरुष-वेद, नपुंसकवेदके बन्धकों, अबन्धकोंका सर्वकाल है । तीनों वेदोंके बन्धकोंका सर्वकाल है । अबन्धकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे संख्यात समय है । इस प्रकार दो युगलोंमें जानना चाहिए । दो आयुमें ओघवत् जानना चाहिए । देवगति ४, तीर्थंकरके बन्धकोंका जघन्यसे, उत्कृष्टसे अन्तमुहूर्त काल है^२ ; अबन्धकोंका सर्वकाल है । दो गतिके बन्धकों, अबन्धकोंका सर्वकाल है । तीन गतिके बन्धकोंका सर्वकाल है । अबन्धकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे संख्यात समय है । मिथ्यात्वके बन्धकोंका सर्वकाल है^३ । अबन्धकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे पल्योपमका असंख्यातवाँ भाग है । स्थानगुद्धित्रिक, अनन्तानुबन्धी ४ तथा औदारिक शरीरके बन्धकोंका सर्वकाल है । अबन्धकोंका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अन्तमुहूर्त है । इसी

१. दंसणणुवादेण चक्खुदंसणी अचक्खुदंसणी ओहिदंसणी केवलदंसणी केवचिरं कालादो होति ? सच्चद्धा -३८, ३६ सू०, खु० बं० । सण्णियाणुवादेण सण्णी असण्णी केवचिरं कालादो होति ? सच्चद्धा । -५२, ५३, खु० बं०, सू० । २. "दंड समुद्घातसे कपाटको प्राप्त होकर वहाँ एक समय रहकर प्रतर समुद्घातको प्राप्त हुए केवलियोंके यह एक समय प्रमाण काल होता है । अथवा हचकसे कपाटसमुद्घातको प्राप्त होकर और एक समय रहकर दण्डसमुद्घातको प्राप्त होनेवाले केवलियोंके एक समय काल होता है । कपाटसमुद्घातके आरोहण-अवरोहणरूप क्रियापे संलग्न क्रमशः दण्ड, प्रतररूप पर्याय परिणत संख्यात समयोंकी पक्षितमें स्थित संख्यातकेवलियोंके द्वारा अधिकृत अवस्थामें संख्यात समय पाये जाते हैं ।" -ध० टी०, का० ४२४ । "सजोगिकेवली केवचिरं कालादो होति ? णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं; उक्कस्सेण संखेज्जसमयं"-षट्खं०, का० १९३-९४ । ३. "असंजदसम्मादिट्ठी केवचिरं कालादो होति ? णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ।"-षट्खं०, का० १८२-९० । ४. "सासणसम्मादिट्ठी केवचिरं कालादो होति ? णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं, उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ।"-षट्खं०, का०, १८५-८६ ।

सव्वारणं षोडश्वं ।

२३०. एवं कम्मइयका० । णवरि थीणगिद्धितिंगं मिच्छ० अणंताणु०४ बंधगा सव्वद्दा, अबंधगा जह० एगसमओ, उक्कस्सेण आवलियाए असंखेज्जदिभागो । देवगदि०४ तिथ्यरं बंधगा जह० एगस० । उक्क० संखेज्जसमया । अबंधगा सव्वद्दा । ओरालिय-बंधगा सव्वद्दा । अबंधगा जह० एगसमओ । उक्कस्सेण संखेज्जसमया ।

२३१. वेउव्विकायजोगिस्स देवोषं । वेउव्वियमिस्स० धुविमाणं बंधगा जहण्णेण अंतोमुहुत्तं । उक्कस्सेण पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागो । अबंधगा णत्थि । थीणगिद्धितिंगं मिच्छत्त अणंताणुबंधि०४ बंधगा-अबंधगा जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । णवरि मिच्छत्त-अबंधगा जहण्णेण एगसमओ । दोवेदणीय-बंधगा-अबंधगा जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । दोण्णं बंधगा जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । अबंधगा णत्थि । एवं तिण्णं वेदाणं दोण्णं युगलाणं दोगदि-दोजादि-छस्संटाण-दोआणुपुव्वि-तसथावरादि-पंच-युगल-दोगोदाणं च । ओरालि-अंगोवंग-छस्संघडण-

प्रकार सर्व प्रकृतियोंका जानना चाहिए ।

२३०. कार्मण काययोगियोंमें—इसी प्रकार जानना चाहिए । विशेष यह है कि स्त्यान-गृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी ४ के बन्धकोंका सर्वकाल है । अबन्धकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे आवलीका असंख्यातवाँ भाग है । देवगति ४, तीर्थकरके बन्धकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे संख्यात समय है । अबन्धकोंका सर्वकाल है । औदारिक शरीरके बन्धकोंका सर्वकाल है । अबन्धकोंका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट संख्यात समय है ।

२३१. वैक्रियिक काययोगियोंमें—देवोंके ओघवत् जानना चाहिए । वैक्रियिकमिश्र काय-योगियोंमें—ध्रुव प्रकृतियोंके बन्धकोंका काल जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त है । उत्कृष्टसे पल्यके असंख्यातवाँ भाग है ; अबन्धक नहीं हैं । स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चारके बन्धकों, अबन्धकोंका काल जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्टसे पल्यके असंख्यातवाँ भाग है । विशेष यह है कि मिथ्यात्वके अबन्धकोंका जघन्य काल एक समय है । दोनों वेदनीयके बन्धकों, अबन्धकोंका काल जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे पल्यका असंख्यातवाँ भाग है । दोनोंके बन्धकोंका काल जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्टसे पल्यका असंख्यातवाँ भाग है ; अबन्धक नहीं हैं । तीनों वेदों, हास्यादि दो युगलों, २ गति, २ जाति, ६ संस्थान, दो आनुपूर्वी, त्रस-स्थावरादि पंचयुगल तथा दो गोत्रोंमें इसी प्रकार जानना चाहिए । औदारिक अंगोपांग, ६ संहनन, दो विहायोगति

१. "सासणसम्मादिट्ठी असंजदसम्मादिट्ठी केवचिरं कालादो होति ? णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं, उक्कस्सेण आवलियाए असंखेज्जदिभागो ।" षट्खं०, का०, २२०-२१ । २. "वेउव्वियमिस्सकाय-जोगीसु मिच्छादिट्ठीअसंजदसम्मादिट्ठी केवचिरं कालादो होति ? णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ।" षट्खं०, का०, २०१-२०२ । ३. "सासणसम्मादिट्ठी केवचिरं कालादो होति ? णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं, उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ।" षट्खं०, का०, २०५-२०६ ।

दोविहायगदि-दोसराणं बंधगा अबंधगा जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । तित्थयरं बंधगा जहण्णुकस्सेण अंतोमुहुत्तं । अबंधगा जहण्णेण अंतो-मुहुत्तं, उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । आहारका०-धुविगाणं बंधगा जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । अबंधगा णत्थि । सेसाणं बंधगा अबंधगा जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । आहारमि०-धुविगाणं बंधगा जहण्णुकस्सेण अंतोमुहुत्तं । अबंधगा णत्थि । वेदणीय-बंधगा-अबंधगा जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । दोण्णं बंधगा जहण्णुकस्सेण अंतोमुहुत्तं । अबंधगा णत्थि । आयु० तित्थय० सादभंगो ।

२३२. इत्थिवे०-पं० गा० चदुदंस० चदुसंज० पंचंत० बंधगा सव्वद्धा । अबंधगा णत्थि । थीणगिद्धि०३ मिच्छत्त-चारसक० आहारदुग-परघादुस्सास-आदा-उज्जोव-तित्थय-राणं बंधगा अबंधगा सव्वद्धा । णिहापचल(ला)-भयदु० तेजाक० वण्ण०४ अगु० उप० णिमि० बंधगा सव्वद्धा । अबंधगा जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । सादासाद-बंधगा अबंधगा सव्वद्धा । दोण्णं बंधगा सव्वद्धा । अबंधगा णत्थि । एवं

तथा दो स्वरोके बन्धकों-अबन्धकोंका काल जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे पल्योपमका असंख्यातवाँ भाग है । तीर्थकरके बन्धकोंका जघन्य तथा उत्कृष्टसे अन्तर्मुहूर्त है । अबन्धकोंका जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्टसे पल्योपमका असंख्यातवाँ भाग है ।

आहारककाययोगियोंमें ध्रुव प्रकृतियोंके बन्धकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे अन्तर्मुहूर्त है ; अबन्धक नहीं है । शेष प्रकृतियोंके बन्धकों, अबन्धकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे अन्तर्मुहूर्त है ।

आहारकमिश्रमें—ध्रुव प्रकृतियोंके बन्धकोंका जघन्य तथा उत्कृष्टसे अन्तर्मुहूर्त है । अबन्धक नहीं है । वेदनीयके बन्धकों अबन्धकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे अन्तर्मुहूर्त है । दोनोंके बन्धकोंका जघन्य तथा उत्कृष्टसे अन्तर्मुहूर्त है ; अबन्धक नहीं है । आयु तथा तीर्थकरमें साताके समान भंग है ।

२३२. स्त्रीवेदमें^३—५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, ४ संज्वलन, ५ अन्तरायके बन्धकोंका सर्वकाल है ; अबन्धक नहीं है । स्त्यानगृद्धिजिक, मिथ्यात्व, १२ कषाय, आहारकद्विक, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत तथा तीर्थकरके बन्धकों, अबन्धकोंका सर्वकाल है । निद्रा-प्रचला, भय-जुगुप्सा, तैजस कार्मण, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माणके बन्धकोंका सर्वकाल है । अबन्धकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे अन्तर्मुहूर्त है । साता असाता वेदनीयके बन्धकों

१. “आहारकायजोगीसु पमत्तसंजदा केवचिरं कालादो होति ? णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं, उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ।” -षट्खं० का० २०६-२१० । २. “आहारमिस्सकायजोगीसु पमत्तसंजदा केवचिरं कालादो होति ? णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ।” -षट्खं० का० २१३-१४ । ३. “इत्थिवेदेसु मिच्छादिट्ठी केवचिरं कालादो होति ? णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा ।” -षट्खं० का० २२७ । “वेदानुवादेण इत्थिवेदा पुरिसवेदा णवुंसयवेदा अषगदवेदा केवचिरं कालादो होति ? सव्वद्धा ।” - २७, २८ खु० बं० । ४. “असंजदसम्मादिट्ठी केवचिरं कालादो होति ? णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा ।” -षट्खं० का० २३२ । ५. “चदुण्णं उवसमा केवचिरं कालादो होति ? णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं, उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ।” -षट्खं० का० २२-२३ ।

तिष्णि-वेद-जस०-अजस० दोगोदं च । हस्सरदि-अरदि-सोगं बंधगा अबंधगा सव्वद्धा । दोष्णं युगलानं बंधगा सव्वद्धा । अबंधगा जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । सेसाणं पत्तेगेण साधारणेण वि हस्सरदीणं भंगो । चदुआयुमाणं बंधगा पत्तेगेण जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । अबंधगा सव्वद्धा । साधारणेण चदुआयुमाणं बंधगा जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । अबंधगा सव्वद्धा । एवं पुरिसवेदस्स वि । एवं चैव णवुंसगवेद-कोधादितिष्णं कसायाणं । णवरि तिरिक्खायुबंधगा अबंधगा सव्वद्धा । साधारणेण चदुआयुमाणं अबंधगा सव्वद्धा । एवं चैव लोभे वि । णवरि पंचणा० चदुदं पंचंतराइमाणं बंधगा सव्वद्धा । अबंधगा णत्थि । अवगदवेदेसु-सादस्स बंधाबंधगा सव्वद्धा । सेसाणं बंधगा जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । अबंधगा सव्वद्धा । अकसाइगेसु-सादस्स बंधगा अबंधगा सव्वद्धा । एवं केवलणा० केवलदंस० ।

२३३. विभंगे पंचिदिय-तिरिक्ख-भंगो । णवरि-मिच्छत्त-अबंधगा जहण्णेण एग-

अबन्धकोंका सर्वकाल है । दोनोंके बन्धकोंका सर्वकाल है । अबन्धक नहीं है । तीन वेद, यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति तथा दो गोत्रोंमें इसी प्रकार जानना चाहिए । हास्य-रति, अरति-शोकके बन्धकों, अबन्धकोंका सर्वकाल है । दोनों-युगलोंके बन्धकोंका सर्वकाल है । अबन्धकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे अन्तर्मुहूर्त है । शेष प्रकृतियोंमें प्रत्येक तथा सामान्यसे हास्य-रतिके समान भंग जानना चाहिए । चार आयुके बन्धकोंका प्रत्येकसे जघन्यकी अपेक्षा अन्तर्मुहूर्त काल है, उत्कृष्टसे पत्योपमका असंख्यातवाँ भाग है । अबन्धकोंका सर्वकाल है । सामान्यसे चार आयुके बन्धकोंका काल जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्टसे पत्यका असंख्यातवाँ भाग है । अबन्धकोंका सर्वकाल है ।

पुरुषवेदमें-इसी प्रकार जानना चाहिए । नपुंसकवेदमें भी इसी प्रकार है । क्रोध-मान-मायाकषायमें भी इसी प्रकार है । विशेष यह है कि तिर्यंच आयुके बन्धकों अबन्धकोंका सर्वकाल है । सामान्यसे चार आयुके बन्धकों, अबन्धकोंका सर्वकाल है । लोभकषायमें-इसी प्रकार जानना चाहिए । विशेष यह है कि ५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण तथा ५ अन्तरायोंके बन्धकोंका सर्वकाल है ; अबन्धक नहीं है ।

अपगत वेदमें-सातावेदनीयके बन्धकों अबन्धकोंका सर्वकाल है । शेष प्रकृतियोंके बन्धकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे अन्तर्मुहूर्त है । अबन्धकोंका सर्वकाल है ।

अकषायियोंमें-साता वेदनीयके बन्धकों, अबन्धकोंका सर्वकाल है । केवलज्ञान, केवलदर्शनमें इसी प्रकार जानना चाहिए ।

२३३. विभंगज्ञानमें^३-पंचेन्द्रिय तिर्यंचके समान भंग जानना चाहिए । विशेष यह है

१. 'कसायाणुवादेण कोधकसाई माणकसाई मायकसाई लोभकसाई अकसाई केवचिरं कालादो हंति ? सव्वद्धा'—खु० वं० सू० २८, २९। २. 'णाणाणुवादेण मदिअण्णाणी सुदअण्णाणी विभंगणाणी आभिणिक्कोहिय-सुद-ओहिणाणीमणपज्जवणाणी केवलणाणी केवचिरं कालादो हंति ? सव्वद्धा'—खु० वं० सू० ३१, ३२। ३. 'विभंगणाणीसु मिच्छादिट्ठी केवचिरं कालादो हंति ? णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा।'—घट्खं० का० २६२। 'सासणसम्मादिट्ठी ओधं (२६५) णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ।' ५-६ ।

समओ, उक्कस्सेण पलिदोवपस्स असंखेज्जदिभागो ।

२३४. आभि० सुद० ओधि०-ध्रुविगणं बंधगा सव्वद्धा । अबंधगा जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । अट्टकसा० आहारदु० वज्जरिसभ० तित्थय० बंधाबंधगा सव्वद्धा । सेसाणं दोण्णं मणज्जोगीणं भंगो । णवरि मणुसायु० मणुसिभंगो । देवायु० ओघं ।

२३५. एवं ओधिदंस० । एवं चेव मणपज्जव० सामा० छेदो० । णवरि देवायु० मणुसिभंगो । संजदा मणुसिभंगो ।

२३६. परिहार-ध्रुविगणं बंधगा सव्वद्धा । अबंधगा णत्थि । दोवेदणीयाणं बंधाबंधगा सव्वद्धा । दोण्णं पगदीणं बंधगा सव्वद्धा । अबंधगा णत्थि । देवायु० मणुसिभंगो । सेसं वेदणीयभंगो ।

२३७. एवं संजदासंजदाणं । देवायु० ओघं । सुहुम० सव्वाणं बंधगा जहण्णेण

कि मिथ्यात्वके अबन्धकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे पत्योपमका असंख्यातवाँ भाग है ।

२३४. 'आभिनिबोधिकज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञानमें-ध्रुव प्रकृतियोंके बन्धकोंका सर्वकाल है । अबन्धकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे अन्तमुहूर्त है । आठ कषाय, आहारकद्विक, वज्रवृषभसंहनन, तीर्थकरके बन्धकों, अबन्धकोंका सर्वकाल है । शेष प्रकृतियोंका दो मनोयोगियोंके समान भंग है । अर्थात् बन्धकोंका सर्वकाल है । अबन्धकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे अन्तमुहूर्त है । विशेष यह है कि मनुष्यायुका मनुष्यनियोंके समान भंग है । देवायुके विषयमें ओघवत् जानना चाहिए ।

२३५. इसी प्रकार अवधिदर्शनमें जानना चाहिए । मनःपर्ययज्ञान, सामायिक, छेदोपस्थापना, संयममें इसी प्रकार जानना चाहिए । विशेष यह है कि देवायुके बन्धकोंमें मनुष्यनीका भंग जानना चाहिए । संयतोमें मनुष्यनीका भंग है ।

२३६. परिहारविशुद्धिसंयममें-ध्रुवप्रकृतियोंके बन्धकोंका सर्वकाल है, अबन्धक नहीं है । दोनों वेदनीयोंके बन्धकों, अबन्धकोंका सर्वकाल है । दोनों प्रकृतियोंके बन्धकोंका सर्वकाल है, अबन्धक नहीं है । देवायुका मनुष्यनीके समान भंग है । शेष प्रकृतियोंमें वेदनीयका भंग है ।

२३७. संयतासंयतोमें इसी प्रकार जानना चाहिए । देवायुका ओघवत् भंग जानना

१. "आभिणिबोहियणाणि-सुदणाणि-ओधिणाणीसु असंजदसम्मादिट्ठिप्पहुडि जाव खीणकषायवीदराग-छदुमत्थात्ति ओघं ।"-सू० २६६ । "असंजदसम्मादिट्ठी केवचिरं कालादो हीति ? णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । संजदासंजदा.....सव्वद्धा । पमत्त-अप्पमत्तसंजदा.....सव्वद्धा । चउण्हं उवसमा.....णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं, उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । चदुण्हं खवगा अजोगिकेवली.....जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ।"-सू० १३, १६, १९, २२, २३, २६, २७ । २. "मणपज्जवणाणी.....केवचिरं कालादो हीति ? सव्वद्धा"-सू० वं०, ३१, ३२ । "संजमाणुवादेण । संजदा सामाहयच्छेदोवट्ठावणसुद्धिसंजदा परिहारसुद्धिसंजदा जहावखादावेहारसुद्धिसंजदा संजदासंजदा असंजदा केवचिरं कालादो हीति ? सव्वद्धा ।"

एगसमओ, उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । अबंधगा णत्थि ।

२३८. तेऊ देवोर्धं । एवं पम्मए वि । सुक्काए धुविगाणं बंधाबंधगा सव्वद्धा ।
सेसं मणुस-पक्कत्तभंगो ।

२३९. सम्मादि० दोआयु ओधिभंगो १ सेसं सव्वद्धा १ एवं खइग-सम्मा० ।
दोआयु सुक्कभंगो । वेदगे०—धुविगाणं बंधा सव्वद्धा, अबंधगा णत्थि । सेसं ओधिभंगो ।
एत्तरि साधारणेण अबंधगा णत्थि ।

२४०. उवसमसम्मा०—धुविगाणं बंधगा जहण्णेण अंतोमुहुत्तं । उक्कस्सेण पलि-
दोवमस्स असंखेज्जदिभागे । अबंधगा जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ।

चाहिए । सूक्ष्मसाम्परायसंयममें सर्व प्रकृतियोंके बन्धकोंका जघन्यकाल एक समय, उत्कृष्टसे
अन्तर्मुहूर्त है । अबन्धक नहीं है ।

विशेषार्थ—उपशान्तकषाय वा अनिवृत्ति बादर साम्पराय प्रविष्ट जीवोंके सूक्ष्म साम्प-
रायिक गुणस्थानको प्राप्त होनेके द्वितीय समयमें मरणकर देवोंमें उत्पन्न होनेपर एक समय
जघन्यकाल पाया जाता है । उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त कहा है, उसमें संख्यात अन्तर्मुहूर्तोंका
समावेश है । (खु० बं०, टीका, पृ० ४५३, ४७४)

२३८. तेजोलेश्यामें—देवोंके ओघ समान है । पद्मालेश्यामें—इसी प्रकार है । शुक्कलेश्यामें—
ध्रुवप्रकृतियोंके बन्धकों अबन्धकोंका सर्वकाल है । शेष प्रकृतियोंका मनुष्यपर्याप्तके समान
भंग है ।

२३९. सम्यग्दृष्टियोंमें—दो आयुके बन्धकों अबन्धकोंका ओघके समान भंग है । शेष
प्रकृतियोंमें सर्वकाल भंग है । श्वायिकसम्यक्त्वियोंमें—इसी प्रकार है । दो आयुका शुक्कलेश्याके
समान भंग है । वेदकसम्यक्त्वियोंमें—ध्रुवप्रकृतियोंके बन्धकोंका सर्वकाल है । अबन्धक नहीं
है । शेष प्रकृतियोंका अवधिज्ञानके समान भंग है । विशेष यह है कि सामान्यसे अबन्धक
नहीं है ।

२४०. उपशमसम्यक्त्वियोंमें—ध्रुव प्रकृतियोंके बन्धकोंका काल जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त,
उत्कृष्टसे पल्यके असंख्यातवें भाग है । अबन्धकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे अन्तर्मुहूर्त है ।

१. "सुद्धमसांपराइयसुद्धिसंजदेसु सुद्धमसांपराइयसुद्धिसंजदा उवसमा खवा ओर्धं ।" —२७२ ।
२. "तेउलेस्सिय-पम्मलेस्सिएसु मिच्छादिट्ठी असंजदसम्मादिट्ठी सव्वद्धा" —पट्खं०, का०, २९१ ।
"सासणसम्मादिट्ठी ओर्धं ।" —२६४ । "सम्मामिच्छादिट्ठी ओर्धं ।" —२९५ । "संजदासंजदपमत्तअपमत्त-
संजदा सव्वद्धा ।" —२९६ । ३. "सुक्कलेस्सिएसु चट्ठहमुवसमा चट्ठहं खवगा सजोगिकेवली ओर्धं ।" —३०८ ।
४. "सम्मत्ताणुवादेण सम्माइट्ठी खइयसुम्माइट्ठी वेदगसम्माइट्ठी मिच्छाइट्ठी केवचिरं कालादो होति ? सव्वद्धा"
—खु० बं०, सू० ४४, ४५ । ५. "उवसमसम्मादिट्ठीसु असंजदसम्मादिट्ठी संजदासंजदा केवचिरं कालादो
होति ? णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागे ।" —पट्खं०, का०
सू० ३१६-२० । "उवसमसम्माइट्ठी सम्मामिच्छाइट्ठी केवचिरं कालादो होति ? जहण्णेण अंतोमुहुत्तं । उक्कस्सेण
पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागे" —खु० बं०, कालाणुगम-सू० ४६-४८ । "पमत्तसंजदपपहुडि जाव उवसंतकसाय-
वीदयमच्छुमत्थात्ति केवचिरं कालादो होति ? णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ।"
—३२३-२४ ।

असंखेज्जदिभागो । पञ्चखाणा०४ बंधगा-अबंधगा जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । पञ्चखाणा०४ बंधगा जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । अबंधगा जहण्णुक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । सादासाद-बंधगा-अबंधगा जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । दोण्णं वेदणीयाणं बंधगा जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । अबंधगा णत्थि । मणुसगदि-पंचगं बंधगा-अबंधगा जहण्णेण अंतोमुहुत्तं । उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । देवसदि०४ बंधगा जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । एवं अबंधा । णवरि जहण्णेण अंतोमुहुत्तं । आहारदुगं बंधगा जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । अबंधगा जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । एवं तित्थयरस्स । चदुण्णोकसायाणं बंधगा-अबंधगा जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । दोण्णं युगलाणं बंधगा जहण्णेण अंतोमुहुत्तं । उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । अबंधगा जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । एवं थिरादितिण्णियुगलाणं । सासणे-धुविगाणं बंधगा जह० एगस०, उक्क० पलिदो० असंखेज्जदिभागो । अबंधगा णत्थि । एवं वेदणीयं पत्तेणेण बंधगा-अबंधगा । साधारणेण बंधगा-अबंधगा जहण्णेण एग-

अप्रत्याख्यानावरण ४ के बन्धकों, अबन्धकोंका जघन्यसे अन्तमुहूर्त, उत्कृष्टसे पल्योपमके असंख्यातवाँ भाग है । प्रत्याख्यानावरण ४ के बन्धकोंका जघन्यसे अन्तमुहूर्त, उत्कृष्टसे पल्योपमका असंख्यातवाँ भाग है । अबन्धकोंका जघन्य तथा उत्कृष्टसे अन्तमुहूर्त है । साता-असाताके बन्धकों, अबन्धकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे पल्योपमका असंख्यातवाँ भाग जानना चाहिए । दोनों वेदनीयोंके बन्धकोंका जघन्यसे अन्तमुहूर्त, उत्कृष्टसे पल्योपमका असंख्यातवाँ भाग है ; अबन्धक नहीं है । मनुष्यगतिपंचकके बन्धकों, अबन्धकोंका जघन्यसे अन्तमुहूर्त, उत्कृष्टसे पल्योपमका असंख्यातवाँ भाग है । देवगति ४ के बन्धकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे पल्योपमका असंख्यातवाँ भाग है । इसी प्रकार अबन्धकोंका जानना चाहिए । इतना विशेष है कि यहाँ जघन्य अन्तमुहूर्त है । आहारकट्टिकके बन्धकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे अन्तमुहूर्त है । अबन्धकोंका जघन्यसे अन्तमुहूर्त, उत्कृष्टसे पल्योपमका असंख्यातवाँ भाग है । तीर्थकरका इसी प्रकार जानना चाहिए । चार नोकषायोंके बन्धकों, अबन्धकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे पल्योपमका असंख्यातवाँ भाग है । दोनों युगलोंके बन्धकोंका जघन्यसे अन्तमुहूर्त है । उत्कृष्टसे पल्योपमका असंख्यातवाँ भाग है । अबन्धकोंका जघन्यसे एक समय उत्कृष्टसे अन्तमुहूर्त है । स्थिरादितीन युगलोंमें इसी प्रकार जानना चाहिए ।

सासादममें—ध्रुव प्रकृतियोंके बन्धकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे पल्योपमका असंख्यातवाँ भाग है ; अबन्धक नहीं है । वेदनीयके बन्धकों, अबन्धकोंमें प्रत्येकसे इसी प्रकार है । सामान्यसे बन्धकों, अबन्धकोंका जघन्यसे एक समय है, उत्कृष्टसे पल्योपमका असंख्यातवाँ

१. 'सासणसम्मास्सिद्धी केवखिरं कालादी हांति ? षाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ।'—घट्खं०, का० ५-६ ।

समओ । उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेअदिभागो । अबंधगा णत्थि । एवं सव्वाणं । दोआयु० बंधाबंधगा जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्क० पलिदो० असंखेअदिभागो । मणु-सायुवं देवभंगो । अबंधगा जह० एगस० उक्क० पलिदो० असंखेअदिभागो । एवं साधारणेण वि ।

२४१. सम्मामि० धुविगाणं बंधगा जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्क० पलिदो० असंखेअदिभागो । अबंधगा णत्थि । सादासादाणं बंधगा० जह० एगसमओ, उक्क० पलिदो० असंखेअदिभागो । दोण्णं बंधगा जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेअदिभागो । अबंधगा णत्थि । एवं परियत्तमाणियाणं सव्वाणं । मणुसमदिपंचगं देवगदि०४ बंधाबंधगा जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेअदिभागो । एवं साधारणेण वि । अबंधगा णत्थि ।

२४२. अणाहारे धुविगाणं बंधगा-अबंधगा सव्वद्धा । देवगदिपंचगं बंधगा जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण संखेज्जा समया । अबंधगा सव्वद्धा । सेसाणं बंधा-बंधगा सव्वद्धा ।

एवं कालं समत्तं ।



भाग है ; अबन्धक नहीं है । शेष प्रकृतियोंमें इसी प्रकार जानना चाहिए । दो आयुके बन्धकों, अबन्धकोंका जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त है, उत्कृष्टसे पत्योपमका असंख्यातवाँ भाग है । मनुष्यायुके बन्धकोंमें देवोंके समान भंग है । अबन्धकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे पत्योपमका असंख्यातवाँ भाग है- इसी प्रकार सामान्यसे भी जानना चाहिए ।

२४१. सन्धक्त्वमिच्छात्वमे—ध्रुव प्रकृतियोंके बन्धकोंका काल जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्टसे पत्योपमका असंख्यातवाँ भाग है ; अबन्धक नहीं है । साता-असाताके बन्धकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे पत्योपमका असंख्यातवाँ भाग है । दोनोंके बन्धकोंका जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त है ; उत्कृष्टसे पत्योपमका असंख्यातवाँ भाग है ; अबन्धक नहीं है । परिवर्तमान सर्वप्रकृतियोंमें इस प्रकार जानना चाहिए । मनुष्यगतिपंचक, देवगति ४ के बन्धकों, अबन्धकोंका जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्टसे पत्योपमका असंख्यातवाँ भाग है । इस प्रकार सामान्यसे भी भंग जानना चाहिए ; अबन्धक नहीं है ।

२४२. अनाहारकोंमें—ध्रुव प्रकृतियोंके बन्धकों, अबन्धकोंका सर्वकाल है । देवगति-पंचकके बन्धकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे संख्यात समय है । अबन्धकोंका सर्वकाल है । शेष प्रकृतियोंके बन्धकों, अबन्धकोंका सर्वकाल है ।

इस प्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा कालप्ररूपणा समाप्त हुई ।



१. "सम्मामिच्छादिद्वी केवचिरं कालदो होति ? णाणाजीवं पडुक्ख जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण पलियोवमस्स असंखेअदिभागो ।" - ६-१० । २. "आहारा अणाहारा केवचिरं कालदो होति ? सव्वद्धा" - सु० बं०, सू० ५४, ५५ ।

[अंतराणुगम-परूवणा]

२४३. अंतराणुगमेण दुविहो णिहेसो ओघेण आदेसेण य ।

२४४. तत्थ ओघेण-पंचणा० णवदंस० मिच्छत्त० सोलसक० भयदु० आहार-दुगं तेजाक० वण्ण०४ अगु०४ आदाउज्जो० णिमिण-तित्थयर-पंचंतराङ्गाणं बंधा-अबंधगा णत्थि अंतरं, णिरंतरं । तिण्णि आयु० बंधगा जहण्णेण एगसमओ उक्कस्सेण चउ-व्वीसं मुहुत्तं । अबंधगा णत्थि । तिरिक्खायुबंधाबंधगा णत्थि अंतरं । चदुआयु बंधा-अबंधगा णत्थि अंतरं । सेसविगण्णाणं बंधगा अबंधगा णत्थि अंतरं । एवं काजोगि (?) ।

२४५. ओघमंगो काजोगि-ओरालियकाजोगि-भवसिद्धि-आहारगत्ति । णवरि भवसिद्धि० ।

[अन्तरानुगम]

[अन्तर शब्द छिद्र, मध्य, विरह आदि अनेक अर्थोंका द्योतक है । यहाँ अन्तर शब्द विरहकालका द्योतक है । एक वस्तु अवस्थाविशेषमें कुछ समय रहकर कुछ कालके लिए अवस्थान्तर रूप हो गयी और बादमें वह उस अवस्थाविशेषको पुनः प्राप्त हो गयी । इस मध्यवर्ती कालको अन्तर कहते हैं । यहाँ नाना जीवोंकी अपेक्षा वर्णन किया गया है ।]

२४३. यहाँ ओघ तथा आदेशकी अपेक्षा अन्तरका दो प्रकारसे निर्देश करते हैं ।

२४४. ओघसे ५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, आहारकट्टिक, तैजस-कार्मण, वर्ण ४, अगुरुलघु ४, आतप, उद्योत, निर्माण, तीर्थकर और ५ अन्तरायोंके बन्धकों अबन्धकोंका अन्तर नहीं है, निरन्तर बन्ध है ।

विशेषार्थ—धवलाटीकामें लिखा है “निर्गतमन्तरमस्माद्राशेरिति णिरंतरं”, जिस राशिमें अन्तरका अभाव है वह निरन्तर है । ‘णत्थि अन्तरं’—अन्तर नहीं है यह प्रसव्य प्रतिषेध हैं, क्योंकि यहाँ विधिकी प्रधानताका अभाव है । ‘णिरंतरं’ निरन्तर है यह पर्युदास प्रतिषेध है, कारण यहाँ प्रतिषेधकी प्रधानता नहीं है । इस प्रकार प्रसव्य और पर्युदास रूप अभाव युगलका कथन किया गया है । (खु० बं० अं० पृ० ४७२-४८०)

नरक-मनुष्य-देवायुके बन्धकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे २४ मुहूर्त अन्तर है । अबन्धक नहीं है । तिर्यंचायुके बन्धकों अबन्धकोंका अन्तर नहीं है । चार आयुके बन्धकों अबन्धकोंका अन्तर नहीं है । शेष प्रकृतियोंके बन्धकों अबन्धकोंका अन्तर नहीं है ।

२४५. काययोगी, औदारिक काययोगी, भव्यसिद्धिक तथा आहारकमें ओघकी तरह अन्तर जानना चाहिए । भव्यसिद्धिकमें विशेष जानना चाहिए ।

१. “अन्तरशब्दस्यानेकार्थवृत्तेश्छिद्रमध्यविरहेष्वन्यतमग्रहणम् । -त० रा० पृ० ३० । “अन्तरमुच्छेदो विच्छेदो परिणामान्तरगमणं णत्थित्तगमणं अण्णभावव्वहाणमिदि एयट्ठो ।” -ध० टी० अन्तरा० पृ० ३ ।

२४६. आदेशेण णेरइगेसु-दो-आयुबंधगा जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण चउव्वीसं मुहुत्तं, अडदालीसं मुहुत्तं, पक्खं, मासं, वेमासं, चत्तारि मासं, छम्मासं, बारसमासं । एवं सव्वणेरइगाणं । सेसं पगदीणं णत्थि अंतरं ।

२४७. तिरिक्खेसु-आयु० ओघं । सेसं णत्थि अंतरं । एवं एइंदिय-पुढवि० आउ० तेउ० वाउ० तेसिं चेव बादरअपज्ज० सव्वसुहुम-सव्ववणप्फदि-निगोद-बादर-वणप्फदि-पचोय तस्सेव अपज्जत्त-मदि० सुद० असंज० तिणिले० अब्भवसिद्धि-मिच्छा-दिद्धि याव असण्णत्ति । एदेसिं च किंचि विसेसं ओघादो साधेदूण णेदव्वं । पंचिदिय तिरिक्ख०४ तिणि आयु० ओघं । तिरिक्खायु-बंधगा जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । पज्जत्तजोणिणीसु चउव्वीसं मुहुत्तं । चहु-आयु-तिरिक्खायुबंधो । पंचिदिय-

२४६. आदेशसे-नारक्रियोंमें मनुष्य-तिर्यचायुके बन्धकोंका अन्तर जघन्यसे एक समय, उक्कष्टसे २४ मुहूर्त, ४८ मुहूर्त, १५६, मास, दो मास, चार मास, छह मास तथा बारह मास अन्तर है । इसी प्रकार सब नारक्रियोंमें जानना चाहिए । शेष प्रकृतियोंका अन्तर नहीं है, कारण उनका निरन्तर बन्ध होता है ।

२४७. तिर्यचोंमें-आयुके बन्धकोंका अन्तर ओघवत् जानना चाहिए । शेष प्रकृतियोंके बन्धकोंका अन्तर नहीं है । इसी प्रकार एकेन्द्रिय, पृथ्वी, अप, तेज, वायु तथा इनके बादर अपर्याप्तक भेदोंमें, सम्पूर्ण सूक्ष्म, सर्व वनस्पतिनिगोद, बादरवनस्पति-प्रत्येक तथा उनके अपर्याप्तकोंमें एवं मत्स्यज्ञान, श्रुताज्ञान, असंयम, तीन लेइयाँ, अभव्यसिद्धिक, मिथ्यादृष्टिसे असंज्ञी पर्यन्त इसी प्रकार जानना चाहिए । इनमें पायी जानेवाली विशेषताओंको ओघ-वर्णनसे जानकर निकालना चाहिए ।

पंचेन्द्रिय तिर्यच, पंचेन्द्रिय तिर्यचपर्याप्त, पंचेन्द्रिय तिर्यचअपर्याप्त तथा पंचेन्द्रिय तिर्यच योनिमतीमें-तीन आयुका ओघवत् है । तिर्यचायुके बन्धकोंका अन्तर जघन्यसे एक समय, उक्कष्टसे अन्नमुहूर्त है । पर्याप्तक योनिमती तिर्यचोंमें अन्तर २४ मुहूर्त है । चार आयुके बन्धकोंमें तिर्यचायुके समान भंग है ।

१. इदियाणुवादेण एइंदिय-बादर-सुहुम-पज्जत्त-अपज्जत्त-वीइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदिय-पंचिदिय-पज्जत्त-अपज्जत्ताण-मंतरं केवचिरं कालादो होदि ? णत्थि अंतरं, णिरतरं (१५-१७) कायाणुवादेण पुढविकाइय-आउकाइय-तेउ-काइय-वाउकाइय-वणप्फदिकाइय-णिगोद-बादर-सुहुम-पज्जत्त-अपज्जत्ता बादरवणप्फदिकाइय-पत्तेयसीर-पज्जत्ता अपज्जत्ता तसकाइय-पज्जत्ता-अपज्जणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? णत्थि अंतरं । १८, १९, २. "णाणाणुवादेण मदिअण्णाणि-सुदअण्णणि-विभंगणाणि-आभिणिवोहिय-सुदओहिणाणिमणपज्जवणाणि-केवल-णाणोणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? णत्थि अंतरं निरंतरं" (३६-३८) । ३. "संजमाणुवादेण संजदा...संजदा-संजदा-असंजदाणमंतरं...णत्थि अंतरं निरंतरं" (३९-४१) । ४. "लेस्साणुवादेण किण्हलेस्सिय-णीललेस्सिय-काउ-लेस्सिय-पम्मलेस्सिय-मुक्कलेस्सियाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? णत्थि अंतरं णिरंतरं (४८-५०) भवि-याणुवादेण भवसिद्धिय-अभव-सिद्धियाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? णत्थि अंतरं णिरंतरं (५१-५३) । ५. "सम्मत्ताणुवादेण सम्माइट्ठि-वइयसम्माइट्ठि-वेदगसम्माइट्ठि-मिच्छाइट्ठीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? णत्थि अंतरं णिरंतरं" (५४-५६) । ६. "सण्णियाणुवादेण सण्णि-असण्णीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? णत्थि अंतरं णिरंतरं-खु० बां० सूत्र ६३-६५ अन्तराणुगम ।

तिरिक्ख-अपज्ज० तिरिक्खायु० जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । मणुसायु ओघं । दो-आयु० तिरिक्खायुभंगो । सेसं णत्थि अंतरं । एवं पंचिदिय-त्तस-अपज्ज० विगल्लिदिय-बादर-पुढधि० आउ० तेउ० वाउ० बादर-वणप्फदि-पत्तेय-पज्जत्ताणं । णवरि तेउ० आयु चउव्वीसं मुहुत्तं ।

२४८. मणुसेसु —चदु-आयुबंधगा जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण चउव्वीसं मुहुत्तं । दो वेदणी० अबंधगा जहण्णेण एगस० । उक्कस्सेण छम्मास० । मणुसिणीसु वासपुधत्तं । सेसं णत्थि अंतरं । मणुस-अपज्ज० सव्वार्णं जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ।

२४९. देवाणं-णिरयभंगो । णवरि सव्वट्ठे पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागो ।

पंचेन्द्रिय तिर्यच अपर्याप्तको में तिर्यचायुका अन्तर जघन्यसे एक समय और उत्कृष्टसे अन्तर्मुहूर्त है । मनुष्यायुका ओघवत् अन्तर है । दो आयुके बन्धको का तिर्यचायुके समान भंग है । शेष प्रकृतियों में अन्तर नहीं है ।

इसी प्रकार पंचेन्द्रिय-त्रस-अपर्याप्तक, विकलेन्द्रिय, बादर पृथ्वी, बादर अप, बादर तेज, बादर वायु, बादर वनस्पति प्रत्येक पर्याप्तको में जानना चाहिए । विशेष, तेजकायमें आयुका २४ मुहूर्त अन्तर है ।

२४८. मनुष्यगतिमें—चार आयुके बन्धको का जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे २४ मुहूर्त अन्तर है । दो वेदनीयके अबन्धको का जघन्यसे अन्तर एक समय, उत्कृष्टसे छह माह है ।

विशेष—साता-असातायुगलके अबन्धक अयोगकेवली होंगे । उनका नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय है, उत्कृष्ट अन्तर छह मास है ।

मनुष्यनियोंमें—दोनों वेदनीयोंके अबन्धकोका अन्तर वर्षपृथक्त्व है । शेषका अन्तर नहीं है । मनुष्य अपर्याप्तकोमें—सर्व प्रकृतियोंका जघन्यसे अन्तर एक समय, उत्कृष्टसे पल्योपमका असंख्यातवाँ भाग है ।

विशेषार्थ—शंका—इस इतनी महान् राशिका अन्तर किसलिए होता है ?

समाधान—यह तो राशियोंका स्वभाव ही है और स्वभावमें युक्तिवादका प्रवेश नहीं है, क्योंकि उसका भिन्न विषय है । (ध० जी० अंत० टीका ७५० ५६)

२४९. देवोंमें—नरकके समान भंग है ।^३ विशेष इतना है कि सर्वार्थसिद्धिमें पल्योपमके संख्यातवें भाग प्रमाण अन्तर है ।

१. “चदुण्हं खवग-अजोगिकेवलीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं उक्कस्सेण छम्मासं ।” —पट्खं०, अंतरा० १६, १७ । “उत्कृष्टेण षण्मासाः ।” —स० सि० १, ८ ।

२. “मणुस-मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु चदुण्हमुवसामगाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं उक्कस्सेण वासपुधत्तं ।” —७०, ७१ । “मणुसु-अपज्जत्ताणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं ।” ७८ ।

मणुस अपज्जत्ताणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो—खु० बं०, अ०सू०—१० । “किमट्ट-मेदस्स एम्महंत-स्स रासिस्स अंतरं होदि ? एसो सहाओ एदस्स । ण च सहावे जुत्तिवादस्स पवेसो अदियिभण्णविसयादो ।” —ध० टी०, अ० पू० ५६ । “उक्कमेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ।” —२६ ।

३. देवगदोए देवाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? णत्थि अंतरं णिरंतरं (११-१३) भवणवामिय जाव सव्वट्ठमिद्धि विमाणवामिय-देवा देवदिभंगो १४—खु० बं०, अंतरा० ।

पंचिन्दियतस०२ तिणिण आयु-बंधगा जहण्णेण एगस० । उक्कस्सेण चउव्वीसं मुहुत्तं । तिरिक्खायु-बंधगा जहण्णेण एगस० । उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । पज्जत्ते चउव्वीसं मुहुत्तं । सेसं मणुसोर्धं । तिणिण-मण० तिणिण-वचि०-चदुआयु० बंधगा जहण्णेण एगस० । उक्कस्सेण चउव्वीसं मुहुत्तं । सेसं गत्थि अंतरं ।

२५०. दोमण० दोवचि०-चदुआयु० तिणिण मणभंगो । पंचणा० छदंसणा० चदुसंज० तेजाक० वण्ण०४ अगु० उप० णिमि० पंचंतराङ्गाणं बंधगा गत्थि अंतरं । अबंधगा जहण्णेण एगस० । उक्कस्सेण छम्मासं । सेसं पत्तेगेण साधारणेण य बंधगा गत्थि अंतरं । अबंधगा जहण्णेण एगस० । उक्कस्सेण छम्मासं । णवरि धीणगिद्धितिमं मिच्छत्त-वारसक० दोअंगो० छस्संध० परघादुस्सासं आहारदुगं आदाउजोवं दो-विहाय० दोसरं बंधगा-अबंधगा गत्थि अंतरं ।

२५१. एवं चक्खु० अचक्खु० सण्णि त्ति । णवरि अचक्खुदंस० आयु० ओघं । ओरालियमिस्स०-धुविगाणं बंधगा गत्थि अंतरं । अबंधगा जहण्णेण एगस०, उक्कस्सेण

पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय-पर्याप्त, त्रस, त्रस-पर्याप्तकोंमें—तीन आयुके बन्धकोंका अन्तर जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे २४ मुहूर्त है। तिर्यचायुके बन्धकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे अन्तर्मुहूर्त अन्तर जानना चाहिए। पर्याप्तकोंमें २४ मुहूर्त है। शेष प्रकृतियोंमें मनुष्योंके ओघवत् जानना चाहिए।

तीन मनयोगी, तीन वचनयोगीमें—४ आयुका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे २४ मुहूर्त अन्तर है; शेष प्रकृतियोंमें अन्तर नहीं है।

२५०. दो मनयोगी, दो वचनयोगीमें—४ आयुके अन्तरका तीन मनयोगीके समान भंग है। अर्थात् जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे २४ मुहूर्त है। पाँच ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, ४ संस्वलन, तैजस-कार्माण, वर्षे ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण तथा ५ अन्तरायोंके बन्धकोंका अन्तर नहीं है। अबन्धकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे छह मास अन्तर है। शेषके बन्धकोंका सामान्य तथा प्रत्येक रूपसे अन्तर नहीं है। अबन्धकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे ६ माह अन्तर है। विशेष यह है कि स्त्यानगुद्धित्रिक, मिथ्यात्व, १२ कषाय, दो अंगोपांग, ६ संहनन, परघात, उच्छ्वास, आहारकद्विक, आतप, उद्योत, २ विहायोगति, दो स्वरोके बन्धकों अबन्धकोंका अन्तर नहीं है।

२५१. इसी प्रकार अचक्षुदर्शनसे संज्ञी पर्यन्त जानना चाहिए। विशेष यह है कि अचक्षुदर्शनमें आयुका ओघवत् अन्तर है।

औदारिक मिश्रकाययोगमें—ध्रुव प्रकृतियोंके बन्धकोंका अन्तर नहीं है; अबन्धकोंका जघन्यसे एक समय उत्कृष्टसे वर्षपृथक्त्व अन्तर है।

विशेष—इस योगमें ध्रुव प्रकृतियोंके अबन्धक सयोगकेवली होंगे। वहाँ नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व है। कारण, कपाट

१. जोगाणुवादेण पंचमणजोगि-पंचवचिजोगि...अंतरं केवचिरं कालादो होदि ? गत्थि अंतरं गिरंतरं (२१-२३) २. "सजोगिकेवलीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं उक्कस्सेण वासपुधत्तं ।"—षट्त्वं० अंतरा० १६६-६७ ।

वासपुधत्तं । धीणगिद्धि०३ मिच्छत्त-अणंताणुबंधि०४ ओरालि० बंधगा णत्थि अंतरं । अबंधगा जहण्णेण एगस० । उक्कस्सेण मासपुधत्तं । दोआयु० छस्संध० दोविहाय० दोसर० बंधा-अबंधगा णत्थि अंतरं । णवरि मणुसायु ओधं । तित्थयर० बंधगा जह० एगस० । उक्कस्सेण वासपुधत्तं । अबंधगा णत्थि अंतरं । सेसाणं परोमेण साधारणेण य णत्थि अंतरं । अबंधगा जहण्णेण एगस० । उक्कस्सेण वासपुधत्तं ।

२५२. वेउब्बियका०—देवोधं । वेउब्बियमिस्स-धुविगाणं बंधगा जहण्णेण एगस० । उक्कस्सेण बारस मुहुत्तं । अबंधगा णत्थि अंतरं । धीणगिद्धि०३ मिच्छत्त-अणंताणुबंधि०४ अबंधगा, तित्थय० बंधगा ओरालियमिस्सभंगो । सेसाणं बंधाबंधगा जहण्णेण एगस० । उक्क० बारसमुहुत्तं । णवरि एहदिय०३ चउब्बीस मुहुत्तं ।

समुद्घात रहित केवली जघन्यसे एक समय तथा उत्कृष्टसे वर्षपृथक्त्व पर्यन्त होते हैं ।—ध० टी०, अन्तरा० पृ० ६१ ।

स्यानगृद्धिन्निक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी ४ तथा औदारिक शरीरके बन्धकोंका अन्तर नहीं है । अबन्धकोंका अन्तर जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे मासपृथक्त्व अन्तर है । दो आयु, ६ संहनन और २ विहायोगति, २ स्वरके बन्धकों, अबन्धकोंका अन्तर नहीं है । विशेष यह है कि मनुष्यायुके त्रिषयमें ओषवत् जानना । तीर्थंकरके बन्धकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे वर्षपृथक्त्व अन्तर है, अबन्धकोंका अन्तर नहीं है ।

विशेष—इस योगमें तीर्थंकर प्रकृतिके बन्धक चतुर्थगुणस्थानवर्ती जीव होंगे । उनका जघन्य एक समय और उत्कृष्ट वर्षपृथक्त्व अन्तर कहा है ।

शेष प्रकृतियोंके बन्धकोंका प्रत्येक तथा सामान्यसे अन्तर नहीं है । अबन्धकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे वर्षपृथक्त्व अन्तर है ।

२५२. वैक्रियिक काययोगमें—देवोंके ओषवत् जानना चाहिए । वैक्रियिक मिश्रकाय-योगमें ध्रुव प्रकृतियोंके बन्धकोंका जघन्य अन्तर एक समय, उत्कृष्ट १२ मुहूर्त अन्तर है ।

विशेषार्थ—सर्व वैक्रियिक मिश्रकाययोगियोंके पर्याप्तियोंको पूर्ण कर लेनेपर एक समयका अन्तर होता है । देव तथा नारकियोंमें न उत्पन्न होनेवाले जीव यदि बहुत अधिक काल तक रहते हैं तो बारह मुहूर्त तक ही रहते हैं । यह कैसे जाना ?

समाधान—जिण-वयण-विणिग्गय-वयणादो—जिनेन्द्रके मुखसे निकले हुए वचनोंसे जाना जाता है । (खु० बं०, टीका, पृ० ४८५)

अबन्धकोंका अन्तर नहीं है । स्यानगृद्धिन्निक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी ४ के अबन्धकोंका तथा तीर्थंकरके बन्धकोंका औदारिक मिश्रकाय योगके समान भंग जानना चाहिए । शेष प्रकृतियोंके बन्धकों, अबन्धकोंका जघन्य अन्तर एक समय, उत्कृष्ट १२ मुहूर्त अन्तर है । विशेष यह है कि एकैन्द्रियत्रिकका अन्तर २४ मुहूर्त जानना चाहिए ।

१. “असंजदसम्मदिट्ठीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? णाणाजीव पडुच्च जहण्णेण एगसमयं उक्कस्सेण वासपुधत्तं ।”—१६३-६४ । २. “वेउब्बियमिस्सकायजोगीसु मिच्छादिट्ठीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? णाणाजीव पडुच्च जहण्णेण एगसमयं उक्कस्सेण बारसमुहुत्तं ।”—षट्खं०, अन्तरा० १७०-१७१ ।

२५३. आहार० आहारमिस्स०-ध्रुविगाणं बंधगा जहण्णेण एगस० । उक्कस्सेण वासपुधत्तं । अबंधगा णत्थि अंतरं । सेसाणं बंधाबंधगा जह० एगस० । उक्कस्सेण वासपुधत्तं ।

२५४. कम्मइग-कायो ओरालियमिस्स भंगो ।

२५५. इत्थिवेदे-ध्रुविगाणं बंधगा णत्थि अंतरं । अबंधगा णत्थि । णिहा-पचला-भयदु० तेजाक० वण्ण०४ अगु०४ उप० णिमिणं बंधगा णत्थि अंतरं । अबंधगा जहण्णेण एगस० । उक्कस्सेण वासपुधत्तं अंतरं । धीणगिद्धि०३ मिच्छत्तं बारसकसा० दोअंगो० छस्संध० आहारदु० परघादुस्सा० आदाउज्जोव-दोविहाय० दोसर० बंधगा० णत्थि अंतरं । अबंधगा णत्थि अंतरं । एवं वेदणीय-तिण्णिवेद-जस० अजस० तित्थय० दोगोदाणं । सेसाणं पत्तेणेण बंधाबंधगा णत्थि अंतरं । साधारणेण बंधाबंधगा णत्थि अंतरं । अबंधगा जहण्णेण एगस० । उक्कस्सेण वासपुधत्तं अंतरं ।

२५६. एवं पुरिसवेदं णवुंसगवेदं । णवरि पुरिसे यं हि वासपुधत्तं, तं हि वासं सादियेयं । इत्थि० पुरिस० चदुआयु० पंचिंदिय-पज्जत्तभंगो । णवुंसगे ओघं ।

२५३. आहारक तथा मिश्रकाययोगमें—ध्रुव प्रकृतियोंके बन्धकोंका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट वर्षपृथक्त्व अन्तर है । अबन्धकोंमें अन्तर नहीं है । शेष प्रकृतियोंके बन्धकों, अबन्धकोंका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट वर्षपृथक्त्व अन्तर है ।

२५४. कार्मण काययोगमें—औदारिक मिश्रकाययोगके समान भंग जानना चाहिए ।

२५५. स्त्रीवेदमें—ध्रुव प्रकृतियोंके बन्धकोंका अन्तर नहीं है । इनके अबन्धक नहीं हैं । निद्राप्रचला, भय, जुगुप्सा, तैजस-कार्मण, वर्ण ४, अगुरुलघु ४, उपघात, निर्माणके बन्धकोंका अन्तर नहीं है । अबन्धकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे वर्षपृथक्त्व अन्तर है । स्थान-गृह्णित्त्रिक, मिथ्यात्व, बारह कषाय, दो अंगोपांग, ६ संहनन, आहारकद्विक, परघात उच्छ्वास, आतप, उद्योत, २ विहायौगति, २स्वरके बन्धकोंका अन्तर नहीं है । अबन्धकोंका भं अन्तर नहीं है । इसी प्रकार वेदनीय, ३ वेद, यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति, तीर्थकर तथा २ गोत्रका जानना । शेष प्रकृतियोंके बन्धकों, अबन्धकोंका प्रत्येकसे अन्तर नहीं है । सामान्यसे भी इनका अन्तर नहीं है । अबन्धकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे वर्षपृथक्त्व अन्तर है ।

२५६. पुरुषवेद नपुंसकवेदमें इस प्रकार जानना चाहिए । विशेष यह है कि पुरुष-वेदमें वर्ष-पृथक्त्वके स्थानमें साधिकवर्ष जानना चाहिए ।

विशेष—पुरुषवेदके द्वारा अपूर्वकरण क्षपक गुणस्थानको प्राप्त हुए सभी जीव ऊपरके गुणस्थानोंको चले गये, अतः अपूर्वकरण गुणस्थान अन्तर युक्त हो गये । पुनः ६ मास व्यतीत

१. “आहारकायजोगीसु आहारमिस्सकायजोगीसु पमत्तसंजदाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं, उक्कस्सेण वासपुधत्तं ।” —१७४-१७५ । २. “इत्थिवेदेषु दोणहमुव-सामगाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? णाणाजीवं पडुच्च जहण्णुक्कस्समोघं ।” —षट्खं०, अंतरा० १८७ । ३. “णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं उक्कस्सेण वासपुधत्तं ।” —षट्खं०, अंतरा० १२, १३ । ४. “पुरिस वेदएमु...दोहं खवाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं, उक्कस्सेण वासं सादियेयं ।” —षट्खं०, अंतरा० १९३, २०४, २०५ ।

२५७. कोधादिसु तिसु पुरिसभंगो । णवरि तिरिक्खायु ओघं । एवं लोभे, णवरि छम्मासं ।

२५८. अवगद्वेदेसु सादबन्धा अबन्धगा णत्थि अंतरं । सेसं बन्धगा जहण्णेण एगसं, उक्कस्सेण छम्मासं । अबन्धगा णत्थि अंतरं ।

२५९. अकसाइगेसु साद-बन्धा अबन्धगा णत्थि अंतरं । एवं केवलदंसणां । विभंगे पंचिंदिय-तिरिक्ख-पज्जत्तभंगो ।

२६०. आभि० सुद० ओधि० दो-आयु० बन्धगा जहण्णेण एगसं, उक्कस्सेण मासपुधत्तं अंतरं । सेसाणं दो-मणभंगो । ओधिणां वासपुधत्तं ।

२६१. एवं मणपज्जव० ओधिदं० । णवरि मणपज्जव० देवायु० वासपुधत्तं ।

होनेपर सभी जीव स्त्रीवेदके द्वारा क्षपकश्रेणीपर आरूढ़ हो गये । पुनः ४, ५ मासका अन्तर करके नपुंसकवेदके उदयसे कुछ जीव क्षपकश्रेणीपर चढ़े । पुनः १, २ मासका अन्तर कर कुछ जीव स्त्रीवेदके द्वारा क्षपकश्रेणी पर चढ़े । इस प्रकार संख्यात बार स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके उदयसे ही क्षपकश्रेणीपर आरोहण करा करके पश्चात् पुरुषवेदके उदयसे क्षपकश्रेणी चढ़ने-पर साधिक वर्ष प्रमाण अन्तर हो जाता है । क्योंकि निरन्तर ६ मासके अन्तरसे अधिक अन्तरका होना असम्भव है । इसी प्रकार 'पुरुषवेदी' अनिवृत्तिकरण क्षपकका भी अन्तर जानना चाहिए । 'द्वितीया ही सूत्र पोथियोंमें पुरुषवेदका उत्कृष्ट अन्तर ६ मास पाया जाता है । (जीवट्टाण अन्तरां पृ० १०६)

स्त्रीवेद, पुरुषवेद तथा ४ आयुके बन्धकों, अबन्धकोंमें पंचेन्द्रिय पर्याप्तकोंके समान भंग जानना चाहिए । नपुंसकवेदमें-ओघवत् जानना चाहिए ।

२५७. क्रोध-मान-मायाकषायमें-पुरुषवेदके समान भंग है । विशेष इतना है कि तिर्य-चायुके बन्धकों, अबन्धकोंका अन्तर ओघवत् जानना चाहिए । लोभकषायमें-इसी प्रकार समझना चाहिए । विशेष, यहाँ अन्तर छह मास जानना चाहिए ।

२५८. अपगतवेदमें-साताके बन्धकों, अबन्धकोंमें अन्तर नहीं है । शेष प्रकृतिके बन्धकोंमें जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे छह माह अन्तर है ; अबन्धकोंका अन्तर नहीं है ।

२५९. अकषायियोंमें-साताके बन्धकों, अबन्धकोंमें अन्तर नहीं है । केवलज्ञान, केवलदर्शनमें इसी प्रकार जानना । विभंगावधिमें पंचेन्द्रिय तिर्यच पर्याप्तकोंका भंग जानना चाहिए ।

२६०. आभिनिबोधिक श्रुत तथा अबधिज्ञानमें-दो आयु अर्थात् मनुष्य-देवायुके बन्धकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे मासपृथक्त्व अन्तर है । शेष प्रकृतियोंमें दो मन-योनियोंके समान भंग है । अबधिज्ञानियोंमें वर्षपृथक्त्व अन्तर है ।

२६१. मनःपर्ययज्ञान, अबधि दर्शनमें भी इसी प्रकार जानना चाहिए । विशेष यह है कि मनःपर्ययज्ञानमें देवायुका अन्तर वर्षपृथक्त्व है ।^१

१. केसुवि सुत्तपोत्थएसु पुरिसवेदमंतरं छम्मासा - जी०, अंत० पृ० १०६ । २. "आभिणिबोहि-य-सुदओहिणाणीसु... चटुण्हमुवसामगाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? गाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं, उक्कस्सेण मासपुधत्तं ।" -पटुखं०, अंतरां २३२, २४१, २४२, २४५ । ३. "मणपज्जवणाणीसु... चटुण्हमुवसामगाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? गाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं उक्कस्सेण वासपुधत्तं ।" -२४६, २४६, २५० ।

२६२. एवं परिहारे संजदु० (?) तं चेव, णवरि मास-पुधत्तं । एवं सामाह० छेदोप० । संजदासंजदा० सुहुमसं० सव्वाणं बंधगा जहण्णेण एगस० । उक्कस्सेण छम्मासं अंतरं । अवंधगा णत्थि । यथाक्खाद०-सादबंधगा णत्थि अंतरं । अवंधगा जहण्णेण एगस० उक्कस्सेण छम्मास० (सं) ।

२६३. तेउपम्माणं-तिण्णि-आयु० बंधा जह० एगस० । उक्कस्सेण अडदालीसं मुहुत्तं, पक्खं ।

२६४. सुक्काए-दो आयु० मासपुधत्तं ।

२६५. सम्मादिट्ठि आभिणिभंगो । खड्गसम्मा० वासपुधत्तं । सेसाणं णत्थि अंतरं । वेदगसम्मा० आयु० आभिणिभंगो । सेसं णत्थि अंतरं ।

२६६. उवममसम्मा०-पंचणा० छदंस०चदुसंज० पुरिसं० भयदु० पंचिदि० तेजाक० समचदु० वज्जरिसभ० वण्ण०४ अगु०४ पसस्थवि० तस०४ सुभग-सुस्सर-

२६२. परिहारविशुद्धिमें इसी प्रकार जानना चाहिए । इतना विशेष है कि वर्षप्रथक्त्व-के स्थानमें मासप्रथक्त्व अन्तर जानना चाहिए । इसी प्रकार सामायिक, छेदोपस्थापना संयममें जानना चाहिए । संयतासंयत और सूक्ष्मसाम्पराय संयममें सर्व प्रकृतियोंके बन्धकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे छह मास अन्तर है; अबन्धक नहीं है ।

विशेषार्थ—सूक्ष्मसाम्परायिक जीवोंके विना जघन्यसे एक समय देखा जाता है । उत्कृष्टसे अन्तर छह मास होता है; कारण क्षपकश्रेणी आरोहणका छह मासोंसे अधिक उत्कृष्ट अन्तर नहीं पाया जाता है । (खु० बं०, टी०, पृ० ४८२) ।

यथाख्यातसंयममें—साता वेदनीयके बन्धकोंका अन्तर नहीं है । अबन्धकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्ट छह मास अन्तर जानना चाहिए ।

विशेष—साता वेदनीयके अबन्धकोंका इस संयममें अयोगकेवली गुणस्थान है । उसका जघन्य अन्तर एक समय, उत्कृष्ट अन्तर छह मास है ।

२६३. तेजोलेश्या-पद्मलेश्यामें—तीन आयुके बन्धकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे ४८ मुहूर्त तथा पक्षप्रमाण अन्तर है ।

२६४. शुक्ललेश्यामें—दो आयुके बन्धकोंका मासप्रथक्त्व अन्तर है ।

२६५. सम्यग्दृष्टियोंमें—आभिनिबोधिक ज्ञानके समान भंग है । श्रायिक सम्यक्त्वीमें दो आयुके बन्धकोंका वर्षप्रथक्त्व अन्तर है; शेष प्रकृतियोंका अन्तर नहीं है । वेदक सम्यक्त्वीयोंमें—आयुके बन्धकोंका आभिनिबोधिक ज्ञानके समान है; शेष प्रकृतियोंमें अन्तर नहीं है ।

२६६. उपशमसम्यक्त्वियोंमें—५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, ४ संस्वलन, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, पंचेन्द्रिय जाति, तैजस-कार्माण, समचतुरस्रसंस्थान, वज्रवृषभसंहनन, वर्ण ४,

१. सुहुमसांपराइयसुद्धिमंजदाणं अंतरं केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण एगसमयं उक्कस्सेण छम्मासाणि -खु० बं०, सू० ४२-४४ । २. 'चदुण्हं खवगअजोगिकेवलीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं उक्कस्सेण छम्मासं ।' -१६, १७ । ३. 'चदुण्हमुवसामगाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं उक्कस्सेण वासपुधत्तं ।' -पट्खं०, अं० सू० ३४३, ४४ ।

आदेज्ज-णिमिण-उच्चागोदं पंचंतराह्माणं बंधगा जहण्णेण एगस० उक्कस्सेण सत्तरा-
दिंदियाणि । [अबंधगा] जहण्णेण एगस०, उक्कस्सेण वासपुधत्तं । णवरि वज्जरिस०
अबंधगा सत्तरादिंदियाणि । मणुसगदि०४ वज्जरिसभ-भंगो । दोवेदणी० बंधा-अबंधगा
जहण्णेण एगस० । उक्कस्सेण सत्तरादिंदियाणि । दोण्णं बंधगा जहण्णे० एगस० ।
उक्कस्सेण सत्तरादिंदियाणि । अबंधगा णत्थि । चदुणोक्क० बंधा-बंधगा जहण्णेण
एगस० । उक्कस्सेण सत्तरादिंदियाणि । दोण्णं युगलाणं बंधगा जहण्णेण एगस० ।
उक्कस्सेण सत्तरादिंदियाणि । अबंधगा जहण्णेण एगस० । उक्क० वासपुधत्तं । एवं
परियत्ति [माणि] याणं । अपच्चक्खाणावरण०४ बंधगा जहण्णेण एगस० । उक्क०
सत्तरादिंदियाणि । अबंधगा जह० एगस० । उक्क० चोद्दसरादिंदियाणि । पच्चक्खाणा-
वरण०४ बंधगा जह० एगस० । उक्क० सत्तरादिदि० । अबंधगा जह० एगस० ।
उक्क० पण्णारसरादिदि० । आहारदुगं तिस्थयरं बंधगा जह० एगस० । उक्क० वास-

अगुरुलघु ४, प्रशस्तविहायोगति, त्रस ४, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, उच्चगोत्र तथा ५
अन्तरायोंके बन्धकोंका अन्तर जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे सात रात-दिन है ।

विशेषार्थ—रात्रिदिव शब्द द्वारा दिवसका ग्रहण किया गया है, क्योंकि सम्मिलित
दिन तथा रात्रिमें दिवसका व्यवहार देखा जाता है । (खु० बं० टीका पृ० ४६२)

[अबन्धकोंका] जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे वर्षपृथक्त्व अन्तर है ।

विशेष—इन प्रकृतियोंके अबन्धक उपशान्तकषायी होंगे, उनका जघन्य अन्तर एक
समय, उत्कृष्ट वर्षपृथक्त्व है ।

विशेष यह है कि वज्रवृषभनाराचके अबन्धकोंका अन्तर सात दिन-रात है । मनुष्य-
गति ४ के बन्धकोंका अन्तर वज्रवृषभनाराचसंहननके समान है । दो वेदनीयके बन्धकों,
अबन्धकोंका अन्तर जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे सात दिन-रात है । साता-असाताके
बन्धकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे सात दिन-रात है; अबन्धक नहीं है । चार नोकषायों
अर्थात् हास्यादिचतुष्कके बन्धकों, अबन्धकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे ७ दिन-रात
अन्तर है । दोनों युगलोंके बन्धकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे ७ दिन-रात अन्तर है ।
अबन्धकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे वर्षपृथक्त्व है । परिवर्तमान प्रकृतियोंमें इसी
प्रकार भंग जानना चाहिए । अपत्याख्यानावरण ४ के बन्धकोंका जघन्यसे एक समय,
उत्कृष्टसे सात दिनरात अन्तर है । अबन्धकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे १४ दिन-रात
है । प्रत्याख्यानावरण ४ के बन्धकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे ७ दिनरात अन्तर है ।
अबन्धकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे १५ दिनरात है । आहारकंद्विक तथा तीर्थकरके

१. "उवसमसम्मादिट्ठीमु असंजदसम्मादिट्ठीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? णाणाजीवं पडुच्च
जहण्णेण एगसमयं उक्कस्सेण सत्तरादिदियाणि ।" -षट्खं०, अं० सू० ३५६, ३५७ । रादिदियमिदि
दिवसस सण्णा । अहोरत्तेहि मिलिएहि दिवसववहारदंसणादो । एत्थ उवसंहारगाहा - सम्मत्ते सत्त दिणा
विरदाविरदीए चोद्दस हवंति । विरदीमु अ पण्णरसा विरहिदकालो मुण्येयव्वो ॥ -खु० बं०, टी० पृ० ४६२ ।
२. "संजदासंजदाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं उक्कस्सेण
चोद्दसरादिदियाणि ।" -षट्खं०, अं० सू० ३६०, ३६१ ।
३. "पमत्तअपमत्तसंजदाणमंतरं केवचिरं कालादो
होदि ? णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं उक्कस्सेण पण्णारसरादिदियाणि ।" -३६४, ६५ ।

पुधत्तं । अबंधगा जह० एगस० । उक्कस्सेण सत्तरादिदियाणि ।

२६७. सासणे-सव्वे त्रिगप्पा जहण्णेण एगस० । उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । एवं सम्मामि० ।

२६८. अणाहारे—धुविगाणं बंधा-अबंधगा णत्थि अंतरं । एवं सेसाणं । णवरि देवगदि०४ बंधगा जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण मासपुधत्तं अंतरं । तित्थयरं बंधगा जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण वासपुधत्तं अंतरं । अबंधगा णत्थि ।

एवं अंतरं समत्तं ।

बन्धकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे वर्षप्रथक्त्व है । अबन्धकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे ७ दिनरात है ।

२६७. सासादनमें सर्व विकल्प जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे पल्योपमके असंख्यातवे भाग हैं । इसी प्रकार सम्यङ्मिथ्यात्वमें जानना ।

२६८. अनाहारकोंमें^२-ध्रुवप्रकृतियोंके बन्धकों, अबन्धकोंका अन्तर नहीं है । इसी प्रकार शेष प्रकृतियोंमें भी जानना चाहिए । विशेष, देवगति चारके बन्धकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे मासप्रथक्त्व अन्तर है । तीर्थंकर प्रकृतिके बन्धकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे वर्षप्रथक्त्व अन्तर है ; अबन्धक नहीं हैं ।

इस प्रकार अन्तरानुगम समाप्त हुआ ।

१. "सासणसम्मदिट्ठी-सम्मामिच्छादिट्ठीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं, उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ।" -३७५, ७६ । २. आहाराणुवादेण आहार-अणाहाराणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? णत्थि अंतरं, णिरंतरं । -सु० वं०, सू० ६६-६८, पृ. ४६४

[भावाणुगम-परूवणा]

२६६. भावाणुगमेण दुविहो णिदेसो । ओषेण आदेसेण य ।

[भावानुगम]

२६६. भावानुगमका ओष तथा आदेशसे दो प्रकार निर्देश करते हैं ।

विशेषार्थ—यहाँ नाम, स्थापना, द्रव्य तथा भाव रूप चतुर्विध निक्षेप रूप भावोंमें-से नोआगम भाव रूप भावनिक्षेपका अधिकार है। वीरसेन स्वामीने 'धवलाटीकामें भावानुगमपर प्रकाश डालते हुए लिखा है—“पदेसु चदुसु भावेसु केण भावेण अहियारो ? णोश्रागमभन्नभावेण ।”

शंका—यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान—“णामादि-सेस-भावोहि चोहस-जीवसमासाणमणप्पभूवेहि इह पञ्चोज्जा-भावा” - चौदह जीव समासोंके लिए अनात्मभूत नामादि शेष भावनिक्षेपोंसे यहाँपर कोई प्रयोजन नहीं है। इससे ज्ञात होता है कि यहाँ नोआगमभाव - भावनिक्षेपसे ही प्रयोजन है।

भावप्राभृतका ज्ञाता तथा उपयोग विशिष्ट जीव आगमभावरूप भावनिक्षेप है। नोआगमभाव - भावनिक्षेप औदयिक, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक तथा पारिणामिकके भेदसे पंच प्रकार है। कर्मोदयजनित औदयिक भाव है। कर्मोंके उपशमसे उद्भूत औपशमिक भाव है। कर्मोंके क्षयसे प्रकट होनेवाला जीवका भाव क्षायिक है। कर्मोदय होते हुए भी जो जीवके गुणका खण्ड (अंश) प्राप्त होता है, वह क्षायोपशमिक भाव है। पूर्वोक्त चार भावोंसे व्यतिरिक्त जीव तथा अजीवगत भाव पारिणामिक नाम युक्त है।

ये पाँचों भाव जीवमें पाये जाते हैं। पुद्गल द्रव्योंमें औदयिक तथा पारिणामिक भाव पाये जाते हैं - “पोग्गलद्व्वेसु औदय-पारिणामियाणं दोण्हं खेव भावाणमुवलंभा ।” धर्म, अधर्म, आकाश तथा काल द्रव्योंमें पारिणामिक भाव है।

भावका क्या स्वरूप है, इसपर धवला टीकाकार इस प्रकार प्रकाश डालते हैं—“भावो णाम जीवपरिणामो तिव्व-मंद-णिज्जराभावाविरूवेण अणेषपयारो” (जीवद्वान्, भावानु-गम ध० टी०, पृ० १८५, १८६) - भाव नाम जीवके परिणामका है। वह तीव्र, मंद, निर्जरा-भाव आदिके रूपसे अनेक प्रकारका है।

अभव्य जीवोंके असिद्धता, धर्मास्तिकायमें गमनहेतुता, अधर्म द्रव्यमें स्थितिहेतुता, आकाशमें अवगाहनत्व, कालमें परिणमनहेतुता आदि अनादि-निधन भाव हैं। भव्यमें असिद्धता, भव्यत्व, मिथ्यात्व, असंयम आदि अनादि-सान्त भाव हैं। केवलज्ञान, केवलदर्शन आदि सादि-अनन्त भाव हैं। सत्यक्त्व और संयमको धारण कर पीछे आये हुए जीवके मिथ्यात्व तथा असंयम आदि सादि-सान्त भाव हैं।

१. “कम्मोदए संते वि जं जीवगुणक्खंडमुवलंभदि सो खओवसमिओ भावो णाम” - जी०, भाव० टीका, पृ० १८५ ।

२७०. तत्त्व ओघेण-पंचणा० छदंसणा० मिच्छ० (?) सोलसक० (चदुसंज०) भयदुगुं० तेजाक० वण्ण०४ अगु० उप० णिमिणपंचंतराङ्गणं बंधगात्ति को भावो ? ओदइगो भावो । अबंधगात्ति को भावो ? उवसमिगो वा खइगो वा । धीणगिद्धित्तिगं बारसकसा० बंधगात्ति को भावो ? ओदइगो भावो । अबंधगात्ति को भावो ? उवसमिगो वा खइगो वा खयोवसमिगो वा । मिच्छत्त-बंधगात्ति को भावो ? ओदइगो भावो । अबंधगात्ति को भावो ? उवसमिओ वा खइगो वा खयोवसमिगो वा पारिणामिगो वा । साद-बंधगात्ति को भावो ? ओदइगो भावो । अबंधगात्ति को भावो ?

२७०. ओघसे - ५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, मिथ्यात्व(?), १६ कषाय, (४ संज्वलन). भय, जुगुप्सा, तैजस, कार्मण, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और ५ अन्तरायोंके बन्धकोंके कौन भाव हैं ? औदयिक भाव हैं ।

विशेषार्थ—मिथ्यात्वका वर्णन आगे आया है अतः यहाँ उसका पाठ असंगत प्रतीत होता है । बारह कषायोंका वर्णन आगे किया गया है, अतः सोलह कषायके स्थानमें चार संज्वलनका पाठ सम्यक् प्रतीत होता है ।

अबन्धकोंके कौन भाव हैं ? औपशमिक भाव वा क्षायिकभाव हैं ।

विशेष—इन प्रकृतियोंका अबन्ध उपशान्त-कषाय अथवा क्षीणमोहमें होगा, अतएव उपशम श्रेणीकी अपेक्षा औपशमिक और क्षपकश्रेणीकी अपेक्षा क्षायिकभाव है ।

स्त्यानगृद्धित्तिक, १२ कषायके बन्धकोंके कौन भाव हैं ? औदयिक भाव हैं । अबन्धकोंमें कौन भाव हैं ? औपशमिक वा क्षायिक वा क्षायोपशमिक है ।

विशेष—इनके अबन्धकोंका प्रमत्तसंयत गुणस्थान होगा । वहाँकी अपेक्षा तीन भाव कहे गये हैं ।

मिथ्यात्वके बन्धकोंमें कौन-सा भाव है ? औदयिक है । अबन्धकोंमें कौन-सा भाव है ? औपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक या पारिणामिक ।

विशेष—मिथ्यात्वके अबन्धकोंमें पारिणामिकभाव सासादन गुणस्थानकी अपेक्षा कहा गया है ।

शंका—सासादन गुणस्थानमें अनन्तानुबन्धी चतुष्कके उदयकी अपेक्षा औदयिक भाव क्यों नहीं कहा ?

समाधान—यहाँ दर्शन-मोहनीयकर्मके सिवाय अन्य कर्मोंके उदयकी विवक्षा नहीं की गयी है ।

१. "मिच्छे खलु ओदइओ विदिए पुण पारणामिओभावो ।

मिस्से खओवसमिओ अविदसम्महि लिण्णेव ॥ ११ ॥

एदे भावा णियमा दंसणमोहं पडुच्च भणिदा इ ।

चारितं णत्थि जदो अविदअंतेसु ठाणेषु ॥ १२ ॥" गो० जी० ।

ओदइगो वा खइगो वा [असाद-बंधगात्ति को भावो ?] ओदइ० । [अवंधगात्ति को भावो ? ओदइगो वा] खइगो वा खयोवसमिगो वा । दोण्णं बंधगात्ति को भावो ? ओदइगो भावो । अवंधगात्ति को भावो ? खइगो भावो । इत्थि० णवुंस० बंधगात्ति को भावो ? ओदइगो भावो । अवंधगात्ति को भावो । ओदइगो वा उवसमिगो वा खइगो वा खयोवसमिगो वा । णवरि णवुंस० पारिणामिगो भावो । पुरिसवे० बंधगात्ति ओदइगो भावो । अवंधगात्ति को भावो ? ओदइगो वा उवसमिगो वा खइगो वा ।

सातावेदनीयके बन्धकोंमें कौन भाव है ? औदयिक भाव है । अबन्धकोंमें कौन भाव है ? औदयिक या क्षायिक है ।

विशेष—सातावेदनीयकी बन्धव्युच्छित्तिवालें अयोगकेवली गुणस्थानमें क्षायिकभाव है, किन्तु असाताके बन्धक किन्तु साताके अबन्धकके औदयिक भाव है; कारण साता और असाताके परस्पर प्रतिपक्षी होनेसे असाताके बन्धकालमें साताका अबन्ध होगा । इस दृष्टिसे औदयिक भावका निरूपण किया है ।

[असाता वेदनीयके बन्धकोंके कौन-सा भाव है ?] औदयिक है । [अबन्धकोंके कौन-सा भाव है ? औदयिक] या क्षायिक या क्षायोपशमिक है ।

विशेष—असाताकी बन्धव्युच्छित्ति प्रमत्तसंयतमें होती है, अतएव अप्रमत्त गुणस्थानकी अपेक्षा क्षायोपशमिक भाव कहा है ।

दोनोंके बन्धकोंमें कौन-सा भाव है ? औदयिक भाव है । अबन्धकोंमें कौन-सा भाव है ? क्षायिकभाव है ।

विशेष—यहाँ दोनोंके अबन्धक अयोगकेवलीकी अपेक्षा क्षायिकभाव कहा है ।

स्त्रीवेद, नपुंसकवेदके बन्धकोंमें कौन-सा भाव है ? औदयिक भाव है । अबन्धकोंमें कौन-सा भाव है ? औदयिक, औपशमिक, क्षायिक या क्षायोपशमिक है । इतना विशेष है कि नपुंसकवेदके अबन्धकोंमें पारिणामिक भाव भी पाया जाता है ।

विशेष—यहाँ स्त्रीवेद, नपुंसकवेदके अबन्धकोंमें औदयिक भावका निरूपण पुरुषवेदके बन्धककी अपेक्षासे किया है । नपुंसकवेदके अबन्धक सासादन गुणस्थानमें होते हैं । वहाँ दर्शनमोहनीयके उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशमका अभाव होनेसे पारिणामिक भाव कहा है ।

पुरुषवेदके बन्धकोंमें कौन-सा भाव है ? औदयिक भाव है । अबन्धकोंमें कौन-सा भाव है ? औदयिक, औपशमिक वा क्षायिक है ।

विशेष—पुरुषवेदके अबन्धक अनिवृत्तिकरणके अवेद भागमें होंगे । वहाँ चारित्र मोहनीयके उपशम अथवा क्षयमें तत्पर जीवोंकी अपेक्षा औपशमिक तथा क्षायिक भाव है । पुरुषवेदके अबन्धक किन्तु स्त्री-नपुंसकवेदके बन्धककी अपेक्षा औदयिक भाव होगा ।

१. देसविरदे पमत्ते इदरे य खओवसमियभावो दु ।

सो खलु चरित्तमोहं पडुच्च भणियं तथा उवरि ॥ १३ ॥

तत्तो उवरि उवसमभावो उवसामगेसु खबगेसु ।

खइओ भावो णियमा अजोगिचरमोत्ति सिद्धे य ॥ १४ ॥

तिष्णं वेदानं बंधगात्ति को भावो ? ओदङ्गो भावो । अबंधगात्ति को भावो ? खङ्गो वा उवसमिगो वा । इत्थि णयुंसकभंगो [अरदिसोग] चटु-आयु-तिष्णिगदि-चटुजादि-ओरालि० पंचसंठा० ओरालि० अंगो० छस्संघ० तिष्णि आणु० आदाबुज्जो० अप्प-सत्थवि० थावरादि०४ अप्पसत्थवि० (अधिरादिछक्कं) उच्चागोदं (णीचागोदं) च । पुरिसभंगो हस्सरदि-देवगदि-पंचिदि० वेउव्वि० आहार० समचटु० दोआंगो० देवाणु० परघाटुस्सा० पसत्थविहाय० तस०४ थिरादि-छक्कं तिथयरं [उच्चागोदं च] । पत्तेगेण साधरणेण चटुआयु-दो-अंगो० छस्संघ०२ विहाय० दोसराणं बंधगात्ति को भावो ? ओदङ्गो भावो । अबंधगात्ति को भावो ? ओदङ्गो वा उवसमिगो वा खङ्गो वा । णवरि चटुआयु० छस्संघ० अबंधगात्ति को भावो ? ओदङ्गो वा उवसमिगो वा खङ्गो वा खयोवसमिगो वा । दो युगल-चटुगदि-पंचजादि-दोसरीर० छस्संठा० चटुआणु० तसथावरादिणवयुगलं दोगोदं च बंधगात्ति को भावो ? ओदङ्गो भावो । अबंधगात्ति को भावो ? उवसमिगो वा खङ्गो वा । एवं ओघभंगो मणुसगदि (?) तिगं

तीनों वेदोंके बन्धकोंमें कौन-सा भाव है ? औदयिक है । अबन्धकोंके कौन-सा भाव है ? क्षायिक या औपशमिक है ।

विशेष—वेदत्रयके अबन्धकके अनिवृत्तिकरणके अवेद भागमें क्षायिक तथा औपशमिक भाव कहे हैं ।

[अरति श्लोक] ४ आयु, देवगतिको छोड़कर तीन गति, ४ जाति, औदारिक शरीर, समचतुरस्रसंस्थानको छोड़कर शेष पाँच संस्थान, औदारिक अंगोपांग, ६ संहनन, देवानुपूर्वोंके विना तीन आनुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्तविहायोगति, स्थावरादि ४, अप्रशस्त विहायोगति(?) तथा उच्च गोत्रके(?) बन्धकोंमें स्त्रीवेद और नयुंसक वेदके बन्धकोंके समान भाव जानना चाहिए अर्थात् बन्धकोंके औदयिक भाव हैं तथा अबन्धकोंके औदयिक, औपशमिक, क्षायिक वा क्षायोपशमिक है ।

विशेष—यहाँ अप्रशस्त विहायोगतिका दो बार उल्लेख आया है । प्रतीत होता है, अस्थिरादिषट्कके स्थानमें अप्रशस्तविहायोगतिका पुनः उल्लेख हो गया है । यहाँ उच्चगोत्रके स्थानमें नीचगोत्रका पाठ उचित प्रतीत होता है ।

हास्य, रति, देवगति, पंचेन्द्रियजाति, वैक्रियिक शरीर, आहारक शरीर, समचतुरस्र-संस्थान, वैक्रियिक तथा आहारक-अंगोपांग, देवानुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त विहायोगति, त्रस ४, स्थिरादि ६, तीर्थकर प्रकृति, [उच्च गोत्र] के बन्धकोंमें पुरुषवेदके समान भंग है अर्थात् बन्धकोंमें औदयिक भाव है, अबन्धकोंमें औदयिक, क्षायिक वा क्षायोपशमिक है । प्रत्येक तथा सामान्यसे ४ आयु, २ अंगोपांग, ६ संहनन, २ विहायोगति, २ स्वरोंके बन्धकोंमें कौन भाव है ? औदयिक है । अबन्धकोंके कौन भाव है ? औदयिक, औपशमिक तथा क्षायिक भाव हैं । विशेष, ४ आयु, ६ संहननके अबन्धकोंमें कौन भाव है ? औदयिक, औपशमिक, क्षायिक तथा क्षायोपशमिक भाव हैं । हास्य रति युगल, ४ गति, ५ जाति, औदारिक, वैक्रियिक शरीर, ६ संस्थान, ४ आनुपूर्वी, त्रसस्थावरादि ९ युगल और दो गोत्रोंके बन्धकोंके कौन भाव है ? औदयिक भाव है । अबन्धकोंके कौन भाव है ? औपशमिक या क्षायिक भाव है ।

पंचिदिय-तस०२ पंचमण० पंचवचि० काजोगि-ओरालिय का० चक्खु० अचक्खु० सुक्कले० भवसिद्धि० सण्णि-अणाहारग (?) ति । णवरि जोगादिसु (अजोगिसु) वेदणीय बंधगा णत्थि ।

२७१. आदेसेण णेरइगेसु-धुविगाणं बंधगा ति को भावो ? ओदइगो भावो । अबंधगा णत्थि । धीणगिद्धितिगं अणंताणुबंधि०४ बंधगात्ति को भावो ? ओदइगो भावो । अबंधगात्ति को भावो ? उवसमिगो वा खइगो वा खयोवसमिगो वा । सादा-सादबंधगा अबंधगा ति को भावो ? ओदइगो भावो । दोण्णं बंधगा ति० ? ओदइगो भावो । अबंधगा णत्थि । एवं चटुणोकसा० थिरादि-तिण्णियुगलं० । मिच्छत्तं बंधगा

विशेष—गोत्रादिके अबन्धक उपशान्तकषाय या क्षीणकषाय गुणस्थानमें होंगे, वहाँ औपशमिक क्षायिक भाव कहे हैं ।

मनुष्यत्रिक (मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त तथा मनुष्यनी), पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्तक, त्रस, त्रसपर्याप्तक, पंच मनोयोगी, पंच वचनयोगी, काययोगी, औदारिक काययोगी, चक्षु-दर्शनी, अचक्षुदर्शनी, शुक्ललेश्यक, भव्यसिद्धिक, संज्ञी तथा अनाहारकोंमें(?) ओघके समान भंग है । इतना विशेष है कि (अ)योगादिकोंमें वेदनीयके बन्धक नहीं है (?) ।

विशेष—अनाहारकोंका कथन आगे पृष्ठ २७८ पर आया है, अतः यहाँ आहारकोंका पाठ सम्यक् प्रतीत होता है । वेदनीयके अबन्धक, अयोगकेवली होते हैं । इस दृष्टिसे 'जोगादिसु'के स्थानपर 'अजोगी' पाठ संगत प्रतीत होता है ।

२७१. आदेशसे—नारकियोंमें ध्रुव प्रकृतियोंके बन्धकोंके कौन भाव है ? औदयिक है । अबन्धक नहीं है । स्त्यानगृद्धित्रिक, अनन्तानुबन्धी ४ के बन्धकोंके कौन भाव है ? औदयिक भाव है । अबन्धकोंके कौन भाव है ? औपशमिक, क्षायिक वा क्षायोपशमिक है । साता-असाताके बन्धकों, अबन्धकोंके कौन भाव है ? औदयिक भाव है ।

विशेष—नरक गतिमें साताका बन्धक असाताका अबन्धक होगा, असाताका बन्धक साताका अबन्धक होगा, इसलिए अन्यतरके बन्धककी अपेक्षा औदयिक भाव कहा है ।

दोनोंके बन्धकोंके कौन भाव है ? औदयिक है ; अबन्धक नहीं है । इसी प्रकार चार नोकषाय, स्थिरादि तीन युगलमें जानना चाहिए । मिथ्यात्वके बन्धकोंके कौन भाव है ? औदयिक है ।

विशेषार्थ—इस प्रसंगमें 'धवलार्टीकामें महत्त्वपूर्ण शंका-समाधान किया गया है ।

शंका—मिथ्यात्वके बन्धक मिथ्यादृष्टिके सम्यक्मिथ्यात्व प्रकृतिके सर्वघाती स्पर्धकोंके उदय-क्षयसे, उनके सद्वस्थारूप उपशमसे तथा सम्यक्त्व प्रकृतिके देशघाती स्पर्धकोंके उदय-क्षयसे, उनके सद्वस्थारूप उपशमसे अथवा अनुदय रूप उपशमसे और मिथ्यात्व प्रकृतिके सर्वघाती स्पर्धकोंके उदयसे मिथ्यादृष्टिरूप भाव उत्पन्न होता है । अतः उसके क्षायोपशमिक भाव क्यों नहीं माना जाये ?

समाधान—सम्यक्त्व और सम्यक्मिथ्यात्व प्रकृतियोंके देशघाती स्पर्धकोंके उदय-क्षय अथवा सद्वस्थारूप उपशम अथवा अनुदयरूप उपशमसे मिथ्यादृष्टि भाव नहीं होता । कारण, ऐसा माननेमें दोष आता है । जो जिससे नियमतः उत्पन्न होता है, वह उसका कारण होता है । ऐसा न माननेपर अनवस्था दोष आयेगा । कदाचित् यह कहा जाये कि मिथ्यात्वके

त्ति को भावो ? ओदङ्गो भावो । अबंधगा त्ति को भावो ? उवसमिगो वा खङ्गो वा खयोवसमिगो वा पारिणामिगो वा । इत्थि० णवुंस-बंधगा त्ति को भावो ? ओदङ्गो भावो । अबंधगात्ति को भावो ? ओदङ्गो वा उवसमिगो वा खङ्गो वा खयोवसमिगो वा । णवरि णवुंस० अबंधगात्ति पारिणामियो वि । पुरिस बंधा-अबंधगा त्ति ओदङ्गो भावो । तिण्णि वेदाणं बंधगा त्ति को भावो ? ओदङ्गो भावो । अबंधगा णत्थि । एवं इत्थि-णवुंसभंगो तिरिक्खायु-तिरिक्खगदि-पंचसंठा० पंचसंघ० तिरिक्खाणु० उज्जोव-अप्पसत्थवि० दूभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदं च । पुरिसभंगो मणुसायु-मणुसगदि-सम-चदु०-वज्जरिसभ० मणुसाणु० पसत्थवि० सुभग० सुस्सर० आदे० तित्थय० उच्चागोदं

उत्पन्न होनेके कालमें जो भाव विद्यमान हैं, वे उसके कारणपनेको प्राप्त होते हैं, तो फिर ज्ञानदर्शन, असंयम आदि भी मिथ्यात्वके कारण हो जायेंगे, किन्तु ऐसा नहीं है; कारण इस प्रकारका व्यवहार नहीं पाया जाता। अतएव यह सिद्ध होता है कि मिथ्यात्वके उदयसे मिथ्यादृष्टि भाव होता है, कारण इसके बिना मिथ्यात्व भावकी उत्पत्ति नहीं होती (ध० टी०, भा० पृ० २०७) । इससे मिथ्यात्वके बन्धकोंके औदयिक भाव कहा है।

मिथ्यात्वके अबन्धकोंके कौन भाव है ? औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक वा पारिणामिक है।^१

स्त्रीवेद, नपुंसकवेदके बन्धकोंके कौन भाव है ? औदयिक है। अबन्धकोंके कौन भाव है ? औदयिक, औपशमिक, क्षायिक वा क्षायोपशमिक है।

विशेष—यहाँ उक्त वेदद्वयके अबन्धक, किन्तु पुरुषवेदके बन्धककी अपेक्षा औदयिक भाव कहा है।

यहाँ इतना विशेष है कि नपुंसकवेदके अबन्धकोंमें पारिणामिक भाव भी पाया जाता है।

पुरुषवेदके बन्धकों, अबन्धकोंके कौन भाव है ? औदयिक भाव है।

विशेष—नरक गतिमें आदिके चार ही गुणस्थान होते हैं और पुरुषवेदकी बन्ध-व्युच्छित्ति नवें गुणस्थानमें होती है, तब पुरुषवेदके अबन्धकका भाव अन्य वेदोंके बन्धका समझना चाहिए। अन्य वेदोंका बन्ध होते हुए पुरुषवेदका बन्ध न होना यहाँ पुरुषवेदका अबन्धकपना है। इस अपेक्षासे अबन्धकके औदयिक भाव कहा है।

तीन वेदोंके बन्धकोंके कौन भाव है ? औदयिक है; अबन्धक नहीं है।

तिर्यंच आयु, तिर्यंचगति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, तिर्यंचानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्त-विहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय, तथा नीच गोत्रमें स्त्रीवेद तथा नपुंसक वेदके समान भंग जानना चाहिए। अर्थात् बन्धकोंके औदयिक भाव हैं; अबन्धकोंके औदयिक, औप-शमिक, क्षायिक व क्षायोपशमिक हैं। मनुष्यायु, मनुष्यगति, समचतुरस्र संस्थान, वज्र-वृषभसंहनन, मनुष्यानुपूर्वी, प्रशस्तविहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय, तीर्थकर तथा उच्च-गोत्रमें पुरुषवेदके समान भंग है; अर्थात् बन्धकों, अबन्धकोंके औदयिक भाव है। शेष प्रकृ-

१. अणताणुबंधीणमुदण्णव सासणसम्मादिट्ठी होदि त्ति ओदङ्गो भावो किण्ण उच्चदे ? आइल्लेसु च्चदुसु वि गुणट्ठाणेषु चारित्तावरणत्तिव्वोदण्ण पत्तासंजमेसु दंसणमोहणिबंधणेसु चारित्तमोहविक्खवाभावा । अप्पिदस्स दंसणमोहणीयस्स उदण्ण उवसमेण, खण्ण, खओवसमेण वा सासणसम्मादिट्ठी ण होदित्ति पारणा-मिओ भावो । —ध० टी०, भा०, पृ० २०७ ।

च । पत्तेणेण साधारणेण सेसाणं सत्त्वाणं बंधगा ओदइगो भावो । अबंधगा णत्थि । एवं पढमाए । विदियाए याव सत्तमा त्ति एवं चेव । णवरि खइयं णत्थि । सत्तमाए मिच्छत्त-तिरिक्खायु बंधगा त्ति को भावो ? ओदइगो भावो । अबंधगा त्ति को भावो ? ओदइगो वा उवसमिगो वा खयोवसमिगो वा पारिणामियो वा । णवरि मिच्छत्त-अबंधगात्ति को भावो ? ओदइगो णत्थि ।

तियोंके बन्धकोंमें प्रत्येक तथा साधारणसे औदयिक भाव है अदन्धक नहीं हैं । इस प्रकार पहली पृथ्वीमें जानना । दूसरीसे लेकर सातवीं पृथ्वी पर्यन्त इसी प्रकार जानना । विशेष यह है कि द्वितीय आदि पृथिवियोंमें क्षायिक भाव नहीं है । [कारण क्षायिकसम्यक्त्वी जीवका प्रथम पृथ्वीपर्यन्त उत्पाद होता है ।] सातवीं पृथ्वीमें मिथ्यात्व तथा तिर्यचायुके बन्धकोंके कौन भाव है ? औदयिक भाव है । अबन्धकोंके कौन भाव हैं ? औदयिक, औपशमिक, क्षायोपशमिक वा पारिणामिक है । विशेष, मिथ्यात्वके अबन्धकोंके कौन भाव है ? औदयिक भाव नहीं है अर्थात् यहाँ औपशमिक, क्षायोपशमिक वा पारिणामिक भाव हैं ।

विशेष—सासादन गुणस्थानकी अपेक्षा पारिणामिक भाव है, मिश्र गुणस्थानकी अपेक्षा क्षायोपशमिक है तथा अविरत सम्यक्त्वीकी अपेक्षा औपशमिक तथा क्षायोपशमिक भाव है ।

‘धवलार्टीकामें नारकीके औपशमिकभावके सम्वन्धमें लिखा है—दर्शन मोहनीयके उदयाभाव लक्षणवाले उपशमके द्वारा उपशम सम्यग्दृष्टि उत्पन्न होता है, इससे वह औपशमिक है ।

शंका—यदि उदयाभावको भी उपशम कहते हैं, तो देवपना भी औपशमिक होगा, क्योंकि वह देवपना नरकादि शेष तीन गतियोंके उदयाभावसे उत्पन्न होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि वहाँ तीनों गतियोंका स्तिबुक-संक्रमणके द्वारा उदय पाया जाता है अर्थात् स्तिबुक संक्रमणके द्वारा अनुदय प्राप्त तीनों गतियोंका संक्रमण होकर विपाक होता है । (तिण्हं गइणं स्थिउक्कसंक्रमेण उदयस्सुवलंभा) अथवा देवगति नामकर्मका उदय होनेसे देवगतिको औपशमिक नहीं कहा है । (पृ०२१०)

क्षायोपशमिक भावके विषयमें यह कथन ध्यान देने योग्य है—दर्शन मोहनीयकी सम्यक्त्व प्रकृतिके उदयसे जो चल, मलिन तथा अगाढ सम्यक्त्व होता है, वह वेदक सम्यक्त्व है । जीवकाण्ड गोम्मटसारमें लिखा है :

“दंसणमोहुदयादो उप्पज्जइ जं पयत्थसइहणं ।

चल-मलिणमगाढं तं वेदयसम्मत्तमिदि जाणे ॥६४६॥”

१. “विदियादिसु पुढवीसु खइयसम्माविट्ठीणमुप्पत्तीए अभावा ।” - जीव० भा० टी० पृ० २११ ।
२. “आदेसेण गइयाणुवादेण णिरयगईए णेरइएसु मिच्छाविट्ठि त्ति को भावो, ओदइओ भावो । सासणसम्मा-इट्ठि त्ति को भावो, पारिणामिओ भावो । सम्मामिच्छाइट्ठि त्ति को भावो, खओवसमिओ भावो । असंजदसम्मा-इट्ठि त्ति को भावो ? उवसमिओ वा खइयो वा खओवसमिओ वा भावो ।” - जी० भावाणु०, सूत्र १०-१४ ।
३. “पिडपगईण जा उदयसंगया तीए अणुदयगयाओ ।

संकामिऊण वेयइ जं एसो थिबुकसंकामो ॥” - पंच०सं०, संक्रम, ५०॥

—पिड प्रकृतियोंमें-से किसीके उदय आनेपर अनुदय प्राप्त शेष प्रकृतियोंका उस प्रकृतिमें संक्रमण होकर उदय आनेको स्तिबुक संक्रमण कहते हैं ।

‘धवला’टीकामें सम्यक्त्व प्रकृतिको ‘वेदगसम्मत्तफह्य’-वेदक-सम्यक्त्व स्पर्धक कहा है। वहाँ कहा है-“दर्शन मोहनौयकी अवयव स्वरूप देशघाती लक्षणवाले वेदक सम्यक्त्व प्रकृतिके उदयसे उत्पन्न होनेवाला सम्यग्दृष्टिभाव क्षायोपशमिक कहलाता है।

वेदकसम्यक्त्व प्रकृतिके स्पर्धकोंकी क्षय संज्ञा है, क्योंकि उसमें सम्यग्दर्शनकी प्रतिबन्धक शक्तिका अभाव है। मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्व इन दोनोंके उदयाभावको उपशम कहते हैं। इस प्रकार उपर्युक्त क्षय तथा उपशम इन दोनोंके द्वारा उत्पन्न होनेसे सम्यग्दृष्टिभाव क्षायोपशमिक कहलाता है।

‘गोम्मटसार’जीवकाण्डकी संस्कृत टीकामें लिखा है-“पद्यं सम्यक्त्वप्रकृत्युदयमनुभवतो जीवस्य जायमानं तत्त्वार्थश्रद्धानं वेदकसम्यक्त्वमित्युच्यते। इदमेव क्षायोपशमिक-सम्यक्त्वं नाम दर्शनमोहसर्वघातिस्पर्धकानामुदयाभावलक्षणक्षये देशघातिस्पर्धकरूपसम्यक्त्व-प्रकृत्युदये तस्यैवोपरितनानुदयप्राप्तस्पर्धकानां सदवस्थालक्षणोपशमे च सति समुत्पन्नत्वात्” (पृ० ५०) -इस प्रकार सम्यक्त्व प्रकृतिके उदयका अनुभव करनेवाले जीवके उत्पन्न होनेवाला तत्त्वार्थका श्रद्धानं वेदक सम्यक्त्व कहा जाता है। इसे ही क्षायोपशमिक सम्यक्त्व कहा है, क्योंकि दर्शनमोहके सर्वघाती स्पर्धकोंके उदयका अभाव लक्षणक्षय होनेसे तथा देशघाति स्पर्धक रूप सम्यक्त्व प्रकृतिके उदय होनेपर तथा उसके आगेके अनुदय अवस्थाको प्राप्त स्पर्धकोंका सदवस्था लक्षण उपशम होनेपर यह उत्पन्न होता है।

आचार्य पूज्यपाद भी क्षायोपशमिक भावके लक्षणमें देशघाति स्पर्धकोंका उदय, सर्वघातिस्पर्धकोंका उदय क्षय तथा उनका सदवस्था रूप उपशम कहते हैं। उन्होंने ‘सर्वार्थसिद्धिमें लिखा है-“सर्वघातिस्पर्धकानामुदयक्षयात्तेषामेव सदुपशमात् देशघातिस्पर्धकानामुदये क्षायोपशमिको भावो भवति (सं० सि०, अ० २, सू० ५ की टीका, पृ० ६३) ‘तत्त्वार्थराजवार्तिकमें आचार्य अकलंकदेवने सर्वार्थसिद्धिकी उपरोक्त परिभाषाको स्वीकार कर उसपर भाष्य लिखकर स्पष्टीकरण किया है। (रा० वा०, पृ० ७४, सू० ५, अ० २)।

इस समस्त विवेचनको दृष्टिमें रखनेपर यह ज्ञात होता है कि ‘धवला’टीकामें क्षयोपशमकी भिन्न प्रकार व्याख्या की गयी है। वहाँ आचार्य सर्वघातिके स्पर्धकोंके उदयाभावको क्षय न कहकर देशघातिके स्पर्धकोंको ‘क्षय’ संज्ञा प्रदान करते हैं तथा सर्वघातिके स्पर्धकोंके उदयाभावको उपशम कहते हैं। इस प्रकार क्षय और उपशम युक्त भावको ‘धवला’टीकामें क्षयोपशम कहा है। पूज्यपाद, अकलंकदेव आदिने देशघातिके उदयका प्रतिपादन किया है, अतः उन्होंने देशघातिकी ‘क्षय’ संज्ञाका समर्थन नहीं किया है। जब देशघातिके उदयसे चल, मल तथा रुचिशैथिल्य रूप अगाढ दोष उत्पन्न होते हैं, तब देशघातिको ‘क्षय’ स्वीकार करनेमें कठिनता उपस्थित होती है।

क्षयोपशमके विषयमें ‘गोम्मटसार’ टीकामें पं० टोडरमलजीने इस प्रकार स्पष्टीकरण किया है : “सर्वत्र क्षयोपशमका स्वरूप ऐसा ही जानना जहाँ प्रतिपक्षी कर्मके देशघातिया स्पर्धकनिका उदय पाइये तीहि सहित सर्वघातिया स्पर्धक उदयनिषेक सम्बन्धी तिनिका उदय

१. आप्तगामपदार्थश्रद्धानावस्थायामेव स्थितं कम्पमेव अगाढमिति कीर्त्यते। तद्यथा सर्वेषामुर्हत्परमेष्ठिनां अनन्तशक्तित्वे समाने स्थितेऽपि अस्मि शान्तकर्मणे शान्तिक्रियामै शान्तिनाथदेवः प्रभुर्भवति, अस्मि विघ्नविनशनादिक्रियायै पार्वनाथदेवः प्रभुरित्यादिप्रकारेण रुचिशैथिल्यसम्भवात्, यथा वृद्धकरतलगतयष्टिः शिथिलसंबन्धतया अगाढा तथा वेदकसम्यक्त्वमपि ज्ञातव्यम्। -गो०, जी० संस्कृत टीका, पृ० ५१।

२७२. तिरिक्खेसु-दु(धु)विगणं बंधगा त्ति को भावो ? ओदइगो भावो । अबंधगा णत्थि । थीणगिद्धि०३ मिच्छत्त-अणंताणुवं०४ बंधगात्ति को भावो ? ओदइगो भावो । अबंधगा त्ति को भावो ? उवसमिगो वा खइगो वा खयोवसमिगो वा । णवरि मिच्छत्त-अबंधगा पारिणाभिगो भावो । वेदणी० णिरयभंगो । एवं चदुणोकसा० । थिरा-दितिण्णियुग० तिण्णिवेदं णिरयभंगो । अपच्चक्खाणा०४ बंधगात्ति को भावो ? ओदइगो भावो । अबंधगा त्ति को भावो ? खयोवसमिगो भावो । इत्थि-णवुंसभंगो

न पाइए बिना ही उदय दीये निर्जरै सोई क्षय अर जे उदय न प्राप्त भए आगामी निषेक तिनिका सत्तास्वरूप उपशम तिन दोऊनि कौ होतै क्षयोपशम हो है" (गो० जी०, पृ० ३७)

इस प्रकार क्षयोपशमके विषयमें दो प्रकारसे निरूपण किया गया है ।

२७२. तिर्यचोमें-ध्रुव प्रकृतियोंके बन्धकोंके कौन भाव हैं ? औदयिक भाव हैं; अबन्धक नहीं है ।

विशेष—इनके अबन्धक उपशान्त कषायादि गुणस्थानवाले होंगे । तिर्यचोमें केवल आदिके पाँच गुणस्थान होते हैं; इस कारण तिर्यचोमें ध्रुव प्रकृतियोंके अबन्धकोंका अभाव कहा है ।

स्त्यानगुद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चारके बन्धकोंके कौन भाव हैं ? औदयिक हैं । अबन्धकोंके कौन भाव हैं ? औपशमिक, क्षायिक वा क्षायोपशमिक हैं । इतना विशेष है कि मिथ्यात्वके अबन्धकोंके पारिणामिक भाव भी पाया जाता है । वेदनीयका नरक गतिके समान भंग है, अर्थात् साता-असाताके बन्धक, अबन्धकोंमें औदयिक भाव हैं । दोनोंके बन्धकोंमें औदयिक भाव है; अबन्धक नहीं है ।

चार नोकषायमें इसी प्रकार है । स्थिरादि तीन युगल, तीन वेदके बन्धकों, अबन्धकोंमें नरकगतिके समान भंग है । अप्रत्याख्यानावरण चारके बन्धकोंके कौन भाव हैं ? औदयिक हैं । अबन्धकोंके कौन भाव हैं ? क्षायोपशमिक भाव हैं ।

विशेष—यहाँ देशसंयमी तिर्यचोकी अपेक्षा क्षायोपशमिक भाव कहा है । इस सम्बन्धमें ध्वलाकार इस प्रकार स्पष्टीकरण करते हैं—क्षयोपशमरूप संयमासंयम परिणाम चारित्र मोहनीयके उदय होनेपर उत्पन्न होते हैं । यहाँ प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन और नोकषायोंके उदय होते हुए भी पूर्णतया चारित्रिका विनाश नहीं होता । इस कारण प्रत्याख्यानादिके उदयकी क्षय संज्ञा की गयी है । उन्हीं प्रकृतियोंकी उपशम संज्ञा भी है, कारण वे चारित्र अथवा श्रेणीको आवरण नहीं करतीं । इस प्रकार क्षय और उपशमसे उत्पन्न हुए भावको क्षायोपशमिक भाव कहा है ।

कोई आचार्य कहते हैं—अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके सर्वघाती स्पर्धकोंके उदयक्षयसे उन्हींके सदवस्थारूप उपशमसे तथा चारों संज्वलन और नव नोकषायोंके सर्वघाती स्पर्धकोंके उदयाभावी क्षय, उनके सदवस्थारूप उपशम तथा देशघाती स्पर्धकोंके उदयसे और प्रत्याख्यानावरण चारके सर्वघाती स्पर्धकोंके उदयसे देशसंयम होता है ।

इस सम्बन्धमें ध्वलाकारका यह कथन है कि—उदयके अभावकी उपशम संज्ञा करनेसे उदयसे विरहित सर्व प्रकृतियोंकी तथा उन्हींके स्थिति, अनुभागके स्पर्धकोंको उपशम

१. "देशविरदे पमत्ते इदरे य खओवसमियभावो दु ।" - गो० जीव० गा० १३ ।

तिण्णि-आयु० तिण्णिगदि-चदुजादि-ओरालि० पंचसंठा० ओरालि० अंगो० छस्संघ०
 तिण्णि आयु० आदावुज्जो० अप्पसत्थवि० थावरादि०४ दूभग-दुस्सर-अणादे० णीचागोदं
 च । पुरिसवेदभंगो देवायु-देवगदि-पंचिदि० वेउब्बिय० समचदु० वेउब्बि० अंगो०
 देवाणु० परघादुस्सा० पसत्थवि० तस०४ सुभग-सुस्सर-आदेअ-उच्चागोदं च । एवं
 पत्तेगेण साधारणेण वेदणीय-भंगो । णवरि चदुआयु-दोअंगोवंग० छस्संघ० दोविहा०
 दोसर० बंधगा-अबंधात्ति को भावो ? ओदइगो भावो । णवरि छस्संघडणाणं अबंधगा-
 त्ति ओदइगादिचत्तारिभावो ।

संज्ञा प्राप्त हो जाती है। जिसका वर्तमानमें क्षय नहीं है, किन्तु उदय विद्यमान है उसका क्षय नामकरण अयुक्त है; इसलिए ये तीनों ही भाव उदयोपशमिकपनेको प्राप्त होते हैं। किन्तु इस बातका प्रतिपादक कोई सूत्र नहीं है। फलको देकर तथा निर्जराको प्राप्त होकर दूर हुए कर्म-स्कन्धोंकी 'क्षय' संज्ञा करके देशविरत गुणस्थानको क्षायोपशमिक कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा होनेपर मिथ्यादृष्टि आदि सभी भावोंके क्षायोपशमिकत्वका प्रसंग प्राप्त होगा। (ध० टी०, भावानु० पृ० २०२-२०३)

तीन आयु (देवायुको छोड़कर) तीन गति, चार जाति, औदारिक शरीर, समचतुरस्र-संस्थान बिना शेष पाँच संस्थान, औदारिक अंगोपांग, छह संहनन, देवानुपूर्वी बिना तीन आनुपूर्वी, आतप, उद्योत, अग्रस्तविहायोगति, स्थावरादिक ४, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय तथा नीच गोत्रमें स्त्रीवेद, नपुंसकवेदके समान भंग है। अर्थात् बन्धकोंके औदयिक भाव हैं। अबन्धकोंके औदयिक, औपशमिक, क्षायिक तथा क्षायोपशमिक भाव हैं।

देवायु, देवगति, पंचेन्द्रिय जाति, वैक्रियिकशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिक अंगोपांग, देवानुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तविहायोगति, त्रस ४, सुभग, सुस्वर, आदेय तथा उच्च गोत्रके बन्धकोंमें पुरुषवेदके समान भंग हैं; अर्थात् बन्धकोंके अबन्धकोंमें औदयिक भाव है।

विशेष—तिर्यच गतिमें देवायु, देवगति, आदिकी बन्ध-व्युच्छित्तिवाले गुणस्थानका अभाव है, कारण यहाँ देश संयम गुणस्थान तक ही पाये जाते हैं; अतः अबन्धकोंका यह भाव है कि इन प्रकृतियोंके स्थानमें नरकायु आदिका बन्ध होता है; अतः देवायु आदिकी अबन्ध स्थितिमें नरकायु आदिके बन्धकी अपेक्षा अबन्धकोंमें औदयिक भाव कहा है।

इस प्रकार प्रत्येक तथा साधारणसे वेदनीयके समान भंग है अर्थात् बन्धकोंके औदयिक भाव हैं; अबन्धक नहीं है। विशेष यह है कि चार आयु, दो अंगोपांग, छह संहनन, दो विहायोगति, दो स्वरके बन्धकों, अबन्धकोंके कौन भाव हैं? औदयिक भाव हैं। विशेष छह संहननके अबन्धकोंमें औदयिक आदि चार भाव (पारिणामिकको छोड़कर) हैं।

विशेष—शंका - दो अंगोपांग, छह संहनन, दो विहायोगति, दो स्वर, चार आयुके बन्धकोंके औदयिक भाव ठीक हैं, इनके अबन्धकोंमें औदयिक कैसे कहा? दूसरी बात यह है कि जब छह संहननके अबन्धकोंमें औदयिक, औपशमिक, क्षायोपशमिक तथा क्षायिक भाव कहे गये, तब यहाँ भी विहायोगति आदिके अबन्धकोंमें केवल औदयिक भाव क्यों कहा?

समाधान—तिर्यच गतिमें छह संहनन, दो विहायोगति, दो स्वर तथा दो अंगोपांगके अबन्धक एकेन्द्रियत्वके साथ हैं, कारण एकेन्द्रियमें संहनन, विहायोगति, स्वर तथा अंगोपांग-

२७३. एवं पंचिदिय-तिरिक्ख०३ । णवरि जोणिणीसु खइगंणत्थि । सव्व-
अपज्जत्ताणं तसाणं सव्वे० (?) खयोवसम-पारिणामियं णत्थि । विगप्पा ओदइ० ।

२७४. एवं अणुदिस याव सव्वट्टत्ति ।

२७५. सव्वएइंदिय-सव्वविगलिंदिय-सव्वपंचकाय० आहार० आहारमि० मदि०

का उदय नहीं है; इससे एकेन्द्रियकी अपेक्षा औदयिक भाव कहा है। एकेन्द्रियके सिवाय देव और नारकी भी संहननरहित पाये जाते हैं, उनकी अपेक्षा सम्यक्त्वत्रयकी दृष्टिसे औपशमिक, क्षायिक तथा क्षायोपशमिक भाव भी अबन्धकोंमें कहे हैं।

२७३. पंचेन्द्रिय तिर्यच, पंचेन्द्रिय तिर्यचपर्याप्त तथा पंचेन्द्रिय योनिमती तिर्यचोंमें इसी प्रकार जानना। इतना विशेष है कि योनिमती तिर्यचोंमें क्षायिक भाव नहीं है।

विशेष—तिर्यच-स्त्रीमें क्षायिक भावके अभावका कारण यह है कि दर्शन मोहनीयका क्षयण मनुष्य गतिमें ही होता है और बद्धायुष्क क्षायिकसम्यक्त्वी जीवकों स्त्रीवेदी रूपसे उत्पत्ति नहीं होती। अतः स्त्रीतिर्यचमें क्षायिक भाव नहीं पाया जाता। (ध० टी०, भावा० पृ० २१३)

सर्व अपर्याप्त त्रसोंमें [औपशमिक, क्षायिक] क्षायोपशमिक तथा पारिणामिक नहीं है। [सर्व] विकल्पोंमें औदयिक भाव है।

२७४. अनुदिश स्वर्गसे सर्वार्थसिद्धि पर्यन्त इसी प्रकार है।

विशेषार्थ—अनुदिश आदिसे लेकर सर्वार्थसिद्धि विमानवासी देवोंमें सभी सम्यग्दृष्टि होते हैं। उनके औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक भाव भी हैं।

इसपर धबलाकार इन शब्दोंमें प्रकाश डालते हैं—“जैसे वेदक सम्यग्दृष्टि देवोंके क्षायोपशमिक भाव, क्षायिक सम्यग्दृष्टि देवोंके क्षायिक भाव और उपशम सम्यग्दृष्टि देवोंके औपशमिक भाव होता है।

शंका—अनुदिश आदि विमानोंमें मिथ्यादृष्टि जीवोंका अभाव होते हुए उपशम सम्यग्दृष्टियोंका होना कैसे सम्भव है, क्योंकि कारणका अभाव होनेपर कार्यकी उत्पत्तिका विरोध है।

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि उपशम सम्यक्त्वके साथ उपशम श्रेणोंपर चढ़ते और उतरते हुए मरणकर देवोंमें उत्पन्न होनेवाले संयत्तोंके उपशम सम्यक्त्व पाया जाता है। (जी० भावा० टीका पृ० २१६)

२७५. सर्व एकेन्द्रिय, सर्व विकलेन्द्रिय, सर्व पंचकाय, आहारक, आहारकमिश्र,

१. खइयसम्मादिट्ठीणं बद्धाउआणं त्थीवेदएसु उप्पत्तीए अभावा । मणुसगइवदिरित्तसेसणईसु दंसण-
मोहणीयस्खवणाए अभावादो च । -ध० टी०, पृ० २१३ । २. अणुदिसादि जाव सव्वट्टसिद्धिविमाणवासियदेवेसु
असंजदसम्मादिट्ठि त्ति को भावो ? ओवसमिओ वा खइओ वा खओवसमिओ वा भावो । -जी० भावा०,
सूत्र २८ । ३. आहारक, आहारक मिश्रमें चार संज्वलन और सात नोकवायोंके उदय प्राप्त देशघाती
स्पर्धकोंकी उपशम संज्ञा है; कारण पूर्णतया चारित्रके धातनेकी शक्तिका वहाँ उपशम पाया जाता है। उन्हीं
ग्यारह चारित्र मोहनीयकी प्रकृतियोंके सर्वघाती स्पर्धकोंकी क्षय संज्ञा है; क्योंकि उनका उदय भाव नष्ट हो
चुका है। इस प्रकार क्षय और उपशमसे उत्पन्न संयम क्षायोपशमिक है। पूर्वोक्त ग्यारह प्रकृतियोंके उदयकी
ही क्षयोपशम संज्ञा है; कारण चारित्रके धातनेकी शक्तिके अभावकी ही क्षयोपशम संज्ञा है। इस प्रकार
क्षयोपशमसे उत्पन्न प्रमादयुक्त संयम क्षायोपशमिक है। -ध० टी०, भावाणु०, पृ० २२१ ।

सुद० विभंग० अबन्धसि० सासण० सम्मामि० मिच्छादि० असणि ति । णवरि मदि० सुद० विभंगे मिच्छ० अवन्धगात्ति को भावो ? पारिणामिगो भावो ।

२७६. देवाणं णिरयोधं याव णवमेवजा ति । णवरि देवोधादो याव सोधम्मी-साणा ति । एइंदिय-आदाव-थावर-बंधगात्ति को भावो ? ओदइगो भावो । अवन्धगात्ति को भावो ? ओदइगो वा उवसमिगो वा खइगो वा खयोवसमिगो वा पारिणामिगो वा । तप्पडिपक्खाणं बंधा-अवन्धगात्ति को भावो ? ओदइगो भावो । दोणं बंधगा ति

मत्यज्ञान, श्रुताज्ञान, विभंगावधि, अभव्यसिद्धिक, सासादन, सम्यग्मिथ्यात्वो, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञीमें इसी प्रकार जानना चाहिए। विशेष, मत्यज्ञान, श्रुताज्ञान तथा विभंगावधिमें मिथ्यात्वके अबन्धकोंके कौन भाव है ? पारिणामिक भाव है।

विशेषार्थ—एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, पंचकाय, अभव्यसिद्धिक, असंज्ञी, मिथ्यादृष्टिके मिथ्यात्व गुणस्थान कहा है। अतः इनके औदयिक भाव जानना चाहिए। मत्यज्ञान, श्रुताज्ञान, विभंगज्ञानमें मिथ्यात्व, सासादन गुणस्थान पाये जाते हैं। उनमें मिथ्यात्वके अबन्धक सासादन गुणस्थानवाले जीवोंके दर्शन मोहनीयकी अपेक्षा पारिणामिक भाव कहा गया है। सासादन गुणस्थानमें पारिणामिक भाव है, मिश्रगुणस्थानमें क्षायोपशमिक भाव कहा है। 'गोम्मटसार' जीवकाण्डमें लिखा है—“मिश्रगुणस्थाने क्षायोपशमिकभावो भवति । कुतः ? मिथ्यात्वप्रकृतेः सर्वघातिस्पर्धकानामुदयाभावलक्षणे क्षय सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृत्युदये विद्यमाने सत्यनुदयप्राप्त-निषेकाणामुपशमे च समुद्भूतत्वादेव कारणात्” (संस्कृत टीका, पृ० ३४)—मिश्रगुणस्थानमें क्षायोपशमिक भाव किस प्रकार होता है ? मिथ्यात्व प्रकृतिके सर्वघाति-स्पर्धकोंका उदया-भाव लक्षण क्षय होनेपर तथा सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतिके उदय होनेपर और उदयको प्राप्त न हुए तिर्यचोंके उपशम होनेपर यह क्षायोपशमिक भाव होता है।

आचार्य वीरसेन 'धवलाटीकामें इस परिभाषासे असहमति प्रकट करते हुए कहते हैं—“तण्ण घड्ढे” यह परिभाषा त्रुटित नहीं होती है। उनका कथन है—“सम्मामिच्छत्तुदप संते सइहणासइहणप्पओ करंचिओ जीवपरिणामो उप्पज्जइ । तत्थ जो सइहणं सो सम्मत्तावयवो । तं सम्मामिच्छत्तुदओ ण विणासेदि ति सम्मामिच्छत्तं खओवसमियं (जी० भा० टीका, पृ० १६८) सम्यक्त्व-मिथ्यात्व कर्मके उदय होनेपर श्रद्धानाश्रद्धानात्मक करंचित अर्थात् शबलित (मिश्रित) जीव परिणाम उत्पन्न होता है, उसमें जो श्रद्धानाश है, वह सम्यक्त्वका अवयव है। उसे सम्यग्मिथ्यात्व कर्मका उदय नष्ट नहीं करता है, इससे सम्यग्मिथ्यात्व भाव क्षायोपशमिक है।

विशेष—यहाँ सासादन गुणस्थानकी दृष्टिसे दर्शन मोहनीयकी अपेक्षा पारिणामिक भाव कहा गया है।

२७६. देवोंमें-नव प्रैवेयकपर्यन्त देवोंमें नारकियोंके ओघवत् जानना चाहिए। सामान्य देवोंसे सौधर्म ईशान स्वर्ग पर्यन्त विशेष है। एकेन्द्रिय आतप स्थावरके बन्धकोंके कौन भाव है ? औदयिक भाव है। अबन्धकोंके कौन भाव है ? औदयिक, औपशमिक, क्षायिक वा क्षायोपशमिक वा पारिणामिक भाव है। इनकी प्रतिपक्षी प्रकृतियोंके बन्धकों, अबन्धकोंके

१. ज्ञानानुवादेन मत्यज्ञान-श्रुताज्ञान-विभंगज्ञानेषु मिथ्यादृष्टिः सासादनसम्यग्दृष्टिश्चास्ति ॥ -स० सि०, पृ० ११। एकेन्द्रियादिषु चतुरिन्द्रियपर्यन्तेषु एकमेव मिथ्यादृष्टिस्थानम् । पृथ्वीकायादिषु वनस्प-तिकायान्तेषु एकमेव मिथ्यादृष्टिस्थानम् । असंज्ञिषु एकमेव मिथ्यादृष्टिस्थानम् ।

को भावो ? ओदइगो भावो । अवंधा णत्थि । भवणवासि-वाणवंतर जोदिसिगेसु खइगं णत्थि ।

२७७. ओरालिमि० पंचणा० छंदस० बारसक० भयदु० तेजाक० वण्ण०४ अगु० उप० णिमि० पंचतराइमाणं बंधगात्ति को भावो ? ओदइगो भावो । अवंधगात्ति को भावो ? खइगो भावो । थीणगिद्धि०३ मिच्छत्त-अणंताणु०४ बंधगात्ति को भावो ? ओदइगो भावो । अवंधगात्ति को भावो ? खइगो वा खयोवसमिगो वा । णवरि मिच्छत्त-पारिणामियो वि अत्थि । सादबंधाबंधगात्ति को भावो ? ओदइगो भावो । असाद-बंधगात्ति को भावो ? ओदइगो भावो । अवंधगात्ति को भावो ? ओदइगो वा, खइगो वा । दोण्णं बंधगात्ति को भावो ? ओदइगो भावो । अवंधगा

कौन भाव है ? औदयिक है । दोनोंके बन्धकोंके कौन भाव है ? औदयिक है; अवन्धक नहीं है । भवनवासी, वाणव्यन्तर तथा ज्योतिषियोंमें क्षायिक भाव नहीं है ।

विशेषार्थ—ध्वलाटीकामें यह शंका-समाधान दिया गया है—

शंका—भवनत्रिक आदि देव और देवियोंमें क्षायिक भाव क्यों नहीं कहा ?

समाधान—नहीं, क्योंकि भवनवासी वाणव्यन्तर, ज्योतिषी देव, द्वितीयादि छह पृथिवियोंके नारकी, सर्वविकलेन्द्रिय, सर्वलब्ध्यपर्याप्तक और स्त्रीवेदियोंमें सम्यग्दृष्टि जीवोंकी उत्पत्ति नहीं होती है । तथा मनुष्यगतिके अतिरिक्त अन्य गतियोंमें दर्शन-मोहनीयकी क्षपणाका अभाव है । इससे उक्त भवनत्रिक आदि देव-देवियोंमें क्षायिक भाव नहीं बतलाया गया । (जीव० ध०, टीका भावा० पृ० २१५)

२७७. औदारिक मिश्र काययोगमें—५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, १२ कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजस, कर्मण, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण, तथा ५ अन्तरायोंके बन्धकोंके कौन भाव है ? औदयिक भाव है । अवन्धकोंके कौन भाव है ? क्षायिक भाव है ।

विशेष—यहाँ ध्रुव प्रकृतियोंके अवन्धक कपाट समुद्रातयुक्त सयोगकेवलीकी अपेक्षा क्षायिक भाव कहा है ।

स्थानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारके बन्धकोंके कौन भाव है ? औदयिक है । अवन्धकोंके कौन भाव है ? क्षायिक वा क्षायोपशमिक है । मिथ्यात्वके अवन्धकोंमें पारिणामिक भाव भी पाया जाता है ।

विशेषार्थ—शंका—यहाँ औपशमिक भाव क्यों नहीं कहा गया ?

समाधान—चारों गतियोंके उपशमसम्यक्त्वी जीवोंका मरण न होनेसे इस योगमें उपशमसम्यक्त्वका सद्भाव नहीं पाया जाता ।

शंका—उपशम श्रेणीपर चढ़ते-उतरते हुए संयतजीवोंका उपशमसम्यक्त्वके साथ मरण पाया जाता है ।

१. ओवसमिओ भावो एत्थ किण्ण पखविदो ? ण, चउग्गइ उवसमसम्मादिटीणं मरणाभावादी ओरालियमिस्सिह उवसमसम्मत्सुवलंभाभावा । उवसमसेदि चहंत-ओअरंत संजदाणमुवसमसम्मत्तेण मरणं, अत्थि त्ति चे सच्चमत्थि, किंतु ण ते उवसमसम्मत्तेण ओरालियमिस्सकायजोगिणो होंति, देवगदि भोत्तूण तेसिमण्णत्थ उप्पत्तीए वभावा । —ध० टी०, भा०, पृ० २१९ ।

णत्थि । इत्थिणवुंसबंधगा त्ति को भावो ? ओदइगो भावो । अबंधगा त्ति को भावो ? ओदइगो वा खइगो वा खयोवसमियो वा । णवरि णवुंसगेसु पारिणामियो चि अत्थि । पुरिसवेदगेसु बंधगा त्ति को भावो ? ओदइगो भावो । अबंधगा त्ति को भावो ?

समाधान—यह सत्य है, किन्तु उपशम श्रेणीमें मरनेवाले उपशमसम्यक्त्वकी औदारिक मिश्रकाययोग नहीं होता, कारण इनकी देवोंके सिवाय अन्यत्र उत्पत्तिका अभाव है । (ध० टो० भावाणु० पृ० २१९) ।

साताके बन्धकों, अबन्धकोंके कौन भाव हैं ? औदयिक भाव है । असाताके बन्धकोंके कौन भाव है ? औदयिक भाव है । अबन्धकोंके कौन भाव है ? औदयिक वा क्षायिक भाव है । साता-असाताके बन्धकोंके कौन भाव है ? औदयिक भाव है; अबन्धक नहीं है ।

विशेष—शंका—जब साताके बन्धकों-अबन्धकोंमें औदयिक भाव कहा, तब असाताके बन्धकों, अबन्धकोंमें औदयिक भाव ही कहना था । यहाँ असाताके अबन्धकोंमें औदयिकके साथ क्षायिक भाव क्यों कहा है ?

समाधान—यहाँ यह ध्यान देना चाहिए कि औदारिक मिश्रयोगमें मिथ्यात्व, सासादन, अखिरत तथा सयोगकेवली गुणस्थान होते हैं । साताके अबन्धक अयोगकेवली ही होंगे, जिनने साताकी बन्ध-व्युच्छित्ति कर ली है । औदारिक मिश्रकाययोगमें अयोगकेवली गुणस्थान न होनेसे साता-असाताके युगलके अबन्धकोंका यहाँ अभाव कहा है ।

साता और असाताके बन्धकोंके औदयिक भाव हैं । साताका बन्ध होनेपर असाताका बन्ध नहीं होता और असाताका बन्ध होनेपर साताका बन्ध नहीं होता, कारण ये परस्पर प्रतिपक्षी प्रकृतियाँ हैं । एकके बन्ध होनेपर अन्यका अबन्ध होगा । यह अबन्ध बन्धव्युच्छित्तिका द्योतक नहीं है । अबन्धके अनन्तर तो पुनः बन्ध हो भी जाता है; किन्तु जिस गुणस्थानमें बन्धव्युच्छित्ति हुई है, उसमें आनेके पूर्व उस प्रकृतिका बन्ध नहीं होगा । साताकी बन्धव्युच्छित्ति जब सयोगकेवली गुणस्थानमें होती है, तब साताके अबन्धका अर्थ है-असाताका बन्ध । असाताकी बन्धव्युच्छित्ति प्रमत्तसंयतमें होती है, उसके पूर्व असाताके अबन्धका तात्पर्य साताके बन्धका होगा । प्रमत्तसंयतके आगे असाताके अबन्धका भाव उसकी बन्धव्युच्छित्तिका होगा । इस कारण औदारिक मिश्रयोगकी अपेक्षा साताके अबन्धक तथा बन्धकके औदयिक भाव कहा है । कारण यहाँ साताके अबन्धकके असाताका बन्ध होगा । असाता वेदनीयकी बात दूसरी है, वहाँ असाताके बन्धकके औदयिक भाव होगा और असाताके अबन्धक अर्थात् साताके बन्धक सयोगी जिनकी अपेक्षा क्षायिक भाव होगा । असाताके अबन्धकके अप्रमत्त आदि गुणस्थान इस योगमें नहीं होंगे, इसलिए यहाँ औदयिक भावके साथ क्षायिक भाव भी असाताके अबन्धकके साथ जोड़ा गया है । साताका अबन्धक इस योगमें चतुर्थ गुणस्थान पर्यन्त ही पाया जायेगा, उसके असाताका बन्ध होगा । इससे बन्धक, अबन्धकके औदयिक भाव कहा है ।

स्त्रीवेद, नपुंसक वेदके बन्धकोंके कौन भाव हैं ? औदयिक भाव है । अबन्धकोंके बन्धक कौन भाव हैं ? औदयिक, क्षायिक वा क्षायोपशमिक हैं । इतना विशेष है कि नपुंसक वेदके अबन्धकोंके पारिणामिक भाव भी पाया जाता है ।

विशेष—इस योगमें उपशम सम्यक्त्वका अभाव होनेसे औपशमिक भाव नहीं कहा । पुरुष वेदके बन्धकोंके कौन भाव हैं ? औदयिक भाव है । अबन्धकोंके कौन भाव हैं ?

ओदङ्गो वा खङ्गो वा । तिण्णं वेदाणं बंधगा त्ति को भावो ? ओदङ्गो भावो । अबंधगा त्ति को भावो ? खङ्गो भावो । इत्थिण्वुंसं भंगो दोआयु-दोगदि-चदु-जादि-ओरालिं पंचसंठां ओरालिय-अंगों छस्संघं दोआणुं आदायुज्जों अप्प-सत्थविं थावरादिं ४ दूभग-दुस्सर-अणां णीचागोदं च । पुरिसवेदभंगो चदुणोकं देवगदि-पंचिदिं वेउव्विं समचदुं वेउव्विं अंगो देवाणुं परघादुस्सां पसत्थविं तसं ४ थिरादिदोणियुगलं सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-उच्चागोदं च । एवं पत्तेगेण साधार-णेण वि । दो आयुबंधगा त्ति को भावो ? ओदङ्गो भावो । अबंधगा त्ति को भावो ? ओदङ्गो वा खङ्गो वा खयोवसमिगो वा पारिणामियो वा । एवं दो अंगों छस्संघं दो विहां दो सरं किंचि विसेसो जाणिदूण षेदव्वं । सेसाणं बंधगा त्ति को भावो ? ओदङ्गो भावो । अबंधगा त्ति को भावो ? खङ्गो भावो । तित्थयरं बंधगात्ति को भावो ? ओदङ्गो भावो । अबंधगा त्ति को भावो ? ओदङ्गो वा खङ्गो वा ।

औदयिक वा क्षायिक भाव है ।

विशेष—पुरुष वेदके अवन्धक; किन्तु स्त्री-नपुंसक वेदके बन्धकोंकी अपेक्षा औदयिक भाव कहा है । पुरुष वेदकी बन्धक्युच्छित्ति युक्त गुणस्थान इस योगमें सयोगकेवलीका होगा उस अपेक्षासे क्षायिक भाव कहा है ।

तीनों वेदोंके बन्धकोंके कौन भाव है ? औदयिक भाव है । अवन्धकोंके कौन भाव है ? क्षायिक भाव है ।

विशेष—औदारिकमिश्रकाययोगमें तीनों वेदोंके अवन्धक सयोगी जिन होंगे, इस कारण उपशम भाव न कहकर, क्षायिक भाव ही कहा है ।

दो आयु, दो गति, चार जाति, औदारिक शरीर, पाँच संस्थान, औदारिक अंगोपांग, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावरादि त्वार, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय तथा नीचगोत्रके बन्धकोंका स्त्रीवेद, नपुंसक वेदके समान जानना चाहिए । आस्यादि चार नोकषाय, देवगति, पंचेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वैक्रियिक अंगोपांग, देवानुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तविहायोगति, त्रस चार, स्थिरादि दो युगल, सुभग, सुस्वर, आदेय तथा उच्चगोत्रमें पुरुषवेदके समान जानना चाहिए । इसी प्रकार प्रत्येक तथा सामान्यसे जानना चाहिए । दो आयुके बन्धकोंके कौन भाव है ? औदयिक भाव है । अवन्धकोंके कौन भाव है ? औदयिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक वा पारिणामिक है ।

विशेष—इस योगमें उपशम सत्यक्त्व न होनेसे तथा उपशम चारित्रका भी सद्भाव न होनेके कारण औपशमिक भाव नहीं कहा है ।

इस प्रकार दो अंगोपांग, छह संहनन, दो विहायोगति, दो स्वरके विषयमें किंचित् विशेषताको जानकर भंग निकाल लेना चाहिए । शेष प्रकृतियोंके बन्धकोंके कौन भाव है ? औदयिक भाव है । अवन्धकोंके कौन भाव है ? क्षायिक भाव है । तीर्थकर प्रकृतिके बन्धकोंके कौन भाव है ? औदयिक भाव है । अवन्धकोंके कौन भाव है ? औदयिक वा क्षायिक भाव है ।

विशेष—तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध न करनेवाले मिथ्यात्वीके दर्शन-मोहनीयके उदयकी

२७८. वेउच्चियका०—देवोषं । वेउच्चि० मि० तं चैव । णवरि आयु-णत्थि ।

२७९. कम्मइयका० धुविगाणं बंधगा त्ति को भावो ? ओदइगो भावो । अवंधगात्ति को भावो ? खइगो भावो । थोणगिद्धितियं मिच्छत्त-अणंताणु०४ बंधगा त्ति को भावो ? ओदइगो भावो । अवंधगा त्ति को भावो ? उवसमिगो वा खइगो वा खयोवसमिगो वा । मिच्छ०[अ]बंध० पारिणामियो भावो । साद-बंधा-बंधगा त्ति को भावो ? ओदइगो भावो । असादबंधगा त्ति को भावो ? ओदइगो भावो । अवंधगा त्ति को भावो ? ओदइगो खइगो वा । दोण्णं बंधगा त्ति को भावो ? ओदइगो भावो । अवंधगा णत्थि । इत्थि-णवुंसबंधगा त्ति को भावो ? ओदइगो भावो । अवंधगा त्ति को भावो ? ओदइगो वा उवसमिगो वा खइगो वा खयोवसमिगो वा ।

अपेक्षा औदयिक भाव कहा जा सकता है । तीर्थंकर प्रकृतिकी बन्ध-व्युच्छित्तियुक्त इस योगमें सयोगी जिनकी अपेक्षा क्षायिक भाव कहा है ।

२८०. वैक्रियिक काययोगियोंमें देवोंके ओघवत् जानना चाहिए ।

वैक्रियिक मिश्रकाययोगियोंमें देवोंके ओघवत् है । इतना विशेष है कि यहाँ आयुका बन्ध नहीं पाया जाता है ।

विशेष—इस योगमें मिथ्यात्वीके औदयिक, सासादन सम्यक्त्वोंके पारिणामिक तथा असंयत सम्यक्त्वोंके औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक भाव हैं ।

२८१. कर्मण काययोगियोंमें ध्रुव प्रकृतियोंके बन्धकोंके कौन भाव है ? औदयिक है । अबन्धकोंके कौन भाव है ? क्षायिक भाव है । स्थानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चारके बन्धकोंके कौन भाव है ? औदयिक है । अबन्धकोंके कौन भाव है ? औपशमिक, क्षायिक तथा क्षायोपशमिक भाव हैं ।

विशेष—यहाँ उक्त प्रकृतियोंके अबन्धक अचिरत सम्यक्त्वोंकी अपेक्षा औपशमिक, क्षायिक तथा क्षायोपशमिक भाव कहे हैं । सयोगकेवलीकी भी अपेक्षा क्षायिक भाव है ।

मिथ्यात्वके बन्धकों(?)के कौन भाव हैं ? पारिणामिक भी है ।

विशेष—यहाँ बन्धकोंके स्थानपर अबन्धक पाठ ठीक बैठता है, कारण पारिणामिक भाव सासादन गुणस्थानमें पाया जाता है जहाँ मिथ्यात्वका अबन्ध है ।

साताके बन्धकों, अबन्धकोंके कौन भाव है ? औदयिक भाव है । असाताके बन्धकोंके कौन भाव है ? औदयिक भाव है । अबन्धकोंके कौन भाव है ? औदयिक वा क्षायिक भाव है । साता-असाता दोनोंके बन्धकोंके कौन भाव है ? औदयिक है; अबन्धक नहीं है ।

स्वावेद, नपुंसकवेदके बन्धकोंके कौन भाव है ? औदयिक भाव है । अबन्धकोंके कौन भाव है ? औदयिक, औपशमिक, क्षायिक तथा क्षायोपशमिक भाव है । नपुंसकवेदके

१ “कम्मइयकायजोगीसु मिच्छादिट्ठी सासणसम्मादिट्ठी असंजदसम्मादिट्ठी सजोगिकेवली ओघं । कुदो ? मिच्छादिट्ठीणमोदइएण, सासणाणं पारणाणिण, कम्मइयकायजोगि-असंजदसम्मादिट्ठीणं ओवसमिय-खइय-खओ-वसमियभावेहि सजोगिकेवलीणं खइएण भावेण ओघम्मि गदगुणट्ठाणेहि साधम्मवुलंभा ।” —जी० भा०, सू० ४०, पृ० २२१।

णवुंस० पारिणामियो भावो । पुरिस० बंधगा त्ति को भावो ? ओदइगो भावो । अवंधगात्ति को भावो ? ओदइगो वा खइगो वा । तिण्णं बंधगात्ति को भावो ? ओदइगो भावो । अवंधगा त्ति को भावो ? खइगो भावो । एवं इत्थिभंगो तिरिक्खग० चदुसंठा० चदुसंध० तिरिक्खाणु० उज्जो० अप्पसत्थ० दूमग-दुस्सर-अणा० णीचागोदं च । णवुंसकभंगो चदुजादि-हुंडसंठा० असंपत्तसे० आदाव-थावरादि०४ । पुरिसभंगो चदुणोक० दोगदि० पंचिदि० दोसरीर-समचदु० दोअंगो० वज्जरिसभ० दो-आणु० परधादुस्सा० पसत्थवि० तस०४ थिरादि दोण्णि युगलं सुभग-सुस्सर-आदे० उच्चागोदं च । एवं पत्तेणेण साधारणेण वि ओरालियमिस्स-भंगो ।

२८०. इत्थिवेदेसु-पंचणा० चदुदंस० चदुसंज० पंचंतराइगणं बंधगा त्ति को भावो ? ओदइगो भावो । अवंधगा णत्थि । थीणगिद्धि-तिय-मिच्छत्त-बारसक० बंधगा त्ति को भावो ? ओदइगो भावो । अवंधगा त्ति को भावो ? उवसमिगो वा खइगो वा

अबन्धकोंमें पारिणामिक भाव भी पाया जाता है ।

विशेष—इसके अबन्धक सासादन गुणस्थानवर्ती जीवोंको अपेक्षा पारिणामिक भाव कहा है ।

पुरुष वेदके बन्धकोंके कौन भाव है ? औदयिक है । अबन्धकोंके कौन भाव है ? औदयिक वा क्षायिक है ।

विशेष—इस योगमें पुरुषवेदके बन्धका अभाव प्रतर तथा लोकपूरण समुद्घातगत सयोगकेवलीके होगा, यहाँ मोह-क्षयजनित क्षायिक भाव है । अन्य वेदद्वयके बन्धककी अपेक्षा औदयिक भाव भी कहा है ।

तीनों वेदोंके बन्धकोंके कौन भाव है ? औदयिक है । अबन्धकोंके कौन भाव है ? क्षायिक है ।

विशेष—यहाँ सथोगी जिनकी अपेक्षा क्षायिक भाव कहा है ।

तिर्यचगति, चार संस्थान, चार संहनन, तिर्यचानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्तविहायोगति, दुर्भंग, दुस्वर, अनादेय, तथा नीच गोत्रका स्त्रीवेदके समान भंग जानना चाहिए । चार जाति, हुण्डक संस्थान, असम्प्राप्तासृपाटिका संहनन, आतप तथा रथावरादि चारमें नपुंसक-वेदके समान भंग जानना चाहिए । चार नोकषाय, दो गति, पंचेन्द्रिय जाति, दो शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, दो अंगोपांग, वज्रवृषभसंहनन, दो आनुपूर्वी, परधात, उच्छ्वास, प्रशस्त विहायोगति, त्रस चार, स्थिरादि दो युगल, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्च गोत्रके बन्धकोंमें पुरुषवेदके समान भंग जानना चाहिए । प्रत्येक और सामान्यसे औदारिक मिश्रकाययोगके समान भंग जानना चाहिए ।

२८०. स्त्रीवेदमें — १ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, ४ संज्वलन, ५ अन्तरायोंके बन्धकोंके कौन भाव है ? औदयिक है ; अबन्धक नहीं है । स्त्यानगृद्धिन्निक, मिथ्यात्व, बारह कषायके बन्धकोंके कौन भाव है ? औदयिक है । अबन्धकोंके कौन भाव है ? औपशमिक, क्षायिक

१. वेदानुवादेन त्रिषु वेदेषु मिथ्यादृष्ट्यादीनि अनिवृत्तिबादरस्थानान्तानि सन्ति । - स० सि०, पृ० ११ ।

खयोवसमिगो वा । मिच्छत्त० पारिणामि० । णिहापचला० भयदु० तेजाक० वण्ण०४
अगुरु० उप० णिमि० बंधगा त्ति को भावो ? ओदइगो भावो । अवंधगा त्ति को भावो ?
उवसमिगो वा खइगो वा । साद-बंधाबंधगा त्ति को भावो ? ओदइगो भावो । असाद-
बंधगा त्ति को भावो ? ओदइगो भावो । अवंधगा त्ति को भावो ? ओदइगो वा खइगो
वा खयोवसमिगो वा । दोण्णं बंधगा त्ति को भावो ? ओदइगो भावो । अवंधगा णत्थि ।
त्तिण्णं वेदाणं पत्तेगेण ओघं । णवरि पुरिस० अवंधगा त्ति ओदइगो भावो । साधारणेण बंधा०
ओदइगो भावो । अवंधगा णत्थि । हस्सादि०४ पत्तेगेण ओघमंगो । साधारणेण बंधगा

तथा क्षायोपशमिक भाव है । विशेष, मिथ्यात्वके अबन्धकोंके पारिणामिक भाव भी है ।
निद्रा, प्रचला, भय, जुगुप्सा, तैजस, कार्मणः, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माणके बन्धकोंके
कौन भाव है ? औदयिक है । अबन्धकोंके कौन भाव है ? औपशमिक तथा क्षायिक है ।

साताके बन्धकों अबन्धकोंके कौन भाव है ? औदयिक है ।

विशेष—यहाँ साताके अबन्धकोंके असाताके बन्धककी अपेक्षा औदयिक भाव
कहा है ।

असाताके बन्धकोंके कौन भाव है ? औदयिक है । अबन्धकोंके कौन भाव है ? औद-
यिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक हैं । दोनोंके बन्धकोंके कौन भाव है ? औदयिक है । अबन्धक
नहीं हैं । तीनों वेदोंका पृथक्-पृथक् रूपसे ओघवत् जानना चाहिए । विशेष यह है कि पुरुष-
वेदके अबन्धकोंमें औदयिक भाव है । सामान्यसे इनके बन्धकोंके औदयिक भाव है ।
अबन्धकोंका अभाव है । हास्यादि चारका प्रत्येकसे ओघवत् भंग जानना चाहिए । सामान्य-
से हास्यादिके बन्धकोंके औदयिक भाव है । अबन्धकोंके औपशमिक तथा क्षायिक भाव है ।
इस प्रकार शेष प्रकृतियोंमें ओघके समान भंग जानना चाहिए ।

विशेष—हास्यादिकके अबन्धक अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें होंगे । उनके उपशम तथा
क्षायिक चारित्रकी दृष्टिसे औपशमिक तथा क्षायिक भाव कहे हैं ।

शंका—अनिवृत्तिकरणमें कर्मोंका उपशम न होनेसे औपशमिक भाव कैसे कहा
जायेगा ?

समाधान—उपशम शक्तिसे समन्वित अनिवृत्तिकरणके औपशमिक भाव माननेमें
आपत्ति नहीं है । इस प्रकार उपशम होनेपर उत्पन्न होनेवाला तथा उपशम होने योग्य कर्मोंके
उपशमनार्थ उत्पन्न हुआ भाव औपशमिक कहलाता है । अथवा, भविष्यमें उत्पन्न होनेवाले
उपशम भावमें भूतकालका उपचार करनेसे अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें औपशमिक भाव बन
जाता है । जैसे, सब प्रकारके असंयममें प्रवृत्त हुए चक्रवर्ती तीर्थंकरके 'तीर्थंकर' यह संज्ञा-
करण बन जाता है ।

शंका—अनिवृत्तिकरणमें मोहनीयका क्षय न होनेसे क्षायिक भावका उचित
नहीं है ।

समाधान—मोहनीयका एकदेश क्षय करनेवाले वादरसाम्पराय सूक्ष्मसाम्पराय
क्षपकोंके भी कर्मक्षयजनित भाव पाया जाता है । कर्मक्षयके निमित्तभूत परिणाम पाये जाने-
से अपूर्वकरण गुणस्थानमें भी क्षायिकभाव माना है । अथवा उपचारसे अपूर्वकरण संयतके

ओदइ० । अबंध० उवसमि० खइगो० । एवं सव्वाणं ओधं । णवरि जस० अज्जस० दोगोदं पत्तेणेण साधारणेण वि वेदणीयभंगो ।

२८१. एवं पुरिस० णवुंस कोधादि०४ । णवरि कोधे पुरिस० हस्सभंगो । माणे तिण्णं संजलणा० । मायाए दौण्णं संजलणा० । लोभे लोभ-संजल० धुविगाणं भंगो । सेस-संजलणं णिदाभंगो ।

२८२. अवगदवेदेसु-पंचणा० चदुदंस० चदुसंज० जस० उच्चागोद-पंचंतराइ-गाणं बंधगा त्ति को भावो ? ओदइगो भावो । अबंधगा त्ति को भावो ? उवसमिगो वा खइगो वा । सादबंध० को भावो ? ओदइगो भावो । अबंधगा त्ति को भावो ? खइगो भावो ।

२८३. अकसाइगेसु-साद-बंधगा० ओदइगो भावो । अबंधगा० खइगो भावो ।

क्षायिक भाव मानना चाहिए। इसमें अतिप्रसंगकी आशा नहीं करनी चाहिए। कारण, प्रत्यासत्ति अर्थात् समीपवर्ती अर्थके प्रसंगवश अतिप्रसंग दोषका परिहार होता है। (ध० टी०, भावाणु० पृ० २०५-६)

इतना विशेष है कि यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति, तथा दो गोत्रोंका प्रत्येक सामान्यकी अपेक्षा वेदनीयके समान भंग है।

२८१. पुरुषवेद, नपुंसकवेद तथा क्रोध आदि चार कषायोंमें इसी प्रकार जानना चाहिए। विशेष यह है कि क्रोधमें, पुरुषवेदके बन्धकोंका हास्यके समान भंग है। मानमें, तीन संज्वलन, मायामें, दो संज्वलन तथा लोभमें लोभ संज्वलनके बन्धकोंका ध्रुव प्रकृतिके समान भंग है; अर्थात् बन्धकोंके औद्दयिक और अबन्धकोंके औपशमिक तथा क्षायिक भाव हैं। संज्वलन कषायमें बन्ध होनेवाली शेष प्रकृतियोंके बन्धकोंका निद्राके समान भंग है। अर्थात् बन्धकोंके औद्दयिक, अबन्धकोंके औपशमिक तथा क्षायिक हैं।

२८२. अपगत वेदमें - ५ ज्ञानाचरण, ४ दर्शनावरण, ४ संज्वलन, यशःकीर्ति, उच्च गोत्र तथा ५ अन्तरायोंके बन्धकोंके कौन भाव है ? औद्दयिक है। इनके बन्धकोंके कौन भाव है ? औपशमिक तथा क्षायिक है।

साता वेदनीयके बन्धकोंके कौन भाव है ? औद्दयिक भाव है ? अबन्धकोंके कौन भाव है ? क्षायिक भाव है।

विशेषार्थ—अपगत वेदियोंमें द्रव्य वेदका नाश नहीं होता। यहाँ भाव वेदका विनाश होता है। धवला टीकामें लिखा है—मोहनीयके द्रव्य कर्म स्कन्धको अथवा मोहनीय कर्मसे उत्पन्न होनेवाले जीवके परिणामको वेद कहते हैं। उनमें वेदजनित जीवके परिणामका अथवा परिणामके साथ मोहकर्म-स्कन्धका अभाव होनेसे जीव अपगत वेदी होता है। (ध० टी० भा०, पृ० २२२)

अपगतवेदमें साताके अबन्धक अयोगकेवली होंगे, उनके क्षायिक भाव है।

२८३. अकषायियोंमें - साताके बन्धकोंके कौन भाव है ? औद्दयिक भाव है। अबन्धकोंके कौन भाव है ? क्षायिक भाव है।

१. "क्रोधमानमायासु मिथ्यादृष्ट्यादीनि अनिवृत्तिबादरस्थानान्तानि सन्ति । लोभकषाये तान्येव सूक्ष्मसाम्परायस्थानाधिकानि ।" -स० सि०, पृ० ११ ।

२८४. एवं केवलणा० यथास्वाद० केवल-दंसणा० ।

२८५. आभि० सुद० ओधि० मणपञ्जव० संजद० ओधि० सम्मादि० खड्ग० ओघं । णवरि मिच्छ-संयुत्ताओ वज्ज० ।

२८६. सामाह० छेदो०-पंचणा० चदुदंस० लोभसंजल० उच्चागोद-पंचतराइ-गाणं बंधगा० ओदइगो भावो । अबंधा णत्थि । सेसं मणपञ्जव-भंगो । परिहारे-देवायु-बंध० ओदइगो भावो । अबंध० ओदइ० खयोवसमिगो वा । एवं असादादिज्ज० । सेसं ओदइ० भावो । सुहुमसं०-संजदासंजद-सच्चाणं बंध० ओदइ० ।

विशेष—शंका - अकषाय मार्गणा नहीं बन सकती, कारण जीवका जैसे ज्ञानदर्शन गुण है, उसी प्रकार कषाय नामका भी गुण है । गुणका विनाश माननेपर गुणोका भी विनाश होगा । इस प्रकार अकषयमार्गणा माननेपर जीवका अभाव हो जायगा ।

समाधान—ज्ञानदर्शनके समान कषाय नहीं है, अतएव कषाय जीवका लक्षण नहीं हो सकता । कर्मजनित कषाय भावको, जीवका लक्षण या गुण मानना अयुक्त है । कषायोंका कर्मसे उत्पन्न होना असिद्ध नहीं है, कारण कषायकी वृद्धि होनेपर जीवके ज्ञानकी हानि अन्य प्रकारसे नहीं बन सकती है, इसलिए कषायका कर्मसे उत्पन्न होना सिद्ध है । गुण गुणान्तरका विरोधी नहीं होता, क्योंकि अन्यत्र वैसा नहीं देखा जाता । (ध० टी०, भावा० ५, पृ० २२३)

२८४. केवलज्ञान, यथाख्यातसंयम, केवलदर्शनमें इसी प्रकार जानना चाहिए ।

२८५. आभिनिबोधिक, श्रुत, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान, संयम, अवधिदर्शन, सम्यग्दृष्टि, क्षायिक सम्यग्दृष्टिके ओषवन् भाव जानना चाहिए । इतना विशेष है कि यहाँ मिथ्यात्वसंयुक्त प्रकृतियोंको नहीं लेना चाहिए ।

२८६. सामायिक, छेदोपस्थापना संयममें-५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, लोभ संवलय, उच्च गोत्र, तथा ५ अन्तरायोंके बन्धकोंके औदयिक भाव है ; अबन्धक नहीं है । शेष प्रकृतियोंके बन्धकों-अबन्धकोंमें मनःपर्ययज्ञानके समान भंग जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—यह संयम छठसे नवें गुणस्थान पर्यन्त पाया जाता है, इससे इसमें ज्ञानावरणादिके अबन्धकोंका अभाव कहा है । उनके अबन्धक उपशान्तकषायादि होते हैं ।

परिहारविशुद्धि संयममें - देवायुके बन्धकोंके औदयिक भाव है । अबन्धकोंके औदयिक तथा क्षायोपशमिक भाव है ।

विशेष—परिहारविशुद्धि संयम प्रमत्त-अप्रमत्त गुणस्थानमें पाया जाता है । वहाँ देवायुका बन्ध न करनेवाले जीवोंके चारित्रमोहनीयकी अपेक्षा क्षायोपशमिक भाव कहा है । अन्य प्रकृतियोंके बन्धकोंकी अपेक्षा औदयिक भाव है ।

इसी प्रकार असाता, अस्थिर, अशुभ, अयशःकीर्ति, शोक तथा अरतिमें जानना चाहिए । शेषमें औदयिक भाव है । सूक्ष्मसाम्पराय तथा संयमासंयममें - सब प्रकृतियोंके बन्धकोंके औदयिक भाव है ।

१. "यथाख्यातविहारशुद्धिसंयता उपशान्तकषायादयोऽयोगकेवल्यन्ताः।" २. "आभिनिबोधिकश्रुतावधि-ज्ञानेषु असंयतसम्यग्दृष्ट्यादीनि क्षीणकषायान्तानि सन्ति । मनःपर्ययज्ञाने प्रमत्तसंयतादयः क्षीणकषायान्ताः सन्ति । संयताः प्रमत्तादयोऽयोगकेवल्यन्ताः । क्षायिकसम्यक्त्वे असंयतसम्यग्दृष्ट्यादीनि अयोगकेवल्यन्तानि सन्ति ।" -स० सि०, पृ० १२ । ३. "तेजःपञ्चलेश्योमिथ्यादृष्ट्यादीनि अप्रमत्तस्थानान्तानि ।" -स० सि०, पृ० १२ ।

२८७. असंजद० तिण्णि ले०-तिरिक्खोघं । णवरि अपच्चक्खाणा०४ अवंधगा णत्थि । तित्थय० बंधगा अत्थि ।

२८८. तेऊए-पंचणा० छदंसणा० चदुसंज० भयदु० तेजाक० वण्ण०४ अगु०४ बादर-पज्जत्त-पत्तेय-णिमि० पंचंत० बंधगा०, ओदइगो भावो । अवंधगा णत्थि । थिणगिद्धि०३ अणंताणुबंधि०४ बंधगा० ओदइगो भावो । अवंधगा त्ति उवसमि० खइ० खयोवस० । मिच्छत्त० ओघं । साद० बंधा-अवंधगा त्ति ओदइगो भावो । असादं बंधं ओदइगो भावो । अवंधं ओदइ० खयोवसमिगो वा । दोण्णं बंधा० ओदइगो भावो । अवंधा णत्थि । एवं चदुणोक० थिरादि-तिण्णियुगल-इत्थि-णवुंस० बंधगा ओदइगो भावो । अवंधगा ओदइ० उवसमि० खइगो० खयोवस० । णवुंस० पारिणामि० । पुरिसवे० बंधा अबं० ओदइगो भावो । तिण्णि बंधा० ओदइगो भावो । अवंधगा णत्थि । तिरिक्खायुबंधा० ओदइगो भावो । अवंधगा ओदइ० उवस० खइ०

२८७. असंयतो तथा कृष्णादि तीन लेश्यावालोंमें - तिर्यंचोके ओघवत् जानना चाहिए । विशेष यह है कि यहाँ अपत्याखानावरण ४ के अबन्धक नहीं हैं, किन्तु यहाँ तीर्थ-करके बन्धक हैं ।

विशेष—अप्रत्याखानावरण ४ के अबन्धक देशसंयमी होते हैं उनका यहाँ अभाव है, कारण अशुभ-त्रिक लेश्या असंयतोंमें ही होती है ।

२८८. तेजोलेश्यामें - ५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, ४ संज्वलन, भय-जुगुप्सा, तैजस-कार्मण, वर्ण ४, अगुरुलघु ४, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, निर्माण तथा ५ अन्तरायोंके बन्धकोंके औदयिक भाव है; अबन्धक नहीं है ।

विशेष—तेजोलेश्या अप्रमत्त संयतपर्यन्त पायी जाती है, अतः यहाँ ज्ञानावरणादिके अबन्धक नहीं पाये जाते हैं ।

स्त्यानगृद्धित्रिक, अनन्तानुबन्धी ४ के बन्धकोंके कौन भाव है ? औदयिक है । अबन्धकोंके कौन भाव है ? औपशमिक, क्षायिक तथा क्षायोपशमिक है । मिथ्यात्वमें ओघके समान है । साता वेदनीयके बन्धकों, अबन्धकोंमें औदयिक भाव है ? असाताके बन्धकोंमें औदयिक भाव है । अबन्धकोंमें कौन भाव है ? औदयिक अथवा क्षायोपशमिक भाव है ।

विशेष—असाताकी बन्धव्युच्छित्तियुक्त अप्रमत्त गुणस्थानकी अपेक्षा क्षायोपशमिक भाव है । असाताके अबन्धक, किन्तु साताके बन्धककी अपेक्षा औदयिक भाव कहा है ।

साता-असाता दोनोंके बन्धकोंके औदयिक भाव है; अबन्धक नहीं हैं । इस प्रकार ४ नोकषाय, स्थिरादि ३ युगलमें जानना चाहिए । खीवेद, नपुंसकवेदके बन्धकोंके औदयिक भाव है । अबन्धकोंके औदयिक, औपशमिक, क्षायिक तथा क्षायोपशमिक भाव है । विशेष यह है कि नपुंसकवेदके अबन्धकोंमें पारिणामिक भाव भी है ।

पुरुषवेदके बन्धकों, अबन्धकोंके कौन भाव है ? औदयिक भाव है । तीनों वेदोंके बन्धकोंमें औदयिक भाव है; अबन्धक नहीं है । तिर्यंचायुके बन्धकोंमें औदयिक भाव है ।

१. "परिक्खं वेशुद्धिसंयताः प्रमत्ताप्रमत्ताश्च ।" -स० सि०, १२ । २. "कृष्णनीलकापोतलेश्यासु मिथ्यादृष्टधादीनि । सभ्यदृष्टघन्तानि सन्ति ।

खयोवस० । मणुस-देवायु बंधा० ओदइ० । अबंधगा ओदइ० खयोव० । तिण्णिजायु० बंधा० ओदइ० । अबंध० ओदइ० खयोव० । इत्थि-णवुंसग-भंगो तिरिक्खगदि-एइ-दियजादि-पंचसंठा० पंचसंध० तिरिक्खणु० आदा-उज्जो० अप्पसत्थवि० धावरदूभग-दुस्सर-अणा० णीचागोदं च । मणुसगदि-ओरालि० ओरालि० अंगो० वज्जरिस० मणुसाणु० बंध० ओदइगो भावो । अबं० ओदइ० खयोवसमिगो वा । देवगदि०४ पंचिदि० आहारदुग-समचदु० पसत्थवि० तस० सुभग-सुस्सर-आदे० तित्थय० बंध० अबं० ओदइगो भावो । तिण्णं गदीणं बंध० ओदइ० । अबंधगा णत्थि । एदेण वीजपदेण षोदव्वं ।

२८६. एवं पम्माए, एइंदिय० आदाव-थावरं वज्ज ।

२८०. वेदगे-ध्रुविगाणं बंधगा० ओदइगो भावो । अबंधा णत्थि । सेसाणं तेउ-भंगो ।

अबन्धकोंमें औदयिक, औपशमिक, क्षायिक तथा क्षायोपशमिक भाव है ।

विशेष—अन्य आयुत्रयकी अपेक्षा औदयिक भाव है तथा तिर्यचायुके अबन्धक अविरतसम्यक्त्वोंके सम्यक्त्वत्रयवालोंकी अपेक्षा औपशमिक, क्षायिक तथा क्षायोपशमिक भाव है । देशविरत, प्रमत्त, अप्रमत्तकी अपेक्षा क्षायोपशमिक भाव है ।

मनुष्यायु-देवायुके बन्धकोंके कौन भाव है? औदयिक भाव है । अबन्धकोंके औदयिक, क्षायोपशमिक भाव है । तिर्यच-मनुष्य-देवायुके बन्धकोंके कौन भाव है? औदयिक है ।

विशेष—तेजोलेइयामें नरकायुका बन्ध नहीं होनेसे उसका ग्रहण नहीं किया है ।

आयुत्रयके अबन्धकोंके कौन भाव है? औदयिक तथा क्षायोपशमिक है ।

तिर्यचगति, एकेन्द्रियजाति, ५ संस्थान, ५ संहनन, तिर्यचानुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्त-विहायोगति, स्थावर, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय तथा नीच गात्रमें खावेद, नपुंसक-वेदके समान भंग जानना चाहिए । अर्थात् बन्धकोंके औदयिक है; अबन्धकोंके औदयिक, औपशमिक, क्षायिक तथा क्षायोपशमिक हैं ।

मनुष्यगति, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, वज्रवृषभसंहनन तथा मनुष्यानु-पूर्वीके बन्धकोंके औदयिक भाव है । अबन्धकोंके औदयिक वा क्षायोपशमिक भाव है ।

देवगति ४, पंचेन्द्रिय जाति, आहारकद्विक, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्तविहायोगति, त्रस, सुभग, सुस्वर, आदेय तथा तीर्थकरके बन्धकों, अबन्धकोंके कौन भाव है? औदयिक भाव है । तीन गतियोंके बन्धकोंके कौन भाव है? औदयिक भाव है; अबन्धक नहीं है । इसी वीजपदके द्वारा अन्य प्रकृतियोंका वर्णन जानना चाहिए ।

२८६. पद्मलेइयामें - इसी प्रकार जानना चाहिए । विशेष यह है कि यहाँ एकेन्द्रिय, आतप तथा स्थावर प्रकृतियोंको नहीं ग्रहण करना चाहिए ।

२८०. वेदकसम्यक्त्वमें - ध्रुव प्रकृतियोंके बन्धकोंके कौन भाव है? औदयिक भाव है; अबन्धक नहीं है ।

१. "मिच्छस्संतिमणवयं वारं न हि तेउपप्पेसु ।" - गो० क०, गा० १२० ।

२६१. उवसम०—पंचणा० छर्दस० चद्रुसंज० पुरिस० भयदु० तेजाक० वण्ण०४
पंचिदि० अगुरु०४ पसत्थवि० तस०४ सुभग-सुस्सर-आदे० णिमि० तिथ्यर० उच्चा-
गोदं पंचंत० बंधगा त्ति को भावो ? ओदइगो भावो । अबंध० उवसमियो भावो ।
साद-बंधा-अबंध० ओदइगो भावो । असाद-बंधगा त्ति को भावो ? ओदइ० । अबंधगा
त्ति०-ओदइग० उवस० खयोवस० । दोण्णं बंधगा० ओदइ० । अबंधा णत्थि ।
अट्टकसा० बंध० ओदइगो भावो । अबंध० उवस० खयोवसमिगो वा । हस्सरदि०
बंधगात्ति को भावो ? ओदइगो भावो । अबंध० ओदइगो वा उवसमिगो वा । अरदि-
सोगं बंधगा त्ति ओदइ० । अबंधगा० ओदइ० उवस० खयोव० । दोण्णं बंधगा त्ति

विशेष—वेदकसम्यक्त्व अप्रमत्त गुणस्थान पर्यन्त पाया जाता है और ध्रुव प्रकृतियों-
के अबन्धक उपशान्तकषायी होते हैं । इस कारण यहाँ ध्रुव प्रकृतियोंके अबन्धक नहीं
कहे हैं ।

शेष प्रकृतियोंमें तेजोलेश्याके समान भंग है ।

२९१. उपशम सम्यक्त्वमें - ५ ज्ञानावरण, स्थानगृह्णित्त्रिक रहित ६ दर्शनावरण,
४ संज्वलन, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, तैजस- कर्मण शरीर, वर्ण ४, पंचेन्द्रिय जाति, अगुरु-
लघु, प्रशस्त विहायोगति, त्रस ४, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थकर, उच्च गोत्र तथा
पाँच अन्तरायोंके बन्धकोंके कौन भाव है ? औदयिक भाव है । अबन्धकोंके औपशमिक भाव
है । साता वेदनीयके बन्धकों, अबन्धकोंके कौन भाव है ? औदयिक भाव है । असाता वेद-
नीयके बन्धकोंके कौन भाव है ? औदयिक भाव है । अबन्धकोंके कौन भाव है ? औदयिक,
औपशमिक तथा क्षायोपशमिक है ।

साता-असाताके बन्धकोंके कौन भाव है ? औदयिक है; अबन्धक नहीं हैं । आठ
कषायोंके बन्धकोंके कौन भाव है ? औदयिक भाव है । अबन्धकोंके कौन भाव है ? औप-
शमिक वा क्षायोपशमिक है ।

हास्य-रतिके बन्धकोंके कौन भाव है ? औदयिक भाव है । अबन्धकोंके कौन भाव है ?
औदयिक वा औपशमिक है । अरति-शोकके बन्धकोंके कौन भाव है ? औदयिक भाव है ।
अबन्धकोंके कौन भाव है ? औदयिक, क्षायोपशमिक तथा औपशमिक भाव है ।

विशेष—अरति-शोकके अबन्धक, किन्तु हास्य-रतिके बन्धककी दृष्टिसे औदयिक भाव
है । अरति, शोककी बन्ध-व्युच्छित्ति प्रमत्तसंयत्तांकी होती है । अतएव अरति, शोकके, अबन्धक
अप्रमत्त संयत्तांकी अपेक्षा क्षायोपशमिक भाव कहा है । उपशम श्रेणीकी अपेक्षा औपशमिक
भाव कहा है ।

हास्य-रति, अरति-शोक इन दोनों युगलोंके बन्धकोंके कौन भाव है ? औदयिक है ।
अबन्धकोंके कौन भाव है ? औपशमिक भाव है ।

विशेष—इन चारोंके अबन्धक अनिवृत्तिकरण गुणस्थानवर्ती होंगे, वहाँ चारित्र-
मोहनीयकी अपेक्षा औपशमिक भाव कहा है ।

१. "क्षायोपशमिकसम्यक्त्वे असंयतसम्यग्दृष्ट्यादीनि अप्रमत्तान्तानि ।" -स० सि०, पृ० १२ ।

२. "औपशमिकसम्यक्त्वे असंयतसम्यग्दृष्ट्यादीनि उपशान्तकषायान्तानि ।" -पृ० १२ ।

ओद्द० । अबंध० उवसमिगो भावो । एवं दोगदि-दोआणु० दोसरर-दोअंगोवंग-
आहारदुग-थिरादि-तिण्णियुगलं ।

२६२. अणाहारे—कम्मइगभंगो । णवरि साद० ओघं । साधारणेण वि ओघं ।
मिच्छत्त-संजुत्ताओ सोलस-पगदीओ ओघाओ । सव्वत्थ याव अणाहारग त्ति बंधगा
त्ति को भावो ? ओद्दुगो भावो । अबंधगा त्ति को भावो ? ओद्दुगो वा उवसमिगो
वा खइगो वा खयोवसमिगो वा पारिणामिओ वा भावो ।

एव भावं समत्तं ।

इस प्रकार मनुष्य-देव गति, दो आनुपूर्वी, औदारिक-वैक्रियिक शरीर, २ अंगोपांग,
आहारकद्विक, स्थिरादि तीन युगलोंके बन्धकोंमें कौन भाव है ? औदयिक भाव है । अब-
न्धकोंके कौन भाव है ? औपशमिक भाव है ।

२६२. अनाहारकमें— कर्मण-काययोगके समान भंग है । विशेष यह है कि यहाँ साता
वेदनीयका ओघवत् भंग जानना चाहिए । इसी प्रकार सामान्यसे भी ओघवत् जानना
चाहिए । मिथ्यात्व संयुक्त^३ १६ प्रकृतियोंका ओघवत् भंग है । अनाहारकपर्यन्त सर्वत्र बन्धकों-
के कौन भाव है ? औदयिक है । अबन्धकोंके कौन भाव है ? औदयिक, औपशमिक, क्षायिक,
क्षायोपशमिक वा पारिणामिक है ।

विशेषार्थ—अनाहारकोंमें मिथ्यात्व गुणस्थानकी अपेक्षा औदयिकभाव है । सासादन-
की अपेक्षा पारिणामिक है । चतुर्थ गुणस्थानकी अपेक्षा औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपमिक है ।
समुद्घातगत सयोगी तथा अयोगी जिनकी अपेक्षा क्षायिक भाव है ।

इस प्रकार भावानुगम समाप्त हुआ ।

१. "मिच्छत्तहुंइसंढा संपत्तेयक्खयावरादावं । सुद्धमतिवं वियलिदो णिरयदुणिरयायुगं मिच्छे ॥"
-गो० क०, मा० ६५ । २. "अणाहारणं कम्मइयभंगो । णवरि विवेषो अजोगिकेवलि त्ति को भावो ? खइओ
भावो । -जी० भावा०, सूत्र० ९२, ९३ । अनाहारकेपु विग्रहगत्यापन्नेपु त्रीणि गुणस्थानानि, मिथ्यादृष्टिः
सासादनसम्पद्दृष्टिरसंपत्सम्पद्दृष्टिश्च । समुद्घातगतः सयोगकेवल्ययोगकेवली च ॥" -स० सि०, सू० ८,
अ० १, पृ० १२ ।

[अप्पाबहुगपरूवणा]

२६३. अप्पाबहुगं दुविधं, जीव-अप्पाबहुगं चैव, अद्दा-अप्पाबहुगं चैव । तत्थ जीव-अप्पाबहुगं दुविधं, सत्थाणं परत्थाणं च । सत्थाण-जीवअप्पाबहुगे दुविहो णिद्देसो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण सव्वत्थोवा पंचणाणावरणं अबंधगा जीवा, [बंधगा] अणंतगुणा । सव्वत्थोवा चदुदंसणावरणाणं अबंधगा जीवा । णिद्दापचलाणं अबंधगा

[अल्पबहुत्व]

२६३. अल्पबहुत्वके दो भेद हैं— एक जीव अल्पबहुत्व, दूसरा काल अल्पबहुत्व । जीव अल्पबहुत्व भी स्वस्थान जीव अल्पबहुत्व और परस्थान जीव अल्पबहुत्वके भेदसे दो प्रकार हैं ।

विशेष—अल्पता, बहुलताका वर्णन करनेवाला अनुगम अल्पबहुत्वानुगम है । ओघ-वर्णनमें अभेद दृष्टिको ग्रहण करनेवाले द्रव्यार्थिक नयका अवलम्बन लिया जाता है । आदेश वर्णनमें भेदयुक्त दृष्टिको ग्रहण करनेवाले पर्यायार्थिक नयका आश्रय लिया गया है ।

यह अल्पबहुत्व नाम, स्थापना, द्रव्य तथा भावके भेदसे चार प्रकारका है । द्रव्य अल्पबहुत्व आगम, नोआगमके भेदसे दो प्रकार है । जो अल्पबहुत्वविषयक प्राभृतको जाननेवाला है, परन्तु वर्तमानमें उसके उपयोगसे रहित है, उसे आगमद्रव्य अल्पबहुत्व कहते हैं । नोआगम द्रव्य अल्पबहुत्व ज्ञायक शरीर, भावी और तद्द्रव्यतिरिक्तके भेदसे तीन प्रकारका है । इसमें तद्द्रव्यतिरिक्त अल्पबहुत्व सच्चित्त, अचिन्त और मिश्रके भेदसे त्रय युक्त है । इनमें जीव द्रव्यविषयक अल्पबहुत्व सच्चित्त है—“जीववृत्त्वप्पाबहुवं सच्चित्तं” । शेष द्रव्य विषयक अल्पबहुत्व अचिन्त है । दोनोंका अल्पबहुत्व मिश्र है ।

प्रश्न—“एवेसु अप्पाबहुपसु केण पयदं”—इन अल्पबहुत्वोंमेंसे प्रकृतमें किससे प्रयोजन है ?

उत्तर—‘सच्चित्तद्रव्यप्पाबहुपण पयदं’—यहाँ सच्चित्त द्रव्य अल्पबहुत्वसे प्रयोजन है । इस अल्पबहुत्व प्ररूपणाका सबके अन्तमें निरूपण किया गया है, क्योंकि वह पूर्वोक्त सभी अनुपयोग द्वारोंसे सम्बद्ध है ।^१

स्वस्थान जीव अल्पबहुत्वमें ओघ तथा आदेशसे दो प्रकार निर्देश किया जाता है ।

ओघसे—५ ज्ञानावरणके अबन्धक जीव सबसे कम है । [बन्धक] जीव उनसे अनन्तगुणे हैं ।

चार दर्शनावरणके अबन्धक जीव सबसे कम हैं । निद्रा, प्रचलाके अबन्धक जीव

१. “अप्यं च बहुवं च अप्पाबहुआणि । तेसिमणुगो अप्पाबहुआणुगमो । तेण अप्पाबहुआणुगमेण णिद्देसो दुविहो होदि । ओघो आदेसो ति । संगहिदवयणकलावो दव्वट्टियणिबंधणो ओवो णाम । असंगहिदवयणकलावो पुब्बिसत्थावयवणिबंधो पज्जवट्टियणिबंधो आदेसो णाम ।” -ध० टी०, अप्पाबहु० पृ० २४३ । अल्पबहुत्वमन्योन्यापेक्षया विशेषप्रतिपत्तिः -स० सि०, पृ० १० । २. एदेसि पच्छा अप्पाबहुआणुगमो परूविदो, सम्भाणिओगहारेसु पडिबट्ठादो -सु० ब०, सामिसाणुगम टीका, पृ० २७ ।

जीवा विसेसाहिया । शीणगिद्धि०३ अबंधगा जीवा विसेसाहिया । बंधगा जीवा अणंतगुणा । णिदापचलाबंधगा जीवा विसेसाहिया । चदुदंस० बंधगा जीवा विसेसाहिया । सव्वत्थोवा सादासादाणं दोण्णं पगदीणं अबंधगा जीवा । सादबंधगा जीवा अणंतगुणा । असादबंधगा जीवा संखेज्जगुणा । दोण्णं बंधगा जीवा विसेसाहिया ।

२६४. सव्वत्थोवा लोभसंजलण-अबंधगा जीवा । माय-संजलण-अबंधगा जीवा विसेसाहिया । माण-संजलण-अबंधगा जीवा विसेसाहिया । क्रोधसंजलण-अबंधगा जीवा विसेसाहिया । पच्चक्खाणा०४ अबंधगा जीवा विसेसाहिया । अपच्चक्खाणावर०४ अबंधगा जीवा विसेसाहिया । अणंताणुबंधि०४ अबंधगा जीवा विसेसाहिया । मिच्छत्त-अबंधगा जीवा विसेसाहिया, बंधगा जीवा अणंतगुणा । अणंताणुबंधि०४ बंधगा जीवा विसेसाहिया । अपच्चक्खाणा०४ बंधगा जीवा विसेसाहिया । पच्चक्खाणा०४ बंधगा जीवा विसेसाहिया । क्रोधसंजलण-बंधगा जीवा विसे० । माणसंजलण-बंधगा जीवा विसे० । मायसंजलण-बंधगा जीवा विसे० । लोभसंजलण-बंधगा जीवा विसे० ।

२६५. सव्वत्थोवा णवणोकसायाणं अबंधगा जीवा । पुरिसवेदस्स बंधगा जीवा

इनसे विशेष अधिक हैं । स्त्यानगुद्धिचिकके अबन्धक जीव विशेषाधिक हैं । इनके बन्धक जीव अनंतगुणे हैं । निद्रा, प्रचलाके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । चार दर्शनावरणके बन्धक जीव इनसे विशेषाधिक हैं ।

साता-असाता दोनों प्रकृतियोंके अबन्धक जीव सबसे कम अर्थात् स्तोक हैं । साताके बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं । असाताके बन्धक जीव संख्यातगुणित हैं । दोनोंके बन्धक जीव इनसे विशेषाधिक हैं ।

विशेषार्थ—साता-असाताके अबन्धक अयोगकेवृत्ती हैं । उनकी संख्या ५६८ है । 'गोम्मटसार' जीव काण्डमें लिखा है—प्रमत्त गुणस्थानवाले ५६३९८२०६ हैं, अप्रमत्त गुणस्थानवाले २६६६६१०३ हैं, उपशम श्रेणीवाले चार गुणस्थानवर्ती १९९६, क्षपक श्रेणीवाले चारों गुणस्थानवर्ती २३६२ हैं, सयोगीजिन ८९८५०२ हैं । इनको जोड़नेपर ८६६६६३६६ संख्या होती है । तीन घाटि नव कोटि प्रमाण समस्त सकल संयमियोंकी संख्यामें-से उक्त प्रमाण घटानेपर ५९८ अयोगीजिन कहे गये हैं । (गो० जी०, सं० टीका पृ० १०८५)

२६४. सबसे स्तोक लोभ संज्वलनके अबन्धक जीव हैं । माया संज्वलनके अबन्धक जीव इनसे विशेषाधिक है । मान संज्वलनके अबन्धक जीव विशेषाधिक हैं । क्रोध संज्वलनके अबन्धक जीव विशेषाधिक हैं । प्रत्याख्यानावरण ४ के अबन्धक जीव विशेषाधिक हैं । अप्रत्याख्यानावरण ४ के अबन्धक जीव विशेषाधिक हैं । अनन्तानुबन्धी ४ के अबन्धक जीव विशेषाधिक हैं । मिथ्यात्वके अबन्धक जीव विशेषाधिक हैं । मिथ्यात्वके बन्धक जीव इनसे अनन्तगुणे हैं । अनन्तानुबन्धी ४ के बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । अप्रत्याख्यानावरण ४ के बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । प्रत्याख्यानावरण ४ के बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । क्रोध संज्वलनके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । मान संज्वलनके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । माया संज्वलनके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । लोभ संज्वलनके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं ।

२६५. नव नोकषायोंके अबन्धक जीव सर्वसे स्तोक अर्थात् अल्प हैं । पुरुषवेदके

अणंतगुणा । इत्थिवेदस्स बंधगा जीवा संखेज्जगुणा । हस्सरदिबंधगा जीवा संखेज्जगुणा । अरदिसोगाणं बंधगा जीवा संखेज्जगुणा । णवुंसगवेदस्स बंधगा जीवा विसेसाहिया । भयदुगुं० बंधगा जीवा विसे० ।

२६६. सव्वत्थोवा मणुसायु-बंधगा जीवा । णिरयायुबंधगा जीवा असंखेज्जगुणा । देवायुबंधगा जीवा असंखेज्जगुणा । तिरिक्खायुबंधगा जीवा अणंतगुणा । चदुण्णं आयुगाणं बंधगा जीवा विसेसाहिया । अबंधगा जीवा संखेज्जगुणा ।

२६७. सव्वत्थोवा देवगदि-बंधगा जीवा । णिरयगदिबंधगा जीवा संखेज्जगुणा । चदुण्णं गदीणं अबंधगा जीवा अणंतगुणा । मणुसगदि-बंधगा जीवा अणंतगुणा । तिरिक्खगदिबंधगा जीवा संखेज्जगुणा । चदुण्णं गदीणं बंधगा जीवा विसेसाहिया । सव्वत्थोवा पंचण्णं जादीणं अबंधगा जीवा । पंच्चदिय०-बंधगा जीवा अणंतगुणा । चदुरिंदिय-बंधगा जीवा संखेज्जगुणा । तीइंदिय-बंधगा जीवा संखेज्जगुणा । बीइंदिय बंधगा जीवा संखेज्जगुणा । एइंदिय-बंधगा जीवा संखेज्जगुणा । पंचण्हं जादीणं बंधगा जीवा विसेसाहिया । सव्वत्थोवा आहारसरीरस्स बंधगा जीवा । वेउव्वियसरीरस्स बंधगा जीवा असंखेज्जगुणा । पंचण्णं सरीराणं अबंधगा जीवा अणंतगुणा । ओरालिय-सरीरस्स बंधगा जीवा अणंतगुणा । तेजाकम्मइग-सरीरस्स बंधगा जीवा विसेसाहिया । यथा जादिणामाणं तथा संठाणणामाणं । सव्वत्थोवा आहार० अंगोवंग० बंधगा जीवा । वेउव्विय-अंगो० बंधगा जीवा असंखेज्जगुणा । ओरालिय-अंगो० बंधगा जीवा अणंत-

बन्धक जीव इनसे अनन्तगुणे हैं । स्त्रीवेदके बन्धक जीव इनसे संख्यातगुणे हैं । हास्य, रतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । अरति, शोकके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । नपुंसक-वेदके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । भय, जुगुप्साके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं ।

२६६. सर्वस्तोक मनुष्यायुके बन्धक जीव हैं । नरकायुके बन्धक इनसे असंख्यातगुणे हैं । देवायुके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । तिर्यचायुके बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं । चारों आयुओंके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । अबन्धक जीव संख्यातगुणे हैं ।

२६७. देवगतिके बन्धक जीव सर्वस्तोक अर्थात् सबसे कम हैं । नरकगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । चारों गतियोंके अबन्धक जीव अनन्तगुणे हैं । मनुष्यगतिके बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं । तिर्यचगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । चारों गतियोंके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । पाँच जातियोंके अबन्धक जीव सबसे अल्प हैं । पंचेन्द्रिय जातिके बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं । चतुरिन्द्रियके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । त्रीन्द्रियके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । द्वीन्द्रियके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । एकेन्द्रियके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । पाँचों जातियोंके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । आहारक शरीरके बन्धक सबसे स्तोक हैं । वैक्रियिक शरीरके बन्धक असंख्यातगुणे हैं । पाँचों शरीरोंके अबन्धक जीव अनन्तगुणे हैं । औदारिक शरीरके बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं । तैजस-कामण शरीरके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । जाति नामकर्मके अल्पबहुत्वके समान संस्थान नामकर्मका अल्पबहुत्व जानना चाहिए । आहारक अंगोपांगके बन्धक जीव सर्वस्तोक हैं । वैक्रियिक अंगोपांगके बन्धक

गुणा । तिष्ठिण अंगोवंगणं बंधगा जीवा विसेसाहिया । अबंधगा जीवा संखेजगुणा । सव्वत्थोवा वज्जरिसमसंधडणं बंधगा जीवा । वज्जणारायाणं बंधगा जीवा संखेजगुणा । पारायाण बंधगा जीवा संखेजगुणा । अद्धणारायाण बंधगा जीवा संखेजगुणा । खीलिय० बंधगा जीवा संखेजगुणा । असंपत्तसेवट्ट० बंधगा जीवा संखेजगुणा । छस्संधडण-बंधगा जीवा विसेसाहिया । अबंधगा जीवा संखेजगुणा । सव्वत्थोवा वण्ण०४ णिमिण-अबंधगा जीवा, बंधगा जीवा, अणंतगुणा । यथागदि तथाआणुपुव्वि । सव्वत्थोवा अगुरु० उपघा० अबंधगा जीवा । परघादुस्सा० बंधगा जीवा अणंतगुणा । अबंधगा जीवा संखेजगुणा । अगुरु० उपघा० बंधगा जीवा विसेसाहिया । सव्वत्थोवा आदाबुज्जो० बंधगा जीवा, अबंधगा जीवा संखेजगुणा । सव्वत्थोवा पसत्थविहाय० सुस्सर० बंधगा जीवा । अप्पसत्थविहाय० दुस्सर० बंधगा जीवा संखेजगुणा । दोष्णं बंधगा जीवा विसेसाहिया । अबंधगा जीवा संखेजगुणा । सव्वत्थोवा तसथावर-अबंधगा जीवा । तस० बंधगा जीवा अणंतगुणा । थावरबंधगा जीवा संखेजगुणा । दोष्णं बंधगा जीवा विसेसाहिया । एवं सेसाणं जुगलाणं गोदंतियाणं । सव्वत्थोवा तित्थयर-बंधगा जीवा । अबंधगा जीवा अणंतगुणा । सव्वत्थोवा पंचंतराह्मणं अबंधगा जीवा । बंधगा जीवा अणंतगुणा ।

जीव असंख्यातगुणे हैं । औदारिक अंगोपांगके बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं । तीनों अंगोपांगोंके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं ; अबन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । वज्रवृषभसंहननके बन्धक जीव सर्वस्तोक हैं । वज्रनाराचसंहननके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । नाराचसंहननके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । अर्धनाराचसंहननके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । कौलित संहननके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । असंप्राप्तासृपाटिका संहननके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । छह संहननके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं ; अबन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । वर्णचतुष्क तथा निर्माणके अबन्धक जीव सर्वस्तोक हैं । इनके बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं । गतिके समान आनुपूर्विका अल्पबहुत्व जानना चाहिए । अगुरुलघु, उपघातके अबन्धक जीव सर्वस्तोक हैं । परघात, उच्छ्वासके बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं ; अबन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । अगुरुलघु, उपघातके अबन्धक जीव विशेषाधिक हैं । आतप, उद्योतके बन्धक जीव सर्वस्तोक हैं ; अबन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । प्रशस्त विहायोगति, सुस्वरके बन्धक जीव सर्वस्तोक हैं । अप्रशस्त विहायोगति, दुःस्वरके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । दोनोंके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं ; अबन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । त्रस-स्थावरके अबन्धक जीव सर्वस्तोक हैं । त्रसके बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं । स्थावरके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । दोनोंके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं ।

इस प्रकार गोत्र कर्म है अन्तमें जिनके-ऐसे शेष युगलोंका क्रम जानना चाहिए ।

विशेष—बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, सुभग, आदेय-सदृश नामकर्मको शेष युगल प्रकृतियोंका अल्पबहुत्व त्रस-स्थावरके समान जानना चाहिए । गोत्र कर्मका भी ऐसा ही है ।

तीर्थकर प्रकृतिके बन्धक जीव सर्व स्तोक हैं ; अबन्धक जीव अनन्तगुणे हैं । ५ अन्त-रायोके अबन्धक जीव सर्व स्तोक हैं ; बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं ।

२६८. आदेशेण—गदियाणुवादेण गिर्यगदि-णेरइएसु-सव्वत्थोवा थीणगिद्धि०
३ अवंधगा जीवा, बंधगा जीवा असंखेज्जगुणा । क्खंदंस० बंधगा जीवा विसेसाहिया ।
२६९. सव्वत्थोवा सादबंधगा जीवा, असादबंधगा जीव संखेज्जगुणा । दोण्णं
बंधगा जीव विसेसाहिया ।

३००. सव्वत्थोवा अणंताणुवं०४ अवंधगा जीवा । मिच्छत्त-अबंधगा जीवा
विसेसाहिया । बंधगा जीवा असंखेज्जगुणा । अणंताणुवंधि०४ बंधगा जीवा विसेसाहिया ।
चारसकसायाणं बंधगा जीवा विसेसाहिया । सव्वत्थोवा पुरिसवेदस्स बंधगा जीवा ।
इत्थिवेदस्स बंधगा जीवा संखेज्जगुणा । हस्सरदिबंधगा जीवा विसेसाहिया । णचुंसक-
वेदस्स बंधगा जीवा संखेज्जगुणा । अरदिसोमाणं बंधगा जीवा विसेसाहिया । भयदु०
बंधगा जीवा विसे० ।

३०१. सव्वत्थोवा मणुसायुबंधगा जीवा । तिरिक्ख्खायुबंधगा जीवा असंखेज्ज-
गुणा । दोण्णं आयुमाणं बंधगा जीवा विसेसाहिया । अवंधगा जीवा संखेज्जगुणा ।
सव्वत्थोवा मणुसगदिबंधगा जीवा । तिरिक्ख्खगदिबंधगा जीवा संखेज्जगुणा । दोण्णं
बंधगा जीवा विसेसाहिया । अवंधगा णत्थि । एवं दो आणु० दो विहाय० थिरादिच्छ-
युगलं दोगोदं च । समचदु० बंधगा जीवा सव्वत्थोवा । सेससंठाणं बंधगा जीवा

२६८. आदेशसे—गतिके अनुवादेसे नरक गतिके नारकियोंमें स्त्यानगुद्धिचिकके
अबन्धक जीव सर्व स्तोक हैं; बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । छह दर्शनावरणके बन्धक
जीव विशेषाधिक हैं ।

विशेष—५ ज्ञानावरण, ५ अन्तरायके सर्व नारकी बन्धक हैं; अबन्धक नहीं हैं । इस
कारण उनका अल्पबहुत्व यहाँ नहीं कहा है । उनका एक साथ निरन्तर बन्ध होता है ।

२६९. साताके बन्धक जीव सर्व स्तोक हैं । असाताके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं ।
दोनोंके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं ।

३००. अनन्तानुबन्धी ४ के अबन्धक जीव सर्व स्तोक हैं । मिथ्यात्वके अबन्धक जीव
विशेषाधिक हैं । बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । अनन्तानुबन्धी ४ के बन्धक जीव विशेषा-
धिक हैं । १२ कपायोंके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । पुरुषवेदके बन्धक जीव सर्व स्तोक हैं ।
स्त्रीवेदके बन्धक संख्यातगुणे हैं । हास्य, रतिके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । नपुंसकवेदके
बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । अरति, शोकके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । भय, जुगुप्साके
बन्धक जीव विशेषाधिक हैं ।

३०१. मनुष्यायुके बन्धक जीव सर्व स्तोक हैं । तिर्यचायुके बन्धक जीव असंख्यातगुणे
हैं । दोनों आयुओंके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । अबन्धक जीव संख्यातगुणे हैं ।

मनुष्यगतिके बन्धक जीव सर्व स्तोक हैं । तिर्यचगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं ।
दोनोंके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं; अबन्धक नहीं हैं । इसी प्रकार २ आनुपूर्वी, २ विहायो-
गति, स्थिरादि छह युगल तथा दो गोत्रोंमें जानना चाहिए ।

समचतुरस्रसंस्थानके बन्धक जीव सर्व स्तोक हैं । शेष संस्थानोंके बन्धक जीव संख्यात-

संखेज्जगुणा । एवं संवड० । सव्वत्थोवा उज्जोवं बंधगा जीवा । अबंधगा जीवा संखेज्जगुणा । सव्वत्थोवा तित्थयरं बंधगा जीवा । अबंधगा जीवा संखेज्जगुणा ।

३०२. एवं सत्तसु पुढवीसु । णवरि मज्झिमासु सव्वत्थोवा मणुसायुबंधगा जीवा । तिरिक्खायुबंधगा जीवा असंखेज्जगुणा । दोण्णं आयुगस्स बंधगा जीवा विसेसाहिया । अबंधगा जीवा असंखेज्जगुणा । सव्वत्थोवा सत्तमाए पुढवीए मणुसगदि-मणुसाणुपुब्बि-उच्चागोदाणं बंधगा जीवा । तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणुपुब्बि-णीवागोदाणं बंधगा जीवा असंखेज्जगुणा । दोण्णं बंधगा जीवा विसेसाहिया । अबंधगा जीवा णत्थि । सव्वत्थोवा तिरिक्खायुबंधगा जीवा, अबंधगा जीवा असंखेज्जगुणा ।

३०३. तिरिक्खेसु-सव्वत्थोवा धीणगिद्धि०३ अबंधगा जीवा । बंधगा जीवा अणंतगुणा । छदंसणा० बंधगा जीवा विसेसाहिया । सव्वत्थोवा सादबंधगा जीवा । असादबंधगा जीवा संखेज्जगुणा । दोण्णं बंधगा जीवा विसेसाहिया । अबंधगा णत्थि । सव्वत्थोवा अपच्चक्खाणा०४ अबंधगा जीवा । अणंताणुवं०४ अबंधगा असंखेज्जगुणा । मिच्छत्त-अबंधगा जीवा विसे० । बंधगा जीवा अणंतगुणा । अणंताणुवं०४ बंधगा जीवा विसेसा० । पच्चक्खाणावरण०४ (?) बंधगा जीवा विसेसा० । अट्ठकसायाणं बंधगा जीवा विसेसाहिया । सव्वत्थोवा पुरिसवेदस्स बंधगा जीवा । इत्थिवेदस्स बंधगा जीवा

गुणे हैं । इस प्रकार संहननमें भी जानना चाहिए ।

उद्योतके बन्धक जीव सर्व स्तोक हैं ; अबन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । तीर्थंकर प्रकृति-के बन्धक जीव सर्व स्तोक हैं ; अबन्धक जीव संख्यातगुणे हैं ।

३०२. इसी प्रकार सात पृथिव्योंमें जानना चाहिए । विशेष यह है कि मध्यम पृथिव्यों-में मनुष्यायुके बन्धक जीव सर्व स्तोक हैं । तिर्यचायुके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । दोनों आयुओंके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं ; अबन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं ।

सातवीं पृथ्वीमें—मनुष्यगति, मनुष्यानुपूर्वी तथा उच्च गोत्रके बन्धक जीव सर्व स्तोक हैं । तिर्यचगति, तिर्यचानुपूर्वी तथा नीच गोत्रके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । दोनोंके (मनुष्यगति, तिर्यचगति आदि) बन्धक जीव विशेष अधिक हैं ; अबन्धक नहीं हैं । तिर्यचायुके बन्धक जीव सर्व स्तोक हैं ; अबन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं ।

३०३. तिर्यचोमें—स्त्यानगृद्धिन्निकके अबन्धक जीव सर्वस्तोक हैं ; बन्धक जीव अनन्त गुणे हैं । ६ दर्शनावरणके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं ।

सातावेदनीयके बन्धक जीव सर्व स्तोक हैं ; असाताके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । दोनोंके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं ; अबन्धक नहीं हैं । अप्रत्याख्यानावरण ४ के अबन्धक जीव सर्व स्तोक हैं । अनन्तानुबन्धी ४ के अबन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । मिथ्यात्वके अबन्धक जीव विशेष अधिक हैं । इसके बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं । अनन्तानुबन्धी ४ के बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । प्रत्याख्यानावरण ४ के बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । ८ कषाय, ८ प्रत्याख्यानावरण तथा संज्वलनके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं ।

विशेष—यहाँ प्रत्याख्यानावरण ४ के बन्धकके स्थानमें अप्रत्याख्यानावरण ४ के बन्धक पाठ सम्यक् प्रतीत होता है ।

संखेजगुणा । हस्सरदिबंधगा जीवा संखेजगुणा । अरदिसोगाणं बंधगा जीवा संखेजगुणा । णवुंसकवेदस्स बंधगा जीवा विसेसाहिया । भयदुगुच्छ्राणं बंधगा जीवा विसेसाहिया । आयु० अंगोर्वं० संव० आदा० उज्जो० विहाय० संठाणं च मूलोर्षं । सव्वत्थोवा पंचिंदिय-बंधगा जीवा । सेस-बंधगा जीवा संखेजगुणा । सव्वत्थोवा देव-गदिबंधगा जीवा । गिरयगदिबंधगा जीवा संखेजगुणा । मणुसगदिबंधगा जीवा अणंतगुणा । तिरिक्खगदिबंधगा जीवा संखेजगुणा । चदुण्णं गदीणं बंधगा जीवा विसेसा० । सव्वत्थोवा वेउत्थिय-बंधगा जीवा । ओरालियबंधगा जीवा अणंतगुणा । तेजाकम्मइग-बंधगा जीवा विसेसा० । संठाणं गिरयभंगो । सव्वत्थोवा परघादुस्सा० बंधगा जीवा । अबंधगा जीवा संखेजगुणा । अगु० उप० बंधगा जीवा विसेसा० । सेसाणं युगलाणं सादासादभंगो । एवं पंचिंदियतिरिक्खाणं । णवरि यं हि अणंतगुणं तं हि असं-खेजगुणं कादव्वं ।

३०४. पंचिंदिय-तिरिक्ख-जोणिणीसु-दंसणावरण-मोहणीय-गोदे एसेव भंगो । सव्वत्थोवा मणुसायुबंधगा जीवा । गिरयायुबंधगा जीवा असंखेजगुणा । देवायु-बंधगा

पुरुषवेदके बन्धक जीव सर्व स्तोक हैं । स्त्रीवेदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । हास्य, रतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । अरति, शोकके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । नपुंसकवेदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । भय, जुगुप्साके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं ।

आयु, अंगोपांग, संहनन, आतप, उद्योत, विहायोगति, संस्थानके बन्धकोंमें मूलके ओघवत् जानना चाहिए ।

पंचेन्द्रिय जातिके बन्धक जीव सर्व स्तोक हैं । शेष जातियोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । देवगतिके बन्धक जीव सर्व स्तोक हैं । नरक गतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । मनुष्यगतिके बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं । तिर्यचगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । चारों गतिके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । वैक्रियिक शरीरके बन्धक जीव सर्व स्तोक हैं । औदारिक शरीरके बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं । तैजस, कार्मण के बन्धक जीव विशेषाधिक हैं ।

संस्थानोंके बन्धकोंमें नरकगतिके समान भंग हैं । अर्थात् समचतुरस्र संस्थानके बन्धक जीव सर्व स्तोक हैं । शेषके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । परघात, उद्ध्वासके बन्धक जीव सर्व स्तोक हैं । अबन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । अगुरुलघु, उपघातके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । शेष युगलोंके बन्धकोंमें साता-असाताका भंग जानना चाहिए । पंचेन्द्रिय तिर्यचोंमें भी इसी प्रकार जानना चाहिए । विशेष यह है कि जहाँ 'अनन्तगुणा' है वहाँ 'असंख्यातगुणा' लगाना चाहिए ।

विशेषार्थ—पंचेन्द्रिय-तिर्यच-पर्याप्रकोंका पृथक् वर्णन नहीं किया गया है, अतः प्रतीत होता है कि पंचेन्द्रिय तिर्यचोंके समान उनका वर्णन होगा ।

३०४. पंचेन्द्रिय-तिर्यच-योनिमतियोंमें - दर्शनावरण, मोहनीय और गोत्रके बन्धकोंमें यही भंग जानना चाहिए ।

मनुष्यायुके बन्धक जीव सर्व स्तोक हैं । नरकायुके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । देवायुके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । तिर्यचायुके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । चारों

जीवा असंखे गुणा । तिरिक्खायुबंधगा जीवा संखेजगुणा । चदुण्णं आयुमाणं बंधगा जीवा विसेसा० । अबंधगा जीवा संखेजगुणा । सच्चत्थोवा देवगदि-बंधगा जीवा । मणुसगदि-बंधगा जीवा संखेजगुणा । तिरिक्खगदि-बंधगा जीवा असंखेजगुणा । पिरयगदिबंधगा जीवा संखेजगुणा । सच्चत्थोवा चदुरिंदिय-बंधगा (?) जीवा । तीइंदिय-बंधगा जीवा संखेजगुणा । बीइंदिय-बंधगा जीवा संखेजगुणा । एइंदिय-बंधगा जीवा संखेजगुणा । पंचिंदिय-बंधगा जीवा संखेजगुणा (?) । सच्चत्थोवा ओरालिय-सरीरबंधगा जीवा । वेउव्विय-बंधगा जीवा संखेजगुणा । तेजाकम्मइग० बंधगा जीवा विसेसा० । संठाणं संघडणं पंचिंदिय-तिरिक्खअंगो । सच्चत्थोवा ओरालिय-अंगोवंग-बंधगा जीवा । दोण्णं अंगो० अबंधगा जीवा संखेजगुणा । वेउव्विय-अंगो० बंधगा जीवा संखेजगुणा । दोण्णं अंगो० बंधगा जीवा विसेसा० । सच्चत्थोवा परघादुस्सा० अबंधगा जीवा । बंधगा जीवा संखेजगुणा । अगु० उप० बंधगा जीवा विसेसा० । सच्चत्थोवा पसत्थविहायगदि-बंधगा जीवा सुस्सर-बंधगा जीवा० । दोण्णं अबंधगा जीवा संखेजगुणा । अप्पसत्थ-विहायगदि-बंधगा, दुस्सरबंधगा जीवा संखेजगुणा । सच्चत्थोवा थावरदि०४ बंधगा जीवा । तसादि०४ बंधगा जीवा संखेजगुणा ।

आयुके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं; अबन्धक जीव संख्यातगुणे हैं ।

देवगतिके बन्धक जीव सर्वे स्तोके हैं । मनुष्यगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । तिर्यचगतिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । नरक गतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । चतुरिन्द्रिय जातिके बन्धक जीव सर्वे स्तोके हैं । त्रीन्द्रिय जातिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । दो इन्द्रिय जातिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । एकेन्द्रियके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । पंचेन्द्रियके बन्धक (?) जीव संख्यातगुणे हैं ।

विशेषार्थ—पंचेन्द्रिय जातिके बन्धक जीव सर्वे स्तोके होना चाहिए, । कारण “सच्चत्थोवा पंचिंदिया” - पंचेन्द्रिय सर्वे स्तोके हैं । अतः पंचेन्द्रियके बन्धक संख्यातगुणे हैं, यह पाठ असम्यक् प्रतीत होता है । पंचेन्द्रियकी अपेक्षा चौइन्द्रियपना विशेष सुलभ है, अतः पंचेन्द्रियके बन्धक सर्वे स्तोके होंगे ।

औदारिक शरीरके बन्धक जीव सर्वे स्तोके हैं । वैक्रियिक शरीरके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । तैजस, कर्मण के बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । संस्थान और संहननके बन्धकोंमें पंचेन्द्रिय तिर्यचका भंग जानना चाहिए । औदारिक अंगोपांगके बन्धक जीव सर्वे स्तोके हैं । दोनों अंगोपांगके अबन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । वैक्रियिक अंगोपांगके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । दोनों अंगोपांगके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । परघात, उच्छ्वासके अबन्धक जीव सर्वे स्तोके हैं । बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । अगुरुलघु, उपघातके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । प्रशस्त विहायोगति तथा सुस्वरके बन्धक जीव सर्वे स्तोके हैं । दोनोंके अबन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । अप्रशस्त विहायोगतिके बन्धक और दुस्वरके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । थावरदि ४ के बन्धक जीव सर्वे स्तोके हैं । त्रसादि ४ के बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं ।

१. “पंचह्मिंदियाणं सव्वीवसमलद्धीए सुट्ठु दुल्लभत्तादो । चउरिंदिया विसेसाहिया, कुदो ? पंचह्मिंदियाणं सामग्गीदो चदुण्हमिंदियाणं सामग्गीए अइसुलभत्तादो । -सु० बं०, टीका, पृ० ५२४ ।

३०५. पंचिदिय-तिरिक्ख-अपज्जत्तगेषु-सव्वत्थोवा पुरिसवेदबंधगा जीवा । इत्थिवेदबंधगा जीवा संखेज्जगुणा । हस्सरदिबंधगा जीवा संखेज्जगुणा । अरदिसोग-बंधगा जीवा संखेज्जगुणा । णवुंस० बंधगा जीवा विसेसा० । भयदु० बंधगा जीवा विसेसा० । सव्वत्थोवा मणुसायु-बंधगा जीवा । तिरिक्खायुबंधगा जीवा असंखेज्जगुणा । दोण्णं बंधगा जीवा विसेसा० । अबंधगा जीवा संखेज्जगुणा । सव्वत्थोवा मणुसगदिबंधगा जीवा । तिरिक्खगदिबंधगा जीवा संखेज्जगुणा । दोण्णं बंधगा जीवा विसेसा० । अबंधगा णत्थि । सव्व[त्थोवा] पंचिदिय-बंधगा जीवा० । चदुरिदिय-बंधगा जीवा संखेज्जगुणा । तीइंदिय-बंधगा जीवा संखेज्ज० । बीइंदि० बंधगा जीवा संखेज्ज० । एइंदियबंधगा जीवा संखेज्जगुणा । सव्वत्थोवा ओरालिय-अंगो० आदा-उज्जो० बंध० जीवा । अबंधगा जीवा संखेज्ज० । संठाण-संधण० पर० उस्सा० दो विहा० तस-थावरादि-दसयुगलं दोगोदं च पंचिदिय-तिरिक्खभंगो । एवं सव्व-अपज्जत्तगणं तसाणं सव्वएइंदिय-विगलिंदिय-सव्वपंचकायाणं च । णवरि वणफ्फदि काय-णिगोदेसु सव्व-त्थोवा मणुसायु-बंधगा जीवा । तिरिक्खायुबंधगा जीवा अणंतगुणा । दोण्णं बंधगा जीवा विसे० । अबंधगा जीवा संखेज्ज० ।

३०६. मणुसेसु-सव्वत्थोवा पंचणा० अबंधगा जीवा, बंधगा जीवा असंखेज्ज-

३०५. पंचेन्द्रिय तिर्यक् लब्ध्यपर्याप्तकोंमें - पुरुषवेदके बन्धक जीव सर्व स्तोक हैं । स्त्री-वेदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । हास्य, रतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । अरति, शोकके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । नपुंसकवेदके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । भय, जुगुप्साके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं ।

मनुष्यायुके बन्धक जीव सर्व स्तोक हैं । तिर्यचायुके, बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । दोनोंके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । अबन्धक संख्यातगुणे हैं ।

मनुष्यगतिके बन्धक जीव सर्व स्तोक हैं । तिर्यचगतिके बन्धक संख्यातगुणे हैं । दोनोंके बन्धक विशेषाधिक हैं; अबन्धक नहीं हैं । पंचेन्द्रिय जातिके बन्धक जीव सर्व स्तोक हैं । चौइन्द्रिय जातिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । त्रीन्द्रिय जातिके बन्धक संख्यातगुणे हैं । दोइन्द्रिय जातिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । एकेन्द्रिय जातिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । औदारिक अंगोपांग, आतप, उद्योतके बन्धक जीव सर्व स्तोक हैं । अबन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । संस्थान, संहनन, परघात, उच्छ्वास, दो विहायोगति, त्रस-स्थावरादि दस युगल तथा दो गोत्रोंके बन्धकोंमें पंचेन्द्रिय तिर्यचके समान भंग जानना चाहिए ।

इसी प्रकार सर्व लब्ध्यपर्याप्तक त्रसों, सर्व एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और सर्व पंचकाय-बालोंमें है । विशेष यह है, कि वनस्पति काय-निगोदियोंमें मनुष्यायुके बन्धक जीव सर्व स्तोक हैं । तिर्यचायुके बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं । दोनोंके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । दोनोंके अबन्धक जीव संख्यातगुणे हैं ।

३०६. मनुष्योंमें - ५ ज्ञानावरणके अबन्धक जीव सर्व स्तोक हैं । बन्धक जीव असं-

गुणा । एवं अंतराह्गणं चैव । सव्वत्थोवा चदुदंस० अबंधगा जीवा । णिद्दापचला-
 अबंधगा जीवा विसेसा० । थीणगिद्धि०३ अबंधगा जीवा संखेज्जगुणा । बंधगा जीवा
 असंखेज्जगुणा । णिद्दापचला-बंधगा जीवा विसेसा० । चदुदंस० बंधगा जीवा विसेसा० ।
 सव्वत्थोवा सादासाद-अबंधगा जीवा । साद-बंधगा जीवा असंखेज्जगुणा । असाद-
 बंधगा जीवा संखेज्जगुणा । दोण्णं बंधगा जीवा विसेसा० । सव्वत्थोवा लोभसंजल०
 अबंधगा जीवा । मायासंज० अबं० जीवा विसेसा० । माणसंज० अबं० जीवा
 विसेसा० । कोधसंज० अबं० जीवा विसेसा० । पच्चक्खाणावरण०४ अबं० जीवा
 संखेज्ज० । अपच्चक्खाणाव०४ अबं० जीवा संखेज्ज० । अणंताणुबंधि०४ अबं० जीवा
 संखेज्जगु० । मिच्छ० अबं० जीवा विसेसा० । बंधगा जीवा असंखेज्जगुणा । अणंता-
 णुबंधि०४ बंधगा जीवा विसेसा० । अपच्चक्खाणावर०४ बंधगा जीवा विसेसा० ।
 पच्चक्खाणावर०४ बंधगा जीवा विसेसा० । कोधसंज० बंधगा जीवा विसेसा० । माणसंज०
 बंधगा जीवा विसेसा० । माया-संज० बंधगा जीवा विसेसा० । लोभसंज० बंधगा जीवा
 विसेसा० । सव्वत्थोवा णवण्णं णोकसायाणं अबंधगा जीवा । पुरिस० बंधगा जीवा
 असंखेज्जगुणा । सेसं तिरिक्खोघं । सव्वत्थोवा णिरयायु-बंधगा जीवा । देवायु-बंधगा

ख्यातगुणे हैं । इसी प्रकार अन्तरायोंमें भी जानना । अर्थात् अबन्धक जीव सर्व स्तोक और
 बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं ।

चार दर्शनावरणके अबन्धक जीव सर्व स्तोक हैं । निद्रा-प्रचलाके अबन्धक जीव
 विशेषाधिक हैं । स्थानगृद्धिन्निकके अबन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । बन्धक जीव असंख्यात-
 गुणे हैं । निद्रा-प्रचलाके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । चार दर्शनावरणके बन्धक जीव
 विशेषाधिक हैं ।

साता, असाता वेदनीयके अबन्धक जीव सर्व स्तोक हैं । साताके बन्धक जीव
 असंख्यातगुणे हैं । असाताके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । दोनोंके बन्धक जीव विशेषा-
 धिक हैं ।

लोभ-संज्वलनके अबन्धक जीव सर्व स्तोक हैं । माया-संज्वलनके अबन्धक जीव
 विशेषाधिक हैं । मान-संज्वलनके अबन्धक जीव विशेषाधिक हैं । क्रोध-संज्वलनके अबन्धक
 जीव विशेषाधिक हैं । प्रत्याख्यानावरण ४ के अबन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । अप्रत्याख्याना-
 वरण ४ के अबन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । अनन्तानुबन्धी ४ के अबन्धक जीव संख्यातगुणे
 हैं । मिथ्यात्वके अबन्धक जीव विशेषाधिक हैं । बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । अनन्तानु-
 बन्धी ४ के बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । अप्रत्याख्यानावरण ४ के बन्धक जीव विशेषाधिक
 हैं । प्रत्याख्यानावरण ४ के बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । क्रोध-संज्वलनके बन्धक जीव
 विशेषाधिक हैं । मान-संज्वलनके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । माया-संज्वलनके बन्धक जीव
 विशेषाधिक हैं । लोभ-संज्वलनके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं ।

नव नोकषायके अबन्धक जीव सर्व स्तोक हैं । पुरुषवेदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे
 हैं । शेष प्रकृतियोंके तिर्यचोंके ओघवत् जानना चाहिए ।

जीवा संखेज्जगु० । मणुसायु-बंधगा जीवा असंखेज्जगु० । तिरिक्खायु-बंधगा जीवा असंखेज्जगुणा । चदुण्णं आयुगारणं बंधगा जीवा विसेसा० । अबंधगा जीवा संखेज्जगुणा । सव्वत्थोवा चदुण्णं गदीणं अबंधगा जीवा । देवगदिबंधगा जीवा संखेज्जगुणा । णिरयगदिबंधगा जीवा संखेज्जगु० । मणुसगदिबंधगा जीवा संखेज्ज० । तिरिक्खगदिबंधगा जीवा संखेज्ज० । सव्वत्थोवा पंचणं जादीणं अबंध० जीवा । पंचिदि० बंधगा जीवा असंखेज्जगुणा । सेसं बंधगा जीवा संखेज्जगुणा । सव्वत्थोवा आहारसरीर-बंधगा जीवा । पंचणं सरीराणं अबंधगा जीवा संखेज्जगुणा । वेउव्वियसरीरबंधगा जीवा संखेज्ज० । ओरालि० बंधगा जीवा असंखे० । तेजाक० बंधगा जीवा विसेसा० । सव्वत्थोवा छणं संठाणाणं अबंधगा जीवा । समचदु० बंधगा जीवा असंखेज्जगुणा । सेसं ओधं । सव्वत्थोवा आहार० अंगो० बंधगा जीवा । वेउव्वियअंगो० बंधगा जीवा संखेज्जगु० । ओरालि० अंगो० बंधगा जीवा असंखेज्जगु० । तिण्णि अंगोवंगारणं बंधगा जीवा विसेसा० । अबंधगा जीवा संखेज्जगु० । संवड० आदाउज्जो० दो विहा० दोसर० ओधं । सव्वत्थोव वण्ण०४ णिमिण-अबंधगा जीवा । बंधगा जीवा असंखेज्ज० । सव्वत्थोवा अगु० उप०

विशेष—स्त्रीवेदके बन्धक संख्यातगुणे हैं । हास्यरतिके बन्धक संख्यातगुणे हैं । अरति शोकके बन्धक संख्यातगुणे हैं । तपुसकवेदके बन्धक विशेषाधिक हैं । भय-जुगुप्साके बन्धक विशेषाधिक हैं ।

नरकायुके बन्धक जीव सर्व स्तोक हैं । देवायुके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । मनुष्यायुके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । तिर्यचायुके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । चारों आयुओंके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । अबन्धक जीव संख्यातगुणे हैं ।

चारों गतिके अबन्धक जीव सर्व स्तोक हैं । देवगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । नरकगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । मनुष्यगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । तिर्यच गतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । पाँचों जातिके अबन्धक जीव सर्व स्तोक हैं । पंचेन्द्रिय जातिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । शेष जातियोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । आहारक शरीरके बन्धक जीव सर्व स्तोक हैं । पाँचों शरीरोंके अबन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । वैक्रियिक शरीरके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । औदारिक शरीरके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । तैजस, कार्मण के बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । ६ संस्थानोंके अबन्धक जीव सर्व स्तोक हैं । समचतुरस्रसंस्थानके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं ।

शेष संस्थानोंमें ओघवत् जानना चाहिए । अर्थात् शेषके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । आहारक अंगोपांगके बन्धक जीव सर्व स्तोक हैं । वैक्रियिक अंगोपांगके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । औदारिक अंगोपांगके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । तीनों अंगोपांगके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । अबन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । संहनन, आतप, उग्रोत्, २ त्रिहायो-गति, २ स्वरोमें ओघवत् जानना चाहिए । वर्ण ४ और निर्माणके अबन्धक जीव सर्व स्तोक हैं । बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । अगुरुलघु, उपघातके अबन्धक जीव सर्व स्तोक हैं । परघात, उन्धवर्णके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । अबन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । अगुरु-

अबंधगा जीवा । परधादुस्ता० बंधगा जीवा असंखेज्जगुणा । अबंधगा जीवा संखेज्जगु० । अगुरु० उप० बंधगा जीवा विसेसा० । ससाणं युगलाणं ओघ-भंगो । णवरि यं हि अणंतगुणंतं हि असंखेज्जगुणं कादव्वं । सव्वत्थोवा । तत्थयरबंधगा जीवा । अबंधगा जीवा असंखेज्जगुणा ।

३०७. मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु एसेव भंगो । णवरि यं हि असंखेज्जगुणं दव्वं, तं हि संखेज्जगुणं कादव्वं । यासु सरिसताओ इमाओ पगदीओ गदिसु च जादिसु च णिरयगदि-पंचिदिय पच्छा कादव्वा । आहारसरीरबंधगा थोवा । पंचणं सरीराणं अबंधगा जीवा संखेज्जगुणा । ओरालि० बंधगा जीवा संखेज्जगुणा । वेउव्वि० बंधगा जीवा संखेज्ज० । तेजाक० बंधगा जीवा विसेसा० । तसादि-चदुयुगलाणं च । सव्वत्थोवा अबंधगा जीवा अप्पसत्थाणं बंधगा जीवा संखेज्जगुणा । तसादि०४ बंधगा जीवा संखेज्ज० । विहाय० सरणाम तिरिक्खिणीभंगो ।

३०८. देवेसु—णिरयभंगो । एवं याव सदरसहस्सारत्ति । किंचि विसेसो देवो-
धादो याव ईसाण त्ति, तं पुण इमं । सव्वत्थोवा पुरिसवे० बंधगा जीवा । इत्थिवे०

लघु, उपधातके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । शेष युगलोंमें ओघके समान भंग जानना चाहिए । इतना विशेष है कि जहाँ 'अनन्तगुणा' कहा है वहाँ 'असंख्यातगुणा' कर लेना चाहिए ।

तीर्थकर प्रकृतिके बन्धक जीव सर्व स्तोक हैं । अबन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं ।

३०७. मनुष्यपर्याप्तक, मनुष्यनियोंमें—इसी प्रकार भंग जानना चाहिए । यह विशेष है कि जहाँ असंख्यातगुणित द्रव्य कहा है, वहाँ संख्यातगुणित कर लेना चाहिए ।

जो गति और जाति नामकी समान प्रकृतियाँ हैं उनमें नरक गति और पंचेन्द्रिय जातिको पीछे कर लेना चाहिए ।

विशेष—चारों गतिके अबन्धक जीव सर्व स्तोक हैं । देवगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं; मनुष्यगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं; तिर्यच गतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं, नरकगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं ।

पंच जातियोंके अबन्धक जीव सर्व स्तोक हैं । पंचेन्द्रियको छोड़कर शेषके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । पंचेन्द्रियके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं ।

आहारक शरीरके बन्धक स्तोक हैं । ५ शरीरके अबन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । औदारिक शरीरके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । वैक्रियिक शरीरके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । तैजस, कार्मण शरीरके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं ।

यही क्रम ब्रह्म, वादर, पर्याप्त, प्रत्येकके युगलोंमें भी लगा लेना चाहिए ।

स्थावर, सूक्ष्म अपर्याप्तक साधारण इन अप्रशस्त प्रकृतियोंके अबन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । ब्रह्मादिक चतुष्कके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । विहायोगति, स्वर नामक प्रकृतियोंमें तिर्यचिनीके समान भंग जानना चाहिए ।

३०८. देवोंमें नारकियोंके समान भंग जानना चाहिए । यह बात शतार, सहस्रार स्वर्ग पर्यन्त जाननी चाहिए । किन्तु देवोघकी अपेक्षा ईशान स्वर्ग पर्यन्त किंचिन् विशेषता है, वह यह है ।

बंधगा जीवा संखेजगुणा । हस्सरदि-बंधगा जीवा संखेज० । अरदिसोग-बंधगा जीवा संखेज० । णवुंस० बंधगा जीवा विसेसा० । भयदु० बंधगा जीवा विसेसा० । सव्वत्थोवा पंचिंदियस्स बंधगा जीवा । एइंदिय-बंधगा जीवा संखेज० । सव्वत्थोवा ओरालि० अंगो० बंधगा जीवा । अबंधगा जीवा संखेजगुणा । संघड० आदा-उजो० दोविहाय० दोसर० ओघभंगो । एवं विसेसो णादव्वो आणद याव णवभेवजा त्ति । सव्वत्थोवा थीणगिद्धि०३ बंधगा जीवा । अबंधगा जीवा संखेजगुणा । सेसाणं बंधगा जीवा विसेसा० । सव्वत्थोवा मिच्छत्त-बंधगा जीवा । अणंताणुव०४ बंधगा जीवा विसेसा० । अबंधगा जीवा संखेजगुणा । मिच्छत्तस्स अबंधगा जीवा विसेसा० । सेसबंधगा जीवा विसे० । सव्वत्थोवा इत्थि-बंधगा जीवा । णवुंसबंधगा जीवा संखेजगुणा । हस्सरदि-बंधगा जीवा संखेजगु० । अरदिसो० बंध० जीवा संखेज० । पुरिसवे०

विशेष—सौधर्मद्विक पर्यन्त एकेन्द्रिय, स्थावर, आतपका बन्ध होता है । सहस्रार पर्यन्त तिर्यचगति, तिर्यचानुपूर्वी, तिर्यचायु तथा उद्योतका बन्ध होता है ।

पुरुषवेदके बन्धक जीव सर्व स्तोक हैं । स्त्रीवेदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । हास्य-रतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । अरति, शोकके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । नपुंसक वेदके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । भय, जुगुप्साके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । पंचेन्द्रिय जातिके बन्धक जीव सर्व स्तोक हैं । एकेन्द्रिय जातिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं ।

विशेषार्थ—देवोंका विकल्पत्रयमें उत्पाद नहीं होता । इससे दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय चौइन्द्रिय जातिके बन्धकोंका उल्लेख नहीं है । देवोंका एकेन्द्रियमें उत्पाद होनेसे एकेन्द्रिय जातिका वर्णन किया गया है ।

औदारिक अंगोपांगके बन्धक जीव सर्व स्तोक हैं । अबन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । संहनन, आतप, उद्योत, २ विहायोगति, २ स्वरका ओघवत् जानना चाहिए ।

आनतसे लेकर नव ग्रैवेयक पर्यन्त विशेषता निकाल लेनी चाहिए ।

विशेष—आनतादि स्वर्गोंमें तिर्यचगति, तिर्यचगत्यानुपूर्वी, तिर्यचायु तथा उद्योतका बन्ध नहीं होता है । सानत्कुमारादिमें एकेन्द्रिय, स्थावर तथा आतपका बन्ध नहीं होता है ।

स्त्यानगृद्धित्रिकके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । अबन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । शेष प्रकृतियोंके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं ।

मिथ्यात्वके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । अनन्तानुबन्धी ४ के बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । अबन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । मिथ्यात्वके अबन्धक जीव विशेषाधिक हैं । शेष प्रकृतियोंके बन्धक विशेषाधिक हैं । स्त्रीवेदके बन्धक सबसे स्तोक हैं । नपुंसक वेदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । हास्य, रतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । अरति शोकके बन्धक

१. "कप्पित्थंमु ण तित्थं सदरमट्ठस्मारगोत्ति तिरियदुग्गं ।

तिरियाऊ उज्जोवो अत्थि तदो णत्थि सदरचऊ ॥" -गो० क०, गा० ११२ ।

२. "णिरयेव होदि देवे आईसाणोत्ति सत्त वाम छिदी ।

सोलस चैव अबंधा भवणतिए णत्थि तित्थयरं ॥" -गो० क०, गा० ११३ ।

बंधगा जीवा विसेसा० । भयदु० बंध० जीवा विसेसा० । मणुसायुबंध० जीवा थोवा ।
 अबंधगा जीवा असंखेज्ज० । णग्गोद० बंध० जीवा थोवा । सादिय० बंध० जीवा
 संखेज्जगु० । खुज्ज० बंध० जीवा संखेज्ज० । वामण० बंध० जीवा संखेज्जगु० । हुंडसं०
 बंध० जीवा संखेज्ज० । समचदु० बंध० जीवा संखेज्ज० । संघट्ठणं संठाणभंगो ।
 अप्पसत्थवि० दूभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणं बंधगा जीवा थोवा । तप्पडिपक्खाणं
 बंधगा जीवा संखेज्ज० । सेसाणं युगलाणं णिरयभंगो । तित्थयरं बंधगा जीवा थोवा ।
 अबंधगा जीवा संखेज्ज० । अणुदिस याव सव्वट्ठ त्ति सव्वत्थोवा हस्सरदि बंध० जीवा ।
 अरदिसोग-बंध० जीवा संखेज्ज० । पुरिसवे० भयदु० बंध० जीवा विसेसा० । सेसाणं
 युगलाणं णिरयभंगो । आयु० तित्थय० आणदभंगो । णवरि सवट्ठे आयु० बंधगा
 जीवा थोवा । अबंध० जीवा संखेज्ज० ।

३०६. पंचिदियेसु-पंचणा० सव्वत्थोवा अबंध० जीवा । बंधगा जीवा असं-

जीव संख्यातगुणे हैं । पुरुषवेदके बन्धक विशेष अधिक हैं । भय, जुगुप्साके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं ।

मनुष्यायुके बन्धक जीव स्तोक हैं । अबन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं ।

विशेष—आनतादि स्वर्गोंमें एक मनुष्यायुका ही बन्ध होता है ।

न्यप्रोधपरिमण्डल संस्थानके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । स्वाति संस्थानके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । कुड्जकके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । वामनके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । हुण्डक संस्थानके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । समचतुरस्र संस्थानके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं ।

संहननोंमें संस्थानके समान भंग है । अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भंग, दुःस्वर, अनादेय तथा नीचगोत्रके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं ।

इनकी प्रतिपक्षी प्रकृतियाँ अर्थात् सुभग, सुस्वर, आदेय तथा उच्चगोत्रके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । शेष युगलोंके विषयमें नरक गतिके समान भंग हैं । तीर्थंकर प्रकृतिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । अबन्धक जीव संख्यातगुणे हैं ।

अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धिमें - हास्य-रतिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । अरति-शोकके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । पुरुषवेद तथा भय-जुगुप्साके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । शेष युगलोंमें नरक गतिके समान भंग हैं ।

आयु तथा तीर्थंकरके बन्धकोंमें आनतके समान भंग हैं । विशेष, सर्वार्थसिद्धिमें आयुके बन्धक सर्व स्तोक हैं । अबन्धक जीव संख्यातगुणे हैं ।

विशेषार्थ—सर्वार्थसिद्धिके देवोंकी संख्या संख्यात होनेसे यहाँ 'असंख्यात'का उल्लेख नहीं किया गया है । जीवद्वानमें उनका प्रमाण मनुष्यनीके प्रमाणसे तिगुना कहा है, 'मणु-सिणिरासीदो तिउणमेत्ता ह्वंति' (ताम्रपत्र प्रति पृ० २८६) ।

३०६. पंचेन्द्रियोंमें - ५ ज्ञानावरणके अबन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । बन्धक जीव

१. "सव्वट्ठसिद्धि विमाणवासिपदेवा दव्वपमाणेण केवडिया ? संखेज्जा ।" - जीव० ताम्रपत्र प्रति पृ० २८६ ।

खेज्ज० । चदुदंस० अबंध० जीवा थोवा । णिहापचला-अबंध० जीवा विसेसा० । थोणगिद्धि०३ अबंध० जीवा असंखेज्ज० । बंध० जीवा असंखेज्ज० । णिहा-पचलाणं बंध० जीवा विसेसा० । चदुण्णं दंसणावरणं बंध० जीवा विसेसा० । सच्चत्थोवा लोभ-संजल० अबंधगा जीवा । माया-संज० अबंध० जीवा विसेसा० । माणसंज० अबंध० जीवा विसेसा० । क्रोधसंज० अबंध० जीवा विसेसा० । पच्चक्खाणावरणी०४ अबंधगा जीवा असंखेज्जगुणा (?) । [अपच्चक्खाणा०४ अबंधगा जीवा असंखेज्ज० ।] अणंताणुबंध०४ अबंध० जीवा असंखेज्ज० । मिच्छत्त-अबंध० जीवा विसेसा० । बंधगा जीवा असंखेज्ज० । एत्तो पडिलोमं विसेसाहियं । सादा-साद-पंचजादि-संठाण-संघड० वण्ण०४ अगुरु०४ आदाउज्जो० दोविहाय० तसादि-दसयुगल० तित्थय० दोगोद० पंचंतराद्दगाणं मणुसोघं । मणुसायुबंधगा जीवा थोवा । णिरयायु-बंधगा जीवा असं-

असंख्यातगुणे हैं । ४ दर्शनावरणके अबन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । निद्रा-प्रचलाके अबन्धक जीव विशेषाधिक हैं । स्त्यानगुद्धिन्निकके अबन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । निद्रा, प्रचलाके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । ४ दर्शनावरणके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं ।

लोभ-संज्वलनके अबन्धक जीव सर्व स्तोक हैं । माया-संज्वलनके अबन्धक जीव विशेषाधिक हैं । मान-संज्वलनके अबन्धक जीव विशेषाधिक हैं । क्रोध-संज्वलनके अबन्धक जीव विशेष अधिक हैं । प्रत्याख्यानावरण ४ के अबन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं ।

विशेषार्थ—प्रत्याख्यानावरण ४ के अबन्धक सकल संयमी हैं । उनकी संख्या तीन घाटि नव कोटि प्रमाण है, अतः 'असंखेज्जगुणा'के स्थानमें 'संखेज्जगुणा' पाठ सम्यक् प्रतीत होता है ।

अप्रत्याख्यानावरण ४ के अबन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं ।

विशेषार्थ—अप्रत्याख्यानावरण ४ के अबन्धक देशसंयमी तेरह करोड़ प्रमाण कहे गये हैं । उनसे अधिक तिर्यंच पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं । (गौ० जी०, गा० ६२४)

अनन्तानुबन्धी ४ के अबन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । मिथ्यात्वके अबन्धक जीव विशेषाधिक हैं । बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं ।

इससे विपरीत क्रम विशेष अधिकका शेष बन्धकोंमें लगाना चाहिए अर्थात् अनन्तानुबन्धी ४ के बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । इसी प्रकार अप्रत्याख्यानावरण ४, प्रत्याख्यानावरण ४ के बन्धक जीवोंमें विशेषाधिकका क्रम जानना चाहिए तथा क्रोध, मान, माया तथा लोभ संज्वलनमें विशेषाधिककी योजना प्रत्येकमें करनी चाहिए ।

साता, असाता, पंचजाति, ६ संस्थान, ६ संहनन, वण ४, अगुरुलघु ४, आतप, उद्योत, २ विहायोगति, त्रसादि दस युगल, तीर्थकर, दो गोत्र, ५ अन्तरायोंके बन्धकोंमें मनुष्योंके ओधवन् जानना चाहिए ।

१. सासादनसम्प्रदृष्टयः सम्यग्मिथ्यादृष्टयोऽसंयतसम्यग्दृष्टयः संयतासंयताश्च पत्योपमासंख्येयभाग-प्रमिताः । -स० सि०, पृ० १३ ।

मिच्छा सावय-सासण-मिस्साऽविरदा दुवारणता य ।

पल्लासंखेज्जदिमसंखगुणं संखसंखगुणं ॥-गौ० जी०, गा० ६२४ ।

खेज० । देवायु-बंधगा जीवा असंखेज० । तिरिक्खायुबंधगा जीवा असंखेज० । चदुण्णं आयुगाणं बंधगा जीवा विसेसा० । अबंधगा जीवा संखेजगुणा । सच्चत्थोवा चदुण्णं गदीणं अबंधगा जीवा । देवगदि बंध० जीवा असंखेज० । णिरयगदि-बंधगा जीवा संखेजगु० । मणुसगदिबंधगा जीवा असंखेज० । तिरिक्खगदिबंधगा जीवा संखेज० । सच्चत्थोवा आहारस० बंध० जीवा । पंचण्णं सरीरणं अबंधगा जीवा संखेजगुणा । वेउच्चि० बंध० जीवा असंखेजगुणा । ओरालि० बंध० जीवा असंखेजगुणा । तेजा-कम्मइ-बंधगा जीवा विसेसाहिया । आहार० अंगो० बंधगा जीवा थोवा । वेउच्चि० अंगो० बंधगा जीवा असंखेज० । ओरालि० अंगो० बंधगा जीवा असंखेज० । तिण्णं अंगोवंगणं बंधगा जीवा विसेसाहिया । अबंधगा जीवा संखेजगुणा । गदिभंगो आपुणुव्वीए ।

३१०. पंचिदिय पज्जत्तगेसु—एसेव भंगो । णवरि आयु० पंचिदिय-तिरिक्ख-पज्जत्तभंगो । चदुगदिअबंधगा जीवा थोवा । देवगदिबंधगा जीवा असंखेजगुणा । मणुसगदिबंधगा संखेजगुणा । तिरिक्खगदिबंधगा जीवा संखेजगुणा (?) णिरयगदि-बंधगा जीवा संखेजगुणा । चदुण्णं गदीणं बंधगा जीवा विसेसा० । पंचजादीणं अबंधगा जीवा थोवा । चदुरिंदियबंधगा जीवा असंखेजगुणा । तीइंदि० बंध० जीवा संखेज० ।

मनुष्यायुके बन्धक जीव स्तोक हैं । नरकायुके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । देवायुके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । तिर्यचायुके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । चारों आयुओंके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । अबन्धक जीव संख्यातगुणे हैं ।

४ गतिके अबन्धक जीव सर्व स्तोक हैं । देवगतिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । नरकगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । मनुष्यगतिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । तिर्यचगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । आहारक शरीरके बन्धक जीव सर्व स्तोक हैं । पाँचों शरीरोंके अबन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । वैक्रियिक शरीरके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । औदारिक शरीरके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । तैजस, कामण के बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । आहारक अंगोपांगके बन्धक जीव सर्व स्तोक हैं । वैक्रियिक अंगोपांगके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । औदारिक शरीर अंगोपांगके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । तीनों अंगोपांगके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । अबन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । आनुपूर्वमें गतिके समान भंग जानना चाहिए ।

३१०. पंचेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें—एसे ही (पंचेन्द्रिय समान) भंग जानना चाहिए । विशेष यह है कि आयुके बन्धक जीवोंमें पंचेन्द्रिय तिर्यच पर्याप्तकके समान भंग करना चाहिए । चारों गतिके अबन्धक जीव स्तोक हैं । देवगतिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । मनुष्यगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । तिर्यचगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । नरकगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । चारों गतिके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । पाँचों जातिके अबन्धक जीव स्तोक हैं । चौइन्द्रिय जातिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । त्रीन्द्रिय जातिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । दो इन्द्रिय जातिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं ।

बीइंदि० बंधगा जीवा असंखेज्ज० । एइंदियबंधगा जीवा संखेज्ज० । पंचिंदिय-बंधगा जीवा संखेज्जगुणा (?) आहारस० बंध० जीवा थोवा । पंचणं सरीराणं अबंधगा जीवा संखेज्जगुणा । ओरालि० बंध० जीवा असंखेज्ज० । वेउच्चि० बंधगा जीवा संखेज्ज० । तेजाक० बंध० जीवा विसेसाहिया । आहारस० अंगो० बंधगा जीवा थोवा । ओरालि० अंगो० बंधगा जीवा असंखेज्ज० । तिण्णि अंगो० अबंधगा जीवा संखेज्ज० । वेउच्चि० अंगो० बंधगा जीवा संखेज्ज० । तिण्णं अंगोवंगणं बंधगा जीवा विसेसाहिया । [तस] थावरादि०४ अबंधगा जीवा थोवा । [थावरादि] बंधगा जीवा असंखेज्जगुणा । तसादि४ बंधगा जीवा संखेज्जगुणा । थिरादि६ युगल-दोगोदानं अबंधगा थोवा । थिरादि४कक-उच्चगोदानं च बंधगा असंखेज्जगुणा । तपडिपकखणं बंधगा जीवा संखेज्जगुणा । णवरि दोविहा० दोसर० पंचिंदिय-तिरिक्ख-पज्जत्तभंगो । एवं विसेसो तसेसु पंचिंदियोधं । णवरि पज्जत्तगेषु तिरिक्खायुबंधगा जीवा संखेज्जगुणा । णामस्स सव्व-त्थोवा चदुगदि-अबंधगा जीवा । देवगदिबंधगा जीवा असंखेज्जगुणा । मगुसगदि-बंध० जीवा संखेज्ज० । णिरयगदि-बंधगा जीवा संखेज्जगु० । तिरिक्खगदि-बंधगा जीवा संखेज्ज० । पंचणं जादीणं अबंधगा जीवा थोवा । चदुरिंदियबंधगा असंखेज्जगुणा । तोइंदियबंधगा जीवा संखेज्ज० । बीइंदिय-बंधगा जीवा संखेज्ज० । पंचिंदिय-

एकेन्द्रियके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । पंचेन्द्रिय जातिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं (?) ।

आहारक शरीरके बन्धक जीव स्तोक हैं । पाँचों शरीरोंके अबन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । औदारिक शरीरके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । वैक्रियिक शरीरके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । तैजस, कामण के बन्धक जीव विशेषाधिक हैं ।

आहारक शरीरांगोपांगके बन्धक जीव स्तोक हैं । औदारिक अंगोपांगके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । तीनों अंगोपांगके अबन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । वैक्रियिक अंगोपांगके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । तीनों अंगोपांगके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । [त्रस] स्थावरादि चतुष्कके अबन्धक जीव स्तोक हैं । [स्थावरादिके] बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । त्रसादिचतुष्कके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । स्थिरादि छह युगल, २ गोत्रोंके अबन्धक जीव स्तोक हैं । स्थिरादिषट्क तथा उच्च गोत्रके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । इनकी प्रतिपक्षो प्रकृतियोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं अर्थात् अस्थिरादि षट्क तथा नीच गोत्रके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । विशेष यह है कि २ विहायोगति, २ स्वरोके विषयमें पंचेन्द्रिय तिर्यच पर्याप्तके समान भंग जानना चाहिए ।

त्रस जीवोंमें—पंचेन्द्रियके ओघवत् विशेषता जाननी चाहिए । इतना विशेष है कि यहाँ पर्याप्तकोंमें तिर्यचायुके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं ।

नामकर्मसम्बन्धी चार गतियोंके अबन्धक जीव सर्व स्तोक हैं । देवगतिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । मनुष्यगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । नरकगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । तिर्यचगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । पाँचों जातियोंके अबन्धक जीव स्तोक हैं । चौइन्द्रिय जातिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । त्रीन्द्रिय जातिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । दोइन्द्रिय जातिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । पंचेन्द्रिय जातिके बन्धक

बंधगा जीवा संखेज्ज० । एइंदिय-बंध० जीवा संखेज्जगुणा । तस-थावरादि चदुयुगलं
 [अ]बंधगा जीवा थोवा । तसादि०४ बंधगा जीवा असंखेज्ज० । थावरादि४
 बंधगा जीवा संखेज्जगु० । एदेण बीजेण णेइव्वं । पंचमण० तिण्णिवचि०
 छण्णं कम्मणं पंचिदियभंगो । णवरि वेदणी० अबंधा णत्थि । मणुसायु-
 बंधगा जीवा थोवा । णिरयापुबंधगा जीवा असंखेज्जगुणा । देवपुबंधगा जीवा
 असंखेज्ज० । तिरिक्खापुबंधगा जीवा असंखेज्ज० । चदुआयु-बंधगा जीवा
 विसेसा० । अबंधगा जीवा संखेज्जगुणा । चदुण्णं गदीणं अबंधगा जीवा थोवा ।
 णिरयगदिबंधगा जीवा असंखेज्ज० । देवगदिबंधगा जीवा असंखेज्ज० । मणुसगदिबंधगा
 जीवा संखेज्ज० । तिरिक्खगदिबंधगा जीवा संखेज्जगु० । चदुण्णं गदीणं बंधगा जीवा
 विसेसा० । पंचण्णं जादीणं अबंधगा जीवा थोवा । चदुरिंदिय-बंध० जीवा असंखेज्ज० ।
 तीइंदिय-बंधगा जीवा संखेज्ज० । बीइंदि० बंधगा जीवा संखेज्ज० । पंचिदिय० बंधगा
 जीवा असंखेज्ज० । एइंदिय० बंधगा जीवा संखेज्ज० । पंचण्णं जादीणं बंधगा जीवा
 विसेसा० । पंचण्णं सरीराणं अबंधगा जीवा थोवा । आहारस० बंधगा जीवा संखेज्ज० ।
 वेउन्धिय० बंधगा जीवा असंखेज्ज० । ओरालि० बंधगा जीवा संखेज्जगुणा । तेजाक०

जीव संख्यातगुणे हैं । एकेन्द्रिय जातिके बन्धक जीव संख्यातगुणै हैं ।

त्रस-स्थावरादि चार युगलके [अ]बन्धक जीव स्तोक हैं । त्रसादि चारके बन्धक जीव
 असंख्यातगुणे हैं । स्थावरादि ४ के बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इस बीजसे अर्थात् इस
 ढंगसे अन्य प्रकृतियोंमें जानना चाहिए ।

विशेष—त्रस-स्थावरादि चार युगलके समान शेष बचे स्थिर, शुभ, सुभगादि युगलौ-
 का वर्णन जानना चाहिए ।

५ मनोयोगी, ३ वचनयोगियोंमें ६ कर्मोंके बन्धक जीवोंमें पंचेन्द्रियके समान भंग
 निकालना चाहिए । विशेष यह है कि वेदनीयके अबन्धक नहीं हैं ।

मनुष्यायुके बन्धक जीव स्तोक हैं । नरकायुके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । देवायुके
 बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । तिर्यचायुके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । चारों आयुके
 बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । अबन्धक जीव संख्यातगुणे हैं ।

चारों गतिके अबन्धक जीव स्तोक हैं । नरक गतिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं ।
 देवगतिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । मनुष्य गतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । तिर्यच-
 गतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । चारों गतिके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं ।

पाँचों जातिके अबन्धक जीव स्तोक हैं । चौइन्द्रिय जातिके बन्धक जीव असंख्यात-
 गुणे हैं । त्रीन्द्रिय जातिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । दोइन्द्रिय जातिके बन्धक जीव
 संख्यातगुणे हैं । पंचेन्द्रिय जातिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । एकेन्द्रिय जातिके बन्धक
 जीव संख्यातगुणे हैं । पाँचों जातियोंके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं ।

पाँचों शरीरके अबन्धक जीव स्तोक हैं । आहारक शरीरके बन्धक जीव संख्यातगुणे
 हैं । वैक्रियक शरीरके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । औदारिक शरीरके बन्धक जीव

बंधगा जीवा विसेसाहिया । संटाणं अंगोवं० संघड० वण्ण०४ आदा-उज्जो० दोवि-
हाय० तसथावरादिल्लुगुगल-णिमिण-तिन्थयर० पंविदियभंगो । गदिभंगो आपुपुच्चि० ।
अगु० उप० अवं० जीवा थोवा । परघादुस्सा० अबंधगा जीवा असंखेज्ज० । बंधगा
जीवा असंखेज्ज० । अगु० उप० बंधगा जीवा विसेसा० । सव्वत्थोवा बादरादि-तिण्णि-
युमल्लाणं अबंधगा जीवा । सुहुमादितिण्णिवंधगा जीवा असंखेज्ज० । बादरादि-तिण्णि
बंधगा जीवा असंखेज्जगु० । दोण्णं बंधगा जीवा विसेसा० ।

३११. वविजोगि-असच्चमोसवच्चि० तसपज्जत्तभंगो । काजोगोसु ओरालियका०-
ओषभंगो, किंचि विसेसा० (सो०) । ओरालिय-मिस्से-सव्वत्थोवा छदंसणा० अबंधगा
जीवा । थीणगिद्धिरे अबंधगा० संखेज्ज० । अबंधगा (बंधगा) जीवा अणंतगु० ।
छदंसणा० बंधगा जीवा विसेसा० । सव्वत्थोवा बारसक० अबंधगा जीवा । अणं-
ताणु०४ अबंधगा० संखेज्ज० । मिच्छ० अबंधगा जीवा असंखेज्ज० । बंधगा जीवा
अणंतगुगा । अणंताणुबंधि०४ बंधगा० विसेसा० । बारसक० बंधगा० जीवा विसेसा० ।

संख्यातगुणे हैं । तैजस, कर्मण के बन्धक जीव विशेषाधिक हैं ।

संस्थान, अंगोपांग, संहनन, वर्ण ४, आतप, उद्योत, २ विहायोगति, त्रस-स्थावर तथा
स्थिरादि ६ युगल, निर्माण और तीर्थकरके बन्धकोंमें पंचेन्द्रियके समान भंग जानना चाहिए ।
आनुपूर्वामें गतिके समान जानना चाहिए ।

अगुरुलघु, उपघातके अबन्धक जीव स्तोक हैं । परघात, उच्छ्वासके अबन्धक जीव
असंख्यातगुणे हैं । बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । अगुरुलघु उपघातके बन्धक जीव
विशेषाधिक हैं ।

बादरादि तीन युगलोंके अबन्धक जीव सर्व स्तोक हैं । सूक्ष्मादि तीनके बन्धक जीव
असंख्यातगुणे हैं । बादरादि तीनके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । दोनोंके बन्धक जीव
विशेषाधिक हैं ।

३११. वचनयोगी, असत्यमृषा वचनयोगी अर्थात् अनुभय वचनयोगीमें त्रस पर्याप्तक-
के समान भंग हैं ।

काययोगियों तथा औदारिक काययोगियोंमें - ओषके समान भंग है । किन्तु उसमें
जो विशेषता है उसे जानना चाहिए ।

औदारिक मिश्रमें - ६ दर्शनावरणके अबन्धक जीव सर्व स्तोक हैं । स्त्यानगृद्धिन्निकके
अबन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । स्त्यानगृद्धिन्निकके अबन्धक (बन्धक) जीव अनन्तगुणे हैं ।
६ दर्शनावरणके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं ।

विशेष—द्वितीय बार आगत स्त्यानगृद्धिन्निकके अबन्धकके स्थानमें बन्धकका पाठ
उपयुक्त प्रतीत होता है ।

अप्रत्याख्यानावरणादि बारह कषायके अबन्धक जीव सर्व स्तोक हैं । अनन्तानुबन्धी
४ के अबन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । मिथ्यात्वके अबन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । बन्धक
जीव अनन्तगुणे हैं । अनन्तानुबन्धी ४ के बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । बारह कषायके बन्धक
जीव विशेषाधिक हैं ।

तिष्णं गदीणं [अ]बन्धगा जीवा थोवा । देवगदिबन्धगा जीवा संखेज्ज० । मणुसगदि-
बन्धगा जीवा अणंतगुणा । तिरिक्खगदिबन्धगा जीवा संखेज्जगुणा । तिष्णि गदीणं बन्धगा
जीवा विसेसा० । सव्वत्थोवा चटुण्णं सरीराणं अबन्धगा जीवा । वेउव्वियसरीरं बन्धगा
जीवा संखेज्ज० । ओरालि० बन्धगा० अणंतगु० । तेजाक० बन्धगा० विसेसा० ।
वेउव्विय अंगो० बन्धगा जीवा थोवा । ओरालि० अंगो० बन्धगा जीवा अणंतगु० ।
दोण्णं बन्धगा जीवा विसे० । अबन्धगा जीवा संखेज्ज० । गदिभंगो आणुपुव्वि ।
सेसं ओधं ।

३१२. वेउव्वियका० वेउव्वियमि० देवोघं ।

३१३. आहार० आहारमि० सव्वट्टभंगो ।

३१४. कम्मइ० ओरालिय-मिस्स-भंगो । णवरि सव्वत्थोवा छदंसणा० अब-
धगा जीवा । थीणमिद्धि३ अबन्धगा जीवा असंखे० । बन्धगा जीवा अणंतगुणा ।
छदंसणा० बन्धगा जीवा विसेसा० । सव्वत्थोवा वारसक० अबन्धगा जीवा । अणंताणु-
बन्धि०४ अबन्धगा जीवा असंखेज्जगुणा । मिच्छ० अबन्धगा जीवा विसेसाहिया । बन्धगा
जीवा अणंतगु० । अणंताणुबं०४ बन्धगा जीवा विसेसा० । वारसक० बन्ध० जीवा

तीन गतिके[अ]बन्धक जीव स्तोक हैं । देवगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं ।
मनुष्यगतिके बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं । तिर्यच गतिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । तीनों
गतिके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं ।

विशेष—यहाँ नरकगतिका बन्ध नहीं होता है । इस कारण तीन गतियोंका वर्णन
किया गया है ।

चारों शरीरके अबन्धक जीव सर्वस्तोक हैं । वैक्रियिक शरीरके बन्धक जीव संख्यात-
गुणे हैं । औदारिक शरीरके बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं । तैजस कर्मण के बन्धक जीव
विशेषाधिक हैं ।

वैक्रियिक अंगोपांगके बन्धक जीव स्तोक हैं । औदारिक अंगोपांगके बन्धक जीव
अनन्तगुणे हैं । दोनोंके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । अबन्धक जीव संख्यातगुणे हैं ।

आनुपूर्वीमें गतिके समान भंग कहना चाहिए । शेष प्रकृतियोंमें ओघवत् जानना
चाहिए ।

३१२. वैक्रियिक काययोगी और वैक्रियिक मिश्रयोगीमें देवोंके ओघवत् जानना
चाहिए ।

३१३. आहारक काययोगी और आहारक मिश्रयोगीमें सर्वार्थसिद्धिके समान भंग हैं ।

३१४. कर्मण काययोगियोंमें—औदारिक मिश्र काययोगीके समान भंग कहना
चाहिए । विशेष यह है कि ६ दर्शनावरणके अबन्धक जीव सर्वस्तोक हैं । स्त्यानगृद्धि ३ के
अबन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं । ६ दर्शनावरणके बन्धक जीव
विशेषाधिक हैं । १२ कषायके अबन्धक जीव सर्वस्तोक हैं । अनन्तानुबन्धी ४ के अबन्धक
जीव असंख्यातगुणे हैं । मिथ्यात्वके अबन्धक जीव विशेषाधिक हैं । बन्धक जीव अनन्तगुणे
हैं । अनन्तानुबन्धी ४ के बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । १२ कषायके बन्धक जीव विशेषाधिक

विसेसा० । सव्वत्थोवा तिण्णं गदीणं अबंधगा जीवा । देवगदि-बंधगा जीवा संखेज्ज० । मणुसगदिबंधगा जीवा अणंतगु० । तिरिक्खगदिबंधगा जीवा संखेज्जगुणा । एदेण कमेण णेद्व्वं ।

३१५. इत्थिवेद०—सव्वत्थोवा णिहापचलाणं अबंधगा जीवा । थीणगिद्धिरे अबंधगा जीवा असंखेज्ज० । बंधगा जीवा असंखेज्ज० । णिहापचलाणं बंधगा जीवा विसेसा० । चदुदंसण० बंधगा जीवा विसेसा० । वेदणीयं मणभंगो । सव्वत्थोवा पच्च-क्खाणा० चदु० अबंधगा जीवा । अपच्चक्खाणा०४ अबंधगा जीवा असंखेज्ज० । अणंताणुबं०४ अबंधगा जीवा असंखेज्ज० । मिच्छत्त-अबंध० जीवा विसेसा० । बंधगा जीवा असंखेज्ज० । अणंताणु०४ बंध० जीवा विसेसा० । अपच्चक्खाणा०४ बंधगा जीवा विसेसा० । पच्चक्खाणा०४ बंधगा जीवा विसेसा० । चदुसंजलण-बंधगा जीवा विसेसा० । सव्वत्थोवा पुरिसवेद-बंधगा जीवा । इत्थिवेद-बंधगा जीवा संखेज्जगु० । हस्सरदि-बंधगा जीवा संखेज्जगु० । अरदिसोग-बंधगा जीवा संखेज्ज० । णवुंस० बंधगा जीवा विसेसा० । भय-दुगुं० बंधगा जीवा विसेसा० । णत्रणोको बंधगा जीवा विसेसा० । आयुचदुक्क-पंचिदि०-तिरिक्ख-पज्जत्तभंगो । सव्वत्थोवा चदुण्णं गदीणं

हैं । तीनों गतिके अबन्धक जीव सर्व स्तोक हैं । देवगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । मनुष्यगतिके बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं । तिर्यचगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इस क्रमसे अन्यत्र जानना चाहिए ।

विशेष—इस योगमें नरकगतिका बन्ध नहीं होता है ।

३१५. स्त्रीवेदमें - निद्रा, प्रचलाके अबन्धक जीव सर्वस्तोक हैं । स्त्यानगृद्धि त्रिकके अबन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । निद्रा, प्रचलाके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । चारां दर्शनावरणके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं ।

विशेष—यहाँ दर्शनावरण ४ के अबन्धक जीव नहीं पाये जाते । वे उपशान्तरूपाय गुगस्थानमें पाये जाते हैं ।

वेदनीयके बन्धक जीवोंमें मनोयोगीके समान भंग हैं ।

प्रत्याख्यानावरण ४के अबन्धक जीव सर्वस्तोक हैं । अप्रत्याख्यानावरण ४के अबन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । अनन्तानुबन्धी ४ के अबन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । मिथ्यात्वके अबन्धक जीव विशेषाधिक हैं । बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । अनन्तानुबन्धी ४ के बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । अप्रत्याख्यानावरण ४ के बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । प्रत्याख्यानावरण ४ के बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । ४ संज्वलनके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं ।

पुरुषवेदके बन्धक जीव सर्वस्तोक हैं । स्त्रीवेदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । हास्य, रतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । अरति, शोकके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । नपुंसक वेदके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । भय, जुगुप्साके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । नव नोकषायके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । ४ आयुके बन्धकोंमें पंचेन्द्रिय तिर्यचपर्याप्तकका भंग जानना चाहिए ।

अबंधगा जीवा । देवगदिबंधगा जीवा असंखेज्ज० । गिरयगदिबंधगा जीवा संखेज्ज० । मणुसगदिबंधगा संखेज्ज० । तिरिक्खगदिबंधगा जीवा संखेज्जगुणा । चदुण्णं गदीणं बंधगा जीवा विसे० । सव्वत्थोवा पंचजादि-अबंधगा जीवा । चदुरिंदिय-बंधगा जीवा असंखेज्ज० । तीईदि० बंध० जीवा संखेज्ज० । बीईंदिय-बंधगा जीवा संखेज्ज० । एईदि० बंधगा जीवा संखेज्ज० । पंचजादीणं बंधगा जीवा विसेसाहिया । पंचसरीर० छसंठाणं तिण्णि-अंगो० छस्संध० दोविहा० दोसरं मणजोगिभंगो । सव्वत्थोवा अगु० उप० अबंधगा जीवा । परघादुस्सा० अबंध० जीवा असंखेज्ज० । बंधगा जीवा संखेज्ज० । अगुरु० उप० बंधगा जीवा विसेसा० । तसथावरादि पंचयुगल-तिथ्यर-दोगोदाणं मणजोगिभंगो । णवरि जस-अज्जस० दोगोदाणं साधारणेण अबंधगा णत्थि । सव्वत्थोवा बादरादि-तिण्णि-युगल-अबंधगा जीवा । सुहुमादितिण्णि युगल (?) बंधगा जीवा असंखेज्ज० । बादरादि-तिण्णि युगल (?) बंधगा जीवा संखेज्जगुणा । एवं पुरि-सवे० । णवुंसगवे० ओघभंगो । णवरि विसेसो वि इत्थिवेदेण साधिज्जदि । अवगद-

चारों गतिके अबन्धक जीव सर्वस्तोक हैं । देवगतिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । नरक गतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । मनुष्यगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । तिर्यक् गतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । चारों गतिके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं ।

पंच जातियोंके अबन्धक जीव सर्वस्तोक हैं । चौइन्द्रिय जातिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । त्रीन्द्रिय जातिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । दो इन्द्रिय जातिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । एकेन्द्रिय जातिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । पाँचों जातियोंके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं ।

विशेष—यहाँ पंचेन्द्रिय जातिके बन्धकोंका प्रमाण वर्णन करनेसे छूट गया प्रतीत होता है ।

५ शरीर, ६ संस्थान, ३ अंगोपांग, ६ संहनन, २ विहायोगति, २ स्वरके बन्धक जीवोंमें मनोयोगियोंके समान भंग जानना चाहिए ।

अगुरुलघु, उपघातके अबन्धक जीव सर्वस्तोक हैं । परघात, उच्छ्वासके अबन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । अगुरुलघु, उपघातके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं ।

त्रस, स्थावर, स्थिरादि ५ युगल, तीर्थकर, २ गोत्रके विषयमें मनोयोगियोंमें समान भंग हैं । विशेष यह है कि यशःकीर्त्ति, अयशःकीर्त्ति तथा दोनों गोत्रोंके सामान्यसे अबन्धक नहीं हैं । बादरादि तीन युगलके अबन्धक जीव सर्व स्तोक हैं । सूक्ष्मादि तीन युगल (?) के बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । बादरादि तीन युगल (?) के बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं ।

विशेष—यहाँ सूक्ष्मादि तीन तथा बादरादि तीनके बन्धकोंके साथमें युगल शब्द अधिक प्रतीत होता है । कारण सूक्ष्मादि तीन युगलके ही अन्तर्गत बादरादि तीन प्रकृतियाँ हैं, एवं बादरादि तीन युगलमें सूक्ष्मादि तीन प्रकृतियाँ हैं ।

पुरुषवेदमें—छाँवेदके समान भंग है ।

नपुंसकवेदमें—ओघवत् भंग है । विशेष, स्त्रीवेदसे जो विशेषता हो, उसे निकाल लेना चाहिए ।

वेदेसु-सव्वत्थोवा पंचणा० बंधगा० । अबंधगा जीवा अणंतगुणा । एवं चदुदंसणा०, साद० जस० उच्चगो० पंचंत० । सव्वत्थोवा कोध-संजल० बंधगा । माण-संजल० बंधगा जीवा विसेसा० । माया-संज० बंधगा जीवा विसेसा० । लोभसंज० बंध० जीवा विसेसा० । तस्सेव अबंधगा जीवा अणंतगुणा । मायासंज० अबंधगा जीवा विसे० । माण-संज० अबं० जीवा विसे० । कोध-संज० अबंध० जीवा विसेसा० ।

३१६. कोधे-णवुंसकभंगो । णवरि णव णोकसार्य ओघं । माणे-सव्वत्थोवा कोध-संज० अबं० जीवा । सेसं ओघं । णवरि कोध बंधगा जीवा विसे० । माण-माय-लोभ-संजलणबंधगा जीवा विसेसा० । मायाए-सव्वत्थोवा माणसंज० अबं० जीवा । सेसं माणकसाइ-भंगो । णवरि मायलोभसंज० बंधगा जीवा विसे० । लोभे-मोह० ओघं । सेसं कोधभंगो । अरुसाइ-सव्वत्थोवा साद-बंध० । अबंधगा जीवा अणंतगु० । एवं केवलणा० केवलदंसणा० ।

३१७. मदि० सुद०-सव्वत्थोवा मिच्छत्त-अबंधगा जीवा । बंधगा जीवा

अपगतवेदियोंमें—५ ज्ञानावरणके बन्धक जाव सर्वस्तोक हैं । अबन्धक जीव अनन्त-गुणे हैं । इसी प्रकार ४ दर्शनावरण, साता वेदनीय, यशःकीर्त्ति, उच्चगोत्र और ५ अन्तरायोंके बन्धकों, अबन्धकोंमें भा जानना चाहिए ।

क्रोध-संज्वलनके बन्धक जीव सर्वस्तोक हैं । मान संज्वलनके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । माया-संज्वलनके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । लोभ-संज्वलनके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । लोभ संज्वलनके अबन्धक जीव अनन्तगुणे हैं । माया-संज्वलनके अबन्धक जीव विशेषाधिक हैं । मान-संज्वलनके अबन्धक जीव विशेषाधिक हैं । क्रोध-संज्वलनके अबन्धक जीव विशेषाधिक हैं ।

३१६. क्रोधमें—नुसुकवेदके समान जानना चाहिए । विशेष यह है कि ९ नोकषायोंके बन्धकोंमें ओघवत् जानना चाहिए ।

मानमें—क्रोध-संज्वलनके अबन्धक जीव सर्वस्तोक हैं । शेष प्रकृतियोंमें ओघवत् जानना चाहिए । विशेष, क्रोधके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । मान, माया, लोभ संज्वलनके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं ।

मायामें—मान-संज्वलनके अबन्धक जीव सर्वस्तोक हैं । शेष प्रकृतियोंमें मान-कषायियोंके समान भंग जानना । विशेष यह है कि माया, लोभ संज्वलनके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं ।

लोभमें—मोहनीयके प्रकृतियोंमें ओघके समान भंग है । शेष प्रकृतियोंमें क्रोधके समान भंग हैं ।

अकषाय जीवोंमें—साता वेदनीयके बन्धक जीव सर्वस्तोक हैं । अबन्धक जीव अनन्त-गुणे हैं । इसी प्रकार केवलज्ञानी, केवलदर्शनवाले जीवोंमें जानना चाहिए ।

३१७. मत्थज्ञान, श्रुताज्ञानमें—मिथ्यात्वके अबन्धक जीव सर्वस्तोक हैं । बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं ।

विशेषार्थ—मत्थज्ञान तथा श्रुताज्ञानमें मिथ्यात्व तथा सासादन गुणस्थान पाये जाते

अणंतगुणा । सोलसक० बंधगा जीवा विसेसा० । सेसं तिरिक्खोचं । णवरि सम्मत्त-संयुत्तं णत्थि । विभंगे-सव्वत्थोवा मिच्छत्त-अवं जीवा । बंधगा जीवा असंखेज्ज० । सोलसक० बंधगा जीवा विसेसा० । दोवेदणी० णवणोक० छस्संठाण छस्संघ० दो-विहा० तसथावरादि छयुगलणं दोगोद० देवोघ-भंगो । सव्वत्थोवा मणुसायु-बंधगा जीवा । णिरयायु-बंधगा जीवा असंखेज्जगु० । देवायु-बंधगा जीवा असंखेज्ज० । तिरिक्खायु-बंध० जीवा असंखेज्ज० । चदुण्णं आयुबंधगा जीवा विसे० । अबंधगा जीवा संखेज्ज० । णिरयगदि-बंध० जीवा थोवा । देवगदि-बंध० जीवा असंखेज्ज० । मणुसगदि बंधगा जीवा असंखेज्ज० । तिरिक्खगदि-बंधगा जीवा संखेज्ज० । चदुण्णं गदीणं बंधगा जीवा विसेसा० । एवं आणुपु० । चदुरिंदिय-बंधगा जीवा थोवा । तीइंदियबंधगा जीवा संखेज्ज० । बीइंदिय-बंधगा जीवा संखेज्ज० । पंचिदि० बंध० जीवा असंखेज्ज० । एइंदिय-बंधगा जीवा संखेज्ज० । पंचजादीणं बंधगा जीवा विसेसा० । वेउव्वियसरीरबंधगा जीवा थोवा । ओरालि० बंधगा जीवा असंखेज्ज० ।

हैं। मिथ्यात्वके अबन्धक सासादन गुणस्थानकी अपेक्षा कहे गये हैं। मिथ्यात्वके बन्धक अनन्तगुणे कहे गये हैं, क्योंकि मिथ्यात्वी जीवोंकी संख्या अनन्त है। परिमाणानुगममें कहा है-“मिच्छत्तस्स बंधगा अणंता”।

सोलह कषायके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं। शेष प्रकृतियोंके बारेमें तिर्यचोंके ओघ-समान जानना चाहिए। विशेष यह है कि यहाँ सम्यक्त्वके साथ बंधनेवाली प्रकृतियोंका अभाव है।

विशेष—तीर्थंकर तथा आहारकट्टिकका सम्यक्त्वके साथ ही बन्ध होता है। अतः यहाँ इनका बन्ध न होगा।

विभंगज्ञानियोंमें-मिथ्यात्वके अबन्धक जीव सर्वस्तोक हैं। बन्धक जीव असंख्यात-गुणे हैं। सोलह कषायके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं। २ वेदनीय, ६ नोकषाय, ६ संस्थान, ६ संहनन, २ विहायागति, त्रस-स्थावर स्थिरादि ६ युगल तथा दो गोत्रोंमें देवोंके ओघवत् भंग हैं।

मनुष्यायुके बन्धक जीव सर्वस्तोक हैं। नरकायुके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। देवायुके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। तिर्यचायुके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। चारों आयुके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं। अबन्धक जीव संख्यातगुणे हैं।

नरकगतिके बन्धक जीव स्तोक हैं। देवगतिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। मनुष्य-गतिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। तिर्यचगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। चारों गतिके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं।

इसी प्रकार आनुपूर्वियोंमें जानना चाहिए।

चौइन्द्रिय जातिके बन्धक जीव स्तोक हैं। त्रीइन्द्रिय जातिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। द्वीन्द्रिय जातिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। पंचेन्द्रिय जातिके बन्धक जीव असंख्यात-गुणे हैं। एकेन्द्रियके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। ५ जातियोंके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं।

वैक्रियिक शरीरके बन्धक जीव स्तोक हैं। औदारिक शरीरके बन्धक जीव असंख्यात-

तेजाक० बंध० जीवा विसे० । सव्वत्थोवा वेउवि० अंगो० बंधगा जीवा । ओरालि० अंगो० बंधगा जीवा असंखेज्ज० । दोण्णं अंगो० बंधगा जी० विसेसा० । अबंधगा जीवा असंखेज्ज० । परघादुस्सा० अबंध० जीवा थोवा । बंधगा जीवा असंखेज्ज० । अगु० उप० बंधगा जीवा विसेसा० । आदावुज्जोव-देवोघं । सव्वत्थोवा सुहुमादितिण्णि बंधगा जीवा । तप्पडिपक्खाणं बंधगा जीवा असंखेज्जगुणा । दोण्णं बंधगा जीवा विसेसा० । आभि० सुद० ओधि०—सव्वत्थोवा पंचणा० अबंधगा जीवा । बंधगा जीवा असंखेज्ज० । एवं अंतराइगं । सव्वत्थोवा चहुदंस० अबं० जीवा । णिहापचला-अवं० जी० विसेसा० । बंधगा जीवा असंखेज्जगु० । चहुदंस० बंध० जीवा विसेसा० । दोवेदणी० देवोघं । सव्वत्थोवा लोभसंज० अबं० जीवा । मायासंज० अबं० जीवा विसेसा० । माणसंज० अबं० जीवा विसेसा० । क्रोधसंज० अबं० जीवा विसेसाहिया । पच्चक्खाणावर०४ अबंध० जीवा संखेज्ज० । अपच्चक्खाणावर०४ अबंध० जीवा असंखेज्जगु० । बंध० जीवा असंखेज्ज० । पच्चक्खाणा०४ बंध० जीवा विसेसा० । क्रोधसंज० बंध० जीवा विसेसा० । माणसंज० बंध० जीवा विसे० । मायासंज० बंध०

गुणे हैं । तैजस, कार्मण के बन्धक जीव विशेषाधिक हैं ।

वैक्रियिक अंगोपांगके बन्धक जीव सर्वस्तोक हैं । औदारिक अंगोपांगके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । दोनो अंगोपांगके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । अबन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं ।

विशेषार्थ—आहारकट्टिकका बन्ध अप्रमत्त गुणस्थानमें होनेसे यहाँ उनका वर्णन नहीं किया गया है ।

परघात, उच्छ्वासके अबन्धक जीव स्तोक हैं । बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । अगुरुलघु, उपघातके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । आतप, उद्योतके विषयमें देवोघवत् जानना चाहिए । सूक्ष्मादि ३ के बन्धक जीव सर्वस्तोक हैं । इनके प्रतिपक्षी बादरादि ३ के बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । दोनोंके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं ।

आभिनिबोधक, श्रुत, अवधिज्ञानमें ५ ज्ञानावरणके अबन्धक जीव स्तोक हैं । बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । ऐसा ही अन्तराय वर्णन जानना चाहिए अर्थात् अबन्धक जीव सर्वस्तोक है और बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं ।

४ दर्शनावरणके अबन्धक जीव सबसे कम हैं । निद्रा, प्रचलाके अबन्धक जीव विशेषाधिक हैं । इसके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । ४ दर्शनावरणके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं ।

दो वेदनायके बन्धक, अबन्धक जीवोंमें देवोघवत् जानना ।

लोभ-संज्वलनके अबन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । माया-संज्वलनके अबन्धक जीव विशेष अधिक हैं । मान-संज्वलनके अबन्धक जीव इनसे कुछ अधिक हैं । क्रोध-संज्वलनके अबन्धक जीव विशेष अधिक हैं । प्रत्याख्यानावरण ४ के अबन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । अप्रत्याख्यानावरण ४ के अबन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं तथा बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । प्रत्याख्यानावरण ४ के बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । क्रोध-संज्वलनके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । मान-संज्वलनके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । माया-संज्वलनके बन्धक जीव

जीवा विसे० । लोभसंज० बंध० जीवा विसेसा० । सव्वत्थोवा सत्तणोक० अबंधगा जीवा । हस्सरदिबंधगा जीवा असंखेज्जु० । अरदिसोग-बंधगा जीवा विसेसा० । भयदुगुञ्जाबंधगा जीवा विसेसा० । ॐलोभसंज० बंधगा जीवा विसेसा० । सव्वत्थोवा सत्तणोक० ॐ पुरिस० बंधगा जीवा विसेसा० । मणुसायु-बंधगा जीवा थोवा । देवाउगं बंधगा जीवा असंखेज्जु० । दोणं बंधगा जीवा विसे० । अबं० जीवा असंखेज्जु० । दोणं गदोणं अबंध० जीवा थोवा । देवगदि-बंधगा जीवा असंखेज्जु० । मणुसगदि-बंधगा जीवा असंखेज्जु० । दोणं बंध० जीवा विसेसा० । सव्वत्थोवा पंचिदि० सप-चदुर० वज्जरिसभ-संघ० वण्ण० ४ अगुरु० ४ पसत्थवि० तस० ४ सुभग-सुस्सर-आदे० णिणिण-उच्चगोदाणं अबंधगा । बंध० जीवा असंखेज्जु० । पंचसरी० अबंधगा जीवा थोवा । आहारसरीर-बंधगा जीवा संखेज्जुगु० । वेउव्विय० बंधगा जीवा असंखेज्जु० । ओगलि० बंधगा जीवा असंखेज्जु० । तेजाक० बंधगा जीवा विसेसा० । सव्वत्थोवा तिणिण-अंगो० अबंधगा जीवा । आहार० अंगो० बंधगा जीवा संखेज्जु० । वेउव्विय०

विशेषाधिक हैं । लोभ-संज्ञलनके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं ।

सात नोकषायके अबन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । हास्य-रतिके बन्धक जीव असंख्यात-गुणे हैं । अरति शोकके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । भय-जुगु-साके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । पुरुषवेदके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं ।

विशेषार्थ—नपुंसकवेदके बन्धक मिथ्यात्व गुणस्थानवर्ती है । स्त्रीवेदके बन्धक सासा-दन पर्यन्त हैं । अतः इस सम्यक्ज्ञानके वर्णनमें उक्त वेदद्वयको छोड़कर सात नोकषायका कथन किया गया है ।

मनुष्यायुके बन्धक जीव स्तोक हैं । देवायुके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । दोनोंके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । अबन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं ।

विशेषार्थ—नरकायुकी बन्धव्युच्छित्ति मिथ्यात्व गुणस्थानमें होती है । तिर्यचायुकी सासादनमें बन्ध व्युच्छित्ति कही है, इससे यहाँ इन दो आयुआंका कथन नहीं किया गया है ।

दोनों गतिके अबन्धक जीव स्तोक हैं । देवगतिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । मनुष्य गतिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । दोनोंके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं ।

पंचेन्द्रिय जाति, समचतुरस्र संस्थान, वज्रवृषभसंहनन, वर्ण ४, अगुल्लघु ४, प्रशस्त विहायोगति, त्रस ४, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण और उच्च गोत्रके अबन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं ।

५ शरीरके अबन्धक जीव स्तोक हैं । आहारक शरीरके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । वैक्रियक शरीरके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । औदारिक शरीरके बन्धक जीव असंख्यात-गुणे हैं । तैजस, कामण के बन्धक जीव विशेषाधिक हैं ।

तीनों अंगोपांगके अबन्धक जीव सबसे कम हैं । आहारक अंगोपांगके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । वैक्रियक अंगोपांगके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । औदारिक अंगोपांगके

* एतच्चिह्नान्तर्गतः पाठोऽधिकः प्रतिभाति ।

अंगो० बंधगा जीवा असंखेज्ज० । ओरालि० अंगो० बंधगा जीवा असंखेज्ज० ।
तिण्णं बंधगा जीवा विसे० । थिरादि तिण्णि-युगलं पंचिदिय-भंगो । तित्थयरं बंधगा
जीवा थोवा । अबंधगा जीवा असंखेज्ज० । एवं ओधिदंस० । मणपज्जवणा० ओधिभंगो ।
णवरि असंखेज्जगदीओ गत्थि । संखेज्जगुणं कादव्वं ।

३१८. एवं संजद० वेदणीयमणुभिभंगो ।

३१६. सामाह० छेरो०-सव्वत्थोवा मायासंज० अवं० जीवा । माणसंज०
अवं० जीवा विसेसा० । कोधसंज० अवं० जीवा विसेसा० । बंधगा जीवा असंखेज्ज०
(?) माणसंज० बंधगा जीवा विसेसा० । मायासंज० बंधगा जीवा विसे० । लोभ-
संज० बंधगा जीवा विसे० । सेसाणं किंचि विसेसेण मणपज्जवभंगो ।

३२०. परिहार०-आहारकाजोगिभंगो । णवरि आहारदुगं अत्थि । सुहुमसंपरा-

बन्धक असंख्यातगुणे हैं । तीनोंके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं ।

शिरादि ३ युगलोंका पंचेन्द्रिके समान भंग जानना चाहिए ।

तार्थकरके बन्धक जीव स्तोक हैं । अबन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । इसी प्रकार
अवधि-दर्शनमें जानना चाहिए । मनःपर्ययज्ञानमें अवधिज्ञानके समान भंग है । विशेष यह
है कि यहाँ मनःपर्ययज्ञानमें असंख्यातगुणी संख्यावाली प्रकृति नहीं है । उनके स्थानमें
संख्यातगुणेका पाठ करना चाहिए । तात्पर्य यह है कि मनःपर्ययज्ञानमें संख्यातगुणेका क्रम
लगाना चाहिए ।

“मणपज्जवणाणी दव्वपमाणेण केवड्डिया ? संखेज्जा” (दव्वपमाणणुगम सूत्र १२४,
१२५) । इस कारण यहाँ संख्यातगुणे करनेका विशेष कथन किया गया है ।

३१८. इसी प्रकार संयममाणेणमें जानना चाहिए । वेदनीयका मनुष्यनीके समान भंग
है । अर्थात् साता-असाताके अबन्धक जीव सर्वस्तोक हैं । साताके बन्धक संख्यातगुणे हैं ।
असाताके बन्धक संख्यातगुणे हैं । दोनोंके बन्धक विशेषाधिक हैं ।

३१६, सामायिक छेदोपस्थापना संयममें - माया-संज्वलनके अबन्धक जीव सबसे कम
हैं । मान-संज्वलनके अबन्धक जीव विशेषाधिक हैं । क्रोध-संज्वलनके अबन्धक जीव विशेषा-
धिक हैं । क्रोध-संज्वलनके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं (?) मान-संज्वलनके बन्धक जीव
विशेष अधिक हैं । माया-संज्वलनके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । लोभ-संज्वलनके बन्धक
जीव विशेष अधिक हैं । शेष प्रकृतियोंमें कुछ विशेषताके साथ मनःपर्ययज्ञानके समान
भंग हैं ।

विशेषार्थ—सूहाबन्धमें इन संयमियोंकी संख्या ‘कोडि पुधत्त’ - कोटि पृथक्त्व कही है
(सू० १२६ द० प्र०) । इससे क्रोध-संज्वलनके बन्धक ‘असंख्यातगुणे’के स्थानमें ‘संख्यातगुणे’
होना चाहिए ।

३२०. परिहार विशुद्धि संयममें - आहारक काययोगके समान भंग है । विशेष, इस
संयममें आहारकद्विकका बन्ध पाया जाता है ।

विशेष - परिहारविशुद्धि संयममें आहारकद्विकके उदयका विरोध है, बन्धका
नहीं है ।

१. “मणपज्जवपरिहारे णवरि ण संदित्थिहारदुगं ।” -गो० क०, ३२७ ।

इयस्स—णत्थि अप्पावहुगं । यथाक्खादस्स—अबंधगा जीवा थोवा । बंधगा जीवा संखेज्जगुणा । संजदासंजदा—परिहारभंगो । णवरि थोवा देवायु-तित्थयर-बंधगा जीवा । अबंधगा जीवा असंखेज्ज० । असजद-तिरिक्खोघं । णवरि अपच्चक्खाणावरणस्स अबंधगा णत्थि । तित्थयरं ओघं ।

३२१. चक्षुदंसं—तसपज्जत्तभंगो । अचक्षुदं० ओघं । णवरि एदेति दोष्णं विसेसो णाद्वो ।

३२२. तिण्णिस्स—असंजदभंगो । तेऊए—सव्वत्थोवा थीणगिद्धि ३ अबं० । बंधगा जीवा असंखेज्ज० । छदंसण० बंधगा जीवा विसेसा० । दोवेदणी० णवणोक्क० छस्संठाण-छसंघ० आदाउज्जो० दोविहा० तसथाव० थिरादिछयुगं दोभोदं देवोघं । सव्वत्थोवा पच्चक्खाणा०४ अबंधगा जीवा । अपच्चक्खाणा०४ अबंध० जीवा असंखेज्ज० । अणंता-

सूक्ष्मसाम्भरायमें अल्पबहुत्व नहीं है ।

विशेष—यहाँ ज्ञानावरण ५, अन्तराय ५, दर्शनावरण ४, यशःकीर्ति, उच्च गोत्र तथा सातावेदनीयका बन्ध होता है । इनके बन्धकोंमें होनाधिकपनेका अभाव है । यहाँ इन १७ प्रकृतियोंका बन्ध सबके पाया जायेगा ।

यथाख्यातसंयममें—अबन्धक जीव स्तोक हैं । बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं ।

विशेषार्थ—यथाख्यात संयम उपशान्त कषायसे अयोगी जिन पर्यन्त पाया जाता है । अयोगी जिनको छोड़कर शेष जीवोंके साता वेदनीयका ही बन्ध होता है । अयोगी जिन ५६८ कहे गये हैं । ये अबन्धक हैं । इनकी अपेक्षा बन्धक संख्यातगुणे कहे हैं ।

संयतासंयतोंमें—परिहारविशुद्धिके समान भंग है । विशेष, देवायु तथा तीर्थंकरके बन्धक स्तोक हैं । अबन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । असंयममें—तिर्यंचोंके ओघवत् हैं । विशेष, यहाँ अप्रत्याख्यानावरणके अबन्धक नहीं हैं । तीर्थंकर प्रकृतिका ओघवत् जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—असंयममें अप्रत्याख्यानावरणका बन्ध होता है । इससे उसके अबन्धकका निषेध किया है ।

३२१. चक्षुदर्शनमें—त्रस पर्याप्तके समान भंग है ।

अचक्षुदर्शनमें—ओघवत् जानना चाहिए । विशेष यह है कि इन दोनोंमें जो विशेषता है उसे जान लेना चाहिए ।

विशेषार्थ—चक्षुदर्शन प्रसोंके ही होता है । चक्षुदर्शनी असंख्यात कहे हैं । अचक्षुदर्शन स्थावरोंके भी होता है । अचक्षुदर्शनी अनन्त हैं । (खु० वं०, द्र० प्र० सू० १४१, १४४)

३२२. कृष्णादि तीन लेश्यामें—असंयतके समान भंग है ।

तेजोलेश्यामें—स्त्यानगृद्धिके अबन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । इनके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । ६ दर्शनावरणके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं ।

२ वेदनीय, ६ नोकषाय, ६ संस्थान, ६ संहनन, आतप, उद्योत, २ विहायोगति, त्रस, स्थावर, स्थिरादि ६ युगल तथा २ गोत्रका देवोघके समान समझना चाहिए ।

प्रत्याख्यानावरण ४ के अबन्धक जीव सबसे कम हैं । अप्रत्याख्यानावरण ४ के अब-

शुबं०४ अबंधगा जीवा असंखेज्ज० । मिञ्जत्त० अबं० जीवा विसेसा० । बंधगा जीवा असंखेज्ज० । अणंताणु०४ बंधगा जीवा विसेसा० । अपच्चक्खाणा०४ बंधगा जीवा विसेसा० । पच्चक्खाणा०४ बंधगा जीवा विसेसा० । चदुसंज० बंधगा जीवा विसेसा० । सव्वत्थोवा मणुसायु-बंधगा जीवा । तिरिक्खायु-बंधगा जीवा असंखेज्ज० । देवायु-बंधगा जीवा विसेसा० । तिण्णि बंधगा जीवा विसेसा० । अबं० जीवा असंखेज्ज० । एवं चित्तिज्जदि । एवं पुण परिज्जदि । सव्वत्थोवा मणुसायु-बंधगा जीवा । देवायु-बंधगा जीवा असंखेज्ज० । तिरिक्खायु-बंधगा जीवा असंखेज्ज० । तिण्णं बंधगा जीवा विसेसा० । अबंधगा जीवा संखेज्ज० । देवगदि-बंधगा जीवा थोवा । मणुसगदिबंधगा जीवा संखेज्ज० । तिरिक्खगदिबंधगा जीवा संखेज्ज० । तिण्णं गदीणं बंधगा जीवा विसे० । एवं आणुपुव्वि० । पंचिदिय-बंधगा जीवा थोवा । एइंदिय-बंधगा जीवा संखेज्जु० । दोण्णं बंधगा जीवा विसे० । आहारस० बंधगा जीवा थोवा । वेउव्वियबंधगा जीवा

बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । अनन्तानुबन्धीचतुष्कके अबन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । मिथ्यात्वके अबन्धक जीव विशेषाधिक हैं । इसके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । अनन्तानुबन्धी ४ के बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । अप्रत्याख्यानावरण ४ के बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । प्रत्याख्यानावरण ४ के बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । चारों संज्वलनके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं ।

विशेषार्थ—संज्वलनके अबन्धक सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानमें होते हैं । तेजोलेइया देश-विरतित्रिकमें पायी जाती है, इस कारण इस लेइयामें संज्वलनके अबन्धक नहीं कहे हैं ।

मनुष्यायुके बन्धक जीव सबसे कम हैं । तिर्यचायुके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । देवायुके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । तीनों आयुके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । अबन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं ।

विशेष—अशुभत्रिक लेइयामें नरकायुका बन्ध होता है । इस लेइयामें नरकायुका बन्ध नहीं होता है ।

यह चिन्तनीय है तथा ऐसा समझमें आता है कि मनुष्यायुके बन्धक जीव सबसे कम हैं । देवायुके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । तिर्यचायुके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । तीनोंके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । अबन्धक जीव संख्यातगुणे हैं ।

विशेष—आयुके विषयमें दो प्रकारकी प्रतिपादना सम्भवतः दो परस्पराओंको बताती है ।

देवगतिके बन्धक जीव स्तोक हैं । मनुष्यगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । तिर्यच-गतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । तीनों गतिके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं ।

इसी प्रकार आनुपूर्वामें भी जानना चाहिए ।

पंचेन्द्रियके बन्धक जीव स्तोक हैं । एकेन्द्रियके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । दोनोंके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं ।

विशेषार्थ—शंका—तेजोलेइयामें जब द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चौइन्द्रियके बन्धकोंका कथन नहीं है, तब यहाँ एकेन्द्रियके बन्धकका निषेध क्यों नहीं किया गया ?

असंखे० । ओरालि० बंध० जीवा संखेज्ज० । तेजाक० बंधगा जीवा विसेसा० । तिण्णं अंगो० एवं चेव । णवरि तिण्णं अंगो० बंधगा जीवा विसे० । अबं० जीवा संखेज्ज० । एवं पम्माए । णवरि थोवा इत्थिवेदाणं बंध० जीवा । णवुंसं० बंधगा जीवा संखेज्ज० । हस्सरदि-बंधगा जीवा असंखेज्ज० । अरदिसोग-बंधगा जीवा संखेज्ज० । पुरिसं० बंधगा जीवा विसेसा० । भयदु० बंधगा जीवा विसेसा० । मणुसायु-बंधगा जीवा थोवा । तिरिक्खायु-बंधगा जीवा असंखेज्ज० । देवायु-बंधगा जीवा विसे० । तिण्णं बंधगा जीवा विसे० । अवंधगा जीवा असंखेज्ज० । मणुसगदि-बंधगा जीवा थोवा । तिरिक्खगदि-बंधगा जीवा संखेज्ज० । देवगदि-बंधगा जीवा असंखेज्ज० । तिण्णं बंधगा जीवा विसे० । एवं आणुपुण्वि० । सन्वत्थोवा आहारसं० बंधगा जीवा । ओरालि० बंधगा जीवा असंखेज्ज० । वेउण्वि० बंधगा जीवा असंखेज्ज० । तेजाक० बंधगा जीवा विसे० । एवं अंगो० । सन्वत्थोवा णग्गोदपरि० बंधगा जीवा । सादियसं० बंधगा जीवा संखेज्ज० । खुज्जसं० बंधगा जीवा संखेज्ज० । वामणसं० बंधगा जीवा संखेज्ज० ।

समाधान—सौधर्म, ईशान स्वर्ग तकके देव तेजोलेइयाधारी होते हुए विकलत्रयमें जन्म न ले, एकेन्द्रिय पर्याय प्राप्त करते हैं, इस कारण यहाँ एकेन्द्रियके बन्धक कहे गये हैं । ऐसी आगमकी आज्ञा है ।

आहारक शरीरके बन्धक जीव स्तोक हैं । वैक्रियिक शरीरके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । औदारिक शरीरके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । तैजस, कार्मणके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं ।

तीनों अंगोपांगमें ऐसा ही है, किन्तु तीनों अंगोपांगके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । अबन्धक जीव संख्यातगुणे हैं ।

पद्मलेइयामें इसी प्रकार जानना चाहिए । यहाँ इतना विशेष है, स्त्रोवेदके बन्धक जीव स्तोक हैं । नपुंसकवेदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । हास्य-रतिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । अरति-शोकके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । पुरुषवेदके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । भय-जुगुप्साके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं ।

मनुष्यायुके बन्धक जीव स्तोक हैं । तिर्यचायुके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । देवायुके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । तीनोंके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । अबन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं ।

मनुष्यगतिके बन्धक जीव स्तोक हैं । तिर्यचगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । देवगतिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । तीनोंके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं ।

इसी प्रकार आनुपूर्वामें भी समझना चाहिए ।

आहारक शरीरके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । औदारिक शरीरके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । वैक्रियिक शरीरके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । तैजस, कार्मणके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं ।

इसी प्रकार अंगोपांगमें भी समझना चाहिए ।

न्यप्रोधपरिमण्डलसंस्थानके बन्धक जीव सबसे कम हैं । स्वातिकसंस्थानके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । कुब्जकसंस्थानके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । वामनसंस्थानके बन्धक

हुंडसंठाण-बंधगा जीवा संखेज्ज० । समचदुर० बंधगा जीवा असंखेज्ज० । छण्णं बंधगा जीवा विसेसा० । वज्जरिसभ-संव० बंधगा जीवा थोवा । वज्जणाराच० बंधगा जीवा संखेज्ज० । उवरि संखेज्जगुणं कादव्वं । छस्संधड० बंधगा जीवा विसेसा० । अबंधगा जीवा असंखेज्ज० । उज्जोव-तित्थय० बंधगा जीवा थोवा । अबंधगा जीवा असंखेज्ज० । अप्पसत्थवि० दूमग-दुस्सर-अणादे०-णीचामो० बंधगा जीवा थोवा । तप्पडिपक्खं बंधगा जीवा असंखेज्ज० । दोण्णं बंधगा जीवा विसेसा० । थिरादि तिण्णि-युगलं देवोघं । सुक्काए-पंचणा० पंचिदि० वण्ण०४ अगु०४ तस०४ णिमि० पंचतराह्मणाणं अबंधगा जीवा थोवा । बंधगा जीवा असंखेज्ज० । चदुदं० अबंधगा जीवा थोवा । णिहापचला० अबंधगा जीवा विसेसाहिया । थीणगिद्धि ३ [अ] बंधगा जीवा असंखेज्ज० । बंधगा जीवा संखेज्जगुणा । णिहा-पचला-बंधगा जीवा विसे० । चदुदं० बंधगा जीवा विसेसा० । वेदणीयं देवोघं । लोभ-संज० अबंधगा जीवा थोवा । माया-संज० अबं० जीवा विसे० । माण संज० अबं० जीवा विसे० । कोध संज० अबं० जीवा विसे० । पच्चक्खाणा०४ अबं० जीवा संखेज्ज० । अपच्चक्खाणा०४ अबं० जीवा असंखेज्ज० । मिच्छत्त-अबंधगा जीवा असंखेज्ज० । अणंताणु०४ [अ]बंधगा जीवा

जीव संख्यातगुणे हैं । हुण्डकसंस्थानके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । समचतुरस्रसंस्थानके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । छहों संस्थानोंके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं ।

वज्रवृषभसंहननके बन्धक जीव स्तोक हैं । वज्रनाराचसंहननके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । आगेके संहननोंमें संख्यातगुणे अधिकका क्रम लगाना चाहिए । छह संहननोंके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । अबन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं ।

उद्योत, तीर्थकरके बन्धक जीव स्तोक हैं । अबन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं ।

अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भाग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्रके बन्धक जीव स्तोक हैं । इनके प्रतिपक्षी प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय, उच्चगोत्रके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । दोनोंके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं ।

स्थिरादि ३ युगलोंका देवोघके समान जानना चाहिए ।

शुक्ल लेश्यामें - ५ ज्ञानावरण, पंचेन्द्रिय जाति, वर्ण ४, अगुरुलघु ४, त्रस ४, निर्माण और ५ अन्तरायके अबन्धक जीव स्तोक हैं । बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं ।

४ दर्शनावरणके अबन्धक जीव स्तोक हैं । निद्रा, प्रचलाके अबन्धक जीव विशेषाधिक हैं । स्थानगृद्धित्रिकके [अ]बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । निद्रा-प्रचलाके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । ४ दर्शनावरणके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं ।

वेदनीयका देवोघके समान जानना चाहिए ।

लोभ-संज्वलनके अबन्धक जीव स्तोक हैं । माया-संज्वलनके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । मान-संज्वलनके अबन्धक जीव विशेष अधिक हैं । क्रोध संज्वलनके अबन्धक जीव विशेषाधिक हैं । प्रत्याख्यानावरण ४ के अबन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । अप्रत्याख्यानावरण ४ के अबन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । मिथ्यात्वके अबन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं ।

विसेसा० । अबंधगा (बंधगा) जीवा संखेज्जगुणा । मिच्छत्त-अबंधगा (?) बंधगा जीवा विसेसा० । अपच्चक्खाणा०४ बंधगा जीवा विसे० । पच्चक्खाणावरण० बंधगा जीवा विसे० । कोधसंज० बंधगा जीवा विसे० । माणसंज० बंधगा जीवा विसे० । माया-संज० बंधगा जीवा विसेसा० । लोभसंज० बंधगा जीवा विसे० । सच्चत्थोवा णव-णोक० अबंधगा जीवा । इत्थिवे० बंधगा जीवा असंखेज्ज० । णवुंसक० बंधगा जीवा संखेज्ज० । हस्सरदि-बंधगा जीवा संखेज्ज० । अरदिसोग-बंधगा जीवा संखेज्जगुणा । पुरिसवे० बंधगा जीवा विसेसा० । भयदु० बंधगा जीवा विसे० । सच्चत्थोवा मणुसायु-बंधगा जीवा । देवायु-बंधगा जीवा विसेसा० । दोणं बंधगा जीवा विसेसा० । अबंधगा जीवा असंखेज्ज० । सच्चत्थोवा दोणं गदीणं अबंधगा जीवा । देवगदि-बंधगा जीवा असंखेज्ज० । मणुसगदि-बंधगा जीवा असंखेज्ज० । दोणं गदीणं बंधगा जीवा विसेसा० । पंचणं सरीराणं अबंधगा जीवा थोवा । आहारस० बंध० जीवा संखेज्ज० । वेउव्विय-बंधगा जीवा असंखेज्जगुणा । ओरालि० बंध० जीवा असंखेज्ज० । तेजाक० बंधगा जीवा विसे० । एवं अंगो० । सच्चत्थोवा छस्संठा० अवं० जीवा । णगोद-बंधगा जीवा असंखेज्ज० । सादिय-बंधगा जीवा संखेज्जगु० । खुज्जसं० बंधगा जीवा संखेज्ज० ।

अनन्तानुबन्धी ४ के [अ]बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । इनके अबन्धक (बन्धक) जीव संख्यातगुणे हैं । मिथ्यात्वके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं ।

अप्रत्याख्यानावरण ४ के बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । प्रत्याख्यानावरण ४ के बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । क्रोध-संज्वलनके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । मान-संज्वलनके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । माया-संज्वलनके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । लोभ-संज्वलनके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं ।

नव नौकषायके अबन्धक जीव सबसे कम हैं । स्त्रीभेदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । नपुंसकवेदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । हास्य-रतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । अरतिशोकके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । पुरुषवेदके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । भय, जुगुप्साके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं ।

मनुष्यायुके बन्धक जीव सबसे कम हैं । देवायुके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । दोनोंके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । अबन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं ।

दोनों गति (देव-मनुष्यगति) के अबन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । देवगतिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । मनुष्यगतिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । दोनों गतियोंके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं ।

पाँचों शरीरके अबन्धक जीव स्तोक हैं । आहारक शरीरके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । बौद्धिक शरीरके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । औदारिक शरीरके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । तैजस, कार्मणके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । इसी प्रकार अंगोपांगमें भी जानना ।

६ संस्थानोंके अबन्धक जीव सबसे कम हैं । न्यमोधपरिमण्डल संस्थानके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । स्वातिक संस्थानके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । कुब्जकके बन्धक जीव

वामणवं० जीवा संखेज० । हुंडसं० बंध जीवा संखेज० । समचदु० बंधगा जीवा संखेज० । छणं बंधगा जीवा विसेसा० । एवं छस्सं० । दोविहा० सुभगादि-तिण्णियुगल-णीचुचागो० अवं० जीवा थोवा । अप्पसत्थवि० दूभग-दुस्सर-अणादे० णीचागो० बंधगा जीवा असंखेज० । तप्पडिपक्खणं बंधगा जीवा संखेज० । थिरादितिण्णियुग० मणभंगो । सव्वत्थोवा तित्थपरबंधगा जीवा । अबंधगा जीवा संखेज० । भवसिद्धि०—ओघं । अब्भवसिद्धिया—मदिभंगो । णवरि मिच्छत्त-अबंधगा जीवा णत्थि ।

३२३. सम्मादिट्ठीसु—सव्वत्थोवा पंचणा० पंविदि० समचदु० वज्जरिसभ० वण्णा०४ अगुरु०४ पसत्थविहा० तस०४ सुभगादेतिण्णियु० णिमिण-तित्थय० उच्चागो० पंचंत० बंधगा जीवा । अबंध० अणंतगुणा । सव्वत्थोवा णिहापचला-बंधगा जीवा । चदंसं० बंधगा जीवा विसेसा० । अबं० अणंतगुणा । णिहापचला अबंधगा जीवा विसेसा० । साद-बंधगा जीवा थोवा । असाद-बंधगा जी० संखेज० । दोणं बंधगा जीवा विसेसा० । अबंधगा जीवा अणंतगु० । अपच्चक्खणा०४ बंध० जीवा थोवा ।

संख्यातगुणे हैं । वामनसंस्थानके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । हुण्डकसंस्थानके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । समचतुरस्रसंस्थानके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । छहों संस्थानोंके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं ।

इस प्रकार ६ संहननमें जानना चाहिए ।

२ विहायोगति, सुभगादि ३ युगल, नीच तथा उच्चगोत्रके अबन्धक जीव स्तोक हैं । अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय, नीच गोत्रके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । इनके प्रतिपक्षी प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय तथा उच्चगोत्रके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । स्थिरादि ३ युगलोंमें मनोयोगियोंके समान भंग हैं ।

तीर्थकर प्रकृतिके बन्धक जीव सर्व स्तोक हैं । अबन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । भव्य-सिद्धिकोंमें ओघवत् जानना चाहिए । अभव्यसिद्धिकोंमें—मत्थज्ञानके समान जानना चाहिए । विशेष, मिथ्यात्वके अबन्धक जीव नहीं हैं ।

३२३. सम्यग्दृष्टियोंमें—५ ज्ञानावरण, पंचेन्द्रिय जाति, समचतुरस्रसंस्थान, वप्पवृषभ-संज्ञनन, वर्ण ४, अगुरुलघु ४, प्रशस्त विहायोगति, अस्र ४, सुभगादि तीन युगल, निर्माण, तीर्थकर, उच्च गोत्र, ५ अन्तरायके बन्धक जीव स्तोक हैं । अबन्धक अनन्तगुणे हैं ।

निद्रा, प्रचलाके बन्धक जीव सर्व स्तोक हैं । ४ दर्शनावरणके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । इनके अबन्धक अनन्तगुणे हैं । निद्रा, प्रचलाके अबन्धक जीव विशेषाधिक हैं ।

साताके बन्धक जीव स्तोक हैं । असाताके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । दोनोंके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । अबन्धक जीव अनन्तगुणे हैं ।

विशेषार्थ—साता तथा असाताके अबन्धक अयोगकेवलो अल्पसंख्या युक्त हैं । यहाँ अबन्धक जीव अनन्तगुणे कहे गये हैं, क्योंकि सम्यग्दृष्टि होते हुए वेदनीयका अबन्धकपना अनन्त सिद्धोंमें भी पाया जाता है । 'खुदाबन्धमें सम्यक्त्व मार्गणमें अल्पबहुत्वका कथन करते हुए सिद्धोंकी अनन्तराशिका वर्णन किया गया है, "यथा सम्मत्ताणुवादेण सव्वत्थोवा सम्मा-मिच्छाइट्ठी । सम्मादिट्ठी असंखेज्जगुणा, सिद्धा अणंतगुणा, मिच्छाइट्ठी अणंतगुणा" (सू० १८२-१६२) ।

पञ्चकखाणा०४ बंधगा जीवा विसे० । क्रोध-सं० बं० जी० विसे० । माणसंज० बंध० जी० विसेसा० । मायासंज० बंध० जी० विसेसा० । लोभसंज० बंधगा जीवा विसे० । अबंध० अणंतगुणा । मायासं० अबं० जीवा विसे० । माणसंज० अबं० जीवा विसेसा० । क्रोधसंज० अबं० जीवा विसे० । पञ्चकखाणा०४ अबं० जीवा विसे० । अपञ्चकखाणा०४ अबं० जीवा विसेसा० । हस्सरदि-बंधगा जीवा थोवा । अरदिसोग-बंधगा जीवा संखेज्जगुणा । भयदु० बंध० जीवा विसे० । पुरिस-वे० बंधगा जीवा विसे० । अबंध० अणंतगुणा । भयदु० अबं० जीवा विसे० । अरदिसोग-अबं० जीवा विसे० । हस्सरदि-अबं० जी० विसे० । मणुसायु-बंधगा जीवा थोवा । देवायु-बंधगा जीवा असंखेज्ज० । दोणं बंधगा जीवा विसे० । अबंध० जीवा अणंतगुणा । देवगदि-बं० जीवा थोवा । मणुसगदि-बंधगा जीवा असंखेज्ज० । दोणं बंध० जीवा विसे० । अबं० अणंतगुणा । एवं दो आणुपुत्वि० । आहारसरी० बंधगा जीवा थोवा । वेउत्वि० बंधगा जीवा असंखेज्ज० । ओरालि० बंधगा जीवा असंखेज्ज० । तेजाक० बंधगा जीवा विसेसा० । अबंधगा जीवा अणंतगुणा । एवं तिण्णि-अंगो० । थिरादि-तिण्णियुगलं

अप्रत्याख्यानावरण ४ के बन्धक जीव स्तोक हैं । प्रत्याख्यानावरण ४ के बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । क्रोध-संज्वलनके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । मान-संज्वलनके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । माया-संज्वलनके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । लोभ-संज्वलनके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । इसके अबन्धक अनन्तगुणे हैं । माया-संज्वलनके अबन्धक जीव विशेषाधिक हैं । मान-संज्वलनके अबन्धक जीव विशेषाधिक हैं । क्रोध-संज्वलनके अबन्धक जीव विशेषाधिक हैं । प्रत्याख्यानावरण ४ के अबन्धक जीव विशेषाधिक हैं । अप्रत्याख्यानावरण ४ के अबन्धक जीव विशेषाधिक हैं ।

हास्य, रतिके बन्धक जीव स्तोक हैं । अरतिशोकके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । भय-जुगुप्साके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । पुरुषवेदके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । अबन्धक जीव अनन्तगुणे हैं । भय, जुगुप्साके अबन्धक जीव विशेषाधिक हैं । अरति, शोकके अबन्धक जीव विशेषाधिक हैं । हास्य, रतिके अबन्धक जीव विशेषाधिक हैं ।

मनुष्यायुके बन्धक जीव स्तोक हैं । देवायुके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । दोनोंके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । अबन्धक जीव अनन्तगुणे हैं ।

विशेषार्थ—यहाँ नरकायु तथा तिर्यचायुका कथन नहीं किया गया है, कारण नरकायुकी बन्धव्युच्छित्ति मिथ्यात्व गुणस्थानमें तथा तिर्यचायुकी बन्धव्युच्छित्ति सासादन गुणस्थानमें होती है ।

देवगतिके बन्धक जीव स्तोक हैं । मनुष्यगतिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । दोनोंके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । इनके अबन्धक अनन्तगुणे हैं ।

इसी प्रकार दो आनुपूर्वी (देवमनुष्यानुपूर्वी) में भी जानना चाहिए ।

आहारक शरीरके बन्धक जीव स्तोक हैं । वैक्रियिकशरीरके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । औदारिकशरीरके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । तैजस, कर्मणके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । अबन्धक जीव अनन्तगुणे हैं । इसी प्रकार ३ अंगोपांगमें भी जानना चाहिए ।

वेदणीय-भंगो । एवं खड्ग-सम्मा० । णवरि थोवा देवायु-बंधगा जीवा । मणुसायु-
बंधगा जीवा विसे० । सव्वत्थोवा अपच्चक्खाणा०४ बंधगा जीवा । पच्चक्खाणा०४
बंधगा जीवा विसे० । एवं चदुसंजल० बंधगा जीवा विसे० । अबं० अणंतगुणा । सेसं
पडिलोमेण भाणिदव्वं । हस्सरदि-बंधगा जीवा थोवा । अरदिसोग-बंधगा जीवा संखेज्ज० ।
भयदु० बंधगा जीवा विसे० । पुरिसवेद-बंधगा जीवा विसे० । अबं० अणंतगुणा । सेसं
पडिलोमेण भाणिदव्वं । वेदगे-सव्वत्थोवा पच्चक्खाणा०४ अबंधगा जीवा । अपच्च-
क्खाणा०४ अबंधगा जीवा असंखेज्ज० । बंधगा जीवा असंखेज्जगुणा । पच्चक्खाणा०४
बंधगा जीवा विसे० । चदुसंज० बंधगा जीवा विसे० । सव्वत्थोवा हस्सरदि-बंधगा
जीवा । अरदिसोग-बंधगा जीवा संखेज्ज० । भयदु० पुरिसवे० बंधगा जी० विसे० ।
मणुसायु-बंधगा जीवा थोवा । देवायु-बंधगा जीवा असंखेज्ज० । दोण्णं बंधगा जीवा
विसे० । अबं० जीवा असंखेज्ज० । देवगादि-बंधगा जीवा थोवा । मणुसगादि-बंधगा

स्थिरादि ३ युगलके बन्धकोंमें वेदनीयके समान भंग जानना चाहिए ।

स्त्रायिकसम्यक्त्वमें - इसी प्रकार जानना चाहिए । विशेष यह है कि देवायुके बन्धक
स्तोक हैं । मनुष्यायुके बन्धक विशेषाधिक हैं ।

अप्रत्याख्यानावरण ४ के बन्धक जीव सर्वस्तोक हैं । प्रत्याख्यानावरण ४ के बन्धक
जीव विशेषाधिक हैं । इसी प्रकार ४ संज्वलनके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । अबन्धक
अनन्तगुणे हैं ।

शेष भंग प्रतिलोमसे जानना चाहिए, अर्थात् प्रत्याख्यानावरण ४ के अबन्धक जीव
विशेषाधिक हैं, अप्रत्याख्यानावरण ४ के अबन्धक जीव विशेषाधिक हैं ।

हास्य, रतिके बन्धक जीव स्तोक हैं । अरति, शोकके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं ।
भय, जुगुप्साके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । पुरुषवेदके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । अब-
न्धक जीव अनन्तगुणे हैं । शेष भंगमें प्रतिलोमसे जानना चाहिए अर्थात् भय, जुगुप्साके
अबन्धक जीव विशेषाधिक हैं । अरति-शोकके अबन्धक जीव विशेषाधिक हैं । हास्य-रतिके
अबन्धक जीव भी संख्यातगुणे हैं ।

वेदकसम्यक्त्वमें - प्रत्याख्यानावरण ४ के अबन्धक जीव सर्वस्तोक हैं । अप्रत्या-
ख्यानावरण ४ के अबन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं ।
प्रत्याख्यानावरण ४ के बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । ४ संज्वलनके बन्धक जीव विशेषा-
धिक हैं ।

विशेष—संज्वलनचतुष्कके अबन्धक जीवोंका यहाँ वर्णन नहीं किया गया । कारण
वेदकसम्यक्त्व ४ से ७ वें गुणस्थान तक पाया जाता है, और संज्वलन क्रोध, मान, माया,
लोभकी बन्धव्युच्छित्ति आनवृत्तिकरणमें होती है । अतः वेदकसम्यक्त्वकी अपेक्षा संज्वलन ४
के अबन्धक जीवका अभाव होनेसे वर्णन नहीं किया गया ।

हास्य-रतिके बन्धक जीव सर्वस्तोक हैं । अरति-शोकके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं ।
भय-जुगुप्साके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । पुरुषवेदके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं ।

मनुष्यायुके बन्धक जीव स्तोक हैं । देवायुके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । दोनोंके
बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । अबन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं ।

असंखेज्ज० । दोणं बंधगा जीवा विसे० । एवं दो आणुपुण्वि० । आहार० बंधगा जीवा थोवा । वेउण्विय० बंधगा जीवा असंखेज्ज० । ओरालि० बंधगा असंखेज्ज० । तेजाक० बंधगा जीवा विसे० । एवं तिण्णि अंगोवंग० । वज्जरिसभ-संघ ओधिभंगो । सेसं युगलं देवांघं । उवसमसं-ओधिभंगो । सासणे-वेदणीय-पंचसंठा० उज्जोव-दोविहाय० थिरादि-छयुग० दोगोदं णिरयोघं । सवत्थोवा पुरिसवे० बंधगा जीवा । हस्सरदि-बंधगा जीवा विसे० । इत्थिवे० बंधगा जीवा संखेज्ज० । अरदिसोग-बंधगा जीवा विसे० । भयदु० बंधगा जीवा विसे० । मणुसायु-बंधगा जीवा थोवा । देवायु-बंधगा जीवा असंखेज्ज० । तिरिक्खायु-बंधगा जीवा असंखेज्ज० । तिण्णं बंधगा जीवा विसे० । अत्रं जीवा असंखेज्ज० । देवगदि-बंधगा जीवा थोवा । मणुसगदि-बंधगा जीवा असंखेज्ज० । तिरिक्खगदि-बंधगा जीवा संखेज्ज० । तिण्णं बंधगा जीवा विसे० । एवं आणुपुण्वि० । वेउण्वियस० बंधगा जीवा थोवा । ओरालि० बंधगा जीवा असंखेज्ज० ।

देवगतिके बन्धक जीव स्तोक हैं । मनुष्यगतिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । दोनों-के बन्धक जीव विशेषाधिक हैं ।

इसी प्रकार दोनों आनुपूर्वियोंमें भी जानना चाहिए ।

आहारक शरीरके बन्धक जीव सर्व स्तोक हैं । वैक्रियिक शरीरके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । औदारिक शरीरके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । तैजस-कार्मण-शरीरके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । इसी प्रकार तीनों अंगोपांगमें भी जानना चाहिए । वज्रवृषभ-नाराच-संहननमें अवधिज्ञानके समान भंग है । शेष युगलोंमें देवोंके ओघ समान जानना चाहिए ।

उपशमसम्यक्त्वमें अवधिज्ञानके समान भंग जानना चाहिए । सासादनसम्यक्त्वमें-वेदनीय, ५ संस्थान, उद्योत, २ विहायोगति, स्थिरादि ६ युगल, २ गोत्रके बन्धकोंमें नरकके ओघवत् जानना चाहिए ।

पुरुषवेदके बन्धक जीव सर्वस्तोक हैं । हास्य-रतिके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । स्त्रीवेदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । अरति-शाकके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । भय-जुगुप्साके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं ।

मनुष्यायुके बन्धक जीव स्तोक हैं । देवायुके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । तिर्यचायुके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । तीनांके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । इनके अबन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं ।

विशेष—नरकायुका मिथ्यात्वगुणस्थान तक बन्ध होनेसे यहाँ उसका अभाव है ।

देवगतिके बन्धक जीव स्तोक हैं । मनुष्यगतिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । तिर्यचायुके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । तीनांके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं ।

इसी प्रकारका क्रम आनुपूर्वियोंमें भी जानना चाहिए ।

वैक्रियिक शरीरके बन्धक जीव स्तोक हैं । औदारिक शरीरके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । तैजस, कार्मण के बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । इसी प्रकार अंगोपांगमें भी जानना चाहिए ।

तेजाक० बंधगा जीवा विसे० । एवं अंगोवंग० । पंचसंघ० अबंधगा जीवा थोवा । वज्जरिसभ० बंधगा जीवा असंखेज्ज० । उवरि संखेज्जगुणा । पंचणं बंधगा जीवा विसे० । सम्माभिच्छे-वेदणी० सत्तणोक्क० दोगदि-दो-सरीर-दोअंगो० वज्जरिसभ० थिरादितिण्णियुगलं वेद[ग]भंगो । मिच्छादिद्धि-असण्णि-अब्भवसिद्धिय-भंगो ।

३२४. सण्णी-मणजोगि-भंगो । आहार-ओघभंगो । अणाहार०-पंचणा० पंचंत० वण्ण०४ णिभि० अबंधगा जीवा थोवा । बंधगा जीवा अणंतगुणा । छदंस० अबंधगा जीवा थोवा । थीणगिद्धि३ अबंधगा जीवा विसे० । बंधगा जीवा अणंतगु० । छदंस० बंधगा जीवा विसे० । सेसं ओघं । णवरि थोवा देवगदि-बंधगा । तिण्णं गदीणं अबंधगा जीवा अणंतगुणा । मणुमगदि-बंधगा [जीवा अणंतगुण] तिरिक्खगदि-बंधगा जीवा० संखेज्ज० । तिण्णं बंधगा जीवा विसे० । एवं आणुपुत्वि० । अंगो० कम्मइगभंगो ।
एवं सत्थाण-जीव-अप्पावहुगं समत्तं ।

५ संहननके अबन्धक जीव स्तोक है । वज्जवृषभनाराचसंहननके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । वज्जनाराच, नाराच आदि संहननोंके बन्धक जीवोंमें संख्यातगुणित क्रम जानना चाहिए । पाँचों संहननोंके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं ।

विशेष—हुण्डक संस्थानकी बन्धव्युत्थित्ति प्रथम गुणस्थानमें होनेसे उसका वर्णन नहीं हुआ ।

सम्यक्त्व-मिथ्यात्वमें, २ वेदनोय, ७ नोकषाय, २ गति, २ शरीर, २ अंगोपांग, वज्जवृषभसंहनन, स्थिरादि ३ युगलमें वेदकसम्यक्त्वके समान भंग जानना चाहिए ।

मिथ्यादृष्टि तथा असंज्ञामें अभव्यसिद्धिकोंका भंग जानना चाहिए ।

३२४. संज्ञामें - मनोयोगियोंका भंग जानना चाहिए । आहारकमें - ओघवत् भंग हैं । अनाहारकमें - ५ ज्ञानावरण, ५ अन्तराय, वर्ण ४, निर्माणके अबन्धक जीव स्तोक हैं । इनके बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं । ६ दर्शनावरणके अबन्धक जीव स्तोक हैं । स्थानगृद्धित्रिकके अबन्धक जीव विशेषाधिक हैं । बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं । ६ दर्शनावरणके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । शेष प्रकृतियोंमें ओघवत् हैं । विशेष यह है कि देवगतिके बन्धक जीव स्तोक हैं । तीनों गतिके अबन्धक जीव अनन्तगुणे हैं । मनुष्य गतिके बन्धक [अबन्धगुणे हैं] तिर्यक्-गतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । तीनोंके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं ।

विशेष—अनाहारकमें नरकगतिके बन्धकोंका अभाव है, इससे उसकी यहाँ परिगणना नहीं हुई है ।

इसी प्रकार आनुपूर्वीमें भी जानना चाहिए । अंगोपांगमें कार्मण काययोगके समान भंग जानना चाहिए ।

इसी प्रकार स्वस्थान-जीव-अल्प-बहुत्वका वर्णन समाप्त हुआ ।

१. "आहारानुवादेण सव्वत्थोवा अणाहारा अबंधा । बंधा अणंतगुणा ।" -सू० बं०, अप्पा० सू० २०३, २०४ । २. "सण्णियाणुवादेण सव्वत्थोवा सण्णी । णेव सण्णी, णेव असण्णी अणंतगुणा । असण्णी अणंतगुणा । -सू० २००-२०३ ।

[परत्थाण-जीव-अप्पा-बहुगपरुवणा]

३२५. परत्थाण-जीव-अप्पा-बहुगणुगमेण दुविहो णिहेसो । ओघेण, आदेसेण य ।

३२६. तत्थ ओघेण सव्वत्थोवा आहारसरीर-बंधगा जीवा । तित्थयर-बंधगा जीवा असंखेज्जगुणा । मणुसायु-बंधगा जीवा असंखेज्ज० । णिरगायु-बंधगा जीवा असंखेज्जगुणा । देवायु-बंधगा जीवा असंखेज्जगुणा । देवगदि-बंधगा जीवा संखेज्ज० । णिरयगदिबंधगा जीवा संखेज्ज० । वेउच्चि० बंधगा जीवा विसे० । तिरिक्खायु-बंधगा जीवा अणंतगुणा । उच्चामोद-बंधगा जीवा संखेज्ज० । मणुस-गइ-बंधगा जीवा संखेज्ज० । पुरिस० बंधगा जीवा संखेज्ज० । इत्थिवे० बंधगा जीवा संखेज्ज० । जसगित्तिबंधगा जी० संखेज्ज० । हस्सरदि-बंधगा जीवा संखेज्ज० । साद-बंधगा जीवा विसे० । असाद-अरदिसो० बंधगा जीवा संखेज्ज० । अज्जस० बंधगा जीवा विसे० । णयुंस० बंधगा जीवा विसे० । तिरिक्खगदि-बंधगा जीवा विसे० । णीचागो० बंधगा जीवा विसे० ।

[परस्थान-जीव-अल्प-बहुत्व]

३२५. अब परस्थान जीव अल्पबहुत्व अनुगमका ओघ और आदेशसे दो प्रकार वर्णन करते हैं ।

विशेषार्थ—स्वस्थान-जीव-अल्पबहुत्व प्ररूपणामें बन्धक तथा अबन्धक जीवोंका कथन किया गया है । इस परस्थान जीव अल्पबहुत्व प्ररूपणामें बन्धकोंका ही कथन किया गया है । परस्थान जीव अल्पबहुत्व प्ररूपणामें स्वस्थान प्ररूपणामें समान कथन न करके सामान्य-रूपसे सभी कर्मोंके बन्धकोंका अल्पबहुत्वके आधारपर कथन किया गया है । इसमें सजातीय तथा भिन्नजातीय प्रकृतियोंका यथायोग्य मिला हुआ वर्णन पाया जाता है ।

३२६. ओघकी अपेक्षा आहारक शरीरके बन्धक जीव सर्वस्तोक हैं । तीर्थंकर प्रकृतिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । मनुष्यायुके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । नरकायुके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । देवायुके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । देवगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । नरकगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । वैक्रियिक शरीरके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । तिर्यचायुके बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं । उच्च गोत्रके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । मनुष्यगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । पुरुषवेदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । स्त्रीवेदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । यज्ञःकीर्तिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । हास्य-रतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । साता-वेदनीयके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । असाता, अरति, शोकके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । अयज्ञःकीर्तिके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । नपुंसकवेदके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । तिर्यचगतिके बन्धक जीव विशेषाधिक

१. आहारकायजोमी दव्वपमाणेण केवडिया ? चतुबण्णं । आहारमिस्सकायजोमी दव्वपमाणेण केवडिया ?
—संखेज्जांसूत्र ९८-१००, खु० बं०, पृ. २८० । आइरियपरंपरागदउववेसेण पुण सत्तावीसा होति ।
—ध० टी०, पृ० २८१ ।

ओरालि० बंधगा जी० विसे० । मिच्छन्तबंधगा जी० विसे० । थीणगिद्धि ३ अणं-
ताणु०४ बंधगा जीवा विसे० । अपचक्खाणा०४ बंधगा जीवा विसे० । पच्चक्खाणा०
बंध० जीवा विसे० । णिदापचला-बंधगा जीवा विसे० । तेजाक० बंधगा जीवा विसे० ।
भयदु० बंधगा जीवा विसे० । कोध-संज० बंधगा जीवा विसे० । माणसं० बं० जीवा
विसे० । माया-सं० बंधगा जीवा विसे० । लोभसं० बंधगा जीवा विसे० । पंचणा०,
चदुदंसं०, पंचंत०. बंधा तुल्ला विसेसाहिया ।

३२७. आदेसेण णेरइएसु-सन्वत्थोवा मणुसायु बंधगा जीवा । तित्थय०
बंधगा जीवा असंखेज्ज० । तिरिक्खायु-बंधगा जीवा असंखे० । उच्चागो० बंधगा
जी० संखेज्ज० । मणुसगदिबंधगा जीवा संखेज्ज० । पुरिसवे० बंधगा जीवा
संखेज्ज० । इत्थि० बंधगा जीवा संखेज्ज० । साद-जस-हस-रदिबंधगा जीवा विसेसा० ।
णवुंसं० बंधगा जीवा संखेज्ज० । असाद-अरदिसो० अज्जसगित्ति-बंधगा जीवा विसे० ।
तिरिक्खगदि-बंधगा जीवा विसेसा० । णीचागो० बंधगा जीवा विसेसा० । मिच्छन्त-
बंधगा जीवा विसेसाहिया । थीणागिद्धि-तिय-अणंताणुबंधि०४ बंधगा जीवा
विसेसाहिया । सेसाणं पगदीणं तुल्ला विसेसाहिया । एवं पढमाए । पंचसु मज्झिमासु
एवं चेव । एवरि उच्चागोदस्स बंधगा जीवा असंखेज्जगुणा । सत्तमाए पुढवीए-

हैं । नीच गोत्रके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । औदारिक शरीरके बन्धक जीव विशेषाधिक
हैं । मिथ्यात्वके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । स्यानगृद्धित्रिक, अनन्तानुबन्धी ४ के बन्धक
जीव विशेषाधिक हैं । अपत्याख्यानावरण ४ के बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । प्रत्याख्याना-
वरण ४ के बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । निद्रा, प्रचलाके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं ।
तैजस, कामण शरीरके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । भय, जुगुप्साके बन्धक जीव विशेषा-
धिक हैं । क्रोध-संज्वलनके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । मान-संज्वलनके बन्धक जीव विशेषा-
धिक हैं । माया-संज्वलनके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । लोभ-संज्वलनके बन्धक जीव
विशेषाधिक हैं । ५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, ५ अन्तरायके बन्धक जीव समान रूपसे
विशेषाधिक हैं ।

३२७. आदेशसे—नारकियोंमें—मनुष्यायुके बन्धक जीव सर्वस्तोक हैं । तीर्थंकर प्रकृतिके
बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । तिर्यचायुके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उच्च गोत्रके
बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । मनुष्यगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । पुरुषवेदके बन्धक
जीव संख्यातगुणे हैं । स्त्रावेदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । साता-वेदनीय, यशःकीर्त्ति,
हास्य, रतिके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । नपुंसकवेदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं ।
असाता-वेदनीय, अरति, शोक, अयशःकीर्त्तिके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । तिर्यचगतिके
बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । नीच गोत्रके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । मिथ्यात्वके बन्धक
जीव विशेषाधिक हैं । स्यानगृद्धित्रिक, अनन्तानुबन्धी ४ के बन्धक जीव विशेषाधिक हैं ।
शेष प्रकृतियोंमें बन्धक जीव समान रूपसे विशेष अधिक क्रमवाले हैं । इसी प्रकार प्रथम
पृथ्वीमें जानना चाहिए ।

मध्यवर्ती ५ पृथ्वियोंमें अर्थात् दूसरीसे छठी पर्यन्त इसी प्रकार जानना चाहिए ।

सन्वत्थोवा मणुसगदि-उच्चागो० बंधगा जीवा । तिरिक्खायु-बंधगा जीवा असंखेज्ज-गुणा । पुरिसवे० बंधगा जीवा असंखेज्ज० । इत्थि० बंधगा जीवा संखेज्जगुणा । उवरि सो चेव भंगो । णवरि भिच्छत्त-बंधगा जीवा विसेसा० । धीणगिद्धितियं अणंताणुबंधिष्ठ तिरिक्खगदि-णीचागो० बंधगा जीवा सरिसा विसेसा० । सेसाणं बंधगा जीवा विसेसा० ।

३२८. तिरिक्खेसु-सन्वत्थोवा मणुसायु-बंधगा जीवा । णिरयायु-बंधगा जीवा असंखेज्ज० । देवायु-बंधगा जीवा असंखेज्ज० । देवगदि-बंधगा जीवा संखेज्ज० । णिरयगदि-बंधगा जीवा संखेज्ज० । वेउच्चियं बंधगा विसेसा० । तिरिक्खायु-बंधगा जीवा अणंतगुणा । उच्चागोदस्स बंधगा जीवा संखेज्ज० । मणुसगदि-बंधगा जीवा संखेज्ज० । पुरिस० बंधगा जीवा संखेज्ज० । इत्थि० बंधगा जीवा संखेज्ज० । जस० बंधगा जीवा संखेज्ज० । साद-हस्सरदि-बंधगा जीवा संखेज्ज० । असाद-अरदि-सोग-बंधगा जीवा संखेज्ज० । अज्जस० बंधगा जीवा विसेसा० । णवुंस० बंधगा जीवा विसेसा० । तिरिक्खगदि-बंधगा जीवा विसेसा० । णीचागो० बंधगा जीवा विसेसा० ।

विशेष, उच्चगोत्रके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं ।

विशेषार्थ—तार्थकर प्रकृतिके बन्धक तीसरी पृथ्वी पर्यन्त पाये जाते हैं, नीचे नहीं पाये जाते ।

सातवीं पृथ्वीमें-मनुष्यगति, उच्चगोत्रके बन्धक जीव सर्वस्तोक हैं । तिर्यचायुके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं ।

विशेषार्थ—सातवीं पृथ्वीमें मनुष्यायुका बन्ध नहीं होता है, “चरिमे मिच्छेव तिरियायाम्” (गो० क० १०६) । “लुट्ठोत्ति य मणुवाऊ ।” सातवीं पृथ्वीमें मिथ्यात्वगुणस्थानमें ही तिर्यचायुका बन्ध होता है । मनुष्यायुका छठी पृथ्वी तक बन्ध कहा है, इससे यहाँ मनुष्यायुका कथन नहीं किया गया है ।

पुरुषवेदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । स्त्रीवेदके बन्धक जीव संख्यातगुणे गुणे हैं । आगे इसी प्रकार संख्यातगुणे संख्यातगुणेका भंग है । विशेष यह है कि मिथ्यात्वके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । स्थानगुद्धितिक, अनन्तानुबन्धी ष्ठ, तिर्यचगति और नीच गोत्रके बन्धक जीव समान रूपसे विशेषाधिक हैं । शेष प्रकृतियोंके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं ।

३२८. तिर्यचोंमें - मनुष्यायुके बन्धक जीव सर्वस्तोक हैं । नरकायुके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । देवायुके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । देवगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । नरकगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । वैक्रियिक शरीरके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । तिर्यचायुके बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं । उच्च गोत्रके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । मनुष्यगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । पुरुषवेदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । स्त्रीवेदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । यशःकीर्तिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । साता-वेदनीय, हारय, रतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । असाना, अरति, शोकके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । अयशःकीर्तिके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । नपुंसकवेदके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । तिर्यचगतिके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । नीच गोत्रके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं ।

ओरालि० बंधगा जीवा विसेसा० । मिच्छत्त-बंधगा जीवा विसेसा० । थीणगिद्धि-तियं अणंताणुबंधि०४ बंधगा जीवा विसेसा० । अपच्चक्खाणा०४ बंधगा जीवा विसेसा० । सेसाणं पगदीणं बंधगा जीवा सरिसा विसेसाहिया । एवं पंचिदिय-तिरिक्ख० । णवरि असंखेज्जगुणं कादच्चं ।

३२६. पंचिदिय-तिरिक्ख-पज्जत्त-जोणिणीसु-सव्वत्थोवा मणुसायुबंधगा जीवा । णिरयायु-बंधगा जीवा असंखेज्जगु० । देवायु-बंधगा जीवा असंखेज्ज० । तिरिक्खायु-बंधगा जीवा संखेज्ज० । देवगदि-बंधगा जीवा संखेज्ज० । उच्चागोद बंधगा जीवा संखेज्ज० । मणुसगदि-बंधगा जीवा संखेज्ज० । पुरिस० बंधगा जीवा संखेज्ज० । इत्थिवे० बंधगा जीवा संखेज्ज० । जंस० बंधगा जीवा संखेज्ज० । साद-हस्स-रदि-बंधगा जीवा संखेज्ज० । तिरिक्खगदिबंधगा जीवा संखेज्ज० । ओरालि० बंधगा जीवा विसेसा० । णिरयगदि-बंधगा जीवा संखेज्जगुणा । वेउव्वि० बंधगा जीवा विसेसा० । असाद-अरदि-सोगबंधगा जीवा विसेसा० । अज्जस० बंधगा जीवा विसेसा० । णवुंस० बंधगा जीवा विसेसा० । णीचागो० बंधगा जी० विसेसा० । मिच्छत्त-बंधगा जीवा विसेसा० । थीणगिद्धितियं अणंताणुबंधि०४ बंधगा जीवा विसेसा० । अपच्चक्खाणा०४ बंधगा जीवा विसेसा० । सेसाणं पगदीणं बंधगा सरिसा विसेसा० । पंचिदिय-तिरिक्ख-अपज्जत्तगोसु-सव्वत्थोवा मणुसायु-बंधगा जीवा । तिरिक्खायु-बंधगा जीवा

औदारिक शरीरके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । मिथ्यात्वके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । स्त्यानगृद्धिचिक, अनन्तानुबन्धी ४ के बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । अप्रत्याख्यानावरण ४ के बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । शेष प्रकृतियोंके बन्धक जीव समान रूपसे विशेषाधिक हैं ।

पंचेन्द्रिय तिर्यचोंमें इसी प्रकार जानना चाहिए । विशेष, यहाँ असंख्यातगुणा क्रम करना चाहिए ।

३२६. पंचेन्द्रिय-तिर्यच-पर्याप्त, पंचेन्द्रिय-तिर्यच-योनिमतियोंमें - मनुष्यायुके बन्धक जीव सर्वस्वोक्त हैं । नरकायुके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । देवायुके बन्धक जीव असंख्यात-गुणे हैं । तिर्यचायुके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । देवगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । उच्च गोत्रके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । मनुष्यगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । पुरुष-वेदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । स्त्रीवेदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । यशःकीर्तिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । साता-वेदनीय, हास्य, रतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । तिर्यचगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । औदारिक शरीरके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । नरकगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । वैक्रियिक शरीरके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । असाता, अरति, शोकके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । अयशःकीर्तिके बन्धक जीव विशेषा-धिक हैं । नपुंसकवेदके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । नीच गोत्रके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । मिथ्यात्वके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । स्त्यानगृद्धिचिक, अनन्तानुबन्धी ४ के बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । अप्रत्याख्यानावरण ४ के बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । शेष प्रकृतियोंके बन्धक जीव समान रूपसे विशेषाधिक हैं ।

पंचेन्द्रिय तिर्यच लब्धपर्याप्तकोंमें मनुष्यायुके बन्धक जीव सर्वस्वोक्त हैं । तिर्यचायुके

असंखेज्जगु० । उच्चागो० बंधगा जीवा संखेज्जगु० । मणुसगदि-बंधगा जीवा संखेज्जगु० । पुरिस० बंधगा जीवा संखेज्जगु० । इत्थिवे० बंधगा जीवा संखेज्जगु० । जस० बंधगा जीवा संखेज्जगु० । सादहस्सरदि-बंधगा जीवा संखेज्जगु० । असाद-अरदि-सो० बंधगा जीवा संखेज्जगु० । अज्जस० बंधगा जीवा विसे० । णवुंस० बंधगा जीवा विसे० । तिरिक्खगदि-बंधगा जीवा विसे० । णीचागो० बंधगा जीवा विसे० । सेसाणं पगदीणं बंधगा सरिसा विसेसाहिया ।

३३०. मणुसेसु-सन्वत्थोवा आहार० बंधगा जीवा । [तित्थयर बंधगा जीवा] संखेज्जगुणा । णिरयायु-बंधगा जीवा संखेज्जगु० । देवायु-बंधगा जीवा संखेज्जगु० । देवगदि-बंधगा जीवा संखेज्जगु० । णिरयगदि-बंधगा जीवा संखेज्जगु० । वेउच्चि० बंधगा जीवा० विसे० । मणुसायु-बंधगा जीवा असंखेज्जगु० । तिरिक्खायु-बंधगा जीवा असंखेज्जगु० । उच्चागोद० बंधगा जीवा संखेज्जगु० । मणुसगदि-बंधगा जीवा संखेज्जगु० । पुरिस० बंधगा जीवा संखेज्जगु० । इत्थिवे० बंधगा जीवा संखेज्जगु० । जस० बंधगा जीवा संखेज्जगु० । हस्सरदि-बंधगा जीवा संखेज्जगु० । साद-बंधगा जीवा विसेसा० । असाद-अरदि-सोग-बंधगा जीवा संखेज्जगु० । अज्जस० बंधगा जीवा विसेसा० । णवुंस० बंधगा जीवा विसेसा० । तिरिक्खगदि-बंधगा जीवा विसे० । णीचागो० बंधगा जीवा विसे० । ओरालि० बंधगा जीवा विसेसा० । मिच्छ० बंधगा जीवा विसे० ।

बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उच्च गोत्रके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । मनुष्यगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । पुरुषवेदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । स्त्रीवेदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । यशःकीर्तिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । साता, हास्य, रतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । असाता, अरति, शोकके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । अयशःकीर्तिके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । नपुंसकवेदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । तिर्यचगतिके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । नीच गोत्रके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । शेष प्रकृतियोंके बन्धक जीव समान रूपसे विशेषाधिक हैं ।

३३०. मनुष्य गतिमें आहारक शरीरके बन्धक जीव सर्वस्तोक हैं । [तीर्थकरके बन्धक] संख्यातगुणे हैं । नरकायुके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । देवायुके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । देवगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । नरकगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । वैक्रियिक शरीरके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । मनुष्यायुके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । तिर्यचायुके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उच्च गोत्रके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । मनुष्यगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । पुरुषवेदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । स्त्रीवेदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । यशःकीर्तिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । हास्य, रतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । साता वेदनीयके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । असाता वेदनीय, अरति, शोकके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । अयशःकीर्तिके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । नपुंसकवेदके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । तिर्यचगतिके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । नीच गोत्रके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । औदारिक शरीरके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । मिथ्यात्वके

उवरि मूलोघं ।

३३१. मणुस-पञ्जत्त-मणुसिणीसु-सन्वत्थोवा आहार० बंधगा जीवा । तित्थय० बंधगा जीवा संखेज्जगु० । मणुसायुबंधगा जीवा संखेज्जगु० । णिरयायु-बंधगा जीवा संखेज्ज० । देवायु-बंधगा जीवा संखेज्जगु० । तिरिक्खायु-बंध० जीवा संखेज्जगु० । देवगदि-बंधगा जीवा संखेज्जगु० । उच्चागो० बंधगा जीवा संखेज्जगु० । मणुसगदि-बंधगा जीवा संखेज्ज० । पुरिस० बंधगा संखेज्ज० । इत्थि० बंधगा जीवा संखेज्ज० । जस० बंधगा जीवा संखेज्ज० । हस्सरदि-बंधगा जीवा संखेज्ज० । साद-बंधगा जीवा विसे० । तिरिक्खगदि-बंधगा जीवा संखेज्ज० । ओरालि० बंधगा जीवा विसे० । णिरयगदि-बंधगा जीवा संखेज्ज० । वेउन्वि० बंधगा जीवा विसे० । असाद-अरदि-सोगबंधगा जीवा विसे० । अज्जस० बंधगा जीवा विसे० । णवुंस० बंधगा जीवा विसे० । णीचागो० बंधगा जीवा विसे० । मिच्छत्तबंधगा जीवा विसे० । उवरि मूलोघं । मणुस-अपञ्जत्त-पंचिदिय-तिरिक्ख-अपञ्जत्तभंगो ।

३३२. देवेषु सन्वत्थोवा मणुसायु-बंधगा जीवा । तित्थय० बंधगा जीवा असंखेज्जगु० । तिरिक्खायु-बंधगा असंखेज्ज० । उच्चागो० बंधगा जीवा संखेज्ज० ।

बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । आगेकी प्रकृतियोंमें अर्थान् स्त्यानगृद्धित्रिक, अनन्तानुबन्धी ४, अप्रत्याख्यानावरण ४, प्रत्याख्यानावरण ४, निद्रा, प्रचला, तैजस, कर्मण, भय, जुगुप्सा, संव्वलन-क्रोध मान माया लोभ, ५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, ५ अन्तराय मूलके ओषवत् जानना चाहिए ।

३३१. मनुष्यपर्याप्तक, मनुष्यनियोंमें आहारक शरीरके बन्धक सर्वस्तोक हैं । तीर्थकर प्रकृतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । मनुष्यायुके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । नरकायुके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । देवायुके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । तिर्यचायुके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । देवगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । उच्च गोत्रके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । मनुष्यगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । पुरुषवेदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । स्त्रीवेदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । यशःकीतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । हास्य, रतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । सातावेदनीयके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । तिर्यचगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । औदारिक शरीरके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । नरकगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । वैक्रियिक शरीरके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । असाता, अरति, शोकके बन्धक विशेष अधिक हैं । अयशःकीतिके बन्धक विशेषाधिक हैं । नपुंसकवेदके बन्धक विशेषाधिक हैं । नीच गोत्रके बन्धक विशेषाधिक हैं । मिथ्यात्वके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं ।

आगेकी प्रकृतियोंमें अर्थान् ज्ञानावरण ५, दर्शनावरण ४, अन्तराय ५, स्त्यानगृद्धित्रिक, अनन्तानुबन्धी ४ आदिमें मूलके ओषवत् जानना चाहिए ।

मनुष्यलब्धपर्याप्तकोंमें - पंचेन्द्रियतिर्यच अपर्याप्तकके समान भंग है ।

३३२. देवोंमें - मनुष्यायुके बन्धक जीव सर्वस्तोक हैं । तीर्थकर प्रकृतिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । तिर्यचायुके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उच्च गोत्रके बन्धक जीव

मणुसगदि-बंधगा जीवा संखेज्जगु० । पुरिस० बंधगा जीवा संखेज्जगु० । इत्थि० बं
 जी० संखे० । साद-हस्स-रदि-जसगि० बंधगा सरिसा संखेज्जगु० । असाद-अरदि-सोग-
 अज्जसगि० बंधगा जीवा सरिसा संखेज्जगु० । णवुंस० बंधगा जीवा विसे० ।
 तिरिक्खगदि-बंधगा जीवा विसेसा० । णीचागो० बंधगा जीवा विसे० । मिच्छ०
 बंधगा जीवा विसेसा० । थीणगिद्धि३ अणंताणुवं०४ बंधगा जीवा विसे० । सेसाणं
 बंधगा जीवा सरिसा विसे० । एवं मवण० याव ईसाणत्ति । णवरि जोदिसियसोधम्मी-
 साणे उच्चागोदस्स बंधगा जीवा असंखेज्ज० । सणक्कुमार याव सहस्सारत्ति
 विदियपुढविभंगो । आणद याव उवरिमगेवजात्ति सच्चत्थोवा मणुसायुबंधगा जीवा ।
 इत्थिवे० बंधगा जीवा असंखेज्ज० । णवुंस० बंधगा जीवा संखेज्जगु० । णीचागो०
 बंधगा जीवा विसे० । मिच्छन्नबंधगा जी० विसे० । थीणगिद्धि-तिय० अणंताणुवं०४
 बंधगा जीवा विसे० । साद-हस्स-रदि-जसगि० बंधगा जीवा संखेज्जगु० । असाद-अरति-
 सोग-अज्ज० बंधगा जीवा संखेज्जगु० । उच्चागो० बंधगा जीवा विसे० । पुरिसवे० बंधगा
 जीवा विसे० । सेसाणं बंधगा जीवा सरिसा विसेसा० । अणुद्दिस-अणुत्तर० सच्चत्थोवा
 मणुसायु-बंधगा जीवा । साद-हस्स-रदि-जसगि० बंधगा जीवा असंखेज्ज० । असाद-
 अरदि-सोग-अज्जस० बंधगा जीवा संखेज्जगु० । सेसाणं बंधगा जीवा सरिसा विसेसा० ।

संख्यातगुणे हैं । मनुष्यगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । पुरुषवेदके बन्धक जीव संख्यात-
 गुणे हैं । स्त्रीवेदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । साता, हास्य, रति, यशःकीर्तिके बन्धक
 जीव समान रूपसे संख्यातगुणे हैं । असाता, अरति, शोक, अयशःकीर्तिके बन्धक जीव
 समान रूपसे संख्यातगुणे हैं । नपुंसकवेदके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । तिर्यचगतिके
 बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । नीच गोत्रके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । मिथ्यात्वके बन्धक
 जीव विशेषाधिक हैं । स्त्यानगृद्धि ३, अनन्तानुबन्धी ४ के बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । शेष
 प्रकृतियोंके अर्थात् अप्रत्याख्यानावरणादिके बन्धक जीव समान रूपसे विशेषाधिक हैं ।

भवनवासियोंसे ईशान स्वर्गपर्यन्त इसी प्रकार जानना चाहिए ।

विशेष यह है कि ज्योतिष्कदेव तथा सौधर्म, ईशान स्वर्गवासियोंमें उच्चगोत्रके बन्धक
 जीव असंख्यातगुणे हैं ।

सनत्कुमारसे सहस्सार स्वर्ग तक दूसरे नरकके समान भंग जानना चाहिए ।

आनतसे उपरिम ध्रैवेयक तक मनुष्यायुके बन्धक जीव सर्वस्तोक हैं । स्त्रीवेदके बन्धक
 जीव असंख्यातगुणे हैं । नपुंसकवेदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । नीच गोत्रके बन्धक जीव
 विशेष अधिक हैं । मिथ्यात्वके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । स्त्यानगृद्धित्रिक, अनन्ता-
 नुबन्धी ४ के बन्धक विशेषाधिक हैं । साता, हास्य, रति, यशःकीर्तिके बन्धक जीव संख्यात-
 गुणे हैं । असाता, अरति, शोक, अयशःकीर्तिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । उच्च गोत्रके
 बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । पुरुषवेदके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । शेष प्रकृतियोंके बन्धक
 जीव समान रूपसे विशेष अधिक हैं ।

अनुदिश-अनुत्तरवासी देवोंमें - मनुष्यायुके बन्धक जीव सर्वस्तोक हैं । साता, हास्य,
 रति, यशःकीर्तिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । असाता, अरति, शोक, अयशःकीर्तिके

एवं सव्वहे । णवरि संखेज्जगुणं कादव्वं ।

३३३. सव्वएइंदिय-सव्वविगल्लिंदिय-सव्वपंचकायाणं पंचिंदियतस-अपज्जत्ताणं च पंचिंदिय-तिरिक्ख-अपज्जत्तभंगो । णवरि एइंदियवणप्फदिग्गिगोदेसु तिरिक्खायु-बंधगा जीवा अणंतगुणा । तेउ-वाउ०-मणुसगदि-मणुसाणुपु० उच्चागो० बंधगा जीवा णत्थि । पंचिंदिय-तसाणं मूलोघं । णवरि तिरिक्खायु-बंधगा जीवा असंखेज्जगुणा । पंचिंदिय-पज्जत्तगेसु-सव्वत्थोवा आहार-बंधगा जीवा । मणुसायु-बंधगा जीवा असंखेज्जगुणा । गिरयायुबंधगा जीवा असंखेज्ज० । देवायु-बंधगा जीवा असंखेज्ज० । तिरिक्खायुबंधगा जीवा संखेज्ज० । देवगदिबंधगा जीवा संखेज्जगु० । उच्चागो० बंधगा जीवा संखेज्ज० । मणुसग० बंधगा जीवा संखेज्जगु० । पुरिसवे० बंधगा जीवा

बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । शेष प्रकृतियोंके बन्धक जीव समान रूपसे विशेष अधिक हैं ।

सर्वार्थसिद्धिमें ऐसा ही जानना चाहिए । विशेष, वहाँ 'संख्यातगुणे' क्रमकी योजना करनी चाहिए ।

विशेषार्थ—सर्वार्थसिद्धिके देवोंकी संख्या संख्यात कही गयी है अतः यहाँ बन्धकोंमें संख्यातगुणे क्रमकी योजनाका कथन किया गया है । खुहाबन्ध टीकामें लिखा है मनुष्यनियोंसे सर्वार्थसिद्धिवासी देव संख्यातगुणे हैं । धवलाटीकाकार लिखते हैं : "गुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार है । कोई आचार्य सात रूप, कोई चार रूप और कितने ही आचार्य सामान्य रूपसे संख्यात गुणकार कहते हैं । इससे यहाँ गुणकारके विषयमें तीन उपदेश हैं । तीनोंके मध्यमें एक ही जात्य (श्रेष्ठ) हैं परन्तु वह जाना नहीं जाता, कारण इस विषयमें विशिष्ट उपदेशका अभाव है । इस कारण तीनोंका ही संग्रह करना चाहिए । (अप्पाचहुगाणुग महादण्डक पृ० ५७७) ।

३३३. सर्व एकेन्द्रिय, सर्व विकलेन्द्रिय, सर्व पंचकायवालोंमें पंचेन्द्रिय तथा त्रसके लब्धपर्याप्तकोंमें - पंचेन्द्रिय तिर्यच लब्धपर्याप्तके समान भंग जानना चाहिए । विशेष, एकेन्द्रिय वनस्पति निगोद जीवोंमें तिर्यवायुके बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं ।

तेजकाय वायुकायमें - मनुष्यायु, मनुष्यगति, मनुष्यानुपूर्वी, उच्च गोत्रके बन्धक जीव नहीं हैं ।^१

पंचेन्द्रिय तथा त्रसोंमें - मूलके ओषधत् जानना चाहिए । विशेष यह है कि तिर्यचायुके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं ।

पंचेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें - आहारक शरीरके बन्धक जीव सर्वस्तोक हैं । मनुष्यायुके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । नरकायुके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । देवायुके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । तिर्यचायुके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । देवगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । उच्च गोत्रके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । मनुष्यगतिके बन्धक जीव

१. "को गुणकारो ? संखेज्जसमया । के वि आयरिया सत्तह्वाणि के वि पुण चत्तारि ह्वाणि, के वि सामण्णेण संखेज्जाणि ह्वाणि गुणगारो त्ति भणति । तेणेत्यगुणगारे तिण्णि उवएस । तिण्णं मज्जे एक्कोच्चिचप अच्चोवएसो, सो विण णव्वह, विसिट्ठोवएसभावावो । तम्हा तिण्हं पि संगहो कायव्वो " -पृ० ५७७ ।

२. "मणुवदुग्गं मणुव्वाऊ उच्चं णहि तेउवाउत्थि ॥ -गो० क० २१४ ।

संखेज्ज० । इत्थिवे० बंधगा जीवा संखेज्ज० । जस० बंधगा जीवा संखे० गु० । हस्सरदिबंधगा जीवा संखेज्ज० । साद०-बंधगा जीवा विसेसा० । तिरिक्खगदिबंधगा जीवा संखेज्ज० । ओरालि० बंधगा जीवा विसे० । गिरयगदिबंधगा जीवा संखेज्ज० । वेउव्विय० बंधगा जीवा विसे० । असाद-अरदि-सोग-बंधगा जीवा विसे० । अज्ज० बंधगा जीवा विसे० । णवुंस० बंधगा जीवा विसे० । णीचागो० बंधगा जीवा विसे० । मिच्छत्तबंधगा जीवा विसे० । सेसं मूलोपं ।

३३४. तस-पज्जत्तमेसु-सव्वत्थोवा आहार० बंधगा जीवा । मणुसायुबंधगा जीवा असंखेज्ज० । गिरयायुबंधगा जीवा असं० गु० । देवायुबंधगा जीवा असंखेज्ज० । तिरिक्खायुबंधगा जीवा संखे० गु० । देवगदिबंधगा जीवा संखेज्जगु० । उच्चागो० बंधगा जीवा संखेज्जगु० । मणुसगदिबंधगा जीवा संखेज्ज० । पुरिस० बंधगा जीवा संखेज्ज० । इत्थिवे० बंधगा जीवा संखे० गु० । जस० बंधगा जीवा संखे० गु० । हस्सरदिबंधगा जीवा सं० गु० । सादबंधगा जीवा विसे० । गिरयगदिबंधगा जीवा संखेज्जगु० । वेउव्विय० बंधगा जीवा विसे० । तिरिक्खगदिबंधगा जीवा संखेज्जगु० । ओरालिय० बंधगा जीवा विसे० । असाद-अरदि-सोगबंधगा जीवा विसे० । अज्ज० बंधगा जीवा विसेसा० । णवुंस० बंधगा जीवा विसे० । णीचागो० बंधगा जीवा विसे० । मिच्छत्त० अबंधगा (बंधगा) जीवा विसे० । सेसं मूलोपं ।

संख्यातगुणे हैं । पुरुषवेदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । स्त्रीवेदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । यशःकीर्तिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । हास्य रतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । साता वेदनीयके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । तिर्यचगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । औदारिक शरीरके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । नरकगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । वैक्रियिक शरीरके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । असाता, अरति, शोकके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । अयशःकीर्तिके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । नपुंसकवेदके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । नीच गोत्रके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । मिथ्यात्वके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । शेष प्रकृतियोंमें मूलके ओघवत् जानना चाहिए ।

३३४. त्रसपर्याप्रकोमें - आहारक शरीरके बन्धक जीव सर्वस्तोक हैं । मनुष्यायुके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । नरकायुके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । देवायुके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । तिर्यचायुके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । देवगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । उच्चगोत्रके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । मनुष्यगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । पुरुषवेदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । स्त्रीवेदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । यशःकीर्तिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । हास्य, रतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । साता-वेदनीयके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । नरकगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । वैक्रियिक शरीरके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । तिर्यचगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । औदारिक शरीरके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । असाता, अरति, शोकके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । अयशःकीर्तिके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । नपुंसकवेदके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । नीच गोत्रके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । मिथ्यात्वके अबन्धक (?) जीव विशेषाधिक हैं । शेष

३३५. पंचमण० तिण्णिवचि०—सव्वत्थोवा आहार० बंधगा जीवा । मणुसायु-
 बंधगा जीवा असंखेज्ज० । गिरयायुबंधगा जीवा असं० गु० । देवायुबंधगा जीवा
 असंखेज्ज० । गिरयगदि-बंधगा जीवा संखेज्ज० । तिरिक्खायुबंधगा जीवा असंखेज्ज० ।
 देवगदिबंधगा जीवा संखेज्जगु० । वेउव्विय० बंधगा जीवा विसे० । उच्चागो० बंधगा
 जीवा संखेज्ज० । मणुसग० बंधगा जीवा संखेज्ज० । पुरिस० बंधगा जीवा संखेज्ज० ।
 इत्थिवे० बंधगा जीवा संखेज्जगु० । जस० बंधगा जीवा संखेज्ज० । हस्सरदि-बंधगा
 जीवा संखेज्जगु०, अथवा विसेसाहिंमं । साद-बंधगा जीवा विसे० । असाद-अरदि-सो०
 बंधगा जीवा संखेज्जगु० । अज्ज० बंधगा जीवा विसे० । णवुंस० बंधगा जीवा विसे० ।
 तिरिक्खगदिबंधगा जीवा विसे० । णीचागोद० बंधगा जीवा विसे० । ओरालि०
 बंधगा जीवा विसे० । मिच्छ० बंधगा जीवा विसे० । उवरि ओघभंगो । वचिजोगि-
 असच्चमोस०-तसपज्जत्तभंगो । काजोगि-ओरालिय-काजोगि-ओघभंगो । ओरालिय-
 मिस्से—सव्वत्थोवा देवगदि-वेगुव्वि० बंधगा जीवा । मणुसायु-बंधगा जीवा
 असंखेज्ज० । तिरिक्खायु-बंधगा जीवा अणंतगुणा । उच्चागो० बंधगा जीवा
 संखेज्ज० । मणुसगदि-बंधगा जीवा संखेज्ज० । पुरिसवे० बंधगा जीवा संखेज्जगुणा ।

प्रकृतियोंमें मूलोघवत् जानना चाहिए ।

विशेष—यहाँ मिथ्यात्वके अबन्धकके स्थानमें बन्धक पाठ उपयुक्त प्रतीत होता है ।

३३५. पाँच मन, तीन वचनयोगमें—आहारक शरीरके बन्धक जीव सबसे स्तोके हैं ।
 मनुष्यायुके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । नरकायुके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । देवायु-
 के बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । नरकगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । तिर्यचायुके
 बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । देवगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । वैक्रियिक शरीरके
 बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । उच्च गोत्रके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । मनुष्यगतिके बन्धक
 जीव संख्यातगुणे हैं । पुरुषवेदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । स्त्रीवेदके बन्धक जीव
 संख्यातगुणे हैं । यशःकीर्तिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । हास्य, रतिके बन्धक जीव
 संख्यातगुणे हैं अथवा विशेषाधिक हैं । साता वेदनीयके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं ।
 असाता, अरति, शोकके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । अयशःकीर्तिके बन्धक जीव विशेषाधिक
 हैं । नपुंसकवेदके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । तिर्यचगतिके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं ।
 नीच गोत्रके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । औदारिक शरीरके बन्धक जीव विशेषाधिक
 हैं । मिथ्यात्वके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । अवशेष आगेकी प्रकृतियोंमें ओघवत्
 जानना चाहिए ।

वचनयोगी, असत्यमृषा अर्थात् अनुभयवचनयोगीमें—त्रसपर्याप्तकके समान भंग हैं ।

काययोगी, औदारिक काययोगीमें ओघभंग है ।

औदारिक मिश्र काययोगीमें—देवगति, वैक्रियिक शरीरके बन्धक जीव सर्वस्तोके
 हैं । मनुष्यायुके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । तिर्यचायुके बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं ।
 उच्च गोत्रके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । मनुष्यगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । पुरुष-

इत्थिवे० । धगा जीवा संखेज्ज० । जस० बंधगा जीवा संखेज्जगु० । हस्सरदिबंधगा जीवा संखेज्ज० । साद-बंधगा जीवा विसे० । असाद-अरदि-सो० बंधगा जीवा संखेज्ज० । अज्ज० बंधगा जीवा विसे० । णवुंस० बंधगा जीवा विसेसा० । तिरिक्खगदि-बंधगा जीवा विसेसा० । णीचागो० बंधगा जीवा विसे० । मिच्छत्त० बंधगा जीवा विसेसा० । थोणगिद्धि३ अणंताणुबंधि०४ ओरालि० बंधगा जीवा विसेसा० । सेसाणं बंधगा सरिसा विसेसा० । वेउन्विय-काजो०, वेउन्वियमि०-देवोषं । णवरि मिस्से आयुगं णत्थि । आहार० आहारमिस्स०—सव्वत्थोवा तित्थयरबंधगा जीवा । देवायु-बंधगा जीवा संखेज्जगुणा । साद-हस्सरदि-जसगिति-बंधगा जीवा संखेज्जगुणा । असाद-अरदि-सोग-अज्जसगितिबंधगा जीवा संखेज्जगुणा । सेसाणं बंधगा सरिसा विसेसाहिया । कम्मइगका० सव्वत्थोवा देवगदि-वेउन्विय० बंधगा जीवा । उच्चागो० बंधगा जीवा अणंतगुणा । मणुसग० बंधगा जीवा संखे० गुणा । पुरिस० बंध० जीवा

वेदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । स्त्रीवेदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । यशःकीर्तिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । हास्य, रतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । साताके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । असाता, अरति, शोकके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । अयशःकीर्तिके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । नपुंसकवेदके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । तिर्यचगतिके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । नीच गोत्रके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । मिथ्यात्वके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । स्थानगृह्णिक, अनन्तानुबन्धी ४ तथा औदारिक शरीरके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । शेष प्रकृतिके बन्धक जीवोंमें समान रूपसे विशेष अधिकका क्रम है ।

वैक्रियिककाययोगी, वैक्रियिक मिश्रकाययोगियोंमें देवोंके ओघवत् जानना चाहिए । विशेष, वैक्रियिकमिश्र काययोगमें आयुका बन्ध नहीं है ।

विशेषार्थ—वैक्रियिक मिश्रकाययोगमें नरकायु तथा देवायुका बन्ध निषिद्ध है, कारण देव तथा नारकी मरण कर देव तथा नारकी अवस्थाको नहीं बाँधते हैं । वैक्रियिक मिश्रकाययोगमें “देवे वा वेगुवे मिस्से णरतिरियाउगं णत्थि” (गो० क०, ११८) के नियमानुसार मनुष्यायु तथा तिर्यचायुका भी बन्ध नहीं होता है । इससे यहाँ आयुबन्धका निषेध किया है ।

आहारक, आहारक मिश्रकाययोगियोंमें - तीर्थकरके बन्धक सर्वस्तोक हैं । देवायुके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । साता, हास्य, रति, यशःकीर्तिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । असाता, अरति, शोक, अयशःकीर्तिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । शेष प्रकृतियोंके बन्धक जीव समान रूपसे विशेषाधिक हैं ।

विशेषार्थ—आहारक तथा आहारक मिश्रकाययोगियोंमें इतना अन्तर है कि आहारक काययोगीके देवायुका बन्ध होता है, किन्तु आहारक मिश्रकाययोगियोंमें देवायुका बन्ध नहीं होता । गोमटसार कर्मकाण्डमें लिखा है, “छद्गुणं वाहारे तम्मिस्से णत्थि देवाउ ।” (गाथा ११८) ।

कार्मण काययोगियोंमें - देवगति, वैक्रियिक शरीरके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उच्च गोत्रके बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं । मनुष्यगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । पुरुष-

संखेज्जगुणा । इत्थिवे० बंधगा जीवा संखेज्जगु० । जस० बंधगा जीवा संखेज्जगुणा । हस्सरदि-बंधगा जीवा संखेज्जगुणा । साद-बंधगा जीवा विसेसा० । असाद-अरदि-सो० बंधगा जीवा संखेज्जगु० । अज्ज० बंधगा जीवा विसेसा० । णवुंस० बंधगा जीवा विसेसा० । तिरिक्खगदि-बंधगा जीवा विसेसा० । णीचागो० बंधगा जीवा विसेसा० । मिच्छत्तबंधगा जीवा विसेसा० । थीणगिद्धि३ अणंताणुबंधं०४ बंधगा जीवा विसेसा० । ओरालि० बंधगा जीवा विसेसा० । सेसाणं बंधगा जीवा सरिसा विसेसा० ।

३३६. इत्थिवे० पुरिस०-संव्वत्थोवा आहार० बंधगा जीवा । मणुसायु-बंधगा जीवा असंखेज्ज० । णिरयायु-बंधगा जीवा असंखेज्ज० । देवायु-बंधगा जीवा असंखेज्ज० । तिरिक्खायुबंधगा जीवा संखेज्ज० । देवगदि-बंधगा जी० संखेज्जगु० । णिरयगदि-बंधगा जीवा संखे० गुणा । वेउव्विय-बंधगा जी० विसेसा० । उच्चागो० बंधगा जीवा संखेज्जगु० । मणुसगदि० बंधगा जीवा संखेज्जगु० । पुरिसवे० बंधगा जीवा संखे० गुणा । इत्थिवे० बंधगा जीवा संखेज्जगु० । जस० बंधगा जीवा संखे० गुणा । हस्सरदि-बंधगा जीवा संखेज्जगु० । अथवा हस्सरदि० बंधगा जीवा विसेसा० । साद-बंधगा जीवा विसेसा० । असाद-अरदि-सो०-बंधगा जीवा संखे० गुणा । अज्ज० बंधगा जीवा

वेदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । स्त्रीवेदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । यशःकीर्तिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । हास्य, रतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । सातावेदनीयके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । असाता, अरति, शोकके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । अयशः-कीर्तिके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । नरुंसकवेदके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । तिर्यंच गतिके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । नीच गोत्रके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । मिथ्यात्वके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । स्थानगृद्धिचक्र तथा अनन्तानुबन्धी ४ के बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । औदारिक शरीरके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । शेष प्रकृतियोंके बन्धक जीव समान रूपसे विशेषाधिक हैं ।

विशेषार्थ— कार्मणकाययोगमें आयुचतुष्कका बन्ध नहीं होता, इससे यहाँ आयु-बन्धका वर्णन नहीं किया गया है । कहा भी है—“कम्मे उरालमिस्सं वा णाउदुग्गेपि ।” (गो० क०, ११६) ।

३३६. स्त्रीवेद, पुरुषवेदमें - आहारक शरीरके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । मनुष्यायु-के बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । नरकायुके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । देवायुके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । तिर्यंचायुके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । देवगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । नरकगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । वैक्रियिक शरीरके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । उच्च गोत्रके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । मनुष्यगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । पुरुषवेदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । स्त्रीवेदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । यशःकीर्तिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । हास्य, रतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । अथवा हास्य, रतिके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । साताके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । असाता, अरति, शोकके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । अयशःकीर्तिके बन्धक जीव विशेषा-

विसेसा० । णवुंस० बंधगा जीवा विसे० । निग्गिखगदि-बंधगा जीवा विसेसा० ।
 णीचागोद-बंधगा जीवा विसेसा० । ओरालि० बंधगा जीवा विसेसा० । मिच्छत्तबंधगा
 जीवा विसेसा० । थीणगिद्वि३ अणंताणुबंधि०४ बंधगा जीवा विसेसा० । अपच्च-
 क्खाणा०४ बंध० जीवा विसेसा० । पच्चक्खाणा०४ बंधगा जीवा विसेसा० ।
 णिहापचलाणं बंधगा जी० विसे० । तेजाक० बंधगा जी० विसे० । भयदु० बंधगा
 जीवा विसे० । सेसाणं बंधगा सरिसा विसेसा० । णवुंसगवे०—मूलोघं । णवरि
 भयदुगुच्छादो उवरि तुल्ला विसेसा० ।

३३७. अवगदवे०—सव्वत्थोवा क्रोध-संज० बंधगा जीवा । माणसंज० बंधगा
 जीवा विसेसा० । माया-संज० बंधगा जीवा विसे० । लोभ-संज० बंधगा जीवा विसे० ।
 पंचणा० चदुदंस० जस० उच्चागो० पंचंत० बंधगा जीवा विसेसा० । साद-बंधगा
 जीवा संखेज्ज० । कसायाणुवादेण—क्रोधादि०४ याव भयदुगुं० ताव मूलोघं । उवरिं
 साधेदूण भाणिदव्वं ।

३३८. मदि० सुद०—तिरिक्खोघं । णवरि मिच्छत्त-बंधगा जीवा विसेसा० ।

धिक हैं । नपुंसकवेदके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । तिर्यग्गदिके बन्धक जीव विशेषाधिक
 हैं । नीच गोत्रके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । औदारिक शरीरके बन्धक जीव विशेषाधिक
 हैं । मिथ्यात्वके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । स्नानगृद्धि ३, अन्तानुबन्धी ४ के बन्धक
 जीव विशेषाधिक हैं । अप्रत्याख्यानावरण ४ के बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । प्रत्याख्याना-
 वरण ४ के बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । निद्रा, प्रचलाके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं ।
 तैजस, कामेण के बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । भय, जुगुप्साके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं ।
 शेष प्रकृतियोंके बन्धक जीव समान रूपसे विशेषाधिक हैं ।

विशेष—यहाँ हास्य, रतिके बन्धक जीवोंको संख्यातगुण कहा है अथवा कहकर
 उनके बन्धकोंको विशेषाधिक कहा है । यह कथन भिन्न परस्वराओंको सूचित करता है । पाँच
 मनोयोगी तथा तीन वचनयोगी जीवोंमें भी इसी प्रकार हास्य-रतिके विषयमें कथन
 किया गया है ।

नपुंसकवेदमें मूलके ओघवन् जानना चाहिए । विशेष, भय, जुगुप्साके आगेकी
 प्रकृतियोंमें अर्थात् संज्वलन क्रोधादि ४ ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अन्तरायमें समान रूपसे
 विशेषाधिकता है ।

३३७. अपगतवेदमें—क्रोध-संज्वलनके बन्धक जीव सर्वस्तोक हैं । मान-संज्वलनके
 बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । माया-संज्वलनके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । लोभ-संज्वलनके
 बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । ५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, यज्ञःकीर्त्ति, उच्च गोत्र तथा ५
 अन्तरायोंके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । मानावेदनीयके बन्धक जीव संख्यातगुण हैं ।

कषायानुवादसे—क्रोधादि ४ से लेकर भय, जुगुप्सापर्यन्त मूलके ओघवन् कथन है ।
 आगेकी प्रकृतियोंका अल्पबहुत्व योग्य रीतिसे निकाल लेना चाहिए ।

३३८. मत्यज्ञान-श्रुताज्ञानमें तिर्यचोंके ओघवन् जानना चाहिए । विशेष, मिथ्यात्वके

सेसाणं बंधगा जीवा सरिसा विसेसा० । विभंगे—सन्वत्थोवा मणुसायु-बंधगा जीवा । गिरयायु-बंधगा जीवा असंखे० । देवायु-बंधगा जीवा असंखेज्ज० । गिरयगदि-बंधगा जीवा संखेज्ज० । देवगदि-बंधगा जीवा संखेज्ज० । वेउव्विय० बंधगा जी० विसेसा० । तिरिक्खायु-बंधगा जी० असंखेज्ज० । उच्चामो० बंधगा जीवा संखेज्जगु० । मणुसगदि-बंधगा जीवा संखेज्जगु० । पुरिसवे० बंधगा जीवा संखे० गुणा । इत्थिवे० बंधगा जी० संखे० गुणा । जस० बंधगा [जीवा] संखेज्जगु० । साद-हस्स-रदि-बंधगा जीवा विसेसा० । असाद-अरदि-सो० बंधगा जीवा संखेज्जगु० । अज्ज० बंधगा जीवा विसेसा० णवुंस० बंधगा जीवा विसे० । तिरिक्खगदि-बंधगा जी० विसे० । णीचामोद० बंधगा जीवा विसे० । ओरालि बंधगा जीवा विसे० । मिच्छत्तबंधगा जीवा विसे० । सेसाणं बंधगा सरिसा विसेसा० ।

३३६. आभि० सुद० आंधि०—सन्वत्थोवा आहारस० बंधगा जीवा । मणु-सायु-बंधगा जीवा संखेज्जगु० । देवायु-बंधगा जीवा असंखेज्ज० । देवगदिवेउव्वि० बंधगा जीवा असंखेज्ज० । हस्स-रदि-बंधगा जी० असं० गुणा । जस० बंधगा जीवा विसेसा० । साद-बंधगा जीवा विसे० । असाद-अरदि-सोग-अज्जस० बंधगा जीवा संखेज्जगुणा । मणुसगदि-ओरालि० बंधगा जीवा विसेसा० । अपच्चक्खाणा०४ बंधगा जीवा विसेसा० । पच्चक्खाणा०४ बंधगा जीवा विसेसा० । णिहापचत्ता-बंधगा

बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । शेषके बन्धक जीव समान रूपसे विशेषाधिक हैं ।

विभंगावधिमें—मनुष्यायुके बन्धक जीव सर्वस्तोक हैं । नरकायुके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । देवायुके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । नरकगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । देवगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । वैक्रियिक शरीरके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । तिर्यचायुके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उच्चगोत्रके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । मनुष्यगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । पुरुषवेदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । स्त्रीवेदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । यशःकीर्तिके बन्धक [जीव] संख्यातगुणे हैं । साता, हास्य, रतिके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । असाता, अरति, शोकके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । अयशःकीर्तिके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । नपुंसकवेदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । तिर्यचगतिके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । नीच गोत्रके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । औदारिक शरीरके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । मिथ्यात्वके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । शेष प्रकृतियोंके बन्धक जीव समान रूपसे विशेषाधिक हैं ।

३३६. आभिनिबोधिक-श्रुद-अवधि-ज्ञानमें—आहारक शरीरके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । मनुष्यायुके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । देवायुके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । देवगति, वैक्रियिक शरीरके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । हास्य, रतिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । यशःकीर्तिके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । साता वेदनीयके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । असाता, अरति, शोक, अयशःकीर्तिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । मनुष्यगति, औदारिक शरीरके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । अप्रत्याख्यानावरण ४ के बन्धक जीव विशेषाधिक हैं ।

जीवा विसेसा० । तेजाक० बंधगा जीवा विसेसा० । भयदु० बंधगा जीवा विसे० । पुरिसवे० बंधगा जीवा विसे० । क्रोधसंज० बंधगा जीवा विसेसाहिया । माणसं० बंधगा जीवा विसेसा० । मायासं० बंधगा जीवा विसे० । लोभसं० बंधगा जीवा विसे० । पंचणा० चदुदंस० उच्चागो० पंचंत० बंधगा जीवा विसे० । मणपज्व०—सव्वत्थोवा आहार० बंधगा जीवा । देवायु-बंधगा जीवा संखेज्जगुणा । हस्स-रदि-बंधगा जीवा संखेज्जगु० । जस० बंधगा जीवा विसे० । सादबंधगा जीवा विसे० । असाद-अरदि-सोग-अज्ज० बंधगा जीवा संखेज्जगुणा । णिहा-पचला-बंधगा जीवा विसे० । देवगदि-वेउव्विय० तेजाक० बंधगा जीवा विसे० । पुरिसवे० बंधगा जीवा विसे० । क्रोधसंज० बंधगा जीवा विसे० । माणसं० बंधगा जीवा विसे० । मायासं० बंधगा जीवा विसे० । लोभसं० बंधगा जीवा विसेसा० । पंचणा० चदुदंस० उच्चागो० पंचंत० बंधगा जीवा विसे० ।

३४०. एवं संजद-सामाइ० छेदो० । णवरि याव मायासंजलणं ताव मणपज्जव-भंगो । उवरि सेसाणं बंधगा सरिसा विसेसाहिया ।

प्रत्याख्यानावरण ४ के बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । निद्रा, प्रचलाके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । तैजस, कार्मण के बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । भय-जुगुप्साके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । पुरुषवेदके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । क्रोधसंज्वलनके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । मानसंज्वलनके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । मायासंज्वलनके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । लोभसंज्वलनके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । ५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, उच्चगोत्र, ५ अन्तरायके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं ।

मनःपर्ययज्ञानमें—आहारकशरीरके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं ।

विशेषार्थ—यहाँ मनःपर्ययज्ञानमें आहारक शरीरके बन्धकका कथन किया गया है, कारण मनःपर्ययज्ञान तथा आहारकद्विकके बन्धका विरोध नहीं है, इनके उदयका विरोध है । गो० क० की टीकामें लिखा है—अत्र (मनःपर्ययज्ञाने) आहारकद्वयोदय एव विरुध्यते (पृ० ११२, सं० टीका)

देवायुके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । हास्य, रतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । यशःकीर्तिके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । साताके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । असाता, अरति, शोक, अयशःकीर्तिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । निद्रा, प्रचलाके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । देवगति, वैक्रियिक तैजस कार्मण शरीरके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । पुरुषवेदके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । क्रोध संज्वलनके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । मानसंज्वलनके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । मायासंज्वलनके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । लोभसंज्वलनके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । ५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, उच्चगोत्र, ५ अन्तरायके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं ।

३४०. संयम, सामायिक छेदोपस्थाना संयममें इसी प्रकार हैं । विशेष, मायासंज्वलन-पर्यन्त मनःपर्ययके समान भंग है । आगेकी शेष प्रकृतियोंके बन्धक जीवोंमें सदृश रूपसे विशेषाधिकता है ।

३४१. परिहारे—सव्वत्थोवा देवायुबंधगा जीवा । आहार० बंधगा जीवा संखेज्ज० । साद हस्स-रदि-जसग्गि० सरिसा संखेज्जगुणा । असाद-अरदि-सोग-अज्ज० बंधगा जीवा संखेज्जगुणा । सेसाणं सरिसा विसेसा० ।

३४२. संजदासंजदा—सव्वत्थोवा देवायु-बंधगा जीवा । साद-हस्स-रदि-जस० बंधगा जीवा संखेज्जगुणा । असाद-अरदि-सोग-अज्ज० बंधगा जीवा संखेज्जगु० । सेसाणं बंधगा जीवा सरिसा विसेसाहिया ।

३४३. असंजदेसु—तिरिक्खोघं । णवरि थीणग्गिद्धि३ अणंताणुबंधि४ बंधगा जीवा विसेसा० । सेसाणं बंधगा जीवा सरिसा० विसेसा० ।

३४४. चक्खुदंसणी-तस-पज्जत्तभंगो । अचक्खुदंसणी-ओघं । ओधिदंसणी-ओधिणाणिभंगो ।

३४५. तिष्णि लेस्सा-असंजदभंगो । तेउलेस्सि०—सव्वत्थोवा आहार० बंधगा जीवा । मणुसायु-बंधगा जीवा संखेज्ज० । देवायु-बंधगा जीवा असंखेज्जगु० । तिरिक्खायुबंधगा असंखेज्ज० । देवग्गि-वेउक्खिय० बंधगा संखेज्जगुणा । उच्चागो०

३४१. परिहारविशुद्धि संयममें—देवायुके बन्धक जीव सर्वस्तोक हैं । आहारकशरीरके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । साता, हास्य, रति, यशःकीर्तिके बन्धक जीव सदृश रूपसे संख्यातगुणे हैं । असाता, अरति, शोक, अयशःकीर्तिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । शेष प्रकृतिके बन्धक सदृश रूप विशेषाधिक हैं ।

विशेषार्थ—परिहार विशुद्धि संयममें आहारकद्विकका बन्ध होता है । यहाँ आहारक शरीरके बन्धका विरोध न होनेसे आहारक शरीरके बन्धकोंका कथन किया गया है । इतना विशेष है कि इस संयममें आहारकके उदयका विरोध है । 'गो० कर्मकाण्ड'टीकामें लिखा है— "परिहारविशुद्धिसंयमे तीर्थकर आहारकद्विकबन्धोऽस्ति, नाहारकर्धिः" पृ० ११३ ।

३४२. संयतासंयतोंमें—देवायुके बन्धक जीव सर्वस्तोक हैं । साता, हास्य, रति, यशःकीर्तिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । असाता, अरति, शोक, अयशःकीर्तिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । शेष प्रकृतियोंके बन्धक जीव सदृश रूपसे विशेषाधिक हैं ।

३४३. असंयतोंमें—तिर्यचोंके ओघवत् जानना चाहिए । विशेष, स्त्यानगृद्धिन्निक, अनन्तानुबन्धी ४ के बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । शेष प्रकृतियोंके बन्धक जीव सदृश रूपसे विशेषाधिक हैं ।

३४४. चक्षुदर्शनवालोंमें—असपर्याप्तके समान भंग जानना चाहिए । अचक्षुदर्शन-वालोंमें—ओघवत् जानना चाहिए । अवधिदर्शनवालोंमें—अवधिज्ञानके समान भंग हैं ।

३४५. कृष्णादि तीन लेश्यावालोंमें—असंयतोंके समान भंग हैं ।

विशेष—कृष्णादि लेश्यात्रय असंयत गुणस्थानपर्यन्त कही गयी हैं । अतः असंयतोंके समान इनका भंग कहा गया है ।

तेजोलेश्यावालोंमें—आहारक शरीरके बन्धक जीव सर्वस्तोक हैं । मनुष्यायुके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । देवायुके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । तिर्यचायुके बन्धक असंख्यातगुणे हैं । देवगति, वैक्रियिक शरीरके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । उच्चगोत्रके

बंधगा जीवा संखेज्जगुणा । मणुसग० बंधगा जीवा संखेज्जगुणा । पुरिसवे० बंधगा जीवा संखेज्जगु० । इत्थिवे० बंधगा संखेज्जगुणा । साद-हस्स-रदि-जस० बंधगा जीवा संखेज्जगु० । असाद-अरदि-सोग-अज्ज० बंधगा जीवा संखेज्जगुणा । णवुंस० बंधगा जीवा संखेज्जगुणा । तिरिक्खगदि-बंधगा जीवा विसे० । णीचागो० बंधगा जीवा विसे० । ओरालि० बंधगा जीवा विसे० । मिच्छत्त-बंधगा जीवा विसे० । धीणगिद्धि३ अर्णताणुबंधि४ बंधगा जीवा विसेसाहिया । अपच्चक्खाणावर०४ बंधगा जी० विसे० । पच्चक्खाणावर०४ बं० जीवा विसे० । सेसाणं बंधगा सरिसा विसेसा० । पम्माए—आहार० थोवा । मणुसाणु-बंधगा जीवा संखेज्जगुणा । तिरिक्खायु-बंध० जीवा असंखेज्जगु० । देवायु-बंधगा जीवा विसेसा० । मणुसग० बंधगा जीवा संखेज्जगु० । इत्थिवे० बं० जीवा संखेज्जगु० । णवुंस० बंधगा जीवा संखेज्जगु० । तिरिक्खगदि-बंधगा जी० विसे० । णीचागो० बं० जीवा विसे० । ओरालि० बंधगा जीवा विसे० । साद-हस्स-रदि-जस० बंधगा सरिसा असंखेज्जगुणा । असाद-अरदि-सो०-अज्जस० बंध० सरिसा संखेज्जगुणा । देवगदि-वेउन्वि० बंधगा जीवा विसे० । उच्चगो० बंध० जी० विसे० । पुरिस० बंधगा जीवा विसे० । मिच्छत्त-बंधगा जीवा विसे० । उवरि तेउभंगो । सुक्काए—सब्बत्थोवा आहारस० बंधगा जीवा । मणुसायु-बंधगा जीवा

बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । मनुष्यगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । पुरुषवेदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । स्त्रीवेदके बन्धक संख्यातगुणे हैं । सत्ता, हास्य, रति, यशःकीर्तिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । असाता, अरति, शोक, अयशःकीर्तिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । नपुंसकवेदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । तिर्यचगतिके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । नीचगोत्रके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । औदारिक शरीरके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । मिथ्यात्वके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । स्थानगृद्धि ३, अनन्तानुबन्धी ४ के बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । अप्रत्याख्यानावरण ४ के बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । प्रत्याख्यानावरण ४ के बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । शेष प्रकृतियोंके बन्धक जीव समानरूपसे विशेषाधिक हैं ।

पद्मलेश्यामें—आहारक शरीरके बन्धक जीव स्तोक हैं । मनुष्यायुके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । तिर्यचायुके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । देवायुके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । मनुष्यगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । स्त्रीवेदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । नपुंसक वेदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । तिर्यचगतिके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । नीचगोत्रके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । औदारिक शरीरके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । साता वेदनीय, हास्य, रति, यशःकीर्तिके बन्धक जीव समान रूपसे असंख्यातगुणे हैं । असाता, अरति, शोक, अयशःकीर्तिके बन्धक जीव समान रूपसे संख्यातगुणे हैं । देवगति, वैक्रियिक शरीरके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । उच्चगोत्रके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । पुरुषवेदके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । मिथ्यात्वके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । आगेकी प्रकृतियोंमें अर्थात् स्थानगृद्धित्रिक, अनन्तानुबन्धी ४ आदिमें तेजोलेश्याके समान भंग है ।

शुक्ललेश्यामें—आहारक शरीरके बन्धक जीव सर्वस्तोक हैं । मनुष्यायुके बन्धक जीव

संखेज्जगु० । देवायु-बंधगा जीवा विसे० । देवगदि-वेउच्चि० बंधगा जीवा असंखेज्जगु० । इत्थिवे० बंधगा जीवा असंखेज्जगु० । णत्तुंस० बंधगा जीवा संखेज्जगु० । णीचागो० बंधगा जीवा विसे० । मिच्छत्त-बंधगा जीवा विसे० । धीणागिद्धिरे वं०, अणंताणुवं०४ बंधगा विसे० । हस्स-रदि-बंधगा जीवा संखेज्जगु० । जस० बंधगा जीवा विसे० । साद-बंधगा जीवा विसेसा० । असाद-अरदि-[सोग] अज्ज० बंधगा जीवा संखेज्जगुणा । उच्चागो० बंधगा जीवा विसेसा० । पुरिस० बंध० जीवा विसेसा० । मणुसग० ओरालि० बंधगा जी० विसे० । अपच्चक्खाणा०४ बंध० जीवा विसेसा० । पच्चक्खाणा०४ बंधगा जीवा विसेसा० । उवरि ओधभंगो । भवसिद्धि-मूलोषं । अबभव-सिद्धि-मदिभंगो । णवरि मिच्छत्त-सोलस-कसा० एकत्थ भाणिदव्वा ।

३४६. सम्मादिद्धि-ओधिभंगो । खइग-सम्मा०-सव्वत्थोवा आहार० बंधगा जीवा । देवायु-बंध० जी० संखेज्ज० । मणुसायु-बंधगा जीवा विसे० । देवगदि-वेउच्चि० बंधगा जीवा विसे० । उवरि ओधिभंगो । वेदगे—सव्वत्थोवा आहार० वं० जीवा । मणुसायुबंधगा जीवा संखेज्जगु० । देवायु-बंधगा जीवा असंखेज्जगु० । देवगदि-वेउच्चि०

संख्यातगुणे हैं । देवायुके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । देवगति, वैक्रियिक शरीरके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । स्त्रीवेदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । नपुंसकवेदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । नीचगोत्रके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । मिथ्यात्वके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । स्त्यानगुद्धित्रिकके बन्धक जीव और अनन्तानुबन्धी ४ के बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । हास्य, रतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । यशःकीर्तिके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । साताके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । असाता, अरति, [शोक,] अयशःकीर्तिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । उच्चगोत्रके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । पुरुषवेदके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । मनुष्यगति, औदारिक शरीरके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । अप्रत्याख्यानावरण ४ के बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । प्रत्याख्यानावरण ४ के बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । आगेकी प्रकृतियोंमें - ओधवत् भंग जानना चाहिए ।

भव्यसिद्धिकोंमें - मूल ओधवत् जानना चाहिए । अभव्यसिद्धिकोंमें - मत्यज्ञानवत् भंग जानना चाहिए । विशेष, मिथ्यात्व और सोलह कपायके बन्धकोंका भंग एक साथ लगाना चाहिए ।

विशेष—यहाँ मिथ्यात्वके साथ १६ कपायका सदा बन्ध होता है । इस कारण उनका पृथक् भंग नहीं कहा है ।

३४६. सम्यग्दृष्टियोंमें - अधिज्ञानके समान भंग जानना चाहिए । श्रायिकसम्यक्त्वमें - आहारक शरीरके बन्धक जीव सर्वस्तोक हैं । देवायुके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । मनुष्यायुके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । देवगति, वैक्रियिक शरीरके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । आगे अधिज्ञानके समान भंग है ।

वेदकसम्यक्त्वमें - आहारक शरीरके बन्धक जीव सर्वस्तोक हैं । मनुष्यायुके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । देवायुके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । देवगति, वैक्रियिक शरीरके

बंधगा जीवा असंखेज्जगुं । साद-हस्स-रदि-जसं बंधगा जी० असंखे० गुं । असाद-
अरदि-सो० अजसं बंधगा जीवा संखेज्जगुं । मणुसगं ओरालिं बंधगा जीवा
विसें । अपच्चक्खाणां०४ बंधगा जीवा विसें । पच्चक्खाणां०४ बंधं जीवा विसें ।
सेसाणं बंधगा जीवा सरिसा विसें । उवसम-सं-सव्वत्थोवा आहारं बंधगा जीवा ।
देवगदि-वेउव्विय-बंधगा जी० असंखेज्जगुं । उवरि ओधिभंगो ।

३४७. सासणे-सव्वत्थोवा मणुसायु-बंधगा जीवा । देवायु-बंधगा जीवा
असंखेज्जगुं । देवगदि-वेउव्विं बंधगा जी० असंखे० गुणा । तिरिक्खायु-बंधगा जी०
असंखे० गुणा । मणुसगदि-बंधगा जी० संखेज्जगुणा । पुरिसवे० बंधगा जीवा संखे०
गुणा । साद-हस्स-रदि-जसं बंधं जीवा विसें । इत्थिवे० बंधगा जी० संखेज्जगुणा ।
असाद-अरदि-सो० अजं बं० जीवा विसेसां । अथवा असाद-अरदि-सो० अजं
बंधगा जीवा संखेज्जगुं । इत्थिवे० बंधगा जीवा विसेसां । तिरिक्खगदि० बंधगा
जी० विसें । णीचागो० बंधगा जी० विसें । ओरालिं बंधगा जी० विसें ।

बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । साता, हास्य, रति, यशःकीर्तिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे
हैं । असाता, अरति, शोक, अयशःकीर्तिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । मनुष्यगति, औद्दा-
रिक शरीरके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । अप्रत्याख्यानावरण ४ के बन्धक जीव विशेषाधिक
हैं । प्रत्याख्यानावरण ४ के बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । शेष प्रकृतिके बन्धक जीव समान-
रूपसे विशेषाधिक हैं ।

उपशमसम्यक्त्वमें - आहारक शरीरके बन्धक जीव सर्वस्तोक हैं । देवगति, वैक्रियिक
शरीरके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । आगेकी प्रकृतियोंमें अवधिज्ञानका भंग है ।

विशेषार्थ—क्षायिक सम्यक्त्वमें, आहारक शरीरके बन्धकोंकी अपेक्षा देवायुके
बन्धकोंको संख्यातगुणा कहा है । वेदक सम्यक्त्वमें आहारक शरीरके बन्धकोंकी अपेक्षा
मनुष्यायुके बन्धकोंको संख्यातगुणा कहा है । उपशम सम्यक्त्वमें आयुका बन्ध नहीं होनेसे
किसी भी आयुके बन्धकका कथन नहीं किया गया है । इन तीनों सम्यक्त्वोंकी विशेषता
ध्यान देने योग्य है ।

३४७. सासादनसम्यक्त्वमें - मनुष्यायुके बन्धक जीव सर्वस्तोक हैं । देवायुके बन्धक
जीव असंख्यातगुणे हैं । देवगति, वैक्रियिक शरीरके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । तिर्यचायु-
के बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । मनुष्यगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । पुरुषवेदके
बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । साता, हास्य, रति, यशःकीर्तिके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं ।
स्त्रीवेदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । असाता, अरति, शोक, अयशःकीर्तिके बन्धक जीव
विशेषाधिक हैं । अथवा असाता, अरति, शोक, अयशःकीर्तिके बन्धक जीव संख्यातगुणे
हैं । स्त्रीवेदके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । तिर्यचगतिके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं ।
नीच गोत्रके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । औद्दारिक शरीरके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं ।

१. "एवरि य सव्वुवसम्मं णरसुरआऊणि णत्थि णियमेण । गो० क०, १२० गाथा । उपशमसम्यक्त्वद्वीनां
तिर्यग्मनुष्यगत्योर्देवायुषोर्नरकदेवगत्योर्मनुष्यायुषश्चाबन्धाद्भयोपशमसम्यक्त्वे तद्द्वयस्याप्यभावात् ।" -गो०
क०, सं० टीका, पृ० ११८ ।

सेसाणं पगदीणं बंधगा जीवा सरिसा विसेसा० । सम्मामिच्छ०—सव्वत्थोवा देवगदि-
बंधगा जीवा, वेउव्वि० बंधगा जीवा । साद-हस्स-रदि-जस० बंधगा जीवा असंखे०
गुणा । असाद-अरदि-सो० अज्ज० बंधगा जी० संखेज्जगु० । मणुसग० ओरालि०
बंधगा जी० विसे० । सेसाणं पगदीणं बंधगा जीवा सरिसा विसे० । मिच्छादिदिं
अभव्वसिद्धिभंगो ।

३४२. सण्णीसु—सव्वत्थोवा आहार० बंधगा जीवा । मणुसायु-बंधगा जी०
असंखे० गुणा । णिरयायु-बं० जीवा असंखे० गुणा । देवायु-बंधगा असंखे० गुणा ।
णिरयगदि-बंधगा जी० संखेज्जगुणा । तिरिक्खायुबंधगा जी० असंखे० गुणा । देवगदि-
बंधगा जी० संखेज्जगु० । वेउव्वि० बंधगा जी० विसे० । उच्चागो० बंधगा जी०
संखेज्जगु० । मणुसग० बंधगा जी० संखेज्जगु० । पुरिस० बंधगा जीवा संखेज्जगु० ।
इत्थिवे० बंधगा जी० संखेज्जगु० । जस० बंधगा जी० संखे० गु० । हस्स-रदि-बंधगा जी०

शेष प्रकृतियोंके बन्धक जीव समान रूपसे विशेषाधिक हैं ।

विशेषार्थ—नरकायुकी बन्ध-व्युच्छित्ति मिथ्यात्व गुणस्थानमें होनेसे सासादन गुण-
स्थानके वर्णनमें नरकायुका कथन नहीं आया है ।

सम्यग्मिथ्यात्वमें—देवगतिके बन्धक जीव सर्वस्तोक हैं । वैक्रियिक शरीरके बन्धक
जीव भी इसी प्रकार हैं । साता वेदनीय, हास्य, रति, यशःकीर्तिके बन्धक जीव असंख्यात-
गुणे हैं । असाता, अरति, शोक, अयशःकीर्तिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । मनुष्यगति,
औदारिक शरीरके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । शेष प्रकृतियोंके बन्धक जीव समान रूपसे
विशेषाधिक हैं ।

विशेषार्थ—मिश्रगुणस्थानमें आयुके बन्धका निषेध है—“मिस्सूणे आउस्स य” (गो०
क० गा० ९२) । इससे यहाँ आयुके बन्धका वर्णन नहीं किया गया है । इस गुणस्थानमें
मरणका निषेध है । मिश्रगुणस्थानके पूर्व जिस सम्यक्त्व या मिथ्यात्व भावमें आयु बन्ध
हुआ था, उसी परिणाममें मरण होता है । कुछ आचार्य कथन करते हैं कि ऐसा नियम
नहीं है ।^१

मिथ्यादृष्टिमें—अभव्य सिद्धिकोंके समान भंग हैं ।

३४८. संज्ञीमें—आहारक शरीरके बन्धक जीव सर्वस्तोक हैं । मनुष्यायुके बन्धक जीव
असंख्यातगुणे हैं । नरकायुके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । देवायुके बन्धक असंख्यातगुणे
हैं । नरकगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । तिर्यचायुके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं ।
देवगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । वैक्रियिक शरीरके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं ।
उच्च गोत्रके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । मनुष्यगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । पुरुष-
वेदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । स्त्रीवेदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । यशःकीर्तिके

१. “सम्मत्तमिच्छपरिणामेसु जहि असुगं पुरा बढं ।

तहि मरणं मरणंतसमुग्घादो वि य ण मिस्सम्मि ॥” —गो० जी०, गा० २४ ।

विसे० । साद-बंधगा जीवा विसेसा० । उवरि मणजोगिभंगो । असणी-मिच्छादिद्धि-
भंगो । आहारा-ओघभंगो । अणाहारा-कम्मइगभंगो ।

एवं परत्थाण-जीव-अप्पाबहुगं समत्तं ।

बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । हास्य, रतिके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । साता वेदनीयके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । आमेकी शेष प्रकृतियोंमें मनोयोगीके समान भंग हैं । असंज्ञीमें मिथ्यादृष्टिके समान भंग हैं ।

आहारकमें - ओघके समान भंग हैं । अनाहारकोंमें - कार्मण काययोगीके समान भंग हैं ।

इस प्रकार परस्थान जीव अल्प-बहुत्व समाप्त हुआ ।

१. "सणियाणुवादेण सव्वत्थोवा सणी । जेत्ते सणी जेव असणी अणंतगुणा । असणी अणंतगुणा ।
-खु० ब०, अप्पाबहु सू० २००-२०२, पृ. ५७३

[अद्धा-अप्पा-बहुगपरुवणा]

३४६. अद्धा-अप्पाबहुगं दुविहं । सत्थाण-अद्धा-अप्पाबहुगं चैव, परत्थाण-अद्धा-अप्पाबहुगं चैव । सत्थाण-अद्धा-अप्पाबहुगं पगदं । दुविहो णिद्वेसो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण-एत्तो परियत्तमाणियाणं अद्धाणं जहण्णुक्कस्सपदेण एकदो कादूण चोदस्सणं जीवसमासाणं ओधियअप्पाबहुगं वत्तइस्सामो । चोदस्सणं जीवसमासाणं-सादासादं दोणं पगदीणं जहण्णियाओ बंध-गद्धाओ सहिसाओ थोवाओ । सुहुम-अपज्जत्तस्स सादस्स उक्कस्सिया बंधगद्धा संखेज्जगुणा । असादस्स उक्कस्सिया बंधगद्धा

[अद्धा अल्प बहुत्व]

३४६. अद्धा-अल्पबहुत्वका अर्थ है कालसम्बन्धी हीनाधिकपना । यहाँ स्वस्थान-अद्धा-अल्प-बहुत्व तथा परस्थान-अद्धा-अल्प-बहुत्वके भेदसे अद्धा-अल्प-बहुत्व दो प्रकारका है । स्वस्थान-अद्धा-अल्प बहुत्व प्रकृत है । उसका ओच तथा आदेश-द्वारा दो प्रकारसे निर्देश करते हैं ।

ओघसे-यहाँसे आगे चौदह जीवसमासोंमें ओघसम्बन्धी अल्प-बहुत्वका परिवर्तमान प्रकृतियोंके कालको जघन्य और उत्कृष्ट पदके द्वारा एक-एक करके, वर्णन करेंगे ।

चौदह जीव समासोंमें साता-असाता इन दोनों प्रकृतियोंके बन्धकोंका जघन्य काल समान रूपसे स्तोक है ।

विशेष—सूक्ष्म एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चौइन्द्रिय, असंज्ञी पंचेन्द्रिय, संज्ञी पंचेन्द्रिय, इन सातोंमें-से प्रत्येकके पर्याप्त-अपर्याप्त भेद करनेपर चौदह जीव-समास होते हैं । यहाँ वेदनीय २, वेद ३, हास्यादि ४, गति ४, जाति ५, शरीर २, संस्थान ६, संहनन ६, आनुपूर्वी ४, विहायोगति, त्रसस्थावरादि ४, स्थिरादि ६ युगल, अंगोपांग २, गोत्र २ ये परिवर्तमान प्रकृतियाँ जघन्य उत्कृष्ट कालके भेदसे चौदह जीवसमासोंमें वर्णित की गयी हैं ।

सूक्ष्म-अपर्याप्तकमें साताके बन्धकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । असाताके बन्धक-

१. "अत्थि चोदस जीवसमासा । के ते ? एइंदिया दुविहा बादरा सुहुमा । बादरा दुविहा, पज्जत्ता, अपज्जत्ता । सुहुमा दुविहा पज्जत्ता अपज्जत्ता । बीइंदिया दुविहा पज्जत्ता अपज्जत्ता । तीइंदिया दुविहा पज्जत्ता अपज्जत्ता । चउरिंदिया दुविहा पज्जत्ता अपज्जत्ता । पंचिंदिया दुविहा सण्णिणो असण्णिणो । सण्णिणो दुविहा पज्जत्ता अपज्जत्ता । असण्णिणो दुविहा पज्जत्ता अपज्जत्ता इदि । ऐदे चोदस जीवसमासा, अदीदजीवसमासा धि अत्थि ।" —ध० टी० भा० २ पृ० ४१५, ४१६ ।

बादर-सुहुमेइंदिय-वि-ति-चउरिंदिय-असण्णिण-सण्णि य ।

पज्जत्तापज्जत्ता एवं ते चोदसा होति । —गो० जी० ७२ ।

२. "पूर्णाः पर्याप्ताः, अपूर्णद्विकाः द्विधा — अपर्याप्ताः — निवृत्त्यपर्याप्ताः लब्ध्यपर्याप्ताश्चेति ।" —गो० जी० सं० टी० पृ० १६० ।

संखेजगुणा । बादर-एइंदिय-अपजत्तस्स सादस्स उक्कस्सिया बंधगद्धा संखेजगुणा । असादस्स उक्कस्सिया बंधगद्धा संखेजगुणा । सुहुम पजत्तस्स सादस्स उक्कस्सिया बंधगद्धा संखेजगुणा । असादस्स उक्कस्सिया बंधगद्धा संखेजगुणा । बादर-एइंदिय-पजत्तस्स सो चेव भंगो । बेइंदिय-अपजत्तस्स सादस्स उक्कस्सिया बंधगद्धा संखेजगुणा । तेइंदिय-अपजत्तस्स सादस्स उक्कस्सिया बंधगद्धा विसेसाहिया । चदुरिंदिय-अपजत्तस्स सादस्स उक्कस्सिया बंधगद्धा विसेसाहिया । बेइंदिय-अपजत्तस्स असादस्स उक्कस्सिया बंधगद्धा संखेजगुणा । तेइंदिय अपजत्तस्स असादस्स उक्कस्सिया बंधगद्धा विसेसाहिया । चदुरिंदिय-अपजत्तस्स असादस्स उक्कस्सिया बंधगद्धा विसेसाहिया । एवं पजत्तगेषु वि सादासादानं णोद्वं । पंचिंदिय-असण्णि-अपजत्तस्स सादस्स उक्कस्सिया बंधगद्धा संखेजगुणा । असादस्स उक्कस्सिया बंधगद्धा संखेजगुणा । पंचिंदिय-सण्णि-अपजत्तस्स सादस्स उक्कस्सिया बंधगद्धा संखेजगुणा । असादस्स उक्कस्सिया बंधगद्धा संखेजगुणा । पंचिंदिय-असण्णस्स पजत्तस्स सादस्स उक्कस्सिया बंधगद्धा संखेजगुणा । असादस्स उक्कस्सिया बंधगद्धा संखेजगुणा । पंचिंदिय-सण्णस्स पजत्तस्स सादस्स उक्कस्सिया बंधगद्धा संखेजगुणा । असादस्स उक्कस्सिया बंधगद्धा संखेजगुणा ।

३५०. चोइसण्णं जीवसमासाणं तिण्णि वेदाणं जहणिया बंधगद्धा सरिसा थोवा । सुहुम-अपजत्तस्स पुरिसवेदस्स उक्कस्सिया बंधगद्धा संखेजगुणा । इत्थिवेदस्स

का उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकमें साताके बन्धकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । असाताके बन्धकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । सूक्ष्म पर्याप्तकमें साताके बन्धकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । असाताके बन्धकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकमें सूक्ष्म पर्याप्तकके समान भंग है ।

दोइन्द्रिय अपर्याप्तकमें—साताके बन्धकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । त्रीन्द्रिय अपर्याप्तकमें—साताके बन्धकका उत्कृष्ट काल विशेषाधिक है । चौइन्द्रिय अपर्याप्तकमें साताके बन्धकका उत्कृष्ट काल विशेषाधिक है । दोइन्द्रिय अपर्याप्तकमें, असाताके बन्धकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । त्रीन्द्रिय अपर्याप्तकमें, असाताके बन्धकका उत्कृष्ट काल विशेषाधिक है । चौइन्द्रिय अपर्याप्तकमें, असाताके बन्धकका उत्कृष्ट काल विशेषाधिक है । दोइन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चौइन्द्रियोंके पर्याप्तकमें, साता, असाताके बन्धकका काल पूर्ववत् जानना चाहिए ।

पंचेन्द्रिय-असंज्ञी-अपर्याप्तकमें—साताके बन्धकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । असाताके बन्धकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । पंचेन्द्रिय-संज्ञी-अपर्याप्तकमें—साताके बन्धकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । असाताके बन्धकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । पंचेन्द्रिय असंज्ञी-पर्याप्तकमें साताके बन्धकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । असाताके बन्धकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । पंचेन्द्रिय-संज्ञी पर्याप्तकमें—साताके बन्धकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । असाताके बन्धकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है ।

३५०. चौदह जीव-समासोंमें—तीन वेदोंके बन्धकोंका जघन्य बन्धकाल समान रूपसे स्तोत्र है । सूक्ष्म-अपर्याप्तकमें—पुरुषवेदके बन्धकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । स्त्रीवेदके

उकस्सिया बंधगद्धा संखेज्जगुणा । णवुंसकवेदस्स उकस्सिया बंधगद्धा संखेज्जगुणा ।
बादर-अपज्जत्तस्स तं चैव भाणिट्ठं । सुहुम-बादर-पज्जत्तानं च तं चैव भंगो । बेइंदिय
अपज्जत्तस्स पुरिसवेदस्स उकस्सिया बंधगद्धा संखे० गुणा । तेइंदिय-अपज्जत्तस्स
पुरिसवेदस्स उकस्सिया बंधगद्धा विसेसाहिया । चदुरिंदिय अपज्जत्तस्स पुरिसवेदस्स
उकस्सिया बंधगद्धा विसेसा० । बेइंदिय-अपज्जत्तस्स इत्थिवेदस्स उकस्सिया बंधगद्धा
संखेज्जगुणा । तेइंदिय-अपज्जत्तस्स इत्थिवेदस्स उकस्सिया बंधगद्धा विसेसा० । चदुरिंदिय-
अपज्जत्तस्स इत्थिवेदस्स उकस्सिया बंधगद्धा विसेसा० । बेइंदिय-अपज्जत्तस्स णवुंसक-
वेदस्स उकस्सिया बंधगद्धा संखे० गुणा । तेइंदिय-अपज्जत्तस्स णवुंसकवेदस्स उक०
बंधगद्धा विसेसा० । चदुरिंदिय-अपज्जत्तस्स णवुंसकवेदस्स उक० बंधगद्धा विसेसा० ।
एवं पज्जत्तगेषु वि तिण्णं वेदानं षेदध्वं । पंचिंदिय-असण्णि-अपज्जत्तस्स पुरिस-वेदस्स
उक० बंधगद्धा संखेज्जगुणा । इत्थिवेदस्स उकस्सिया बंधगद्धा संखे० गुणा । णवुंसक-
वेदस्स उक० बंधगद्धा संखेज्जगुणा । पंचिंदिय-सण्णि-अपज्जत्तस्स तं चैव भाणिट्ठं ।
पंचिंदिय-असण्णि-पज्जत्तस्स एसेव भंगो । पंचिंदिय-सण्णि-पज्जत्तस्स तं चैव भंगो ।

३५१. हस्स-रदि-अरदि-सोगाणं सादासाद-भंगो । चदुणं गदीणं बंधगद्धाओ
जहणियाओ सरिसाओ थोवाओ । सुहुम-अपज्जत्त-मणुसगदि-उकस्सिया बंधगद्धा

बन्धकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । नपुंसकवेदके बन्धकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है ।
बादर-अपर्याप्तक-एकेन्द्रियमें—उपरोक्त ही भंग है । सूक्ष्म पर्याप्तक तथा बादर पर्याप्तकमें—
यही भंग जानना चाहिए । दोइन्द्रिय-अपर्याप्तकमें—पुरुषवेदके बन्धकका उत्कृष्ट काल संख्यात-
गुणा है । त्रीन्द्रिय-अपर्याप्तकमें—पुरुषवेदके बन्धकका उत्कृष्ट काल विशेषाधिक है । चौइन्द्रिय-
अपर्याप्तकमें—पुरुषवेदके बन्धकका उत्कृष्ट काल विशेषाधिक है । दोइन्द्रिय-अपर्याप्तकमें—
स्त्रीवेदके बन्धकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । त्रीन्द्रिय-अपर्याप्तकमें स्त्रीवेदके बन्धकका
उत्कृष्ट काल विशेषाधिक है । चौइन्द्रिय अपर्याप्तकमें—स्त्रीवेदके बन्धकका उत्कृष्ट काल विशेषा-
धिक है । दोइन्द्रिय अपर्याप्तकमें—नपुंसकवेदके बन्धकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है ।
त्रीन्द्रिय अपर्याप्तकमें—नपुंसकवेदके बन्धकका उत्कृष्ट काल विशेषाधिक है । इसी प्रकार
दोइन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चौइन्द्रिय पर्याप्तकोंमें तीन वेदोंका काल जानना चाहिए ।

पंचेन्द्रिय-असंज्ञी-अपर्याप्तकमें—पुरुषवेदके बन्धकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है ।
स्त्रीवेदके बन्धकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । नपुंसकवेदके बन्धकका उत्कृष्ट काल संख्यात-
गुणा है । पंचेन्द्रिय-संज्ञी-अपर्याप्तकमें—पूर्वोक्त भंग जानना चाहिए । पंचेन्द्रिय-असंज्ञी-
पर्याप्तकमें भी ऐसा ही जानना चाहिए । पंचेन्द्रिय-संज्ञी-पर्याप्तकमें भी पूर्वोक्त भंग जानना
चाहिए ।

३५१. चौदह जीव-समासोंमें—हास्य-रति, अरति-शोकके बन्धकोंका उत्कृष्ट तथा
जघन्यकाल साता तथा असाता वेदनीयके समान जानना चाहिए ।

चौदह जीव-समासोंमें—चारों गतिके बन्धकोंका जघन्य काल समान रूपसे स्तोक

संखेजगुणा । तिरिक्खगदि-उक्कस्सिया बंधगद्धा संखेजगुणा । बादर० वेदणीयभंगो । एवं याव सण्णि-असण्णि अपज्जत्तग त्ति वेदणीयभंगो । पंचिदिय असण्णि-अपज्जत्तस्स (पज्जत्तस्स) देवगदि-उक्कस्सिया बंधगद्धा संखेजगुणा । मणुसगदि-उक्कस्सिया बंधगद्धा संखेजगुणा । तिरिक्खगदि-उक्कस्सिया बंधगद्धा संखेजगुणा । गिरयगदि-उक्कस्सिया बंधगद्धा संखेजगुणा । एवं पंचिदिय-सण्णि-पज्जत्तस्स० । पंचणं जादीणं जहणियाओ बंधगद्धाओ सरिसाओ थोवाओ । सुहुम-अपज्जत्तस्स पंचिदियस्स उक्कस्सिया बंधगद्धा संखेजगुणा । चदुरिंदियस्स उक्कस्सिया बंधगद्धा संखेजगुणा । तेइंदियस्स उक्कस्सिया बंधगद्धा संखेजगुणा । बेइंदियस्स उक्कस्सिया बंधगद्धा संखेजगुणा । एइंदियस्स उक्कस्सिया बंधगद्धा संखेजगुणा । एवं बादर-अपज्जत्ताणं । सुहुम-बादर-एइंदिय-पज्जत्ताणं च एवं चेव भंगो । बेइंदिय-अपज्जत्तस्स पंचिदियस्स उक्कस्सिया बंधगद्धा संखेजगुणा । तेइंदियस्स-अपज्जत्तस्स उक्कस्सिया बंधगद्धा विसेसाहिया । चदुरिंदिय-अपज्जत्तस्स उक्कस्सिया बंधगद्धा विसेसा० । एवं सेसाणं जादीणं । एवं पज्जत्ताणं च णेद्वं । पंचिदियं-सण्णि-असण्णि-अपज्जत्ता सुहुम-अपज्जत्तभंगो । पंचिदिय-असण्णि-पज्जत्तस्स-चदुरिं० उक्कस्सिया बंधगद्धा संखेजगुणा । तेइंदियस्स उक्कस्सिया बंधगद्धा संखेजगुणा ।

हैं । सूक्ष्म अपर्याप्तकमें—मनुष्यगतिके बन्धकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । तिर्यचगतिके बन्धकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । बादर-अपर्याप्तकमें—वेदनीयके समान भंग है । इसी प्रकार संज्ञी, असंज्ञी अपर्याप्तक पर्यन्त वेदनीयके समान भंग जानना चाहिए । पंचेन्द्रिय-असंज्ञी पर्याप्तकमें - देवगतिके बन्धकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । मनुष्यगतिके बन्धकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । तिर्यचगतिके बन्धकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । तरकगतिके बन्धकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । पंचेन्द्रिय-संज्ञी-पर्याप्तकमें - पंचेन्द्रिय असंज्ञी पर्याप्तकके समान जानना चाहिए ।

पंचजातियोंके बंधकोंका जघन्य काल समानरूपसे स्तोक है । सूक्ष्म-अपर्याप्तकमें—पंचेन्द्रिय जातिके बन्धकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । चौइन्द्रिय जातिके बन्धकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । त्रीन्द्रियके बन्धकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । दोइन्द्रियके बन्धकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । एकेन्द्रिय जातिके बन्धकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । बादर अपर्याप्तकमें इसी प्रकार भंग है । सूक्ष्म-बादर-एकेन्द्रिय-पर्याप्तकोंमें भी इसी प्रकार जानना चाहिए ।

दोइन्द्रिय-अपर्याप्तकमें—पंचेन्द्रिय जातिके बन्धकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । त्रीन्द्रिय अपर्याप्तकमें—पंचेन्द्रिय जातिके बन्धकका उत्कृष्ट काल विशेषाधिक है । चौइन्द्रिय-अपर्याप्तकमें—पंचेन्द्रिय जातिके बन्धकका उत्कृष्ट काल विशेषाधिक है । चौइन्द्रिय जाति, त्रीन्द्रिय जाति, दोइन्द्रिय जाति, एकेन्द्रिय जातिके बन्धकोंका काल इसी प्रकार जानना चाहिए । इसी प्रकारका वर्णन दोइन्द्रिय पर्याप्तक, त्रीन्द्रिय-पर्याप्तक, चौइन्द्रिय-पर्याप्तकमें जानना चाहिए । पंचेन्द्रिय संज्ञी-असंज्ञी-अपर्याप्तकमें सूक्ष्म-अपर्याप्तकके समान भंग जानना चाहिए ।

पंचेन्द्रिय-असंज्ञी पर्याप्तकमें—चौइन्द्रियके बन्धकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है ।

वेहंदियस्स उक्कस्सिया बंधगद्धा संखेज्जगुणा । एहंदियस्स उक्कस्सिया बंधगद्धा संखेज्जगुणा । पंचिंदियस्स उक्कस्सिया बंधगद्धा संखेज्जगुणा । एवं सण्णि-पज्जत्ता । दोष्णं सरीराणं जहण्णिगाओ बंधगद्धाओ सरिसाओ थोवाओ । सुहुम-अपज्जत्तस्स ओरालिय-सरीरस्स उक्कस्सिया बंधगद्धा संखेज्जगुणा । एवं याव पंचिंदिय-असण्णि-सण्णि-[अ]पज्जत्तगत्ति । तेसिं चैव पज्जत्तेसु ओरालियसरीरस्स उक्कस्सिया बंधगद्धा संखेज्जगुणा । वेउव्वियसरीरस्स उक्कस्सिया बंधगद्धा संखेज्जगुणा । एवं पंचिंदिय-सण्णि-पज्जत्तयस्स० छस्संठाणं छस्संघडणं चदु-आणुपुव्वि-दो-विहायगदि-तसथावरादि० ४-थिरादिद्वयुगलं सादासादाणं भंगो याव पंचिंदिय-असण्णि-सण्णि-पज्जत्तात्ति । णवरि पंचिंदिय-असण्णि-पज्जत्तस्स थावर० उक्कस्सिया बंधगद्धा संखेज्जगुणा । तसस्स उक्कस्सिया बंधगद्धा संखेज्जगुणा । एवं पंचिंदिय-सण्णि-पज्जत्तस्स । एवं बादर-सुहुम-पज्जत्तापज्जत्त-पत्तेय-साधारणं कादव्वं । दो-अंगोबंगणं सरीर-भंगो । दो-गोदं वेदणीय-भंगो ।

३५२. आदेसेण-णेरइएसु दोष्णं जीवसमासाणं दोष्णं पगदीणं जहण्णियाओ बंधगद्धाओ सरिसाओ थोवा । अपज्जत्तयस्स सादस्स उक्कस्सिया बंधगद्धा संखेज्जगुणा ।

त्रीन्द्रियके बन्धकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । दोइन्द्रिय जातिके बन्धकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । एकेन्द्रिय जातिके बन्धकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । पंचेन्द्रिय जातिके बन्धकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । पंचेन्द्रिय-संज्ञी-पर्याप्तकमें—इसी प्रकार भंग है ।

दोनों शरीरों—वैक्रियिक-औदारिक शरीरके बंधकोंका जघन्य काल समान रूपसे स्तोक है । सूक्ष्म-अपर्याप्तकमें—औदारिक शरीरके बन्धकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । पंचेन्द्रिय-असंज्ञी-संज्ञी [अ]पर्याप्तक पर्यन्त इसी प्रकार जानना चाहिए । इसके ही पर्याप्तकोंमें अर्थात् पंचेन्द्रिय असंज्ञी-पर्याप्तकोंमें औदारिक शरीरके बन्धकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । वैक्रियिक शरीरके बन्धकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । पंचेन्द्रिय-संज्ञी-पर्याप्तकोंमें भी इसी प्रकार जानना चाहिए ।

६ संस्थान, ६ संहनन, ४ आनुपूर्वी, २ विहायोगति, त्रस तथा स्थावरादि ४, स्थिरादि ६ युगलोंके विषयमें पंचेन्द्रिय असंज्ञी-संज्ञी-पर्याप्तक पर्यन्त साता, असाताके समान भंग जानना चाहिए । विशेष, पंचेन्द्रिय-असंज्ञी-पर्याप्तकमें स्थावर प्रकृतिके बन्धकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । त्रसके बन्धकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । इसी प्रकार पंचेन्द्रिय-संज्ञी-पर्याप्तकमें भी जानना चाहिए । बादर-सूक्ष्म-पर्याप्त-अपर्याप्त-प्रत्येक-साधारणमें भी इसी प्रकार जानना चाहिए । अर्थात् जिस प्रकार स्थावर तथा त्रसके बन्धकोंका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा कहा है, उसी प्रकार यहाँ भी बादर, सूक्ष्मादिके बन्धकोंमें जानना चाहिए । दो अंगो-पांग अर्थात् औदारिक-वैक्रियिक अंगोपांगके बन्धकोंमें शरीरके समान भंग जानना चाहिए अर्थात् औदारिक, वैक्रियिक शरीरके बन्धकोंके समान इनके भंग हैं । नीच, उच्च गोत्रके बन्धकोंमें वेदनीयके सदृश भंग है ।

३५२. आदेशसे—नारकियोंमें - पर्याप्तक, अपर्याप्तक रूप दो जीव समासोंमें साता-असाता इन दो प्रकृतियोंका जघन्य बन्धकाल समान रूपसे स्तोक है । अपर्याप्तक-नारकियोंमें-

असादस्स उक्कस्सिया बंधगद्धा संखेज्जगुणा । पज्जत्तस्स सादस्स उक्कस्सिया बंधगद्धा संखेज्जगुणा । असादस्स उक्कस्सिया बंधगद्धा संखेज्जगुणा । एवं तिण्णि-वेदाणं हस्स-रदि-अरदि-सोगाणं दोगदि-उस्संठाणं उस्संघडणं दो-आणुपुन्वि-दोविहायगदि-थिरादिउ-युगलं दोगोदाणं च सादासादभंगो । एवं याव छट्ठित्ति । सत्तमाए एवं चेव । णवरि दोगदि-दोआणुपुन्वि-दोगोदाणं च णत्थि अप्पाबहुगं । तिरिक[क्ख] गदि-णत्तुसंगवेद-मदिअण्णाणि - सुदअण्णाणि-असंजद-अचक्खुदंसणि - भवसिद्धिय-अभवसिद्धिय - मिच्छा-दिद्धि-असण्णि-आहारग ति ओषभंगो । णवरि असण्णीसु बारस जीवसमासा ति भाणिदव्वं । पंचिदिय-तिरिक्खेसु-चदुण्णं जीवसमासाणं कादव्वं । पंचिदिय-तिरिक्ख-पज्जत्तजोणिणीसु दोजीवसमासाणं भाणिदव्वं सण्णि-असण्णित्ति । पंचिदिय-तिरिक्ख-अपज्जत्तगेसु दोजीवसमासा सण्णि-असण्णित्ति । मणुसेसु-दो जीवसमासा । पज्जत्त-

साताके बन्धकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । असाताके बन्धकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । पर्याप्तक नारकीमें-साताके बन्धकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । असाताके बन्धकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । तीन वेद, हास्य, रति, अरति, शोक, २ गति, (मनुष्य-तिर्यचगति), ६ संस्थान, ६ संहनन, २ आनुपूर्वी, २ विहाययोगति, स्थिरादि छह युगल तथा दो गोत्रोंके बन्धकोंमें साता, असाता वेदनीयके समान भंग जानना चाहिए । यह क्रम प्रथम पृथ्वीसे छठी पृथ्वी पर्यन्त जानना चाहिए । सातवीं पृथ्वीमें—इसी प्रकार भंग है । विशेष, दो गति, २ आनुपूर्वी, २ गोत्रोंके बन्धकोंमें अल्पबहुत्व नहीं है ।

विशेष—सातवीं पृथ्वीमें मिथ्यात्व, सासादन गुणस्थानमें ही तिर्यचगति, तिर्यचानु-पूर्वी तथा नीच गोत्रका बन्ध होता है । तृतीय तथा चतुर्थ गुणस्थानमें ही मनुष्यगति, मनु-ष्यानुपूर्वी तथा उच्च गोत्रका बन्ध होता है । अतः इनके निमित्तसे सप्तम पृथ्वीमें अल्पबहुत्व-पना नहीं पाया जाता है ।

तिर्यचगति, नपुंसकवेद, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयमी, अचक्षुदर्शनी, भव्यसिद्धिक, अभव्यसिद्धिक, मिथ्यादृष्टी, असंज्ञी, आहारकमें ओषके समान भंग जानना चाहिए । विशेष, असंज्ञी जीवोंमें बारह जीवसमास कहना चाहिए ।

विशेष—इनमें संज्ञी पर्याप्तक तथा संज्ञी अपर्याप्तक ये दो जीवसमास नहीं होते हैं । पंचेन्द्रिय-तिर्यचोंमें—संज्ञी, असंज्ञी तथा इन दोनोंके पर्याप्तक, अपर्याप्तक भेदरूप चार जीवसमास हैं ।

पंचेन्द्रिय-तिर्यच-पर्याप्तक तथा पंचेन्द्रिय-तिर्यच-योनिमतियोंमें—संज्ञी तथा असंज्ञी ये दो जीवसमास कहना चाहिए । पंचेन्द्रिय-तिर्यच-अपर्याप्तकोंमें—संज्ञी तथा असंज्ञी ये दो जीवसमास हैं ।

मनुष्योंमें—संज्ञी पर्याप्तक तथा संज्ञी-अपर्याप्तक ये दो जीवसमास हैं ।

विशेषार्थ—मनुष्योंमें असंज्ञी भेद नहीं होता । लब्धपर्याप्तक मनुष्य भी संज्ञी ही

१. मनुष्यगतौ कर्मभूमौ आर्यखण्डे पर्याप्त-निवृत्त्यपर्याप्त-लब्धपर्याप्तास्त्रयो जीवसमासाः । स्तेच्छलण्डे लब्धपर्याप्तकाभावात् द्वौ जीवसमासौ । भोगभूमौ कुभोगभूमौ च द्वौ द्वौ जीवसमासौ तत्रापि लब्धपर्याप्तका-भावात् । कर्मभूमौ मनुष्याणां आर्यखण्डे गर्भजेषु पर्याप्त निवृत्त्यपर्याप्तौ, मूर्च्छामे तु लब्धपर्याप्त एवेति त्रयः । -गो० जी०, सं० टीका, पृ० १६६ ।

जोषिणीसु एकं चैव । सादासादाणं जहणिया बंधगद्धा सरिसा थोवा । सादस्स उक्कस्सिया बंधगद्धा संखेज्जगुणा । असादस्स उक्कस्सिया बंधगद्धा संखेज्जगुणा । एदेण कमेण भाणिद्वं । एवं मणुस-अपज्जत्ता । देवाणं-णिरयभंगो याव सहस्सार ति । णवरि भवणवासिय याव ईसाण ति । दोण्णं जादीणं तसथावरादीणं दोण्णं जीवसमासाणं जहणिया बंधगद्धा सरिसा थोवा । अपज्जत्त-पंचिंदिय-तसस्स उक्कस्सिया बंधगद्धा संखेज्जगुणा । एइंदिय-थावरस्स उक्कस्सिया बंधगद्धा संखेज्जगुणा । तं चैव पज्जत्ते० । आणद याव उवरिम-नेवज्जात्ति णेरइयभंगो । णवरि मणुसगदि०२ धुवं कादव्वं । अणुहिसादि याव सवट्ठत्ति-दोण्णं जीवसमासाणं दोवेदणीय-हस्स-रदि-अरदि-सोग-थिरादि-तिण्णियुगलं णिरयभंगो । सेसाणं णत्थि अप्पाबहुगं । एइंदिएसु-चदुण्णं जीवसमासाणं ओघभंगो । एवं बादर० दोण्णं [णं] जीवसमासाणं । सुहुम० दोण्णं जीवसमासाणं, बादर-पज्जत्त-अपज्जत्त-सुहुम-पज्जत्ता-पज्जत्तगोसु पत्तेगं पत्तेगं एगं जीवट्ठाणं ।

होते हैं । भोगभूमि तथा कुभोगभूमिके मनुष्योंमें लब्ध्यपर्याप्तक भेद नहीं है । स्लेच्छ खण्डके मनुष्योंमें भी लब्ध्यपर्याप्तक भेद नहीं है । आर्य खण्डके कर्मभूमिज मनुष्योंमें पर्याप्त, निर्वृत्य-पर्याप्त तथा लब्ध्यपर्याप्त भेद कहे हैं । गर्भज कर्मभूमि या आर्य खण्डके मनुष्योंमें लब्ध्य-पर्याप्तक भेद नहीं है । सम्मूर्त्तन मनुष्य ही होते हैं ।

मनुष्य-पर्याप्तक तथा मनुष्यनीमें—एक पर्याप्तक रूप ही जीवसमास है । साता-असाताके बन्धकोंका जघन्य काल समान रूपसे स्तोक है । साताके बन्धकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । असाताके बन्धकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । इस क्रमसे अन्य प्रकृतियों-के बन्धकका काल जानना चाहिए ।

मनुष्य-अपर्याप्तकोंमें—इसी प्रकार जानना चाहिए ।

देवगतिमें—सहस्रार स्वर्ग पर्यन्त नारकियोंके समान भंग है । विशेष, भवनत्रिक तथा सौधर्म ईशानमें त्रस-स्थावरदिके बन्धकोंका जघन्यकाल दोनों जीवसमासोंमें समान रूपसे स्तोक हैं । अपर्याप्तकोंमें पंचेन्द्रिय-त्रसका उत्कृष्ट बन्धकाल संख्यातगुणा है । एकेन्द्रिय-स्थावरका उत्कृष्ट बन्धकाल संख्यातगुणा है । पर्याप्तकोंमें पंचेन्द्रिय-त्रस तथा एकेन्द्रिय-स्थावरके बन्धकके विषयमें अपर्याप्तकोंके समान भंग है । आनतसे उपरिम श्रैवेयक पर्यन्त-नारकियोंके समान भंग है । विशेष यह है, कि यहाँ मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्विका ध्रुव भंग करना चाहिए । कारण वहाँ तिर्यचगतिद्विकका बन्ध नहीं होता है । अनुदिशसे सर्वार्थसिद्धि-पर्यन्त-पर्याप्त अपर्याप्त रूप दोनों जीव समासोंमें—दो वेदनीय, हास्य-रति, अरति-शोक, स्थिरादि तीन युगलके बन्धकोंका नरकके समान भंग जानना चाहिए । शेष प्रकृतियोंमें अल्पबहुत्व नहीं है ।

एकेन्द्रियोंमें—सूक्ष्म, बादर तथा इनके पर्याप्तक तथा अपर्याप्तक रूप चार जीव-समास होते हैं, उनमें ओघवत् भंग है । इसी प्रकार बादरमें पर्याप्त, अपर्याप्त रूप दो जीव-समास हैं । सूक्ष्ममें भी पूर्वोक्त पर्याप्त, अपर्याप्तमें दो जीवसमास हैं । बादर, पर्याप्त-अपर्याप्त तथा सूक्ष्म पर्याप्त-अपर्याप्तमें प्रत्येक-प्रत्येकका एक जीवसमास है ।

विशेष—एकेन्द्रियोंमें बादर, सूक्ष्म तथा इनके पर्याप्त, अपर्याप्त इस प्रकार चार पृथक्-पृथक् जीवसमास होते हैं ।

एवं पुढविकाइय-आउकाइय-तेउकाइय-वाउकाइय-णिगोदाणं । णवरि तेउ-वाउणं मणुस-गदितियं णत्थि । वणप्फदि-काइय-छण्णं जीवसमासाणं । बादर-वणप्फदि-पत्तेय० दोण्णं जीवसमासाणं । विकलिदि० दोण्णं जीवसमासाणं । पज्जत्तापज्जत्ताणं एक्कं चेव जीवसमासा । पंचिदिएसु चदुण्णं जीवसमासाणं । पज्जत्ते दोण्णं जीवसमासाणं । अपज्जत्ते दोण्णं जीवसमासाणं । तसेसु-दस-जीवसमासाणं पज्जत्तापज्जत्ताणं पंच जीवसमासाणं ।

३५३. पंचमण० पंचवचि० वेउन्विय० वेउन्वियमिस्सका० [आहार] आहार-मिस्सका० कम्मइग० अवगद० कोधादि०४ सुहुमसांपराय-सासणसम्माइट्ठि-सम्मा-मिच्छाइट्ठि-अणाहारगत्ति णत्थि अप्पाबहुगं । काजोगीसु-वेउन्वियव्वकं वज्ज सैसाणं ओघभंगो कादव्वो । एवं ओरालिय-काजोगि-ओरालियमिस्स-काजोगीसु । णवरि सत्तण्णं जीवसमासाणं ति भाणिदव्वं । इत्थिवेद-पुरिसवेदेसु-चदुण्णं जीवसमासात्ति

पृथ्वीकायिक, अप्कायिक, तेजकायिक, वायुकायिक तथा निगोदियोंमें इसी प्रकार जानना चाहिए । विशेष, तेजकायिक, वायुकायिकमें मनुष्यगति, मनुष्य-गत्यानुपूर्वी तथा उच्चगोत्रका बन्ध नहीं होता है । वनस्पतिकायिकमें साधारण तथा प्रत्येक ये दो भेद हैं । इनमें-से प्रत्येकके पर्याप्त तथा अपर्याप्त ये दो भेद हैं । साधारणके बादर तथा सूक्ष्म ये दो भेद हैं । बादरके पर्याप्त तथा अपर्याप्त और सूक्ष्मके भी पर्याप्त तथा अपर्याप्त इस प्रकार वनस्पतिकायिकमें ६ जीव-समास हैं । बादर-वनस्पति प्रत्येकके पर्याप्तक, अपर्याप्तक ये दो जीव-समास हैं । विकलेन्द्रियके पर्याप्तक, अपर्याप्तक ये दो जीव-समास हैं । इनके पर्याप्तकों तथा अपर्याप्तकोंमें एक-एक जीव-समास हैं । पंचेन्द्रियोंमें चार जीव-समास हैं । पर्याप्तकोंमें संज्ञी और असंज्ञी ये दो जीव-समास हैं । अपर्याप्तकोंमें भी संज्ञी और असंज्ञी ये दो जीव-समास हैं ।

त्रसोंमें—दस जीव समास हैं, पर्याप्तकोंमें पाँच अर्थात् दोइन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चौइन्द्रिय, असंज्ञी पंचेन्द्रिय, संज्ञी पंचेन्द्रिय ये पाँच हैं तथा अपर्याप्तकोंमें भी पाँच जीव समास हैं । इस प्रकार दोनों मिलकर दस जीव-समास होते हैं ।

३५३. ५ मनोयोगी, ५ वचनयोगी, वैक्रियिक, वैक्रियिक मिश्रकाययोगी, [आहारक,] अहारकमिश्रकाययोगी, कर्मण काययोगी, अपगतवेद, क्रोधादि ४ कषाय, सूक्ष्मसाम्पराय, सासादनसम्यक्त्वी, सम्यग्मिथ्यादृष्टि, अनाहारकमें अल्पबहुत्व नहीं है ।

काययोगियोंमें—वैक्रियिकपट्ठको छोड़कर शेष प्रकृतियोंका ओघवत् भंग करना चाहिए । औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगीमें—इसी प्रकार जानना चाहिए । विशेष, यहाँ सात जीव-समास करना चाहिए । अर्थात् औदारिककाययोगमें पर्याप्तकोंके सूक्ष्म-बादर-एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चौइन्द्रिय, असंज्ञी पंचेन्द्रिय, संज्ञी पंचेन्द्रिय ये सात भेद हैं तथा औदारिकमिश्रमें अपर्याप्तकोंके भी ये सात जीव-समास हैं ।

स्त्रावेदियों, पुरुषवेदियोंमें—पर्याप्त, अपर्याप्त भेद युक्त संज्ञी तथा असंज्ञी पंचेन्द्रिय ये चार जीव-समास कहना चाहिए ।

भाण्डिद्वं । विभंगे वेउविय-छकं तिण्णिजादि-सुहुम-अपञ्च-साधारणाणं णत्थि
अप्पावहुगं । सेसाणं देवभंगो । आभि० सुद० ओधिणाणीसु—दोणं जीवसमासाणं
दोवेदणीय-चदु-णोकसाय-थिरादि-तिण्णि-युगलाणं ओघं । सेसाणं णत्थि अप्पावहुगं ।
एवं ओधिदं० सम्मादिट्ठी-खइग-सम्मादिट्ठी-वेदग-सम्मादिट्ठी-उवसम-सम्मादिट्ठी ति ।
मणपञ्चवणाणिओधिभंगो । णवरि एकं जीवट्ठाणं । एवं संजद-सामाहय-छेदोवट्ठावणं
परिहार-संजदासंजद० । चक्खु-दंसणी निण्णि जीवसमासाणि । तिण्णिलेस्सि० वेउविय-
छकं पंचजादि-तसथावरादि०४ णत्थि अप्पावहुगं । सेसाणं णिरय-भंगो । तेउलेस्सि०—
देवगदि०४ वज्ज सेसाणं देवोघभंगो । एवं पम्माए । णवरि सहस्सार-भंगो । सुक्काए-
आणद-भंगो । सण्णिस्स दोणं जीवसमासाणं ओघं ।

एवं सत्थाणं अद्धा अप्पावहुगं समत्तं । एवं पत्तेगेण णीदं ।

विभंगावधिमें—वैक्रियिकपट्क, तीन जाति, सूक्ष्म, अपर्याप्तक-साधारणके बन्धकोंमें
अल्पबहुत्व नहीं है । शेष प्रकृतियोंके विषयमें देवगतिके समान भंग हैं ।

आभित्तोधिक-श्रुत-अवधिज्ञानियोंमें—पर्याप्तक, अपर्याप्तकरूप दो जीव-समास हैं ।
इनमें दो वेदनीय, चार नाकपाय, स्थिरादि तीन युगलके बन्धकोंमें ओघवत् जानना चाहिए ।
शेष प्रकृतियोंमें अल्पबहुत्व नहीं है ।

अवधिदर्शन, सम्यग्दृष्टि, क्षायिक सम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि, उपशमसम्यग्दृष्टिमें—
इसी प्रकार जानना चाहिए । मन-पर्ययज्ञानीमें—अवधिज्ञानके समान भंग है । विशेष, यहाँ
संज्ञी पर्याप्तकरूप एक ही जीव-स्थान है ।

संयमी, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, संयतासंयतामें—मनःपर्ययज्ञानके
समान एक जीव-स्थान है । चक्षुदर्शनीमें—चौदन्द्रिय पर्याप्तक तथा संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तक
एवं असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तक ये तीन जीव-समास हैं ।

कृष्ण-नील-कापोत-लेश्याओंमें—वैक्रियिकपट्क, ५ जाति, त्रस-स्थावरादि ४के बन्धकोंमें
अल्पबहुत्व नहीं है । शेष प्रकृतियोंमें नरकगतिके समान भंग हैं ।

तेजालेश्यामें—देवगति ४ को छोड़कर शेष प्रकृतियोंके विषयमें देवोके ओघवत्
भंग है ।

पद्मलेश्यामें—इसी प्रकार भंग है । विशेष यह है कि यहाँ सहस्वार स्वर्गके समान
भंग है ।

शुक्ललेश्यामें—आनत स्वर्गके समान भंग है ।

संज्ञीमें—पर्याप्तक, अपर्याप्तक ये दो जीव-समास हैं । उनमें ओघवत् जानना चाहिए ।

इस प्रकार स्वस्थान अद्धा-अल्पबहुत्व समाप्त हुआ ।

इस-प्रकार प्रत्येक रूपसे वर्णन किया ।

[परत्थाण-अद्धा-अप्पावहुगपरुवणा]

३५४. एत्तो परत्थाण-अद्धा-अप्पावहुगेण पगदं । एत्तो परियत्तमाणियाणं अद्धानं जहण्णुक्कस्सेण पदेण एकदो कादूण ओघियं परत्थाण-अद्धा-अप्पावहुगं वत्त-इस्सामो । आयुगवज्जाणं सत्तास्स पगदीणं जहणियाओ बंधगद्धाओ सरिसाओ थोवाओ । चहुण्णं आयुगाणं जहणिया बंधगद्धा सरिसा संखेज्जगुणा । उक्कस्सिया बंधगद्धा संखेज्जगुणा । देवगदिउक्कस्सिया बंधगद्धा संखेज्जगुणा । उच्चागोदस्स उक्कस्सिया बंधगद्धा संखेज्जगुणा । मणुसग० उक्कस्सिया बंधगद्धा संखे० गुणा । पुरिसवेदस्स उक्कस्सिया बंधगद्धा संखेज्जगुणा । इत्थिवेदस्स उक्क० बंधगद्धा संखेज्जगुणा । सादावे० हस्सरदि-जसगित्तिस्स उक्कस्सि० बंधगद्धा संखे० गुणा । तिरिक्खगदि-उक्कस्सि० बंधगद्धा संखेज्जगुणा । णिरयग० उक्कस्सि० बंधगद्धा संखे० गुणा । असाद-अरदि-सोग्ग-अज्जसगित्ति० उक्कस्सि० बंधगद्धा विसेसा० । णवुंसगवेदस्स उक्कस्सि० बंधगद्धा विसेसा० । शीचागोदस्स उक्कस्सिया बंधगद्धा विसेसा० ।

३५५. एवं ओघभंगो तिरिक्खा-पंचिदिय-तिरिक्ख, पंचिदिय-तिरिक्ख-पज्जत्त,

[परस्थान-अद्धा-अल्पबहुत्व]

३५४. अब परस्थान-अद्धा अल्पबहुत्व प्रकृत है । यहाँ से परिवर्तमान प्रकृतियोंके काल-कों जघन्य तथा उत्कृष्ट पद-द्वारा पृथक्-पृथक् करके ओघसम्बन्धी परस्थान-अद्धा-अल्पबहुत्व कहेंगे ।

विशेष—यहाँ परिवर्तमान प्रकृतियोंका परस्थानमें जघन्य तथा उत्कृष्ट स्थानों-द्वारा अल्पबहुत्वका प्रतिपादन करते हैं । यहाँ ४ गति, ३ वेद, २ गोत्र, २ वेदनीय, ४ आयु, हास्य-रतियुगल तथा यशःकीर्तियुगल इन २१ प्रकृतियोंका ओघ तथा आदेशसे जघन्य, उत्कृष्ट काल-का अल्पबहुत्व वर्णन किया गया है ।

चार आयुको छोड़कर (पूर्वोक्त) सत्रह प्रकृतियोंके बन्धकोंका जघन्य काल समान रूपसे अल्प है । ४ आयुके बन्धकोंका जघन्य काल सदृश रूपसे संख्यातगुणा है । उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । देवगतिके बन्धकोंका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । उच्चगोत्रके बन्धकोंका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । मनुष्यगतिके बन्धकोंका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । पुरुष-वेदके बन्धकोंका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । स्त्रीवेदके बन्धकोंका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । सातावेदनीय, हास्य, रति, यशःकीर्तिके बन्धकोंका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । तिर्यच-गतिके बन्धकोंका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । नरकगतिके बन्धकोंका उत्कृष्ट काल संख्यात-गुणा है । असाता, अरति, शोक, अयशःकीर्तिके बन्धकोंका उत्कृष्ट काल विशेषाधिक है । नपुंसकवेदके बन्धकोंका उत्कृष्ट काल विशेषाधिक है । नीच गोत्रके बन्धकोंका उत्कृष्ट काल विशेषाधिक है ।

३५५. तिर्यच, पंचेन्द्रिय तिर्यच, पंचेन्द्रिय तिर्यचपर्याप्तक, पंचेन्द्रिय तिर्यच योनि-

पंचिदियतिरिक्ख-जोणिणीसु-मणुस०३ पंचिदिय-तस०२ इत्थि० पुरिस० णवुंस० मदिअण्णाणि० सुदअण्णाणि० असंजद० चक्खुदं० अचक्खुदं० भवसिद्धि० अबभवसिद्धि० मिच्छादि० सण्णि-असण्णि-आहारगत्ति ।

३५६. आदेशेण—णेरइएसु-आयुगवज्जाणं पण्णारसण्णं पगदीणं जहण्णियाओ बंधगद्धाओ सरिसाओ थोवाओ । दोण्णं आयुगाणं जहण्णिया बंधगद्धा सरिसा संखेज्ज-गुणा । उक्क० बंधगद्धा संखेज्जगुणा । उच्चागोदस्स उक्कस्सि० बंधगद्धा संखेज्ज-गुणा । मणुसगदि-उक्कस्सि० बंधगद्धा संखेज्जगुणा । पुरिसवेदस्स उक्कस्सि० बंध-गद्धा संखेज्जगुणा । इत्थिवेदस्स उक्कस्सिया बंधगद्धा संखेज्जगुणा । साद-हस्स-रदि-जस० उक्कस्सि० बंधगद्धा विसेसा० । णवुंसग-वेदस्स उक्कस्सि० बंधगद्धा संखे० गुणा । असाद-अरदि-सोग-अजस० उक्कस्सि० बंधगद्धा विसेसा० । तिरिक्ख-गदि-उक्कस्सिया बंधगद्धा विसेसा० । णीचागोदस्स उक्कस्सिया बंधगद्धा विसेसा० । एवं छसु पुटवीसु० । सत्तमाए आयुग-वज्जाणं एकारसण्णं पगदीणं जहण्णि-याओ बंधगद्धाओ सरिसाओ थोवाओ । तिरिक्खायु-जहण्णिया बंधगद्धा संखेज्ज-

मतियोंमें, मनुष्य, मनुष्यपर्याप्तक, मनुष्यनी, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्तक, त्रस, त्रस-पर्याप्तक, स्त्री-वेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, मत्स्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, भव्यसि-द्धिक, अभव्यसिद्धिक, मिथ्यादृष्टि, संज्ञी, असंज्ञी, आहारकमें ओयवत् भंग जानना चाहिए ।

३५६. आदेशसे, नारकियोंमें—आयुको छोड़कर १५ प्रकृतियोंके बन्धकोंका समान रूप-से स्तोककाल है ।

विशेष—यहाँ पूर्वोक्त २१ प्रकृतियोंमेंसे चार आयु तथा नरकगति, देवगतिको घटाने-से शेष १५ प्रकृति रहती है । नरकगति, देवगतिका बन्ध नारकियोंके नहीं पाया जाता है । (गो० क०, ग० १०५) ।

मनुष्यायु, तिर्यचायुके बन्धकोंका जघन्य काल समान रूपसे संख्यातगुणा है । उत्कृष्ट बन्धकोंका काल संख्यातगुणा है । उच्चगोत्रके बन्धकोंका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । मनुष्य-गतिके बन्धकोंका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । पुरुषवेदके बन्धकोंका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । स्त्रीवेदके बन्धकोंका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । साता, हास्य, रति, यशःकीर्तिके बन्धकों-का उत्कृष्ट काल विशेषाधिक है । नपुंसकवेदके बन्धकोंका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । असाता, अरति, शोक, अयशःकीर्तिके बन्धकोंका उत्कृष्ट काल विशेषाधिक है । तिर्यचगतिके बन्धकोंका उत्कृष्ट काल विशेषाधिक है । नीच गोत्रके बन्धकोंका उत्कृष्ट काल विशेषाधिक है ।

इस प्रकार छह पृथिव्योंमें जानना चाहिए ।

सातवीं पृथ्वीमें—आयुको छोड़कर ११ प्रकृतियोंके बन्धकोंका जघन्य काल समान रूपसे स्तोक है ।

विशेष—नारकियोंकी सामान्यसे १५ प्रकृतियाँ हैं । उनमेंसे मनुष्यगति, तिर्यचगति तथा दो गोत्रको घटानेसे ११ शेष रहती हैं । इसका कारण यह है कि सातवें नरकमें मनुष्य-गति तथा उच्चगोत्रका बन्ध सम्यक्त्व, मिथ्यात्व तथा अविरतसम्यक्त्व गुणस्थानमें ही होता

गुणा । उक्कस्सिया बंधगद्धा संखेज्जगुणा । पुरिसवेदस्स उक्कस्सिया बंधगद्धा संखेज्जगुणा । इत्थिवेदस्स उक्कस्सि० बंधगद्धा संखेज्जगुणा । साद-हस्स-रदि-जस० उक्कस्सिया बंधगद्धा विसेसा० । णवुंसमवेदस्स उक्कस्सि० बंधगद्धा संखेज्जगुणा । असाद-अरदि-सोग-अज्जस० उक्कस्सिया बंधगद्धा विसेसा० । पंचिदिथ-तिरिक्ख-अपज्जत्तेसु-आयुगवज्जाणपणारसणं पगदीणं जहणिया बंधगद्धा सरिसा थोवा । दोणं आयुगणं जहणिया बंधगद्धा सरिसा संखेज्जगुणा । उक्कस्सि० बंधगद्धा सरिसा संखे० गुणा । उच्चागोदस्स उक्कस्सि० बंधगद्धा संखे० गुणा । मणुस० उक्कस्सि० बंधग० संखे० गुणा । पुरिसवे० उक्कस्सि० बंधग० संखे० गुणा । इत्थिवे० उक्कस्सि० बंधग० संखे० गुणा । साद-हस्स-रदि-जस० उक्कस्सि० बंधगद्धा संखे० गुणा । असाद-अरदि-सोग० अज्ज० उक्कस्सि० बंधगद्धा संखे० गुणा । णवुंसमवे० उक्कस्सि० बंधग० विसेसा० । तिरिक्खग० उक्कस्सिया

है; मिथ्यात्व, सासादनमें नहीं होता । प्रथम, द्वितीय गुणस्थानमें ही तिर्यचगति तथा नीच गोत्रका बन्ध होता है । इस प्रकार ये चार प्रकृतियाँ परिवर्तमान नहीं रहती हैं । कारण, प्रतिपक्षी प्रकृतियोंका अभाव हो जाता है ।

तिर्यचायुके बन्धकोंका जघन्य काल संख्यातगुणा है । उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । पुरुषवेदके बन्धकोंका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । स्त्रीवेदके बन्धकोंका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । साता, हास्य, रति, यशःकीर्तिके बन्धकोंका उत्कृष्ट काल विशेषाधिक है । नपुंसकवेदके बन्धकोंका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । असाता, अरति, शोक, अयशःकीर्तिके बन्धकोंका उत्कृष्ट काल विशेषाधिक है ।

पंचेन्द्रिय-तिर्यच-अपर्याप्तकोंमें—आयुको छोड़कर पन्द्रह प्रकृतियोंके बन्धकोंका जघन्य-काल समान रूपसे स्तोक है ।

विशेष—पंचेन्द्रिय-तिर्यच-लब्ध्यपर्याप्तकोंमें नरकगति तथा देवगतिका बन्ध नहीं होता है^१ । इस कारण आयुको छोड़कर शेष बची १७ प्रकृतियोंमें-से दो घटानेपर पन्द्रह प्रकृतियाँ रह जाती हैं ।

मनुष्य-तिर्यचायुके बन्धकोंका जघन्य काल समान रूपसे संख्यातगुणा है । दोनों आयुओंके बन्धकोंका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । उच्चगोत्रके बन्धकोंका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । मनुष्यगतिके बन्धकोंका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । पुरुषवेदके बन्धकोंका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । स्त्रीवेदके बन्धकोंका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । साता, हास्य, रति, यशःकीर्तिके बन्धकोंका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । असाता, अरति, शोक, अयशःकीर्तिके बन्धकोंका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । नपुंसकवेदके बन्धकोंका उत्कृष्ट काल

१. "मिस्साविरदे उच्चं मणुवदुगं सत्तमे हवे बंधो ।

मिच्छा सासणसम्मा मणुवदुगुच्चं ण बंधति ॥"—गो० क०, १०७ ।

२. "सामण-तिरियर्वचिदिथपुणगजोणिणिसु एमेव ।

सुरणिरयाउ अपुण्णे वेगुवियल्लक्कमवि णत्थि ॥"—गो० क०, १०९ ।

बंधग० विसेसा० । णीचागोदस्स उक्कस्सिया बंधगद्धा विसेसा० । एवं सव्व-अपज्जत्ताणं तसाणं सव्वएहंदि० सव्वविगलिदि० सव्वपुढवि० आउ० वणफदिणिगोदाणं च ।

३५७. देवेसु—भवनवासिय याव ईसाण त्ति पंचिदिय-तिरिक्ख-अपज्जत्त-भंगो । सणक्कुमार याव सहस्सार त्ति णिरयभंगो । आणद याव उवरिमगेवज्जात्ति-आयुग-वज्जाणं तेरसणं पगदीणं जहणिया बंधगद्धा सरिसा थोवा । आयु० जहणिया बंधगद्धा संखे० गुणा । उक्क० बंधग० संखे० गुणा । उचागो० उक्क० बंधग० संखे० गुणा । पुरिसवे० उक्क० बंधग० संखे० गुणा । इत्थिवे० उक्क० बंधग० संखे० गुणा । साद० हस्स-रदि-जस० उक्कस्सिया बंधगद्धा विसेसा० । णवुंसवे० उक्क० बंधग० संखे० गुणा । असाद-अरदि-सो० अज्ज० उक्क० बंधग० विसेसा० । णीचागो० उक्क० बंधग० संखे० गुणा । अणुदिस याव सव्वट्टत्ति-आयुगवज्जाणं अट्टणं पगदीणं जहणिया बंधगद्धा सरिसा थोवा । आयुग० जह० बंधगद्धा संखेज्जगुणा । उक्क० बंधग० संखे० गुणा । साद-हस्सरदि-जस० उक्क० बंधग० संखे० गुणा । असाद-अरदि-सो० अज्जस० उक्क० बंधगद्धा संखे० गुणा ।

विशेषाधिक है । तिर्यचगतिके बन्धकोंका उत्कृष्ट काल विशेषाधिक है । नीच गोत्रके बन्धकोंका उत्कृष्ट काल विशेषाधिक है ।

सर्व अपर्याप्तक त्रसों, सर्व एकेन्द्रिय, सर्व विकलेन्द्रिय, सर्व पृथ्वीकाय-अपकाय तथा वनस्पतिनिगोदोंका इसी प्रकार भंग जानना चाहिए ।

३५७. देवोंमें—भवनवासियोंसे ईशान पर्यन्त पंचेन्द्रिय-तिर्यच अपर्याप्तकोंके समान भंग है । सनत्कुमारसे सहस्वारपर्यन्त नरकगतिके समान भंग है । आनतसे उपरिम त्रैवेयक पर्यन्त आयुको छोड़कर १३ प्रकृतियोंके बन्धकोंका जघन्य काल समान रूपसे स्तोत्र है ।

विशेष—आनतादि स्वर्गोंमें केवल मनुष्यगतिका बन्ध होता है । अतः परिवर्तमान १७ प्रकृतियोंमें-से गतिचतुष्क घटा ली गयी । इस प्रकार १३ प्रकृतियाँ शेष रहीं ।

मनुष्यायुके बन्धकोंका जघन्य काल संख्यातगुणा है । उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । उच्चगोत्रके बन्धकोंका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । पुरुषवेदके बन्धकोंका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । स्त्रीवेदके बन्धकोंका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । साता, हास्य, रति, यशः-कीर्तिके बन्धकोंका उत्कृष्ट काल विशेषाधिक है । नपुंसकवेदके बन्धकोंका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । असाता, अरति, शोक, अयशःकीर्तिके बन्धकोंका उत्कृष्ट काल विशेषाधिक है । नीचगोत्रके बन्धकोंका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है ।

अनुदिशसे सर्वार्थसिद्धि पर्यन्त आयुको छोड़कर आठ प्रकृतियोंके बन्धकोंका जघन्य काल समान रूपसे स्तोत्र है ।

विशेष—अनुदिशादि स्वर्गोंमें सम्यग्दृष्टि जीव ही होते हैं । उनके नीच गोत्र, स्त्रीवेद तथा नपुंसकवेदका बन्ध नहीं होता है । अतः गोत्रद्वय तथा तीन वेदनिमित्तक परिवर्तन न होनेसे आनतादिकी १३ प्रकृतियोंमें-से ५ प्रकृतियाँ घटानेपर ८ प्रकृतियाँ शेष रहती हैं ।

मनुष्यायुके बन्धकोंका जघन्य काल संख्यातगुणा है । उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । साता, हास्य, रति, यशःकीर्तिके बन्धकोंका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । असाता, अरति, शोक, अयशःकीर्तिके बन्धकोंका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है ।

३५८. तेउ० वाउ०—आयुगवज्जाणं एककारसण्णं पगदीणं जहणिया बंधगद्धा सरिसा थोवा । आयु० जहणिया बंधगद्धा संखे० गुणा । [उक्क० बंधग० संखे० गुणा ।] पुरिसवे० उक्क० बंधगद्धा संखे० गुणा । इत्थिवे० उक्कस्सि० बंधग० संखे० गुणा । साद-हस्स-रदि-जस० उक्क० बंधग० संखे० गुणा । असाद-अरदि-सो० अजस० उक्क० बंधगद्धा संखे० गुणा । णवुंस० उक्क० बंधगद्धा विसेसा० । पंचमण० पंच-वचि० वेउन्वि० वेउन्वियमि० आहार० आहारमि० कम्मइग० अवगदवे० कोधादि०४ सासण० सम्मामि० त्ति साधेदूण णेदव्वं । णवरि कोधा०४ कसायाणं साधेदूण णेदव्वं । कसायकालो थोवो । उक्क० बंधगद्धा संखे० गुणा । ओरालि० ओरालिमि० पंचिंदिय-तिरिक्ख-अपज्जत्तभंगो । विभंगे—णिरयभंगो । आभि० सुद० ओधि० आयुग-वज्जाणं अङ्कणं पगदीणं जहणिया बंधगद्धा सरिसा थोवा । आयु० जह० बंधगद्धा संखे० गुणा । उक्क० बंधगद्धा संखे० गुणा । साद-हस्स-रदि-जस० उक्क० बंधग०

३५८. तेजकाय, वायुकायमें—आयुको छोड़कर ११ प्रकृतियोंके बन्धकोंका जघन्य काल समान रूपसे स्तोक है ।

विशेष—अनुदिशमन्वन्धी पूर्वोक्त आठ प्रकृतियोंमें अर्थात् हास्य, रति, अरति, शोक, यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति, साता, असातामें वेदत्रयको जोड़नेसे ११ प्रकृतियाँ होती हैं। यहाँ वेद-त्रयका बन्ध होनेसे परिवर्तमान प्रकृतियोंमें उनको परिगणित किया है ।

तिर्यचायुके बन्धकोंका जघन्य काल संख्यातगुणा है । [उत्कृष्ट बन्धकाल संख्यातगुणा है ।] पुरुषवेदके बन्धकोंका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । स्त्रीवेदके बन्धकोंका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । साता, हास्य, रति, यशःकीर्तिके बन्धकोंका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । असाता, अरति, शोक, अयशःकीर्तिके बन्धकोंका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । नपुंसकवेदके बन्धकोंका उत्कृष्ट काल विशेषाधिक है ।

५ मनोयोगी, ५ वचनयोगी, वैक्रियिककाययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारक-आहारकमिश्रयोगी, कर्मणकाययोगी, अपगतवेद, क्रोधादि चार कषाय, सासादनसम्यक्त्वी, सम्यक्मिथ्यात्वीमें परिवर्तमान प्रकृतियोंके बन्धकोंका बन्धकाल निकालकर जान लेना चाहिए । विशेष-क्रोधादि चार कषायोंमें विचार करके भंग जानना चाहिए । कषायका काल स्तोक है । बन्धकोंका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है ।

औदारिक तथा औदारिकमिश्रकाययोगके—पंचेन्द्रिय तिर्यच तथा अपर्याप्तके समान भंग हैं ।

विभंगावधिमें—नरकगतिके समान भंग है अर्थात् वहाँ १५ प्रकृतियाँ हैं । आभिनि-बोधिक-ज्ञान, अवधिज्ञानमें—आयुको छोड़कर शेष ८ प्रकृतियोंके बन्धकोंका जघन्य काल समान रूपसे स्तोक है ।

विशेष—यहाँ साता, हास्य, रति, अरति, शोक, असाता, यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति ये ८ परिवर्तमान प्रकृतियाँ हैं ।

आयुके बन्धकोंका जघन्य काल संख्यातगुणा है । उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है ।

संखे० गुणा । असाद-अरदि-सोग० अज्ज० उकस्सिया बंधगद्धा संखे० गुणा । एवं मणपज्जव० । णवरि दो-आयुगाणं भाणिदव्वं(व्वे) एकं चैव भाणिदव्वं ।

३५६. संजदा-सामाह० छेदो० परिहार० संजदासंजद० मणपज्जव० भंगो । ओधिदं० ओधिणाणिभंगो ।

३६०. किण्णणीलकाउलेस्सि० गिरयभंगो । तेउ०-देवोघं । पम्म०-सहस्सार-भंगो । सुकले०-आणदभंगो ।

३६१. सम्मादिट्ठी-खइग० वेदग० उवसम० ओधिणाणि-भंगो । णवरि उवसम० आयुगाणं णत्थि अप्पाबहुगं ।

३६२. आहारानुवादेण-आहारा मूलोघं । अणाहारा-कम्म (?) कम्मइ० का-जोगि-भंगो ।

एवं परत्थाण-अद्धा-अप्पाबहुगं समत्तं ।

एवं पगदिबन्धो समत्तो ।

साता, हास्य, रति, यशःकीर्तिके बन्धकोंका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । असाता, अरति, शोक, अयशःकीर्तिके बन्धकोंका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । मनःपर्ययज्ञानमें—इसी प्रकार जानना चाहिए । विशेष, यहाँ बन्धकोंमें दो आयुके स्थानमें एक देवायुका ही बन्ध कहना चाहिए ।

३५६. संयत, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि तथा संयतासंयतोंमें—मनःपर्ययवत् भंग है ।

अवधिदर्शनमें—अवधिज्ञानका भंग है ।

३६०. कृष्ण-नील-कापीत लेइयामें—नरकगतिके समान भंग है । तेजोलेइयामें—देवोंके ओघवत् है । पद्मलेइयामें—सहस्वार स्वर्गके समान भंग है । शुक्ललेइयामें—आनत-स्वर्गका भंग है ।

३६१. सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि, उपशमसम्यग्दृष्टिमें—अवधि-ज्ञानके समान भंग है । विशेष, उपशमसम्यक्त्वमें आयुकृत अल्पबहुत्व नहीं है ।

विशेष—सम्यग्दृष्टिके मनुष्य अथवा देवायुका ही बन्ध होता है, उपशम सम्यक्त्वमें—इन दोनोंका ही बन्ध नहीं होता है ।

३६२. आहारानुवादसे—आहारकोंमें मूलके ओघवत् जानना चाहिए । अनाहारकमें—कार्मण काययोगवत् जानना चाहिए ।

इस प्रकार परस्थान-अद्धा-अल्पबहुत्व समाप्त हुआ ।

इस प्रकार प्रकृतिबन्ध समाप्त हुआ ।

१. "णवरि य सञ्जुवसम्मे णरसुरआऊणि णत्थि णियमेण ।"—गो० क०, गा० १२० ।

